


अनुक्रमणिका,

द्वितीय भाग.

(महाराणा रत्नसिंहसे महाराणा जयसिंहके अखीर तक).



विषय.	पृष्ठांक.	विषय.	पृष्ठांक.
महाराणा रत्नसिंह, प्रथम प्रकरण - १ - २४.		देवगढ़ बारियाका राज्य ४२ - ०	
भूमिका	० - ०	बरार (आसीरके फारूकी बादशाहोंका हाल)	४४ - ५४
मीराबाईका हाल	१ - २	शेष संग्रह	५५ - ६०
महाराणाकी गद्दी नशीनी	२ - ३	महाराणा उदयसिंह, तृतीय प्रकरण - ६१ - १४४.	
महाराणाकी मालवेपर चढ़ाई, और विक्रमादित्य व उदयसिंहको रण- थम्भोरकी जागीर मिलनेका बखेड़ा.	३ - ७	महाराणाकी गद्दी नशीनी, और बनवीरका खारिज होना	६१ - ६४
महाराणाका देहान्त	७ - ८	शिरोहीके राव रायसिंहके मारे- जाने बाद उसके बेटे उदयसिंह और दूदा देवड़ाके लड़के मान- सिंहकी तक्रार, और मेदा सांखला को ताणेकी जागीर मिलना	६५ - ६६
मांडूकी बादशाहत	८ - १५	जोधपुरके राव मालदेवका महा- राणासे विगाड़, और भारमल्ल कावज्याको एक लाखकी जागीर मिलना	६७ - ६८
बादशाह बाबरका खानदान	१५ - २३	हाड़ा सुल्तान खारिज किया- जाकर बूंदीका राज्य राव सुर्जन को मिलना	६९ - ७०
प्रकरण सारांश कविता	२४ - ०	हाजीखां पठानकी लड़ाई	७० - ७२
महाराणा विक्रमादित्य, द्वितीय प्रकरण - २५ - ६०.		उदयपुरका बसना, और तालाब उदयसागरका बनना	७२ - ७३
महाराणाकी गद्दी नशीनी	२५ - २६	बादशाह अक्बरका चित्तौड़ लेना	७३ - ८३
बहादुरशाहकी चित्तौड़पर पहिली व दूसरी चढ़ाई	२६ - ३१	अक्बरका रणथम्भोरको जीतना,	
बहादुरशाह व हुमायूँकी लड़ाई	३१ - ३२		
महाराणाका चित्तौड़पर पीछा कब- जह होना	३२ - ३३		
बनवीरका उपद्रव, और महाराणा का देहान्त	३३ - ३४		
गुजरातकी बादशाहत	३४ - ५४		
छोटा उदयपुर	४१ - ०		

विषय.	पृष्ठांक.
और महाराणाका देहान्त	८३-८६
महाराणाका सन्तान और उनके	
राज्यका विस्तार	८६-८७
राज पीपलाकी तवारीख	८७-९१
भावनगरकी तवारीख	९१-९४
पालीताणाकी तवारीख	९४-९५
बलाकी तवारीख	९५-९६
लाठीकी तवारीख	९६-०
गोहिलवाड़ेकी छोटी रियासतें	९७-१००
बूंदीका इतिहास	१००-१२६
जुग्राफ़ियह	१००-१०१
अव्वल नम्बर चाहमानसे	
लेकर देवसिंह तक १८१	
राजाओंकी वंशावली	१०१-१०५
उक्त वंशके नामोंमें फेरफार	१०५-१०६
देवसिंहका मीनोंको मारकर	
बूंदीमें कबज़ह करना, और	
वर्त्तमान समय तकके	
राजाओंकी तवारीख	१०६-१२०
बूंदीके अह्दनामे	१२१-१२६
बादशाह हुमायूं	१२६-१३५
फ़रीदख़ां-शेरशाह सूर	१३५-१३८
जलालख़ां इस्लामख़ां, सलीम-	
शाह सूर	१३८-१४०
मुबारिज़ख़ां मुहम्मदशाह अदली	१४०-१४२
शेष संग्रह	१४२-१४४

महाराणा प्रतापसिंह,

चतुर्थ प्रकरण - १४५ - २१४.

महाराणाकी गद्दी नशीनी, और
जगमालका ख़ारिज होना, और
कुंवर मानसिंहका डूंगरपुर फ़तह
करना

१४५-१४६

विषय.	पृष्ठांक.
आंबेरके कुंवर मानसिंहसे महा-	
राणाका विरोध	१४६-१४९
राजा भगवानदासका महाराणासे	
मिलना	१४९-१५०
हल्दी घाटीकी लड़ाई	१५०-१५५
बादशाह अकबरकी मेवाड़पर	
चढ़ाई	१५५-१५६
शाहबाज़ख़ांका कुम्भलगढ़ लेना	१५६-१५७
महाराणाका किले कुम्भलगढ़पर	
क़बज़ह	१५८-१५९
बादशाह अकबरकी तरफ़से शाह-	
बाज़ख़ां और राजा जगन्नाथ कछ-	
वाहेका मेवाड़पर फ़ौज लेकर आना	१५९-०
महाराणाके भाई जगमाल व शिरो-	
हीका हाल, जगमालको शिरोही	
मिलना, और राव सुल्तानके साथ	
जगमालका लड़ाईमें माराजाना	१६०-१६३
महाराणाका मेवाड़के शाही थानों	
पर हमलह	१६३-१६४
महाराणाका देहान्त, और उनकी	
सन्तान	१६४-१६५
अकबर बादशाहका हाल मए बयान	
माही मरातिब व मन्सब वगैरह	१६५-२०४
शेष संग्रह (अकबरके जन्म दिनमें	
तारीख़ी फ़र्क)	२०४-२१४

महाराणा अमरसिंह अव्वल,

पञ्चम प्रकरण - २१५ - २६८.

महाराणाकी गद्दी नशीनी, और
महाराणा प्रतापसिंहके देहान्तपर
बादशाह अकबरका शोक
बादशाह अकबरकी मेवाड़पर चढ़ाई,
और महाराणाका बादशाही थानों

२१५-२१६

विषय.	पृष्ठांक.	विषय.	पृष्ठांक.
पर हमलह	२१६-२१८	सगरको रावत्का खिताब और	
बांसवाड़ेके रावल उग्रसेन और		ऊमरी भदौराकी जागीर मिलना	२५२-०
शाहखुकी लड़ाई	२१८-०	रावत् मेघसिंह चूडावत व नरसिंह-	
महाराणाके भाई सगरका नाराज		दासकी बाबत् बादशाही फ़र्मान	२५३-२६४
होकर आबिर व दिल्ली जाना, और		कुंवर कर्णसिंहका दिल्ली जाना, और	
बादशाहकी तरफसे राणाका खिताब		शाहजादह खुर्रमका उदयपुरमें	
और चित्तौड़का राज्य पाना	२१८-२२३	आना	२६५-०
महाराणाका मेवाड़के पहाड़ोंमें शाही		रावत् मेघसिंह और शक्तावतोंमें	
थानोंपर हमलह	२२३-२२६	बखेड़ा, और महाराणाका देहान्त	२६६-२६७
कुंवर कर्णसिंह और अब्दुल्लाहखाँकी		शेष संग्रह	२६७-२६८
लड़ाई, और पंजाबके राजा बासूका			
मेवाड़में आना	२२६-२२७	महाराणा कर्णसिंह,	
बहादुर राजपूतोंकी तकलीफ़	२२८-२२९	षष्ठ प्रकरण-२६९-३१४.	
शाहजादह खुर्रमकी मेवाड़पर चढ़ाई,		महाराणाकी गद्दी नशीनी और	
और थानाबन्दी	२२९-२३१	उनका राज्य प्रबन्ध वगैरह	२६९-२७०
बादशाही फ़ौजका जोर	२३१-२३२	शाहजादह खुर्रमका उदयपुरमें	
झाला शत्रुशाल और कल्याणकी		रहना	२७०-२७३
बहादुरी	२३२-२३४	नूरजहाँ बेगमका हाल	२७३-२७६
महाराणा और खानखानामें पत्र		ईरानके शाह अब्बासका खत	
व्यवहार	२३४-२३५	जहांगीरके नाम	२७६-२७९
बादशाहसे सुलह करनेकी सलाह	२३५-२३६	जहांगीर बादशाहका जवाबी खत	
महाराणाके नाम जहांगीरका सुलह-		शाह अब्बासके नाम	२७९-२८१
की बाबत् फ़र्मान भेजना	२३६-२३७	शाहजादह खुर्रमकी बगावत, और	
शाहजादह खुर्रमसे महाराणाकी		महाराजा भीमकी दिलेरी व क़त्ल	२८१-२८९
मुलाक़ात, और कुंवर कर्णसिंहका		महाराणाका देहान्त	२९०-०
जहांगीरके पास अजमेर जाना	२३७-२३९	जहांगीर बादशाहका हाल	२९१-३११
जहांगीर बादशाहका फ़र्मान कुंवर		शेष संग्रह	३११-३१४
कर्णसिंहकी जागीरकी बाबत्	२३९-२४९		
बादशाह और कुंवर कर्णसिंहका		महाराणा जगत्सिंह अब्बल,	
वर्ताव	२५०-०	सप्तम प्रकरण-३१५-४००.	
कुंवर कर्णसिंहका उदयपुरमें वापस		महाराणाकी गद्दी नशीनी व चारण	
आना, और भामाशाह व उसके		खेमराजकी खैरख्वाही	३१५-३१८
बेटोंका हाल	२५१-२५२		

विषय.	पृष्ठांक.
देवलियाके रावल जशवन्तसिंहकी सर्कशी, और जशवन्तसिंहका अपने बेटे महासिंह सहित माराजाना	३१८-३१९
डूंगरपुरके रावल पूजापर चढाई, सिरोहीके राव अक्षयराजकी सर्कशी, और सिरोहीपर महाराणाकी फौज-कशी	३१९-३२०
महाराणाका बांसवाड़ाके रावल पर जुर्माना करना, और झाला राज कल्याणको दिखी भेजना वगैरह	३२१-३२३
शाहजहाँका अजमेर आना, और कुंवर राजसिंहका बादशाहके पास जाना	३२३-३२५
बड्डू राठौड़का हाल	३२५-३२६
महाराणाका उँकारनाथकी यात्राको जाना, और उदयपुरमें जगन्नाथ-रायजीका मन्दिर बनवाना	३२६-०
महाराणाका देहान्त; और उनके दान पुण्य करने तथा मकानात वगैरह बनवानेका हाल	३२७-३२८
शाहजहाँ बादशाहका तवारीखी हाल	३२८-३८०
शेष संग्रह	३८०-४००

महाराणा राजसिंह अब्दुल,
अष्टम प्रकरण - ४०१ - ६४४.

महाराणाकी गद्दी नशीनी, और बादशाही फौजका चित्तौड़में आकर किलेको बर्बाद करना	४०१-४०२
मुन्शी चन्द्रभानका उदयपुर आना, महाराणाके मोतमदोंका बादशाह शाहजहाँके पास जाना, और मुन्शी चन्द्रभानकी अर्जियां शाहजहाँके	

विषय.	पृष्ठांक.
नाम	४०३-४१२
कुंवर सुल्तानसिंहका बादशाहके पास जाना, चित्तौड़के नुकसानसे महाराणाका बादशाहके साथ विरोध, और अजमेरके शाही पर्गनोंमें महाराणाका लूटमार करना	४१२-४१५
महाराणा और औरंगजेबका पत्र-व्यवहार, और महाराणाके नाम औरंगजेबके निशान	४१५-४२४
कुंवर सुल्तानसिंहका औरंगजेबके पास जाना	४२४-४२५
आलमगीर (औरंगजेब) का फ़र्मान	४२५-४३२
दाराशिकोहका निशान	४३२-४३३
बागड़पर महाराणाकी फौजी चढाई, महाराणाका पहाड़ी दौरा, और आलमगीरके लिये एक हाथी व हथनी भेजना	४३४-४३५
महाराणाका आलमगीरसे बिगाड़	४३७-४३८
चारुमतीबाईका हाल	४३८-४३९
देवलियाकी बाबत आलमगीरके नाम महाराणाकी अर्जी	४३९-४४२
महाराणाकी जोधपुर वालोंसे तक्रार	४४३-४४४
राजसमुद्र तालाबका खात मुहूर्त्त, और महाराणाकी सरत कारवाइयां	४४४-४४६
महाराणाका मुल्की इन्तिजाम, और बांधूमें विवाह	४४६-४४७
जनासागर, रंगसागर और राजसमुद्र तालाबोंका बनकर तय्यार होना, राजसमुद्रकी प्रतिष्ठा, और राजनगरकी आबादी	४४७-४५२
श्रीनाथजीका मेवाड़में पधारना	४५२-४५३
चूडावतों और चहुवानोंका बखेड़ा	४५३-४५४

विषय.	पृष्ठांक.
आलमगीरका तअस्तुब, और महाराणाके नाम आलमगीरका फ़र्मान	४५४ - ४५८
कुंवर जयसिंहका आलमगीरके पास अजमेर जाना, और बादशाहकी तरफसे जिज़्यहकी लागत जारी होना	४५९ - ४६०
जिज़्यहकी बाबत महाराणाकी अर्जी	४६० - ४६३
आलमगीरकी मेवाड़पर चढ़ाई, और महाराणासे लड़ाई	४६३ - ४७३
महाराणाका इन्तिकाल	४७३ - ४७४
महाराणाकी औलाद व राणियोंका हाल, और महाराणाकी बनाई हुई इमारतें वगैरह	४७४ - ४७६
बीकानेरकी तवारीख	४७७ - ५२०
जुग्राफ़ियह	४७७ - ४७८
राव बीका, नरा और लूणकरणका हाल	४७८ - ४८२
राव जैतसी, कल्याणसिंह और रायसिंहका हाल	४८२ - ४८८
राव दलपत, सूरसिंह व कर्णसिंहका हाल	४८८ - ४९९
महाराजा अनोपसिंह, स्वरूपसिंह व सुजानसिंहका हाल	४९९ - ५०१
महाराजा जोरावरसिंह, गजसिंह, राजसिंह व सूरतसिंह	५०२ - ५१०
महाराजा रत्नसिंह, सर्दारसिंह व डूंगरसिंह	५१० - ५१४
गवर्मेण्ट अंग्रेज़ीके साथ अह्दनामे	५१४ - ५२०
कृष्णगढ़की तवारीख	५२० - ५५१
जुग्राफ़ियह	५२० - ५२२

विषय.	पृष्ठांक.
कृष्णसिंहसे लेकर हरीसिंह तक चार राजाओंका हाल	५२२ - ५२६
महाराजा रूपसिंह	५२६ - ५२८
महाराजा मानसिंह व राजसिंह	५२८ - ५३०
महाराजा सामन्तसिंह, सर्दारसिंह व बहादुरसिंह	५३० - ५३३
महाराजा बिड़दसिंह व प्रतापसिंह	५३३ - ५३४
महाराजा कल्याणसिंह व मुहकमसिंह	५३४ - ५३७
महाराजा पृथ्वीसिंह मण्डल महता कृष्णसिंह	५३७ - ५४१
महाराजा शार्दूलसिंह मण्डल फ़ह्तगढ़	५४१ - ५४७
गवर्मेण्ट अंग्रेज़ीके साथ अह्दनामे	५४७ - ५५१
रीवां (बांधूगढ़) की तवारीख	५५१ - ५७७
तवारीखी हालात	५५१ - ५६२
गवर्मेण्ट अंग्रेज़ीके साथ अह्दनामे	५६२ - ५७७
शेषसंग्रह	५७७ - ६४४
महाराणा जयसिंह, नवां प्रकरण	६४५ - ७२८
महाराणाकी ग़द्दी नशीनी	६४५ - ०
शाहज़ादह अक्बरका बादशाह आलमगीरसे बागी होना और डरकर भागना, अक्बरके साथियों को सज़ा मिलना, और शाहज़ादह आजमका महाराणाके पास मुलहका पैग़ाम भेजना	६४६ - ६५०
महाराणाकी तरफसे सर्दारोंका	

विषय.	पृष्ठांक.	विषय.	पृष्ठांक.
बादशाहके पास जाना और सुलह की बात चीत करनी, शाहजादह मुहम्मद मुअज्जिदकी निश्चयन, और दिलेरखाका खत महाराणाके नाम	६५१ - ६५५	शराब पीनेके सबब महाराज-कुमारकी महाराणासे नाइतिफाकी, और घाणेराव ठाकुरकी मारिफत सुलहकी शर्ते होकर महाराजकुमार का महाराणाके पास हाजिर होना	६७३ - ६७८
महाराणाकी शाहजादहसे मुलाकात, और सुलहकी शर्ते वगैरह	६५५ - ६६३	रावत कांधल और राव केसरीसिंह का माराजाना	६७८ - ६८०
महाराणा और उनके भाई भीमसिंहका हाल	६६३ - ६६४	महाराजकुमारके खत असदखाके नाम	६८० - ६८१
बादशाहकी दक्षिणको खानगी, और शाहजादह आजमका महाराणाके नाम निशान	६६४ - ६६६	भीमसिंहकी औलाद, महाराणा की राजकुमारियोंका विवाह, और महाराणाका देहान्त	६८१ - ६८३
तालाव जयसमुद्रका बनना	६६७ - ६७०	आलमगीर बादशाहका हाल	६८३ - ७२७
आलमगीरका फ़र्मान	६७० - ६७२	प्रकरण सारांश कविता	७२८ - ०





जी :

वीर विनोद.

महाराणा रत्नसिंह.

प्रथम प्रकरण.

राजयन्त्रालय—उदयपुर.

पूरुवजवीरवनोदप्रकाश सज्जनमनोरविंदस्थान् ॥ विकिरन् परागपुंजान् जयति श्रीमान् फतेसिंह ॥

सम्बत् १९४३ मित्रवासर — चैत्रशुक्ल १५ —



भूमिका.

इस इतिहासके विभाग करनेका इसतरह विचार कियाथा कि जब अकबर बादशाहने, विक्रमी संवत् * १६२४ चैत्र कृष्ण ११ (= हिजरी ९७५ तारीख २५ शाबान = ईसवी १५६८ तारीख २४ फेब्रुअरी) को, चित्तौड़का किला फ़तह किया; उस समयसे वर्तमान समय तकका हाल इस में लिखा जावे; परन्तु देखा गया तो महाराणा उदयसिंहके पिछले चार वर्षका हाल इस भागमें, और पूर्व वृत्तान्त अन्यमें रहने लगा; इससे पढ़ने-वालोंके मनको पूरा संतोष न होगा यह सोचकर, महाराणा (संग्रामसिंह) सांगाके अंत समय विक्रमी १५८४ (हिजरी ९३४ = ईसवी १५२७) तक का हाल पूर्व भागमें, और महाराणा रत्नसिंहके राज्याभिषेकसे लेकर वर्तमान समय तक का इसमें हो, ऐसा निश्चय कियागया; क्योंकि, रत्नसिंह, विक्रमादित्य और उदयसिंहका इतिहास मिलाहुआ है—

यह मेरी राय श्रीमन्महाराणा श्री फ़तहसिंहजी की सेवामें प्रगट कीगई तो श्री महाराणाजी ने भी अपनी आज्ञासे मेरी संमतिको सहायता दी—और कर्नेल सी. के. एम. वॉल्टरसाहब बहादुर रेजिडेन्ट मेवाड़की भी संमति मेरे अनुकूल हुई—तब मैंने अपनी कचहरीके आलिम, मेरे मित्र मौलवी अब्दुलगनीखां, व मौलवी उबैदुल्लाफ़रहती और बाबू रामप्रसाद, तथा अहलकार लोग, लाला सोहनलाल, दसोरादुर्लभराम आदि से सलाह ली; उन लोगोंने भी महाराणा सांगाके पीछेका इतिहास इस जिल्द में होनाही ठीक कहा; इसलिये यह भाग महाराणा रत्नसिंहके राज्याभिषेकसे प्रारंभ किया है—

ग्रंथकर्ता.

* कितने स्थलों में हिजरी सन् परसे ईसवी व विक्रमी गणित क्रमागत मिलायेहैं, और कितने उसके उलटे विक्रमी वा ईसवी परसे परस्पर मिला लियेहैं. इस विषयमें जो परिश्रम कियाहै तदनुसार परस्पर तिथितारीखों में अंतर बहुत न्यून होगा, परंतु इतना ध्यान रक्खा है कि इनमें विशेष समता ही रहै—राजपूतानेमें संवत् का आरंभ श्रावण, भाद्रपद, कार्तिक आदि से भी होता है—पर इस ग्रंथ में चैत्र माससे ही लिखाहै—

वीर विनोद,—मेवाड़का इतिहास.

वीर विनोद.

—(०) ❖ ❖ ❖ (०)—

महाराणा रत्नसिंह.

—❖—

महाराणा सांगा (संग्रामसिंह) के सात पुत्र हुए— १ पूर्णमल्ल, २ भोजराज, ३ पर्वतसिंह, ४ रत्नसिंह, ५ विक्रमादित्य, ६ कृष्णसिंह और ७ उदयसिंह. १ पूर्णमल्ल २ भोजराज ३ पर्वतसिंह और ६ कृष्णसिंह—चार तो महाराणा सांगाके सामने ही परलोक सिधारे. इनमेंसे २ भोजराज, जो सोलंखी रायमल्लकी बेटीके गर्भसे जन्मेथे, उनका विवाह, मेड़तेके (१) रावदूदा जोधावतके पांचवेंबेटे, रत्नसिंहकी बेटी, मीरांबाईके (२) साथ हुआथा. मीरांबाई बड़ी धार्मिक और साधुसंतोंका सन्मान करनेवाली थी. यह विरागके गीत बनाती और गाती, इससे उसका नाम अबतक बहुत प्रसिद्ध है.

(१) मेड़ता— जोधपुरके राज्यमें एक क़सबा है जिसके नामसे एक परगना “मेड़ताकी पट्टी” कहाताहै.

(२) कर्नेल टॉड साहब, मीरांबाईको महाराणा कुंभाकी राणी लिखतेहैं; परंतु यह बात ठीक नहींहै. क्योंकि रावजोधाने विक्रमी १५१५ [= हि० ८६२ = ई० १४५८] में जोधपुर बसाया. विक्रमी १५२५ [= हि० ८७२ = ई० १४६८] में महाराणा कुंभाका देहांत हुआ. विक्रमी १५४२ [= हिजरी ८९० = ई० १४८५] में रावदूदा जोधावत को मेड़ता (झामा देवके वरदानसे) मिला. विक्रमी १५८४ [= हि० ९३३ = ई० १५२७] में महाराणा सांगा और बाबर बादशाहकी लड़ाई में, दूदाके दो बेटे वीरमदेव और रत्नसिंह (मीरांबाईका पिता) मारेगये, और वीरमदेवका बेटा जयमल्ल विक्रमी १६२४ [= हि० ९७५ = ई० १५६८] में चित्तौड़पर अकबरकी लड़ाईमें मारागया.

१—सोचना चाहियेकि महाराणा कुंभाके वक्त दूदाको मेड़ता ही नहीं मिला था; फिर दूदाकी पोती मीरांबाई मेड़तणी कुंभाकी राणी किस तरह होसकी है ? —

२—महाराणा कुंभाके देहांतसे ५९ वर्ष पीछे बाबर और महाराणा सांगा की लड़ाईमें मीरांबाईका बाप रत्नसिंह मारागया; तो महाराणा कुंभाके वक्तमें (टॉड साहबका लिखना ठीक समझा जाय तो) रत्नसिंह की अवस्था चालीस वर्षसे कम नहोगी; इस हिसाबसे मारे जानेके वक्त सौवर्षके आसरे होनी चाहिये; और इतनी उमरके आदमीका बहादुरीके साथ लड़ाईमें माराजाना असंभव है—

महाराणा सांगाके देहांतके समय सात मेंसे तीनपुत्र—रत्नसिंह, विक्रमादित्य और उदयसिंह— बाकीरहे. इनमेंसे बड़े रत्नसिंह गादी विरांजे, और छोटे विक्रमादित्य और उदयसिंह रणथंभोरके * मालिक बने.

इनको रणथंभोरकी मालिकी मिलनेका कारण यहहै, कि बूंदीके राव भांडाके दूसरे बेटे नरबदकी बेटी कर्मवती बाई, महाराणा सांगाको व्याही गईथी. उसके गर्भ से विक्रमादित्य और उदयसिंह हुए. महाराणा सांगा महाराणी हाड़ी कर्मवती से अधिक प्रसन्नथे.

एकदिन महाराणी हाड़िने महाराणासे प्रार्थनाकी कि मेरे दोनोंबेटोंके लिये आप केहाथसे जागीर न मिलेगी तो पीछे रत्नसिंह इनको दुखदेंगे. तब महाराणा सांगा ने कहाकि जो जागीर तुम मांगो वही तुम्हारे बेटोंकेलिये दीजावे. इसपर राणीने रणथंभोरके वास्ते अर्ज की और वह महाराणाको मंजूर हुई. फिर दुबारा महाराणी हाड़िने कहा कि यदि आपने मेरी विनती स्वीकार की, तो विक्रमादित्य, मेरेभाई सूर्यमल्ल को सौंपा जाय कि वह इनकी सम्हाल रक्खे. महाराणाने राणीकी प्रार्थनाके अनुसार आज्ञादी; परन्तु सूर्यमल्लने कहा कि मुझे इस आज्ञाके पूरा करनेमें कदाचित् आपके अनन्तर रत्नसिंहसे सामना करना न पड़े, इसलिये रत्नसिंहकी भी इसमें सलाह लेनी जरूर है. तब महाराणा सांगाने महाराजकुमार रत्नसिंहको बुलाकर इन विषयमें पूछा; रत्नसिंहने ऊपरी दिलसे सूर्यमल्लको अनुमति दी. इस तरह पक्का बंधन बस्त होनेपर सूर्यमल्लने भी महाराणाकी आज्ञा का पालन करना स्वीकार किया.

३—महाराणा कुंभासे १०० वर्ष पीछे मीरांबाईके चचेरे भाई जयमल्लका मारा जाना लिखाहै; इस हालतमें जयमल्ल की बहन मीरांबाई कुंभाकी राणी किसतरह समझी जावे ?

४—मीरांबाई महाराणा विक्रमादित्य व उदयसिंह के समयतक जीती रही, और महाराणाने उसको जो जो दुखदिया वह उसकी कवितामें स्पष्ट है—

कनेल टॉड साहबने धोखा खायाहै. इसका सबब यह होगा कि महाराणा कुंभाने चित्तौड़गढ़ पर कुंभश्यामजीके नामसे एक मंदिर बनायाथा और उसके पास ही एक दूसरा मंदिर बनाहुआ है, जो मीरांबाई के नामसे मशहूरहै, पर नमालूम कि वह मंदिर मीरांबाई का ही बनायाहुआहै या किसी औरका. शायद इन दोनों मंदिरों के पास पास होने से मीरांबाई महाराणा कुंभाकी स्त्री मानी गई. परंतु हमारे यहां, व मंडलिया राठौड़ोंकी, व जोधपुर की तवारीखोंमें मीरांबाई को भोजराज की राणी लिखाहै.

* रणथंभोर—यह मशहूर किला इस समय जयपुर के राज्यमें है—

महाराणा रत्नसिंह, जो जोधपुरके राव बाघा सूजावतकी बेटाके गर्भसे उत्पन्न हुए, विक्रमी १५८४ कार्तिक शुक्ल ५ (१) [हिजरी ९३४ (*) तारीख ४ सफ़र ईसवी १५२७ तारीख २९ अक्टोबर] को चित्तौड़की गादीपर बैठे.

महाराणा संग्रामसिंहका, बाबरसे हारनेके कुछ दिनों पीछे देहान्त हुआ। यह समाचार सुनकर मांडूका बादशाह महमूद खिलजी बहुत खुश हुआ; और उसने एक सर्दार शर्जाखांको बहुतसी फौज देकर मेवाड़की तरफ़ रवाना किया। शर्जाने महाराणाके मुल्कमें लूट खसोट शुरूकी; यह देखकर महाराणा रत्नसिंहने मालवेकी तरफ़ चढ़ाई की। इसपर महमूद भी महाराणाका सामना करनेको चला और उज्जैन होताहुआ सारंगपुर पहुँचा। वहाँसे मुईनखांको (जिसे सिकंदरखाने अपना बेटा मान कर देवासका मालिक बनायाथा) बुलाकर मसनदआली (बड़े दर्जेवाला) का खिताब और लाल डेरे (जो खास बादशाहोंके होतेहैं) दिये; वैसेही सलहदी (शल्यहती) पूर्वियेको भी रायसेणसे बुलाकर बहुतसे परगने बख्शिकिये, और दोनोंको अपना मददगार बनाना चाहा। परंतु इनको महमूदका पूरा विश्वास न हुआ, इसलिये महाराणासे मेल करके, वे गुजरातके बादशाह बहादुरशाहके पास चलेगये। तब मारे डरके महमूद खिलजी मांडूको लौटगया और महाराणा, उसका मुल्क लूटते हुये चित्तौड़ आते वक्त रास्तेमें बांसवाड़ेकी तरफ़ गुजराती बादशाह बहादुरशाहसे, जिसको मुईनखां और सलहदी, महमूद खिलजीपर चढ़ा लायेथे, मिले। महाराणा चित्तौड़ आये और बहादुरशाहने मांडू (मालवा) की बादशाहत छिनकर गुजरातमें मिलाली।

(१) बाज़े लोग ज्येष्ठमहीने (शाबान = मई) में गादी विराजना लिखतेहैं और बीकानेरका नेणशी महता कार्तिक (सफ़र = अक्टोबर) लिखता है। नेणशी महताने दो सौ वर्ष पहिले दर्याफ्त कर लिखा है, इसलिये हम उसके लेखको विशेष प्रामाणिक समझते हैं—

ऐसा हो सकता है कि गादी तो ज्येष्ठ महीनेमें विराजेहों और गादी उत्सव जो मुहूर्तसे होताहै वह कार्तिकमें हुआ हो।

(*) जहां तिथि वा तारीख़ है वहां हिजरी अथवा ईसवी सन्की मिलानमें यदि अंतर हो तो एकआध दिनसे अधिक नहीं होगा ऐसा पूरा अनुमान और निश्चयहै; और उसी हिसाबसे जहां केवल वर्षका ही अंकहै वहां एक वर्षका अंतर रहेगा; ऐसे ही मासमात्र हो वहां एकमासका न्यूनाधिक भाव होना संभव है। उदाहरणमें भूमिका का हिजरी ९३४ हीसमझो. यह ३३वा३४दोनों विक्रमी १५८४ में आतेहैं.

जब महाराणा सांगाने, बाबर बादशाहसे लड़ाईके लिये चढ़ाईकी, उसवक्त महाराणी हाड़ीको विक्रमादित्य और उदयसिंह समेत रणथंभोरमें रखकर आप आगे बढ़ेथे. महाराणाका देहांत होनेपीछे चित्तौड़पर तो उनके कुंवर रत्नसिंह गादीबैठे, और महाराणी हाड़ी दोनों लड़कोंके साथ सूर्यमल्लकी (१) सम्हालसे रणथंभोरमें रहीं.

रणथंभोरके साथ पचास साठ लाखका मुल्कथा. इतने बड़े देश और मजबूत व नामी किलेका छोटे भाइयोंके हाथमें रहना रत्नसिंहको नहीं भाया; (२) इसी भीतरी आशयसे माजी हाड़ीको किसीतरह चित्तौड़ बुलालेना ठीक समझ, कोठान्याके पूर्विया चहुवाण पूर्णमल्लको उन्हें लेनेके लिये रणथंभोर भेजा और कहलाया कि “आप हमारे सिरपर तीर्थहैं, और विक्रमादित्य व उदयसिंह मेरे भाई हैं; इस लिये उन्हें लेकर आपको यहां पधारना चाहिये;” इसके सिवाय और भी कई बातें पत्रमें लिखभेजीं. पूर्णमल्ल का रणथंभोरमें पहुंचने पर सब तरह शिष्टाचार हुआ. जब उसने जनानी ड्यौढ़ी पर जाकर सबहाल मालूम कराया, तो मा साहबने इस बातको रत्नसिंहका कपट समझ, उत्तरदिया कि “विक्रमादित्य और उदयसिंह अभी बच्चे हैं, और उनकी सम्हाल रखनेके लिये श्रीहुजूर वैकुंठवासीने मेरेभाई सूर्यमल्लको हुक्मदियाहै, सो जाना न जाना उनके आधीन है.” इसके सिवाय रत्नसिंहने महाराणा सांगाका महमूद खिलजीसे लियाहुआ जड़ाऊ ताज और कमरपेटा इन्हींके हाथ मंगवाया, वहभी महाराणी हाड़ीने नहींदिया. पूर्णमल्लने बूंदीमें राव सूर्यमल्लके पास जाकर सारा वृत्तांत कहा. सूर्यमल्लने जवाब दिया कि मैं चित्तौड़ हाज़िर होऊंगा तब सब हाल महाराणासे अर्ज करूंगा. पूर्णमल्ल चित्तौड़ आया और सब बातें महाराणासे निवेदन कीं; जिसपर महाराणा रत्नसिंह, सूर्यमल्लसे बहुत नाराज़ हुए और यह विरोध दिनोंदिन बढ़तागया; क्योंकि पहिले भी रत्नसिंहके गादीनशीन होनेपर टीकेकी रस्ममें सूर्यमल्लकी तरफसे जो एक घोड़ा और हाथी आयाथा, वह पीछा रणथंभोर भेजकर महाराणाने कहलाया कि लाल लश्कर घोड़ा (३) और मेघनाद हाथी, जो श्रीबड़े हुजूरने

(१) सूर्यमल्ल—महाराणी कर्मवती का चचेरा भाईथा; इसका पूरा वृत्तान्त बूंदीके हालमें मिलेगा.

(२) हमारी रायमें महाराणा सांगाने यह काम अपनी नामवरी और बुद्धिमानीके विरुद्ध किया; क्योंकि रणथंभोर को, जुदा अपने छोटे बेटों के स्वाधीन करनेमें राज्यके दोभाग प्रत्यक्ष होचुके. महाराणा रत्नसिंहके देहांत होनेपर यदि विक्रमादित्य गादी न बैठते तो राज्यके बिगाड़में कुछ भी बाकी नहींथा, क्योंकि विक्रमादित्यके रहते भी राज्यमें कई रीतिके नुकसान हुए.

(३) महाराणा सांगाने २०००० रुपये में लाल लश्कर घोड़ा और ६०००० रु० में मेघनाद हाथी खरीदाथा; और वही सूर्यमल्लको, उनके पिता नारायणदासके, बाबरकी लड़ाईमें, मारेजानेपर टीकेमें दियाथा—

तुमको टीकेमें दियाथा, इसवक्त नज़र करना चाहिये. इसपर सूर्यमल्लने उत्तर दिया कि मैं गांवका पटेल नहींहूँ कि घोड़ा हाथी मेरेपास चराई के लिये भेजेंहों, जिन्हें पीछे मंगा-तेहैं ! यह मुझको श्रीहुज़ूर वैकुण्ठवासीके बरूओहुये हैं सो नज़र नहीं करसकता.

फिर बूंदीके रावने सोचा कि महाराणाने घोड़ा हाथी मांगाहै सो कभी नकभी मेरे सर्दार कामदार नज़र करवाकर मेरा हलकापन दिखावेंगे; इस विचारसे वह घोड़ा और हाथी, मीशण गोतके चारण भाणा (१) को उसकी कवितापर खुश होकर देदिया.

भाणा चित्तौड़ आया, तब महाराणाके सामने सूर्यमल्लकी बहुत बड़ाईकी. महाराणाने कहा कि सूर्यमल्लने कौनसी बहादुरी दिखाई और तुमको क्या दिया ? भाणाने बहादुरीके बारे में कहा कि एकदिन सूर्यमल्ल शिकारको गया, तब मैं भी उसके साथ था; जंगलमें सूर्यमल्लके ऊपर दो रीछ आपड़े; पर उस बहादुरने दोनोंका काम एक ही बार कटारियोंसे पूरा किया. दातारिके विषयमें लाल लश्कर घोड़ा और मेघनाद हाथी उससे इनाम मिलनेकी अर्जकी— इसबातके सुननेसे महाराणाको बड़ा-क्रोध हुआ, और भाणाको अपने मुल्कसे चलेजानेका हुक्म दिया. भाणा वहांसे निकलकर बूंदी गया तब सूर्यमल्लने उसका बहुत सत्कार कर कहा कि महाराणाने हमारे ऊपर बड़ी मिहरबानी की, जो ऐसा आदमी मिला. उसी समय सूर्यमल्लने भाणाको हरणा गांव दिया जो अबतक उसके वंशवालोंके अधिकारमें है.

इस रीतिके विरोधसे सूर्यमल्लने सोचा कि अब किसी बड़े सहारे बिना निर्वाह होना कठिनहै. इस विषयमें अपनी बहन महाराणी हाड़ी से सलाह कर, उनकी तरफसे बाबर बादशाहके बड़े बेटे हुमायूँको राखी (२) भेजवाई. यहबात राज-पूतानेमें मशहूरहै. इस बारेमें जो बाबरने अपनी किताब तुज़कबाबरीमें लिखाहै उस का तर्जुमा कलमीकिताबके पत्रे २६५-२६६ और २६८ से कियाजाता है—

पत्रा २६५-२६६, हि० ९३५ तारीख १४ मुहर्रम, मंगलवार [विक्रमी १५८५ आश्विनशुक्ल १५ = ई० १५२८ तारीख ३० सेप्टेम्बर.]

“ तारीख १४ मुहर्रम को राणा सांगाके दूसरे बेटे विक्रमादित्य की तरफसे, जो अपनी मा पद्मावतीके (३) साथ रणथंभोरके किलेमें रहता है, आदमी आये. ग्वालि-

(१) परगने मांडलगढ़ इलाके मेवाड़में रीठ व कोदिया, वगैरह बारह गांव महाराणाके दियेहुये इस की जागीरमें थे और यह बूंदीमें अपने यजमान गौड़ राजपूतोंसे भेगचार लेनेको उस समय वहां गयाथा.

(२) राखी हिंदुओंमें बहन भाईको बांधती है; और जिसके राखी बंधे वह भाई समझा जाताहै—

(३) बाबरने कर्मवतीका नाम भूलसे पद्मावती लिखाहै.—

यह की सैरको खाना होनेसे पहिले अशोक (१) नामके एक हिंदूने, जो विक्रमादित्यका प्रतिष्ठित आदमी है, आकर ताबेदारी और खिदमतगारी जाहिरकी, और अपने गुजरके लिये सत्तर लाखकी जागीर मांगकर, ऐसा इकरार किया कि जब वह रणथंभोर का किला सौंपदे, तो उसकी इच्छानुसार परगने दियेजावें. इसबातका वादा करके हमने रुखसतदी. हम ग्वालियरकी सैरको जातेथे, इस लिये उन आदमियोंको ग्वालियरकी मियाद दी. मियादसे कुछ ज्यादा दिन लगगये. यह अशोक हिंदू विक्रमादित्यकी मा पद्मावतीका नजदीकी रिश्तेदार होताहै. उसने यह हाल मा बेटोंसे जाहिर करदियाहै. उन्होंने भी अशोकसे इतिफाक करके खैरस्वाही और खिदमतगारी कबूल करलीहै. एक ताज और जरीका पटका था. जब सांगाने सुलतान महमूद को जेर किया और वह काफिरकी कैदमें आया, तब यह ताज और जरीका पटका, जो तारीफके लायकथा, लेकर महमूदको छोड़दिया. वही ताज और जरीका पटका विक्रमादित्यके पासथा. उसके बड़ेभाई रतनसीने (*) जो बापकी जगह राजा होकर अब चित्तौड़पर कब्जा रखताहै, ताज और जरीका पटका अपने छोटेभाईसे मांगाथा. इसने नहींदिया. इन आदमियों के साथ जो आयेहैं, ताज और जरीका पटका मुझे देना कहलायाहै. रणथंभोरके बदलेमें बयाना मांगाथा. बयाने की बातसे उनको टालकर रणथंभोरके ऐवजमें शमशाबाद देनेका वादा कियागया. उसी-रोज इनके आयेहुये आदमियोंको खिलअत पहनाकर नौ दिनकी मियादसे बयाने आनेकी रुखसतदी—”

पत्रा २६८ तारीख ५ सफ़र सोमवार [कार्तिक शुक्ल ७ = २१ अक्टोबर.]

“ तारीख ५ सफ़र सोमवारके दिन विक्रमादित्यके अक्वल एलची और पिछले एलचीके साथ पुराने हिंदुओंमेंसे देवाका बेटा बेहरा होसी भेजागया, कि यह रणथंभोर सौंपने, खिदमतगारी कबूल करने और उसके बर्तावके लिये शर्त करे. यह हमारा आदमी जो गयाहै, देखकर, समझकर, यकीन करके आवे और वह अपनी बातोंपर जमा रहे, तो मैंने भी वादा किया—खुदापूराकरे—उसके बापकी जगह राणा करके चित्तौड़में बैठादूंगा—”

(१) यह राव अशोक प्रमार वंशकाथा जिसके वंशमे बीशोल्याके राव गोविंददास अक्वल दर्जे के सर्दारों में इसवक्त पांचवें नंबर पर गिने जाते हैं—

(*) नामोंमें अनेक कारणोंसे (उच्चारण, देश भेद वा अर्थ भेद आदिसे) अपभ्रंश होकर अन्य शब्दोंकी अपेक्षा अधिक बिगाड़ होजातेहैं— जैसे—संग्रामसिंह = सांगा, रत्नसिंह = रतनसी, अरिसिंह = अरसी, अमरसिंह = अमरसी, कुंभकर्ण = कुंभा आदि—

यह सूर्यमल्लकी ही कार्रवाई थी कि इतनी बात होनेपर भी बाबरको रणथंभोर न दिया गया; क्योंकि उस समयके क्षत्री, मुसलमानोंके आधीन रहना चित्तसे नहीं चाहते थे. मालूम होता है कि यह सब काम महाराणा रत्नसिंहको डरानेके लिये किया गया और उनकी तरफसे दबाव कम होनेपर इन्होंने भी बाबरसे मिलावट नहीं रखी.

इस तरहकी विपरीत बातोंसे (१) महाराणाने सूर्यमल्लको मार डालना विचारकर ऊपरी दिलसे चिकने चुपड़े मज्मूनके रुकें चित्तौड़ आनेके लिये लिखे, परंतु सूर्यमल्ल इस बातको समझ गयेथे; कई बार बुलानेपर भी नहीं आये और टाला टूली करते रहे. बीकानेरका दीवान नेणसी महता लिखताहै कि महाराणा रत्नसिंहने सूर्यमल्लको बुलाया तब इन्होंने अपनी मा सोलंखिणी से पूछा, कि मुझको धोखेसे मारनेको बुलातेहैं सो कहिये तो बाहर निकलकर राजपूतीके हाथ बताऊं, और कहें तो बुलानेके अनुसार चला-जाऊं ? उनकी माने कहा “हमने महाराणाका कुछ अपराध नहीं किया बल्कि हम उन के हमेशहसे सामधर्मी चाकर रहेहैं; तुमको जाकर उनकी सेवामें हाज़िर होना चाहिये.”

इधर, विक्रमी० १५८८ [हि० १३७ = ई० १५३१] के शुरु गरमीके दिनोंमें महाराणा रत्नसिंह शिकारको बूंदीकी तरफ़ रवाना हुए. उधरसे सूर्यमल्ल अपनी माकी आज्ञानुसार आतेथे सो रास्तेमें ही मिलाप होगया, परंतु उनके दिलमें खटका ही था. एक दिन महाराणा मस्त हाथीपर सवारहो शिकारको निकले; सूर्यमल्ल घोड़ेपर थे; अवसर देख महाराणाने सूर्यमल्ल पर हाथी भोंका, परंतु वे बचगये. उस-वक्त महाराणाने हाथीका कुसूर बताकर कहा कि अबसे इसपर सवारी नहीं करेंगे. फिर बूंदीके पास बाजणा गांव(२)में पहुंचकर शिकारके समय एक जगह सूर्यमल्लको खड़ा किया और उनके पास पूर्विया पूर्णमल्ल(३)को छोड़ आप दूसरी तरफ़ गये; पीछे आकर देखा तो पूर्णमल्लसे कुछ न बना. तब झुंभलाकर घोड़ेको भपटाया और तलवारका

(१) बूंदीके इतिहास वंशप्रकाशमें सूर्यमल्लसे महाराणाके विरोधका कारण, पूर्णमल्लका स्त्रियों के विषयमें झूठा अपराध लगाना लिखाहै, और कर्नेल टॉड भी कुछ हेर फेरसे वही लिखतेहैं; परन्तु इस रीतिकी कहानियों पर हमें विश्वास नहीं होता. क्योंकि दो सौ वर्ष (वि० १७२० = हि० १०७३ = ई० १६६३) पहिले एक दूसरे राज्यके प्रामाणिक मनुष्य नेणसी महताने विक्रमादित्यको रणथंभोर देना ही इस विरोध का कारण लिखाहै, और वह ऊपर लिखेहुये तुजक बाबरीके लेखसे भी सिद्ध है—

(२) यह गांव बूंदीसे दस कोस मेवाड़की तरफ़ है—

(३) पूर्णमल्ल को धोखे से वार करनेके वास्ते पहिलेसे ही संकेत था—

एक वार (१) सूर्यमल्ल पर किया; फिर तो पूर्णमल्लने भी एक तीर मारा जो छाती फोड़ निकल गया; सूर्यमल्लने दौड़कर पूर्णमल्लको कटारसे मारा; महाराणाने पूर्णमल्लकी मदद करके दूसरा वार सूर्यमल्ल पर करना चाहा, परंतु इसने कटारका एक हाथ उनकी छातीमें ऐसा मारा कि महाराणा भी इस संसारको छोड़गये. इन महाराणाका दाह पाटण ग्राममें हुआ और उनके साथ महाराणी पंवार सती हुई—

यह महाराणा सुलहपसंद (संधिप्रिय) और बहादुर थे, परन्तु खुशामदी और मीठे बोलने वालोंकी बातपर जल्दी भरोसा करलेते थे. इनके समय कोई बड़ी लड़ाई किसी बाहरी शत्रुसे नहीं हुई; क्योंकि दिल्लीका बादशाह बाबर तो बनारस व बंगाले की तरफ बंदोबस्तमें लगाया और मांडूके प्रतापका सूर्य अस्त होचुकाथा. इसके सिवाय गुजरातियोंसे सुलह होगई थी.—

मांडूकी बादशाहत.

दिलावरखां गोरी.

इस बादशाहतकी नींव डालनेवाला दिलावरखां गोरी था, जिसको दिल्लीके बादशाह फ़ीरोज़शाह तुग़लक़के बेटे नासिरुद्दीन मुहम्मद शाहने हि० ७९३ (*) [विक्रमी १४४८ = ई० १३९१] में मालवेका सूबेदार बनाया, पर दिल्लीकी बादशाहतके दुर्बल होजानेसे थोड़े दिनोंमें वह खुद मुरतार होगया. जब हि० ८०१ [विक्रमी १४५६ = ई० १३९९] में मुग़ल बादशाह तीमूरके डरसे, सुल्तान महमूद दिल्लीसे भागकर दिलावरखांके पास धारमें आया, उसवक्त इसने उसकी खातिर की, जिससे दिलावरका बेटा होशंग नाराज़ होकर मांडू चलागया, और वहां मज़बूत क़िलेकी नींव डालकर उसे अपने वक्तमें पूरा किया—

होशंग.

हि० ८०८ [विक्रमी १४६२ = ई० १४०५] में दिलावरखां मरा और होशंग तख्तपर बैठा; तब गुजरातके बादशाह मुज़फ़्फ़रने यह सुनकर कि दिलावरखांको होशंगने

(१) मालूम नहीं कि मारे जाने के समय पहिला वार किसका और किस तरह हुआ; परंतु यह सच है कि तीनों उसी वक्त मारेगये.

(*) प्रायः महाराणाओंके हाल विक्रमी संवत्के अनुसार और बादशाहोंके हिजरीके अनुसार हैं. इसलिये महाराणाओंके वर्णनमें पहिले विक्रमी और बादशाहोंके वर्णनमें हिजरी रक्खेहैं.

जहर दिलाकर मरवाया है, हि० ८१० [विक्रमी १४६४ = ई० १४०७] में धारपर चढ़ाईकी और बड़ी लड़ाईके बाद होशंगको कैद करके, किलेकी हुकूमत अपने छोटे भाई नुसरतखांको दी; पर उससे मुल्की इन्तिजाम न होसका तब एक वर्ष पीछे होशंगको वापस धार भेजदिया— मुज़फ्फरके मरने बाद उसके पोते अहमद शाहने होशंगपर चढ़ाईयां कीं और फ़तह पाई, परंतु होशंगने कुछ नज़र भेट देकर पीछा छुड़ाया—

हि० ८२३ [विक्रमी १४७७ = ई० १४२०] में बादशाह होशंगने राव नरसिंह को जो पचास हज़ार सवारोंका मालिक था, मारकर सारंगगढ़ लेलिया और उसके बेटेको अपने ताबे किया; दोवर्ष पीछे मौका देख कर अहमदशाह गुजरातीने मांडूको आ घेरा, परंतु किलेकी मज़बूतीसे कुछ बस न चला; तब लूटता मारता सारंगपुरकी तरफ़ रवाना हुआ. हि० ८२६ लगतेही [विक्रमी १४८० = ई० १४२३] होशंगने धोखा देकर गुजरातियों पर हमला किया परंतु गुजरातियोंकी फ़तह हुई. इस लड़ाईके पीछे होशंगने गागरौन और ग्वालियर के किलोंपर कब्ज़ा करलिया—

गज़नीखां (मुहम्मद शाह), मसऊद, महमूद खिलजी—

हि० ८३८ [विक्रमी १४९२ = ई० १४३५] में बादशाह होशंग अपने बेटे गज़नीखांको राज्यका मालिक बनाकर मरगया—महमूदखां खिलजी जो उसका बड़ा मौत-बर सद्दार था, और जिसकी सुपुर्दगीमें होशंगने गज़नीखांको रखवाथा, कुछ दिनों पीछे लोगोंके बहकाने पर उससे रंजीदा हुआ— इसका फल यह निकला कि उसने गज़नीखांको, जिसका खिताब मुहम्मदशाह था, शराब पिलानेवाले के हाथसे जहर दिलाकर मरवाडाला; तब मालवी सद्दार और अमीरोंने गज़नीखां के शाहज़ादे मसऊद को, जो १३ वर्षका था, बादशाहतका मालिक बनाकर, महमूद खिलजीको किसी तरह धोखेसे क़त्ल करना चाहा, पर महमूदने बंधुतसे अमीरोंको कैद व क़त्ल कर हि० ८३९ तारीख २९ शव्वाल [विक्रमी १४९३ ज्येष्ठकृष्ण ३० = ई० १४३६ ता० १७ मई] को, ४० वर्षकी उमरमें बादशाहतका ताज पहिना; और मसऊद उसके भयसे गुजरातको भागगया. गुजराती बादशाहने उसकी मददपर मांडूको घेरा— इधर महमूदने मांडूके सब सद्दार और आदमियोंको इनाम इकराम देकर अपनी तरफ़ कर लियाथा—उसने मौका पाकर रातके वक्त गुजराती फौजपर छापामारा, परंतु गुजरातियोंके होशयार होजानेसे, उसका मतलब न बना. गोरी खानदानका शाहज़ादा उमरखां, जो थोड़े दिनों पहिले भागकर चित्तौड़ चलागया था, इस मौकेपर वापस आकर चंदेरीका मालिक बनगया— अहमद गुजरातीका बेटा मुहम्मदखां कुछ फौज लेकर सारंगपुरकी तरफ़ रवाना हुआ; महमूद खिलजी अपने बाप आजम हुमायूँको किलेमें छोड़ बाहर निकला.

शाहजादा मुहम्मद गुजराती तो अपने बापके पास आया, और शाहजादा उमरखां सारंगपुर की तरफ पहुंचा. महमूद खिलजीने यह खबर पातेही सारंगपुरकी सरहद पर उसको जा दबाया—कुछ मुकाबला होने बाद गिरफ्तार करके कल्ल किया, और उसका सिर चंदेरीमें लटकवा दिया. फिर महमूद खिलजी अहमदशाह गुजरातीके मुकाबलेको दूसरी तरफ रवाना हुआ, लेकिन गुजराती बादशाह, अपनी फौजमें अधिक बीमारी (मरी वा हैजा आदि) होजानेके कारण गुजरातको लौटगया, और मसऊदखांसे वादाकिया कि फिर दूसरे वर्ष आकर तुम्हारा मुल्क तुम्हें दिलाऊंगा—

महमूद मांडू आया, लेकिन गौरी खानदानके बचेहुये सदरारोंने भी उपद्रव मचाया; उनको शिकस्त देकर वह हि० ८४४ [विक्रमी १४९७ = ई० १४४०] में दिल्लीकी तरफ रवाना हुआ; वहां पहुंचकर शहरसे दो कोसके फासलेपर दिल्लीके बादशाह मुहम्मद शाहकी फौजसे मुकाबला किया—दोनों तरफ बराबरी रही—परंतु मांडूमें फसाद होजाने के डरसे महमूद (मालवी), मुहम्मदशाहसे सुलहकर लौट गया.

राजपूताना या मेवाड़की तवारीखोंमें लिखाहै कि इन्हीं दिनोंमें महमूद खिलजीको मुकाबला करके महाराणा कुंभाने कैदकिया; जिसकी यादगारीमें चित्तौड़ पर एक बड़ा मीनार (कीर्तिस्तंभ) बनाहै (१). हि० ८४६ ज़िलहिज [विक्रमी १५०० वैशाख = ई० १४४३ एप्रिल] में महमूद, सारंगपुर होताहुआ मही नदी उतरकर कुंभलमेर आया; उसवक्त किला पूरा नहीं बनाथा केवल आरेठ पौल (दरवाजा) वगैरह नाकाबंदी होकर कुछ दीवारका भी आरंभ हुआथा. इस किलेके नीचे कैलाश-डा ग्राममें बाण माताके मंदिरको जो पुराना बना हुआथा, महमूदने घेरलिया; उसको बचानेके लिये बहुतसे राजपूत किलेसे उतरे परन्तु लड़कर मारेगये; बादशाहने मंदिरको जलाया और उसमेंकी मूर्तिका चूना बनवाकर हिंदुओंको पानमें खिलवाया— फिर बादशाह चित्तौड़की तरफ रवाना हुआ— उस समय महाराणा कुंभा किसी और मुहिमपर थे; यह खबर सुनतेही मुकाबलेके लिये चित्तौड़ आये लेकिन बर्सात आजानेसे महमूद मांडूकी तरफ वापस चलागया— इन्हीं दिनोंमें इसका बाप आजमहुमायूं मंदसोरमें मरगया. दूसरे वर्ष जौनपुरके सुल्तान महमूद शाह से, कालपीके पास महमूद खिलजीकी

(१) कीर्तिस्तंभकी प्रशस्तिसे इस महमूद खिलजीका शिकस्त होना (पराजय) ही निश्चयहै; और मेवाड़में महमूदका गिरफ्तार होना प्रसिद्ध है; नेणसी महता भी यही लिखताहै परंतु तारीख फरिश्तामें केवल चित्तौड़ की तरफ आनाही लिखा है.

लड़ाइयां होकर शैख जावलदा (१) की मारफत सुलह हुई. हिजरी ८५० तारीख २० रजब [विक्रमी १५०३ कार्तिक कृष्ण ६ = ईसवी १४४६ तारीख ११ अक्टोबर] को महमूद मांडूसे निकलकर मांडलगढ़ वगैरह मेवाड़के जिलोंमें लूट खसोट करता हुआ बयाने पहुंचा. वहां अपना सिका (मुद्रा) जारी करके लड़ता भिड़ता मांडूको लौट गया, और ताजखांको २५ हाथी तथा आठ हजार सवारोंके साथ चित्तौड़की तरफ भेजा. हि० ८५४ [विक्रमी १५०७ = ई० १४५०] में गुजराती बादशाह मुहम्मद शाहने चांपानेरके राजा पर चढ़ाई की; राजाकी सहायताके लिये महमूद खिलजी मांडूसे रवाना हुआ, इस सबबसे मुहम्मद शाह अहमदाबादको लौटगया. महमूद भी चांपानेरसे कुछ नजर लेताहुआ ईडरके राजा सूर्यमल्लको इनाम देकर पीछा मांडू चलागया.

हि० ८५५ [विक्रमी १५०८ = ई० १४५१] में एक लाख फौज लेकर सुल्तान महमूद गुजरात पर चढ़ा और रास्तेमें सुल्तानपुर पर कब्जा किया. इसी असेमें सुल्तान मुहम्मद गुजरातीके मरने, और उसके बेटे कुतुबुद्दीनके बादशाह होनेकी खबर मिलते ही अहमदाबादके पास पहुंचकर कुतुबुद्दीनसे लड़ा. हि० ८५७ [विक्रमी १५१० = ई० १४५३] में महमूद, सुल्तान कुतुबुद्दीन गुजराती से सुलहका इकरार कर मांडू आया, और हाड़ोतीके हाड़ा राजपूतोंपर चढ़ाई करके उनका मुल्क जीत लिया. फिर फिदाईखांको वहांका मालिक बनाकर आप बयाने होताहुआ मांडूको चलागया. दूसरे वर्ष मेवाड़पर चढ़ाई की, और कुछ लड़ाई भगड़ा करके लौटगया. हि० ८५९ [विक्रमी १५१२ = ई० १४५५] में मंदशोर होकर अजमेर आया, और वहांसे मांडू जाते समय मांडलगढ़के पास महाराणा कुंभाकी फौजसे उलभ पड़ा. हि० ८६१ के शुरू मुहर्रम [विक्रमी १५१३ मार्गशीर्ष = ई० १४५६ के नवंबर] में मांडलगढ़ लेनेके इरादे पर मांडूसे मेवाड़में आया; दो वर्षमें अपना इरादा पूरा कर शाहजादे गया-सुद्दीनको मेवाड़के पहाड़ी हिस्सेकी तरफ रवाना किया, और आप मांडू गया. शाहजादा लूट मार करता हुआ हि० ८६६ [विक्रमी १५१९ = ई० १४६२] में मांडू पहुंचा— इसी वर्षमें महमूदने, दक्षिणके बादशाह निजामशाह बहमनी से फतह पाकर, हि० ८७१ [विक्रमी १५२३ = ई० १४६७] में सुलह करली. हि० ८७३ ता० १९ जिल्काद [विक्रमी १५२६ आषाढ़ कृष्ण ५ = ई० १४६९]

ता० ३१ मई] के दिन सुल्तान महमूदको, राजपूतानेके इलाकेसे मांडू जाते समय रास्तेमें तपकी बीमारीने दूसरे जहानकी राह बताई.

गयासुदीन.

महमूदके बड़े बेटे गयासुदीनने मांडूके तरुतपर बैठतेही, अपने बड़े बेटे अब्दुलकादिरको नासिरुद्दीनका खिताब देकर, पूरे इस्तियारके साथ प्रधानेका काम सौंपा; और आप ऐश आराममें ऐसा डूबा कि उसके जनानेमें दश हजार के लग भग औरतें इकट्ठी होगई थीं; इनमें से कितनियों को बजारत वगैरह मुल्की ओहदे दिये और कितनियों को दस्तकारीके काम सिखलाये. इस बादशाहकी बनाई हुई एक इमारत उजैनके पास कालियादह नामसे मशहूर है, जो देखनेमें बड़ी मजबूत और बनानेवालेकी पूरी ऐयाशी जतानेवाली है.

मेवाड़की तवारीखोंमें सुल्तान गयासुदीनका, महाराणा रायमल्लके शुरूवक्त में मेवाड़पर चढ़ाई करना और शिकस्त खाकर लौटजाना लिखाहै. इस बादशाहने ऐश व आरामके सिवाय कोई बात तवारीखमें लिखने लायक नहीं की. हि० ९०३ [विक्रमी १५५४ = ई० १४९८] में बड़े शाहजादे नासिरुद्दीन और दूसरे शाहजादे अलाउद्दीनमें रंजिश पैदाहुई. गयासुदीन अपनी बेगम खुशैदके (१) बहकानेसे अलाउद्दीनकी तरफ़दारी करने लगा; इससे नासिरुद्दीन शहरसे निकलगया. हि० ९०५ [विक्रमी १५५६ = ई० १५००] में फौज लेकर वापस आया, और लड़ भिड़ के मांडूमें अपना अधिकार जमाकर अलाउद्दीनको बालबच्चों सहित मारडाला.

गयासुदीन.

गयासुदीनने लाचार होकर अपने जीतेजी बादशाहतका ताज नासिरुद्दीनके सिरपर रक्खा. इसने हि० ९०६ शाबान [विक्रमी १५५७ फाल्गुन = ई० १५०१ मार्च] में चंदेरीके हाकिम शेरखां पर चढ़ाई की और धार पहुंचा; इतनेमें गयासुदीन मरगया—मांडूके सर्दारोंने इसका कारण नासिरुद्दीनकी तरफ़से ज़हर दियाजाना समझा. नासिरुद्दीनने चंदेरी फ़तह करनेके बाद मांडू आकर अपनी (सौतेली) मा खुशैदको खजानेके लिये बहुत तंग किया—कई अमीरोंको ज़हरसे और कितनोंको हथियारोंसे मरवाडाला, और बहुतोंका घरबार भी छिनलिया. फिर हि० ९०८ [विक्रमी १५५९ = ई० १५०२] में आगरेपर चढ़ाई की और दूसरे वर्ष चित्तौड़ आया. इस बादशाहने अपने बड़े बेटे मुजफ़्फ़रको खारिजकर दूसरे बेटे शहाबुद्दीनको युवराज बनाया. नासिरुद्दीनके जुल्मसे कुल्ल रैयत और सर्दारोंने तंग हो शहाबुद्दीनको बहकाकर बगावतका झंडा फहराया; लेकिन शहाबुद्दीन शिकस्त

(१) अलाउद्दीन इसके पेटसे पैदा हुआथा; यह बकलानेके राजाकी बेटी थी—

खाकर दिल्लीकी तरफ भाग गया. हि० ९१६ [विक्रमी १५६७ = ई० १५१०] में नासिरुद्दीनने अपने तीसरे बेटे महमूदको बादशाहत सौंपकर दुनियासे कूच किया. नासिरुद्दीन बड़ा जालिम और शराबी था; वह एक दिन कालियादह (१) पर शराबके नशेमें हौजके किनारे सो रहा था, सो लुढ़क कर हौजमें गिर पड़ा, तब चार लौंडियोंने जो उसवक्त मौजूद थीं, बड़ी मुश्किलसे निकाला. जब बादशाह होशमें आया तो अपना जी बचानेके बदले तलवारका एक एक बार इनाम देकर इन चारों बेकुसूरोंके सिर धड़से अलग किये ! यह एक छोटासा जुल्म था—यदि उसके सब जुल्म लिखेजायें तो एक जुदा इतिहास बनजावे.

महमूद खानी.

इसके तरुतपर बैठतेही शहरके कोतवाल मुहाफिज़खां स्वाजेसराने सलाहकार बनना चाहा, पर बादशाहने कुछ ध्यान नहीं दिया तब उसके भाई साहबखांको बादशाह बनानेके इरादेसे उपद्रव मचाया, जिससे महमूदको भागना पड़ा. मुहाफिज़खांने साहबखांको कैदसे निकालकर किलेका मालिक बनाया—महमूदने राजा मेदिनीराय और शर्जाखां वगैरह सर्दारोंकी मददसे फौज इकट्ठी कर मांडूको घेर लिया; शहरके घिर जानेसे डरकर स्वाजेसरा और साहबखां दोनों निकल भागे, और महमूदने मांडूपर कब्जा किया. इन्हीं दिनोंमें इकबालखां और मखसूसखां, जो पहिले भागकर आसेरमें जा रहेथे, नासिरुद्दीनके दूसरे शाहजादे शहाबुद्दीनको लेकर मांडू लेनेके इरादेसे रवानाहुए; लेकिन शाहजादा तो रास्तेमें ही गर्मीके सबब बीमार होकर मर गया—तब वे दोनों, उसके बेटेको होशंग का खिताब दे मांडू आपहुंचे, पर महमूदने उन्हें शिकस्त देकर पहाड़ोंकी तरफ भगा दिया—फिर थोड़े दिनों बाद इकबालखां और मखसूसखां अपना कुसूर माफ कर मांडू आये—

यहां मेदिनीरायका दखल दिन दिन बढ़ता जाताथा—फ़ज़लखां और इकबालखां शाहजादे साहबखांसे मेल रखनेके शुबहसे क़त्ल कियेगये. चंदेरीके हाकिम बहजतखांने, मेदिनीरायके डरसे दिल्लीके बादशाह सिकन्दर लोदीको साहबखांकी मदद करनेके लिये अर्जी लिखी—उसमें यह मतलब था कि मांडूमें

(१) इस स्थानमें पानी लानेके लिये क्षिप्रा नदीको ख़ज़ाना बनायाहै. कहीं तल धरोंमें सांपके शकलकी नहरें बहतीहैं, और कहीं बड़े बड़े हौजोंसे चादरें गिरती हैं; हौजोंके किनारोंपर छत्रियां ऐसी बनी हैं कि कोई थकाहुआ आदमी गर्मीके दिनोंमें भी वहां जाय तो तरीके मारे गर्मीको भूल जाय. यहां एक छत्रीके धंभेपर अकबरके खुदवाये हुये फ़ारसीके शेर हैं और इसमकानको देखनेके लिये उसका बेटा जहांगीर भी अपनी बादशाहतके दिनोंमें वहां गयाथा—

हिंदुओंका ज्यादा दखल होनेसे मुसल्मान बहुत दुःख पाते हैं. इधर गुजरात के बादशाह मुजफ्फरने मांडूपर चढ़ाई की, परंतु अपनी फौजके एक हिस्सेके हार जाने से अपशकुन समझ पीछा लौट गया. सुल्तान सिकंदर लोदीने कुछ सद्दरोंको फौजके साथ साहबखांकी मददके लिये भेजा, पर बहजतखांकी बेपरवाही देखकर पीछा बुलवा लिया. मुहाफिजखां जो दिल्लीकी तरफ भाग गया था, चंदेरीसे कुछ फौज लेकर आया, और मुजफ्फरबादके पास महमूदकी फौजसे शिकस्त खाकर भाग गया. शाहजादे साहबखां व चंदेरीके हाकिम बहजतखांने सुलह चाही और महमूदने इलाके समेत रायसेणका किला साहबखांको देकर मेल कर लिया; परंतु साहबखां, बहजतखांकी दगाबाजीके भयसे दिल्ली चला गया, और बहजतखां महमूदके पास आया. महमूदके मांडू आनेपर मेदिनीरायकी सलाहसे कई मुसल्मान कल्ल कियेगये—इससे सब मुसल्मान नाराज थे. एकदिन बादशाह तो शिकारको गयाथा—मौका पाकर एक पुराना सद्दर अलीखां, किलेमें घुस बैठा; परंतु महमूदने शिकारसे आते ही उसे निकाल दिया. मेदिनीरायने बादशाहको इतना वशमें कर लिया था कि किसी ओहदे वा कारखाने पर मुसल्मान नामको भी न रहे. यह देख महमूदको बड़ा विचार हुआ और मेदिनीरायको कहलाया कि तुम यहांसे निकल जाओ; इसपर मेदिनीरायने बड़ी नरमी से अर्ज कराई कि हमारे बहुतसे भाई बन्धु व रिश्तेदार बादशाही नौकरी में मारेगये; और चालिस हजार राजपूत तन मनसे अबतक चाकरी कर रहे हैं; फिर ऐसी दशामें हम बेकुसूर क्यों निकाले जातेहैं ? उस समय बादशाहने कुछ सोच विचार कर उसको ज्योंकात्यों बहाल रक्खा—एक दिन मेदिनीराय और शालिवाहन पूर्विया, बादशाहके पाससे आतेथे उस समय रास्तेमें अर्दलिके मुसल्मानोंने उनपर हमला किया; शालिवाहन मारा गया, और मेदिनीराय घायल होकर अपने डेरे पहुंचा; इसपर राजपूतलोग लड़नेके लिये तैयार हुए परन्तु मेदिनीरायने रोका, और बादशाहके सामने बड़ी लाचारी दिखलाई—

इसतरहके घात करने पर भी महमूदका कुछ बस न चला तब राज छोड़ शिकारके बहाने गुजरातकी तरफ भाग गया. गुजराती बादशाह मुजफ्फरने महमूदकी बड़ी खातिर की, और हि० १२३ [वि० १५७४ = ई० १५१७] में उसकी मददके लिये फौज लेकर अहमदाबादसे मांडूकी तरफ रवाना हुआ. राजा मेदिनीरायने अपने बेटे नाथूरावको, दश हजार सवार देकर मांडूमें छोड़ा, और आप धारके किलेका बंदोबस्त करताहुआ चित्तौड़में महाराणा सांगाके पास पहुंचा—इधर मुजफ्फरने महमूदको साथ लेकर मांडू और धारको आघेरा, और दोनों किले फतह करके महमूदको

देदिये— फ़रिश्ता अपनी किताबमें लिखताहै कि इस लड़ाईमें ९०००० (नव्वे हजार) राजपूत मारेगये. महमूदने मुजफ़्फ़रकी मेहमानदारीमें कुछ कसर न रखी— अंतमें मुजफ़्फ़र गुजरातको चला. इधर मालवेमें भेलसा और सारंगपुर पर सलहदी तंबरने, व चंदेरी और गागरौन पर मेदिनीरायने कब्ज़ा किया, तब महमूदने उनपर चढ़ाई की, और महाराणा सांगा मेदिनीरायकी सहायताके लिये चित्तौड़से चले. महमूद लड़ाईमें घायल हुआ और महाराणाका कैदी बना; फिर ताज व जड़ाऊ कमरपेटा देकर छुटकारा पाया. महमूद मांडूकी बादशाहत करता रहा, और गुजरातके तस्तपर मुजफ़्फ़रका बेटा बहादुरशाह बैठा. बहादुर शाहका छोटा भाई चांदखां (१) महमूदकी शरणमें आया, और गुजराती सर्दार रज़ीउल्मुल्कने चांदखांका मददगार होकर दिल्लीके बादशाह बाबरके पास इसका संदेसा लेजाना और पीछा जंबाब लाना स्वीकार किया; उसे निकाल देनेके लिये बहादुरशाहने महमूदको लिखा, पर इसने कुछ ध्यान न दिया. तब हि० ९३७ ता० ९ शबाबान [वि० १५८८ चैत्र शुक्ल १० = ई० १५३१ ता० २९ मार्च] को बहादुरशाहने चढ़ाई करके मांडू लेलिया, और महमूदको सात बेटों समेत कैदकर, आसिफ़खांके साथ चांपानेरके किलेमें रखनेके लिये रवाना किया. रास्तेमें १४ शबाबान [चैत्र शुक्ल १५ = ३ एप्रिल] को लुटेरोंने उनपर हमला किया; तब गार्डके सिपाहियोंने भागजानेके डरसे महमूदको तो मार डाला, और उसके बेटोंको चांपानेरमें कैद कर दिया—

उसके बाद मांडूमें खिलजी खानदानका कोई बादशाह नहीं रहा—

बाबर बादशाहका खानदान.

[हिंदुस्थानमें मुग़ल खानदानके प्रथम बादशाह बाबरका देहांत महाराणा रत्नसिंहके समयमें हुआ, इसलिये उसके खानदानका हाल यहां संक्षेपसे लिखाजाता है—]
यह मुग़ल खानदानके नामसे मशहूरहै; इस घरानेके कई शस्त्रोंके नाम अबुल फ़ज़लने लिखे हैं. प्रतीत होता है कि वे लोग बौद्धमतके थे— अमीर तरागायने इस्लामका मज़हब इस्तिंयार किया; उसका बेटा अमीर तीमूर था, जो हि० ७३६

(१) यह चांदखां कुछ दिनोंतक चित्तौड़पर महाराणा सांगाकी पनाहमें भी रह चुकाथा—

ता० २५ शाबान [विक्रमी १३९३ वैशाख कृष्ण १० = ई० १३३६ ता० १० एप्रिल] को ईरानके शहर सब्जमें नगीनाखातूनके पेटसे पैदा हुआ, और हि० ७७१ ता० १२ रमजान [विक्रमी १४२७ प्रथम वैशाख शुक्र १३ बुधवार, = ई० १३७० ता० १० एप्रिल] को शहर बलखका बादशाह हुआ. इसने ईरान, अरब और रूम कई मुल्क जीतलिये. हि० ८०१ ता० १२ मुहर्रम [विक्रमी १४५५ आश्विन शुक्र १३ = ई० १३९८ ता० २५ सेप्टेम्बर] को सिंधु नदी उतरकर हिन्दुस्थानमें आया और बहुतसे शहर फतह किये. हि० ८०७ ता० १७ शाबान [विक्रमी १४६१ चैत्रकृष्ण ३ बुधवार = ई० १४०५ ता० १९ फेब्रुअरी] को समर्कंदसे चीनकी तरफ ७६ कोश के फासले पर अतरार गांवमें उसका इंतकाल हुआ. इस बादशाहको “ ईश्वरका कोप ” कहना चाहिये; इसका थोड़ासा जुल्म नमूनेके तौर नीचे लिखाहै—जब तीमूर दिल्ली फतह करने आया, उस वक्तका थोड़ासा जिक्र तुजक तीमूरीके (जो तीमूरने तुरकी ज़बानमें लिखी थी) उर्दू तर्जुमेंके पृष्ठ ६३५ से लिखा जाता है; —

“ एक दिन मजलिसमें अमीर जहांशाह और सुलेमानशाह वगैरहने अर्ज किया कि जबसे हज़रत अमीर हिन्दुस्थानमें आये हैं, एक लाखसे ज्यादा काफ़िर (हिन्दू) कैदी, लश्करमें इकट्ठे होगये हैं. कल जो दुश्मनोंसे लड़ाई हुई, उसपर यह जोग खुश होकर उम्मेद जाहिर करते थे कि अगर ज़रा भी दुश्मनोंका ग़लबा हो तो बेड़ियें तोड़कर हमपर धावा करें, या दुश्मनोंसे जामिलें- इस बातमें सर्दारोंसे मैंने सलाह ली, तो सभीने अर्ज किया कि बड़ी लड़ाईके दिन एक लाख आदमियोंको ख़ाली डेरोंमें रख जाना या कैदसे छोड़देना मुनासिब नहीं. इतने बुतपरस्त (मूर्तिपूजक) काफ़िरोंको, जो दुश्मन हैं, कैदसे निकाल देना सिपहगरीके बरखिलाफ़ है; क़त्लके सिवाय कोई तदबीर ख़ियालमें नहीं आती- तमाम अमीरोंकी सलाह सिपहगरीके मुवाफ़िक़ थी, इसलिये फ़ौरन मैंने हुक्म दिया कि लश्करमें मुनादी करदो, कि जिस जिसके पास हिन्दुस्थानी काफ़िर कैद हों उनको क़त्ल करे, और जो आदमी अपने कैदीके क़त्ल करनेमें सुस्ती करे उसको भी मार डालो; उसका माल व असबाब मारने वालेके लिये है- लश्कर वालोंने हुक्म सुनकर अपना काम पूरा किया. एक लाख काफ़िर उस रोज़ क़त्ल हुए- मौलाना नासिरुद्दीन उमरने भी, जिसने अपनी तमाम ज़िदगीमें एक चिड़िया भी नहीं मारी थी, इस वक्त पंद्रह आदमी तलवारसे क़त्ल किये.”— यह उसका एक साधारण जुल्म था.

तीमूरके चार बेटे थे—जिनमेंसे १ गयासुद्दीन जहांगीर मिरज़ा और २ उमरशौख; ये दोनों तो अपने बापके जीते ही मरगये. ३ मिरज़ा मीरांशाह था, जिसकी

ओलादका जिक्र नीचे लिखा है. ४ मिरजा शाहरुख—जो खुरासानकी हुकूमत पर था, हि० ८५० [वि० १५०३ = ई० १४४६] में मर गया.

मीरांशाह,

मिरजा जलालुद्दीन मीरांशाहका जन्म हि० ७६९ [वि० १४२४ = ई० १३६८] में हुआ. यह अपने बापके सामने इराक, आजरबायजान, दयारेविक्र, और शामकी हुकूमत करता रहा. अमीर तीमूरके मरने बाद मीरांशाह एक बार शिकारमें घोड़ेसे गिरा और बहुत जखमी हुआ, इसी सबबसे यह कमजोर होगयाथा; इसलिये उसका बड़ा बेटा अबाबक्र, अपने बापके नामका खुतबा और सिक्का जारी रख, मुल्की काम आप करने लगा. हि० ८१० ता० २४ जिल्काद [विक्रमी १४६५ द्वितीय वैशाख कृष्ण १० = ई० १४०८ ता० २४ एप्रिल] को करायुमुफ़ तुर्कमानसे लड़कर मीरांशाह मारा गया. इसके आठ बेटे थे—१ अबाबक्र मिरजा, २ अलंगर मिरजा, ३ उस्मान मिरजा, ४ हलबी मिरजा, ५ उमर खलील मिरजा, ६ सुल्तान मुहम्मद मिरजा, ७ ईजल मिरजा और ८ स्यूरग़ तमश—परन्तु इस जगह सिर्फ़ ६ सुल्तान मुहम्मद मिरजाका ही हाल लिखना आवश्यक है.

सुल्तान मुहम्मद,

यह मिरजा अपने बड़े भाई खलीलके साथ इराकमें रहताथा; इसने मरते वक्त तीमूरके पोते शाहरुखके बेटे मिरजा अलगबेगसे, जो खुरासानका हाकिम था, अपने बेटे मिरजा अबूसईदके मददगार रहनेकी सिफ़ारिश की. सुल्तान मुहम्मद के दो बेटे थे—१ सुल्तान अबूसईद मिरजा और २ सुल्तान मनूचिहर मिरजा. अबूसईद का जन्म हि० ८३० [वि० १४८४ = ई० १४२७] में हुआ; इसने २५ वर्षकी उमर में बादशाह बनकर तुर्किस्तान, बदखशां, काबुल, गज़नी और कंधारपर कब्ज़ा किया. अबूसईद बड़ा नेकचलन, फ़कीराना ढंगका था. हि० ८७३ ता० २२ रजब [वि० १५२५ फाल्गुन कृष्ण ८ = ई० १४६९ ता० ५ फ़ेब्रुअरी] को आजून हसन तुर्ककी लड़ाईमें गिरफ़्तार होकर वह तीन दिन बाद क़ल्ल हुआ. इसके दश बेटे थे—१ सुल्तान अहमद मिरजा, २ सुल्तान मुहम्मद मिरजा, ३ सुल्तान महमूद मिरजा, ४ सुल्तान उमरशैख़ मिरजा, ५ सुल्तान मुराद मिरजा, ६ सुल्तान वलद मिरजा, ७ सुल्तान अलगबेग मिरजा ८ अबाबक्र मिरजा, ९ सुल्तान खलील मिरजा, और १० सुल्तान शाहरुख़ मिरजा.

उमरशैख़,

सुल्तान उमरशैख़ मिरजाका जन्म हि० ८६० [विक्रमी १५१३ = ई० १४५६] में हुआ. इसने समर्कन्दमें बड़ी नेकनीयतीके साथ हुकूमत की. यह

हि० ८९९ ता० ४ रमजान [वि० १५५१ आषाढ़ शुक्र ६ सोमवार = ई० १४९४ ता० १० जून] को एक मकानमें जो पहाड़पर बनाया गया था, कबूतरोंकी सैर कर रहा था. अकस्मात् पहाड़के फटजानेके कारण मकान धस गया, जिससे उमरशैख दबकर मर गया. इसके तीन बेटे और ५ बेटियां हुई; जिनमेंसे १ बड़ा बेटा ज़हीरुद्दीन मुहम्मद बाबर, उससे दो वर्ष छोटा २ जहांगीर मिरजा, और उससे दो वर्ष छोटा ३ नासिर मिरजा था. लड़कियोंमें १ खानजादा बेगम, २ मिहरबानू बेगम, ३ कारसुल्तान बेगम, ४ रज़िया सुल्तान बेगम थी; पांचवीं बचपनमें मर गई.

बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर

इसका जन्म हि० ८८८ ता० ६ मुहर्रम [वि० १५३९ फाल्गुन शुक्र ८ = ई० १४८३ ता० १५ फेब्रुअरी] को क़तलक़निगारखानमके पेटसे हुआ, जो चंगे-जख़ांकी औलादमेंसे थी. बादशाहका जन्मनाम “ज़हीरुद्दीन मुहम्मद” था, परन्तु तुर्की ज़बानमें इसका उच्चारण कठिन होनेसे “बाबर” रक्खा गया, और बादशाह होनेपर दोनों नाम मिलाकर बोले जातेथे. हि० ८९९ ता० ५ रमजान [वि० १५५१ आषाढ़ शुक्र ७ मंगलवार = ई० १४९४ ता० ११ जून] को फ़र्गाना इलाक़ेके शहर अंदजान का बादशाह (१) हुआ. बाबरने हि० ९०३ [वि० १५५४ = ई० १४९८] में अपने रिश्तेदारोंसे सात महीने तक सामना करके समक़द पर क़ब्ज़ा किया. यह बहुत बीमार होनेके कारण वहीं था, कि उन रिश्तेदारोंने मौक़ा पाकर इसकी मा, बीबी, और सर्दार वगैरहको अंदजानमें जा घेरा. बाबर कुछ आराम होनेपर अंदजान बचानेके लिये चला, परन्तु उसकी मा और बीबियोंने उसे बहुत बीमार सुनकर क़िला दुश्मनोंको सौंप दिया था; यह हाल बाबरने ख़जंदशहर में पहुंचने पर सुना, तो दोनों ओरसे निराश होकर ताशकंदके रईस खान दादा की सहायतासे, जो उसका रिश्तेदार था, अंदजान पर चढ़ाई की. परन्तु दुश्मनोंने खान दादाको रिश्वत देकर लौटा दिया. बाबर लाचार होकर फिर ख़जंद आया. यह पहिली ही मुसीबत थी कि जिससे वह घबराकर खूब रोया. फिर सुल्तान महमूद तुर्किस्तानी रईसकी मदद लेकर समक़द पर चढ़ा. वहांसे भी औज़बकोंके भयसे महमूदके चलेजाने पर इसे पीछा लौटना पड़ा— बाबर अपनी किताब तुज़क बाबरी में अपनी मुसीबतोंके बहुतसे हालात इस तरह पर लिखताहै. हि० ९०४ [वि० १५५५ = ई० १४९९] में यारकंदके इलाक़ेकी गढ़ियोंपर क़ब्ज़ा कर लिया. यह सरदीका

(१) यह बादशाह होना सिर्फ़ नामके लिये था, क्योंकि बादशाह तो हिंदुस्थान पर क़ाबिज़ होनेबाद कहना ठीक है—

मौसिम आरामसे गुजरा. फिर गरमीके दिनोंमें वहांसे रवाना होकर बड़ी बड़ी आफतें झेलता हुआ अपने सदाँर, अलीदोस्त तगाई के बुलानेसे मुर्गियान गया. (यह सदाँर पहिले बाबरसे जुदा होगयाथा.) यहां भी इसके भाई जहांगीर मिरजा और ओजून-हसन वगैरहने आघेरा परंतु इसने उनको शिकस्त दी. फिर मुर्गियानसे निकल कर दो वर्ष पीछे अंदजानपर दूसरी बार कब्जा किया और अखसी व काशान लेलिया; परंतु इसके अनंतर भी कई जगह लड़ाइयां करनी पड़ीं—जिनमें कहीं हारा, और कहीं जीता. हिजरी ९०५ ता० १८ मुहर्रम [विक्रमी १५५६ आश्विन कृष्ण ४ = ई० १४९९ ता० २५ अगस्त] को अंदजानसे औश पर चढ़ाई करके बिना मुकाबले अपने कब्जेमें लिया. बाबर औशमें ही था कि इसतरफ दुश्मनोंने अंदजानको खाली देख हमला किया, परन्तु शिकस्त खाकर भागे. अहमद तंबलके भाई खलीलने मादूके किलेमें पनाह ली, इस सबबसे बाबरके सदाँरोंने मादूको घेरा. कुछ लड़ाई होनेके पीछे खलीलको गिरफ्तार कर अंदजान भेजा और किलेमें अपना अमल करलिया. फिर अंदजानके करीब तंबल और जहांगीर मिरजासे बाबर की लड़ाई हुई, जिसमें तंबल और जहांगीरके बहुतसे आदमी मरे, और जो बचे वे सब भाग गये— यह पहिली ही लड़ाई थी जो बाबरने परेड बांधकर कायदेके साथ की. हि० ९०५ अखीर शाबान [विक्रमी १५५७ के वैशाख कृष्ण = ई० १५०० के अखीर मार्च] को, मिरजा जहांगीर और तंबलसे, बाबरने इस शर्तपर सुलह की कि सब मिलकर समर्कंद पर हमला करें; अगर वहां कब्जा हो तो बाबर समर्कंदमें रहे, और अंदजान मिरजा जहांगीर व तंबल को दियाजावे— ऐसी शर्त करके उसने इन भाइयोंको मिलालिया. जब कि समर्कंदके अमीर अलीदोस्त और मुहम्मदतरखां के आपसमें नाइतिफाकी हुई तो मुहम्मद तरखांने बाबरको बुलाया— यह उसी वक्त अपनी फौज लेकर चढ़ दौड़ा, परंतु समर्कंद उन अमीरोंने शैबानखां उज्बकको दे दिया. बाबर पीछा तो लौटा, परंतु समर्कंद लेनेकी उम्मेद उसकी वैसी ही रही. हि० ९०६ [विक्रमी १५५७ = ई० १५०१] में बाबरने फिर चढ़ाई की और अचानक थोड़ेसे आदमी किसी बहानेसे शहरमें भेज दिये. वे लोग दरवाजेके किवाड़ तोड़ने लगे— इतनेमें बाबर भी सब साथियों समेत जा पहुंचा. शहरके बाशिंदों और बाबर के साथियोंने उज्बकोंके पांच सौ आदमी मारडाले. कुछ मुकाबला करके शैबानखां भी भागगया और बाबरने समर्कंदपर अपना अधिकार जमाया. उसवक्त इसकी उमर १९ वर्षकी थी. थोड़े दिनों पीछे शैबानखां फौज लेकर

चढ़ा तब बाबरने तीन कोश आगे जाकर मुकाबला किया परंतु शिकस्त खाकर लौटा. इस लड़ाईमें बहुतसे सर्दार और आदमी मारेगये. शैबानखाने शहरको घेरलिया और कई महीनों तक लड़ाई रही; जब खाने पीनेका सामान कुछ भी न रहा तब बाबर शहरसे निकल भागा; इसकी बहनको जो किलेमें रहगई थी शैबानने अपनी बेगम बनाया- और आप किलेका मालिक बना. बाबर विपतका मारा भागकर दरख गांवमें पहुंचा- वहांके लोगोंने कुछ मांस रोटी खानेको दी उसे भी वह बड़ी न्यामत समझा. इस वक्त मुसीबतोंने उसे यहांतक घेरा कि पैरोंकी जूतियों भी फटजानेके कारण फेंक कर नंगे पैरों चलना पड़ा. हि० ९०८ [विक्रमी १५५९ = ई० १५०२] में बड़ी बड़ी तकलीफें उठाता हुआ ताशकंदमें खानदादाके पास पहुंचा; और उससे मदद लेकर फिर अंदजान, खजंद वगैरह कई जगहों पर कब्जा करलिया- अंदजानकी लड़ाईमें बाबर अहमद तंबलके हाथसे जखमी होकर भागा और औंश होताहुआ अखसी शहरमें पहुंचा, परंतु वहां भी तंबलने आ दबाया- तब कुछ दिन लड़कर चिमन गुम्बदकी तरफ भाग गया- अहमद तंबलने पीछा किया जिसमें बाबरके बहुतसे आदमी मारे गये- बादशाहके पास आठ सवार रहगये थे उनमें से भी एक एक थकता गया और पीछे रहतागया; जो जो साथ भागे वे बाबरको अपने तेज दौड़ने वाले घोड़े बदलकर देते गये- चलते चलते वह अकेला एक पहाड़के नीचे जा निकला; जहां उसका पीछा करनेवाले २५ सवारोंमेंसे भी दो ही साथ पहुंचे- और तीनों थकावटकी हालतमें पहाड़पर चढ़े- सवारोंने चढ़ाईसे थक जानेके कारण बाबरसे सौंगंध (कसम) खाकर कहा कि अब क्षमा कीजिये हम शत्रुता छोड़कर आपकी चाकरी करेंगे- बाबरने कुछ लाचारी और कुछ विश्वाससे उनका साथ किया- यह ऐसी मुसीबत थी कि एक दिन तो बाबर बादशाहने दोनों सवारों समेत सिर्फ एक एक रोटी खाकर गुजर किया और दूसरे दिन कोदोंके दलियेसे पेटकी आग बुझाई; एक दिन बाबर उन सवारोंका पूरा विश्वास न होनेके कारण उस बागकी (जहां वह ठहरा था) दीवार फांदकर पैदलही भाग निकला और बड़े कष्टसे खुरासानकी तरफ एक गांवमें पहुंचा. वहां उसके खैरखाह आदमी मिले, जिनके साथ थोड़ी दूर चलकर वह अपनी माके पास पहुंचा; वहांसे २५० आदमीके आसरे एकदूठे होजाने पर, बदखशांकी तरफ रवाना हुआ.

रास्तेमें और भी कई पुराने सर्दार आ मिले. सिवाय इसके बदखशांका मालिक खुसरोशाह भी, जिसके पास बीस हजारसे अधिक फौज थी, अपने सर्दारोंका मन बाबरकी तरफ देख मुकाबला किये बिनाही हाजिर होगया. बाबरने उसको, अपना माल असबाब

लेकर खुशीसे निकल जानेका हुक्म दिया, और खुसरोने हुक्मके मुवाफिक शहर खाली करदिया. बदरुशामें कब्ज़ा होनेके पीछे बाबर खुरासानके मुल्क पर भी हुक्मत करनेलगा; और हि० ९१० रबिउलअव्वल [वि० १५६१ भाद्रपद = ई० १५०४ अगस्त] में उसकी सब तकलीफें मिटगई. इतने दुःख भुगतने पर भी इस बहादुरसे चुपचाप बैठा न रहागया. इसने काबुल फ़तह करनेके इरादेसे हि० रबिउस्सानी [वि० आश्विन = ई० सेप्टेम्बर] में काबुल व गज़नी आदि पर हमला करके अपना अधिकार जमाया; और सियहपोश व हज़ारा वगैरह कई कौमों से लड़ाइयां करके बहुतसा रुपया और सामान एकट्ठा किया. काबुलके विषय तुज़कबाबरीमें बाबर लिखता है कि “यह मुल्क तलवार बिना, कलमसे कब्ज़ेमें नहीं रहसका.” काबुलसे, हिंदुस्थानका इरादा करके हि० शाबान [वि० माघ = ई० १५०५ के ज्यानूअरी] में खाना होकर जगदलक और बादामचड़मह होताहुआ दीनापुर पहुंचा. वहांसे खैबर उतरा, और हिंदुस्थानके सरहद्दी इलाकोंमें फिरकर बंगश के पठानोंको लूटता मारता कैदकरता पीछा काबुल गया - हि० ९११ मुहर्रम [वि० १५६२ आषाढ़ = ई० १५०५ जून] में बाबरकी माका देहान्त हुआ; मातम (शोक) से फुरसत पाकर वह कंधारकी तरफ़ खाना हुआ; परन्तु रास्तेमें बीमार होनेके कारण कंधार छोड़कर कलात पर कब्ज़ा किया, और वहां की आब हवा बहुत खराब होनेसे फिर काबुल चलागया. इन दिनोंमें शैबानखां उज्बकने हिरात और कंधार पर कब्ज़ा करलिया था, परन्तु बाबर इससे मुकाबला न करसका. हि० ९१३ जमादिउल अव्वल [वि० १५६४ आश्विन = ई० १५०७ सेप्टेम्बर] में हिंदुस्थान की तरफ़ दुबारा खाना हुआ. इधर जगदलकका घाटा काबुलियोंने बंद करदिया था और वे यह समझे हुए थे कि बाबर, शैबानखांके डरसे हिंदुस्थानकी ओर भागगया; परन्तु बाबरने उनको शिकस्त देकर हिंदुस्थानकी तरफ़ मुंह मोड़ा; सोचनेपर निश्चय हुआ कि थोड़ीसी जमैयत लेकर हिंदुस्थानमें जाना ठीक नहीं. इतनेही में खबर मिली कि शैबानखां अपने मुल्क खुरासानमें फ़साद होनेके सबब सुलहकरके कंधारसे लौटा; इसीसे बाबर भी काबुल चलागया-

हि० ९१३ ता० ४ जिल्काद [वि० १५६५ चैत्रशुक्ल ६ = ई० १५०८ ता० ८ मार्च] को शाहजादा हुमायूं, बाबरकी बीबी माहम बेगमके पेटसे पैदा हुआ- शैबानखांके चले जानेपर बाबर मुल्की हुक्मतकी तरफ़से पूरा बेखटके हुआ- उसने अपने तुज़कमें लिखा है कि “अबतक तो तीमूरी औलादको ‘मिरजा’ कहते थे परन्तु अबसे ‘बादशाह’ कहना चाहिये”

हि० ११५ [वि० १५६६ = ई० १५०९] में इसने बाजौर और स्वात वगैरह जिलों पर कब्जा किया- इसी वर्षमें बाबर के दूसरा बेटा हिंदाल पैदा हुआ- बाबरने मुल्ला मुर्शिदको दिल्लीके बादशाह इब्राहीम लोदीके पास भेजकर कहलाया कि “पंजाब वगैरह जिले, जो तुर्कमानोंके कब्जेमें थे, उन पर हमारा दखल होना चाहिये.” जब एलची जवाब मिले बिना निराश होकर चला आया, तब बाबरने हिन्दुस्थान पर चढ़ाई की; और घनाब नदी तक लूट मार करके लौटगया. हि० १२६ [वि० १५७७ = ई० १५२०] में सियहपोश काफ़िरों को शिकस्त दी. हि० १३२ [वि० १५८२ = ई० १५२५] में बाबर जगदलकी तरफ़ गया और वहींसे हिन्दुस्थानपर चढ़ाई के इरादेसे रविउल्लखकी पहिली तारीख़ [पौष शुक्ल २ = १७ डिसेम्बर] को सिंधु नदी उतरा. उस समय उसके साथ केवल १२००० आदमी थे, परंतु लाहोरके आस पास पहुंचनेपर बहुतसे हिन्दुस्थानी सदांर आमिले; पंजाबका सदांर गाज़ीखां तो पहाड़ोंमें भाग गया पर दौलतखां हाज़िर हुआ. बाबर वहां से कोटलेके पास आया. इधर दिल्लीका बादशाह इब्राहीम लोदी एकलाख फौज और हजारों हाथियों समेत मुकाबलेके वास्ते तैयार था. बाबरने हि० १३२ जमादिउल्ल आख़िर [विक्रमी १५८३ वैशाख कृष्ण = ई० १५२६ एप्रिल] में पानीपत पहुंचकर, मोरचे बांधे. कई दिनों पीछे इब्राहीम लोदीकी फौजसे मुकाबला हुआ. बाबरने अपनी फौजके तीन टुकड़े किये- एक दाहिनी तरफ़; दूसरा बाईं तरफ़; और तीसरा सामने. इन्हींमेंसे चौथा हिस्सा गिरदावर (घूमनेवाला) रक्खा; जिसने इब्राहीम लोदीकी फौजको पीछेसे जा दबाया. चार घड़ी दिन चढ़ेसे दो पहर तक लड़ाई होती रही; अन्तमें बाबरने फ़तह पाई. वह लिखताहै कि “ इब्राहीमकी लाशके गिर्द ६००० और दूसरे १६००० मिलकर २२००० आदमी लोदियोंके मारेगये.”

हि० १३२ तारीख़ ८ रजब, शुक्रवार [वि० १५८३ वैशाख शुक्ल १० = ई० १५२६ तारीख़ २२ एप्रिल] को इब्राहीम मारागया, और बाबर हिन्दुस्थानका बादशाह बना. इसने एक हफ़्तह पीछे दिल्ली जाकर अपने नामका सिका और खुतबा जारी किया; वहांसे २२ रजब [ज्येष्ठकृष्ण ८ = ६ मई] को आगरे पहुंचा- अबुलफ़ज़ल लिखताहै कि इब्राहीम लोदीपर फ़तह पानेके वक्त बाबरके साथ नौकर चाकर वगैरह सब मिलाकर ७०००० फौज थी, परंतु बाबरने सिर्फ़ १२००० लिखा है. वह लिखताहै कि जब “ मैंने इब्राहीमपर फ़तहपाई उसवक्त हिन्दुस्थानमें पांच मुसल्मान बादशाह और दो हिन्दू राजा खुदमुख्तार थे ”—

मुसलमानोंकी सल्तनत— बिहार, बंगाल, गुजरात, दक्षिण व बीजापुर और मांडूमें; और हिन्दुओंकी चित्तौड़ (महाराणा सांगा) तथा विजयनगर (बीजानगर)मेंथी.

हि० ९३३ [वि० १५८४ = ई० १५२७] में महाराणा सांगासे बाबरने दो लड़ाइयां कीं; पहिलीमें तो हारा और दूसरीमें (बयानेके पास खानवा ग्राममें) जीता; इसका पूरा हाल महाराणा सांगाके वृत्तांतमें है. हि० ९३४ [विक्रमी १५८५ = ई० १५२८] में बाबरने बंगालेके पठानोंसे लड़कर कालपी तक मुल्क लेलिया, परन्तु वर्षाके कारण वहांसे सुलह करके चलाआया. इन्ही दिनोंमें मेदिनीरायसे चंदेरीका किला जो मेवाड़के अधीन था, फतह किया. हि० ९३५ [विक्रमी १५८६ = ई० १५२९] में दुबारा बंगालेपर चढ़ा, लेकिन फिर भी बर्सात ही के सबबसे लौटना पड़ा. आखिरकार हि० ९३७ ता० ३ जमादिउल्अव्वल [विक्रमी १५८७ पौष शुद्ध ४ = ई० १५३० ता० २४ डिसेम्बर] को जमुनाके किनारे यार बागमें बीमार होकर मरगया. बाबरकी लाश उसकी वसीयतके मुवाफिक (१) काबुल भेजकर दफनाई गई. इस बादशाहका अधिकार नीचे लिखे स्थानों पर था— खुरासानमें बदरशां; अफगानिस्तानमें काबुल, कंधार, और गजनी; बलूचिस्तान में कलात वगैरह; और हिंदुस्थानमें मुल्तान, पंजाब, दिल्ली, आगरा, अवध और बिहार.

बाबरके खालसेकी आमदनी एडवर्ड टॉमस साहबने (२) दो करोड़ साठलाख रुपया सालियाना लिखी है. यह बादशाह नेकतबीयत, सादा मिजाज, दिलेर और इरादेका पक्का था, परन्तु कभी कभी सिपाहियाना बेपरवाहीसे जुल्म भी कर बैठता.

(१) शब्द शुद्ध लिखेजाय और भाषा सबकी समझमें आवे इन दो बातोंका ध्यान इस ग्रंथमें विशेष रक्खा है. कहीं कहीं प्रथम नियमको छोड़दियाहै. जैसे उन्नके स्थानमें उमर, मुआफिकके स्थानमें मुवाफिक वा माफिक, करदिया है; ऐसे दसको दश, कोसको कोश, वर्ताव को वर्ताव आदि लिखाहै— बिंदुओंका नियम भी फारसी शब्दोंके लिये पूरा नहीं रक्खा. कारण उच्चारण स्वयं सुने बिना करना संभव नहीं— और जानकारोंके लिये वह वैसा ही व्यर्थ है जैसा अजानोंके लिये.

(२) Revenue Resource's of the Mughal Empire by Ed. Thomas. P. 2

छंद पदरी,

चित्तौड़ रत्न राज्याभिषेक—रणथम्भ भ्रात सापन्न धेक ॥
नृप सूर्यमल्ल हडाविरोध—दुहुं शस्त्रघात पंचत्व बोध १
इतिहास मंडुपति पातसाह—बब्बर सवंश वृत्तान्त राह ॥
यह प्रथम बीर पूर्वज प्रकास—कविराज कीन्ह श्यामलविकास २

महाराणा रत्नसिंह— प्रथम प्रकरण

समाप्त .



महाराणा विक्रमादित्य.— द्वितीयप्रकरण.

—(०) ❦ (०)—

महाराणा रत्नसिंहके पीछे राज्यके हकदार विक्रमादित्य थे, इस लिये सब सदाँर व उमरावोंने माजी हाड़ी कर्मवतीको दोनों (१) बेटों समेत रणथंभोर से बुलवाकर विक्रमादित्यको वि० १५८८ [हि० ९३८ = ई० १५३१] में गादीपर बिठाया (२). यह महाराणा बिलकुल नादान होनेके सिवाय राज काजमें किसीका भरोसा भी नहीं करते थे— फिर इतने बड़े राज्यका बंदोबस्त किस तरह होसके? इन्होंने अपने पास खिदमतगारोंके सिवाय केवल सात हजार पहलवान रखछोड़े थे. इन महाराणाकी आदतें बहुत बुरी थीं— कभी तो सभामें चुपकेसे किसीके जामेकी कोर जाजममें सिलवा देना और वह उठे तब खूब हंसना. इसी तरह

(१) विक्रमादित्य और उदयसिंह, जिनके रणथंभोर जानेका हाल महाराणा रत्नसिंहके वर्णनमें लिखागया है— पृष्ठ २-६ तक.

(२) कर्नेल टॉड, संवत् १५९१ में इनका गादी बैठना लिखते हैं, परंतु वह ठीक नहीं; क्योंकि संवत् १५८९ के वैशाखमें विक्रमादित्य, महाराणा होकर मांडलगढ़ शादी करने गये; तब उस परगनेमें एक ब्राह्मणको जालिया ग्राम उदक (पुण्यार्थ) दिया; जिसका ताम्रपत्र उस ब्राह्मणके वंशजोंके पास मौजूद है- (प्रकरण समाप्तिमें उसकी नकल है नम्बर १ देखो)— बड़वा भाटोंकी पोथियों और अमरकाव्यमें गादी बैठनेका संवत् १५८७ लिखाहै. मिरात सिकन्दरीके २२२ पृष्ठसे हि० ९३७ जमादिउस्तानी [विक्रमी १५८७ माघ शुक्ल] में महाराणा रत्नसिंहका बहादुरशाह गुजरातीसे मिलना साबित है. और बून्दीके इतिहास वंशभास्कर तथा वंशप्रकाशसे संवत् १५८८ में महाराणारत्नसिंह और बून्दीके राव सूर्यमल्लका परस्पर माराजाना निश्चित है.

कभी कभी सर्दार उमरावोंकी हंसी कराकर कहते कि बेचारे राजपूत क्या करेंगे ? कोई बाहरका दुश्मन आवेगा तो हमारे पहलवान ही बहुत हैं. इन बातोंसे सर्दार उमराव तो अपने अपने ठिकानोंमें चलेगये और कारबारियों (अहलकारों) ने भी सब काम छोड़ यह कहना शुरू किया कि अब जिसको इज़त बचाना हो वह सर्कारमें जाना छोड़े; इससे सर्दारों वगैरहपर और भी तरह तरह की तंगी होनेलगी; रियासतमें बड़ा दंड मचा, परन्तु महाराणाको कुछभी परवाह न थी, न किसीके कहने सुननेपर अमल होता था. खराब आदतवाले स्वार्थी लोग पास रहकर अपना मतलब बनाते थे. माजी हाडीने भी जो बुद्धिमान थीं, बहुत समझाया, परन्तु चिकने घड़ेपर बूंदके समान कुछ असर न हुआ; ऐसी हालतमें रियासतकी बरबादी हो तो क्या आश्चर्य है—

महाराणा विक्रमादित्यने बूंदीके राव सूर्यमल्लके (१) बेटे सुल्तानको, जो कम उमर था, राज तिलक दिया.

चित्तौड़पर बहादुरशाहकी पहिली चढ़ाई.

महाराणा विक्रमादित्यकी यह दशा देख, आसपासके दुश्मनोंने उनके मुल्कपर मन चलाया; बादशाह बहादुरशाह गुजरातीने जो मालवा जीतने के पीछे मांडूमें रहता था, विक्रमी १५८९ [हि० १३९ = ई० १५३२] में चित्तौड़की तरफ अपने सर्दार मुहम्मदशाह आसेरीको फौज समेत रवाना किया; यह खबर सुनकर महाराणाके सलाहकारों (पासवान लोगों) के होश उड़गये, जिससे उन्होंने कुछ नज़र भेट देकर गुजराती फौजको पीछे फेरनेका विचार किया; और मंदशोरके मुकाम, एलची भे कर मुहम्मदशाह आसेरीको कहलाया कि मांडूके इलाकेके जिले जो मेवाड़में आये

इन बातोंसे सिद्ध होगया कि संवत् १५८८ चैत्र शुक्ल १ से आषाढ शुक्ल १५ तक चार महीने के बीचमें विक्रमादित्य गादीनशीन हुए. उक्त ताम्रपत्रसे कर्नेल टॉडका लेख रह होता है; बड़वा भाट अपनी पोथियोंमें कार्तिक महीनेसे संवत् बदलते हैं, जिससे ८८ के कार्तिक तक उनके लेखमें ८७ माना गया. और हमारे हिसाबसे (इस इतिहासमें) चैत्रसे ८८ शुरू हुआ—

मेवाड़में श्रावण कृष्ण १ से संवत्का आरंभ मानते हैं, इस वास्ते अमरकाव्यमें (श्रावणी) संवत् १५८७ लिखदिया है, जिससे हमारा चैत्री संवत् १५८८ श्रावणी के पहिले लगा.

मिरात सिकन्दरीसे संवत् १५८७ विक्रमी माघ शुक्लमें महाराणा रत्नसिंहका विद्यमान होना ज़ाहिर है, जिससे चैत्र शुक्ल १ से आषाढ शुक्ल १५ विक्रमी १५८८ के बीच महाराणा रत्नसिंहका देहान्त और विक्रमादित्यका राज्याधिकारी होना सिद्ध होता है. इसके सिवाय बून्दीके इतिहास से भी हमारा लिखना दुरुस्त है,

(१) जो महाराणा रत्नसिंहको मारकर मरे— पृष्ठ ८ देखो

हैं उन्हें छोड़नेके सिवाय आगेको भी विरुद्ध बर्ताव नहीं होगा. परन्तु कमजोरीकी हालतमें दुश्मन कब मानताहै; महाराणाकी बुरी आदतों और बर्तावोंसे घरके भेदू (महाराणा सांगाका भतीजा नरसिंहदेव और चंदेरीका राजा मेदिनीराय वगैरह) कई सर्दार नाराज़ होकर बहादुरशाहके पास जा रहे थे, और वेही फौजके साथ रहकर मुसल्मानोंको इधरका भेद बताया करते थे. मुहम्मदशाह व खुदावंदखां गुजरातीने महाराणाके पैगामको नहीं माना; और बेखटके फौज लेकर नीमच आ पहुंचे, जहां महाराणा अपनी सेना व सर्दारोंके साथ मुकाबला करनेके लिये तैयार थे; परन्तु पहिली ही चढ़ाईमें मेवाड़की फौज भागकर चित्तौड़के किलेमें आघुसी, और सर्दार लोग अपनी अपनी जागीरोंको चलेगये; मुसल्मानोंने चित्तौड़को आ घेरा. किसी कविने उस समय यह गद्य कहा था—

“आछी मधुरी बोल ज राव— सो भी सटके दलपतराव । पान फूल का लेते भोग— सो भी सटके राव असोग । घोड़े चढ़े फेरते भाला—सो भी सटके सज्जा भाला । हाथां सेल राखते बाना— सो भी सटके वीकम राना । मेदपाटके पाट कहेबल— सो भी सटके आसा रावल । अनमीं थक्का बिरद कहावत— सोभी सटके खेता रावत.”

महाराणाके वही (मतलबी) सलाहकार उनको किलेसे निकालकर दिल्लीके बादशाह हुमायूं (१) के पास लेगये, और उससे मदद मांगी (२). हुमायूंशाह इनकी मददके लिये फौज लेकर रवाना हुआ; लेकिन ग्वालियर पहुंचनेपर बहादुरशाहकी तरफसे उसको एक खत इस मज़मूनका मिला कि “ मैं जिहाद (धर्मयुद्ध) पर हूं, तुम विक्रमादित्यकी मदद करोगे तो खुदाके सामने क्या जवाब दोगे ? ” इससे हुमायूं ग्वालियर में ठहर गया और दो महीने तक वहीं रहा. उसकी टालाटूली देख महाराणा पीछे चले आये.

यहां गुजराती फौजने चित्तौड़ गढ़को घेरकर भैरवपौल (३) दरवाजे तक विक्रमी १५८९ माघ शुक्ल १५ [हि० १३९ ता० १४ रजब = ई० १५३३ ता० ११ फेब्रुअरी] को अपना कब्जा कर लिया. यही बड़े आश्चर्यकी बात है कि

(१) महाराणाकी मा हाड़ीने महाराणा रत्नसिंह के समय हुमायूं शाहको राखी भेजी थी; और उसी प्रसंगसे इमवक्त वे मदद लेनेके लिये गये—

(२) कोई लेजाना, कोई मदद मांगना लिखता है, कोई कहताहै, कि हुमायूं अहमदाबाद पर चढ़ा आता था, और कोई बहादुरशाह पर ही चढ़ाई करना लिखताहै—

(३) इसके खंभे वगैरह कुछ निशान वि० १९३८ [हि० १२९८ = ई० १८८१] तक तो थे परंतु वे भी श्रीमान् महाराणा कैलासवासी सज्जन सिंहजीके समय (चित्तौड़ में) लॉर्ड रिपनके दरबार होनेके वक्त सड़क के लिये तोड़कर साफ़ किये गये—

किलेके ऊपर तक न पहुंचे ! क्योंकि किलेमें बहादुर राजपूतोंकी फौज तो थी ही नहीं; केवल पहलवान और शागिर्दपेशालोग (छोटे नौकर) थे, वे अपनी जान बचानेके लिये बन्दूक वगैरह हथियार चलातेथे; कहावत है कि “ टूटी कमान दोनों तरफ़ डराती है”, इसतरह हिंडोल राड़ हो रही थी इतनेमें बहादुरशाह भी पांच हजार सवार और बहुतसी फौजके साथ मांडूसे आ पहुंचा; अलिफ़खांको (३००००) तीस हजार सवारों समेत लाखोटे दरवाजे, तातारखां और मेदिनीराय वगैरहको हनुमानपौल, मल्लूखां और सिकंदरखांको धौली बुर्जकी तरफ़, और भोपतराय (भूपति) व अलिफ़खां आदि को दूसरे मोर्चोंपर तइनात कर बड़ी तेज़ीके साथ इसने हमला किया. इधर से किले वालोंने भी कुछ लड़ाई की, परन्तु किला टूटनेका डर होजानेसे माजी हाड़ी कर्मवतीने (जो महाराणा सांगाकी राणी और विक्रमादित्यकी मा थीं), बादशाह के पास वकील भेजकर कहलाया कि “अब आप लड़ाई बन्द रखें, मालवेका जितना मुल्क पहिले मेवाड़के कब्जेमें आयाथा उसे छोड़देनेका हम इकरार करते हैं.” फिर जड़ाऊ कमरपेटे व ताज (जो महाराणा सांगाने महमूद खिलजीसे लियाथा) के साथ कुछ नकद और सौ घोड़े तथा दश हाथी देकर बहादुरशाहको रुखसत किया.

बहादुरशाह वि० १५८९ चैत्र कृष्ण १३ [हि० १३९ ता० २७ शबान = ई० १५३३ ता० २३ मार्च] को चित्तौड़से वापस गया; और हुमायूँ ग्वालियर में दो महीने तक ठहरकर आगरेकी तरफ़ रवाना हुआ; महाराणा भी अपने सलाहकारों की सलाहके अनुसार, जो हुमायूँके पास गये थे, पीछे चित्तौड़ पहुंचे. इस समय राज्यके लोगोंको महाराणाके चालचलन सुधरनेका कुछ भरोसा हुआ, परंतु इनके स्वभावमें कुछ भी अन्तर न पड़ा. कहावत प्रसिद्ध है— “नीम न मीठा होय सींच गुड़ घीव सूं— ज्यांका पड्या स्वभाव क जासी जीवसूं”— ॥ जब महाराणाका बर्ताव पहिलेहीसा रहा तब रहे सहे सदार भी भागकर गुजराती बादशाहके पास चलेगये और बहुतोंने महाराणा की बुराई करना ही अपना काम समझ लिया—

(चित्तौड़ पर बहादुरशाहकी) दूसरी चढ़ाई.

विक्रमी १५९१ [हि० १४१ = ई० १५३४] में बहादुरशाहने दुबारा चढ़ाई की. मांडूसे रवाना होते समय, चित्तौड़ फतह होनेपर वह किला अपने सेनापति रूमीखांको देदेना निश्चय कियाथा. पहिली लड़ाईमें महाराणाके दिल्ली जानेपर भी हुमायूँके मदद न करनेसे, बहादुरशाहको, इस वक़्त बड़ा घमंड होगया था; और इसीसे दिल्ली तक लेनेका इरादा कर अलाउद्दीनके बेटे तातार-

खांको (४००००) चालीस हजार फौजके साथ आगरेकी तरफ़ हुमायूँका मुल्क लूटनेके लिये रवाना किया- तातारखांने बयाने पहुंच वहांपर कब्ज़ा किया, और आगरे तक लूटमार मचा दी- इस खबरके पहुंचने पर हुमायूँने अपने भाई मिरजा हिंदालको फौज देकर मुकाबलेके लिये भेजा; हुमायूँकी फौजने गुजरातियोंको ऐसा मारा कि तातारखांके साथ सिर्फ़ (१००००) दश हजार आदमी रहगये; मिरजाने उनसे मुकाबला करके बयाना लेलिया- और तातारखां ३०० पठानों समेत मारागया-

बहादुरशाहके चढ़ आनेकी खबर चित्तौड़में पहुंची; उसको पहिली बार इस किलेका फ़तह करना कठिन दीखता था, परन्तु अब घरके भेदू मिल जानेसे वह बड़ा सहल मालूम हुआ. पहिली लड़ाईसे सब लोग डरे हुए थे; और इस वक्त लड़ाईका सामान न तो मौजूद था न एकट्ठा होसका, तब माजी हाडीने सब सर्दार उमरावोंके नाम इस मज़मूनके खास रुक़े लिखवाये कि “ अबतक तो चित्तौड़ सीसो-दियोंके कब्ज़ेमें रहा, परन्तु इसवक्त क़िला जानेका दिन आया सा मालूम होताहै; मैं क़िला तुम लोगोंको सौंपती हूँ, चाहे रक्खो चाहे जानेदो. विचार करना चाहिये कि कदाचित् किसी पीढ़ीमें मालिक बुरा ही हुआ तौ भी जो राज्य परंपरासे चला आताहै उसके हाथसे निकल जानेमें तुम लोगोंकी बड़ी बदनामी होगी”. मासाहबके इस रीतिसे दिल बढ़ानेवाले और सच्चे बचनोंसे क्षत्रियोंको ऐसा जोश आया कि उन्होंने अपने जीते जी चित्तौड़को मुसलमानोंके कब्ज़ेमें न जाने देना ठानकर महाराणाके दुराचरणोंका खियाल छोड़ा, और सब छोटे बड़े राजपूत सर्दार किलेपर एकट्ठे होगये. रावत बाघसिंह (१) देवलिया प्रतापगढ़के अध्यक्ष, हाड़ा अर्जुन (२), रावत सत्ता, सोनगरा माला, डोडिया भाण, सोलंखी भैरवदास, भाला सिंहा, भाला सजा, रावत नरबद वगैरह बड़े बड़े सर्दारोंने मिलकर सोचा कि इस वक्त बहादुरशाहको बड़ा धमंड होगयाहै और इसीसे उसका इरादा दिल्ली तक लेनेका है; फौज भी उसके साथ दक्षिणी, कर्णाटकी, बीजापुरी, मालवी, गुजराती और यूरपी बड़े बड़े बुद्धिमान सर्दारों के साथ बहुत है; यहां लड़ाईका वा खाने पीने का सामान इतना भी नहीं है कि दो तीन महीने तक चले, और न होसक्ताहै; इसलिये महाराणा विक्रमादित्य को उनके छोटे भाई उदयसिंह समेत ननिहाल (बूंदी) भेजदेना चाहिये;

(१) महाराणा सांगा और वावरसे बयाने में जो लड़ाई हुई उसमें इन्होंने बड़ी बहादुरी दिखाईथी.

(२) अर्जुन, बूंदीके राव सुल्तानकी तरफसे ५००० फौजके साथ आयाथा, क्योंकि उसवक्त

सुल्तानकी उमर केवल ९ वर्षकी होनेसे वह खुद न आसका.

और जबतक लड़ाई हो देवलियाके रावत बाघसिंह, महाराणाके प्रतिनिधि (कायम मुकाम) रहे. यह बिचार कर महाराणाको तो बूंदीकी ओर रवाने किया. और सब लवाजमे (ऐश्वर्य चिन्ह) समेत रावत बाघसिंहको (१) उनका पद दिया; तब इन्होंने सर्दारोंसे कहा कि आप लोगोंने मुझे बहुत बड़ा मर्तबा (अधिकार) देकर सब राजपूत सर्दारोंमें पहिले दर्जेका अफसर बनायाहै; अफसरको आगे रहना चाहिये इसलिये मैं किलेके बाहरी दरवाजे पर रहूंगा-यह कहकर खुदने तो भैरवपौल (२) दरवाजे बाहरके मोरचे को मजबूत किया, और उस के भीतरकी तरफ सोलंखी भैरवदास, हनुमान पौलपर भाला राजराणा सजा और उनके भतीजे राजराणा सिंहा, गणेश पौलपर डोडिया भाण, और इसी तरह सब जगह दरवाजे, पड़कोटे व कोटपर मेवाड़के कुछ छोटे बड़े राजपूतोंने मोरचाबंदी कर लड़ाईके लिये कमर बांधी-

उधर तातारखाके मारेजाने पर, जिसको बहादुरशाहने आगरेकी तरफ भेजा था, हिंदालने बयानेमें कड़ा करलिया; इसके बाद बादशाह हुमायूने दोस्ताना तौरपर एक खत बहादुरशाहको लिखा कि "मेरे बहनोई मिरजा मुहम्मदजमान (३)को यहां भेजदो;" लेकिन उसने नहीं भेजा, क्योंकि एक तो बहादुरशाहको बड़ा घमंड होही रहाथा, दूसरे मिरजा मुहम्मदजमान और सुल्तान बहलोल लोदीका बेटा अलाउद्दीन (४) उसके सलाहकार बनकर हुमायूके बरखिलाफ होगये थे, फिर उसके खतकी तामील किस तरह होसके. इस सबबसे चित्तौड़ लेनेके लिये बहादुरशाहका पूरा इरादा सुन हुमायू बादशाह दिल्लीसे रवाना हुआ, और सारंगपुर पहुंचकर एक खत बहादुरशाहके नाम इस मतलबका लिखा कि "तू चित्तौड़ लेना चाहता है लेकिन होशियार रहना, मैं भी तेरे ऊपर चढ़ आताहूं." इसके जवाबमें बहादुरशाहने लिखा कि "मैं चित्तौड़ पर चढ़ाई करके आयाहूं और हिंदुओंको पकड़ताहूं; यदि तुम उनकी मदद करना चाहते हो तो आकर देखो कि मैं यह किला किस तरह लेताहूं."

(१) महाराणाको दीवान भी कहते हैं, क्योंकि इस राज्यके मालिक श्रीएकलिंगजी (महादेव) और महाराणा उनके प्रधान (दीवान) समझे गये हैं. उसवक्त कायम मुकाम महाराणा बनाये जानेसे देवलिया वाले अबतक दीवान कहलातेहैं.

(२) महाराणा कुंभाने बनवानेके वक्त इस दरवाजेका नाम कुछ और रक्खा होगा परंतु इस लड़ाईके अनन्तर इन्हीं भैरवसिंहके नामसे " भैरवपौल " प्रसिद्ध हुआ.

(३) मिरजा मुहम्मदजमानको हुमायूने बयानेके किलेमें कैद कर रक्खा था तो भागकर बहादुरशाहके शरणे चलागया.

(४) तातारखां जो बयानेकी लड़ाईमें मारागया इसी अलाउद्दीनका बेटा था.

बहादुरशाहने अपने सलाहकारोंसे पूछा कि पहिले हुमायूँसे लड़ें या चित्तौड़ पर हमला करें ? सभोंकी यही राय ठहरी कि पहिले चित्तौड़ लेना चाहिये, क्योंकि हुमायूँ मुसल्मान है, हिंदुओंसे लड़ते वक्त हमसे सामना नहीं करेगा; इस विचारसे चित्तौड़को घेरा. मेवाड़ी राजपूत सजेहुए ही थे, झुंडके झुंड बाहर निकलकर गुजराती फौजपर हमला करने लगे; मुसल्मानोंका जोर ज्यादा था और उनके संग यूरोपी लोगोंके होनेसे गोला बारूत वगैरह सामान भी पूरा पूरा था, इससे किलेवालोंको किसी तरहकी कामयाबी हासिल न हुई. गुजरातियोंने एक सुरंग ऐसा डाटा कि, जिससे बीकाखोहकी तरफ किलेकी पैंतालीस हाथ दीवार उड़ जानेसे हाड़ा अर्जुन अपने साथियों समेत गारत हुआ. गुजरातियोंने किलेमें हमला करना चाहा, परन्तु बचे हुये हाड़ा व दूसरे राजपूतोंने बड़ी बहादुरीके साथ रोका. इसमें बहुतसे आदमी दोनों तरफके मारे गये. बहादुरशाहने जलेबमें (आगे) तोपें रखकर पाडल-पौल (१), सूर्जपौल व लाखोटाबारीकी तरफसे हमला किया. तब भीतरके बहादुरोंने भी दरवाजोंके किवाड़ खोलदिये और बड़ी दिलेरीके साथ गुजराती फौजपर टूट पड़े. देवलिया प्रतापगढ़के रावत बाघसिंह पाडलपौल दरवाजे बाहर, देसूरीके सोलंखी भैरवदास भैरवपौलके बाहर, देलवाड़ेके राज राणा सजा व सादड़ी के राजराणा सिंहा हनुमानपौल बाहर, इसी तरह दूसरे दरवाजोंपर तथा और जगहोंमें रावत दूदा रत्नसिंहोत (२) चूडावत, सीसोदिया कम्मा रत्नसिंहोत चूडावत, रावत बाघ सूरचंदोत, रावत सत्ता रत्नसिंहोत चूडावत, सोनगरा माला बालावत, रावत देवीदास सूजावत, सीसोदिया रावत नंगा सिंहावत (३), रावत कर्मा चूडावत, डोडिया भाण (४) वगैरह लड़ते भिड़ते अपने साथियों समेत काम आये. बत्तीस हजार राजपूत इस लड़ाईमें मारे गये और तेरह हजार स्त्रियां महाराणी हाड़ी कर्मवतीके साथ आगमें जल मरीं. यह लड़ाई विक्रमी १५९२ चैत्र शुक्ल ५ [हि० १४१ ता० ४ रमजान = ई० १५३५ ता० ८ मार्च] को पूरी हुई.

बहादुरशाह और हुमायूँकी लड़ाई

इसवक्त बादशाह हुमायूँ सारंगपुरसे मंदशोरकी तरफ कूच करचुका था— उसको

(१) वह दरवाजा पीछे बनायागया— इसके बाहर रावत बाघसिंहका चबूतरा है जहां वह मारागया था.

(२) सलूबरके रावत इन रत्नसिंहके वंशमें हैं.

(३) इनकी औलादमें आमेठ और देवगढ़के रावत हैं —

(४) इनके वंशमें सरदारगढ़के ठाकुर हैं—

रास्तेमें महाराणा विक्रमादित्यके वकीलोंने बहादुरशाहके चित्तौड़ छीन लेनेकी खबरदी; वह बहादुरशाहसे लड़नेको तो आताही था, इन लोगोंकी भी तसल्ली करके आगे बढ़ा-इधर बहादुरशाह, हुमायूँका आना सुन अपनी फौज दुरुस्त कर लड़नेको चला. मंदशोर पहुंचने पर मुकाबला हुआ—बहादुरशाह गुजरातीके पास तोपखाना अच्छा था—रूमीखांकी तदबीरसे खाई खोदकर मोरचेबंदी की—दो महीने तक लड़ाई रही. तब हुमायूँने गुजराती फौजमें रसद पहुंचना बंद करदिया, जिससे (१) बहादुरशाह घबराया, और मोरचा छोड़ बुरहानपुरके हाकिम मुबारकशाह फारूकी, मालवी सर्दार मझूखां कादिरशाह और सदर जहांखां वगैरह पांच आदमियोंको साथ लेकर रातके वक्त निकल भागा. हुमायूँने पीछा किया परंतु बहादुरशाह मांडूके किले में जा छुपा; हुमायूँने भी किले पर हमला किया. एक दिन तीनसौ पठान घावा करके किलेमें जाघुसे, जिससे गुजराती लोग जो वहां मौजूद थे भागगये और बहादुरशाहने भी मांडूसे निकल चांपानेरके किलेमें पनाहली. सदर जहांखां मालवी सर्दार जखमी होजानेसे भाग न सका, उसको हुमायूँने बड़ा बहादुर समझ नौकर रखलिया और मांडू पर कब्जा किया. फिर तीन रोज वहां ठहरकर हुमायूँ बहादुरशाहकी तलाशमें चांपानेरकी तरफ रवानेहुआ, लेकिन वह (बहादुरशाह) चांपानेरसे भी बहुतसी दौलत लेकर अहमदाबादकी तरफ भाग गयाथा; हुमायूँने पीछा न छोड़ा, तब तो घबराकर बहादुरशाह खंभात होता हुआ जहाजमें बैठकर किसी टापूकी तरफ चलागया. बादशाह हुमायूँ चांपानेरके किलेको घेरनेके लिये दौलतखाजे बरलास को मुकर्रर करगया; उसने घेरा देरखा था— इतनेमें बहादुरशाहके भागजाने पर बादशाह हुमायूँ भी अपनी फौज लेकर आपहुंचा, और एक रात पहिले किलेका भेद लगाकर तीन सौ आदमियोंके साथ भीतर घुसा. दरवाजोंके किवाड़ खोलदिये, किला फतह हुआ और गुजरातियोंका बहुतसा खजाना हाथलगा. इस असेमें आगरेकी तरफ पठानोंका शोर होनेसे हुमायूँको लौटना पड़ा, और बहादुरशाहने मौका देख टापूसे निकल कर गुजरातमें अमल करलिया.

चित्तौड़का पीछा मिलना.

जब सुल्तान बहादुर गुजराती मंदशोरसे भागा तब रहे सहे मेवाड़ी राजपूत पांच सात हजार फौज एकट्ठी कर महाराणा विक्रमादित्य व उदयसिंहको बूंदीसे चित्तौड़में लाये और किले पर अमल कर लिया. गुजराती मुसलमानोंने मेवाड़ी

(१) इसके सिवाय पहिले बहादुरशाहने तोपखानेके अफसर रूमीखांको, चित्तौड़ फतह होने पर जागीरमें देने का इकरार कियाथा, उसके न मिलनेसे वह निराश होकर हुमायूँसे मिल गया—

राजपूतोंकी बहादुरी पहिलेसे देख रखी थी, इसके सिवाय हुमायूँके भयसे बहादुरशाह के भागनेकी खबर सुनकर सबके सब किला छोड़ भागे; महाराणाके पास जो दो चार होशियार व पुराने आदमी थे, उन्होंने जैसे तैसे मुल्कका इंतजाम किया, और जो लोग पहिली लड़ाईसे बचे थे वे सब आकर हाज़िर हुए. परन्तु नादान अवस्था में बदमाश (१) लोगोंकी सुहबतके कारण महाराणा विक्रमादित्यको इतनी तकलीफ़ उठाने पर भी कुछ खियाल न हुआ, और पहिलेके समान ही बर्ताव रखने लगे; तब तो रियासतके लोग अत्यन्त घबराकर जिंदगी और इज्जत बचाना कठिन जान बड़े सोच विचारमें पड़े.

बनवीर (बरवीर).

इन्ही दिनोंमें महाराणा सांगाके बड़े भाई पृथ्वीराज (जो कुंवरपदमें ही मरगये थे) की पासवानका बेटा (२) बनवीर समय देख चित्तौड़ आया और महाराणा के प्रीतिपात्र लोगोंसे मिलकर राजकाजमें दखल देनेलगा— यहांतक कि थोड़े ही दिनों में मुसाहिब बनगया. महाराणा किसीकी नसीहत (उपदेश) तो मानते ही नहीं थे इस पर भी कोई कुछ कहता तो उसको उलटी सज़ा देते, जिससे सब सदांर वगैरह तितर बितर होगए और बनवीरने मौका पाकर महाराणाको तलवारसे मारडाला; क्योंकि उस वक्त कोई खैरस्वाह तो था ही नहीं कि सामना करता; और जो बदचलन व स्वार्थी लोग थे वे उसीसे मिलगये. बनवीर, महाराणा विक्रमादित्यको मारकर राज्यका पूरा मालिक बननेके इरादेसे, उनके छोटे भाई उदयसिंह पर घात करनेके लिये तलवार लेकर उस स्थानमें पहुंचा, जहां वे सोते थे; परन्तु उदयसिंहको, जिनकी अवस्था १४ वर्षकी थी, धायने छुपाकर उनके पलंगपर अपने बेटेको सुलादिया, जिसे बनवीरने आते ही उदयसिंह जान तलवारके एक ही वारमें दो टूक करदिया—

विक्रमादित्यके मारेजानेसे महलोंमें शोर तो मच ही रहा था, इतनेमें उदयसिंहकी धायने रोना पुकारना शुरू किया- बनवीर दोनोंको मार महलोंमें गया और अपनी आण दुहाई फिरवाकर बेखटके राज करने लगा. धाय उदय-

(१) उन लोगोंने सिखलाया कि गुजरात व मालवेकी बादशाहत तो नष्ट होगई और हुमायूँ आपका मददगार है ही— अब क्या डर है. जो लोग लड़ाईमें मारेगये उनको जागीर इसी लिये मिलीथी; कि वक्तपर कामआवें.

(२) यह पृथ्वीराजकी पासवान पूतलदेके पेटसे पैदा हुआ था; उसको महाराणा सांगाने बदचलनी के सबब मेवाड़से निकाल दिया, तब वह गुजराती बादशाह मुजफ्फरके पास चलागया; और बादशाहकी तरफसे इसको बागड़का मुल्क जागीरमें मिला.

सिंहके नामसे अपने बेटेको उसी जगह जलवा कर उदयसिंहको सही सलामत चित्तौड़से ले निकली— (१) .

महाराणा विक्रमादित्यका देहांत विक्रमी १५९२ [हि० ९४१ = ई० १५३५] में हुआ. इनका जन्म संवत् ठीक ठीक नहीं मिला, परंतु अमरकाव्यसे यह निश्चय हुआ है कि देहांतके समय इनकी अवस्था १८ वर्षकी थी.

गुजरातकी बादशाहत.

[विक्रमादित्यके समयमें बहादुरशाह गुजरातीने चित्तौड़ फतह किया, इस लिये प्रसंग देख गुजराती बादशाहोंका भी संक्षेप हाल लिखा है—]

जफरखां

इस बादशाहतका मूल पुरुष जफरखां (२) था, जिसको दिल्लीके बादशाह मुहम्मद तुगलकने हि० ७९३ [विक्रमी १४४८ = ई० १३९१] में गुजरातके सूबेदार फरहतुल्मुल्ककी (३) एवज वहांका सूबेदार बनाया. इसी सन् व संवत् में जफरखांने गुजरात जाते वक्त रास्तेमें अपने बेटे तातारखांके एक बेटा (अहमदखां) पैदा होनेकी खबर सुनी. हि० ७९४ [विक्रमी १४४९ = ई० १३९२] में जफरखां और फरहतुल्मुल्ककी लड़ाई अनहलवाड़ापट्टनके पास हुई; जिसमें जफरखांने विजयी होकर गुजरातमें अपनी हुकूमत जमा ली; और हि० ७९५ [विक्रमी १४५० = ई० १३९३] में इसने खंभातपर कब्जा करके दूसरे वर्ष ईडरके राजाको अपने ताबे करलिया. गुजरातमें हि० ७९३ [विक्रमी १४४८ = ई० १३९१] से हि० ९८० [विक्रमी १६२९ = ई० १५७२] तक- जफरखांसे लेकर पंद्रह बादशाहाने खुद मुरतारीके साथ हुकूमत की. हि० ७९७ [विक्रमी १४५२ = ई० १३९५] में जफरखां गुजरातके राजपूतोंको जेर करता हुआ सोमनाथ तक पहुंचा और

(१) इसका मुफस्सिल हाल महाराणा उदयसिंहके वृत्तांतसे जाहिर होगा.

(२) इस जफरखांका बाप वजीहुल्मुल्क पहिले तक्षक (टाक) खानदानका राजपूत था, जिसने दीन इस्लाम अस्तिथार किया. उसका बेटा (जफरखां) बड़ा दीन दार मुसल्मान मशहूर हुआ.

(३) फरहतुल्मुल्कको मुहम्मद शाह तुगलकके बाप फीरोज़शाहने गुजरातका सूबेदार बनाया था, परन्तु यह फीरोज़शाहके मरे पीछे मुहम्मदशाहसे बागी होगया, और उस तरफके आलिम मुसल्मानोंने भी इसकी शिकायतें लिखीं, जिससे मुहम्मदशाह तुगलकने जफरखांको सूबेदार बना कर फौज समेत गुजरातमें भेजदिया.

वहाँके मंदिर व मूर्तियोंको तोड़कर उस जगह एक मस्जिद बनवाई. फिर हि० ७९८ [विक्रमी १४५३ = ई० १३९६] में कुछ नज़राना लेता हुआ अजमेरमें स्वाजेसाहिव की जियारत करनेको आया; और वहाँसे लौटते वक्त जीलवाड़े व देलवाड़ेके मंदिरोंको तोड़ता हुआ तीन वर्ष बाद अपनी राजधानी पट्टनमें पहुंचा. तारीख अलफ़ीके हवाले से फ़रिश्ता लिखताहै कि इस चढ़ाईके पीछे ज़फ़रख़ाने गुजरातमें अपना खुतबा व सिक्का जारी करदिया. हि० ८०० [विक्रमी १४५५ = ई० १३९८] में इसका बेटा तातारखां भी दिल्लीके बादशाह मुहम्मदशाहसे नाराज़ होकर इसके पास चला आया. हि० ८०१ [विक्रमी १४५६ = ई० १३९९] में ईडरके राव रणमल्लने बखेड़ा उठाया, जिसको दबाकर ज़फ़रख़ाने फिर अपने ताबे किया. इसी सन्के शुरूमें अमीर तीमूरने दिल्लीको फ़तह करलिया (८४१६); तब मुहम्मदशाहका बेटा और फ़ीरोज़शाहका पोता सुल्तान महंमूदशाह भागकर गुजरातमें आया; परंतु ज़फ़रख़ानेके ख़राब बर्तावसे रंजीदा होकर दिलावरख़ानेके पास मांडूकी तरफ़ चला गया. हि० ८०३ [विक्रमी १४५७ = ई० १४०१] में ज़फ़रख़ाने ईडरके राजासे नाराज़ होकर क़िला छिनलिया. हि० ८०४ [विक्रमी १४५८ = ई० १४०२] में सोमनाथके पूजारी और राजपूतोंने मुसल्मानोंको मारकर वहाँसे निकालदिया, जिस पर ज़फ़रख़ाने सोमनाथमें पहुंचकर उन लोगोंको क़त्ल किया और वहाँ नये सिरसे एक मस्जिद बनाकर पट्टनको वापस चला गया. इन्हीं दिनोंमें दिल्लीके तुग़लक़ बादशाहोंका ख़ानदान नष्ट होने पर वहाँकी हुकूमत मल्लूख़ां करता था, जिसपर तातारख़ां अपने बापसे बड़ी भारी फ़ौज़ लेकर दिल्ली लेनेके इरादेसे ख़ाना हुआ; परंतु थोड़ी दूरसे ही वापस लौट आया, और आते ही अपने बापको गादीसे उतार कर खुद बादशाह बन बैठा. इसने अपना लक़ब “अल्मुवफ़क़ बिताईदिरहमान इफ़्ति-ख़ारुहुनिया अबुल्गाज़ी मुहम्मदशाह बिन मुज़फ़रशाह गाज़ी ” (१) रक्खा और अपने चचा शम्सख़ांको वज़ीर बनाया. दो वर्ष पीछे ज़फ़रख़ानेके इशारेसे शम्सख़ाने तातारख़ांको शराबमें ज़हर देकर मारडाला. इस ख़िदमतके बदले ज़फ़रख़ाने शम्सख़ांको जागीरमें नागौर दिया. इन्हीं दिनोंमें मांडूका पहिला बादशाह दिलावरख़ां मरगया, जो ज़फ़रख़ानेका दोस्त था. ज़फ़रख़ाने यह ख़बर सुनकर, कि दिलावरख़ांको उसके बेटे होशंगने ज़हर देकर मारडाला है, मालवे पर चढ़ाई की; उस वक्त इसने अपना लक़ब (पदवी) “अल्मुवफ़क़ बिल्लाहिल्मन्नान शम्सुद्दुनिया वहीन

(१) खुदाकी मिहरबानीसे मदद पाया हुआ दुनियामें बुजुर्ग (बड़ा) बहादुरीवाला मुहम्मद-

शाह (ज़फ़र) बहादुरका बेटा.

अबुलमुजाहिद मुजफ्फर शाह" (१) रक्खा, और मालवेमें धारका किला फ़तह करके होशंगको गिरिपतार कर लाया; परन्तु अपने आदमियोंसे वहांका इन्तिजाम पूरा पूरा न होनेके कारण मालवेकी बादशाहत होशंगको ही वापस देदी; फिर कुछ दिनों पीछे अपने पोते (तातारखांके बेटे) अहमद शाहको वलीअहद बनाकर हि० ८१४ तारीख ८ रबिउस्सानी [विक्रमी १४६८ श्रावण शुद्ध १० = ई० १४११ तारीख ३० जुलाई] के दिन इस दुनियांको छोड़ गया (२) .

अहमदशाह पश्चिमा.

अहमदशाहने तस्त्पर बैठनेके दूसरे वर्ष हि० ८१५ [विक्रमी १४६९ = ई० १४१२] में अपने चचेरे भाई फ़ीरोज़खां पर चढ़ाई की, लेकिन उसके भागजानेसे वह वापस चलाआया. हि० ८१५ जिल्काद [विक्रमी १४६९ फाल्गुन शुद्ध = ई० १४१३ फेब्रुअरी] में इसने साबरमती नदीके किनारे सांचल नाम ग्रामकी जगह अहमदाबाद शहरकी नींव डाली, और फ़ीरोज़खांको अपने पास बुलाकर मेल करलिया, परन्तु उसने ईडरके राव रणमल्ल वगैरहसे मिलकर फ़साद उठाया. मुकाबला होनेपर फ़ीरोज़खांके बहुतसे आदमी मारेगये और वह शिकस्त खाकर राव रणमल्ल समेत पहाड़ोंमें जा छुपा; फिर कुछ दिनों पीछे रणमल्ल तो फ़ीरोज़खांसे नाराज़ होकर अहमदाबादकी तरफ़ चला आया और फ़ीरोज़खां, नागौरके हाकिम शम्सखांके बेटे फ़ीरोज़खां के पास जाकर उसीके हाथसे मारागया. उन दिनोंमें फ़ीरोज़खां महाराणा मोकलसे लड़ाई कर रहा था. हि० ८१६ [विक्रमी १४७० = ई० १४१३] में मालवेके बादशाह होशंगने गुजरात पर चढ़ाई की; उस वक्त अहमद, जीलवाड़ेके राजपूतोंसे लड़रहाथा; यह खबर सुनते ही होशंग से मुकाबला करनेकेलिये रवाना हुआ; जिससे होशंग मालवेकी तरफ़ वापस चलाआया. हि० ८१७ [विक्रमी १४७१ = ई० १४१४] में अहमदशाह गिरनारपर चढ़ा और वहांके राजाने बड़ी फ़ौज लेकर मुकाबला किया, लेकिन अहमद विजयी हुआ— राजा हारकर जूनागढ़में जा छिपा और बादशाहको खिराज देना कबूल कर लिया. इसी वर्षमें अहमदने गैर मजहबी लोगों पर जिज़िया (मजहबी टैक्स)

(१) अहसान करनेवाले खुदाकी तरफ़से मदद पायाहुआ धर्म और दुनियाका सूर्य बड़ा कर्तवी और साहसी मुजफ्फरशाह.

(२) गुजरातकी तवारीख़ मिरात सिकंदरी व तारीख़ फ़रिश्ताके देखनेसे ज़फ़रखांके मरनेके सन्में फ़र्क़ मालूम होता है— याने मिरात सिकंदरीमें हि० ८१३ और फ़रिश्तामें—८१४; इसी तरह और भी कितने ही सन् वा सम्बतोंमें एक आध वर्षका अन्तर रहता है— परन्तु हमने फ़रिश्ताको मौतबर समझ उसीके मुवाफ़िक़ लिखा है.

जारी किया. हि० ८१९ [विक्रमी १४७३ = ई० १४१६] में अहमद बहुत से मंदिर और मूर्तियों को तोड़ता हुआ नागौर होकर अहमदाबाद वापस चला आया. हि० ८२१ [विक्रमी १४७५ = ई० १४१८] में अहमदशाहका होशंगसे मुकाबला हुआ, परंतु इसवक भी होशंग भाग गया. हि० ८२३ [विक्रमी १४७७ = ई० १४२०] में अहमदशाहने चांपानेरके राजा पर चढ़ाई कर उससे हमेशाके वास्ते खिराज लेना ठहराया. फिर दो वर्ष पीछे हि० ८२५ [विक्रमी १४७९ = ई० १४२२] में मांडूको आघेरा; छः महीने तक मुहासरा रक्खा, परंतु किला होशंगके कब्जेसे न निकल सका; तब मालवेके लोगोंको लूटता मारता वापस अहमदाबाद चला गया. हि० ८३० [विक्रमी १४८४ = ई० १४२७] में अहमदने ईडरके राव पूजा पर चढ़ाई की. राव बादशाह की फौजसे लड़ता हुआ एक पहाड़के नीचे पहुंचा था कि उसका घोड़ा बादशाही हाथी से चमककर एक गहरे खड्डेमें जापड़ा; जिससे वह तो घोड़े समेत गिर कर मर गया, और उसके बेटेने अहमदशाहको खिराज देना स्वीकार कर लिया; इसतरह ईडरका हाल सुनकर हि० ८३३ [विक्रमी १४८७ = ई० १४३०] में राजा कान्हा और जालवाड़ेका राजा अपना अपना राज्य छोड़ बुरहानपुर चले गये; और नसीर-खांकी सिफारिशसे दक्षिणके बहमनी (सुल्तान अहमदशाह) बादशाहकी मदद लेकर पीछे आये; परन्तु गुजराती शाहजादेसे, जो इनपर चढ़ आयाथा शिकस्त खाकर फिर भी उन्हें भागना ही पड़ा. गुजराती फौजने बहमनी लश्करका यहां तक पीछा किया कि दक्षिणी बादशाहको अपनी राजधानी छोड़ महायम नाम टापूमें जाना पड़ा; परन्तु वहांसे भी थोड़े दिनोंपीछे अहमदशाह गुजरातीने मारकर निकाल दिया.

यहांसे चलकर हि० ८३६ [विक्रमी १४९० = ई० १४३३] में अहमद शाह गुजरातीने मेवात और नागौरकी तरफ चढ़ाई की; रास्तेमें डूंगरपुरसे कुछ तुहफे लेकर मेवाड़के इलाकेमें देलवाड़ा व कैलवाड़ा ग्रामके पास लूट खसोट करता हुआ नागौरकी तरफ होकर अहमदाबादकी ओर चला गया. यह बादशाह हि० ८४२ [विक्रमी १४९५ = ई० १४३८] में होशंगके पोते, गजनीखांके बेटे, मसऊद की मददको मांडूके नये बादशाह महमूदखिलजी पर चढ़ा, जो मांडूके असली वारिस मसऊदको निकालकर बादशाह बन गयाथा. परंतु कुछ लड़ाई होनेबाद लश्कर में बवा (मरी) फैलने व खास अपने बीमार होजानेसे वापस चला आया. हि० ८४६ तारीख ४ रबिउस्सानी [विक्रमी १४९९ भाद्रपद शुक्ल ६ = ई० १४४२ ता० १३ अगस्त] को अहमदशाह इस दुनियासे कूच कर गया.

मुहम्मदशाह पहिला.

अहमदशाहके मरने बाद उसका बड़ा बेटा मुहम्मदशाह तख्त पर बैठा. इसने पहिलेपहल ईडर और डूंगरपुर पर चढ़ाई की और कुछ नज़र लेकर पीछा लौट आया; फिर हि० ८५४ [वि० १५०७ = ई० १४५०] में इसने चांपानेरको जा घेरा. वहांके राजा गंगदासने मालवेके बादशाह महमूद खिलजीको अपनी मदद पर बुलाया, जिसके डरसे गुजराती बादशाह भागकर अहमदाबाद चला गया. कुछ दिनों पीछे महमूद खिलजी एक लाख फौज लेकर गुजरातपर चढ़ा जिससे मुहम्मद गुजरातीने अहमदाबाद छोड़कर भागजाना चाहा. उसवक्त इसके कायर पनेसे गुजराती सदांरोंने शर्मिन्दा होकर उसे जहर देदिया, जिससे मुहम्मद शाह हि० ८५५ ता० ७ मुहर्रम [विक्रमी १५०७ फाल्गुन शुक्ल ९ = ई० १४५१ ता० १० फेब्रुअरी] को मरगया—

कुतुबुद्दीन.

मुहम्मदशाहके मरने बाद उसका बेटा कुतुबुद्दीन तस्तनशीन हुआ. यह हि० ८३५ ता० ८ जमादिउस्सानी [विक्रमी १४८८ फाल्गुन शुक्ल १० = ई० १४३२ ता० ११ फेब्रुअरी] को पैदाहुआ था. इसके बादशाह होनेकी खबर सुन महमूद खिलजीने भी मातमी दस्तूर (शोकका खत वगैरह) अदा किया, परंतु लड़ाई का इरादा न छोड़ा. कुतुबुद्दीनने अहमदाबादसे निकल कर मुकाबला किया और लड़ाई होने पर महमूद खिलजी भाग गया. हि० ८६० [विक्रमी १५१३ = ई० १४५६] में कुतुबुद्दीनने मेवाड़के महाराणा कुंभापर चढ़ाई की, क्योंकि नागौरके हाकिम फ़िरोज़खांके मरनेपर मसऊदखां, फ़िरोज़खांके बेटे शम्सखांको निकाल कर खुद हाकिम बनगया था, और उस वक्त महाराणाने शम्सखांकी सहायता करके उसको फिर नागौरका हाकिम बनादिया, जिसका ब्यौरेवार हाल महाराणाकुंभाके वृत्तांतमें लिखा है.

कुतुबुद्दीन नागौरकी मददपर कुंभलमेर पहुंचा, और वहांसे बहुतसी लड़ाइयां होने बाद सुलह करके चलागया; फिर दुबारा महमूद खिलजीसे दोस्ती करके चांपानेर में (शपथपूर्वक) अहद (नियम) किया कि “दोनों बादशाह एकसाथ मेवाड़पर चढ़ाई करें”. इस शर्तके मुवाफ़िक़ दोनोंने चढ़ाई की, परन्तु उसवक्त भी दोनों बादशाह लड़ाई भगड़ोंके बाद सुलह करके वापस लौटगये; फिर तीसरी बार हि० ८६१ [वि० १५१४ = ई० १४५७] में नागौरकी मदद करनेको कुतुबुद्दीन मेवाड़ पर चढ़ा उस मौकेपर भी पहिलेके समान सुलह करके चलागया.

मेवाड़की इन लड़ाइयोंका हाल महाराणा कुम्भाके वृत्तांतमें ब्यौरेवार लिखा है. इस बारेमें राजपूतानेकी व फ़ारसी तवारीखोंमें बहुत अन्तर होनेके कारण सही सही हाल जानना बहुत कठिन है; हमने मेवाड़की इन लड़ाइयोंका हाल और उनके विषयमें अपनी राय, महाराणा कुम्भाके प्रकरणमें लिखी है. हि० ८६३ ता० २३ रजब [विक्रमी १५१६ आपाढ़ कृष्ण ९ = ई० १४५९ ता० २६ मई] को कुतुबुद्दीनका देहान्त हुआ. इस बादशाहको ज़हर देकर मारडालनेके शकमें नागौरका हाकिम शम्सखां, जो कुतुबुद्दीनका श्वशुर था कत्ल किया गया. शम्सखांकी बेटीको भी इसी शुबहसे हरमखाने (ज़नाने) की लौंडियोंने मारडाला, और कुतुबुद्दीनके काका दाऊदखांको तरस्त पर बिठाया—

दाऊदशाह.

दाऊद तरस्तपर बैठतेही कमीने (नीच) लोगोंकी इज़्ज़त बढ़ानेलगा, जिससे सर्दारोंने उसको एक ही हफ्ते में खारिजकरके कुतुबुद्दीनके छोटेभाई महमूदको गुजरात का मालिक बनादिया.

महमूद पहिला.

महमूद के तरस्तनशीन होतेही कई सर्दारोंने इमादुल्मुल्क वज़ीरकी अदावत के सबब बादशाहके छोटे भाई हसनखांको बादशाह बनानेके लिये बगावत की; तब लाचार होकर बादशाहने उन सर्दारोंके दिल खुश करनेके लिये अपने वज़ीर इमादुल्मुल्क को कैद करके कुछ असें बाद छोड़दिया और मौका पाकर बागी सर्दारोंको कत्ल करडाला. फिर इमादुल्मुल्कके बेटे शहाबुद्दीनको मलिकुशर्फ़ (इज़्ज़तदार सर्दार) का खिताब दे वज़ीर बनाया और इमादुल्मुल्क को उसकी दरखास्तके मुवाफ़िक़ पेन्शन देदी. हि० ८६७ [विक्रमी १५२० = ई० १४६३] में निज़ाम शाह बहमनी (दक्षिणी) पर महमूदने चढ़ाई की. महमूद गुजराती (१) निज़ाम शाहकी मदद पर पहुंचा, और वहांसे महमूद खिलजी (मालवी) को भगाकर पीछा गुजरात चला गया. इसीतरह दूसरे वर्ष भी महमूदखिलजीने दक्षिणियों पर चढ़ाई की, परंतु गुजराती बादशाहको उनकी मदद पर आते सुन यह वापस चला आया.

हि० ८७१ [विक्रमी १५२३ = ई० १४६७] में महमूदने गिरनारके राजा मंडलीक जादव पर, जिसको फ़रिश्तह वग़ैरहने राव लिखा है, चढ़ाई की.

(१) इस महमूदको महमूद बेगड़ा (गढ़ा) भी कहते हैं— गुजराती बोलीमें बे दोको कहते हैं इससे बेगड़ा का अर्थ दो गढ़ (चांपानेर और जूनागढ़) का मालिक जानना चाहिये.

मुकाबला होने बाद पहिले तो राजपूतोंने सामना किया, परंतु कुछ देर पीछे किलेमें जा छिपे; महमूदने किलेको घेरलिया और लड़ाई होने बाद नजराना व खिराज लेकर अहमदाबादको लौटगया. इस किलेको उस समयके पहिले अहमद गुजराती और दिल्लीके मुहम्मद तुगलकके सिवाय और किसीने नहीं फतह कियाथा.

हि० ८७२ [विक्रमी १५२४ = ई० १४६७] में महमूदने राजा मंडलीक पर दुबारा चढ़ाई की; इसवक्त भी राजाने बहुतसे जवाहिरात देकर फौजको वापसकिया. तीसरी बार फिर हि० ८७४ [विक्रमी १५२६ = ई० १४६९] में महमूदने जूनागढ़ पर हमलाकिया, उसवक्त राजपूतोंने किलेसे निकलकर बहुतसी लड़ाइयां कीं; परंतु अन्तमें राजा मंडलीक किला छोड़कर गिरनारके पहाड़ोंमें चलागया; तब भी महमूद ने पीछा न छोड़ा जिससे लाचार हो राजाको बादशाहके पास आकर मुसल्मान (१) होनापड़ा; महमूदने अपने सर्दारोंमें उसको दाखिलकर, खाने जहांका खिताब व बहुतसी जागीर दी और आप जूनागढ़में रहनेलगा. हि० ८८० [विक्रमी १५३२ = ई० १४७५] में जगत बन्दर (द्वारिका पुरी) के राजा भीमने एक समकंदी मुल्लाका असबाब लूटलिया. उसके पुकारू आनेपर महमूदने चढ़ाई की और लड़ाई होने बाद बहुतसे मंदिर व मूर्तियां तोड़कर द्वारिकामें अपना कब्जा किया. राजा भीम तिब्बत नामके एक टापूमें भागगया, परंतु महमूदने वहा जाकर बड़ी लड़ाई की और भीमको गिरिफ्तारकर मरवा डाला. हि० ८८८ के सफर [विक्रमी १५४० चैत्रशुक्ल = ई० १४८३ मार्च] में महमूदने चांपानेर पर चढ़ाई की. वहाके राजा जयसिंह चौहानने जिसको फारसी तवारीखोंमें पताई उदयसिंहका बेटा, और रासमाला व "पचमहाल" के ग्याजेटियरमें नाम तो जयसिंह और पताई खिताब लिखाहै— वहाके राजपूतों समेत बड़ी लड़ाइयां कीं, परंतु आखिरमें हि० ८८८ तारीख ७ सफर [विक्रमी १५४० चैत्रशुक्ल ८ = ई० १४८३ ता० १६ मार्च] को कैद होकर मुसल्मानोंके हाथसे मारागया.

(१) गुजरातकी तवारीखोंमें लिखा है कि १९०० वर्ष तक जादवोंकी हुकूमत गिरनार पर रही. तबकात अकबरी और तारीख फरिश्तह वगैरह फारसी किताबोंमें हि० ८७५ के गुरु मुहर्रम [विक्रमी १५२७ = ई० १४७०] में राजा मंडलीकका मुसल्मान होना लिखा है; परंतु हमको एक प्रशस्ति हि० ९०२ [विक्रमी १५५४ = ई० १४९७] की मिली है- (नकल शेष संग्रहमें नम्बर २ देखो) जिसमें महाराणा कुम्भाकी बेटी रमाबाई और उनके पाति मंडलीककी प्रशंसा महेश्वर पंडित उन दोनोंके सामने करता है; और प्रशस्तिके देखनेसे यह भी पाया जाता है कि उस वक्त तक मंडलीक गिरनार पर राज करता था— कदाचित् इस संवत् के पीछे मुसल्मान हुआ हो— परंतु हम यह भी नहीं कह सक्ते कि सब ग्रन्थकारोंने ग़लती खाई— इसलिये इस बातको हम दूसरे विद्वानोंकी राय पर छोड़ते हैं.

ये राजा चौहान राजपूतोंकी शाखमें खीची गोतके थे. राजा पालनदेवने चांपा नाम भीलसे चांपानेरका किला लिया, जिसके पीछे वहां नीचे लिखेहुए राजा अनुक्रमसे राज करते रहे :—

१ पालनदेव २ रामदेव ३ चांगदेव ४ चर्चिंगदेव ५ सोनंगदेव ६ पालनसिंह ७ जीतकरण ८ कंपूरावल ९ वीरधवल १० शिवराज ११ राघवदेव १२ त्रिंबकभूप १३ गंगदास १४ जयसिंहदेव. इस जयसिंहदेवके वंशके लोग छोटे उदयपुर व देवगढ़ बारियामें राज्य करते हैं, जो गुजरात प्रांतके राजाओं में गिने जाते हैं.

(छोटा उदयपुर.)

जयसिंहदेवका बेटा रायसिंह अपने पिताके सामने ही दो बेटे (पृथुराज और डूंगरसिंह) छोड़कर मरगयाथा. जयसिंहदेव मुसलमानोंके हाथसे क़ल हुआ, तब पृथुराजने मोहनमें अपना राज्य जमाया. इनके वंशमें कई पीढ़ियों पीछे बाजीरावल राजा हुआ. उसने छोटे उदयपुरको अपनी राजधानी बनाया; जिसके समयमें मुसलमानी हुकूमत दुर्बल और मरहटे प्रबल होगयेथे. बाजीरावलके पीछे दुर्जनसिंह, अमरसिंह, अभयसिंह और रायसिंह क्रमसे गादी बैठे. रायसिंहका देहांत विक्रमी १८७६ [हि० १२३४ = ई० १८१९] में होनेपर पृथुराज गादी बैठे; इनके समय विक्रमी १८७९ [हि० १२३७ = ई० १८२२] में यह राज्य गायकवाड़ी हुकूमतसे निकलकर ब्रिटिश गवर्नमेंटके आधीन हुआ; फिर कुछ दिनों पीछे पृथुराजका देहांत होगया.

पृथुराजके पीछे उनके भाइयोंमेंसे गुमानसिंह गादीबैठे, और २९ वर्ष राज्य कर विक्रमी १९०८ [हि० १२६७ = ई० १८५१] में निस्सन्तान मरगये; तब इनके भाई के बेटे जीतसिंह गादीबैठे- इनके वक्तमें हिन्दुस्थानी बागियोंके साथ तांत्या टोपे (१) आया और शहरको लूट खसोट बरबाद कर मुकाबलेके वक्त भागगया. यह राजा सात बेटे और छः बेटियां छोड़कर विक्रमी १९३८ [हि० १२९८ = ई० १८८१] में मरा और उसका बड़ा बेटा मोतीसिंह गादी बैठा, जो इस समय राज्य करताहै. यह राज्य पहाड़ी घाटियोंमें ५६५ गांव और (२५००००) ढाई लाख रुपया सालियाना आमदनीका है. इस राज्यसे १०५०० रुपया खास राज्यके, और ६२० गरासिये भूमियों के एवजमें अंग्रेजी सरकारके द्वारा गायकवाड़ सरकारको वर्षोंदी खिराज वगैरहकी तरह पर दिया जाताहै- यहांके राजाकेलिये सरकार अंग्रेजकी तरफसे ९ तोपोंकी सलामीहोतीहै.

(१) यह मरहटा पेशवाका ज्ञात बिरादर था और सरकारी पेशानदार होकर विदूरमें रहता था. ई० १८५७ के बलवेमें इसकी बगावत प्रसिद्ध है.

(देवगढ़ बारियाका राज्य.)

चांपानेरके राजा जयसिंह देवके पोते डूंगरसिंहने महमूदके हाथसे अपने दादा के मारेजाने पीछे बड़ी लूट खसोट और बहादुरीसे अपना राज्य जमाया. इसकी गादी पर अनुक्रमसे उदयसिंह, रायसिंह, विजयसिंह और मानसिंह बैठे; विक्रमी १७७७ [हि० ११३२ = ई० १७२०] में मानसिंह तो मरगया, और एक मुसल्मान बिलूचने बारिया पर कब्ज़ा करलिया. मानसिंहकी राणी अपने बेटे पृथुराज को लेकर डूंगरपुर आई; बारह वर्ष तक वहां रहकर विक्रमी १७९३ [हि० ११४९ = ई० १७३६] में पृथुराजने डूंगरपुरकी मदद ले, बारियासे मुसल्मानोंको निकाल कर वहां एक क़िला बनाया; जिसको देवगढ़ बारिया वा देवका क़िला कहतेहैं. इनके मरने बाद रायधर, गंगदास, गंभीरसिंह, धीरतसिंह, साहबसिंह और जशवन्तसिंह क्रमसे गादी बैठे. विक्रमी १८६० [हि० १२१८ = ई० १८०३] में यह रियासत जशवन्तसिंहके समय मरहटोंके कब्ज़ेसे निकली और सरकार अंग्रेजके आधीन होकर अहदनामा हुआ. इसके पीछे गंगदास गादी बैठा, जिसका देहान्त विक्रमी १८७६ [हि० १२३४ = ई० १८१९] में हुआ और उनका बेटा पृथ्वीराज राज्यका मालिक बना. तब विक्रमी १८८१ [हि० १२३९ = ई० १८२४] में एक दूसरा अहदनामा सरकार अंग्रेजके साथ हुआ. विक्रमी १९२१ [हि० १२८१ = ई० १८६४] में पृथ्वीराजका देहान्त हुआ, और उसका बेटा मानसिंह गादी बैठा; जो अब राज्य करताहै. यह राज्य, चौहान(खीची) राजपूतोंका रेवाकांठ की रियासतोंमें (१७५०००) पौने दोलाख रुपया सालियाना आमदनीकाहै; जिसमें ४१५ गांवहैं. रियासतकी तरफसे १२००० रुपया सालाना अंग्रेज सरकारको खिराजके तौरपर दियाजाताहै. इस रियासतकी सलामी सरकार अंग्रेजसे ९ तोपोंकी होती है.

महमूदने (१) चांपानेर पर कब्ज़ा करके उसका नाम मुहम्मदाबाद चांपानेर रक्खा. हि० ८९२ [विक्रमी १५४४ = ई० १४८७] में सिरोहीके रावने सौदागरोंके ४०० चार सौ घोड़े छिन लिये थे; महमूदशाहने उनकी फ़र्याद सुनकर रावको लिखा कि इनके घोड़े वगैरह जो माल असबाब हो फ़ौरन देदो, नहीं तो सिरोही पर चढ़ाई होगी; जिससे रावने डरकर सौदागरोंका असबाब उनके सपुर्द करदिया. हि० ९०० [विक्रमी १५५२ = ई० १४९५] में दक्षिणके बादशाह महमूदके सर्दार

(१) प्रसंग देख छोटा उदयपुर व बारियाके राज्यका हाल भी आवश्यक जान महमूदके वर्णन में ही संक्षेपसे लिखा है.

बहादुर गीलानीने बागी होकर गोआ व बायलके बंदरोंपर कब्जा करलिया और वह गुजरातका मुल्क लूटने लगा, तब महमूद गुजरातीने सफ़दरुल्मुल्कको जहाजी फौज देकर उसका मुकाबला करनेके लिये भेजा; परन्तु दर्याई तूफ़ानसे फौज घबरा गईथी, जिससे बहादुर गीलानीने उसको कैद करलिया. यह खबर महमूद बहमनी को गुजराती बादशाहसे मिली. उसने अपने बागीपर फौज भेजकर उसे क़त्ल किया, और सफ़दरुल्मुल्कको सामान व जहाजी फौज समेत गुजरात भेजदिया.

दूसरे वर्ष महमूदने ईडर और वागड़के राजाओं पर चढ़ाई की. ईडरके राव सूर्यमल्ल और वागड़ (डूंगरपुर) के रावल सोमदासने बहुतसी दौलत देकर उससे पीछा छुड़ाया. हि० ९०५ [विक्रमी १५५६ = ई० १४९९] में निजामुल्मुल्कने दौलताबाद पर चढ़ाई की, तब महमूद दौलताबादकी मदद पर खाने हुआ. यह खबर सुनकर निजामुल्मुल्क वापस लौटगया और महमूद अपने मुल्कमें चला आया. फिर हि० ९०६ [विक्रमी १५५७ = ई० १५००] में महमूदने सुना कि बहमनी खानदानके नौकर मुल्क दबाकर खुद मुस्तार होगये हैं, जिससे वह भी अपने सदर्नोंसे खौफ़ खाकर अहमदाबाद आया और बहुतसे घमंडी सदर्नोंको इस शुबह पर कैदक़त्ल किया कि कदाचित् वे लोग भी उसके बाद उसकी औलादसे बहमनी खानदानके मुवाफ़िक़ बर्ताव न करें. हि० ९१३ [विक्रमी १५६५ = ई० १५०८] में फ़रंगियोंके जहाज़ गुजरातके बंदरोंमें ठहरनेके इरादेसे चलेआते थे, और उनके पीछे सुल्तान रूमके जहाज़ लगेहुए थे; महमूदशाहने अपने नौकर अयाज़ को जहाजी फौज देकर रूमियोंकी मददके लिये भेजा. बम्बईके करीब चोल बंदर पर रूमि व गुजराती मुसलमानोंसे पोर्चुगीज़ोंकी लड़ाई हुई. तारीख़ फ़रिश्तह व तबक़ात अकबरी में लिखाहै कि इस लड़ाई में ४०० रूमि मुसलमान और ३००० के करीब फ़रंगी मारे गये; मुसलमानोंकी जहाजी तोपसे पोर्चुगीज़ोंका एक बड़ा जहाज़ जिसमें (१०००००००) एक करोड़ रुपयोंका माल और उनका अफ़सर सवार था टूटकर समुद्र में डूबगया. बचेहुए फ़रंगियोंमेंसे कुछ भागगये और बाकी रहे जिनको अयाज़ गुजराती उन के माल असबाब समेत कैदकर लाया. महमूदशाह गुजराती अपने बंदरोंका पुरूता इन्ति-जामकर मुहम्मदाबाद चांपानेर चलाआया. फ़ॉर्ब्स साहब गुजरातकी हिस्टरी " रास-माला " में इन फ़ारसी तवारीख़ों (तारीख़ फ़रिश्ता व ग़ैरह) के अनुसार ही लिखतेहैं, परन्तु हैरिसके सफ़रनामे [अब्बल जिल्द, ६७० पृष्ठ] से फ़ारसी तवारीख़ोंके बयानमें फ़र्क़ मालूम होताहै, इसलिये उसका तर्जुमा नीचे लिखतेहैं—

“ ई० १५०८ [विक्रमी १५६५ = हि० ११३] में ट्रिस्टैनडी स्टैकुनहा पंद्रह जहाजोंके साथ जंजीबारके किनारेपर गया. उसने मलिंदाके बादशाहको उसकी बागी रैयतके बरखिलाफ़ मदददी; फिर होइया व ब्रेवाके शहरोंको जलाकर जकोट्टा की तरफ़ गया और उस टापूकी राजधानीको जीतकर वहां थोड़ीसी फौज छोड़ दी और आप बहुत जल्दीके साथ मलाबारको गया; वहां आलमेड़ाके जहाजोंसे मिलकर पोर्चुगीज़ क्यालिकटके लोगोंसे, जिनकी मददकेलिये अरबसे जहाज़ आयेथे, लड़ने गये, औरउनको पनानशहरके सामने शिकस्तदी. थोड़े दिनोंपिछे पोर्चुगीज़लोगोंने बम्बईके पास चोल बन्दरमें मिसरके सुल्तान केम्सनके जहाजोंसे, जो क्यालिकट वालोंकी मदद पर आये थे, लड़कर उनको बिलकुल बरबाद किया, और हर जगह फ़तहयाब हुए. लेकिन आलमेड़ाका बेटा लॉरेन्सडी आलमेड़ा खंभात और मिसरके जहाजोंसे बहादुरीके साथ लड़ते समय तीरसे मारागया. इस नौजवान बहादुरकी लाश नहीं मिली; उसके बापने जहाज़ी लोगोंके वापस जाने पर उसके मरनेकी ख़बर सुनकर बड़े साहस (मजबूत दिल) के साथ इतना ही कहा कि “ मेरा बेटा अपने मुल्ककी खैरस्वाही में मरा यह उसके लिये बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि इससे बढ़कर और कोई काम नाम्मवरीका नहीं है” (1).

इन्हीं दिनोंमें बरार देशका बादशाह दाऊदशाह फ़ारूकी (जिसकी राजधानी आसीरगढ़में थी) के मरजानेसे उसके वारिसोंमें फ़साद खड़ा हुआ. उस वक्त महमूद गुजरातीसे उसके दौहित (नवासे) आदिलखांने बरार मुल्क लेनेके लिये मदद मांगी; क्योंकि वहांके सर्दारोंने मुबारकखांके बेटे आलमखांको गादी पर बैठादिया था. इस पर महमूदने चढ़ाई की, और आदिलखांको “ आजमहुमायुं ” खिताबके साथ बरारका बादशाह बनाकर आप वापस लौटगया.

बरार. (आसीरके फ़ारूकी बादशाह)

मलिकराजा फ़ारूकी.

बरारके बादशाह फ़ारूकी कहलाते थे, क्योंकि हज़रत मुहम्मदके दूसरे ख़लीफ़ा उमरको पैग़म्बरने फ़ारूक (२) का खिताब दिया था, जिससे उनकी औलाद फ़ारूकी कहलाई. इस बादशाहतका मूल पुरुष (मूरिस आला) मलिकराजा फ़ारूकी था,

1 John Harris's Collection of Voyages and Travels. Vol 1. P. 670.

(२) फ़ारूकका अर्थ “ झूठ (दूसरे मज़हब) और सच (दीन इसलाम)में फ़रक़ करनेवाला.”

जिसको हि० ७७६ [विक्रमी १४३१ = ई० १३७४] में फ़ीरोज़शाह तुग़लक़ने ख़ानदेशमें इज्जतके साथ जागीर दी थी; लेकिन बकलानेके राजा भरजी पर फ़तह पानेके सबब कुछ ख़ानदेशका अप्सर बनादिया. हि० ८०१ ता० २२ शाबान [विक्रमी १४५६ ज्येष्ठ कृष्ण ८ = ई० १३९९ ता० १० मई] को मलिकराजा फ़ारूकी अपने बेटे मलिक नसीरको वलीअहद बनाकर मरगया.

नसीरख़ां.

मलिक नसीरने अपना लक़ब नसीरख़ां रखकर खुतबा व सिक्का अपने नामका जारी किया, और आसा नामके एक अहीरसे आसीर (१) का क़िला छीना. इसके बाद बहमनी बादशाह अहमदशाहने हि० ८४१ [विक्रमी १४९४ = ई० १४३७] में नसीरख़ांसे आसीरका क़िला छिनलिया; इसी सन्में मुल्क निकल जानेके रंज से नसीरख़ां ज़िले गोड़वानेमें मरगया.

आदिलख़ां.

मलिक नसीरका बेटा मीरां आदिलख़ां फ़ारूकी, गुजराती बादशाहोंकी मददसे दक्षिणियोंको निकालकर बरारका मलिक हुआ, और हि० ८४४ ता० ८ ज़िलहिज शुक्र [विक्रमी १४९८ वैशाख शुक्र १० = ई० १४४१ ता० १ मई] को मारागया (२).

मुबारकख़ां.

आदिलख़ांके पीछे उसका बेटा मुबारकख़ां फ़ारूकी बुरहानपुर (बरार) का बादशाह बना; और हि० ८६१ ता० १२ रजब [विक्रमी १५१४ ज्येष्ठ शुक्र १३ = ई० १४५७ ता० ६ जून] को मरगया.

ऐना आदिलशाह.

मुबारकख़ांके बेटे मीरां ऐना आदिलशाह फ़ारूकीने जो उसके बाद तरुतपर बैठा, आसीरके क़िलेका दोहरा कोट व दरवाज़े बनवाये, और अपना नाम भाड़खंडी सुल्तान रक्खा. हि० ८९७ ता० १४ रविउलअव्वल [विक्रमी १५४८ माघ शुक्र १५ = ई० १४९२ ता० १४ जान्युअरी] को उसका देहान्त हुआ.

(१) यह क़िला उसी आसा अहीरका बनायाहुआ था, और उसके नाम (आसा अहीर) से बिगड़कर आसीर कहलाता है. यह मुल्क सात सौ वर्षसे इसीके वंशके कब्ज़ेमें चला आया था.

(२) पता नहीं मिलता कि यह किस जगह मारा गया— फ़रिश्ता वगैरह फ़ारसी तवारीख़ोंके मुबारिख़ोंने इस हालसे नावाक़फ़ी ज़ाहिर की है.

मीरां दाऊद और मलिकफारिख.

ऐना आदिलशाहके कोई बेटा न होनेसे सर्दारोंने उसके भाई मीरां दाऊद को गादीपर बिठाया, परंतु महमूद गुजरातीने उसे निकालकर अपने दौहिट (नवासे) मलिक आदिलखां फ़ारूकी को, बादशाह बनाया. यह किसी बीमारीसे हि० १२६ ता० १० रमज़ान [वि० १५७७ भाद्रपद शुक्ल १२ = ई० १५२० ता० २७ ऑगस्ट] को परलोक सिधारा.

मीरां मुहम्मदशाह फ़ारूकी.

आदिलखांके पीछे उसके बेटे मीरां मुहम्मदशाह फ़ारूकीने राज किया. जब हुमायूँने बहादुरशाहको शिकस्त दी, तब निज़ामशाह दक्षिणीकी सुफ़ारिशसे मुग़लिया सर्दार आसिफ़ख़ाने, मीरां मुहम्मदशाह फ़ारूकीको जो गुजरातियोंका हिमायती था, कुछ नहीं कहा; फिर हुमायूँ बादशाह तो अफ़ग़ानोंके फ़सादसे आगरेकी तरफ़ गया और बहादुरशाह गुजराती देवके टापूमें पोर्चुगीजोंके हाथसे मारा गया. जब उसकी औलादमें कोई न रहा, तब गुजराती सर्दारोंने इसी मीरां मुहम्मदशाह फ़ारूकी को अपना बादशाह मानकर इसके नामका सिक्का व ख़ुत्बा जारी किया; परन्तु वह गुजरातका बादशाह बनकर अहमदाबाद जाते समय रास्तेमें बीमार होकर हि० १४३ ता० १३ जिल्काद [विक्रमी १५९४ वैशाख शुक्ल १४ = ई० १५३७ ता० २५ एप्रिल] को मर गया.

मीरां मुबारकशाह फ़ारूकी.

मुहम्मदशाहके कोई बेटा बादशाहतके लायक नहीं था, इसलिये उसका भाई मीरां मुबारकशाह बरारका बादशाह हुआ और बहादुरशाहकी जगह उसके भतीजे मुहम्मदशाहको गुजराती सर्दारोंने गुजरातका मालिक बनाया. मीरां मुबारकशाह हि० १७४ ता० ६ जमादिउल्आख़िर [विक्रमी १६२३ पौष शुक्ल ८ = ई० १५६५ ता० २० डिसेंबर] को मर गया.

मीरां मुहम्मदशाह फ़ारूकी दूसरा, व हसनखां फ़ारूकी.

मुबारकशाहके मरे पीछे उसका बेटा मीरां मुहम्मदशाह बादशाह हुआ, और हि० १८४ [विक्रमी १६३३ = ई० १५७६] में उसके मर जाने पर उसका लड़का हसनखां फ़ारूकी गादीपर बैठाया गया.

मीरां राजे अलीखां फ़ारूकी.

हसनखांके तस्तपर बैठते ही मीरां राजे अलीखां फ़ारूकी, जो दिल्लीके बादशाह अकबरके सर्दारोंमें था, अपने भतीजे हसनखांको निकाल कर बरारका बाद-

शाह बन गया. खानखाना अब्दुरहीम के साथ बादशाह अकबरने निजाम-शाहपर जो फौज भेजी, उसमें मलिक राजेअलीखां फारूकी भी था, सो लड़ाईमें तोपका गोला लगनेसे हि० १००५ [विक्रमी १६५३ = ई० १५९६] में मर गया.

बहादुरखां.

राजेअलीखांके बाद बहादुरखां फारूकी बरारका मालिक हुआ, लेकिन उसकी कमअकली, नशेबाजी व बुरी आदतोंके सबब बादशाह अकबरने हि० १००८ [विक्रमी १६५६ = ई० १५९९] में बरारका मुल्क छिन कर उसे कैद कर लिया. इसी वक्तसे बरारदेशमें फारूकी खानदानकी समाप्ति हुई. (१)

महमूद गुजरातीके पास, जिसका हाल हम ऊपर लिखआये हैं, हि० ९१६ [विक्रमी १५६७ = ई० १५१०] में दिल्लीके बादशाह सिकन्दर लोदीने दोस्ती और मुहब्बतके तौर पर कुछ सौगात भेजी. इसके पहिले दिल्लीके किसी बादशाहने गुजराती बादशाहोंके साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया था. हि० ९१७ ता० २ रमजान [विक्रमी १५६८ मार्गशीर्ष शुक्ल ४ = ई० १५११ ता० २५ नोवेम्बर] को महमूद बेगड़ा मर गया, और उसका बेटा मुजफ्फरशाह गुजराती तख्त-नशीन हुआ.

मुजफ्फरशाह.

हि० ८७५ ता० २० शव्वाल [विक्रमी १५२८ वैशाख कृष्ण ६ = ई० १४७१ ता० १२ एप्रिल] को इसका जन्म हुआ था. इसके शुरू जुलूस (गादी उत्सव) में ईरानके बादशाहकी तरफसे एक एल्ची यादगारबेग कज़लबाश तुहफे लाया; इसी वर्ष ईडरके राव भीमदेवने बखेड़ा उठाया, और मुजफ्फरने उस पर चढ़ाई की; राव भीमदेव पहाड़ोंमें भाग गया था, लेकिन मुजफ्फरके तसल्ली देने पर फिर आ जमा. हि० ९२१ [विक्रमी १५७२ = ई० १५१५] में भीमदेवका देहान्त हुआ और उसका बेटा भारमल्ल गादीपर बैठा. परन्तु ईडरके पहिले राव सूर्यमल्लका बेटा रायमल्ल जिसको भीमदेवने गादीसे उतार दिया था, महाराणा सांगाकी मददसे भारमल्लको निकाल कर ईडरका आप मालिक

(१) बरार—आसीरकी बादशाहतका हाल प्रसंगगत लिखा गया अब फिर महमूदका शेष वृत्तान्त लिखा जाता है.

बना. भारमल्ल मुजफ्फर शाहके पास गया तब उसी वर्षकी पहिली शव्वाल [मार्ग-शीर्ष शुक्ल २ = ता० १ नोवेम्बर]के दिन मुजफ्फरने निजामुल्मुल्कको फौज देकर भेजा और रायमल्लको निकलवाकर भारमल्लको राज्य दिलवाया; जिससे रायमल्ल बीजानगरके पहाड़ोंमें रहकर मुल्कपर हमला करनेलगा. निजामुल्मुल्क वापस आते समय जहीरुल्मुल्कको १०० आदमियोंके साथ ईडरमें छोड़आया था. वह हि० १२३ [विक्रमी १५७४ = ई० १५१७]में रायमल्लके मुकाबलेमें मारागया; इसी वर्षमें मांडूका बादशाह दूसरा महमूद खिलजी मेदिनीरायके डरसे भागकर अहमदाबाद आया, जिसको महमूद गुजरातीने फिर मांडूका मालिक बनाया. इसी जमानेमें महाराणा सांगाने दुबारा राव रायमल्लकी मदद करके ईडर पर चढ़ाई की थी (१). हि० १३२ ता० २ जमादिउल्अव्वल [विक्रमी १५८२ फाल्गुन शुक्ल ४ = ई० १५२६ ता० १५ फेब्रुअरी] को मुजफ्फरका देहान्त हुआ.

सिकन्दरशाह.

मुजफ्फरके बाद, शाहजादे सिकन्दरको सब सर्दारोंने मिलकर गुजरातका बादशाह बनाया. कई सर्दारोंकी राय लतीफखांको बादशाह बनानेकी थी लेकिन यह बात न होसकी. सिकन्दरने तख्तनशीन होकर अपना नाम 'सिकन्दरशाह' रक्खा. इसने लतीफखां पर, जो अपनी जागीर नदरबारमें रहता था, फौज भेजी, जिससे डरकर वह जिले चित्तौड़के पहाड़ोंमें चलागया, परन्तु उसको वहांके भील और राजपूतोंने उसी जगह १७०० आदमियों समेत मारडाला.

लतीफखां पर सख्ती करनेसे मुजफ्फरी अहदके सर्दार, सिकन्दरशाहसे सफरत करने लगे. निदान इसी सन् हि० के १९ शबान [विक्रमी १५८३ आषाढ़ कृष्ण ४ = ई० ता० ३० मई] के दिन वजीर इमादुल्मुल्क वगैरह सर्दारोंने सिकन्दरशाहको मारडाला.

महमूदशाह दूसरा.

सिकन्दरशाहके पीछे मुजफ्फरशाहके शाहजादे नसीरखांको, जिसकी अवस्था ५ या ६ वर्ष की थी, सर्दारोंने तख्त पर बैठाकर 'महमूदशाह' का खिताब दिया.

नसीरखांकी अवस्था कम होनेके कारण इमादुल्मुल्क ही मुख्तार रहा; जिससे ताजखां वगैरह सर्दारोंने नाराज होकर बहादुरशाहको बुलाया; यह अपने बाप मुजफ्फरकी नाराजगीसे चित्तौड़ होता हुआ दिल्ली चलागया था, सो सर्दारोंके बुलानेसे

(१) यह हाल महाराणा सांगानेके वृत्तांतमें लिखाहै और उसीके साथ मुजफ्फरके शाहजादे बहादुरखांका चित्तौड़ आकर दिल्ली जाना भी वर्ज कियागयाहै.

आते वक्त चित्तौड़ पहुंचा; उस समय इसके दोनों भाई चांदखां व इब्राहिमखां जो पहिलेसे ही अपने बाप (मुजफ्फर) की नाराजगीके कारण चित्तौड़में शरणे आरहे थे, इससे मिले. चांदखां तो वहीं रहा और बहादुरशाह इब्राहिमखांको साथ लेकर डूंगरपुर होताहुआ गुजरातकी ओर गया. रास्तेमें और भी कितने ही सर्दारोंके मिलजानेसे अहमदाबाद पहुंचकर महमूदकी जगह हुकूमत करने लगा.

बहादुरशाह.

यह दिल्लीसे अहमदाबाद पहुंचा और हि० ९३२ ता० १ शव्वाल [वि० १५८३ श्रावण शुक्ल २ = ई० १५२६ ता० १२ जुलाई] को गुजरातके तरुतपर बैठकर दो चार दिनपीछे वहांसे मुहम्मदाबाद (चांपानेर) की तरफ जो उस वक्त गुजरातकी मुख्य राजधानी मानीजाती थी, रवाना हुआ. वहां पहुंचने पर इसने इमादुल्मुल्क वगैरह सिकंदरके मारनेवालोंको बड़ी निर्देयतासे मारकर हि० ता० ११ जिल्काद [वि० भाद्रपद शुक्ल १२ = ई० ता० २० अगस्त] को चांपानेर में बादशाह होने का दुबारा जुलूस (उत्सव) किया. दूसरे वर्ष महमूदशाह भी जो तरुतसे उतारा गया था, मरगया. फिर हि० ९३४ [विक्रमी १५८५ = ई० १५२८] में बहादुरशाह ईडर और बागड़ पर चढ़ाई करके लूट खसोट करता हुआ नजराना लेकर लौटगया; और इसी संवत्में खंभातको फतह कर देवके बन्दरकी तरफ गया; वहां जो यूरोपियन जहाज गिरिफ्तार हुआ था उसमेंके कई अंग्रेजोंको मुसल्मान बनाकर लौट आया; फिर तो बहादुरशाह दिन दिन ज्यादा फतहयाब होने लगा. हि० ९३५ [विक्रमी १५८६ = ई० १५२९] में वह मुहम्मद मीरांशाहकी मददके लिये, जिसको दक्षिणियोंने दवालिया था, चला, और बरार पहुंचकर दौलताबाद तक दक्षिणियों पर धावा किया; लेकिन हि० ९३६ [विक्रमी १५८७ = ई० १५३०] में दक्षिणियोंसे दक्कर गुजरातको फिर चलाआया. हि० ९३७ [विक्रमी १५८८ = ई० १५३१] में देवके बन्दर गया और वहांसे लौट कर बागड़की तरफ लूट मार मचाई; जिससे डूंगरपुरके रावल पृथ्वीराजने ताबेदारी कबूल की, और उसका भाई जगमाल भागकर चित्तौड़ चलाआया. महाराणा रत्नसिंहकी सुफारिशसे बहादुरशाहने जगमालका कुसूर मुआफकर बागड़का इलाका पृथ्वीराज और जगमालको बराबर बांट दिया (१). महमूद खिल्जीने सारंगपुर और मेवाड़पर चढ़ाई की, जिससे महाराणा रत्नसिंह मालवेपर चढ़े; फिर सुल्तान बहादुरशाह गुजरातीने मालवेकी बादशाहत गुजरातमें मिलाकर मांडूपर

(१) इस समय डूंगरपुरमेंसे बांसवाड़ेकी रियासत अलग हुई.

अपना कब्जा करलिया, जिसका कुल्ल हाल मेवाड़ और मांडूके जिक्रमें लिखागया है— (पृष्ठ ३ और १५).

बहादुरशाहने रायसेन पर चढ़ाई की; वहांका राजा सलहदी पूर्विया कई बार किलेसे निकल निकल कर लड़ा. आखिरकार वह बादशाहके पास आकर मुसल्मान होगया; परन्तु उसके बेटे भोपत और पूर्णमल्ल व उसके भाई लक्ष्मणने किला खाली न किया, जिससे बहादुरशाहने सलहदीको दगाबाजी के शकसे कैद किया; तब भोपतने बादशाहसे कहलाया कि “मेरे बापको एक बार किलेमें भेजदें तो हमलोग किला खाली करदें.” बहादुरशाहने ताजखांके साथ सलहदीको किलेमें भेजा, परन्तु उसने किलेमें जाकर अपनी राणी दुर्गावती (१) के धिक्कार वा शर्म दिलानेसे भाई बेटों समेत लड़ाईके लिये तलवार पकड़ी; यह हाल सुनकर बहादुरशाह भी किलेमें आ पहुंचा. कुल्ल राजपूत लड़कर मारेगये और राणी दुर्गावती ३०० स्त्रियोंके साथ आगमें जल गई. बहादुरशाहने रायसेन कब्जेमें कर, काल्पीके हाकिम सुल्तान आलमको चंदेरी समेत जागीरमें देदिया; और इसी सन्के हि० शब्वाल [विक्रमी ज्येष्ठ = ई० मई] में गागरौनका किला जो मांडूकी बादशाहतसे मेवाड़वालोंने दबालिया था हमला करके लेलिया; फिर मंदशोर पर कब्जा करके मांडू होताहुआ पोर्चुगीजोंसे मुकाबलेके वास्ते देव बन्दरमें पहुंचा. हि० १३९ [विक्रमी १५८९ = ई० १५३३] में बहादुरशाहने चित्तौड़को घेरा, और महमूदका जड़ाऊ ताज व कमरपेटा जो महाराणा सांगाने उससे लेलिया था, महाराणा विक्रमादित्यसे लेकर अहमदाबाद चला गया— (पृष्ठ २८). हि० १४१ ता० ४ रमजान [विक्रमी १५९२ चैत्र शुक्ल ५ = ई० १५३५ ता० ८ मार्च] को दुबारा आकर चित्तौड़का किला फतह किया, जिसका मुफ़स्सल हाल ऊपर लिख आये हैं (पृष्ठ २८-३१ देखो). फिर बहादुरशाह मन्दशोर के पास हुमायूंसे शिकस्त खाकर, मांडू होता हुआ पोर्चुगीजोंकी पनाह (देवके टापू) में जा छिपा. हि० १४३ रमजान [विक्रमी १५९३ फाल्गुन = ई० १५३७ फेब्रुअरी] में इसने फ़रंगियोंके अफ़सरको इस मतलबसे अपने पास बुलाया कि कुछ कौल करार करके हुमायूं पर चढ़ाई करे, परन्तु बीमारिके सबब वह अफ़सर न आ सका; तब बहादुरशाह जहाज़में सवार होकर उसके पास गया; जाते समय जहाज़में कुछ धोखा मालूम होनेसे वापस लौटा, लेकिन किशतीके हट जानेसे समुद्रमें गिरपड़ा, और पानीमें ही फ़रंगियोंने उसे बछोंसे मारलिया. इस जगह बहादुरशाह

(१) तारीख़ फ़रिश्तहमें लिखा है कि यह महाराणा सांगाकी बेटी थी.

के साथ मालिक अमीन फारूकी, शुजाअतखां, लंगरखां, अलिफखां, सिकन्दरखां, और मेदिनीरायका भाई गणेशराव आदि मारेगये. तबकात अकबरी व फरिश्तहमें इसी तरह लिखा है, लेकिन हैरिसके सफरनामेका बयान यह है—

“पोर्चुगीज़ अफसर नन्हो डी कुन्हा अपने भाई साइमन डी कुन्हाके साथ जाड़ेका मौसिम मम्बेजामें गुज़ार कर हिंदुस्थानको गया, जहां पर देवके किले और शहरको लेनेके इरादेसे जहाज़ोंके साथ खंभातकी खाड़ीमें पहुंचा; उसके पहुंचते ही वहांके बादशाह बहादुरशाहके पाससे एक एल्ची उसको किला देनेकी खबर लेकर आया. वह किला मिलने पर एंटोनीसिलवैराके सुपर्द करदिया गया.”

“थोड़े ही दिनों बाद खंभातके बादशाहने तुर्कोंके बहकानेसे जो देवको खुद लेना चाहतेथे, पोर्चुगीज़ लोगोंसे वह मुक़ाम लेना चाहा; लेकिन इन्होंने उसको उसके मददगार तुर्कों समेत अच्छी तरह शिकस्त दी; उसके बहुतसे जहाज़ोंको डुबा दिया और लड़ाई में उसको भी घायल किया, उसी ज़रूमसे वह मरगया.” (1)

मीरां मुहम्मदशाह फारूकी— व महमूद गुजराती.

बहादुरशाहके मरनेपर उसकी मा मखदूमा ए जहां, गुजराती सर्दारों समेत अहमदाबाद चलीआई; और वहां आकर सब सर्दारोंकी रायसे मीरां मुहम्मद शाह फारूकीको, जो बहादुरशाहका भान्जा और आसीरका मालिक था, गुजरात का बादशाह बनानेकेलिये बुलाया, और उसके नामका सिक्का व खुतबा जारी किया. परन्तु वह अहमदाबाद आते वक्त रास्तेमें बीमार होकर मरगया, तब गुजराती सर्दारोंने मुज़फ़्फरके पोते, और लतीफखांके बेटे महमूदखांको, जो बहादुर शाहके हुकमसे बुरहानपुरमें कैद था, बादशाह बनानेकेलिये बुलाया.

मीरां मुहम्मदशाह फारूकी के भाई मीरां मुबारकशाहने खुद बादशाह बननेकी नीयतसे महमूदखांको कैदसे निकालनेमें इन्कार किया; जिसपर गुजराती सर्दार चढ़ाई करके महमूदको छुड़ालाये और हि० ९४४ ता० १० ज़िलहिज [विक्रमी १५९५ प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल ११ = ई० १५३८ ता० ११ मई] को अहमदाबादमें तरुतपर बैठाकर उसका लक़ब ‘महमूदशाह’ रक्खा. इस वक्त इस्तिथारखांने वज़ीर बनकर कुल्ल काम अपने हाथमें लेलियाथा; लेकिन हि० ९४५ [विक्रमी १५९५ = ई० १५३८] में इस्तिथारखांको मारकर दर्याखां व इमादुल्मुल्क मुस्तार बनबैठे. फिर इन दोनोंमें भी विरोध होजानेसे दर्याखां शिकारके बहाने महमूदको चांपानेर लेगया और इमादुल्मुल्कने फौज लेकर पीछा किया; परन्तु गुजराती सिपाही महमूद-

से जामिले, जिससे इमादुल्मुल्क तो सुलह करके अपनी जागीर सूरतकी तरफ चला-
गया और महमूद अहमदाबाद आया. हि० ९४७ [विक्रमी १५९७ = ई० १५४०]
में दर्याखां महमूदशाहको इमादुल्मुल्क पर चढ़ा लेगया. जिससे इमादुल्मुल्कने भाग
कर मीरां मुबारकशाह फ़ारूकी का शरणालिया, लेकिन वहां भी गुजरातियोंने शिकस्त
दी. फ़ारूकी बादशाहने तो क़िले आसीरमें जाकर महमूदशाहसे सुलह करली और
इमादुल्मुल्क मालवेमें मल्लूखांके पास चलागया; महमूदशाह लौटकर अहमदाबाद
आया, लेकिन दर्याखांके कुछ कारबार पर मुरतार होजानेसे महमूदशाह बहुत घबराया
और एक दिन अहमदाबादसे पोशीदा निकलकर धोलका वा धंधूका के जागीरदार
आलमखांके पास चलागया.

दर्याखाने एक लड़केको मुजफ़्फ़र शाहके नामसे बादशाह बनाकर आलमखां
पर चढ़ाई की, परन्तु उसने थोड़ीसी ही फ़ौजसे निकलकर दर्याखांको शिकस्त
दी और अहमदाबादमें क़ब्ज़ा करके महमूदको वहां बुलालिया. तब तो कुल्ल
सर्दार, दर्याखांको छोड़ अहमदाबादमें आगये और दर्याखां भागकर बुरहानपुर
होताहुआ दिल्लीमें शेरशाहके पास चलागया; अहमदाबादमें आलमखां खुदमुख्तार
वज़ीर होगया; यह हाल देख महमूदशाहने उसको गिरफ़्तार करना चाहा, लेकिन
वह होशियार था, दिल्लीकी तरफ़ भागगया. इन ज़बरदस्त सर्दारों के
निकलजाने बाद महमूदने अपनी बादशाहतको रौनक दी, और हर तरहसे
रैयतको खुश रक्खा. उसने अहमदाबादसे बारह कोशपर महमूदाबादकी
नींव डाली-- परन्तु उसको पूरा न करसका; इसने हि० ९४९ [वि० १५९९ =
ई० १५४२] में खुदावंदखांके बंदोबस्तसे समुद्रके किनारे सूरतमें एक क़िला
इस मतलबसे बनायाथा कि यूरोपियन लोग जहाज़ोंमें आकर रैयतको तकलीफ़
न देतेपावें; इस क़िलेके बनवानेमें पोर्चुगीज़ लोगोंने रोकटोक की; परन्तु खुदावंदखां
ने उसको न माना और चन्द्रोज़में क़िलेको पूरा करादिया. हि० ९६१ रवि-
उल्अव्वल [वि० १६१० फाल्गुन = ई० १५५४ फ़ेब्रुअरी] में बुरहान
नाम ख़िदमतगारके हाथसे महमूदशाह रातके वक्त मारागया. इस ख़िदमतगारको
किसी कुसूरसे उसने एकबार दीवारमें चुनवाकर फिर कुछ देर बाद रहमदिली
से निकलवा दियाथा; उसी ड़ाहसे इस नालायकने महमूदको मारकर, बादशाहतका
ताज अपने सिरपर रक्खा; और कई बड़े बड़े सर्दारोंको भी धोखेसे अकेले बुलाकर
क़त्ल किया; परन्तु इमादुल्मुल्क व आलमखां हब़शी उसके दावमें न आये, जिनसे
दूसरे दिन प्रभात होते ही मुक़ावला हुआ और बुरहान, शिरवानखांके हाथसे मारागया.

अहमदशाह गुजराती दूबरा.

महमूदशाहके कोई लड़का बाला न था, इसलिये सर्दारोंने अठवल महमूदकी औलादमेंसे रजीउल्मुल्कको 'अहमदशाह सानी' का खिताब देकर तख्त पर बिठाया; और एतमादखांको विजारत मिली. इसने उस बच्चे बादशाहको नामके लिये रखकर कुल्ल राज्यपर कब्जा करलिया, तब अहमदशाह भागकर सैयद मुबारक बुखारीके पास चांपानेर (मुहम्मदाबाद) चलागया. सैयद मुबारकने उसकी मददकेलिये चढ़ाई की; अहमदाबादसे एतमादखां मुकाबलेको आया; लड़ाई होने पर सैयद मुबारकखां तोपके गोलेसे उड़गया और अहमदशाह शिकस्त खाकर भागा; परन्तु लाचार होकर फिर एतमादखांके पास अहमदाबाद चलाआया. एतमादखांने पहिलेके समान उसको केवल नामके लिये फिर बादशाह बनाया, परन्तु कुल्ल कारबारका मालिक आपही रहा. हि० ९६९के आखिर [विक्रमी १६१९ = ई० १५६२] में इसने अहमदको मारडाला (१).

मुजफ्फरशाह गुजराती दूबरा.

इमादुल्मुल्कने एक लड़केको तख्तपर बिठाकर सौगंद खाई कि यह महमूदशाहका बेटा है, और उसको 'मुजफ्फरशाह' के नामसे प्रसिद्ध किया. इसके वक्त में सर्दारोंने मुल्कको अपनी अपनी जागीरमें बांटलिया; इमादुल्मुल्क, मुजफ्फरशाहको नामके लिये तख्तपर बिठालेता और आप उसके पीछे बैठकर लोगोंका मुजरा लियाकरता. इस बादशाहके अहदमें एतमादखां व चंगेजखां वगैरह सर्दारोंमें भगड़े उठे; आखिरी लड़ाईमें जो चांपानेरके पास हुई, एतमादखां, चंगेजखांसे शिकस्त खाकर डूंगरपुरकी तरफ चलागया. मुजफ्फरशाहने अहमदाबाद आकर एतमादखांका घरबार जप्त करलिया और चंगेजखां बादशाहतके कारबारका मुस्तार बनगया. आसीरके नव्वाब मीरां मुबारकशाहने भी अहमदाबादके सर्दारोंकी फूट देख गुजरातपर हमला किया, लेकिन चंगेजखांसे शिकस्त खाकर उसे भागना पड़ा.

तीमूरिया खानदानके कई मिरजा ऊपर लिखी लड़ाइयोंमें चंगेजखांके मददगार रहेथे. अब चंगेजखां और मुगलोंमें बिगाड़ हुआ; पहिले तो मुगलोंने उसकी फौज को शिकस्त दी परन्तु पीछे मालवेकी तरफ चलेगये. फिर जुभारखां और उलगखां हब्शी, मुजफ्फरको एतमादखांके पास डूंगरपुर लेगये, लेकिन थोड़े दिनों पीछे एतमादखांसे नाराज होकर दोनों हब्शी सर्दार, चंगेजखांके पास अहमदाबाद चले आये. फिर लोगोंके वहम डालदेनेसे जुभारखांने चंगेजखांको मारडाला, और जुभारखां व उलगखांके बुलानेसे एतमादखां, मुजफ्फरको लेकर अहमदाबाद आया. मुगल

(१) मिरात सिकन्दरीमें अहमदशाहका माराजाना हि० ९६८ के शाबानमें लिखा है.

लोग जो चंगेज़खांसे दबकर मालवेकी तरफ़ चलेगये थे गुजरातमें वापस आये, और कई ज़िलों पर कब्ज़ा करलिया; इधर गुजरातके हब्शियों व एतमादखांमें फिर विरोध हुआ. मुज़फ़्फ़रशाह हब्शियोंकी जमाअतके साथ चांपानेरकी तरफ़ चलागया. एतमादखांने दिल्लीके बादशाह अकबरको जो नागौर व सिरोहीकी तरफ़ आयाहुआ था अर्जी लिखकर बुलाया; वह उसी वक्त गुजरातकी तरफ़ खाना हुआ; जब पट्टनके पास पहुंचा, उस समय मिरजा अबूतुराब शीराज़ी, एतमादखां, उलगखां, जुभारखां हब्शी, इस्तिथारुल्मुल्क वगैरह खिदमतमें हाज़िर हुए और मुज़फ़्फ़रशाह भी शेरखां फौलादीके पाससे भागकर अकबरशाहके पास हाज़िर होगया. इस तरह हि० ९८० ता० १४ रजब [विक्रमी १६२९ मार्गशीर्ष शुक्ल १५ = ई० १५७२ ता० २२ नोवेम्बर] को, गुजरातकी बादशाहतके समाप्त होने पर, यह मुल्क दिल्लीकी हुकूमतमें शामिल हुआ.

अकबरशाह कुल्ल गुजरातपर कब्ज़ा कर मुज़फ़्फ़रको अपने साथ ले करे पहुंचा और उसे बंगालेके सूबेदार मुनइमखांके सपुर्द किया. मुनइमखांने अपनी बेटिकी शादी मुज़फ़्फ़रके साथ करदी लेकिन कुछ दिनों पीछे मुज़फ़्फ़र बंगालेसे भागकर गुजरातमें पहुंचा और फौज एकट्ठीकर हि० ९८९ [वि० १६३८ = ई० १५८१] में गुजरातके सूबेदार कुतुबुद्दीनखांको कल्ल करके अहमदाबाद पर क़ाबिज़ हुआ. जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर बादशाहने हि० ९९१ [वि० १६४० = ई० १५८३] में खानखाना अब्दुर्रहीमको बड़ी भारी फौज देकर गुजरातपर भेजा. गुजराती राजा व मुसल्मान सद्दार सब मुज़फ़्फ़रके मददगार होगयेथे. खानखानाको बड़ी बड़ी लड़ाइयां करनीपड़ीं; मुज़फ़्फ़र, कई लड़ाइयोंमें शिकस्त खाकर लड़ता भिड़ता कच्छके राजा भाराके इलाकेमें पहुंचा; इस राजाने उसकी सहायता की, परन्तु मुग़लिया लश्करके पहुंच जानेसे डरकर मुज़फ़्फ़रको गिरफ्तार करके खानखानाको सौंपदिया. मुज़फ़्फ़र हि० १००० [वि० १६४९ = ई० १५९२] में अपने हाथसे गला काटकर मरगया.

यहां गुजराती बादशाहोंका खानदान खत्म हुआ.

महाराणा विक्रमादित्यके राज्याभिषेकका संवत् निश्चय करनेके हेतु— (पृष्ठ २५ देखो.)


शेष संग्रह.

नम्बर १—ताम्रपत्र—

श्रीरामो जैयति

श्रीगणेश प्रसादात्

श्रीएकलिंग प्रसादात्



स्वस्त श्री महाराजाधीराज महाराणा श्री विक्रमादित आदेशात् प्रोहित जाना-
सकर हो ग्राम १ जालौ मयाकरे आघाटी रामदत्त करी दीधो श्री नाइण प्रीती करेदिधौ
श्री राजी माडलगढी पारणोबा पधार्या बाई लखा परणवा आया तिरौ चौडी मधे उदक
कीधौ रा श्री रावत भवानीदासजी हाडा अरजन विदमान सहस्त्रारा बहु भीर बसुधा
भुकाराय भी सगरादिभी—स्याजसजदाभुमी तस्या तस्यतदाल स्वदत्त परदत्त बाजो
हरंती वसुंधरा षष्ट वर्ष सहस्त्राणा विष्टायांजाइते क्रमी १ संवत् १५८९ वर्षे बीसाष
सुदि ११ लीषत पंचौली महेशछौजी.

यह असल तामापत्र है इसका शुद्धरूप नीचे लिखा है—

श्रीरामोजयति

श्रीगणेशप्रसादात्

श्रीएकलिंग प्रसादात्

स्वस्ति श्री महाराजाधिराज महाराणा श्री विक्रमादित्य आदेशात्— पुरोहित जानाशंकर हैं ग्राम
१ जाल्यो मया करे आघाट रामदत्त करि दीधो श्री नारायण प्रीति करे दीधो श्री राणाजी मांडलगढ
परणवा पधार्या बाई लख्वा परणवा आया तीरी चौरी मध्ये उदक कीधो रा श्री रावत भवानी-
दासजी हाडा अर्जुन विद्यमान सहस्त्र रा ... बहुभि वसुधा भुक्ता राजभिः सगरादिभिः ॥ यस्य यस्य
यदा भूमि तस्य तस्य तदाफलं ॥ स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरेत वसुंधरां षष्टि वर्ष सहस्त्राणि विष्टायां
जायते क्रमिः १ संवत् १५८९ वर्षे वैशाख शुदि ११ लिखितं पंचौली महेश छै जी.

मिरात सिकन्दरी व फरिहतह वगैरह किताबों में गिरनारके राजा मंडलीकका मुसल्मान होना संवत् १५२७ में लिखा है (पृष्ठ ४० देखो) — लेकिन नीचे लिखीहुई प्रशस्तिसे संवत् १५५४ तक उसका मुसल्मान होना नहीं पायाजाता.

नम्बर २

जावरकी प्रशस्ति—

॥ ॐ नमः श्रीगणेशप्रसादात् सरस्वत्यै नमः ॥ श्रीचित्र कोटा धिपति श्रीमहाराजाधिराज महाराणा श्रीकुम्भकर्ण पुत्री श्रीजीर्ण प्राकारे सोरठपति महारायां राय श्रीमंडलीक भार्या श्रीरमाबाई ए प्रासाद रामस्वामी रु रामकुंड कारापिता संवत् १५५४ वर्षे चैत्र शुदि ७ रवौ मुहूर्त कृतः ॥ शुभं भवतु ॥

श्रीमत्कुम्भ नृपस्य दिग्गज रदातिक्रांत कीर्त्य बुधेः । कन्या यादव वंश मंडन मणि श्रीमंडलीक प्रिया ॥ संगीतागम दुग्ध सिंधुजसुधा स्वादे परा देवता । प्रद्युम्नं कुरुते वनीपक जनं कं न स्मरंतं रमा ॥ १ ॥ श्रीमत्कुम्भल मेर दुर्ग शिखरे दामोदरं मंदिरं । श्रीकुण्डेश्वर दक्षिणा श्रित गिरे स्तीरे सरः सुंदरं ॥ श्रीमद्वारि महाब्धि सिंधु भुवने श्रीयोगिनी पत्तने भूयः कुंड मचीकर क्लिल रमा लोक त्रये कीर्तये ॥ २ ॥ श्रीकुम्भोद्भवयां बुधि नियमितः किं वा सुधा दीधिते निक्षेप खिदशै रशोषण भिया किंवाप्सरः सुंदरं ॥ प्राप्तुं पौर पुरंधि वृंद मभुजद्रुमी तलं मानसं चित्रं रामशर प्रहार भयतो ब्धि वैह कुंडायते ॥ ३ ॥ यस्मिन्नीर विहारि कोक मिथुनं क्रीडासमुन्मीलने शीतांशा वितरेतरेण नितरां विश्लेष मासाद्य च ॥ तापं नैव तनौ विभर्त्य विरतं सोपान भित्ति स्फुरत् स्वीयांग प्रति बिंब संगम वशा हूरे पि तीरे चरत् ॥ ४ ॥ पानीय हार विहार शंवर सुंदरी वदनं निजं प्रतिबिंब भूत मितिह निर्मल धीर नीरग मंबुजं ॥ आदातु मुद्यत पाणिना जलदोलनेन गत भ्रमा वितनोति कांचन कुम्भ पूरण मत्र विस्मय विभ्रमा ॥ ५ ॥ रसाल तरु मंजुलं पिक विनोद नादो त्कलं क्वचित् कनक केतकोद्गत पराग पिंगांचलं ॥ सशीकर सुशीतलं सुरभि वृंद मंदा निलं यदीय मति निर्मलं जयति तीर भूमी तलं ॥ ६ ॥ यदीय तट भूतलं हसित कुंद पुष्पोज्वलं क्वचिद्विकच मालती कुसुम लोल भृंगैः कलं ॥ क्वचित् सरलसारणी तरल नीरता पेशलं स्तुवंति सुरयोपितः किमुत नंदना दप्यलं ॥ ७ ॥ एतन्निति तटालयेषु रुचिरो त्कीर्णैः

सुरीणां गणैः क्रीडो पागत पौरयौवत युतोपांतै रवंतै रपि ॥ तत्तादृक्प्रतिबिंबितै रुपल-
सन्नागांगना संगिभि र्मन्ये कुंड मिदं रमा विरचितं लोकत्रया दद्भुतं ॥ ८ ॥ यद्वारुण
प्रतिष्ठा समये समुपेत विबुध वृंदेभ्यः ॥ कनकदुकूल वितरणं विदधाति रमेति लोलुपांति
सुराः ॥ ९ ॥ यावच्छेष शिरःसु शेखर पदं भूर्भूतधान्यामयं मेरु मेरु गिरे रुपर्युपरितो
ब्रह्मादि लोकत्रयं ॥ धत्ते यावदमुत्र वा दिनमणि माणिक्य नैराजनं तावच्चारुतरं रमा
विरचितं कुंडं चिरं नंदतु ॥ १० ॥

श्रीरमावर्णनं

उन्मीलद्गुणरत्नरोहण महीप्रौढप्रभालंकृता सौंदर्यामृत वाहिनी मधुसुह त्पाम्राज्य
सर्व स्वभूः ॥ सौराष्ट्रेश्वरयादवान्वयमणेः श्री मंडलीकप्रभो राज्ञी चारु रमावती वित-
नुते संगीत मानन्द दं ॥ १ ॥ कुम्भब्रह्म सुमीरित क्रममगा दुच्छिन्नतां यत्क्षितौ तत्प्रो-
द्धृत्य गिरीश भक्ति परमा रम्या रमा भारती ॥ संगीतं भरतादिनोक्त विधिना ब्रह्मैक
तानोपमा मंदानंद विधायकं विलसति प्रोह्लासयंती परम् ॥ २ ॥ नादा नंद मयी वरो-
न्नतकरा लीलो ह्रसद्वल्लकी रागा रक्त गिरीश्वर स्मरकला शर्मोर्मिरम्यो ज्वला ॥ लीलां
दोलित राजहंस गमना सद्गोगि भर्तृ स्तुता पद्मा मोदित मानसा विजयते वागीश्वरी
श्रीरमा ॥ ३ ॥ संजाता जलधेर्विवेक विधुरा धीरे प्वबद्धादरा चापल्या ऽभिरता प्रमोद
मयते या पंकजातस्थितौ ॥ विद्वत् कुम्भ नृपोद्भवा गुण गणा पूर्णा प्रवीणा स्पदी स्थैर्य
प्रीति मतीति तां विजयते श्रेयो चित श्रीरमा ॥ ४ ॥ राज द्रैवत भूधरांतररतं श्रीकां-
त माराधयत् कांतानंदित मानसा यदनिशं राजद्रमा वत्यतः ॥ मेरौ कुम्भकृते महीप
तनया श्रीमंडलीक प्रिया श्रीदामोदर मंदिरं व्यरचयत् कैलास शैलोज्वलं ॥ ५ ॥ श्रीर-
स्तु सूत्रधार रामा ॥

अथ श्रीमहाराज श्रीमंडलीक प्रबन्धः

इंदोरनिंदितकुलं बहुबाहुजातवंशेषु यस्य वसते रतुलं बभूव ॥ श्रीमंडलेंद्र गिरि
रैवतकाधिवासो दामोदरो भवतु वः सुचिरं विभूत्यै ॥ १ ॥ श्रीमंडलीक दर्शनपरितुष्ट
मना महेश्वरः सुकविः । श्रीमेदपाटवसतिर्गुणनिधिमेनं यथामति स्तौति ॥ २ ॥ आश्लिष्टः
सुरविटपी संप्रति चिंतामणि र्मयाकलितः ॥ लब्धः सुवर्णशिखरी मिलिते त्वयि मंडलाधीश
॥ ३ ॥ सुरविटपि विटपविशालभुजदलकलित विपुल महत्फलं ॥ कविचित्त चिंतामणि-
महागुण जाल जन्म महीतलं ॥ अनवरत सुर सरिदमलतम जल लुलित सुर शिखरि
प्रभं कलयामि मंडल राज महमिह तोप मेमि हिम प्रभम् ॥ ४ ॥ परि कलितः पुरुहूतो

धन नाथो नयन गोचरो रचितः ॥ साक्षात् कृतो रतीश स्वयि मिलिते मंडलाधीश

॥ ५ ॥ पुरुहूत मिव गुरु मंत्र यंत्रित मतुल मंगल मंडितम् ॥ धननाथ मिव धन दान
 तोषित चंद्र मौलि मखंडितं ॥ रति रमण मिव वर युवति कृतनुति महत् विषम शर
 युतं परिचित्य मंडल राज मह मिह मोद मगम मनुव्रतम् ॥ ६ ॥ अंकुरिता शर्मलता
 कोरकिता चित्त चंपक व्रततीः ॥ उल्लसिता तनु नलिनी त्वयि मिलिते मंडलाधीश
 ७ ॥ कलधौत वितरण तरल करजल जनित शर्म सदंकुरम् जन चित्तचंपक कुसुम संभव
 मधुर तर मधु बंधुरम् ॥ गगनैक मणि विस्फुरण पुलकित विपुल तनु नलिनी दलम् अनु-
 भूय मण्डल राज मिद मपि भवति हृदय मनाकुलम् ॥ ८ ॥ कर्पूरं नयन युगे वपुषि सुधा
 रश्मि परिषेकः ॥ हृदये परमानंद स्वयि मिलिते मंडलाधीश ॥ ९ ॥ घन सार
 सारसमागमे द्रवलोचने हिमनिर्भरे सकलं प्लुतं वपु रद्य हिमहिम धाम धामनि
 निर्भरे ॥ मम मनसि परमानंद संपदुदारतरमभि वर्द्धते नरनाथ भवति विलोकिते सति
 मंडलेश शुचिस्मिते ॥ १० ॥ सुर तरु रद्य नरेश गेहदशं मम कलयति ॥ सुरगिरि
 रिति यदुराज राजमान समुज्वलयति ॥ सुरपति रयमिति मति रुदेति ॥ संप्रति नर
 नायकरति पतिरिति नयना नुरक्ति रुदयति दृढसायक ॥ अनुपमतममहिम महीप सुतमं-
 डल सकलकलाकुशल सदृष्टमति भवत्यवधि नबनिधि संनिधि रधिक बला ॥ ११ ॥
 श्री मेदपाटेवरेदेशे कुंभकर्णानृपग्रहे ॥ क्षेत्राष्टसूत्रधारस्य पुत्रोमंडनआत्मवान् ॥ १२ ॥
 सूत्रधारमंडनसुत ईशर ए कमठाणु विरचितं देवीदासप्रतिकारित-

छन्दनाराच.

नृपाल विक्रमार्क सिंह पिठ चित्रकोट पै ॥
 बिराज हर्ष शीत व्है कुकर्म घर्म ओट पै ॥
 भटादि मान हीन धर्म छिन गुर्जरेशतें ॥
 मिलेरु चित्रकोट दै संदेस छद्म वेशतें ॥ १ ॥
 धनादि दैरु फेर दीन्ह एक बेर ताहि को ॥
 दुवार आन शाह दुर्ग छिन लीन वाहिको ॥
 अनेक बीर युद्धमें समीर बेग आय कें ॥
 निघात शस्त्र घात पात स्वर्ग द्वार पायकें ॥ २ ॥
 दिलीप क्रोध गुर्जरेश दुर्ग ते पलायगो ॥
 अनीत मग्ग फेर लीन विक्रमार्क आयगो ॥
 कुमार पथ्य पुत्त ताहि मार दुर्ग ईश भौ ॥
 तदीश भ्रात गुप्त रीत कुम्भ मेरु शीस भौ ॥ ३ ॥
 मुहम्मदीय गुर्जरेश वंशकी प्रणालिका ॥
 तिमध्य चाहुवान वंश खिच्चि युग्म जालिका ॥
 उदेपुराधि वारिया तटस्थ राज्य नर्मदा ॥
 बयान बादशाह जे बरार हिंद घर्मदा ॥ ४ ॥
 नृपाल सज्जनेन्द्रके विचार सिद्ध कैनको ॥
 फते नृपाल के कृपाल हुक्म चित्र कैनको ॥
 विनोद बीर के दुतीय खंड सार भूत है ॥
 बयान श्यामदास के विचारवान दूत है ॥ ५ ॥

वीरविनोद विधायक सज्जन सुधियां धियो ऽभ्युदयकर्ता ॥
श्रीमान् फतहनरेंद्रो वीरविनोदेन नंदयेत्सुजनान् ॥

महाराणा विक्रमादित्य-द्वितीय प्रकरण
समाप्त.

श्रीनृसिंहजयंती- मित्रवासर- संवत् १९४३ वैशाख शुक्ल-



महाराणा उदयसिंह-तृतीय प्रकरण.

महाराणा उदयसिंहके गादी विराजनेका संवत्, विक्रमी १५९२ [हि० १४२ = ई० १५३५] मानाजाता है, लेकिन हम इसको गादी बैठनेका समय नहीं कह सकते; क्योंकि उस वक्त बनवीर, महाराणा विक्रमादित्यको, व उदयसिंहके धोखेमें धायके बेटे को मारकर (१) राज्यका मालिक बनबैठाथा. कदाचित्, कुम्भलमेरमें बहुतसे सर्दारोंके एकट्ठा होनेपर विक्रमी १५९४ [हि० १४४ = ई० १५३७] में जो एक जल्सा हुआ, वह दिन गादीनशीनी का समझा जाय तौभी ठीक है, नहीं तो इन महाराणाके गादी विराजनेका दिन वही जानना चाहिये, जिस रोज बनवीरको निकालकर वे चित्तौड़ के मालिक हुए.

उदयसिंहको उनकी धाय पन्नाने, जो खीची जातिकी राजपूतानी थी, टोकरेमें बिठाकर ऊपरसे पत्ते पत्तल ढकदिये, और एक बारिनके सिरपर रखकर अपने व उसके पतिको साथ ले देवलियाकी (२) ओर रवाने हुई; रास्तेमें बड़े बड़े दुःख उठाते हुये वे सब रावत रायसिंहके पास पहुंचे.

(१) अमरकाव्यमें विक्रमादित्यका माराजाना और बनवीरका गादीपर बैठना विक्रमी १५९३ में लिखाहै और उक्त संवत् की एक प्रशस्ति चित्तौड़के रामपौल दरवाजे पर है उसमें बनवीरको महाराणा लिखाहै- (शेषसंग्रह नम्बर १ देखो).

(२) इसके एवज अब प्रतापगढ़ राजधानी है.

उसने इनकी बड़ी खातिर की और घोड़ा वगैरह सवारी देकर, बनवीर के डरसे बिदा करदिया, क्योंकि उसका क्रोध वह नहीं सह सकता था. उदयसिंह वहांसे रवाना होकर अपने साथियों समेत डूंगरपुर पहुंचे, परंतु रावल आशकरणे भी बनवीरके भयसे इनको न रक्खा; केवल खर्च व सवारी वगैरह देकर रुखसत करदिया; तब वहांसे चलकर कुंभलमेरमें आशा देपुराके (१) पास आये.

धायके पतिने आशाके सामने महाराणा विक्रमादित्यके मारेजाने और महाराणा उदयसिंहके आनेका सारा हाल कहा. यह सुनकर आशाको बड़ा रंज और फिक्र (२) हुआ, और उसने महाराणाको धाय समेत अपनी माके पास लेजाकर उनकी तकलीफोंका हाल सुनाया; उसकी माने कहा कि “बेटा यह अवसर चूकनेका नहीं है, क्योंकि महाराणा सांगाने तुमको बहुत कुछ देकर बड़ा (इज्जतदार) आदमी बनाया; अब तुम भी उनके बेटोंका हक दिलानेमें जहांतक होसके कोशिश करो.” इन बातोंसे आशाका दिल बहुत मजबूत हुआ, और उसने महाराणाको अपना भान्जा जाहिर करके अपने पास रखलिया; परन्तु यह बात कब छिप सकती थी, थोड़े ही दिनों में सब जगह फैल गई.

बनवीर जो चित्तौड़में बेखटके राज्य करता था, अब अपनेको असल (कुलीन) बनानेकी भी कोशिश करने लगा. जिन लोगोंने उसके साथ किसी तरहका परहेज रक्खा उन पर उसने सख्ती करनी शुरू की— इससे सब सर्दार व राजपूतोंके दिल बहुत बिगड़ने लगे, और जब कि उदयसिंहकी मौजूदगीकी पक्की खबर मिल गई थी, तौ ऐसी हालतमें वे लोग उस गैर हकदार व अकुलीन की हुकूमत कब पसन्द करते.

एकदिन भोजन करते समय बनवीरने रावत खान (३) पूर्विया चहुवाणको अपने थालमेंसे कुछ झूठी खानेकी चीज देकर कहा कि “इसका स्वाद अच्छा है सो थोड़ासा तुम भी चखो”— रावत खानने अपनी पत्तलपर उस पदार्थके पड़ते ही खानेसे हाथ खींचलिया; तब बनवीरने पूछा कि भोजन क्यों नहीं करते ? खानने जवाब दिया कि मैं खाचुका. बनवीर बोला कि यह तुम्हारा बहाना है— क्या तुम मुझे कम

(१) आशा देपुरा महेशरी जातिका महाजन, महाराणा सांगके वक्तसे कुंभलमेरका किलेदार था.

(२) महाराणा सांगके बेटोंकी ऐसी हालत देखने व सुननेसे रंज और अपने पास रखनेमें बनवीरके भयसे फिक्र.

(३) ऐसा मालूम होता है कि यह नाम किसी फकीरकी हुआसे पैदाहोनेके कारण पड़ाहोगा.

असल जानकर घिन्न करतेहो ! रावतने भी कहदिया कि “हां, अबतक तो हमने नहीं कहाथा, परंतु आप खुद ही जो कहते हैं— वह सच है”— ऐसे सवाल जवाब होने पर रावत खान उठखड़े हुए, और अपने डेरे आकर कुंभलमेरकी तरफ चलदिये. वहां पहुंचकर महाराणा उदयसिंहको नजर दिखलाई, और कोठारथेसे साईदास, कैल-वेसे जग्गा, बागोरसे रावत सांगा वगैरह को भी रुके लिखकर बुलालिया. इन लोगोंने महाराणाको नजरेंदीं और विक्रमी १५९४ [हि० १४४ = ई० १५३७] में रीतिके अनुसार गादी उत्सव हुआ.

फिर सर्दारोंने मारवाड़से पालीके सोनगरा अखेराजको बुलाकर उसकी लड़कीका विवाह महाराणासे करदेनेके लिये कहा; उसने जवाब दिया कि “ इस संबंधके करनेमें हमारी सबतरह उन्नति ही है, परन्तु बनवीरने अपने हाथसे असली उदयसिंहका मारडालना और इनका कर्तवी होना प्रसिद्ध कर रक्खाहै, सो यदि आप सब सर्दार लोग इनका झूठा खालें तो मैं अपनी बेटी ब्याहदूं.” सर्दारोंने अखेराजका संदेह दूर करनेकेलिये महाराणा उदयसिंहकी पंक्तिमें बैठकर भोजन किया—उस समय महाराणा अपने थालमेंसे झूठे पदार्थ सबको देतेगये, और सबने खुशीके साथ अदबसे लेकर खाया (१); तब अखेराजने अपनी बेटीका संबंध करना स्वीकार किया. सब सर्दारोंने जो वहां मौजूद थे बड़ी धूमधामके साथ महाराणाकी शादी की, और चित्तौड़ पर चढ़ाई करनेके लिये परवाने भेजकर बाकी सर्दारोंको भी बुलाया.

परवानोंके अनुसार ईडरके राव भारमल्ल, बूंदीके अधिपति हाड़ा सुल्तान, डूंगरपुर के रावल आशकरण, बांसवाड़ेके रावल जगमाल, प्रतापगढ़के राव रायसिंह, शिरोही के राव रायसिंह, चूंडावत रावत साईदास, चूंडावत रावत सांगा, चूंडावत रावत जग्गा, डोडिया ठाकुर सांडा, पंवार राव अखेराज इत्यादि बहुतसे सर्दार तो आकर हाजिर हुए; परन्तु कितने ही खुदमतलबी लोग, जैसे सोलंखी रामा व सोलंखी मल्ला (२) वगैरह बनवीरके खैरखाह बने रहे. बनवीरने यह समाचार सुनकर अपनी फौजकी दुरुस्ती, और लड़ाईके सामानकी तजवीज की.

उसी सभ्वत्में महाराणा उदयसिंहने चित्तौड़ पर चढ़ाई की. इस समय उनके पास ऊपर लिखे हुये सर्दारोंके सिवाय, जोधपुरके राव मालदेवकी तरफसे बहुतसे लोगों समेत राठोड़ कूपा व राठोड़ जैता इत्यादि, और पालीके

(१) इसी दिनसे यह रिवाज, महाराणाके सामने खानेके समय अबतक प्रचलित है.

(२) सोलंखी रामाकी जागीरमें माहोली और सोलंखी मल्लाकी जागीरमें ताणा था.

सोनगरा अखेराज वगैरहके साथ भी भारी जमैयत थी—इस तरह बहुतसी फौज एकट्ठी होगई. महाराणाके कुम्भलमेरसे खाना होनेकी खबर बनवीरको चित्तौड़में मिलते ही उसने कुंवरसी तंवरको फौज देकर मुकाबलेके लिये भेजा. माहोलीके पास मुकाबला हुआ— महाराणाकी फतह हुई और कुंवरसी तंवर बहुतसे आदमियोंके साथ मारा गया.

यहांसे खाना होकर महाराणाने ताणेको, जहांका मालिक मल्ला सोलंखी था, एक महीने तक घेर रक्खा, लेकिन फतह नहीं करसके. मल्ला सोलंखी, जिसको महादेवका इष्ट था, एक दिन एक पहाड़ीकी खोहमें पूजन करते समय पता लगने पर मेदा सांखलाके हाथसे मारा गया. इसके मरते ही ताणा जीतकर महाराणा चालीस हजार सवार व फौज समेत चित्तौड़ पहुंचे, और किलेको घेरा; परन्तु साथ तोपखाना न होनेके कारण किलेका टूटना बहुत कठिन मालूम होताथा, इसलिये आशा देपुराने बनवीरके प्रधान चील महतासे मिलावट करली और उसको खानगी तौर पर कहलाया कि “तुम भी महाराणा सांगाके नौकर हो, यह समय खैरस्वाही जाहिर करनेका है”— किलेके भी बहुतसे आदमी महाराणा उदयसिंहको चाहतेथे. चील महताने आशाके कहलाने पर उससे गुप्त मिलावट कर बनवीरसे कहा कि किलेमें अन्न वगैरह सामान कम है सो रातके वक्त दरवाजे खोलकर मंगाया जाय तो बहुत अच्छा है— बनवीरने यह बात उचित जान मंजूर की. चील महताने अपनी कार्रवाईका पूरा हाल आशाको कहला भेजा, और करीब डेढ़ पहर रातगये दरवाजे खोलदिये; हजार पांच सौ भैंसे व बैलों पर कुछ सामान लदवाकर उनके साथ ही महाराणाके राजपूत किलेमें जा घुसे और दरवाजों पर अपना कब्जा कर हल्ला करदिया. उस वक्त बनवीर (१) से अपने लड़केबालों समेत लाखोटा बारीके रास्ते भागजानेके सिवाय और कुछ न बनपड़ा. बहुतसे राजपूत दोनों तरफ़के मारेगये और महाराणा की फतह हुई (२).

फिर महाराणा उदयसिंह चित्तौड़का पूरा २ बंदोबस्त करके कुम्भलमेरको पधारे, और मेवाड़ देशमें उनका अधिकार हुआ.

(१) बनवीरको किलेके तथा राज्यके लोगोंका विश्वास नहीं था इस लिये उसने अपने राज्यके समय चित्तौड़ गढ़में राज महलोंके उत्तर तरफ़ एक छोटासा मजबूत किला इस मतलबसे बनवाना शुरू कियाथा कि यदि किलेके लोग बदल जावें तो इसमें रहकर बचाव किया जाय; उसकी दक्षिणी दीवार तैयार भी होचुकी थी, जो अबतक मौजूद और ‘नौ कोठा’ के नामसे मशहूर है.

(२) अमरकाव्य और टॉड राजस्थानमें इस फतहका संवत् १५९७ [हि० १४७ = ई० १५४०] लिखा है.

इन्हीं दिनोंमें शिरोहीके राव रायसिंहके मारेजाने बाद उनके बेटे उदयसिंहकी, देबड़ा दूदा के लड़के मानसिंहके साथ तकरार हुई—

राव रायसिंहने भीनमालकी लड़ाईमें मारेजानेके वक्त कहदिया था कि राज्यका मालिक मेरा छोटा बेटा उदयसिंह है, उसका पालन पोषण (परवरिश) दूदा करे. रायसिंहके कहने मुवाफिक दूदाने उदयसिंहको राज्यका मालिक बनाया, और आप रियासतका कारबार सम्हालने लगा. दूदाके मरने बाद उदयसिंहने एक वर्ष तक तो उसके बेटे मानसिंहकी जागीरमें लोहियाणा गांव, जो दूदाने अपने मरते समय अर्ज करके दिलायाथा, बहाल रक्खा; फिर कहा कि “मानसिंहने एक दफे मुझपर तुक्का (१) चलायाथा इसलिये मैं भी उसको लोहियाणेसे निकाल दूंगा.” सब राजपूतोंने अर्ज किया कि दूदाने आपके साथ बड़ा सुलूक किया है और मानसिंह भी फर्माबदारहै, इसलिये आपको ऐसा न बिचारना चाहिये; लेकिन राव उदयसिंहने किसीकी बात न मानी, और फौज भेजकर मानसिंहको निकाल लोहियाणा खाली करालिया.

मानसिंह, महाराणा उदयसिंहके पास आया तो महाराणाने बरकाण बीजेवास का पट्टा अठारह गांवोंके साथ देकर उसे अपने पास रखलिया. कुछ दिनों बाद राव उदयसिंह शीतला निकलनेसे मरा और रियासतका हकदार मानसिंह हुआ. तब शिरोहीके राजपूत सर्दारोंने सोचा कि इस समय मानसिंह, महाराणा उदयसिंहके पास है; अगर राव उदयसिंहके मरनेकी खबर वहां पहुंचे तो शायद मानसिंहको मारकर महाराणा शिरोही पर कब्जा करलेवेंगे; इस धोखेसे दो पहर तक उदयसिंहकी लाशको छिपा रक्खा, और पायगा (अश्वशाला) के दारोगा जयमल्लको सब बातें समझा कर कुम्भलमेर भेजा. जयमल्लने मानसिंहके पास पहुंचकर सारा हाल कह सुनाया; तब मानसिंह, चीबा सामन्तसिंहसे सब हाल कहकर पचास सवारोंके साथ शिरोही को खाना हुआ और सामन्तसिंहको यह भी कह गया कि यदि महाराणा याद फरमावें तो शिकारके लिये चलेजानेका बहाना करदेना.

महाराणाने मानसिंहको याद किया तो मालूम हुआ कि शिकारको गया है; फिर शामको बुलाया तो किसीने कहा कि मुझको यहांसे दश कोश पर शिरोहीकी तरफ बड़ी तेज़ीके साथ जाता हुआ मिला था. उसी समय एक और आदमीने अर्ज किया कि “शिरोहीका राव उदयसिंह शीतलाकी बीमारीसे मरनेके करीब है; यह खबर मुझको चिठीसे मिलीहै.” इस पर

(१) तुक्का—एक छोटा तीर सात आठ अंगुल लम्बा होता है, जो होलीके दिनोंमें बांसकी नलीमें रखकर फूँसे चलाया जाताहै; इससे कुछ ज्यादा ज़ख़म नहीं होसकता.

महाराणाने फ़रमाया कि मानसिंहके डेरेसे किसी मौतबर आदमीको बुलाकर दर्याफ्त करना चाहिये. इस हुक्मके मुवाफ़िक़ देवड़ा जगमाल बुलाया गया और शिरोहीका हाल दर्याफ्त करने बाद महाराणाने उससे कहा कि “मानसिंह भागकर क्यों गया, हम उसका क्या बिगाड़ते थे ?” जगमालने अर्ज किया कि “पृथ्वीनाथ ! यह बात तो मानसिंह जाने.” तब महाराणाने फ़रमाया कि “हम शिरोहीके चार परगने ख़ालसे करना चाहते हैं, तुम मंजूरी लिख दो”. इस बातको सुनकर जगमालने सोचा कि शायद मेरे इनकार करने पर महाराणा फ़ौज रवाना करें, और मानसिंह कहीं रास्तेमें ठहरा हो तो माराजाय. इस लिये अर्ज किया कि शिरोहीका सब राज्य ही आपका है और मानसिंह हुज़ूरका सेवक है, जो हुक्म देंगे वही करेगा”. उस वक्त रात ज्यादा बीतजानेसे यह बात मुलतवी रही.

फिर प्रातः काल होतेही जगमाल बुलाया गया, तब उसने अर्ज किया कि “परगने देना मेरे इस्तिथारमें नहींहै. हुज़ूर किसी आदमी को शिरोही भेजें, वहां राव मानसिंह और सब देवड़े राजपूत मौजूद हैं सो विचार कर अर्ज करावेंगे; यहां में अकेला मंजूरी नहीं लिखसक्ता; अगर हुज़ूर मुझपर जबरदस्ती करेंगे तो मैं राजपूत हूं, नाहक माराजाऊंगा.” तब महाराणाने फ़रमाया कि “हम तुम्हारे साथ फ़ौज भेजते हैं अगर मानसिंह मंज़ूर नहीं करेगा तो जबरन् परगनों पर कब्ज़ा करलिया जावेगा.” इसपर जगमालने दुबारा अर्ज कराई कि “हुज़ूर इतना श्रम न करें एक दफ़े मेरे साथ पुरोहितको भेजदें, मानसिंह हुज़ूरसे कुछ दूर नहीं है. यदि वह हुक्म न माने तो हुज़ूरकी जो मरज़ी हो सो करें.” उसकी अर्ज मंज़ूर हुई और पुरोहितको लेकर जगमाल कुम्भलमेरसे शिरोही पहुंचा. राव मानसिंहने पुरोहितका बहुत आदर सत्कार किया और रुखसतके वक्त महाराणा की नज़रके लिये हाथी घोड़े साथ देकर एक अर्जी लिखी कि “हुज़ूर केवल परगनोंके लिये ही फ़रमाते हैं, मैं तो शिरोहीके राज व कुल्ल राजपूतों समेत हाज़िर हूं.” पुरोहितकी जबानी सब वृत्तान्त मालूम होनेपर महाराणा उदयसिंह, मानसिंहकी विनय व लाचारीसे बहुत प्रसन्न (१) हुए.

इन्हीं दिनों में महाराणाने सांखला (२) मेदाको चौरासी गांवों समेत ताणोका पट्टा दिया, जो पहिले मल्ला सोलंखी की जागीरमें था.

(१) यह प्रसन्नता ऊपरी दिलसे थी, क्योंकि दिलसे तो देवड़ोंको बरबाद कर शिरोहीका राज्य अपने कब्जे में लेने चाहतेथे.

(२) रूणके सांखलों में से राजपालकी बेटी सौभाग्य देवी महाराणा मोकलको व्याही थी, उस प्रसंगसे सांखला मेदा महाराणाके पास रहता था.

महाराणा उदयसिंह व जोधपुर के राव मालदेव के आपसमें किगाड़ होनेका हाल इसतरह पर है :—

हलवदके भाला अजा व सजा जो गुजरात देशसे मेवाड़में आये उनमेंसे एक तो बाबर और दूसरा बहादुरशाह की लड़ाई में मारा गया, जिसका हाल हम पहिले लिख चुके हैं. राज सजाका पुत्र जैतसिंह किसी कारणसे जोधपुर चला गया, तब उसको राव मालदेवने खैरवाका पट्टा जागीर में दिया था.

जब राव मालदेव अपनी राणी भाली स्वरूपदेवी समेत, जो जैतसिंहकी बेटी थी, अपनी ससुराल खैरवामें आये, उस वक्त उन्होंने स्वरूपदेवीकी छोटी बहनको अधिक सुन्दर देखकर जैतसिंहको कहलाया कि “इसकी भी शादी हमारे साथ करदो.” जैतसिंहने जवाब दिया कि “मैं अपनी बेटी पर दूसरी बेटीको सौत नहीं बनासक्ता.” इसपर राव मालदेवने पहिले तो नमीसे कहलाया परन्तु उसके न मानने पर जोर दिखलाया; तब स्वरूपदेवीने अपने पितासे कहा कि “आपको इस वक्त हठ करना उचित नहीं है, क्योंकि रावजी जबरदस्त हैं सो जोरावरीसे शादी कर आपको बरबाद करदेंगे. इस लिये इस वक्त थोड़े दिन पीछे शादीका इकरार करलेना चाहिये, फिर जैसा चाहें वैसा करें.” यह बात जैतसिंहको भी पसन्द आई, और उसने राव मालदेवसे जाकर अर्ज किया कि “एक तो अभी लग्न नहीं है, दूसरे हमारे पास खर्च नहीं कि जिससे विवाहकी तैयारी कीजावे.” इस पर मालदेवने उसी वक्त पंद्रह हजार रुपये खर्चके वास्ते देकर उससे विवाहका पक्का इकरार करालिया.

राव मालदेव तो अपनी राणी स्वरूपदेवीको उसी जगह छोड़ जोधपुर की तरफ रवाना हुए, और जैतसिंहने महाराणा उदयसिंहके नाम इस मजमूनकी एक अर्जी भेजी कि “मैंने अपनी छोटी बेटी का विवाह आपके साथ करना विचारा है, सो वह मेरी ओरसे आपकी राणी होचुकी”. महाराणाने भी इस बातको स्वीकार करलिया; तब जैतसिंह अपनी बड़ी बेटी स्वरूपदेवी को खैरवामें ही छोड़कर छोटी बेटी व घरवालों सहित कुम्भलगढ़की तरफ पहाड़ोंके पास गुढ़े (१) में चलाआया. खैरवासे इनके रवाना होते वक्त स्वरूपदेवीने अपनी छोटी बहनको दहेजके तौर पर जेवर देनाचाहा सो जेवरके डिब्बेके बदले राठौड़ोंकी कुलदेवी ‘नागणेची’ का डिब्बा देदिया.

इधर महाराणा उदयसिंह कुम्भलमेरसे रवाना होकर गुढ़े पहुंचे और शादी करके राज जैतसिंहको भी कुम्भलमेर लेआये. जब वह डिब्बा जो जेवरका समझकर स्वरूपदेवीने अपनी बहनको दिया था खोला गया, तो उसमें एक देवीकी मूर्ति

(१) इस देशमें ‘गुढ़ा’ छोटे गांवको कहते हैं.

निकली जिसको महाराणाने बड़ी खुशीके साथ अपने पूजन (१) में रक्खा. राव मालदेवसे महाराणा उदयसिंहकी कुछ तो पहिलेसे ही खटपट थी अब और भी बढी (२). रावको खिजानेके लिये महाराणाने कुम्भलमेर किलेकी चोटीपर एक महल बनवाया जिसका नाम 'भालीका मालिया' रक्खा; और उसके ऊपर रखनेके लिये एक चिराग भी ऐसा तैयार कराया कि जो दो मन बिनौले और तेलसे जलाया जाता था— इन बातोंसे राव मालदेव बड़े शरमिन्दा और नाराज होकर बहुतसी फौजके साथ कुम्भलमेर पर चढ़ आये. महाराणाने भी अपनी फौज मुकाबलेके लिये भेजी; लड़ाई में दोनों तरफके बहुतसे राजपूतोंके मारे जाने बाद राव मालदेव भागनिकले.

वि० १६१० [हि० १६० = ई० १५५३] में महाराणा उदयसिंहने भामा-शाहके बाप भारमल्ल कावड़्याको अलवरसे बुलाकर एक लाखका पट्टा बरूगा था.

(१) उस दिनसे अबतक 'नागणेची' देवीका पूजन उदयपुरमें होता है; और सालमें दो बार (माघ शुक्ल ७ व भाद्रपद शुक्ल ७ को) मेवाड़के महाराणा बड़े उत्सवके साथ दर्बार (दरिखाना) भी करते हैं.

(२) कहतेहैं कि राव मालदेवकी 'व्याही हुई' राणीको महाराणा 'कुम्भा' ले आये थे; और कर्नेलटॉडके लेखसे मारवाड़के राजाकी 'सगाई की हुई' राणीको लाना पायाजाता है—ऐसी प्रसिद्ध बातके लिखनेमें, जो इस देशके हरएक छोटे बड़े आदमीकी ज़बानी मालूम होसकी है, हमको बड़ा सोचविचार हुआ; परंतु न लिखनेमें तवारीखकी स्वामी समझकर लिखना ही पड़ा. विचारना चाहिये कि :-

प्रथम, महाराणा कुम्भा विक्रमी १४९० में गादी विराजकर विक्रमी १५२५ में वैकुंठवासी हुए; और मालदेवका जन्म विक्रमी १५६८ पौष कृष्ण १ के दिन, गद्दीनशीनी विक्रमी १५८८ श्रावण शुक्ल १५, और देवलोक विक्रमी १६१९ कार्तिक शुक्ल १२ को हुआ.

दूसरे, सादड़ीके राज रायसिंह व देलवाड़ाके राज फ़तहसिंहने जो अपनी तवारीख यहां भेजी, उसमें विक्रमी १५६२ में महाराणा रायमल्लके समय राज अज्जा व सज्जाका गुजरात छोड़ कर मेवाड़में आना लिखा है.

तीसरे, नैनसी महताने उनका आना महाराणा सांगाके वक्तमें लिखाहै— जिन्होंने विक्रमी १५६५ से विक्रमी १५८४ तक राजकिया.

जिस हालतमें कि राव मालदेवका जन्म महाराणा कुम्भाके देहान्तसे ४३ वर्ष पीछे हुआ और राज अज्जा व सज्जा क्रमसे बाबर व बहादुरशाह गुजरातीकी लड़ाइयोंमें मारे गये, तो इस सूरतमें महाराणा कुम्भाका मालदेवकी राणीको लाना जो प्रसिद्धहै किसी तरह ठीक नहीं हो सका— शायद कुम्भलमेरके किलेपर, जो महाराणा कुम्भाके वक्तका बनाहुआ है 'भाली राणीका मालिया' (महल) होनेसे लोगोंने ऐसा मशहूर करदिया होगा— हमने जोधपुरकी तवारीख, व महाराणा उदयसिंहके पौत्र महाराणा अमरसिंहके नामपर बनेहुये 'अमरकाव्य' नामी संस्कृत ग्रन्थ इत्यादिके लेखकी सबूतियोंसे यह निश्चयकर लिखा है.

बूंदीके राज्यसे हाड़ा सुल्तानके खारिज होने पर उसकी जगह सुर्जणके मुकर्रिर होनेका हाल इस तरह है :—

हाड़ा सूर्यमल्ल और महाराणा रत्नसिंह आपसमें लड़कर एकदूसरेके हाथसे मारे गये, और चित्तौड़ पर महाराणा विक्रमादित्य गद्दी बैठे, तब उन्होंने सूर्यमल्लके पुत्र सुल्तानको जिसकी अवस्था ८ वर्षकी थी, बूंदीकी गादीपर कायम किया (पृष्ठ-२६). परन्तु उसने जवान होने पर यहांतक जुल्म किया कि बूंदीके बड़े सर्दार हाड़ा सहसमल्ल और सांतलकी आंखें (१) निकलवाडालीं. इन बातोंसे सब सर्दार व राजपूत नाराज होकर अपनी अपनी जागीरोंपर चले गये, सिर्फ हाड़ा सामंत रहगयाथा; उसको भी मारना चाहा, तब वह अपनी जागीर बांसी गांवमें आकर वहांसे दिल्लीके बादशाहके पास चला गया, जिसके बाबत बूंदीकी तवारीखमें लिखाहै कि बादशाह सूरने उसको रणथंभोरकी किलेदारी (२) दी थी. बाज किताबोंके देखनेसे ऐसा मालूम होता है कि एक दफे शेरशाह सूरने रणथंभोर पर चढ़ाई की तब भामा-शाहके बाप भारमल्लने कुछ पेशकश (नजराना) देकर चढ़ाई मौकफ़ रक्खी.

सुल्तानकी बदचलनीसे महाराणा उदयसिंहने नाराज होकर सुर्जणको (३) हुक्म दिया कि “हम सुल्तानको गादीसे खारिज करते हैं तुम उससे बूंदीका मुल्क छिनलो,” यह कहकर अपने हाथसे उसको राज तिलक दिया और फौज देकर बूंदीकी तरफ़ खाना किया. वहांकी कुल्ल रैयत, जो राव सुल्तानके जुल्मसे घबरा रही थी, सुर्जणकी तरफ़ होगई—सुल्तान भागकर पाटन होताहुआ रायमल्ल खीचीके पास पहुंचा, जो महाराणा उदयसिंहका एक बड़ा सर्दार था. उसने सुल्तानको गुजरके लिये बड़ोदका इलाका दिया था— जिसके वंशवाले सुल्तानोत हाड़ा कहलाते हैं.

(१) बीकानेरके नैनसी महताने आंखें निकलवाना लिखा है, और बूंदीकी तवारीख वंशप्रकाश में मुसल्मानोंसे लड़कर उनका माराजाना दर्ज है.

(२) इस वक्त ऐसा हुआ होगा कि किलेदारी जो महाराणाकी तरफ़से, हमेशासे बूंदीके हाड़ोंकी सपुर्दगीमें रही, उसी तरह उस वक्त भी हाड़ा सुल्तानके नाम रही हो और बाकी किलेका इस्तिथार शाह भारमल्लको महाराणाने देरक्खा हो; परन्तु बादशाह सलीम सूरने सामंतको मदद देकर रणथंभोरका किलेदार बनादिया होगा. क्योंकि उसवक्त चित्तौड़की ताकत तो बहादुरशाहकी चढ़ाई व बनवीरके झगड़ोंसे बिल्कुल नष्ट हो रही थी—दरअसल इस किलेके मालिक हमेशासे मेवाड़के राजा ही रहे.

(३) इसने महाराणा उदयसिंहके मातहत कई लड़ाइयोंमें बड़ी बड़ी बहादुरी दिखाई, जिससे इसको जागीरमें फूलिया और बादनोरका पट्टा मिला था.

सुल्तानको भगा देने बाद सुर्जण फौज लेकर किले रणथम्भोर पहुंचा, जहांकी किलेदारी भी बूंदीके राजतिलकके साथ ही महाराणाने इसको दे दी थी; सामंतसिंह हाड़ाने किलेसे बाहर निकल कर वहांकी कुंजियां इसके सपुर्द कर दी और कहा कि “मैं तो आपका सेवक हूँ, और किलेमें भी आपकी तरफसे ही रहता था; मुझको किसी तरह मुसलमानोंका तरफदार न समझें.” तब सुर्जणने अपनी तरफसे किला सामन्तसिंह की ही सपुर्दगी में रखकर कुल्ल हालकी अर्जी महाराणा उदयसिंहके नाम लिख भेजी, और विक्रमी १६११ [हि० १६१ = ई० १५५४] में बूंदी पर अपना कब्जा कर लिया.

बादशाह शेरशाह के सदाँर हाजीखां पठानके साथ जो किसी सबबसे दिल्ली से निकल कर अजमेर आया था, पांच हजार फौज, बहुतसा खजाना, और रंगराय नाम एक पातर थी. राव मालदेवने यह खबर सुनकर खजाना लेनेकी गरजसे पृथ्वीराज जैतावतको फौजके साथ अजमेरकी तरफ रवाना किया. हाजीखांने महाराणा को अर्जी लिखी कि “मैं आपकी पनाह में आया हूँ और राव मालदेव मुझे मारना चाहता है, सो आप मेरी मदद करें.” महाराणा इस अर्जीके पहुंचने पर हाजीखांकी मददके लिये हाड़ा सुर्जण, राव दुर्गा और जयमल्ल मेड़तिया वगैरह कई सदाँरोंके साथ रवाना हुए. उनके आनेकी खबर सुनकर राठौड़ोंने पृथ्वीराज जैतावत को समझाया कि अब लड़ाई हाजीखांसे नहीं, महाराणासे है; यदि हम सब राजपूत मारे जावेंगे तो राव मालदेव को बड़ा ही घाटा होगा; क्योंकि अच्छे अच्छे राजपूत तो पहिली लड़ाइयों में मर चुके हैं, और रहे सहे हम लोग भी मारे जावेंगे तो उनकी ताकत में बहुत नुकसान पहुंचेगा. इस तरह समझा कर वे तो लौट गये, और पृथ्वीराज शरमिन्दगीसे अपने गांव बगड़ीके बाहर ही ठहरा रहा— महाराणा उदयसिंह, हाजीखांकी तसल्ली करके पीछे चित्तौड़ पधारे.

जब राव मालदेवने भाली राणीके मामलेमें फौज लेकर कुम्भलमेर पर चढ़ाई की, तब बालेचा राजपूत सूजाने (जो महाराणा उदयसिंहकी नाराजगीसे मालदेवके पास चला गया था) मेवाड़ पर चढ़नेसे इनकार किया, और चाकरी छोड़कर मालदेव का देश लूटता हुआ महाराणाके पास आया; इन्होंने उसको पहिलेसे दूनी जागीर और नाडोल गांव दिया. राव मालदेवने सूजासे बहुत नाराज होकर राठौड़ नगा भारमल्लोत को ५०० अच्छे सवार व राजपूत संग देकर नाडोल भेजा. उन लोगोंने वहांके चौपाये घेर लिये तब सूजाने भी सामना किया— उस लड़ाईमें राठौड़ बाला, धन्ना, व बीजा भारमल्लोत काम आये और सूजाने अपने चौपाये छुड़ालिये. फिर राव माल-

देवने मेड़ते पर चढ़ाई करके उनसे अच्छी लड़ाई की- पृथ्वीराज जैतावत मारा गया.

महाराणा उदयसिंहने हाजीखां पठानके पास तेजसिंह डूंगरसिंहोत और बालेचा सूजाको भेजकर कहलायाकि “तुमको हमने मालदेवसे बचाया है सो चालीस मन सोना और कुछ हाथी, तथा रंगराय पातर जो तुम्हारे पास है हमको दो”. तब इन दोनों सर्दारोंने अर्ज की कि “पृथ्वीनाथ! हाजीखांको हुजूरने तकलीफ़के वक्त पनाहमें रक्खा है इसलिये अब उसके साथ ऐसा बर्ताव न करना चाहिये”; परन्तु महाराणाने न माना, तब लाचार उन दोनोंने वहां जाकर हुक्मके मुआफ़िक़ हाजीखांसे कहा. उसने ४० मन सोना और हाथी देनेका तो इक़रार करलिया, लेकिन पातरके देनेसे इनकार किया, और कहा कि यह मेरी औरत है किसतरह देसक्ता हूं.

इस पठानने इन सर्दारोंके रुख़सत करने बाद कुल्लहाल राव मालदेवको लिख भेजा और उससे मदद मांगी. तब राव मालदेवने उसकी मददके लिये राठौड़ देवीदास जैतावत, जगमाल वीरमदेवोत, रावल मेघराज, जैतमाल जैतावत, पृथ्वीराज कूपावत, महेश घड़सिंहोत, लक्ष्मण भदावत सिंहोत, व जैतसिंह वगैरह बहादुर राजपूतोंको डेढ़ हज़ार फ़ौज देकर अजमेरकी तरफ़ भेजा. इधरसे महाराणा उदयसिंह भी अपनी फ़ौज लेकर, जिसमें बीकानेरके राव कल्याणमल्ल व मेड़तिया जयमल्ल वीरमदेवोत वगैरह थे, अजमेरकी तरफ़ रवाना हुए. विक्रमी १६१३ फाल्गुन कृष्ण ९ [हि० १६४ ता० २३ रविउलू अब्बल = ई० १५५७ ता० २५ ज्यान्युअरी] को हरमाड़ा गांवमें दोनों फ़ौजोंका मुकाबला हुआ.

हाजीखांने फ़रेब करके एक हज़ार सवारोंसमेत एक पहाड़ीकी आड़ली और बाकी पठान व राठौड़ोंको सामने खड़ा किया. महाराणा उदयसिंह हरावलमें थे; दोनों तरफ़से घोड़ोंकी बागें उठीं; हाजीखां एकतरफ़से हरावलपर टूटपड़ा. इस वक्त राव दुर्गाका घोड़ा मारा गया और वह हाथीपर सवारहुआ. हाजीखांने हाथी पर कटारी चलाई; राठौड़ देवीदास जैतावतने बालेचा सूजासे कहा कि राठौड़ बीजा और धन्नाका बैर लेना चाहता हूं— और उसको मारलिया; तेजसिंह डूंगरसिंहोत भी देवीदासके हाथसे मारा गया; कुल्ल १०० आदमी मेवाड़के, १५० हाजीखांके और ४० आदमी राव मालदेवके मारे गये. मेवाड़ी फ़ौजकी शिकस्त हुई, महाराणाके ललाटमें तीर लगा और मारवाड़ी राजपूत फ़तहके नक्कारे बजाते हुये हाजीखांको जोधपुरमें राव मालदेवके पास लेगये.

इस मारकेका जिक़ गुजरातकी तवारीख़ मिरात सिकंदरीमें बहुत मुरतसर इस तौर पर लिखा है— कि “हाजीखां गुजरातमें जाता था, जिसका रास्ता चालीस हज़ार

फौज लेकर महाराणा उदयसिंहने रोका, और उससे ४० चालीस मन सोना और कितने अच्छे अच्छे हाथी व रंगराय पातर मांगी; सो सोना व हाथी देना तो हाजीखाने मन्जूर किया, लेकिन पातरके न देनेपर लड़ाई हुई; जिसमें महाराणाने शिकस्त खाई और हाजीखां गुजरातको चला गया."

विक्रमी १७१४ वैशाख [हि० १०६७ रजब = ई० १६५७ एप्रिल] में उदयपुरके मशहूर दधिवाड़िया चारण खेमराजने इस मारकेका हाल जो नैनसी महता के पास लिखभेजा था, उसीके मुवाफिक हमने लिखाहै. हमको विश्वास है कि सौ वर्षके पहिलेका हाल जो यहांके प्रसिद्ध कविने लिखभेजा उसमें ज्यादा गलती न होगी; क्योंकि जोधपुर व बीकानेरकी तवारीखमें भी उसीके मुवाफिक मिलता है.

विक्रमी १६१६ चैत्र शुक्ल ७ [हि० ९६६ ता० ६ जमादि उस्सानी = ई० १५५९ ता० १६ मार्च] को बड़े महाराज कुमार प्रतापसिंहकी राणी प्रमारके पेट से अमरसिंहका जन्म हुआ. महाराणाने पोता होनेकी बहुत खुशी की, और चित्तौड़से सवार होकर पहिले तो श्री एकलिंगजीके दर्शन किये; फिर वहांसे शिकारको आहाड़ गांवकी तरफ पधारे. शिकार खेलते समय एक ऐसी जगह नज़र आई, जहां बेड़च नदी एक बड़े पहाड़ी सिलसिलेको तोड़कर मेवाड़की तरफ चौड़े मैदानमें निकली है. उस पहाड़ी नाकेको बांधकर वहां एक बहुत बड़ी पाल (बंध) बांधनेका हुक्मदिया, और सब सर्दार व अहलकारोंसे सलाह की कि चित्तौड़का किला एक अलग पहाड़पर है, इसलिये जब बादशाहोंने घेरा उसी वक्त कब्जेसे निकल गया, और सामानकी तंगीसे किले वालोंको मरना पड़ा. अगर इन पहाड़ोंके घेरेमें राजधानी बनाई जावे तो रसदकी भी कमी न होगी और मज्बूतीके साथ पहाड़ी लड़ाई करनेका मौका मिलेगा. महाराणाके हुक्मको तारीफके लायक समझकर, सबने अर्ज की कि "पृथ्वीनाथ ! यह सलाह श्रीजीकी बहुत अच्छी और कामयाबी हासिल करानेवाली है." तब महाराणाने इसी सालमें, जहां उदयपुर आबाद है उससे उत्तरकी तरफ एक छोटी पहाड़ी पर अपने महल और उनसे उत्तरकी तरफ शहर बसानेका हुक्मदिया. वहां महलोंके कुछ मकान बन भी गये थे जिनके खंडहर अब तक मौजूद और 'मोतीमहल' के नाम से प्रसिद्ध हैं—लेकिन वहां आबादी कुछ नहीं; उस जगह अब महाराणाकी शिकारगाह है.

जब महाराणा उदयसिंह शिकार खेलते हुये पीछेला (१) तालाब पर आये तो वहां एक छोटी पहाड़ी पर भाड़ीके अन्दर एक साधू बैठाथा. महाराणा

(१) यह तालाब विक्रमी १५ वीं सदीमें, महाराणा लाखाके समय किसी बणजारेने बनवायाथा—

घोड़ेसे उतर कर उसके पास गये; योगीने कहा कि “बाबा तुम यहां नगर बसाकर अपनी राजधानी बनाओ तो बहुत अच्छा है— तुम्हारे वंशसे यह शहर नहीं जावेगा.”

महाराणाने उस तपस्वीका (१) कहना स्वीकार किया; जिस जगह वह बैठाथा वहीं अपने हाथसे नीवका पत्थर रक्खा, और महल बनानेके लिये हुक्म देकर डेरेको पधारे. दूसरे दिन वहां जाकर देखा तो वह योगी न मिला, तब उसकी धूनीकी जगह एक मकान बनाया, जिसके चारों तरफ़ तीन तीन दालान हैं, इस लिये उसका नाम ‘नौचौक्या’ रक्खा गया; और हुक्म दिया कि जिस मेवाड़के राजाको राज्याभिषेक अर्थात् गद्दीनशीनी धर्मशास्त्रके अनुसार हो वह इस जगह होना चाहिये. अब उस मकानमें वर्तमान महाराजाधिराजों का पानेरा (२) है. उसके सामने एक दूसरा मकान बना, जिसे अब लोग ‘नेकाकी चौपाड़’ वा ‘पांडेकी ओवरी’ कहते हैं; इन दोनोंके बीचमें पत्थरका बना हुआ चौक है जो ‘राय आंगन’ (राज्यांगण) (३) कहलाता है. पहिले तो महाराणा उदयसिंह ने ज़नाना रावला बनवाया जहां अब कोठार है; फिर इसी रायआंगन और ऊपर लिखेहुये दोनों मकानोंको ज़नाना रावला बनाकर नेकाकी चौपाड़के नीचेकी मंज़िलको मर्दाना मकान बनाया.

महाराणा उदयसिंहने विक्रमी १६१६ [हि० १६६६ = ई० १५५९] में उदयपुरसे तीन कोश पूर्वकी तरफ़ उदयसागर तालाबकी पाल बनानी शुरू की, जो विक्रमी १६१९ [हि० १७०० = ई० १५६२] में तैयार हुई; इस तालाबकी प्रतिष्ठा विक्रमी १६२२ वैशाख शुक्ल ३ [हि० १७०२ ता० २ रम्ज़ान = ई० १५६५ ता० ४ एप्रिल] को महाराणाने अपने हाथसे की.

बादशाह अकबरका चित्तौड़ लेना.

विक्रमी १६२४ आश्विन कृष्ण ११ रविवार [हि० १७०५ ता० २५ सफ़र = ई० १५६७ ता० ३१ आगष्ट] के रोज़ बादशाह जलालुद्दीन मुहम्मद अकबरने शिकारके वास्ते बाड़ीके परगनेकी तरफ़ सवारी की, और दिलमें फ़ौज कशी करना ठानकर मालवे जानेका इरादा किया— बाड़ीसे धौलपुर व ग्वालियरकी तरफ़ निकल गया. एक दिन धौलपुरके मुक़ाम पर, महाराणा उदयसिंहका छोटा बेटा

(१) इस फ़कीरके कलाम बहुतसी करामाती बातोंके साथ मशहूरहैं.

(२) जहां महाराणाके पीनेका जल रहताहै.

(३) यह नाम महाराणा संग्रामसिंह व भीमसिंहके समयसे प्रसिद्धहै.

शक्तिसिंह (जो अपने बापकी नाराजगीसे बादशाहके पास चला गया था) बादशाहकी हुजूरमें खड़ा था। उस समय बादशाहने फ़रमाया कि “हिंदुस्थानके बड़े बड़े राजा हमारे दरबारमें आकर हाज़िर हुए, परन्तु राणा उदयसिंह नहीं आया; इसलिये हम उसपर चढ़ाई करना चाहते हैं सो तुमको भी अच्छा काम देना चाहिये。” इस तरहकी बातें थोड़ी देर तक बादशाह दिल्लीमें करता रहा और शक्तिसिंह जाहिरी इकरार करता गया, लेकिन दिलमें शाही इरादेको सच्चा जानकर सोचा कि यदि मैं बादशाहके साथ जाऊं, तो मेरे ऊपर लोगोंके दिलमें अपने बापके मुल्क पर बादशाहके चढ़ा लानेका संदेह होनेसे, बड़ी बदनामी होगी; यह विचार कर वह तो रातके वक्त अपने साथी राजपूतोंको लेकर चित्तौड़की तरफ़ चल दिया।

बादशाहने यह बात सुनकर चित्तौड़ पर चढ़ाई करनेका पक्का इरादा कर लिया; क्योंकि महाराणा उदयसिंह, जिनको अपने राजपूत व पहाड़ोंका बड़ा ही जोर और सहारा था, जब तक ताबे न किये जाते, तब तक बादशाही हुकूमत पूरी पूरी बेखटके नहीं होसकी थी।

यह विचार कर बादशाहने मेवाड़की तरफ़ कूच किया, और क़िले शिवपुरके पास, जो रणथंभोर ज़िलेका एक क़िला था, आकर डेरा दिया। वहाँके लोग शाही लश्करसे मुकाबला करनेमें अपनेको कमजोर समझकर महाराणाके क़िलेदार बूंदीके हाड़ा सुर्जणके पास रणथंभोर चले गये। बादशाहने इसे अच्छा शकुन समझ कर, नज़र बहादुर को थोड़ी फ़ौजके साथ उस क़िलेमें छोड़ा, और छः मंज़िलके बाद आप कोटे पहुंचा। वहाँके क़िले और मुल्क हाड़ोतीकी हुकूमत शाह मुहम्मद कंधारीके सपुर्द कर गागरौन के क़िलेको घेरा; वहाँसे शाह बदाग़खां, मुरादखां और हाजी मुहम्मदखां सीस्तानी वगैरह समेत शहाबुद्दीन अहमदखांको मालवेकी तरफ़ भेजा और खुद चित्तौड़को खानाहुआ; कूचके पहिले आसिफ़खां और वज़ीरखांको, जो इस मुल्कसे वाकिफ़ थे इधर भेजा, जिन्होंने आगे बढ़कर मांडलगढ़के क़िलेको घेरा; वहाँका रईस राव बल्लू सोलंखी पहिलेहीसे चित्तौड़में चला आया था। थोड़ेसे लोग जो क़िलेमें थे, वे भी शाही आनेसे निकल भागे—वहाँ कब्ज़ाकर बादशाह मांडलगढ़से आगे बढ़ा।

इधर कुंवर शक्तिसिंहने धौलपुरसे चित्तौड़ आकर महाराणा उदयसिंहसे अर्ज की कि बादशाहका चित्तौड़पर आनेका पक्का इरादा है जो कुछ बंदोबस्त होसके वह कीजिये; महाराणाने सब सदाँर और महाराजकुमारोंको एकट्ठेकर सलाह की—मेड़ताके राव बीरमदेवका बेटा जयमल्ल राठौड़, रावत साईदास चूंडावत, रावत साहिव खान चहुवान, राजराणा सुल्तान, ईसरदास चहुवान, चूंडावत पत्ता, राव बल्लू सोलंखी और

डोडिया सांडा वगैरह सर्दार व महाराजकुमार प्रतापसिंह, शक्तिसिंह इत्यादि सब मौजूद थे. जब महाराणाने पूछा कि अब किस तरह पर लड़ना चाहिये ? तब सब सर्दारोंने अर्ज किया कि “पृथ्वीनाथ ! राज्यका बल ख़ज़ाना व राजपूत हैं और पहिले गुजराती बादशाहों की लड़ाइयोंमें उसके घटजानेसे रियासत कमजोर होगई है; इसलिये बादशाह अकबरसे मुकाबला करनेमें बरबादीके सिवाय फ़ायदेकी कोई सूरत नहीं दिखाईदेती; अब यही उचित है कि हमलोग क़िलेमें रहकर बादशाहसे लड़ें और आप अपने महाराजकुमार व रणवास समेत पहाड़ोंमें चलेजायं”. तब महाराणाने फ़रमाया कि हम क़िलेमें ही रहें और रणवास व कुंवर पहाड़ोंमें चलेजायें; इसपर महाराजकुमार प्रतापसिंहने अर्ज की कि हुजूर तो पहाड़ोंमें पधारकर फिर भी लड़ाइयां करसक्ते हैं और हम जवान हैं इस वास्ते पहिली लड़ाइयोंमें हमको ही तैनात कीजिये, जैसे कि अगले महाराणा-आंने भी कियाथा. इसपर सब सर्दारोंने अर्ज की कि “हुजूर रणवास व अपने कुमारों समेत पहाड़ोंमें सिधारे, क्योंकि पीछे भी तो आरामसे राज्य करनेका समय नहीं है, मर मारकर हम लोगोंका बदला व अपना राज्य लेना होगा”. निदान यही सलाह ठहरी तब महाराणा ८००० अच्छे बहादुर राजपूतोंको चित्तौड़के क़िलेमें तैनात कर आप कितने ही सर्दार व उनके कुंवर तथा अपने महाराजकुमार व रणवास सहित मेवाड़के दक्षिणी पहाड़ोंमें चलेगये.

इधर बादशाह अकबरने भी मांडलगढ़से कूचकर विक्रमी १६२४ मार्गशीर्ष कृष्ण ६ बृहस्पति [हि० १७५ ता० १९ रविउल्आखिर = ई० १५६७ ता० २३ अक्टोबर] को चित्तौड़के ३ कोश उत्तर नगरी गांवमें डेरा किया.

जब अकबरने क़िलेकी तरफ़ दृष्टि दी तो वर्षा और बिजलीकी चकाचोंधके मारे कुछ न सूझा. थोड़ी देर बाद बादल विखर जाने पर क़िला दीखने लगा, तब बादशाहने पैमाइशवालोंसे उसका अनुमान करवाया तो पहाड़की लम्बाई दो कोश और घेरा पांच कोश मालूम हुआ. जब मोर्चे बनानेलगे तो क़िलेकी मज़बूती से बहुत सी आफ़तें उठानी पड़ीं, परन्तु अपने पक्के इरादेसे एक महीनेमें मोर्चेबंदी पूरी की. इधर राजपूतोंने भी लड़ाई पर कमर बांध जगह जगह मोर्चे सम्हाले.

खुद बादशाह अकबरने अपना मोर्चा क़िलेकी उत्तर तरफ़ लाखोटा दरवाजे के मुकाबलेमें रक्खा, और क़िलेके भीतर मेड़तिया राठौड़ जयमल्ल वीरमदेवोतने लड़ाईका मोर्चा लिया. दूसरा मोर्चा राजा टोडरमल्ल और कासिमखांको—क़िलेसे पूर्व तरफ़ सूरजपौल दरवाजेके मुकाबिल—दिया. क़िलेके भीतर उस दरवाजेका मोर्चा चूडावतोंके मुख्य सर्दार रावत साईदासने लिया. तीसरा मोर्चा क़िलेके दक्षिण तरफ़ चित्तौड़की बुर्जके सामने आसिफ़खां और वज़ीरखां वगैरहके बन्दोबस्तमें था;

किलेके भीतर भी अच्छे अच्छे नामी राजपूत बहू सोलंखी वगैरह तैनात हुए. किलेके पश्चिम ओर बादशाही फौजके बड़े बड़े बहादुर आदमी मोर्चों पर जमायेगये थे; इसी तरह उनके मुकाबिल रामपौल, जोड़लापौल, गणेशपौल, हनुमानपौल, और भैरवपौल पर डोडिया ठाकुर सांडा व चहुवान ईसरदास व रावत साहिबखान व राजराणा सुल्तान वगैरह थे. खुद बादशाह व बड़े बड़े सर्दार अपनी अपनी जगह पर लड़ाई करनेको तैयार हुए.

अकबरने मोर्चे बंदी करते समय आसिफखानको बहुतसे अमीरोंके साथ फौज देकर रामपुराकी ओर रवाना कियाथा. वहांके अच्छे अच्छे राजपूत तो किले चित्तौड़में आगयेथे, और राव दुर्गभाण महाराणा उदयसिंहके पास पहाड़ों में चलागया; जो लोग रामपुराकी सन्हालके लिये वहां रक्खे गये थे उनसे लड़ाई हुई— बहुतसे राजपूत मारेगये. आसिफखाने रामपुराको फतह कर बन्दोबस्तके लिये बहुत सी फौजवहां तैनात की और आप चित्तौड़को लौटआया. इसी तरह हुसैन कुलीखानको बड़े भारी लश्करके साथ उदयपुर और कुम्भलमेरके पहाड़ोंकी तरफ रवाना किया था सो वह भी पहाड़ोंके किनारे किनारे लूटता हुआ चित्तौड़ पहुंचा. इन्हीं दिनोंमें एतमादखान गुजराती जो चंगेजखानसे हारकर डूंगरपुरमें जा छिपाथा, बादशाहकी खिदमतमें चित्तौड़ आकर हाज़िर हुआ, और एक दर्याई हाथी जिसके कान बहुत बड़े थे, नज़र किया.

बादशाही लश्करके सर्दार आलमखान व आदिलखान वगैरह किलेके चारों तरफ पहाड़के नीचे दौड़ादौड़ करतेथे, लेकिन इनकी मिहनत बेफायदा होती थी; क्योंकि फौजमें से प्रतिदिन बहुतसे मारेजाते और बहुतसे जख्मी होते थे; किलेवाले भी बड़ी मर्दुमी से लड़ते थे.

जब किलेपर कुछ बस न चला तब बादशाहने दो सुरंगें चित्तौड़ी बुर्जकी तरफ लगाना तजवीज़ किया; इसी बुर्जके नीचे एक छोटीसी पहाड़ी थी जिसपर सुरंग और मोर्चेवालोंकी आड़के लिये मिट्टी डलवाकर ऊपर तक पेचदार छत्ता (१) बनाया जाता था, जहां हजारों मजदूर मिट्टी डालते थे और प्रतिदिन सैकड़ों आदमी किलेवालोंकी बन्दूक वा तीरोंके निशाने होहोकर मारेजातेथे. लालच ऐसी बुरी बलाहै कि एक टोकरे मिट्टीके साथ उन लोगोंके बदनकी मिट्टी भी उसी पहाड़ी वा ज़मीनमें मिलजातीथी.

(१) दो दीवारें पाटकर उनमें तीरकश और खिड़कियां रक्खी गई थीं. और अंदरसे किले तक पहुंचकर धावा किया जाताथा- यह छत्ता सांपके समान पेचदार होताथा, इनपेच वा खिड़कियोंसे हथियार चलाकर किलेतक पहुंचते थे.

बादशाहने मिट्टी डालनेका भाव चांदीके मोल करदिया था; क्योंकि मिट्टी डालनेमें बहुतसी जानें तबाह होनेसे मज़दूरी ज्यादह देनीपड़ती थी.

एक दिन किलेके सब सर्दारोंने सलाह की कि अगर बादशाहके पास सुलहका पैगाम भेजाजावे और वह मन्ज़ूर करके लड़ाईसे हाथ उठाले तो बिहतरहै; क्योंकि महाराणा तो यहांसे पहाड़ोंकी तरफ़ चले ही गये हैं और हम लोग नर्मिके साथ पेश आकर इस आफ़तको टालदेवें तो अच्छा हो. यदि बादशाह हमारी नर्मिपर भी गर्मीका बर्ताव रखे तो लड़ाई करनेमें कमी न करेंगे. इस तरह सब सर्दारोंने सलाह करके रावत साहिबखान चहुवान व डोडिया ठाकुर सांडाको किलेसे सुलह के वास्ते बादशाहके पास भेजा. यह दोनों सर्दार बादशाही डेरोंपर पहुंचे तो बादशाहने उनको उसी वक्त अपने सामने बुलाकर हाल दर्याफ़्त किया, उन दोनोंने अर्ज की कि खुदावंद, हम लोगोंने हुज़ूरका कोई कुसूर नहीं किया है, हमारे मालिक तो पहाड़ों में चलेगये हैं और हम लोग आपको पेशकश (नज़राना) देना मन्ज़ूर करते हैं, जिसको लेकर किलेका घेरा उठालेवें, क्योंकि पहिलेसे बादशाहोंका यही दस्तूर रहा है कि पेशकश पाने पर मिहरबानी करते हैं. यह अर्ज करने पर बादशाही अमीर व सलाहकारोंने भी अर्ज की कि अब सुलह करलेना बिहतर है, क्योंकि यह आसमान सा ऊंचा किला फ़तह होना मुश्किल है. बादशाहने उन लोगोंकी सलाहपर बिल्कुल ख़याल न किया और यही जवाब दिया कि राणाके आये बग़ैर इस लड़ाईसे हाथ उठानेमें मुझे शर्म आती है, और उन दोनों सर्दारोंसे फ़र्माया कि राणाके हाज़िर हुयेबिना यह अर्ज मन्ज़ूर नहीं होसकी; तब डोडिया सांडाने अर्ज की कि हमारे मालिक तो पहाड़ी मुल्कके राजाहैं और पहाड़ी लोगोंमें जिहालत (असभ्यता) ज्यादह होती है; वे इस वक्त मौजूद नहीं हैं इस लिये उनके हाज़िर होनेका इकरार हम लोग नहीं करसके. हम लोगोंको, जो पेशकश देकर लाचारी करते हैं, ज़बरदस्ती मारना बादशाही कायदेके खिलाफ़है; इसपर जयपुर के राजा भगवानदासने बादशाहके कानमें झुककर अर्ज की कि देखिये यह कैसा गुस्ताख़ आदमी है कि शहनशाही दरबारमें सरत कलामीसे पेश आताहै. अकबर शाह तो बड़ा क़दरदान था, उसने फ़र्माया, कि यह शरूस जो अपने मालिककी ख़ैरखाही पर मुस्तइद होकर सवालोकें जवाब बेधड़क देरहा है इनामके लायक़ है. इससे राजा भगवानदासको, जिसने अदावतसे चुग़ली खाईथी, शर्मिन्दा होनापड़ा. बादशाहने डोडिया सांडासे फ़र्माया कि राणाके आये बग़ैर लड़ाई तो मौकूफ़ नहीं होसकी लेकिन इसके सिवाय जो तुम मांगो सो दियाजावे. सांडाने अर्ज किया कि अब हमको और

क्या जरूरत है जो मांगें, जो आप हुक्म देते हैं तो केवल इतना ही चाहता हूँ कि अगर मैं इस लड़ाईमें मारा जाऊँ तो मेरी लाश हिन्दुओंकी रीतिसे जलवादी जावे. बादशाहने इस बातको मन्जूर किया.

दोनों सर्दारोंने किलेमें आकर सब हाल ज़ाहिर किया, तब कुल राजपूतोंने जिन्दगीसे नाउम्मेद होकर मरने पर कमर बांधी. दोनों तरफसे खूब लड़ाई होने लगी, बाहर बादशाही हुक्मके मुवाफ़िक़ दोनों सुरंगें खुदकर तय्यार हुई; चित्तौड़की तरफ़वाली सुरंगमेंसे दो शाखें निकाली गईं जिनमेंसे एकके भीतर १२० मन (१) और दूसरीमें ८० मन बारूद भरी गई थी. किलेके लोग भी इस बातके मालूम होजानेसे होशियार होगयेथे; शाही फ़ौजके लोग हुक्मके अनुसार सुरंग उड़ानेके मुन्तज़िर थे कि जब दीवार उड़े तो भीतर घुसें. माघ कृष्ण १ [ता० १५ जमादि-उस्सानी = ता० १७ डिसेम्बर] बुधवारको एक सुरंग ऐसी डाटकर उड़ाई गई कि जिससे किलेका एक बुर्ज ५० आदमियों समेत उड़ गया उसके पत्थर बहुत दूर दूर तक गिरे और ५० कोश तक आवाज़ पहुंची. सुरंगके उड़ते ही, रास्ता होजाना समझ कर शाही मुलाज़िमोंने एकवारगी हमला कर दिया. ये लोग दीवारके नज़दीक पहुंचे थे कि इतनेमें दूसरी सुरंग भी उड़ी, जिससे बादशाही फ़ौजके बहुतसे (२) आदमी मारे गये—जिनमेंसे सय्यद अहमदका बेटा जमालुद्दीन जो बरारके सय्यदोंमेंसे था, मीरखां का बेटा मीरक बहादुर, मुहम्मद सालिह हयात, सुल्तानशाहअली एशक आगा, यज़दां कुली, मिर्जा बिल्लोच, जानबेग और यारबेग वगैरह २० नामी आदमी बादशाहके पास रहनेवाले थे.

इसके बाद एक सुरंग आसिफ़खांके मोरचेसे बीकाखोह और मोरमगरी की तरफ़ लगाई गई, परन्तु उससे किलेके ३० आदमी मारेजानेके सिवाय कुछ बड़ा मतलब न निकला. चित्तौड़के बुर्जको जो पहिली सुरंगसे उड़ गया था किलेवालोंने एक ही रातमें चुनकर पहिलेके मुवाफ़िक़ दुरुस्त बना लिया, और सब सर्दार राजपूत फिर मोर्चों पर मुस्तइदीसे लड़नेको खड़े होगये. इस समय अपनी फ़ौजके घबराजानेसे बादशाहको किला फ़तह होनेकी उम्मेद नहीं रही, तोभी उसने अपने आदमियोंको बहुत दिलासा दिया; परन्तु फ़ौजके लोग व खुद बादशाह अच्छी तरह जानचुकेथे कि किला बहुत मजबूत है, और इसमें लड़नेवाले

(१) यह मन दो या चारसेर तक का मानाजाता था.

(२) अकबर नामेमें ये दोसौ और तबक़ात अकबरीमें व तारीख़ फरिश्तहमें ५०० लिखेहैं.

बहादुर हैं; किलेमें लड़ाई व खाने पीनेके सामानकी भी कमी नहीं है (१).

सुरंगोंसे किलेवालोंको इतना नुकसान नहीं पहुंचा जितना कि बादशाही फौजका हुआ. इसी तरह फिर लड़ाई होती रही लेकिन बादशाहने यही सोचा कि अगर किला फतह हुआ तो बारूदके ही वसिलेसे होगा. मोर्चेबन्दीके लिये कोरे पत्थरोंकी दीवारें खड़ी करके उनकी आड़से शाही फौजके बहादुर किलेकी तरफ बन्दूकोंकी बाड़ मारते थे और खुद बादशाह भी उनके साथ गोलियां चलाता था.

एक दिन बादशाह चकिया नाम हाथी पर बैठ कर किलेके गिर्द मोर्चे देखनेको फिरता हुआ लाखोटा दर्वाजे की तरफ पहुंचा, सब लोग दीवार की आड़से किलेकी तरफ वार कर रहे थे, वह भी उनके पास जा खड़ा हुआ और बन्दूक चलाने लगा. जलाल-खां थोड़ी दूरपर दीवारके सहारेसे लड़ाईका तमाशा देख रहा था; सो एक गोली किलेके भीतरसे उसके कानके पास होकर निकल गई, तब सब लोगोंने बादशाहसे अर्ज की कि इस बन्दूकचीने हमारे बहुतसे आदमी मारे हैं. बादशाहने बन्दूक लेकर तीरकशकी तरफ गोली चलाई जिससे वह बन्दूकची मारा गया, जो किलेके बन्दूकचियोंका सर्दार इस्माईल नामी था.

एक दिन बादशाह मोरमगरी पर जो किलेके पश्चिम तरफ है तोपें चढ़ा रहा था, एक तोप उसके सामने गिरपड़ी जिससे २० आदमी मर गये. बारूदकी लड़ाई के काम पर राजा टोडरमल्ल व कासिमखां दर्याई दारोगाको तैनात किया था और बादशाह भी खुद इस कामकी सम्हाल रखता था. दो रात और एक दिन दोनों तरफके बहादुर लड़ाईमें ऐसे लगे रहे कि खाना पीना तक भूल गये. शाही फौजके गोलन्दाजों ने तोपोंसे किलेकी दीवारको बहुत जगहसे तोड़ दिया था; आधी रात होनेपर बादशाही फौजवाले हल्ला करके गिरीहुई दीवारोंकी तरफसे किलेमें घुसना चाहते थे, और किलेके बहादुर राजपूत उनको रोकते थे; इसमें दोनों तरफके हजारहा आदमी मारे जाते थे. तेल, रुई, कपड़ा वगैरह भी जलाकर किलेवाले शाही फौजके हमलेको रोकते थे. इसी भगड़े में एक सर्दार हजारमेखी सिलह पहने हुये दीवार के तीरकश मेंसे बादशाह को दिखाई दिया. तब बादशाहने

(१) पहिली दो बातोंके बावत तो उन लोगोंका कयास ठीक था लेकिन तीसरी बात में अलब-त्ता गलती होगी, क्योंकि अकबरशाहने बहुत दिनोंसे किलेको घेर रक्खा था. जब रसद वगैरह सामान नहीं रहा तब किलेके राजपूतोंने आपही किवाड़ खोल दिये और बड़ी बहादुरीके साथ लड़कर मारे गये, यदि सामान की कमी न होती तो वे लोग किवाड़ कभी न खोलते, बल्कि कुछ दिनोंतक और भी लड़ते.

उस सर्दार पर एक बंदूक (जिसका नाम संग्राम था) चलाई, और राजा भगवान दास व गुजाअतखां से फर्माया कि इस बंदूककी गोली उस सर्दारके जरूर लगी है, क्योंकि जब मेरे हाथकी गोली किसी शिकारपर लगती है तो मुझे मालूमहो-जाता है. तब खानेजहां वगैरहने अर्ज की कि यह सर्दार बन्दोबस्त करनेको आज रातमें कई दफ़ह यहां आचुका है, अगर अब न आवे तो जानना चाहिये कि जरूर मारा-गया. थोड़ी देरमें जब्बारकुली-दीवाना खबर लाया कि किलेकी दीवारोंमेंसे कोई आदमी दिखाई नहीं देता.

किलेमें मेड़ताके राठौड़ मेड़तिया वीरमदेवके बेटे जयमल्लके (१) घुटनेमें, जो राजपूतोंमें बड़ा नामी सर्दार था, बादशाहकी गोली लगनेसे उसका पैर टूट गया; तब जयमल्लने सब सर्दारोंको एकट्ठाकरके सलाह की कि अब किलेमें खानेपीनेका सामान नहीं रहा इसलिये उचित है कि औरत बच्चोंको आगमें जलाकर किलेके दर्वाजे खोल दियेजावें और बहादुर राजपूत हाथोंमें तलवार लेलेकर अपनी अपनी बहादुरीकी मुरादको पहुंचें. यह सलाह सब सर्दारोंने पसन्दकरके, 'जौहर' (आगमें बाल बच्चोंको जलाने) का हुकम दिया; इसपर राजपूतोंने लकड़ियोंका ढेर लगाकर अपने अपने औरत बच्चोंको उसमें बिठाया और आग लगादी, जिसमें हजारों जलकर खाक होगये. रावत पत्ता, अपनी मा सज्जनबाई सोनगरी और ठकुरानियोंमें से सामन्तसीकी बेटी जीवाबाई सोलंखिणी, सहस मल्लकी बेटी मदालसाबाई कछवाही, ईसरदासकी बेटी भागवती बाई चहुवान, पद्मावतीबाई भाली, रत्न बाई राठौड़, बालेसाबाई चहुवान, प्रमार डूंगरसीकी बेटी बागड़ेची आसाबाई वगैरह और दो बेटे व पांच बेटियां आदि सबको आगमें जलाकर, तय्यार हो आया. सब सर्दारोंने जिन जिन की ठकुरानियां तथा बाल बच्चे वहां मौजूद थे, ऐसा ही किया. जब इस जौहरकी आगकी ज्वाला (शौले) बाहर दिखाई दी उस वक्त शाही फौजके बहुतसे आदमी तरह तरहके विचार करने लगे; तब आंबेरके राजा भगवानदासने बादशाहसे अर्ज की कि यह आग जौहरकी है.- जब राजपूत लोग मरनेका पक्का इरादा करलेते हैं तो (अपने कायदेके मुवाफिक) औरत व बच्चोंको आगमें जलाकर आप दुश्मनों पर टूटपड़ते हैं, इसलिये शाही फौजको होशियार रहना चाहिये. बादशाहने हुकम दिया कि सूर्य निकलते ही हल्लाकरके शाही फौजके लोग किलेमें घुसजावें. प्रभात होतेही राजपूतोंने किलेके दर्वाजे खोलदिये. जब जयमल्लने

(१) यह वि० १६१९ [हि० ९६९ = ई० १५६२] में अकबरके सर्दार नागौरके सूबेदार मिर्जा शरफुद्दीनहुसैनको मेड़ते पर चढ़ालाकर उसके हमराह किले पर देवीदास व जगमालके बाखिलाफ़ बड़ी बहादुरीसे लड़ाया.

कहा कि मेरा पैर टूट गया है और घोड़े पर नहीं चढ़ा (१) जाता. तब उसके भाई कल्लाने कहा कि मेरे कंधे पर बैठकर अपने दिलकी हवस निकालिये. सो जयमल्ल, कल्लाके कंधे पर बैठा और यह और वह दोनों तलवार चलाते हुये हनुमान पौल व भैरव पौलके बीचमें, काम आये. डोडिया सांडा शाही फौजमें घोड़े पर सवार तलवार चलाता हुआ गम्भीरी नदीके पश्चिम तरफ़ मारा गया. इस तरह राजपूत लोगोंका सख्त हमला देख कर बादशाहने आजमाये हुये हाथियोंको सूंडोंमें दुधारेखांडे देकर आगे बढ़ाया. मदकर हाथीके पीछे जकिया और उसके पीछे सबदलिया और कादरा वगैरह हाथी चले. बहादुर राजपूत भी तलवारोंके हाथ उनपर साफ़ करने लगे. ईसरदास चहुवानने मदकर हाथीका दांत पकड़ कर महावतसे उसका नाम पूछा और उसकी सूंडपर खन्जरका वार करके कहा कि बादशाहसे मेरा मुजरा बोलो. एक राजपूतने एक हाथीकी सूंड तलवारसे काटकर गिरा दी. उस हाथीने तीस आदमी तो पहिले और पन्द्रह सूंड कटने बाद मारे. मदकर हाथीने भी सूंडपर तलवार लगनेके बाद कई आदमियोंको मार डाला, और गजराज हाथी घबराकर किलेकी तरफ़ भागा; उसपर अजमतखां सवार था सो घायल होकर थोड़े दिन बाद मर गया. बादशाह अकबर इन्हीं हाथियोंके झुंडमें रहकर अपने लोगोंको लड़ाई पर बढ़ाता जाता था; जब फौज किलेके भीतर घुसने लगी, उस समय पत्ता चूंडावत जगावत राम-पौलके भीतर बड़ी बहादुरीके साथ अपने राजपूतों समेत सैकड़ों आदमियोंको मारकर कल्ल हुआ. बादशाह अकबरके फ़रमानेके मुवाफ़िक़ अबुल्फ़ज़ल लिखता है कि बादशाह किलेकी दीवारपर से देख रहे थे कि सबदलिया हाथी किलेमें राजपूतोंको मार मारकर गिराने लगा, जिसपर एक राजपूतने तलवारका वार किया. हाथीने उसको सूंड में लपेटकर ज़मीनपर पटका. इतनेमें किसी दूसरे राजपूतने सामने आकर दूसरा चार किया; और हाथी उस तरफ़ चला, तब पहिले राजपूतने सूंडमेंसे छूटकर पीछेसे तलवार मारी.

खुद बादशाह अकबरका बयान है कि “किलेके बहादुरोंमें से किसी शख्सने (जिसको मैं नहीं पहचानता) ऐन लड़ाईके वक्त शाही फौजके एक आदमीको लड़ने के वास्ते आवाज़ दी; वह खुशीसे उसकी तरफ़ चला, जिसपर किसी दूसरे शाही मुलाज़िमने उसकी मदद करना चाहा; उसने उसे रोक दिया और कहा कि यह बहादुरी और जवांमरदीकी बात नहीं है कि एक आदमी अकेला मुझको लड़ाईके लिये बुलावे

(१) अबुल्फ़ज़लने बादशाहकी ‘संग्राम’ बन्दूकसे उसी जगह जयमल्लका मारा जाना लिखा है.

लेकिन वह बाहरके गैरलोगोंमें से था जैसा सुना वैसा लिख दिया.

और मैं तुमको मददके लिये साथ लूं. दोनोंका मुकाबला हुआ, जिसमें किलेका राज-पूत मारा गया. उस आदमीको मैंने बहुत तलाश किया लेकिन वह न मिला, फिर भी बादशाहने कहा कि जब मैं गोविन्दश्यामके मन्दिर पर पहुंचा उस समय एक महावत एक आदमीको, जो हाथीकी सूंडमें लिपटा हुआ था मेरे सामने लाया. उस वक्त उसमें कुछ जान बाकी थी लेकिन थोड़ी देरमें मर गया. महावतने अर्ज की कि यह शख्स कोई किलेके सर्दारोंमें से है क्योंकि इसके संग बहुतसे आदमियोंने जान दी है. दर्याफ्त करनेसे मालूम हुआ कि वह पत्ता जगावत था. जब शाही फौजके पहिले ५० और पीछेसे ३०० हाथी तक किलेमें पहुंच चुके और वहां शाही भंडा खड़ा हुआ, उस वक्त हजारहा नौकर और रअय्यतके लोग मन्दिर व अपने घरोंमें लड़ाई करनेके लिये मुस्तइद खड़े थे, जो नंगी तलवारें व भाले लेलेकर शाही सिपाहियों पर हमला करते करते बड़ी बहादुरीके साथ मारेजाते थे. ऐसी लड़ाई न किसीने देखी और न सुनी होगी कि जिसका बयान अच्छीतरह नहीं होसकता. लड़ाईके समय किले में लड़ाकू राजपूतोंके सिवाय ४०००० रअय्यतके लोग थे, जिनमेंसे केवल १००० आदमी बचे बाकी सब लड़कर मारेगये. बादशाहने रअय्यतको लड़ाकू देखकर सबके मारनेका हुक्म दे दिया.

सूर्जपौल दर्वाजे पर रावत साईदास वगैरह बहादुर जो तैनात थे वे भी बड़ी बहादुरीके साथ मारेगये. इनकी मददके लिये दूसरे मोर्चे परसे राजराणा जैता सजावत और राजराणा सुल्तान आसावत पहुंचे, जो वहीं काम आये. इसतरह सब राजपूतोंने बड़ी बहादुरी जाहिर की और मारेगये.

१००० एक हजार बन्दूकची (१) शाही फौज के डरसे अपने बाल बच्चोंको कैदियों की तरह गिरिफ्तार करके शाही फौजके दरमियान होकर लेनिकले, जिनकी फौज वालोंने अपने ही आदमी समझकर कुछ रोक टोक न की. महाराणाके महलोंके सामने समिद्धेश्वर (२) महादेवके मन्दिरके पास, और रामपौल दर्वाजे पर जहां पत्ता जगावत मारा गया था, हजारों आदमियोंकी लाशोंके ढेर लगगये.

विक्रमी १६२४ चैत्रकृष्ण १२ [हि० १७५ ता० २६ श्रावण = ई० १५६८]

(१) मोतमदखां अपनी किताब इक़बालनामे जहांगीरी में लिखताहै कि येलोग काल्पी की तरफ़ के रहने वाले बक्सरिया मुसल्मान थे और हमारे खयाल से मालूम होताहै कि येलोग बंगाली पठान होंगे, जो मुग़लों की बरखिलाफ़ी के सबब चित्तौड़ में चले आये थे.

(२) यह मन्दिर वह नहीं है जो महाराणा मोकलने किलेकी दीवार पर बनवाया था बल्कि वहहै जो कीर्तिस्तंभके पूर्व तरफ़ अब खंडहरके तौर पड़ाहै.

ता० २५ फेब्रुअरी] को दो पहर के समय बादशाह अकबरने इस क़िलेपर कब्ज़ा किया, और तीन रोज़ तक वहीं ठहरकर क़िले का बन्दोबस्त किया; वहाँ की हुकूमत ख़ाजह अब्दुल मजीद आसिफ़खांको देकर आप अजमेरकी तरफ़ पैदल रवाना हुआ क्योंकि बादशाहने ख़ाजह मुईनुद्दीन चिश्तीकी मन्नत मानी थी कि यदि चित्तौड़का क़िला फ़तह हो जावेगा तो मैं ज़ियारत (दर्शन) करनेके लिये अजमेर तक पैदल आऊंगा. जब फ़तह पाई तब क़िलेसे अपने लश्करगाह, और वहाँसे मांडल तक पैदल चला. जब अजमेरके ख़ादिमोंकी दरखास्तें इस मज़मूनकी पहुंचीं कि हज़रत-ख़ाजह साहिबका हुकम आपके लिये सवारी पर आनेका है, तब बादशाह मांडलसे सवार हुआ; परन्तु जब अजमेर एक मंज़िल रहगया तब फिर वहाँसे पैदल ही अजमेर दाख़िल हुआ. १० रोज़तक अजमेरमें रहकर आगरेकी तरफ़ कूचकिया.

महाराणा उदयसिंह इस लड़ाईके पहिले ही सब सर्दारोंकी सलाहसे चित्तौड़ छोड़कर पहाड़ोंमें होतेहुये गुजरातकी ओर रेवा कांठापर गोहिल राजपूतोंकी राजधानी राज पीपलां (१) में पहुंचगयेये. वहाँके राजा भैरवसिंहने बड़ीखातिरदारी की. महाराणा ४ महीनेतक वहाँ ठहरे और फिर रहे सहे राजपूतोंको एकट्ठा करके उदयपुर आये; यहां आकर नौचौकियां वगैरह महलोंको जो अधूरे रहगयेथे पूराकिया.

अकबरका रणथम्भोरको जीतना.

दूसरे वर्ष बादशाह अकबरने रणथम्भोरका क़िला लिया (जो आज कल महाराज जयपुरके कब्ज़ेमें है;) पहिले इस क़िलेके मालिक चित्तौड़ के राजा थे (२) जिन्होंने वहाँकी क़िलेदारी बूंदीके हाड़ा सूर्यमल्ल व उनके बेटे राव सुल्तान और सुर्जन

(१) राज पीपलां के गोहिलोंकी तवारीख़ हम इसी जगह लिखते परन्तु महाराणा उदयसिंह का वृत्तान्त थोड़ा ही रहगयाहै इस लिये प्रकरण के अख़िर में लिखेंगे.

(२) यह क़िला १४ शतक के पहिले तो नजाने किस के कब्ज़ेमें था परंतु लिखीहुई सदीके शुरूसे हमीर चहुवान और उसके बापके कब्ज़ेमेंथा जिसको अलाउद्दीन ख़िल्जीने फ़तह किया था फिर यह क़िला मेवाड़के राजाओंके कब्ज़ेमें आया जिसके लेनेकी इच्छा बाबर बादशाह को भी रही और शेरशाह सूरीने इसको अपने कब्ज़ेमें लेलिया लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद फिर मेवाड़ के कब्ज़ेमें आगया. तबक़ातअकबरी और इक़बालनामह जहांगीरी वगैरह किताबोंमें लिखा है कि अकबरके शुरू अहदमें मुग़लोंके डरसे शेरशाह के नौकर जुझारखां ने राव सुर्जन को यह क़िला बेचदिया. इससे मालूम होताहै कि महाराणा उदयसिंह के इशारेसे उस क़िलेदार जुझारखां को कुछ रुपये दिये होंगे क्योंकि उन दिनों बूंदी भी महाराणा उदयसिंह के मातहतथी और बूंदी वालों के नाम रणथम्भोर की क़िलेदारी महाराणा सांगाके वक्त से चली आतीथी इस लिये कुछ तअ-जुबकी बात नहीं है.

(जिसको महाराणाने सुल्तानके खारिज करने बाद बूंदीका मालिक बनाया था) बगैरह को दीथी. जब बादशाह अकबरने चित्तौड़का क़िला फ़तह करके मेवाड़में जगह जगह अपने थाने बिठादिये, उस समय उदयपुरके महाराणा पहाड़ोंमें दिन काटते थे परन्तु बूंदीका हाड़ा सुर्जण इसी क़िलेमें कायम रहा. इस हालतमें महाराणा की हुकूमत तो हाड़ोंपर कुछ रही नहीं और वह अपनी बहादुरीसे क़िलेके मालिक बने रहे.

बादशाह अकबरने सोचा कि क़िले रणथम्भोरको भी जो चित्तौड़के मालिकके हिमायतीके कब्जेमें है, फ़तह करलेना चाहिये. यह इरादा करके विक्रमी १६२५ पौष शुक्ल २ तथा ३ सोमवार [हि० १७६ ता० १ रजब = ई० १५६८ ता० २३ डिसेम्बर] को दिल्लीकी तरफ़से रवाना हुआ. इस क़िलेके लेनेके वास्ते पहिले भी बादशाहने कई बार अपने अमीरोंको भेजाथा परन्तु लड़ाई न हुई, अब खुद चढ़ाई का इरादा करके अलवर और लालसोट होता हुआ फाल्गुन कृष्ण ७ मंगलवार [हि० १७६ ता० २१ शाबान = ई० १५६९ ता० १२ फ़ेब्रुअरी] को रणथम्भोर के पास आकर डेरा किया. बादशाहने रण नामी डूंगरी पर से क़िलेको देखकर उसकी उंचाई निचाई व पहाड़ोंके मौकोंके हिसाबसे मोर्चाबन्दी की. बड़ी बड़ी तोपें जो बाईस बाईस जोड़ी बैलोंसे खेंची जाती थीं उस मोर्चेपर चढ़ाईगई जो कासिमखां मीर बहरी (दर्याई दारोगा) आर राजा टोडरमल्लकी सन्हालसे बनाया गया था.

सुर्जणने भी क़िले पर अच्छी तरह मज़बूती करली. दोनों तरफ़से लड़ाई-होती रही परन्तु क़िला मज़बूत होनेके कारण नहीं टूट सका; तब बादशाहने भेद उपायकर आंबेरके राजा भगवानदासकी मारफ़त सुर्जणको क़िला छोड़देनेके लिये कह लाया- राजा भगवानदासने उसको खानगी तौरपर यह भी समझाया कि “यदि आप कुछ दिन लड़ेंगे तोभी बादशाह क़िलेको फ़तह ही करके जावेगा, क्योंकि जब चित्तौड़के समान क़िलेको जिसमें आप जैसे बहुत सदाँर मौजूद थे, फ़तह करलिया तो इसकी क्या बुन्याद है”. तब सुर्जणने उसकी मारफ़त सुलहके लिये कोशिश करनी शुरू की, और सात शर्तें लिखकर पेशकीं जिनको बूंदी वालोंने अपनी तवारीखमें इस तरह लिखा है:-

१ हम बादशाहको बेटी न दें; २ हमारे रनिवासके लोग “नौ रोज़” (१) में न जावें; ३ हम अटक नदीके पार न उतरें; ४ आम व खास शाही दरबारमें हम शस्त्र

(१) मुग़लों के यहां यह एक खुशीका दिन माना जाताहै और ईद बकराईदके समान इसमें बड़ा उत्सव होताहै.

लेकर जावें; ५ लाल कोट (१) तक हमारा नक्कारा बजे; ६ हमारे घोड़ोंके दाग न लगायाजावे; ७ हम किसी हिन्दू राजाके मातहत होकर लड़ाईपर न भेजे जावें.

परन्तु बीकानेरके प्रधान नैनसी महताने राजपूतानाकी तवारीखमें यह शर्तें इस तरह लिखी हैं:-

१ हम महाराणाकी दुहाई मानें; २ मेवाड़ पर बादशाही फौजके साथ न जावें; ३ बादशाहको बेटी न देवें; ४ हमारे जनानेके लोग नौ रोजमें न जावें; ५ अटक नदीके पार हम न भेजेजावें; ६ हम शाही दरबारमें जावें तो शस्त्र न खोलें; ७ हमारे घोड़ोंके दाग न लगायाजावे.

इन दोनों लिखावटोंका निर्णय हम आगे लिखेंगे- सुर्जणकी दरखास्तें बादशाहने मन्जूर कीं तब सुर्जणने अपने बेटे दूदा और भोजको विक्रमी १६२६ चैत्र शुक्ल २ [हि० १७६ ता० १ शव्वाल = ई० १५६९ ता० १९ मार्च] को शाही दरबार में भेजदिया, जिनके संग हाड़ा सामन्तसिंहको, जो बड़ा एतवारी था, दिया, जब दूदा और भोज शाही दरबारमें पहुंचे तो बादशाहने बड़ी खातिर की और दोनोंको खिल्अत पहनानेका हुक्म हुआ. जब खिल्अत पहनानेको लोग उन्हें दूसरे डेरेमें ले चले तब हाड़ा सामन्तसिंहने जाना कि इनको मारनेके लिये लेजाते हैं. इस कारण वह मियानसे तलवार खेंचकर चला. राजा भगवानदासके नौकर प्रयागदासने बहुतेरा समझाया और मनाकिया लेकिन सामन्तने एक न सुनी, और यही जानलिया कि यह सब फरेब है, इन दोनों लड़कोंको मारनेके लिये लेजाते हैं, सामन्तसिंहने झपटकर शाही कामदार पूर्णमल्लके बेटे पर एक वार किया और बहाउद्दीन मजजूब बदायूनीके दो टुकड़े कर डाले; आखिर मुजफ्फरखांके नौकरके हाथसे सामन्तसिंह मारागया. बादशाहने सुर्जण व उनके बेटोंका कुछ कुसूर नहीं जाना, उस राजपूतकी ही जिहालत (मूर्खता) समझी. फिर सुर्जणके दोनों बेटोंको खिल्अत देकर विदाकिया (२). दूदा व भोजने किलेमें पहुंचकर शाही मिहरबानीका हाल अपने बापसे जाहिर किया फिर चैत्र शुक्ल ४ मंगल [शव्वाल ता० ३ = ता० २१ मार्च] को सुर्जण भी शाही डेरोंमें हाज़िर हुए और किले की कुंजियां बादशाहके नज़र कीं, तब बादशाहने खुश होकर रावका खिताब और चनारगढ़ वगैरह परगने इनायत किये. राव सुर्जणकी अर्जके मुवाफ़िक ३ दिन की मोहलत असबाब निकालनेकी दी गई तब सुर्जणने वहांसे कटकबिजली और धूलधाणी

(१) इनमेंसे अक्सर शर्तें ऐसी हैं कि जिनका सुबूत हिन्दुस्तानकी तवारीखों से नहीं मिलता है.

(२) और उनके साथ हुसैनकुलीखांको सुर्जणके लेनेके वास्ते भेजा.

दो तोपें और कल्याणरायजी व चतुर्भुजजीकी दो मूर्तियां वगैरह और कितना ही दूसरा सामान बूंदी पहुंचाया. ३ दिन पीछे रणथम्भोर किला शहनशाहने मेहतरखांके सपुर्द किया और आप अजमेरको रवानाहुए. आठ दिन अजमेरमें ठहर कर आगरेकी तरफ कूचकिया.

बूंदी वालेतो अपनी तवारीख वंशप्रकाशमें सुर्जणको आज़ाद (स्वतंत्र) राजा होनेके तरीकैसे लिखते हैं लेकिन हम इसका सही हाल पीछे लिखेंगे. चित्तौड़की लड़ाईके तीसरे साल बाजबहादुर मालवी बादशाह, जो वहांसे निकलकर दक्षिणमें निजामुल मुल्क के पास गया था और वह उसको न रख सकाथा, जब महाराणा उदयसिंहके पास शरणे आया तो महाराणाने उसको बहुत खातिरसे अपने पास रक्खा. यह बात बादशाह अकबरने जो बड़ा दूरअन्देश (दूरदर्शी) था सुनी तो उसके दिलमें मालवेकी तरफका खटका पैदा हुआ इसलिये उसने अपने खज़ान्ची अमीरहुसैनखांको भेजकर बाजबहादुरको बहुत तसल्लीके साथ अपने पास बुलालिया.

बाजबहादुरके यहां रहनेसे बादशाहि फौजें आआकर उदयपुर पर हमला करने लगीं. विक्रमी १६२७ [हि० १७८ = ई० १५७०] में महाराणा कुंभलमेर पधारे फिर वहांसे फौज एकट्ठीकरके गोगूंदे आये और विक्रमी १६२८ का दशहरा वहीं किया. यह महाराणा जब फाल्गुन महीनेमें कुछ बीमार हुए तो इन्होंने अपने पुत्र जगमालको जो महाराणी भटियाणीसे जन्माथा युवराज बनाया, क्योंकि महाराणी भटियाणी पर इन महाराणाकी जियादह मिहरबानी थी. विक्रमी १६२८ फाल्गुन शुक्ल १५ [हि० १७९ ता० १४ शब्वाल = ई० १५७२ ता० २८ फेब्रुअरी] को महाराणा उदयसिंहका देहान्त हुआ.

इन महाराणाके मिज़ाज (स्वभाव) में स्थिरता बहुत कम थी और ये अकल व बहादुरीमें अपने बाप महाराणा सांगासे चौथे हिस्से भी नहीं थे परन्तु विक्रमादित्यसे अच्छे थे इसलिये इनकी निन्दा नहीं हुई.

कर्नेल् टॉडसाहबके लिखनेके अनुसार बहुत कायर भी नहीं थे क्योंकि इन्होंने लड़ाइयोंमें अक्सर बहादुरीका काम किया. इन महाराणाका जन्म विक्रमी १५७९ भाद्रपद शुक्ल १० [हि० १२८ ता० ९ शब्वाल = ई० १५२२ ता० ४ अगस्त] को और विक्रमी १६२८ फाल्गुन शुक्ल १५ [हि० १७९ ता० १४ शब्वाल = ई० १५७२ ता० २८ फेब्रुअरी] को देहान्त हुआ.

इनके २४ महाराजकुमार थे, सोनगरा अक्षयराजकी बेटी जैवंताबाईके गर्भ से महाराजकुमार १ प्रतापसिंह, सजाबाई सोलंखणीके २ शक्तिसिंह ३ बीरमदेव, जैवंताबाई मादड़ेचीका बेटा ४ जैतसिंह, करमचंद प्रमारकी बेटी लालाबाईका बेटा

५ कान्ह, वीरबाई भालीका बेटा ६ रायसिंह, लखवाबाई भालीके बेटे ७ शार्दूल-सिंह ८ रुद्रसिंह, धीरबाई भटियाणीके बेटे ९ जंगमाल, १० सगर, ११ अग्र, १२ साह, १३ पच्याण, इसीतरह १४ नारायणदास, १५ सुल्तान, १६ लूणकरण, १७ महेशदास, १८ चंदा, १९ भावसिंह, २० नेतसिंह, २१ नगराज, २२ बैरीशाल २३ मानसिंह और २४ साहिबखां नामके थे— कुल राणियां १८ जिनसे कुल २४ बेटे वगैरह औलादथी (१).

महाराणा उदयसिंहकी अमल्दारीका फैलाव नीचे लिखीहुई जागीरोंसे तथा जो जो राजा उनकी नौकरी करते थे उनसे अच्छीतरह मालूम होसक्ताहै. इन महाराणाके पोते अमरसिंहके नामसे संस्कृत भाषा में अमरकाव्य नामी संस्कृत ग्रंथ बनाहुआ है जिसके अनुसार यह जागीरें देने वगैरहका हाल यहां दर्ज कियाजाता है.

“राव सुल्तानको अजमेर पठानोंसे लेकर दिया, आंबेरके राजा भारमल्लने अपने बेटे भगवानदासको महाराणाकी नौकरीमें भेजा, रावसुल्तानको बूंदीसे निकालकर सुर्जणको बूंदीकी गद्दी और रणथम्भोरकी किलेदारी दी, और १०० गांव फूलियाके और १०० गांव कुम्भलमेरके दिये. रावत साईदासको गंगराड़, भैंसरोड़, बड़ोद और बेगम दिये. ग्वालियरके राजा रामसाह तंवरको बारांदसोर दिया— मेड़ताके जयमल्ल राठौड़को एक हजार गांवों समेत बदनोर दिया— खीचीवाड़ा के गोपालसिंह खीची और आवूके राजा नौकरी करतेथे— राव मालदेवके बड़े बेटे रामसिंहको १०० गांव समेत कैलवेका ठिकाना दिया— ईडरका राव नारायणदास, गुजराती बादशाहोंकी मददसे नौकरीमें नहीं आताथा ”.— अमरकाव्य पृ० ६३.

राजपीपलांकी तवारीख,

राज पीपलांके राजा गोहिल राजपूत हैं; इनका प्राचीन इतिहास मिलना कठिनहै लेकिन ऐसा कहते हैं कि विक्रमी १३५ में जो शालिवाहन राजा हुआ, और जिसने अपने नामका शक (संवत्) जारी किया, उसका वंश गोहिल कहलाता है. जिसमें से एक राजाने मारवाड़ देशमें खेड़ ग्रामके एक भीलको मारकर वहांपर अपना राज्य स्थापन किया. बीस पीढ़ी बाद कन्नौजके राजा जयचंदके परपोते आस्थान राठौड़ने

(१) इन चौबीसोंमें से कई एकके वंश बढ़कर उन्हींके नामसे सीसोदियोंकी शाखा मशहूरहै जिनका जिक्र मेवाड़के सर्दारोंके हालमें लिखा जायगा.

खेड़का राज गोहिलोंसे छीन लिया. उस वक्त लड़ाईमें राजा माहोदास गोहिलके मारेजानेसे विक्रमी १३०७ [हि० ६४८ = ई० १२५०] में उनके पुत्र भांभर का बेटा सेजक जूनागढ़ (सोरठ देश) के राजा महिपाल व उनके कुंवर खंगारके पास आरहा, और अपनी बेटी की शादी भी उसीके साथ करदी. कुछ दिनों पीछे राजा महिपालकी मददसे शत्रुओं पर फ़तह पाकर अपने नामसे एक क़सबा सेजकपुर आबाद किया.

सेजकके तीन बेटे राणों, शाह और सारंग थे. जूनागढ़के राव खंगारने शाह को मांडवी और सारंगको आर्थीला चौबीस २ गांवों समेत दिया. इस वक्त शाहके वंशवाले पालीताणामें और सारंगके लाठीमें राज्य करते हैं.

सेजकके मरने बाद विक्रमी १३४७ [हि० ६८९ = ई० १२९०] में उनके बड़े बेटे राणकने गद्दीनशीन होकर अपने नामसे राणपुर बसाया, परन्तु विक्रमी १३६६ [हि० ७०९ = ई० १३०९] में राणकके मुसलमानोंसे लड़कर मारेजाने पर राणपुर छूट गया, तब उसके बेटे मोखड़ाने बाला राजपूतोंको जीतकर भीमडाद वगैरह में कब्ज़ा किया और उमरालाको अपनी राजधानी बनाया. फिर पीरमका टापू कोलियोंसे फ़तह करके वहां राजधानी बनाई. विक्रमी १४०४ [हि० ७४८ = ई० १३४७] में दिल्लीके तुग़लक़ बादशाहके सर्दार जुम्माखांसे लड़कर मोखड़के मारेजाने बाद उसके दोनों बेटे बड़े डूंगरसिंह और छोटे समरसिंह, अपनी ननिहाल राज पीपलां व पाली ताणामें जा रहे. समरसिंहने राज पीपलांमें अपने मामू पंवार राजाके निपुत्र मरजानेसे उसकी जगह गद्दी बैठकर अपना नाम अर्जुनसिंह रक्खा. इसके दो पुत्र, उग्रसेन और भाणसिंह हुए जो क्रमसे राज पीपलांके मालिक बने. इन के बाद गैमल्ल गादी बैठा जिससे विक्रमी १४६० [हि० ८०५-६ = ई० १४०३] में अहमदशाह गुजरातीने राज पीपलांका राज छीन लिया. विक्रमी १४७३ [हि० ८१९ = ई० १४१६] में गैमल्लसिंह मरगया. उसके दो बेटे, छत्रशाल व विजयपालथे जिनमेंसे बड़ा तो बापके सामने ही मरगया और दूसरा रहा, इसने राजपीपलां पर कब्ज़ा करलिया.

विजयपालके दो बेटे थे, बड़ा रामशाह (जिसको हरीसिंह भी कहते हैं,) और दूसरा सूरशाह. विजयपालके मरने पर हरीसिंह (रामशाह) गादी पर बैठा जिस से गुजराती (१) सुल्तान अहमदशाहने फिर राज पीपलां छीन लिया; लेकिन हरीसिंहने

(१) यह वक्त अहमदशाहके दादा ज़फ़रखांका था अहमद इससे ९ वर्ष बाद तख़्तपर बैठा फ़रिश्ता और मिरात अहमदीमें लिखाहै.

विक्रमी १५०० [हि० ८४७ = ई० १४४३] में (१) राजपीपलां पर फिर कब्जा कर लिया. हरीसिंहके मरने बाद अनुक्रमसे पृथुराज, दीपसिंह, करणबा, अभयराज, सुजानसिंह और भैरवसिंह गादी बैठे. भैरवसिंहके समय विक्रमी १६२४ [हि० ९७५ = ई० १५६७] में महाराणा उदयसिंह बादशाह अकबरकी चढ़ाईसे चित्तौड़ छोड़कर ४ महीने तक राज पीपलांमें जा रहे थे.

इन दिनोंमें गुजरातकी बादशाहत बर्बाद होजानेसे यह रियासत आज़ाद व आबाद रही. भैरवसिंहके मरने पीछे पृथुराज गद्दी बैठा. इसके वक्तमें अकबर बादशाहका कब्जा गुजरात पर हुआ, तब यह भी बादशाही सरकारमें पैंतीस हजार पांचसौ छप्पन रुपया सालाना खिराज देनेलगे. पृथुराजके बाद दीपसिंह, दुर्गशाह, मोहराज, रायशाल, चंद्रसेन, गंभीरसिंह, सुभेराज, जयसिंह, मूलराज, शूरमाल, उदयकरण, चंद्रबा, छत्रशाल और बैरीशाल (पहिला) अनुक्रमसे गद्दी बैठे. बैरीशालके वक्त विक्रमी १७६२ [हि० १११७ = ई० १७०५] में बादशाह औरंगजेब आलमगीरकी तरफसे नज़रअलीखां और जफ़रखां फौज लेकर राज पीपलांकी तरफ गये. लेकिन रास्तेमें धन्ना जादू मरहटेने हमला किया सो जफ़रखां बाबी पठान मरहटोंका कैदी हो गया. जिसको धन्नाने बहुतसा दंड लेकर छोड़ा, इससे राज पीपलांका बचाव हुआ.

विक्रमी १७७२ [हि० ११२७ = ई० १७१५] में बैरीशालके मरनेपर इनके दो पुत्र जीतसिंह, व अमरसिंहमें से बड़ा जीतसिंह गद्दी बैठा. जिसने विक्रमी १७८७ [हिजरी ११४३ = ई० १७३०] में मुग़ल बादशाहोंकी फौजको निकाल कर नादोदमें कब्जा कर लिया. विक्रमी १८११ [हि० ११६७ = ई० १७५४] में जीतसिंहका देहान्त होनेपर उनके पांच पुत्र. गैमल्लसिंह, प्रतापसिंह, हमीरसिंह, चन्द्रसिंह, और पहाड़सिंहमें से, गैमल्लसिंहके अपने बापकी मौजूदगीमें मरजाने से प्रतापसिंह गद्दी बैठा. इनसे विक्रमी १८२० [हि० ११७६ या ७७ = ई० १७६३] में दामाजी राव गायकवाड़ने पेशवाके हुकमके मुवाफ़िक़ नादोद, भालोद, बरीटी, और गोवाली परगनोंकी आमदका आधा हिस्सा खिराजमें लेना ठहराया था. इसके दूसरेही वर्ष प्रतापसिंहका देहान्त होगया. जिसके रायसिंह, केसरीसिंह और अजबसिंह तीन कुंवर थे. उनमें से रायसिंह गद्दी बैठा.

(१) इस सन्के एक वर्ष पहिले अहमदशाह मरगया था और उसका बेटा मुहम्मदशाह इस वक्त बादशाह था — इसके सिवाय तारीख़ फ़रिश्तह व मिरात सिकन्दरी वगैरह में इन लड़ाइयोंका जिक्र नहीं है— मूलमें गुजरात राजस्थानके मुवाफ़िक़ लिखागया है.

रायसिंहने अपने भाईकी बेटीकी शादी दामाजी राव गायकवाड़से करदी; जिससे गायकवाड़ने इनके चारों परगनोंमें से अपना आधा हिस्सा छोड़कर विक्रमी १८३८ [हि० ११९५ = ई० १७८१ में] चालीस हजार रुपया खिराज लेना ठहरालिया। उसके पीछे फ़तहसिंह राव गायकवाड़ने ४९००० रुपये खिराज लेना मुकर्र किया। फिर विक्रमी १८४३ [हि० १२०० = ई० १७८६] में अजबसिंहने अपने बड़े भाई राजसिंहसे राज्य छीन लिया। अजबसिंहके वक्त विक्रमी १८५० [हि० १२०७ या ८ = ई० १७९३] में ७८००० रुपया सालियाना खिराज गायकवाड़को देना करार पाया।

विक्रमी १८६० [हि० १२१८ = ई० १८०३] में अजबसिंहका देहान्त हुआ। इसके बाद इसके चार पुत्र माधवसिंह, रामसिंह, नाहरसिंह और अभयसिंह रहे, जिनमेंसे माधवसिंह तो अपने बापकी जिन्दगीमें ही मरगया। रामसिंह हकदार था, परन्तु नाहरसिंह जबरदस्तीसे गादी बैठगया, तब सब सद्दारोंने मिलकर नाहरसिंहको निकालकर रामसिंहको गद्दी बिठाया। यह शराब पीने और अय्याशमें मशगूल रहता था। इसके वक्तमें गायकवाड़ने फ़ौज भेजकर डेढ़ लाख रुपया फ़ौजखर्च लिया; और ९६००० रुपया सालियाना खिराज लेना ठहराया। परन्तु इसकी बदचलनीसे विक्रमी १८६७ [हि० १२२५ = ई० १८१०] में गायकवाड़ने इसको गादीसे खारिजकरके इसके भाई प्रतापसिंहको गवर्नमेंट अंग्रेजीकी रायके मुवाफ़िक़ मुकर्र किया, फिर थोड़ेही दिनोंबाद गद्दीसे उताराहुआ राजा रामसिंह मरगया और नाहरसिंहने जो पहिले खारिज करदियागया था, दुबारा गादीपर बैठनेके लिये मुल्कमें लूटमार शुरू की। तब विक्रमी १८७० [हि० १२२८ = ई० १८१३] में गायकवाड़ने फ़ौज भेजकर इस रियासतका बंदोबस्त अपने हाथमें लेलिया, और फैसला होनेपर इन दोनों भाइयोंका हक़ साबित करनेको कहा; बहुत कुछ तकरार होनेबाद विक्रमी १८७८ [हि० १२३६ = ई० १८२१] में बड़ोदाके रेज़िडेन्ट साहबने प्रतापसिंहको खारिज करके नाहरसिंहको राजपीपलां पर कायम किया; नाहरसिंह अंधा था, और इसके तीन बेटों लालसिंह, बैरीशाल, जगतसिंहमें से लालसिंह तो पहलेही मरगया था। इससे रेज़िडेन्ट साहबने बैरीशालको गादीपर बिठाया और इस रियासतको गायकवाड़की हुकूमतसे निकालकर अपनी संभालमें लिया। बैरीशालके बालक होनेके सबब गवर्नमेंट अंग्रेजीने रियासतका काम अपनी निगरानीमें रखकर विक्रमी १८९४ [हि० १२५३ = ई० १८३७] में बैरीशालको इस्तिथार दिया।

इस असेंमें राजपीपलां ज़िलेके बदमाश भील वग़ैरह लोगोंका पक्का बन्दोबस्त होकर रियासतकी बहुत कुछ तरकी हुई। फिर बहुत दिनों बाद बैरीशाल और उस

के कुंवर गंभीरसिंहके आपसमें नाइतिफाकी हुई जिससे सर्कार अंग्रेजीने विक्रमी १९२४ [हि० १२८४ = ई० १८६७] में बैरीशालको रियासती बंदोबस्तसे अलग करके मुल्की इस्तिथार गंभीरसिंहको दिया. विक्रमी १९२५ [हि० १२८५ = ई० १८६८] में बैरीशाल मरगया और गंभीरसिंह गादी बैठा. इसके बेटे छत्रसिंह, चंद्रसिंह, कीर्तिसिंह, खुमानसिंह और पांचवां बालक है जिसका नाम नहीं रक्खा गया. अंग्रेजी सर्कारसे इस रियासतके लिये ११ तोपोंकी सलामी है और इनके तहतमें १५१४ मीलमुरब्बा जमीन है जिसमें ६७० गांव बसते हैं और ११५००० आदमी की आबादी है. सालियाना आमदनी ६००००० रुपया है, जिनमें से ६५००१ रुपया तो खिराज और तेरह हजार तीनसौ इक्कावन रुपया गायकवाड़के उन गावोंकी एवज जो इस जिलेके गांवोंसे बदलेगये, सर्कार अंग्रेजीकी मारफत कसरातके तौरपर गायकवाड़को दिया जाता है. इस रियासतमें पहाड़ी हिस्सा ज़ियादह है, और यहांकी आबोहवा भी खराब बतलाते हैं. गुजरातदेशमें गोहिल राजपूतोंकी और भी छोटी बड़ी बहुतसी रियासतें व ठिकाने हैं जिनके नाम मुस्तसर हाल समेत नीचे लिखेजाते हैं.

भावनगर, पालीतांणा, बला, लाठी, लींबड़ी, बावड़ी, धरवाला, भोजाबदर, समढीआला, चबारिया, खीजड़िया (डोसाजी) बांगधरा, गदूला, काटोडिया, सोनगढ़, पांचवड़ा, टोडा, चित्राबाव, रामणका, रत्नपुर, धामणका, गणधौल.

भावनगर.

मोखड़ा गोहिल तक का हाल तो राजपीपलांकी तवारीखमें लिखागया— जब वह पीरमके टापूमें रहकर लड़ाईके वक्त मुसल्मानोंके हाथसे मारागया, तब उसका बड़ा बेटा डूंगरसिंह (अपनी ननिहाल) पाली तांणामें, और छोटा समरसिंह राजपीपलामें जा रहा. डूंगरसिंहने अपनी राजधानी गोधा बंदरमें बनाई, जिसके मरजाने बाद विक्रमी १४२७ [हि० ७७१ = ई० १३७०] में उसका बेटा बीसा गादी बैठा. फिर विक्रमी १४५२ [हि० ७९७ = ई० १३९५] में बीसाके मरने पर उसका बेटा कान्हा राज्यका मालिक हुआ. कान्हाके पीछे सारंग विक्रमी १४७७ [हि० ८२३ = ई० १४२०] में गादी बैठा. इसको अब्बल अहमद शाह गुजराती की फौज खिराजके लिये कैद करके लेगई. तब उसका काका रामजी राज्यका मालिक बनगया. कुछ दिनों पीछे सारंग, किसी तदबीरसे मुसल्मानोंकी कैदसे निकलकर पताई रावलके पास चांपानेर चला गया, और उसकी मदद से अपने काका रामाको निकालकर राज्यपर कब्ज़ा करलिया. इसने उमराला में राजधानी बनाकर अपना पद, रावल रक्खा. विक्रमी १५०२ [हि० ८४९ =

ई० १४४५] में सारंगका देहान्त हुआ, और उसका बेटा शिवदास गादी बैठा. यह विक्रमी १५२७ [हि० ८७५ = ई० १४७०] में राज्यका कारबार अपने बेटे जेठाको सौंपकर मरगया. जेठा विक्रमी १५५७ [हि० ९०५-६ = ई० १५००] में मरा. जिसके दो पुत्र थे, उनमेंसे बड़ा रामदास गादी बैठा और छोटे गंगदासको चमारड़ीका पट्टा जागीरमें मिला. उसके वंशवाले चमारड़िया गोहिल कहलाते हैं.

रावल रामदासकी शादी चित्तौड़के महाराणा सांगाकी बेटिके साथ हुई थी; इसलिये जब महाराणा और सुल्तान महमूद गुजरातीसे लड़ाई हुई उसवक्त महाराणाकी फौजमें वह भी शामिल था और उसी लड़ाईमें मारागया. इसके मरनेका संवत् गुजरात राजस्थानमें विक्रमी १५९२ [हि० ९४१ = ई० १५३५] लिखा है, जो ठीक नहीं मालूम होता; क्योंकि यह महमूदकी ही लड़ाईमें मारागया तो उसके मरनेका संवत् विक्रमी १५७६ (१) [हि० ९२५ = ई० १५१९] होना चाहिये जिसमें कि वह लड़ाई हुई.

रामदासके तीन बेटे सुल्तान, शार्दूल और भीम थे. जिनमें से सुल्तान गद्दी बैठा और शार्दूलको अधेवाड़ा और भीमको टांगा जागीरमें मिला. सुल्तान विक्रमी १६२७ [हि० ९७८ = ई० १५७०] में मरा. उसके ४ बेटोंमें से १ बीसा गद्दी बैठा; २ देवाको पछेगांव, ३ बीराको अवाणियां और मोकाको नवाणियां जागीरमें मिला.

बीसाने अपनी राजधानी सिहोरमें बनाई और विक्रमी १६५७ [हि० १००९ = ई० १६००] में वैकुण्ठवासी हुआ. इसके तीन बेटोंमेंसे बड़ा धूना सिहोरका मालिक हुआ, और दूसरे, भीमको हलियाद, और तीसरे कशियाको भड़ली मिली. विक्रमी १६७६ [हि० १०२८ = ई० १६१९] में काठी राजपूतोंके हाथसे धना मारागया, और इसका बेटा रत्न गादी बैठा, जो विक्रमी १६७७ [हि० १०२९ = ई० १६२०] में मरगया. उसके ३ बेटे, हरभम, गोविन्द और सारंग थे, जिन में से हरभम गादी बैठनेके दो वर्ष बाद मरगया. उसका भाई गोविन्द विक्रमी १६७९ [हि० १०३१ = ई० १६२२] में गादीका मालिक हुआ. वह विक्रमी १६९३ [हि० १०४६ = ई० १६३६] में मरगया; उसके बाद उसका बेटा छत्रशाल गादी पर बैठनेको तय्यार हुआ, लेकिन हरभमका बेटा अखेराज (अक्षयराज) जिस का हक बालक होनेके सबब गोविन्दने छिनलिया था, अपने बापकी रियासत पर

(१) मिरात सिकन्दरी व तारीख फरिश्तह वगैरह कई किताबोंमें इस लड़ाईका यह संवत् १५७६ सही लिखा है.

काबिज होगया, और छत्रशालको भंडारिया पट्टेकी जागीर दी. विक्रमी १७१७ [हि० १०७० = ई० १६६०] में अखेराजका देहान्त हुआ, और इसके चार बेटों में से बड़ा रत्न तो गादी बैठा, और हरभमको बरतेज, विजयराजको थोरड़ी और सुल्तानको मुगलाणां जागीरमें दियागया. रत्न विक्रमी १७६० [हि० १११५ = ई० १७०३] में इस दुन्याको छोड़गया, और उसका बेटा भावसिंह गादी बैठा. इसने विक्रमी १७८० [हि० ११३५ = ई० १७२३] में समुद्रके किनारे भावनगर बसा कर वहां अपनी राजधानी बनाई जिसके नामसे अब यह रियासत मशहूर है.

विक्रमी १८२१ [हि० ११७७ = ई० १७६४] में भावसिंहका इन्तिकाल होगया. इसके पांच पुत्र थे, १ अखेराज, २ बीसा, ३ रामदास, ४ गोवा पांचवेंका नाम मालूम नहीं. अखेराज गद्दी बैठा, और छोटे बेटोंको वला, हलियाद, रामपुर, और रत्नपुर वगैरह जागीरमें दियेगए. रावल अखेराजका देहान्त विक्रमी १८२९ [हि० ११८६ = ई० १७७२] में हुआ, और उसका बेटा बरतसिंह गादी बैठा, जिसको आताभाई भी कहते हैं. इसने काठियों वगैरह लोगोंके साथ बहुतसी लड़ाइयां कीं. विक्रमी १८६० [हि० १२१८ = ई० १८०३] में बरतसिंहने अपनी रियासत अंग्रेजी सरकारकी रक्षामें सौंपी. विक्रमी १८६१ [हि० १२१९ = ई० १८०४] में गायकवाड़की फौजने सिहोरको घेरकर खिराज तलबकिया, लेकिन उस वक्त बरतसिंह ने कुछ नहीं दिया और फौज पीछे लौट गई. फिर दूसरे वर्ष गायकवाड़ी फौजने भावनगरको आघेरा और दसदिन तक तोपोंका हमला होनेबाद बरतसिंहसे खिराज लेकर गायकवाड़ने फौज हटाई. विक्रमी १८६४ [हि० १२२२ = ई० १८०७] में पेशवा, गायकवाड़ और जूनागढ़के नव्वाब तीनोंको भावनगरसे सालाना खिराज देना सरकार अंग्रेजकी माफत करार पाया. बरतसिंहने सर्कश होजानेके कारण राजका कारबार अपने पुत्र विजयसिंहको विक्रमी १८६९ [हि० १२२७ = ई० १८१२] में देदिया, और विक्रमी १८७३ [हि० १२३१ = ई० १८१६] में उसका देहान्त हुआ.

उसका बड़ा बेटा १ विजयसिंह गादी बैठा, २ बापाको बावड़ी वगैरह तीन गांव और ३ राजसिंहको दो गांव मिले. विजयसिंहके वक्तमें काठियोंने बड़ा उपद्रव मचाया जिसमें सैकड़ों आदमी मारेगये. इसका बड़ा बेटा भावसिंह विक्रमी १९०२ [हि० १२६१ = ई० १८४५] में मरगया, जिसके ४ बेटे अखेराज, जशबन्तसिंह, रूपसिंह और देवीसिंह थे. भावसिंहका छोटाभाई नाहरसिंह था, जिसको विजयसिंहने भी भावदर वगैरह गांव जागीरमें दिये. विजयसिंह विक्रमी १९०९ [हि० १२६८]

= ई० १८५२] में परलोक सिधारा और इसका पोता अखेराज गादी बैठा. इसके छोटे भाई जशवन्तसिंहको टीमाणा, रूपसिंहको बरल और देवीसिंहको रामधरी वगैरह गांव विजयसिंहने अपनी मौजूदगीमें ही दे दिये थे. अखेराज दो वर्ष राज्य करके विक्रमी १९११ [हि० १२७० = ई० १८५४] में परलोक सिधारा. इसके कोई पुत्र न होनेसे उसका छोटा भाई जशवन्तसिंह गादी बैठा. वह विक्रमी १९२७ चैत्र शुक्ल १० [हि० १२८७ ता० ९ मुहर्रम = ई० १८७० ता० ११ एप्रिल] को दो पुत्र तरुतसिंह व जवानसिंह छोड़कर मरगया, जिनमेंसे तरुतसिंह गादी बैठा जो इस वक्त मौजूद है.

इस राज्यकी जमीन २८६० मीलमुरब्बा, ६४५ गांव, ४००००० चार लाख आदमियोंकी आबादी, और २५००००० पच्चीस लाख रुपया सालाना आमदनी, और रियासतकी सलामी ११ तोपें हैं. परन्तु वर्तमान महाराजकी खास ४ जियादह होकर १५ तोपोंकी सलामी होती है. यहांकी जमीन कुछ पहाड़ी और कुछ बराबर है; राज्य समुद्रके किनारे पर होनेसे यहां व्योपार अच्छा होता है. और सर्कार गायकवाड़ व जूनागढ़के नव्वाबको १५४४९९ रुपया सालाना खिराजके तौर दियाजाता है.

पालीताणा.

सेजक गोहिलका हालतो, जो मारवाड़से जूनागढ़के राजाके पास आरहा था, राज पीपलांकी तवारीखमें लिखागया है; उसके दूसरे बेटे शाहने जिसको गिरनारके राजा ने चौबीस गांवों सहित मांडवी दी थी, गारियाधरको राजधानी बनाया. उसके बाद सुरजन गादी बैठा, जिसके दो पुत्र थे. उनमेंसे बड़ा अर्जुन तो पिताके पीछे गद्दीबैठा और कुम्भाको सेदरड़ी जागीरमें मिली. अर्जुनके बाद नौधणने राज्य पाकर रियासतको बड़ी तरकी दी.

नौधणके बाद भारा, बन्ना, शिवा, हद्दा, खांधा, और दूसरा नौधण, एक दूसरे के पीछे गादीपर बैठे; इनके बाद दूसरा अर्जुन, दूसरा खांधा, दूसरा शिवा, क्रमसे गादी बैठे. यह शिवा काठियोंसे लड़कर मारागया; इसके बाद सुतान, तीसरा खांधा, पृथ्वीराज, तीसरा नौधण, दूसरा सुतान अनुक्रमसे गद्दी बैठे. सुतानने अपने गोत्री अल्लूभाईको मारकर पालीताणा लेलिया था. लेकिन उसके भाई उनड़ने उससे छिन लिया. उनड़ भावनगरके विरुद्ध काठियोंका मददगार होगया था, लेकिन फिर बरुतसिंह और उनड़ने सुलह करली. उनड़ विक्रमी १८७७ [हि० १२३५ = ई० १८२०] में परलोक सिधारा, तब इसका बेटा चौथा खांधा पालीताणाका मालिक हुआ. विक्रमी १८९७ [हि० १२५६ = ई० १८४०] में

चौथा खांधा मरगया और उसका कुंवर नौधण गादीपर बैठा. यह विक्रमी १९१७ [हि० १२७६ = ई० १८६०] में मरा. इसका पुत्र प्रतापसिंह गादीपर बैठा, और उसी संवत् में मरगया. उसका पुत्र सूरसिंह, गादीपर बैठा जो विक्रमी १९४२ [हि० १३०१ = ई० १८८५] में मरगया. इसके दो पुत्र—बड़ा मानसिंह जो अब ठाकुर है और छोटा सावन्तसिंह. इस रियासतमें ३०५ मीलमुरब्बा जमीन और १०० गांव हैं जिनमें ५०००० आदमियोंकी बस्ती और ५००००० रुपया सालियानाकी आमदनी है, इसमेंसे १०३६४ रुपया सालाना खिराज हरसाल जूनागढ़के नव्वाब तथा गायक-वाड़को दियाजाता है.

वला.

वलाको पहिले बल्लभीपुर कहते थे, जहां सूर्यवंशी राजाओंका राज था और अब जिनकी सन्तानके कब्जेमें उदयपुर मेवाड़का राज्य है. वलाके ठाकुर गोहिल राजपूत हैं.

भावनगरके रावल भावसिंहके तीसरे बेटे बीसाको वलाकी जागीर मिली. बीसा ने बहादुरीसे अपनी जागीरको ज़ियादह बढ़ाया और विक्रमी १८३१ [हि० ११८८ = ई० १७७४] में मरगया. उसका बड़ा बेटा नथू गादी पर बैठा और उससे छोटे कायाभाईको पाटी पीपलां और राजस्थली, तथा दूसरे जेठी भाईको बावड़ी गांव जागीरमें मिला. नथू भाईका देहान्त विक्रमी १८५५ [हि० १२१३ = ई० १७९८] में हुआ. उसका बेटा मघाभाई गादी पर बैठा.

विक्रमी १८७१ [हि० १२२९ = ई० १८१४] में वह मरगया. उसके हरभम, पथाभाई और अदाभाई तीन बेटे थे. हरभम गादी पर बैठा, पथाको दरेड़ और अदाको कानपुर वगैरह की जागीर मिली. विक्रमी १८९५ [हि० १२५४ = ई० १८३८] में वह मरगया और उसका बेटा दौलतसिंह गादी पर बैठा. लेकिन विक्रमी १८९७ [हि० १२५६ = ई० १८४०] में उसके मरजानेसे उसके काका पथाभाईको गादी मिली. यह भी विक्रमी १९१० [हि० १२६९ = ई० १८५३] में मरगया. तब इसका बेटा पृथुराज गादी पर बैठा और विक्रमी १९१७ [हि० १२७६ = ई० १८६०] में मरगया. तब इसका बेटा मेघराज, छोटी उम्रमें गादी पर बैठा, लेकिन विक्रमी १९३२ [हि० १२९२ = ई० १८७५] में इसका भी देहान्त होगया. तब इसका बेटा बस्तसिंह ११ वर्षकी उम्रमें गादी पर बैठा, जो अब वलाका ठाकुर कहलाता है.

इस रियासतमें जमीन १४० मीलमुरब्बा और ४१ गांव हैं जिनमें १७०००

आदामियों की बस्ती और १६५००० सालाना रुपयेकी आमदनी है. इसमें से ९२०२ रुपया गायकवाड़ और जूनागढ़के नव्वाबको खिराजमें दियाजाता है.

लाठी.

लाठीका तवारीखी हाल इस तरहपर है— जब सेजक गोहिल मारवाड़से जूनागढ़में आरहा था तब उसके तीसरे बेटे सारंगको जूनागढ़के राजाकी तरफसे आर्थीलाकी जागीर २४ गावोंसमेत मिली थी.

सारंग के बेटे जस्साके तीन बेटोंमें से बड़े नौधणने लाठीमें कब्ज़ा कर लिया. इसके पीछे इसका छोटा भाई भीम गद्दीपर बैठा. भीमके दूदा और अर्जुनसिंह दो बेटे थे. दूदा जूनागढ़के राजा मंडलीकसे लड़कर मारागया, और उसका कुंवर लूणशाह जिसका दूसरा नाम जीजीबाबा था लाठीमें गद्दी पर बैठा; और उसके पीछे उसके बंशके लोग कई पीढ़ियों तक वहांके मालिक रहे. विक्रमके १८ शतकके अन्तमें लाखा लाठीका ठाकुर था. इसने अपनी बेटीकी शादी दामा गायकवाड़के साथ करदी. इसकी गद्दीपर सूरसिंह बैठा, उस वक्त सकार अंग्रेज़ और गायकवाड़से लाठीके साथ कुछ इकरार हुआ; लेकिन यह ठिकाना बिलकुल बरबादीकी हालतमें था. ठाकुर बरतसिंहका बेटा बापूभाई इसवक्त यहांका ठाकुर है.

इस रियासतमें ४८ मीलमुरब्बा ज़मीन और ८ गांव हैं जिनमें ७००० आदमियोंकी बस्ती और ७००००रुपया की सालाना आमदनी है, जिसमेंसे २००७ गायकवाड़ और जूनागढ़के नव्वाबको खिराज दियाजाता है. इस ठिकानेकी सिलसिलेवार बंशावली मालूमनहीं और नीचे लिखीहुई जागिरोंकी (जो यहांके राजाके भाई बेटोंकी हैं) वंशावली व तवारीख नहीं मिलती.

इस नकशेमें गोहिल राजपूतोंके वह ठिकाने लिखेजाते हैं- जो गोहिलवाड़ेमें
साठके भाई बंधु और नव्वाब जूनागढ़के खिराज गुज़ार मानेजाते हैं.

क्र. सं.	नाम ठिकाना	तादाद ज़मीन मीलमुरब्बा	तादाद गांव	तादाद बाशिंदगान	तादाद आमदनी	तादाद खिराज	कैफियत
१	लींबड़ा	७	४	२०००	२५०००,	१२१२,	यहाँके मुख्य ठाकुर भगवानसिंह, प्रताप सिंह और हरीसिंह हैं.
२	बावड़ी व धरवाला	४	४	२२००	१००००	१५३०	
३	भोजावदर	३	१	११००	५०००	५५०	
४	समढीआला	२	१	१४००	६५००	२२८०	
५	खेजड़िया	१	१	१०००	२४००	४२७	
६	बांगधरा	२	१	५००	२०००	१०४	
७	गढ़ूला	२	१	४००	३०००	१९६	
८	काटोडिया	१	१	३००	२०००	२२१	
९	सोनगढ़	१	१	११००	२०००	५७२	यहां गोहिलवाड़े का पोलिटिकल एजेंट रहता है और ३०० एकड़ ज़मीन स्टेशनके इहाते में आनेके तषब ३०० रुपये हरजाना सकारर अंगेजी देती है.

पांचवड़ा.

यहाँके तअल्लुकेदार बाछाणीशाखाके गोहिल, भावनगरके भाइयोंमें से हैं, एक

गांव ४५० आदमियोंकी बस्ती, १५०० रुपये सालाना आमदनी, और २४१ रुपया खिराज गायकवाड़ और जूनागढ़के नव्वाबको दियाजाता है.

टोडाटोडी.

यहांके तअल्लुकेदार बाछाणी शाखाके गोहिलराजपूत, भावनगरके भाइयों मेंसे हैं. इनकी जमीन १ मीलमुरब्बा, ३ गांव और ६०० आदमियोंकी बस्ती, और ३५०० रुपया सालाना आमदनी है, जिसमें से १७५ रुपया खिराज गायकवाड़ और जूनागढ़के नव्वाबको देनापड़ता है.

बावड़ी बाछाणी.

ये दो गांव १ मील चौरसमें हैं जिनमें ६०० आदमीकी बस्ती और ३००० रुपयेकी आमदहै, खिराज गायकवाड़ सर्कार और जूनागढ़को ३५४ रुपये देते हैं— ये तअल्लुकेदार बाछाणी शाखाके गोहिल राजपूत हैं.

चमारडी.

यहांके तअल्लुकेदार भावनगरके भाइयोंमें से गोहिल राजपूत हैं; इनके ताबेमें ७ मील मुरब्बा जमीन, २१०० आदमियोंकी बस्ती और ९००० हजार रुपये की आमदनी है; गायकवाड़ और जूनागढ़के नव्वाबको ५५८ रुपये खिराज सालाना देते हैं.

पछेगांव.

यहांके तअल्लुकेदार भावनगरके भाइयोंमें से देवाणी शाखाके गोहिल राजपूत हैं, इनके कब्जेमें १० मील मुरब्बा जमीन, ३ गांव, ३७०० आदमियोंकी बस्ती और ३७००० रुपये सालानाकी आमद है; खिराज गायकवाड़ और जूनागढ़के नव्वाबको २८०२ रुपये देते हैं.

चित्रावाव.

इस तअल्लुके में १ मीलमुरब्बा जमीन, १ गांव, ३२५ आदमियोंकी बस्ती और ६००० रुपया सालाना आमदनी है गायकवाड़ और जूनागढ़के नव्वाबको ५२९ रुपया सालाना खिराज देते हैं. ये तअल्लुकेदार भावनगरके भाइयोंमें से गोहिल राजपूत हैं.

रामणका.

इसमें २ मीलमुरब्बा ज़मीन ५०० आदमियोंकी बस्ती और सालियाना आमदनी १५०० रुपया और गायकवाड़ व जूनागढ़के नव्वाबको ६७२ रुपये खिराज देते हैं. ये तअल्लुकेदार भावनगरके भाइयोंमें से गोहिल जातिके राजपूत हैं.

बड़ोद.

यह तअल्लुका गोहिल राजपूत, भावनगरके भाइयोंका है. इनके कब्जेमें २ मीलमुरब्बा ज़मीन, ९०० आदमियोंकी बस्ती और २३०० रुपयेकी आमद है; खिराज गायकवाड़ और जूनागढ़के नव्वाबको देते हैं.

धोला.

यहांके तअल्लुकेदार देवाणी शाखाके गोहिल राजपूत हैं. उनकी एक मील चौरस ज़मीन, ३०० आदमियोंकी बस्ती और १५०० रुपये की आमद है. गायकवाड़ और जूना गढ़के नव्वाबको ३८४ रुपये सालाना खिराज देते हैं.

गढाली.

यह तअल्लुका पांच मील चौरस ज़मीन, ३ गांव, २२०० आदमियोंकी बस्ती और ९००० रुपये की आमदका है. गायकवाड़ और जूनागढ़के नव्वाबको २००० रुपया खिराज यहांसे दियाजाता है.

रत्नपुर धामणका.

यहांके तअल्लुकेदार भावनगरके भाइयोंमें से गोहिल जातिके राजपूत हैं. ३ मीलमुरब्बा ज़मीन, ३ गांव ९०० आदमियोंकी बस्ती और सालियाना आमदनी ५९०० रुपयेकी है, और खिराज ९०३ रुपये सालियाना गायकवाड़ और जूनागढ़के नव्वाबको देते हैं.

गणधोलका.

यहांके तअल्लुकेदार गोहिल जातिके राजपूत, पालीताणाके भाइयोंमेंसे हैं. जिनका १ गांव, २०० आदमियोंकी बस्ती, सालियाना आमदनी २००० रुपया है, और १११ रुपया खिराज गायकवाड़ व जूनागढ़के नव्वाबको देते हैं. यहां इस वक्त हरीसिंह तअल्लुकेदार है.

ऊपर, गोहिलोंकी उन रियासतोंका हाल हमने लिखा है जो कि गुजरातमें

गोहिलवाड़ेके नामसे प्रसिद्ध हैं. राजपीपलांकी एक रियासत गोहिलवाड़ेसे कुछ फ़ासलेपर नर्मदा (नर्बदा) के किनारे आबाद है.

इन गोहिल राजपूतोंमें से भावनगरवाले चित्तौड़के बापा रावलके पुत्र गुहिलकी सन्तानमें होनेका दावाकरते हैं लेकिन हमारे क़ियासमें यह बात ठीक नहीं मालूम होती. क्योंकि भावनगर वालोंके पूर्वज (अब्बल) रावल रामशाहकी शादी महाराणा सांगाकी बेटीके साथ हुई थी और इसीतरह हालमें भी राजपीपलांके महाराजने अपनी बेटीकी शादीके लिये वैकुंठवासी महाराणा श्री सजनसिंहके पास पैग़ाम भेजाथा. सो अगर यह लोग बापारावलकी औलादमें से होते तो क्षत्रियोंके रिवाजके बख़िलाफ़ ऐसा इरादह किस तरह करते.

बूंदीका इतिहास

यह रियासत उत्तरकक्षांश २५ डिगरी ५९ मिनट ६० सेकन्ड और दक्षिणकक्षांश २४ डिगरी ५९ मिनट ३० सेकन्ड, उसका पूर्व देशांतर ७० डिगरी २१ मिनट और ३५ सेकन्ड है, पश्चिम देशांतर ७५ डिगरी १८ मिनट ६ सेकन्ड है; इसका रकबा (क्षेत्रफल) २२१८ मील (चौरस) मुरब्बा, लंबाई ज़ियादहसे ज़ियादह ८५ मील और चौड़ाई ५० मीलहै.

यह राज्य एक चतुर्भुज विषमकोणके आकारका है; इसमें बस्ती कुल २५४७०१ आदमियोंकी है, जिसमें हिंदू २४२१०७, मुसल्मान ९४७७, क्रिश्चियन ७, जैनी ३१०१ और सिक्ख ९ हैं. इसकी सीमापर उत्तरमें जयपुर और टोंककाराज्य, दक्षिण पूर्वमें बूंदी और कोटा दोनों राज्योंके बीच बिलकुल दूरीमें अलग करनेवाली चम्बल-नदी (१) स्वाभाविक है, पश्चिममें मेवाड़ है. इस राज्यमें दक्षिण पश्चिमसे पूर्वोत्तरकी तरफ़ पहाड़ियोंकी एक दोहरी शाख़ चलीगई है जो बूंदीकी मध्यशाख़ है और देशको अक्सर बराबर हिस्सोंमें जुदा करती है.

श्रृंग अर्थात् चोटीकी सबसे बड़ी उंचाई समुद्रके धरातलसे १७९३ फुट उस जगहपर है जोसतूरके बड़े ग्रामसे अक्सर ५ मील दक्षिण पश्चिममें है—बूंदीके आस-पास औसत दर्जे उंचाई समुद्रसे १४०० फुट और आसपासकी नीची ज़मीनसे ऊपर ६०० फुट है. देशकी अक्सर ज़मीन पहाड़ी और किसी क़द्र साफ़ (मैदान) भी है.

(१) राजपूतानाके गजेटियरमें इस नदीको बिलकुल अलग करनेवाली लिखा है—लेकिन बाज जगह खास एकही रियासतकी अमल्दारीमें होकर निकली है.

नदियां इस राज्यमें चम्बल और बनास बहती हैं लेकिन उनमें गिरने वाली छोटी नदियां मेज, सूख, घोड़ापछाड़, वगैरह बहुत हैं. तालाब भी इस राज्यमें बहुत हैं जिनमें से जैतसागर, फूलसागर, दुधारीका तालाब, (१) कनकसागर, हींडो-लीका तालाब, और नेनबांके दोनों तालाब वगैरह बड़े हैं—इस राजमें सब गांव ८३९ हैं जिनकी कुल आमदनी करीब १०१४००० दस लाख चौदह हजार रुपयेकेहै.

तवारीख

कहते हैं कि परशुरामजीने जब २१ बार क्षत्रियोंका नाश किया, और राज के योग्य कोई राजा न रहा, तब वशिष्ठ ऋषिने आवूपर्वत पर यज्ञ किया और अग्नि-कुण्डसे चार जातिके क्षत्री पैदा किये.

बूंदीके इतिहास वंशभास्कर तथा वंशप्रकाश वगैरहमें इस तरह लिखा है कि कलियुगके एक (१०००) हजार वर्ष बीतने बाद सब राजा प्रजा बौद्धमत मानने लगे और वेदमतके मनुष्य बहुत थोड़े रहजानेसे वशिष्ठ ऋषिने आवू पहाड़ पर यज्ञ करके अग्निकुण्डसे चार जातिके राजपूत १ परिहार (पड़ियार) २ चाहमान (चहुवान) ३ चालुक्य (सोलंखी) और ४ प्रमार (पंवार) निकाले; उसी यज्ञ-मंडपमें केलेका पेड़ खड़ा किया था, उसके फूलके डोड़ेसे एक और राजपूत पैदा किया जिसका नाम डोडिया हुआ.

इस बयानमें बहुतसा फेरफार है. मनु, याज्ञवल्क्य, विष्णु, हारीत और नारद इत्यादि बीस स्मृति, और वेदके भाष्य देखेगये और इतिहासमें महाभारत, बाल्मीकिरामचरित्र, श्रीमद्भागवत, देवीभागवत, और दूसरे भी कई पुराण व संस्कृतकी पुस्तकें बांची और सुनीगई हैं लेकिन उनमेंसे किसीमें भी ऊपर लिखा हुआ जिक्र नहीं मिला. तथापि इन पांचों खानदान व राजपूतोंका हाल कोई घड़त नहींहै. ऐसा मालूम होताहै कि करीब २००० वर्ष पहिले जब बौद्धमतकी वृद्धि थी, तब पांच राजपूतों को जो बौद्धमती होगये होंगे उपदेश से वेदके मजहबपर लाये और प्रायश्चित करने बाद वेद पढ़नेके लायक बनाकर उन्हीं राजपूतोंकी सहायतासे ब्राह्मणोंने अपना बल बढ़ाकर वेदमत फिर जारी कियाहोगा; धीरे २ दूसरे राजपूत भी उन राजपूतोंके साथ होकर वेदको माननेलगे होंगे. इस प्राचीन इतिहासका ठीक २ निर्णय करना बहुतही कठिनहै.

चाहमान (चहुवान) के वंशका हाल.

चाहमान (चहुवान) ने पुष्करमें अपनाराज्य जमाया और आशापुरा देवी-

(१) इस दुधारीमें सिंहीके पत्थरकी जिस पर नाईके उसतरे व चाकू आदि भोजार तेज कियेजाते हैं, बड़ी प्रसिद्ध खान है.

को कुलदेवी माना. उनके २ सामंत देव इनके ३ महादेव इनके ४ कुबेर इनके ५ विन्दुसार, ६ सुधन्वा, ७ बीरधन्वा, ८ जयधन्वा, ९ बीरसिंह, १० बरसिंह, ११ बीरदंड, १२ अरिमंत्र, १३ माणिक्यराज, १४ पुष्कर, १५ असमंजस, १६ प्रेमपूर, १७ भानुराज, १८ मानासिंह, १९ हनुमान, २० चित्रसेन, २१ शंभू, २२ महासेन, २३ सुरथ, २४ रुद्रदत्त, २५ हेमरथ, २६ चित्रांगद, २७ चन्द्रसेन, २८ वत्सराज, २९ धृष्टद्युम्न, ३० उत्तम, ३१ सुनीक ३२ सुबाहु, ३३ सुरथ, ३४ भरत, ३५ सत्यकी, ३६ शत्रुजित, ३७ विक्रम, ३८ सहदेव, ३९ बीरदेव, ४० बसुदेव, ४१ बासुदेव, ४२ रणधीर, ४३ शत्रुघ्न, ४४ शालिवाहन, ४५ कृतवर्मा, ४६ सुवर्मा, ४७ दिव्यवर्मा, ४८ यौवनाश्व, ४९ हर्यश्व, और ५० अजयपाल हुए, जिसने अपने नामसे अजमेर शहर बसाया.

बाजे लोग कहते हैं कि एक वक्त्र ऋषियोंने पुष्कर क्षेत्रके पास अजमेध (१) यज्ञ किया था और उस जगह एक शहर आबाद किया जिसका नाम उसी यज्ञके नामसे अजमेध रक्खा, और वह बिगड़कर अजमेर होगया. ये दोनोंबातें जवानी और किस्से कहानीके तौरपर हैं, किसी मोतबर संस्कृतकी पुस्तकमें नहीं मिलतीं. इस राजा (अजयपाल) की और भी कई बातें कहानियोंके तौरपर प्रसिद्ध हैं लेकिन वह बे फायदा समझीजाकर यहां नहीं लिखीगई.

इनके पुत्र ५१ भटदलन उनके ५२ अनंगराज उनके ५३ भीमदेव इनके ५४ गोगादेव. इन गोगादेवको राजपूताना और हिन्दुस्थानके दूसरे इलाकोंमें भी भाद्रपद कृष्ण ९ को पूजते हैं और इनकी मिट्टीकी मूर्ति घोड़ेपर सवार बनाकर कुम्हार वगैरह लोग नवमीके दिन घरों २ में लेजाते हैं, उस वक्त्र घरवाले उस मूर्तिपर अपने हाथकी बंधीहुई राखियोंको (२) डालते हैं और दही भी उस मूर्ति और कुम्हारपर छिड़कते हैं, और नाज तथा पैसा और कपड़ा भी कुम्हारको देते हैं. लोगोंका अकीदा (धार्मिक विश्वास) है कि ये गोगादेव सर्पके अवतारथे और इनके पूजनेसे सांप नहीं काटता. उनको जियादह माननेका कारण यह है कि गोगादेव मुसलमानोंसे लड़कर बड़ी बहादुरीके साथ मारेगये.

इनके बेटे ५५ शुभकरण हुए उनके ५६ उदयकरण उनके ५७ जसकरण उनके ५८ हरिकरण उनके ५९ कीर्तीश उनके ६० बालकृष्ण उनके ६१ हरिकृष्ण उनके ६२ रामकृष्ण उनके ६३ बलदेव उनके ६४ हरदेव उनके ६५ भीम उनके ६६ सहदेव

(१) जिसको आगमें होमतेहैं उसीके नामसे वह यज्ञ मशहूर होता है, इस जगहपर अजयाने बकरेको ब्राह्मणोंने होमाया इसीलिये अजमेध कहागया.

(२) श्रावण शुक्ल १५ के दिन जो राखीका (रक्षाबन्धन) त्यौहार होता है, आपसमें राखी बांधते हैं.

उनके ६७ रामदेव उनके ६८ वसुदेव उनके ६९ श्यामदेव उनके ७० हरिदास उनके ७१ महीधर उनके ७२ वामदेव उनके ७३ श्रीधर उनके ७४ गंगाधर उनके ७५ महादेव उनके ७६ शारङ्गधर उनके ७७ मानसिंह उनके ७८ चक्रधर उनके ७९ शत्रुजित उनके ८० हलधर उनके ८१ महाधनु उनके ८२ देवदत्त उनके ८३ दामोदर उनके ८४ काशीनाथ उनके ८५ लीलाधर उनके ८६ धरणीधर उनके ८७ रमणेश उनके ८८ भगवदास इनके ८९ कृष्णदास उनके ९० शिवदास उनके ९१ हरिपूर्ण उनके ९२ देवीदास उनके ९३ कर्मचंद्र उनके ९४ रामदास उनके ९५ महानन्द.

महानन्दने सांभर (१) में अपनी राजधानी बनाई. जिनके ९६ विष्णुदास ९७ महाराम ९८ रेवादास ९९ अमरसिंह १०० गंगादास १०१ मानसिंह १०२ विश्वंभर १०३ मथुरादास १०४ द्वारिकादास १०५ माधवदास १०६ सुदास १०७ वीरभद्र १०८ गोपाल १०९ गोविन्ददास ११० माणिक्यराज.

माणिक्य राजके दो पुत्र हुए बड़े १११ हनुमान (२) और छोटे सुग्रीव हनुमानकी सन्तान पूर्वी चहुवान कहलाई. माणिक्य राजकी गद्दीपर उनका दूसरा बेटा सुग्रीव बैठा और साम्हरका राजा हुआ. इनके पुत्र ११२ अंगद ११३ केसरी ११४ जयंत ११५ जगदीश ११६ जयराम ११७ विजयराम ११८ कृष्ण ११९ जितयुद्ध १२० गोवर्द्धन १२१ मोहन १२२ गिरिधर १२३ उदयराम १२४ भरत १२५ अर्जुन १२६ शत्रुजित.

उनके १२७ सोमदत्त १२८ दुःप्यन्त १२९ भीम १३० लक्ष्मण १३१ परशुराम १३२ रघुराम १३३ समरसिंह १३४ माणिक्यराज इनके दशपुत्र १३५ (१) मुहुःकर्मा २ लालसिंह ३ हरिसिंह ४ शार्दूल ५ पूर्णराज ६ मौक्तिकराज ७ निर्वाण ८ कृष्णराज ९ लसनराज और १० प्रबालराज नामके बेटे थे, से मुहुःकर्मा सांभरकी गद्दीपर बैठे. १३५(२) लालसिंह ने मद्रदेशको फ़तह किया इससे इनके बंशवाले माद्रेचे चहुवान कहलाते हैं.

(१) इस शुरीका शुद्ध नाम शाकंभरी है, महानन्द राजाको स्वप्नमें देवीने कहा कि तुम उस जगह राजधानी बनाओ तब महानन्दने शाकंभरी देवीके नामका शहर और मंदिर बनवाया.

(२) बूंदीकी तवारीखमें लिखा है कि हनुमान छोटे भाईको राजदेकर पटनेकी तरफ़ चलगये और वहांका राज बहादुरीसे लेलिया और उन्हीके वंशमें बेदला कोठारिया पारसोली वगैरह उदयपुरके राज्यमें चहुवान उमरावहैं, लोकिन बेदला कोठारिया और पारसोलीके सर्दार अपने को राजा पृथ्वीराजके काका कन्हकी औलादमें बतलाकर मैनपुरी इटावासे मेवाडमें आना बयान कर

तेहें-

३ हरिसिंह के बेटे धूधेटके नामसे धूधेड़िये चहुवान कहलाये, और ४ शार्दूलके २ बेटोंमें से बड़े घनजीके तो पंजाबी चहुवान और छोटे टांकजीके टांक चहुवान कहलाये. पूर्णराज ५ वेंने भदावरमें राज किया और उनकी औलादके भदौरिये चहुवान कहलाये. छोटे मौक्तिकराजने जालौर में राज किया जिसका दूसरा नाम सोनगिरी है, जिससे उनके वंशवाले सोनगरे चहुवान कहलाये.

७ निर्वाण जिनकी औलादके निर्वाणे चहुवान कहलाये. ये जियादह मारवाड़से उत्तरकी तरफ बसते हैं इनमें देवजी नामी चहुवानने आबू और सिरोही का राज्य लिया और उनके वंशवाले देवड़ा चहुवान कहलाये. कृष्ण राज ८ वेंने पांढ्य देशमें राज्य किया इससे इनके वंशके पंडिये चहुवाण कहलाये—

९ वें लसनराजने गुजरातमें राजकिया जिसके गुजराती चहुवान कहलाये.

१० वें प्रवालराजने बक्सरमें राजकिया इससे उनके वंशके लोग बक्सरिया चहुवान कहलाये.

माणिक्यराजके मुहुःकर्मा सांभरके राजाथे उनके दोबेटे एक रामचन्द्र और दूसरे खिच्वीराज हुए. १३६ रामचन्द्र सांभरके राजा हुए खिच्वीराजसे खिच्वी चहुवान कहलाये, ये लोग राघवगढ़ वगैरह में जियादहहैं जिसको खिच्वीवाड़ा कहते हैं. रामचन्द्रके १३७ संग्रामसिंह हुए इनके १३८ शिवादत्त उनके १३९ भोगादत्त उनके शिवदत्त और चित्रक दो पुत्रहुए. उनमेंसे शिवदत्त १४० सांभरके राजाहुये. चित्रकके वंशके चित्ते कहलाये. १४० शिवदत्त के १४१ रुद्रदत्त उनके १४२ ईश्वर इनके आठ बेटे थे, १४३ उमादत्त मयूरध्वज; बहुलक, गजलदेव, तिलवाट, चीबक, सर्पट और चित्रराज. इनमेंसे उमादत्त १४३ सांभरके राजाहुये. मयूरध्वजसे मोरेचे कहलाये. मयूरध्वज के बेटे तो बहुत थे परन्तु पर्वत १४४ और तुष्टनपाल १४४ वें के वंशके जुदे २ नामसे कहलाये. पर्वतके पब्विये और तुष्टनपाल सांचोर देशके राजा थे इससे उनके वंशवाले साचोरे कहलाये. बहुलकसे बहोले, गजलदेवसे गयेले, तिलवाटसे तिलवाड़े, चीबकसे चीबे, सर्पट, से सर्पाटे, और चित्रराजसे चित्रावे कहलाये. चित्रराजके बेटोंमें से इन सात बेटोंके वंशके चहुवान नीचे लिखे हुए नामोंसे मशहूर हैं:—

चांडालीकके चंडालिये, चाहुड़के चाहोड़े, बटराजके बडेरे, मौरिकके मौरी, इन मौरियोंमें से चित्रांग नाम मौरीने चित्तौड़ (१) का किला बनवाया था. रेवतके रेवडे, चंदनके चांदने, बंकटके बंकटे कहलाये.

(१) यह बात बूंदीकी तवारीखके सिवाय और कहीं देखनेमें नहीं आई.

ईश्वर १४२ के बड़े बेटे उमादत्त १४३ वें जो सांभरके राजा थे, उनके चार पुत्र हुए, बड़े चतुर १४४ सांभरके राजा हुए. चतुर के तीन पुत्र हुए, पहिले सोमेश्वर १४५ सांभरके राजा हुए. दूसरे तुलसीरक्षक, इनके वंशके तुलसी रच्छण कहलाये.

सोमेश्वर १४५ के दो बेटे हुए बड़े भरत १४६ और छोटे उरथ, बड़े भरतकी सन्तानमें चहुवान पृथ्वीराज दिल्लीवाले थे जिनके वंशमेंसे रणथम्भोरवाले हमीरकी औलादमेंके अब नीमराणे पर मुस्तार हैं. और दूसरे उरथ १४६ के चक्रपाणि १४७ इनके देवकीनन्द १४८ उनके यशोदानन्द १४९ इनके नन्दनन्द १५० इनके केशवदास १५१ इनके मोहन १५२ इनके समुद्रराज १५३ इनके गोपाल १५४ इनके १५५ भौमचन्द्र इनके १५६ भानुराज जिनका दूसरा नाम आस्थिपाल (१) हुआ, इनके १५७ पृथ्वीपाल हुए. इनके १५८ सेनपाल इनके १५९ शत्रुशल्य इनके १६० दामोदर इनके १६१ नृसिंह इनके १६२ हरिवंश उनके १६३ हरजस उनके १६४ सदाशिव उनके १६५ रामदास उनके १६६ रामचन्द्र इनके १६७ भागचन्द्र उनके १६८ रूपचन्द्र उनके १६९ मंडन (२) हुए. इनके १७० आत्माराम इनके १७१ आनन्दराज इनके १७२ रणधवल उनके १७३ सर्दार उनके १७४ जोधराज उनके १७५ कलिकरण इनके १७६ रत्नसिंह इनके १७७ कोल्हण इनके १७८ आशुपाल इनके १७९ विजयपाल इनके १८० बंगदेव इनके बेटे १८१ देवासिंह हुए, जिन्होंने बूंदीमें अपना राज स्थापन किया.

अब देवासे पहिलेकी जो वंशावली हमने लिखीहै उसमें बहुतसे कियासी

(१) बूंदीकी तवारीख वंशप्रकाशमें लिखा है कि भानुराजको जंगलमें एक गंभीरारंभ राक्षस खागया. उसकी कुलदेवी आशापुराने भानुराजको उसकी हाडियां एकट्ठी करवाकर अपनी करामातसे जिलादिया, इस लिये उसका दूसरा नाम 'अस्थिपाल' रक्खा जिससे अस्थिपाल की सन्तान हाड़ा चहुवान कहलाती है.

(२) बूंदीकी तवारीखमें लिखा है कि मांडलगढ़का किला इन्हींने अपने नामसे मेवाड़में बनवाया, लेकिन मांडलगढ़ जिलेके आमलोगोंमें इस तरह मशहूरहै कि एक मांड्या नाम भीलको पारस मिलगया जिसके छूनेसे लोहा सोना होजाता था, उसके तीरका फल पारस पत्थर पर धिसनेसे सोनेका होगया, उसीजगह चांदना नाम गूजर बकरी चरारहा था; भीलने गूजरसे कहा कि मेरातीर इस पत्थरसे रंगत बदलकर खराब होगया. गूजर समझदार था वह पत्थर भील से लेकर दौलतमन्द बनगया और वहां एक किला बनवाया जिसका नाम उस भीलके नामसे मांडलगढ़ रक्खा. यहबात भी कहानीके तौर पर ही मशहूर है लेकिन अस्ली हाल इसका नहीं मिलता "कि कित्त समयमें किसने बनवाया था."

नाम मिलाये हुए मालूम होते हैं, क्योंकि राजा अजयपालसे जिसने अजमेरका शहर आबाद किया, बंगदेव तक १३० राजाओंके नाम लिखदिये हैं, और इसी तरह दूसरी तरफ़ उससे दिल्लीवाले पृथ्वीराज चहुवान तक ७० नाम वंशप्रकाश ही में लिखे हैं और हमीरकाव्यमें, जो सम्वत् १५४० विक्रमी [हि० ८८८ = ई० १४८३] से पहिलेका बना हुआ है, अजयपालसे पृथ्वीराज तक २५ ही नाम हैं, और एक पत्थरकी प्रशस्ति जो मेवाड़में बाभोलियांके पास कामा और रेवणां गांवके पास राजा पृथ्वीराजके समयकी हमको मिली है, उसमें जयपालको जयराज लिखा है, उससे लेकर पृथ्वीराज तक २६ पीढ़ियोंके नाम लिखे हैं. अगर ऊपर लिखी हुई वंशावली प्रशस्तिसे मिलाई जावे तो पीढ़ियों में फर्क पड़ता है. इस लिये बूंदीकी तवारीख में हाड़ा देवसिंहसे रावराजा रामसिंह तक वंशावली सही समझनी चाहिये. कोई दूसरी सिलसिले वार वंशावली सुबूतके साथ नहीं मिली, जो बूंदीकी तवारीखमें लिखा था उसकी नकल यहां दर्ज की गई है.

देवसिंह हाड़ा जो किसीतरह ज़मीन छूट जाने बाद भैंसरोड़के पहाड़ी जिलेमें रहता था उसकी एक बेटी की मंगनी महाराणा लक्ष्मणसिंहके कुंवर अरिसिंहके साथ हुई थी. जब अरिसिंह शादी करने को देवसिंहके मकान पर गये तब देवसिंहकी हालत खराब देखकर कहा कि हम तुम्हारे मददगार हैं जहां कहीं मौका देखो मुल्कपर कब्ज़ा करलो. देवसिंहने कहा कि बूंदीमें जो मीने रहते हैं वे अक्सर आसपासके मुल्कोंमें बहुतसा नुकसान कर बैठते हैं अगर आपकी मदद मिले तो मैं इस मुल्क पर कब्ज़ा करलूं; अरिसिंहने देवसिंहके साथ अपनी कुछ फौज करदी.

बूंदीका कब्ज़ा

कुल मीनोंका सर्दार जैता बूंदीमें रहता था जिसको दगासे देवसिंहने मार डाला. उसके खानदानके लोगोंको भी जो शराबके नशेमें ग़ाफ़िल थे क़त्ल करके देवसिंहने बूंदी पर अपना कब्ज़ा करलिया, उस वक्तसे आजतक बूंदीमें हाड़ोंका राज चला आता है.

यह बात नैनसी महताने तो इसी तरह लिखी है परन्तु बूंदीकी तवारीख में दूसरे तौरपर लिखी है. हमको नैनसी महताका लिखना मोतबर मालूम होता है क्योंकि इस समयकी बातोंसे नैनसी महताका लिखना उस ज़मानेके कुछ करीबका है; उसके लिखने से ३०० वर्ष पहिले बूंदी पर हाड़ोंने कब्ज़ा किया था,

और अब इस बातको ५२५ वर्षसे भी जियादहका अर्सा हुआ. मीनों को मारकर बूंदीका दगासे लेना तो बूंदीकी तवारीखसे भी साबित होता है, लेकिन बूंदीवाले चित्तौड़से मदद लेकर जाना नहीं लिखते, जिसका यह कारण है कि अब अक्सर लोग अपना मेवाड़के मातहत रहना छिपाते हैं.

देवसिंह हाड़ा बूंदीमें राज जमाकर चित्तौड़ आया और दुबारा कुंवर अरिसिंहसे मदद लेकर बूंदीके तमाम जिलेको अपने कब्जेमें लाया. प्रतिवर्ष चित्तौड़के महाराणाओंकी सेवामें रहने लगा और मेवाड़के अव्वल दर्जेका सर्दार कहलाया (१).

इसके दो पुत्र हुए बड़ा हरिराज १८२ बंबावदेमें देवसिंहकी गद्दी पर बैठा और छोटा समरसिंह बूंदीका जागीरदार रहा. इस समरसिंहके तीसरे बेटे जैतसिंहने कोटिया भीलकोमारकर कोटा शहर आबाद किया, (२) उसके वंशके जैतावत हाड़े कहलाते हैं. हरिराज और समरसिंह दोमों बंबावदेमें मुसलमानोंसे लड़कर मारेगये और समरसिंह १८२ के बाद नापा १८३ गद्दीपर बैठा. इस के तीन पुत्र हमीर १८४१ नौरंग १८४२ स्थिरराज १८४३ हुए. इस के पीछे हमीर जिसे हामा कहते हैं गद्दीपर बैठा. इसके बरसिंह १८५ और लालसिंह दो बेटे हुए. बरसिंह १८५ गद्दी बैठा. लालसिंहकी बेटिकी शादी चित्तौड़के महाराणा खेताके साथ ठहरी थी. जिसवक्त खेता शादीकरनेको गये तब लड़ाई होकर लालसिंह और महाराणा खेता दोनों मारेगये. यह हाल विस्तार सहित महाराणा खेताके बयानमें लिखागया है.

बरसिंहके बाद बैरीशाल १८६ गद्दीपर बैठा इसके समयमें मांडूके बादशाह हौशंगने बूंदीको घेर लिया था. उस लड़ाईमें बैरीशाल बड़ी बहादुरीकेसाथ लड़कर मारागया, इसके बाद भांडा १८७ गद्दीपर बैठा इसके नारायणदास, नरबद और नरसिंह तीन बेटे हुये; नारायणदास १८८ गद्दीपर बैठा. इसके वक्तमें समर्कन्द नाम मुसल्मान ने बूंदीपर कब्जाकरके भांडाको मार डाला, लेकिन नारायणदासने मौका देखकर उसे व दाऊदको कल्लकरके बूंदीमें अपना राज जमाया. यह तीन भाई थे १ नारायणदास २ नरबद ३ नृसिंह. नारायणदासके पुत्र १ सूर्यमल्ल २ रायमल्ल ३ कल्याणमल्ल, और सूर्यमल्लके सुरतान थे. नरबदके अर्जुन, भीम, पूर और मोकल, चार बेटे और एक कर्मवती बाईथी जो महाराणा संग्रामसिंहको विवाही गई थी—अर्जुनके सुर्जण, अखे-

(१) बूंदीकी तवारीखमें मेवाड़के मातहत रहना बिलकुल नहीं लिखा, इस बातको हम आगे लिखेंगे जिससे बूंदीवालोंका हाड़ा देवसिंहसे लगाकर रावसुर्जण तक मेवाड़के ताबे रहना पायाजाता है.

(२) यह बात बूंदीकी तवारीखसे लिखी है वरनाकोटेका आबाद होना पहिले से पायाजाता है.

राज, खांधल और राम, चार पुत्र हुए. विक्रमी १५८४ [हि० १३३ = ई० १५२७] में उसका देहान्त होनेपर सूर्यमल्ल १८९ गद्दी बैठा, जो महाराणा रत्नसिंहके हाथसे मारा गया और महाराणा उसके हाथसे कल्लहुए (पृष्ठ ८). विक्रमी १५८८ [हि० १३७ या ३८ = ई० १५३१ में] सूर्यमल्लके बेटे सुर्तान १९० को गद्दी मिली, जो बिल्कुल कमअच्छ और जालिम था. इस वास्ते विक्रमी १६११ [हि० १६१ = ई० १५५४] में महाराणा उदयसिंहने उसको बूंदीसे निकालकर सुर्जण १९१ को राव बनाया और रणथंभोरकी किलेदारी भी दी (पृष्ठ = ६९). जब किला चित्तौड़ फतह करने बाद बादशाह अकबरने रणथंभोरका किला भी विक्रमी १६२५ [हि० १७६ = ई० १५६८] में लेलिया तो उस वक्त से बूंदीके राव राजा सुर्जण मेवाड़की मातहतीसे निकलकर बादशाही नौकर बने, लेकिन बूंदीकी तवारीख वंशप्रकाशके लिखनेवालेने मेवाड़की मातहतीसे उनको हर सूरतमें बचाया है.

इस बातके लिखने और नलिखने से मेवाड़का फायदा और बूंदीका नुकसान नहीं है, लेकिन तवारीख की खामी मिटानेके लिये कई दलीलें (प्रमाण) नीचे लिखी जाती हैं. यह तो पत्थरकी प्रशस्तियों वगैरहसे अच्छी तरह साबित है कि चित्तौड़का पूर्वी जिला आंतरी ऊपरमाल और खैराड़ वगैरह विक्रमी १२०० [हि० ५३८ = ई० ११४३] से लेकर विक्रमी १६०० [हि० १५० = ई० १५४३] तक चहुवान राजपूतोंके कब्जे में रहा है. कदाचित् राजा पृथ्वीराज चहुवानके जमानेमें इन जिलोंकी हुकूमत अलहदा रही हो तो तअजुब नहीं, लेकिन उसके बाद हमेशा मेवाड़की मातहती में उन लोगोंका रहना पायाजाता है.

अव्वल देवा हाड़ाने मेवाड़की मदद् पाकर बूंदी मीनों से अपने कब्जे में ली, और मेवाड़के मातहत रहनेका हाल नैनसी महताने लिखाहै, जिसने पता जयमल्लकी खैरखाही की तारीफ़ और सुर्जणकी नमकहरामीकी निंदा की है. बाबर बादशाह भी तुजकबाबरीमें रणथंभोर का मेवाड़के मातहत होना लिखताहै जिससे बूंदीके मालिकोंकारणथंभोर पर किलेदार होना ही साबित होता है.

नैनसी महता लिखता है कि सुर्जणका बड़ा बेटा दूदा मुसलमानोंकी नौकरीको नापसन्द करके महाराणा उदयसिंहके पास आ रहा, जिससे बादशाह अकबरने नाराज होकर उसकी जगह सुर्जणके दूसरे बेटे भोजको बूंदीका मालिक बनादिया; तब दूदा ने महाराणाकी फौजमें रहकर बादशाही फौजसे बहुतसी लड़ाइयां कीं. यह बात मौतमदखांकी तवारीख इकबालनामे जहांगीरीके पृष्ठ ३०८ से भी सही मालूम होती है जो लिखता है—कि

“रावसुर्जणका बेटा दूदा बादशाही दरगाहसे भागकर बूंदीमें लूटमार करने लगा.

इसलिये सफ़दरखां, बहादुरखां, खांदीराय जादव वगैरह दूदाको सज़ादेनेके लिये भेजे गये— (पृष्ठ ३१४). सुर्जणका बेटा दूदा अपने बाप और भाईको बादशाही दर्गाह में छोड़कर बूंदीकी तरफ़ भागा और वहां जाकर लूटमार करने लगा. उसके मुकाबिले को जैनखां कूका (धायभाई) मुक़रर किया गया, जिसकी मातहतीमें सुर्जण, भोज और रामचन्द्र वगैरह भेजे गये— (पृष्ठ ३२३). शाहबाज़खां. बादशाही अफ़सर राणाके सिपहसालार दूदाको बादशाही दर्गाहमें ले आया, लेकिन बादशाहने फ़र्माया कि यह लाचारीसे हाज़िर हुआ है खुशीसे नहीं आया; ऐसा ही हुआ कि वह कुछ दिनों में भाग गया.”

इसी तरह मौलवी अब्दुल हमीद लाहौरी अपनी तवारीख़ बादशाहनामेकी पहिली जिल्दके पृष्ठ ३६९ में, जब किरणथम्भोरका क़िला राजा विठ्ठलदास गौड़को दिया गया बादशाह शाहजहांके हुक्मसे, इस तरह लिखता है कि “राणाउदयसिंहने इस क़िलेकी निगहबानी राव सुर्जणको दी थी, जो कि उसका मौतबर नौकर था.”

खुद बूंदीके एक बड़े मौतबर सत्य वक्ता कवि चारण मिश्रण सूर्यमल्लने अपने ग्रन्थ वंशभास्कर बुद्धसिंह चरित्रमें महाराणाको चित्तौड़का क़िला आबाद करने की इजाज़त बादशाहकी तरफ़से मिलनेके वक्त् बादशाहको बुद्धसिंहका मनाकरना लिखा है, जहांका एक छन्द नीचे लिखा जाता है:—

छन्द हरिगीत

बुधसिंह रान पठाय विन्नति चित्रकूट वसावहीं ।
 किय भेट दम्म त्रिलख ओ अपनो निदेस उठावहीं ॥
 नय मन्द हड्ड नरिंद यों सुनि कुम्म कानिहु नांकरी ।
 जयसिंह उक्त प्रपंच जानतहूं यहै कथ उच्चरी ॥ १०९२ ॥
 वह दुर्ग अक्बरसाह रन करि अब्दद्वादश मेंलयो ।
 हम आदि बहुतन रान तजि तब सीस साहनकोंन यो ॥
 वह चित्रकूट बसायकें पुनि रान फैल प्रचारि है ।
 अवनीप हिन्दुन फोरि अंकुर साह नाह बिसारि है ॥ १०९३ ॥

अर्थ—बहादुरशाह सलाह लेता है कि ऐ बुद्धसिंह राणाने चित्तौड़ आबाद करनेकी दरखास्त भेजी है और तीन लाख रुपये नज़र करके अपना हुक्म (बादशाहका) उठाता है. नातिके विरोधी हाड़ा राजाने कछवाहे राजा जयसिंहका (जिसकी मार-फ़त यह अर्ज हुई थी.) लिहाज़ नहीं किया और यह कहा कि मैं जयसिंहका फ़रेब जानता हूं. वह क़िला (चित्तौड़) अकबर बादशाहने बारह वर्ष लड़कर लिया था

(चार महीने और कुछ दिन लड़ाई हुई थी, सूर्यमल्लको इस लड़ाईकी तवारीख नहीं मिली) तब हम (बूंदीके राव) से आदि बहुतोंने राणाको छोड़कर बादशाहोंके सामने सिर झुकाया (महाराणाकी नौकरी छोड़कर बादशाही नौकर बने) इस चित्तौड़को आबाद करके फिर राणा फैल करेगा और हिंदू राजाओंका अंकुर उगाकर बादशाहोंकी ताबेदारी छोड़ेगा.

सिवाय इसके बूंदी वालोंका बादशाही नौकर होजाने पर भी उदयपुरसे मौतबर नौकरोंके मुवाफिक ही लिखावट वगैरामें बरताव रहा. जिसकी ताईद उन तहरीरोंसे होतीहै जिनकी नकलें उसी जमानेकी उदयपुरके दफ्तरमें मौजूद हैं, पहिले सब उमराव सर्दारोंसे कुछ अधिक बूंदी वालोंको मेवाड़से परवाने ही (१) लिखे जाते थे. और महाराणा दूसरे अमरसिंहने खरीता (२) लिखना जारी किया.

किताब मन्त्रासिरुल उमरामें नव्वाब सम्सामुद्दौला, शाहनवाजखां, राव सुर्जणहाड़ाके बयानमें लिखताहै कि "राव सुर्जण हाड़ाफिरकेका आदमी है जो चहुवान कौमकी एक शाखहै, और हाड़ोती रणथंभोरके जिलेको कहतेहैं जो अजमेर (राजपूताना) के सूबेके मातहत है. ये लोग इस जगह जमींदार हैं. सुर्जण शुरूमें राणाके नौकरोंमेंसे था; अकबर बादशाहके वक्तमें किले रणथंभोरके भरोसे पर गुरूर करने लगा था. बादशाह चित्तौड़ लेनेके पीछे अपने १३ वें जुलूसमें लश्कर लेकर रणथंभोर आये, सामना होने पर सुर्जणने बादशाही ताबेदारी इस्तिथार की.

इन ऊपर लिखेहुए कारणोंसे देवसिंह हाड़ासे लेकर सुर्जणके अहद विक्रमी १६२५ [हि० १७६ = ई० १५६८] तक बूंदीकी रियासत मेवाड़के मातहत रही

(१) परवानेकी नकल, —स्वस्ति श्री उदयपुर सुथाने महाराजाधिराज महाराणा श्रीजयसिंहजी आदेशात् बूंदी कोटा सुथाने राव श्री अनिरुद्धसिंहजी कस्य सुप्रसाद लिख्यते अथा अठारा समाचार भलाछै आपणा समाचार सदा कहावज्यो अपर रावलो कागल आयो समाचार मालूम हुवा कागद समाचार कहावता रहज्यो.

(२) खरीतेकीनकल, स्वस्ति श्री आगरा सुथाने महाराव राजाश्री बुधसिंहजी जोग स्वस्ति श्री उदयपुर सुथाने महाराजाधिराज महाराणा श्री अमरसिंहजी लिखावतं जुहार बंचजो— अठारा समाचार भलाहै रावला सदाभला चाहिजे अपर रावला कागल आया सुखहुवो लड़ाई सम्बन्धीका समाचार लिख्या जो मालूम हुवा लिख्या अठारो साधन करणो ज्यो झालोकान्ह पहली मोखल्याहै अबे टीलो सदा मोखलायहै जो लार भाई तख्तसिंह मदनसिंह सलामतराय आवेहै अठारो काम राजैसारो करणोहै माहें घणीनचीताईहै राजहै पांचहजारी पांचहजार असवार नोबत रावराजाईरो खिताब बकस्यो जणीरो माहें घणो सुखहुवो अठाउठारो एक व्यवहारहै जुदायगी काई है सम्बत् १७६४ श्रावण वदी ११ सोमे.

है. जब राव सुर्जण बादशाही नौकर होगये तब बादशाह अकबरने पत्ता सीसो-
दिया और जयमल्ल राठौड़की तारीफ और राव सुर्जणकी निन्दा की. इससे सुर्जण
बनारसमें जा रहे और उनके बड़े बेटे दूदा और छोटे भोजमें बिगाड़ हुआ; क्योंकि
दूदा मुसल्मानोंसे नफरतके कारण महाराणा उदयसिंहके पास चला आया था, जिससे
भोजको बादशाहने बूंदीका राज्य दिया.

इस पर दूदाने अच्छी तरह लड़ाइयां कीं लेकिन बादशाही मददसे बूंदी पर
भोज कायम रहा और दूदाको अन्तमें किसीने ज़हर देकर मार डाला (१). सुर्जण
विक्रमी १६४२ [हि० १९३ = ई० १५८५] में काशी क्षेत्रमें मरगये. बूंदी
वाले तो अपनी तवारीखमें उनका दर्जा बहुत कुछ लिखते हैं परन्तु आईन अकबरीमें
अबुलफज़लने इनका दो हज़ारी जात और सवार मन्सब लिखा है जो सुर्जणके मरने
बाद अकबरके ४० जुलूसकी फ़िहरिस्तमें दर्ज है.

भोज तो पहिलेसे ही बूंदीके राजा होगये थे लेकिन इस समयसे राज्यके पूरे
मालिक कहलाये. दूदाके तीन बेटे चतुर्भुज, अमरसिंह और श्यामलसिंह थे.

सुर्जणने काशीमें एक महल और बाग़ बनवाया था जो अब तक मौजूद है. जिस
वक्त सुर्जण मरे भोज गद्दी पर बैठे; इस वक्त इनकी उमर ३४ वर्षकी थी और इनके
चार बेटे— रत्न, हृदयनारायण, केशवदास और मनोहर हुए. विक्रमी १६६४ आषाढ़
शुक्ल ४ [हि० १०१६ ता० २ रविउलअव्वल = ई० १६०७ ता० २६ जून] को भोजका
इन्तिकाल हुआ और इनके पीछे राव रत्नसिंह (१९३) गद्दी पर बैठे जिनको बादशाह
जहांगीरने सरबलन्दराय और रावरायका खिताब और पांच हज़ारीमन्सब दिया था.

रत्नसिंहके गोपीनाथ, माधवसिंह, हरिसिंह, जगन्नाथ चार बेटे थे. गोपीनाथ
तो २५ वर्षकी उमरमें विक्रमी १६७१ [हि० १०२३ = ई० १६१४] में मरगये.
उनके शत्रुशाल, इन्द्रशाल, बैरीशाल, राजसिंह, मुहकमसिंह, महासिंह, उदयसिंह,
सूरसिंह, श्यामसिंह, केशरीसिंह, कनकसिंह, नगराजसिंह, रामसिंह, १३ बेटे थे. जब
रावरत्न और मुल्ला मुहम्मदलारी दक्षिणमें बुरहानपुरकी किलेदारी पर थे उस वक्त
जहांगीरसे बागी होकर शाहज़ादा खुर्रम बुरहानपुरके करीब पहुंचा तो किला लेनेके
लिये शाहज़ादेकी फौजने हमले किये. (२) उस वक्त राव रत्नके बहुतसे राजपूत मारे

(१) बीजापुरके बहमनी बादशाहकी मदद लेनेको जाते थे सो मालवेमें देवगांवके करीब भोजके
किसी मिलावटी आदमीने ज़हर दे दिया (विक्रमी १६३८ [हि० १८९ = ई० १५८१] में).

(२) इस लड़ाई को बूंदीकी तवारीख में लिख दिया है कि शाहज़ादेको गिरफ्तार कर
लिया और जहांगीरके मांगनेपर उसके भेजनेमें टालाटूली की अखीरमें राव रत्नके बेटे
माधवसिंहने निकाल दिया, इस तरहकी बातें बहुत कुछ लिखी हैं लेकिन तुज़कजहांगीरी इकबा-

गये पर इन्होंने क़िला नहीं दिया. शाहज़ादा तो आगे चला गया था और बादशाही फ़ौज समेत महाबतखां और शाहज़ादे परवेज़के पहुंच जानेसे उसकी फ़ौज भी चली गई; इससे राव रत्नकी बड़ी बहादुरी दिखाई दी. फिर शाहज़ादे और बादशाही फ़ौजोंके चलेआने बाद अंबर हबशीने क़िले बुरहानपुरको आ घेरा जो बहमनी बादशाहोंके बड़े नामी नौकरोंमें से था, राव रत्नने अंबरको भी क़िला नहीं दिया और वह इनके हमलोंसे लाचार होकर भाग गया.

विक्रमी १६८२ के आश्विन वा कार्तिक [हि० १०३५ मुहर्रम = ई० १६२५ सेप्टेम्बर] में यह ख़बर सुनकर बादशाह जहांगीरने रावरत्नको पांचहज़ारी मन्सब और रावरायका खिताब दिया (१) इसके बाद शाहजहां बादशाह के वक्तमें भी यह दक्षिणकी लड़ाइयोंमें रहे. विक्रमी १६८८ [हि० १०४१ = ई० १६३१] में इनका देहांत होगया. इनके बड़े बेटे गोपीनाथका इन्तिकाल तो इनके सामने ही होगयाथा (२) इसलिये गोपीनाथके बेटे शत्रुशाल १९४-२५ वर्षकी अवस्थामें गद्दीपर बैठे, ये बड़े बहादुरथे. उदयपुरके महाराणा जगत्सिंहकी बेटीसे इनकी शादी हुई थी जिसका पूराहाल महाराणा जगत्सिंहके बयानमें लिखाजायगा.

बादशाह शाहजहांने रत्नसिंहके दूसरे बेटे माधवसिंहको कोटा और फलायता वगैरह परगने जागीरमें देकर ढाई हज़ारी मन्सब दिया जिससे कोटेकी रियासत अलहदा कायम हुई. माधवसिंहकी औलाद माधाणी हाड़ा कहलाती है, इनका ज़ियादह हाल कोटेकी तवारीख में लिखाजायगा.

विक्रमी १६९९ [हि० १०५२ = ई० १६४२] में बादशाह शाहजहांने अपने शाहज़ादे दाराशिकोहको कन्धारकी हिफ़ाज़तके लिये रवाना किया, जिसको ईरानका बादशाह लेना चाहता था. शाहज़ादेके साथ बड़े २ सर्दारोंको इनाम इक़ाम देकर विदाकिया था. उस वक्त राव शत्रुशालको भी घोड़ा और खिलअत देकर

लनामे जहांगीरी बादशाह नामा अमलेस्वालिह वगैरह किताबोंके देखनेसे वही सही मालूम होता है जो हमने ऊपर लिखा.

(१) बूंदीवाले अपनी तवारीखमें सुर्जनको रावराजाका खिताब और पांच हज़ारी मन्सब मिलना लिखते हैं, लेकिन फ़ारसी व राजपूतानेकी तवारीखके हिसाबसे वह ग़लत और रत्नको ही रावरायका खिताब मिलना सही पायाजाता है.

(२) गोपीनाथके मरनेका ज़िक्र मौलवी अब्दुलहमीद लाहौरी अपनी तवारीख बादशाहनामे की जिल्द पहिली पृष्ठ ४०१ में लिखताहै कि "राव रत्नसिंहका बड़ा बेटा गोपीनाथ दुबले बदन होने पर भी ऐसा ताक़तवर था कि दरख्तकी दो शाखें जो शामियानेके थंभेके बराबर मोटी हों एकपर पैर और दूसरीपर पीठ लगाकर चीरडालता था. वह ऐसेही बेमौके जोर करने से थोड़े दिनोंमें मरगया".

उसी फौजमें शामिल किया था और दूसरी दफ्द विक्रमी १७०२ [हि० १०५५ = ई० १६४५] में शाहजादे मुरादबख्शको शाहजहाने बलख पर भेजा तब उस फौज में रहकर राव शत्रुशाल हाड़ाने भी बड़ी बहादुरी दिखलाई. फिर विक्रमी १७१५ ज्येष्ठ शुक्ल ९ [हि० १०६८ ता० ७ रमजान = ई० १६५८ ता० १० जून] को बादशाह शाहजहानके शहजादे दाराशिकोह और औरंगजेबमें जो लड़ाई आगरेके इलाके समूनगरके पास हुई उसमें राव शत्रुशाल दाराशिकोहकी फौजमें हरावल के अपसर होकर मारेगये.

शत्रुशालके १९६ भावसिंह, भीमसिंह, भारतसिंह, भगवन्तसिंह, भूपसिंह, भूपालसिंह और ईश्वरीसिंह ७ बेटे थे. जिनमें से १९६ भावसिंह ३५ वर्षकी उम्रमें गद्दी पर बैठे. जब यह दिल्लीमें आलमगीर बादशाहके पास गये तो उस वक्त दाराशिकोहकी तरफदारीमें शत्रुशालके मारेजानेसे आलमगीर इनसे कुछ नाराज था. इस लिये इनके भाई भगवन्तसिंहको जो पहिलेसे आलमगीरके पास रहता था रावका खिताब और बूंदीमें से कई परगने निकाल कर दिये.

भावसिंहके कोई बेटा नहीं था; इस लिये उन्होंने अपने छोटे भाई भीमसिंहके बेटे कृष्णसिंहको गोद रखलिया. इसके पहिले भावसिंह वगैरह राजाओंसे आलमगीरने एक मजहब करलेनेका सुवाल कररक्खा था. इसके अनुसार एक फौज जो उसने मंदिर तोड़नेके लिये भेजी वह बूंदीके नज्दीक केशवरायजीका मंदिर ढाहनेको आई. उस वक्त कुंवर कृष्णसिंह ने बादशाही फौजसे लड़कर मंदिरको बचाया. जब भगवन्तसिंह मरगया और १९७ कृष्णसिंह उसकी गोद बैठा तब भावसिंहने कहा कि कृष्णसिंह अब मेरी गोद नहीं रहेगा. उसका बेटा अनिरुद्धसिंह मेरे बाद बूंदीकी गद्दीपर बैठना चाहिये.

कई दिनोंके बाद बादशाह आलमगीरका शाहजादा मुहम्मद अकबर मालवेका सूबेदार होकर उज्जैनमें पहुंचा. विक्रमी १७३४ [हि० १०८८ = ई० १६७७] में कृष्णसिंह भी उज्जैनमें शाहजादेके पास गया वहां मजहबी तक्रारके कारण कृष्णसिंह १९७ को मुसल्मानोंने मारडाला (१) और उसके साथके कई आदमी भी कामआये.

(१) मआसिरे आलमगीरी, में लिखा है कि "किशनसिंह हाड़ा शाहजादे मुहम्मद अकबरकी खिदमतमें हाज़िर हुआ. खिलअत पहनने के वक्त उसने बेवकूफी से बहुत जिद की और वह आप छातीमें खंजर मारकर मरगया और उसके ४ खिदमतगार भी अपने से दूने बादशाही आदमियोंको मारकर मारेगये". हमारे क़ियाससे बूंदी वालोंकी तवारीखमें जो लिखाहै वह सच होगा. फ़ारसी तवारीख वालोंने शाहजादेका कुसूर कुछ बयान नहीं किया.

भावसिंह उस वक्त औरंगाबादके पास भावपुरा गांवमें था, जो उसने अपने नाम पर बसाया था उसी जगह वह विक्रमी १७३८ वैशाख कृष्ण ८ [हि० १०९२ ता० २२ रबीउलअव्वल = ई० १६८१ ता० १२ एप्रिल] को इस दुन्यासे कूचकरगया; और १९८ अनिरुद्धसिंह १५ वर्षकी उम्रमें गद्दी पर बैठा.

जब वह बादशाह आलमगीरके पास दक्षिणमें था उस वक्त विक्रमी १७४० वैशाख शुक्ल ५ [हि० १०९४ ता० ४ जमादियुलअव्वल = ई० १६८३ ता० २ मई] को बादशाहसे अर्ज हुई कि बलवनके दुर्जनशाल हाड़ाने बूंदीपर कब्जा कर लिया है. यह सुन कर बादशाहने ज्येष्ठ कृष्ण ८ [तारीख् २२ जमादियुलअव्वल = ता० २० मई] के दिन दुर्जनशालको बूंदीसे निकाल देनेके लिये मुग़लखां, महासिंह भदौरियाके बेटे रुद्रसिंह और सय्यद मुहम्मदअली वगैरह को खिलअत, हाथी, घोड़े, देकर अनिरुद्धसिंहकी मददके लिये बड़ी फौजके साथ बूंदीकी तरफ़ खाना किया और राव राजाको भी खिलअत हाथी और घोड़ा वगैरह रुस्सतके वक्त दिया. अनिरुद्धसिंहने बादशाही फौज समेत बूंदी पहुंचकर दुर्जनशालको तंग किया जिससे वह किला छोड़कर भागगया; और अनिरुद्धसिंहने वहां कब्जा किया. विक्रमी १७४० भाद्रपद कृष्ण ३० [हि० १०९४ ता० २९ शाबान = ई० १६८३ ता० २३ अगस्त] को मुग़लखांकी अर्जी बादशाहके पास दक्षिणमें पहुंची कि “तीन पहर तक लड़ाई होने बाद दुर्जनशाल भागगया और अनिरुद्धसिंह बादशाही फौजकी मददसे बूंदी पर काबिज हुआ”. अनिरुद्धसिंहने दक्षिणकी कई लड़ाइयोंमें बादशाही फौजके शामिल रहकर बड़ी बहादुरियां दिखलाई, लेकिन आखिरमें बादशाहने उसको काबुलकी तरफ़ फौजमें भेजदिया, जहां विक्रमी १७५२ [हि० ११०७ = ई० १६९५] में उसका देहान्त हुआ.

इसके १९९ बुद्धसिंह, जोधसिंह, अमरसिंह और विजयसिंह ४ बेटे थे, जिनमेंसे बड़ा गद्दी पर बैठा और छोटा जोधसिंह विक्रमी १७६३ चैत्र शुक्ल ३ [हि० १११७ ता० १ जिलहिज् = ई० १७०६ ता० १७ मार्च] को नावमें बैठकर जैतसागर तालाबमें गणगौरिके दिन सैर कर रहा था सो मस्त हाथीके हमला करनेसे गणगौरि और साथियों समेत डूबकर मरगया. उस दिन से बूंदीमें गणगौरिका त्यौहार नहीं होता.

बुद्धसिंहकी उदयपुर, जयपुर, बेगूं (१) तथा भणाय (२) वगैरहमें शादियां हुई थीं. जब बादशाह आलमगीरने बड़े शहजादे बहादुरशाहके साथ काबुलकी तरफ़ इसे भेजदिया

(१) यह मेवाड़के मातहत एक ठिकाना है.

(२) जिले अजमेरके मातहत एक जागीर है.

तो वह उसी शहजादेके पास काबुलमें हाजिर रहा. विक्रमी १७६३ फाल्गुन कृष्ण १४ [हि० १११८ ता० २८ जिल्काद = ई० १७०७ ता० २ मार्च] को जब आलमगीर मरगया और उसका दूसरा शहजादा आजमशाह बड़ी भारी फौज लेकर आगरेकी तरफ आया, तो बहादुरशाह भी काबुलसे चढ़ाई करके आगरेमें पहुंचा; दोनों भाइयोंमें बड़ी भारी लड़ाई हुई, आजम अपने बेटे बेदारबरत और बालाजाह समेत मारा गया और बहादुरशाहने फतह पाई. यह हाल बहादुरशाह के जिक्रमें मुफ़स्सल लिखा जायगा.

इस लड़ाईमें बुद्धसिंहने बहादुरशाहकी फौजमें रहकर बड़ीबहादुरी दिखलाई थी, जिससे बहादुरशाहने उसको "महाराव राजा" का खिताब व कई परगने दिये. बूंदीकी तवारीखमें लिखाहै कि रावराजा बुद्धसिंह ही बहादुरशाहकी फौजके कुल मुख्तार थे लेकिन यह बात बदावेके साथ लिखी गई है; क्योंकि उस फौजके मुख्तार बहादुरशाहके शाहजादे मुइजुद्दीन और अज़ीमुद्दीन थे और पीछे बहादुरशाह भी खुद आपहुंचा जो शिकार खेलनेको बुद्धसिंह समेत गयाहुआ था. आजम व उसका शाहजादा बेदारबरत दोनों बहादुरशाहके शाहजादों के हाथसे मारेगये. बुद्धसिंहने भी जो कि बहादुरशाहके साथमें था अच्छी बहादुरी दिखलाई.

इस बहादुरीकी मुबारिकबादीमें उदयपुरके महाराणा (दूसरे) अमरसिंहने राव राजा बुद्धसिंहके नाम खरीता (१) लिखा था, जिससे पहिले बूंदीवालोंके नाम परवाना भेजाजाता था. बहादुरशाहकी मिहरबानी बुद्धसिंह पर बहुत थी इसलिये जब बहादुरशाहका इन्तिकाल होगया तब बुद्धसिंहको निहायत रंज हुआ और बूंदीमें बैठरहे. कुछ अर्से बाद ये तो अपनी ननिहाल गयेथे और कोटेके महाराव भीमसिंहने बादशाह फरुखसियरके हुक्मसे बूंदीपर कब्ज़ा करलिया.

बुद्धसिंहकी राणी कछवाही तो आंबेर और राठौड़ भणाय चलीगई बाकी सब खटले को लेकर राणी चूंडावत मेवाड़के इलाके (बेगूं)में चलीआई, जिन्हें रावत देवीसिंहने बहुत खातिरदारीके साथ रक्खा.

जब राव राजा बुद्धसिंह दिल्ली पहुंचे तो वहां इन्होंने फरुखसियरको खुशकरके अपने आदमियोंको भेजकर बूंदी पर कब्ज़ा करलिया. लेकिन फरुखसियरके मरने बाद विक्रमी १७७६ [हि० ११३१ = ई० १७१९] में कोटेके महाराव भीमसिंहने दुबारा बूंदी छिनली, और बुद्धसिंहको दिल्लीमें भी सय्यदोंने तंग किया.

(१) यह खरीता पृष्ठ ११० में देखो.

बुद्धसिंह भागकर आंबेर चले आये, लेकिन बेगूवाली राणी चूंडावतसे यह जियादा खुश थे इस लिये जयपुरकी राणी कछवाहीका बेटा बुद्धसिंहके सामने जब लाया गया तो उन्होंने पूछा कि यह किसका है ? सवाई जयसिंहने कहा कि आपका बेटा और मेरा भान्जा है. बुद्धसिंह कछवाहीजी पर नाराज थे इस कारण कह दिया कि मैं तो १२ वर्षसे नामर्दहूँ यह लड़का कैसे पैदा हुआ ? और जयसिंहसे खानगी तौर पर कह दिया कि इस लड़केको ज़हर देकर मार डालना चाहिये और ये अक्षर भी लिख दिये कि आप जिसको बूंदीका मालिक करेंगे उसीको मैं गोद रखूंगा. राणी चूंडावतसे जो अब मेरा बेटा होगा वह इससे छोटा रहेगा.

जयसिंहने उस लड़केको ज़हर देकर मार डाला. बुद्धसिंह तो फ़रेबसे दाव करते थे लेकिन सवाई जयसिंह उनसे भी जियादा फ़रेबी थे. आखिरकार महाराजा जयसिंहने हाड़ा सालिमसिंहके बेटे दलेलसिंहको बुद्धसिंहके गोद रखकर बूंदीका रावराजा बना दिया. बुद्धसिंह बेगू चले आये, जहाँके रावत देवीसिंहने उनकी यहाँ तक खातिर की कि अपनी कुल जागीर भी उनके सुपुर्द कर दी. इसी सबबसे आज तक बेगूके परगनेसे ज़मीनका हासिल बूंदीके रुपयोंसे लिया जाता है. रावराजा बुद्धसिंहने एक दोहा मारवाड़ी भाषामें कहा था, जो लिखा जाता है.

दोहा

धर पलटी पलट्यो धरम पलट्यो गोत निशंक ।

देवा हरि यंदराकियो अधिपतियां सिर अंक ॥

अर्थ— ज़मीन भी पलटी और ईमानने भी साथ छोड़ा (बुद्धसिंह का वाममार्गी होना वंशभास्कर में लिखा है) और गोत्री भी बदल गये उस वक्त हरीसिंहके बेटे देवीसिंहने राजाओंके सिर इहसान किया.

तब रावत देवीसिंहने भी इस दोहे के जवाबमें कहा.

दोहा

देवा दरियावांतणी होडन नाडां होय ।

जो नाडो पाजां छले तो दरियाव न होय ॥

अर्थ— देवीसिंह कहता है कि समुद्र की बराबरी नाडा नहीं कर सक्ता, अगर नाडेका पानी कीनारोंसे बाहरभी छलकने लगे तो भी समुद्र नहीं हो सक्ता; अर्थात् हम आपकी बराबरी नहीं कर सक्ते.

इस तरह १२ वर्ष तक रावराजा बुद्धसिंहको बेगूके रावत देवीसिंहने अपने

ठिकानेमें रक्खा. विक्रमी १७९६ वैशाख कृष्ण ३ [हि० ११५२ ता० १७ मुहर्रम = ई० १७३९ ता० २६ ऐप्रिल] के दिन बेगूसे ३ कोस पर बाघपुरा गांवमें १९९ बुद्धसिंहका इन्तिकाल हुआ. इनके देवसिंह, भगवन्तसिंह, पद्मसिंह, उम्मेदसिंह, चन्द्रसिंह, दीपसिंह ६ बेटे थे. जिनमें से बेगूके भानूजे २०० उम्मेदसिंह जो दस वर्षकी उम्रमें थे उसी जगह बूंदीके रावराजा माने जाकर गद्दी पर बिठाये गये.

विक्रमी १८०० [हि० ११५६ = ई० १७४३] में जयपुरके महाराजा जयसिंहका इन्तिकाल होगया. तब रावराजा उम्मेदसिंहने अजमेर व गुजरातके सूबेदार नव्वाब फ़ख़रुद्दौला तथा कोटेके महाराव दुर्जनशाल और शाहपुरेके राजा उम्मेदसिंहकी मददसे विक्रमी १८०१ [हि० ११५७ = ई० १७४४] में बूंदी पर अपना कब्ज़ा करलिया, लेकिन विक्रमी १८०२ [हि० ११५८ = ई० १७४५] में जयपुरके राजा ईश्वरीसिंहने फिर बूंदी लेली. इसके बाद रावराजा उम्मेदसिंहने विक्रमी १८०३ [हि० ११५९ = ई० १७४६] में फिर बूंदी पर अपना कब्ज़ा करलिया. जयपुरके राजा ईश्वरीसिंहने नारायणदास खत्रीके साथ बड़ीभारी फ़ौज भेजी. उम्मेदसिंहने बूंदीसे निकलकर मुक़ाबिला किया लेकिन शिकस्त खाकर भागे और बूंदी पर जयपुर वालोंका कब्ज़ा होगया. विक्रमी १८०५ कार्तिक कृष्ण ५ [हि० ११६१ ता० १९ शव्वाल = ई० १७४८ ता० १३ अक्टोबर] में मल्हार राव हुल्करने जयपुरके राजा ईश्वरीसिंहको शिकस्त देकर उम्मेदसिंहको बूंदीका राव राजा बनादिया. कुछ अर्से बाद उम्मेदसिंहने जयपुरके महाराजा माधवसिंहको जाटोंकी लड़ाईमें मदद देनेके लिये अपने बेटे अजीतसिंहको भेजा और जब माधवराव सिन्धियाने बूंदीको विक्रमी १८१९ [हि० ११७६ = ई० १७६२] में घेरलिया तो जयपुरके महाराजा माधवसिंहने और शाहपुरेके राजा उम्मेदसिंह ने फ़ौज भेजकर बूंदीको मदद दी, इससे सिन्धिया तो कुछ फ़ौज खर्च लेकर चला गया, और विक्रमी १८२७ वैशाख शुक्ल १२ [हि० ११८४ ता० ११ मुहर्रम = ई० १७७० ता० ६ मई] को उम्मेदसिंहने अपने बड़े बेटे अजीतसिंहको जिसकी उम्र १८ वर्षकी थी, गद्दी पर बिठाकर केदारनाथ (१) में फ़कीराना ढंगसे रहना इस्तिथार किया.

२०१ अजीतसिंह जवानीमें राज्यके मालिक हुए थे इसीसे बहादुरीका अभिमान ज़ियादह रखते थे. विक्रमी १८२९ चैत्र कृष्ण १ [हि० ११८६ ता० १५ ज़िल-

(१) बूंदीके करीब एक देवस्थानका नाम है.

हिज = ई० १७७३ ता० ९ मार्च] में इन्होंने महाराणा अरिसिंहको एक बछेंसे दगाकरके मारडाला जिनके साथ बावलासके महाराज दौलतसिंह और सनवाड़के शंभूसिंह मारेगये. इसका मुफ़स्सल हाल हम महाराणा अरिसिंहके जिक्रमें लिखेंगे. थोड़ेही अर्सेके बाद विक्रमी १८३० वैशाख शुक्ल १५ [हि० ११८७ ता० १४ सफ़र = ई० १७७३ ता० ८ मई] को अजीतसिंहका (१) देहान्त होगया.

इनके पिताने तो राज छोड़ही रखवा था; इसलिये उन्होंने ४॥ महीनेकी उम्रवाले अपने पोते २०२ विष्णुसिंह को विक्रमी १८३० ज्येष्ठ कृष्ण ११ [हि० ११८७ ता० २५ सफ़र = ई० १७७३ ता० १८ मई] में गद्दीपर बिठादिया और राज्यकी संभाल खुद उम्मेदसिंहने रखकर धायभाई सुखरामको कामपर मुस्तार किया. विक्रमी १८६१ आश्विन कृष्ण ४ [हि० १२१९ ता० १८ जमादियुल्आखिर = ई० १८०४ ता० २५ अगस्त] को उम्मेदसिंहका इन्तिकाल हुआ.

इनके अजीतसिंह, बहादुरसिंह, सर्दारसिंह, और त्रिलोकसिंह, चार बेटे हुए. विष्णुसिंहने अपने काका बहादुरसिंहके बेटे बलवन्तसिंह पर फौज भेजी, जो उस वक्त गोठड़ाका जागीरदार, बड़ा फ़सादी और बहादुर था. बूंदीकी फौजसे लड़कर बलवन्तसिंह और उसका भाई शेरसिंह और बेटे धौकलसिंह व फ़तहसिंह मारे गये. जब सरकार अंग्रेजी याने ईस्टइंडिया कम्पनीकी अमल्दारी हिन्दुस्तानमें हुई तब बूंदीकी रियासतके साथ भी विक्रमी १८७५ [हि० १२३३ = ई० १८१८] में अहदनामा हुआ, जिसकी नक़ल बूंदीकी तवारीख़ के पूरे होने पर लिखी जायगी.

विक्रमी १८७७ [हि० १२३५ = ई० १८२०] में कोटेके महाराव किशोरसिंह अपने प्रधान भाला ज़ालिमसिंह से तकलीफ़ पाकर बूंदीमें चलेआये, तब विष्णुसिंह २०२ ने बड़ी खातिरदारी की; कुछ अर्सेबाद महाराव दिल्लीकी तरफ़ चलेगये. इस बातका पूरा हाल कोटेकी तवारीख़में लिखाजायगा. विक्रमी १८७८ आषाढ़ शुक्ल १५ [हि० १२३६ ता० १४ शव्वाल = ई० १८२१ ता० १५ जुलाई] को विष्णुसिंह का वैकुंठवास हुआ.

इनके इन्द्रसिंह, बलदेवसिंह, रामसिंह और गोपालसिंह ४ बेटे थे, जिनमेंसे दो बड़ोंका देहान्त होगया था, इसवास्ते महाराव राजा २०३ रामसिंह साढ़े

(२) मेवाड़की तवारीख़में अजीतसिंहका मरना महाराणाकी तरफ़के एक छड़ीदारके हाथकी छड़ी सिरमें लगनेसे लिखाहै. लेकिन बूंदी वाले हाथपर छड़ीका लगना और देहांत होना, छः महीने पीछे शीतला निकलनेसे लिखते हैं.

नव वर्षकी उमरमें विक्रमी १८७८ श्रावण कृष्ण १२ [हि० १२३६ ता० २६ शव्वाल = ई० १८२१ ता० २७ जुलाई] को गद्दी पर बैठे. इनका विवाह विक्रमी १८८१ फाल्गुन कृष्ण ८ [हि० १२४० ता० २२ जमादियुस्सानी = ई० १८२५ ता० ११ फेब्रुअरी] को जोधपुरके महाराजाधिराज मानसिंहकी बेटी स्वरूपकुंवरके साथ हुआ. उन दिनों बूंदीमें खजानेकी कमीके सबब कोटेके साहूकारोंसे २००००० दो लाख रुपये शादी खर्चकेलिये कर्ज लिये थे, जो महाराजासाहिब जोधपुरने कोटेके साहूकारोंको अदा करदिये और इसके सिवाय बहुत कुछ दहेजमें भी दिया. रावराजा बूंदी आये, उन दिनोंमें किशनराम (कृष्णराम) धायभाई बूंदीका मुसाहिब था जो महाराणी जोधपुरी के हरएक काममें बेपरवाई करता था, इसलिये जोधपुर महाराज मानसिंहके इशारेसे विक्रमी १८८६ [हि० १२४५ = ई० १८२९] में शालू राजपूतने कचहरीमें बैठे हुए, किशनराम धायभाईको तलवारसे मारडाला और महाराणी जोधपुरीके नौहरेमें जो आदमी थे वे शालूकी मददको नहीं पहुंच सके इसलिये शालू भी मारागया.

बूंदीके सरकारी सिपाहियों ने नौहरेमें मारवाड़ी राजपूतोंको घेरलिया उसवक्त बूढसूके ठाकुर जो बूंदीमें नौकरीपर थे मारवाड़ी आदमियोंकी मददको जापहुंचे जिससे तीन आदमी मारवाड़ी तो पहिले मारेगये लेकिन बाकियोंको बूढसूके ठाकुरने सही सलामत निकालदिया.

पोखरणके ठाकुर विभूतसिंह राठौड़ जो दोसौ सवार और ३०० पैदल लेकर आये थे बगैर रुस्सत ही मारवाड़ को चलेगये. विक्रमी १८८८ [हि० १२४७ = ई० १८३१] में रावराजा रामसिंह अजमेरमें लॉर्ड विलिअम् कैवेन्डिश बेन्टिक की मुलाकात को गये. इन्होंने विक्रमी १८९० [हि० १२४९ = ई० १८३३] के अकालमें अपनी रअग्र्यतका पालन अच्छीतरह से किया.

इन्होंने अपने भाई गोपालसिंह को खराब चालचलन के कारण नजरबन्द रक्खा था जो उसी हालतमें मरगया.

विक्रमी १८९८ [हि० १२५७ = ई० १८४१] में महारावराजा मथुरा, वृन्दावन, प्रयाग, काशी, वगैरह की यात्राके लिये गये और विक्रमी १९०० [हि० १२५९ = ई० १८४३] में बूंदीको लौटआये. विक्रमी १९०४ [हि० १२६३ = ई० १८४७] में पाटनका दोतिहाई परगना जो पहिले दलेलसिंह ने मरहटोंको देदिया था इस्तिमरार (१) के तौर पीछे लिया, जिसका अहदनामा भी पीछे लिखाजायगा.

(१) जिस जमीनके बंदोबस्तमें कभी हेरफेर नहीं कियाजाय और हमेशा एकसा कायम रहे उस को इस्तिमरार कहतेहैं.

विक्रमी १९१४ [हि० १२७३ - १२७४ = ई० १८५७] के बलवेमें बूंदी, कोटा और भालावाड़ की फौज नीमचकी छावनीको भेजीगई. वहां अथवा दूसरी जगह भी रावराजा साहिबने दिलसे अंग्रेजी सरकारको मदद दी. इसी संवत् में इनकी माता राठौड़जी कृष्णगढ़वाली का इन्तिकाल होगया. विक्रमी १९१५ आषाढ शुक्ल ८ [हि० १२७४ ता० ७ ज़िलहिज = ई० १८५८ ता० २१ जुलाई] के दिन हिन्दुस्तानी बागियोंकी फौज बूंदीकी तरफ आई; रावराजा ने शहर और किलेके दर्वाजे बन्द करके बागियों पर तोपोंके फ़ैर करवाये, जिससे बागी हटकर चले गये. उन्हीं दिनोंमें मीनोंने सिरउठाया, जो इलाके खैराड़की रहनेवाली एक लुटेरी रअग्र्यतहै; उनको खूब सज़ादेकर सीधाकिया. फिर गोठड़ाके महाराज बलवंतसिंह के बेटे भोमसिंह ने उदूल हुक्मी (आज्ञाभंग) करनेपर कमरबांधी तो फौज भेजकर भोमसिंह को निकाल दिया और गोठड़ा खालसे करलिया. हिन्दुस्तानके ग़दरके बाद इन रावराजा साहिब ने आगरेमें लॉर्ड एल्जिन् साहिब से और विक्रमी १९२७ [हि० १२८७ = ई० १८७०] में लॉर्ड मेओ साहिबसे अजमेरमें मुलाकातकी. इन रावराजा साहिबका चालचलन और तरीका पुराने ढंगपर आकिलाना तौर (बुद्धिमानों) का है.

मज़हबी किताबोंमें वेदान्त पर यह ज़ियादह अमल रखते हैं लेकिन मन्दिर और उपासना वगैरह सबका सन्मान करते हैं और किसीका खंडन नहीं चाहते; हिंदू धर्मशास्त्रके ढंगसे रियासती काम करते हैं; इन्होंने कायदेकी किताब भी धर्म शास्त्रके अनुसार बनवाकर जारी कीहै, अंग्रेज़ और मुसलमानों के छूनेसे स्नानकरते हैं और मुलाकातकी पोशाकको भी धुलवाते हैं. समयके मुवाफ़िक़ बादशाही हाकिमोंको खुश रखनेमें चतुर हैं; ज़ियादा अंग्रेजी दस्तअन्दाज़ी और सलाह को पसन्द नहीं करते. इनके भीमसिंह, रंगनाथसिंह, रघुवीरसिंह, रंगराजसिंह और रघुराजसिंह पांच पुत्र हुए.

इनमें से कुंवर भीमसिंहका विक्रमी १९२५ [हि० १२८५ = ई० १८६८] में और रंगनाथसिंहका विक्रमी १९१३ [हि० १२७२ = ई० १८५६] में इन्तिकाल होगया. अब जो कुंवर मौजूद हैं उनको संस्कृतकी तालीम दीजाती है. बड़े कुंवर रघुवीरसिंहका विवाह जोधपुरके महाराजा जशवन्तसिंहकी बहिनके साथ विक्रमी १९४० [हि० १३०० = ई० १८८३] में हुआ है.

राव राजा रामसिंह साहिबने अपने बड़े सर्दारोंमें से जो सर्कश याने फ़सादी थे उनको जागीर छिन कर सीधा करदिया; और जो इनकी मन्शाके बख़िलाफ़ नहीं चलते उनके साथ यह अधिक रज़ामन्दीका बरताव रखते हैं; रअग्र्यत इनको दिलसे चाहती है— मीने जो डकैती और चोरीका पेशा रखते थे उनको इन्होंने अपने इलाके से निकाल दिया.

अब उन अहदनामोंका तर्जुमा नीचे लिखाजाता है, जो सर्कारअंग्रेजी और रियासत बूंदीके साथ जुदे जुदे वक्तोंमें हुए हैं.

एचिसन् साहिबकी अहदनामोंकी किताब तीसरी जिल्द पहिला भाग

अहदनामा नम्बर ५२

ऑनरेब्ल (इज्जतदार) अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कम्पनी और महाराव राजा विष्णु-सिंह बहादुर बूंदीवालेका अहदनामा, जिसको ऑनरेब्ल कम्पनीकी तरफसे कप्तान् जेम्स टॉड साहिबने लार्ड हेस्टिंग्ज गवर्नर जनरलसे पूरा इस्तिथार पाकर उस बौहरा तुलारामके साथ किया जो राजाकी तरफसे पूरा इस्तिथार रखता था.

पहिली शर्त— हमेशाके लिये एक तरफ तो सर्कारअंग्रेजी और दूसरी तरफ राजा बूंदी और उनके वारिस और जानशीनों (क्रमानुयायीवंशजों) के बीच दोस्ती, और नफे नुकसानकी एकता रहेगी.

दूसरी शर्त— सर्कार अंग्रेजी बूंदीके राजाका देश अपनी रक्षामें लेती है.

तीसरी शर्त—बूंदीके राजा हमेशाके लिये सर्कारअंग्रेजीको बुजुर्ग मानतेहैं और हमेशा उसके साथी रहना स्वीकार करते हैं. वह किसी पर जुल्म न करेंगे और सर्कार अंग्रेजी की रजामन्दीके बगैर किसीके साथ दोस्ती और मिलावट नहीं करेंगे, अगर कभी इत्तिफाकसे किसीके साथ भगड़ा हो तो उसका फैसला करनेके लिये सर्कार अंग्रेजी मुरूतार और न्यायकारी ठहराई जायगी. राजा अपने राज्य पर पूरा इस्तिथार रखते हैं; अंग्रेजी सर्कार उनके राज्यमें कोई दखल न देगी.

चौथी शर्त— अंग्रेजी सर्कार अपनी खुशीसे राजा और उनकी औलादको वह खिराज छोड़ देती है जो कि बूंदीके राजा हुल्करको देते थे और जिसको महाराजा हुल्करने अंग्रेजी सर्कारको दे दिया था. अंग्रेजी सर्कार बूंदीकी रियासतको वह इलाके भी छोड़ देती है जो अब तक उस रियासतकी सीमाके भीतर महाराजा हुल्कर के इस्तिथारमें थे. उनकी फिहरिस्त नकशे नम्बर १ के मुताबिक है.

पांचवीं शर्त—बूंदीके राजा इस तहरीरके जरीएसे इक़रार करते हैं कि जो खिराज और मालगुजारी अबतक महाराजा सिन्धियाको नकशे नम्बर २ के मुताबिक देते थे वह अब सर्कार अंग्रेजीको दिया करेंगे.

छठी शर्त— बूंदीके राजा सर्कार अंग्रेजी को जरूरतके समय मांगने पर मक़दूरके मुवाफिक फौज देवेंगे.

सातवीं शर्त— यह इक़रारनामा सात शर्तोंका बूंदीमें करार पाया और कप्तान्

जेम्सटॉड और बौहरा तुलारामने इस पर मुहर और दस्तखत किये; आजकी त्तारीखसे एक महीनेके भीतर इसकी नक़ल त्तसदीक़ होकर गवर्नरजेनरल और महाराव राजा बूंदीको आपसमें दीजायगी.

मक़ाम बूंदीमें ई० १८१८ ता० १० फ़ेब्रुअरी [हि० १२३३ ता० ४ रबी-उलआख़िर = विक्रमी १८७४ माघ शुक्ल ४] को लिखागया.

दस्तखत जेम्सटॉड-

मुहर

दस्तखत बौहरा तुलाराम

मुहर राजा

इस अहदनामेको श्रीमान गवर्नर जेनरल बहादुरने कानपुरके पास कैम्पमें पहिली मार्च सन् १८१८ ई० को त्तसदीक़ किया-

मुहर गवर्नर
जेनरल

दस्तखत हेस्टिंगज़

नक़शा नम्बर १

उन इलाकों का नक़शा जो सर्कार अंग्रेज़ी ने रावराजा बिष्णुसिंह बहादुरको इस अहदनामे की चौथी शर्तके मुताबिक़ छोड़ दिये.

परगना बहमनगंज.

परगना लाखेरियो

परगना देह.

आधा परगना करवर

आधा परगना बडूंदन.

आधा परगना पाटन

बूंदीकी चौथ वगैरह.

नक़शा नम्बर २

उन ज़मीनोंकी कुल मालगुज़ारी और ख़िराज जो कि महाराजा सिन्धियाके तहतमें था वह कुल अबसे सर्कार अंग्रेज़ीको बूंदीके अहदनामेकी ५ वीं शर्तके मुताबिक़ दिया जायगा.

दिल्लीके सिक्केसे कुल.....८०००० रुपया

परगने पाटनका दो तिहाई हिस्सा.....४०००० रु०

परगना उरीला

परगना समेंदी

आधा परगना करवर

एक तिहाई परगना बडूंदन

बूंदी और दूसरे मक़ामोंकी चौथ.....४०००० रु०

कुल जोड़.....८०००० रु०

दस्तखत, जेम्स टॉड

मुहर

दस्तखत, बौहरा (१) तुलाराम

राजाकी मुहर

नम्बर ५३

पाटनके जिले केशवरायको अपने बन्दोबस्तमें लेलेने बाबत बूंदी राज्यका इकरारनामा—

महाराव राजा बूंदीने अंग्रेजी हाकिमोंके ज़रीएसे यह दरस्वास्त की कि पाटनके जिले केशवरायके तमाम गांवोंके दो तिहाई हिस्सेकी इस्तिमरारदारी पूरे इस्तिमरारके साथ मिले; जो जिला ग्वालियरने दर्बारने सरकार अंग्रेजीको १३ जैन्यूअरी सन् १८४४ ई० के अहदनामेके मुताबिक फौजके खर्चोंके एक हिस्सेके अदाकरनेमें दिया था और जो अब जावद, नीमचके सुपरिन्टेन्डन्टके प्रबन्धमें है और जिसकी बाबत ग्वालियरके दर्बारने कई शतोंके साथ इसको इस्तिमरार कर देना मन्जूर किया है, वह नीचे लिखी हुई शतोंके करार पर दिया जावे—

पहिली शर्त— बूंदीके महाराव राजा अपनी और अपने वारिसोंकी तरफसे इकरार करते हैं कि जावद, नीमच के सुपरिन्टेन्डन्टके खज़ानेमें अंग्रेजी सिक्केके ८०००० रुपये चालीस हजार दो किस्तोंमें हरसालके जैन्यूअरी और जुलाई महीनों में केशवराय पाटनके दो तिहाई हिस्सेकी बाबत जिसे ग्वालियरके दर्बारने सरकार अंग्रेजी को देदिया है और जिसका बाकी तीसरा हिस्सा बूंदी राज्यके कब्जेमें है, अदा किया करेंगे; फ़सलका नफ़ा नुक़सान या दूसरा कोई इतिफ़ाकी नफ़ा नुक़सान बूंदीके राज्य को उठाना पड़ेगा.

दूसरी शर्त— बूंदीके महाराव राजा अपनी और अपने वारिसोंकी तरफसे इकरार करते हैं कि पेन्शन पाने वालोंकी तन्खाहके वास्ते जिनकी फ़िहरिस्त उनको दी गई है कोटेका ३४३० हाली (२) रुपया ७ आना ९ पाई दिया करेंगे.

तीसरी शर्त— उस जिलेके दोतिहाई हिस्सेकी मुआफ़ी ज़मीन जिसका विस्तार ७५०३ बीघे और १५ बिस्वे है; बूंदीके महाराव राजा अपनी और अपने वारिसों की तरफसे इकरार करते हैं कि वह उन्हीं लोगोंके कब्जेमें रखेंगे जिनके नामकी फ़िहरिस्त महाराव राजाको दीगई है और यह भी इकरार करते हैं कि जो कुछ (मुआफ़ी)

(१) ब्यवहारके सबब यह लफ़ज़ एक कौमके लिये बोला जाता है.

(२) यह रुपया कीमतमें अंग्रेजी रुपयेसे भी कई पाई ज़ियादा है.

या छूट जा वदेक सुपरिन्टेन्डन्ट ने उन जमींदारोंको जिन्होंने नये कुएं या बावड़ियें अपने २ पट्टोंकी शर्तोंके मुवाफिक खुदवाई हैं करदी है, उसको बहाल रखेंगे.

चौथी शर्त— सरकार अंग्रेजीने १३ जैन्यूअरी सन् १८४४ ई० के अहदनामे की बारहवीं शर्तके मुताबिक जो ग्वालियरके दरबार की हुकूमतका बिल्कुल हक बराबर बनेर-हने का इकरार किया है, वह पाटनके जिलेमें बना रहनेका बूंदीके महाराव राजा अपनी और अपने वारिसोंकी तरफसे कुबूल करते हैं.

पांचवीं शर्त— बूंदीके महाराव राजा की दरखास्तके मुताबिक पाटनके जिले केशवराय के दोतिहाई हिस्सेका इस्तिथार उनको देदिया गया है, इसलिये वह अपनी और अपने वारिसोंकी तरफसे इकरार करते हैं कि अगर इकरारके मुताबिक मुकर्रर वक्त पर किस्त (१) अदा नहो, या ऊपर लिखीहुई शर्तोंमें से किसीके पूरा करनेमें कसर रहे तो उस हिस्सेका बल्कि तमाम परगने याने एकतिहाई हिस्सेका भी जो पहिले से उनके कब्जेमें है, प्रबंध सरकार अंग्रेजीको देदेंगे, जिससे बाकी रहाहुआ रुपया वुसूल करलिया जायगा. रुपयोंके वुसूल होजाने बाद बाकी बचीहुई एकतिहाई हिस्से की सालाना आमदनी के मुवाफिक दिलाई जायगी.

लेकिन ग्वालियरके दरबार या सरकार अंग्रेजी इस सबबके सिवाय और किसी तरह पर कभी केशवराय पाटनका जिला बूंदीके राजसे न लेगी

छठी शर्त— केशवराय पाटनके जिलेके दोतिहाई हिस्सोंके बंदोबस्तमें बूंदीके अफसर किसी तरह पर दखल न देंगे जबतक कि ऊपर लिखीहुई शर्तें खातिरखाह पूरी कीजावें.

छ : शर्तोंका यह इकरार नामा महाराव राजा रामसिंह बहादुर बूंदीके रईसके लिखे तय्यार किया गया और उन्होंने इसपर दस्तखत किये— मिति अगहन वदी ७ विक्रमी १९०४ [हि० १२६३ ता० २० जिल्हज = ई० १८४७ ता० २९ नोवेम्बर].

महाराव राजा रामसिंह बहादुर रईस
बूंदीकी मुहर

अहदनामा. नम्बर ५४

सरकार अंग्रेजी और श्रीमान रामसिंह बहादुर महाराव राजा बूंदी व उनके वारिसों और जानशीनोंके बीचका अहदनामा, जो एक तरफ कप्तान अर्थर

(१) राजपूताना में खंदी कहते हैं.

नीलब्रूस साहिब पोलिटिकल एजंट हाडौतीने कर्नेल् विलिअम् फ्रेडरिक-ईडन साहिब मुल्क राजपूताना के एजंट गवर्नर जेनरल के हुक्मके मुताबिक किया जिनको पूरा इ-स्त्रियार राइट ऑनरेब्ल् सर जॉन लेअर्ड मेयर लॉरेन्स, बैरोनेट् जी० सी० एस० आई० वाइसरोय और गवर्नर जेनरल हिन्दुस्तानसे मिला था; और दूसरी तरफ बौहरा अमृत लालने, जिनको उक्त महारावराजा रामसिंह बहादुरसे पूरा इस्त्रियार मिला था, किया.

पहिली शर्त- कोई आदमी अंग्रेजी या दूसरे राज्यका बाशिन्दह अगर अंग्रेजी राज्यमें कोई बड़ा जुर्म करे और बूंदीकी राज्यसीमामें आश्रय लेना चाहे तो बूंदीकी सरकार उसको गिरफ्तार करेगी और दस्तूरके मुताबिक उसके मांगे जाने पर सरकार अंग्रेजीको सुपुर्द करदेगी.

दूसरी शर्त- कोई आदमी बूंदीके राज्यका बाशिन्दह वहांके राज्यकी सीमामें कोई बड़ा जुर्म करे और अंग्रेजी मुल्कमें जाकर आश्रय लेवे तो सरकार अंग्रेजी वह मुजरिम बूंदीके राज्यको कायदेके मुवाफिक सुपुर्द कर देवेगी.

तीसरी शर्त- कोई आदमी जो बूंदीके राज्यकी रअग्र्यत नहो और बूंदीके राज्यकी सीमामें कोई बड़ा जुर्म करके फिर अंग्रेजी सीमामें आश्रय लेवे तो सरकार अंग्रेजी उसको गिरफ्तारकरेगी और उसके मुकदमें की रूबकारी सरकार अंग्रेजी की बतलाई हुई अदालतमें होगी. अक्सर कायदह यह है कि ऐसे मुकदमोंका फैसला उस पोलिटिकल अफसरके इजलासमें होता है, जिसके तहतमें वारदात होनेके वक्त पर बूंदीकी मुल्की निगहबानी रहे.

चौथी शर्त- किसी हालमें कोई सरकार किसी आदमी को जो बड़ा मुजरिम ठहरा हो देदेनेके लिये पाबन्द नहीं है, जबतक कि दस्तूरके मुताबिक खुद वह सरकार या उसके हुक्मसे कोई अफसर उस आदमीको न मांगे, जिसके इलाके में कि जुर्म हुआहो और जुर्मकी ऐसी गवाही पर जैसाकि उस इलाके के कानूनके मुताबिक सही समझी जावे, जिसमें कि मुजरिम पाया जावे उसका गिरफ्तारकरना दुरुस्त ठहरेगा और वह मुजरिम करार दिया जायगा, गोया कि जुर्म वहीं पर हुआ है.

पांचवीं शर्त- नीचे लिखे हुये काम बड़े जुर्म समझे जावेंगे.

१ खून-२ खून करनेकी कोशिश-३ वहशियाना कल्ल ४ ठगी- ५ जहरदेना- ६ सरतंगीरी (किसीको बहुत तंग करना)- ७ जियादा ज़रमी करना- ८ लड़का बाला चुरा लेजाना- ९ औरतोंका बेचना- १० डकैती- ११ लूट- १२ सेंध (नकब) लगाना- १३ चौपाये चुराना- १४ मकान जलादेना- १५ जालसाजी करना- १६ झूठा सिक्का चलाना- १७ धोखा देकर जुर्म करना- १८ माल असबाब चुरालेना- १९ ऊपर लिखे हुए जुर्मोंमें मदद देना या वर्गलाना (बहकाना).

छठी शर्त— ऊपर लिखी हुई शर्तोंके मुताबिक मुजरिमको गिरफ्तारकरने, रोक रखने, या सुपुर्द करनेमें जो खर्चलगे वह उसी सरकारको देनापड़ेगा जिसके कहनेके मुताबिक ये बातें कीजावें.

सातवीं शर्त— ऊपर लिखा हुआ अहदनामह उस वक्त तक बरकरार रहेगा जब तक कि अहदनामह करनेवाली दोनों सरकारोंमेंसे कोई उसके तब्दील करने की स्वा-
हिश दूसरेको जाहिर न करे.

आठवीं शर्त— इस अहदनामेकी शर्तोंका असर किसी दूसरे अहदनामे पर जो कि दोनों सरकारोंके बीच पहिलेसे है कुछ न होगा सिवाय ऐसे अहदनामेके जो कि इस अहदनामेकी शर्तोंके बखिलाफ़ हो.

मक़ाम बूंदी ता० १ फ़ेब्रुअरी सन् १८६९ ईसवी.

दस्तख़त बौहरा (१) अमृतलाल.

दस्तख़त ए० एन० ब्रूस पोलिटिकल एजंट

दस्तख़त (लॉर्ड) मैत्रो वाइसरोय हिन्द.

इस अहदनामेको श्रीमान् वाइसरोय गवर्नर जनरल हिन्दने मक़ाम शिमलेपर ६ अगस्त सन् १८६९ ई० में तस्दीक़ किया.

दस्तख़त डब्ल्यू. एस. सेटनकार.

सरकार हिन्दकी फ़ॉरेन् डिपार्टमेन्टका सेक्रेटरी.

दिल्लीका मुग़ल बादशाह,
नसीरुद्दीन मुहम्मद—हुमायूँ

[हुमायूँ बादशाह का इन्तिक़ाल महाराणा उदयसिंह के समय में होनेसे उसका बयान यहां किया जाताहै].

इस बादशाह का जन्म हिजरी ९१३ ता० ४ जिल्काद [वि० १५६५ चैत्र शुक्ल ५ = ई० १५०८ ता० ६ मार्च] को काबुलके किलेमें हुआ— और जब हिजरी ९३७ ता० ५ जमादियुलअव्वल [वि० १५८७ पौष शुक्ल ६ = ई० १५३० ता० २६ डिसेम्बर] को उसके बाप जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबरका इन्तिक़ाल हुआ, तो उस वक्त हुमायूँ संभलकी तरफ़ गयाहुआ था सो ख़बर पहुंचने पर आगरे में आकर तारीख़ ९ जमादियुलअव्वल [पौष शुक्ल १० = ता० ३१ डिसेम्बर] को तस्तपर बैठा और

(१) यह नागर कौमके लोग हैं जो व्याजपर रुपया देनेके सबब, बौहरे कहलाने लगे हैं.

अपने दूसरे भाई मिर्जा हिन्दालको मेवात, और तीसरे कामरांको पंजाब, काबुल, कंधार, और चौथे मिर्जा अस्करी को संभलके इलाके जागीरमें दिये. पहिले कालिन्जरके राजाको ताबेदार बनाया. और सिकन्दर लोदीके बेटे मुहम्मद लोदीको शिकस्तदी.

तीमूरी खानदानका एक शाहजादह मिर्जामुहम्मद ज़मां जो बाबरके वक्तमें तुर्किस्तानसे भागकर आया था, हुमायूँसे बागी होगया. हुमायूँने उसे कैदकरके बयाने के किलेमें भेजदिया था, जो वहांसे भागकर बहादुरशाह गुजरातीके पास चलागया; इस पर हुमायूँने बहादुरशाहके नाम खरीता लिखकर मुहम्मदजमांको मांगा लेकिन उसका जवाब बहादुरशाहने सरुत भेजा, तब हुमायूँने उस पर चढ़ाई की.

बहादुरशाह उनदिनों चित्तौड़गढ़ के महाराणा विक्रमादित्य से लड़ रहा था इस लिये मजहबी लड़ाई समझकर हुमायूँ ग्वालियरसे आगे न बढ़ा, फिर बहादुरशाह ने तातारखां लोदीको ४०००० सवार देकर आगरा और बयानेकी तरफ लूटमार करने के लिये भेजा, और आप दुबारा चित्तौड़गढ़ की तरफ चला; हुमायूँने ग्वालियरके पाससे मिर्जा हिन्दालको तातारखां के मुक़ाबिलेके लिये भेजा जिससे लड़कर तातारखां मारागया और हिन्दालने फ़तह पाई. जब हुमायूँ मन्दशौर की तरफ आया तो बहादुरशाह भी— जो चित्तौड़ फ़तह कर चुका था वहां पहुंचा.

रूमीखांके मिलजाने से जो बहादुरशाह के तोपखानेका अप्सर था बहादुरशाह को भागना पड़ा जिसका हुमायूँने पीछाकिया, सो बहादुरशाह मांडू और बुर्हानपुर के किलोंका सहारा लेताहुआ अहमदाबाद होकर देवके टापूमें पहुंचा. हुमायूँ खंभात तक उसका पीछा करनेबाद लौटा और अहमदाबाद अपने भाई मिर्जा अस्करीको, अनहलवाड़ा पट्टन मिर्जा नासिरको, भड़ौंच हिन्दूबेगको, चांपानेर तरदीबेग को और बड़ौदा कासिमहुसैन वगैरह को जागीरमें देकर दिल्ली चलाआया.

थोड़ेही असेंमें बहादुरशाह गुजरातीने अपनी मौरूसी बादशाहत पर दुबारा कब्ज़ा करलिया—इन्हीं दिनोंमें ईरानके बादशाह तहमास्पने कंधार लेलिया और बंगाले में शेरखां पठानने बगावत करके जौनपुर बिहार और चनार (चरणाद्रि) पर कब्ज़ा करलिया. हुमायूँ आगरेसे खाना होकर रूमीखांकी तदबीरोसे किले चनारको फ़तह करताहुआ बंगालेमें पहुंचा.

शेरखां भागगया, हुमायूँके पीछे मिर्जा हिन्दालने आगरेमें फ़साद उठाया, बादशाह, जहांगीरबेगको बंगालेमें छोड़कर आगरेको लौटा. शेरखां जो भाड़खंडीकी तरफ भागगया था फिर बंगालेमें बढ़ने लगा— मिर्जा कामरां भी ईरानियोंसे कंधार लेकर

लाहौर होता हुआ दिल्लीकी तरफ़ चला. इन बातोंसे हुमायूँ घबराया और शेरख़ाने ख़ुशीके साथ ताबेदारीका इकरार किया, लेकिन फिर धोखा देकर उसके अचानक हमला करनेसे हुमायूँ शिकस्त खाकर आगरेको चलाआया, इस वक्त कामरां और हिन्दाल भी बगावत छोड़कर हुमायूँके पैरोंमें आ गिरे.

कुछ अर्सेके बाद कामरां लाहौर चलागया और हुमायूँसे रंजीदह हुआ. इस हालको सुनकर शेरख़ाने गङ्गा किनारे तक मुल्क दबालिया.

हुमायूँके सर्दारों कासिमहुसैन उज़बक और नासिरहुसैन मिर्जा वगैरह, और पठानोंसे काल्पीके पास लड़ाई हुई, जिसमें शेरख़ानका एक बेटा मारागया; यह सुनकर खुद हुमायूँ बंगालेकी तरफ़ चला और कन्नौजके पास पहुंचकर एक महीने तक ठहरा रहा; वहां इसकी फ़ौजके सिपाही भागने लगे, जब बहुत कम जमय्यत रहगई तब शेरख़ाने हमला किया; हुमायूँने शिकस्त खाकर गंगामें घोड़ा डाला उस वक्त घोड़ेसे जुदा होकर डूबनेके करीब था कि शम्सुद्दीन मुहम्मद गज़नवीने बचाया; हुमायूँशाह आगरेकी तरफ़ आया लेकिन वहां भी कम जमय्यतके सबब न ठहर सका, और लाहौरको चलदिया. शेरख़ान भी इसका पीछा करता हुआ लाहौरसे ३० कोस पर आ पहुंचा.

हुमायूँशाहके भाई कामरां, हिन्दाल वगैरह अपनी अपनी फ़िक्रमें पड़े तब हिजरी ९४७ आखिर जमादियुस्सानी [वि० १५९७ मार्गशीर्ष कृष्ण = ई० १५४० ऑक्टोबर] में हुमायूँ लाहौर छोड़कर सिन्धुकी तरफ़ रवाना हुआ, मिर्जा कामरां और अस्करी दोनों काबुलको चल दिये; कई मन्जिलके बाद हुमायूँ सिन्धु नदी उतर कर भक्करमें पहुंचा, और ठठेके हाकिमको अपनी तरफ़ करनेके लिये छः महीने तक वहां पड़ा रहा. फिर रसद न मिलनेके सबब पानड़की तरफ़ गया. वहां उसने हमीदाबानूके साथ शादी की जो होनहार अक्बरकी मा थी (१). मिर्जा हिन्दालभी यहांसे कन्धारकी तरफ़ चला गया, और नासिर मिर्जा भी जुदा हुआ. भक्करके लोगोंने बादशाहसे मुकाबिला किया जिसमें हुमायूँ का सर्दार मीर अबुलबका मारा गया.

हिजरी ९४८ शुरू जमादियुलआखिर [वि० १५९८ आश्विन = ई० १५४१ सेप्टेम्बर] में बादशाह ठठेकी तरफ़ चला लेकिन उसी इलाकेमें घूमकर कुछ अर्सेबाद नासिर मिर्जाकी तरफ़ आया जो भक्करका मालिक बनगया था, उसने भी बादशाहको कुछ मदद न दी और मुकाबिलेको तय्यार हुआ, लेकिन उसके सर्दार हाशिमबेगने रोकदिया. तब हुमायूँ यहांसे रवाना होकर हिजरी ९४९ ता० ८ रबीउलअव्वल

(१) यह बेगम मिर्जा हिन्दालके उस्ताद की बेटी थी और मिर्जाकी माके पास रहती थी.

[वि० १५९९ आषाढ़ शुक्ल ९ = ई० १५४२ ता० २२ जून] को राठौड़ राव मालदेवके मुल्क मारवाड़की तरफ चला. ता० १७ रबीउल आखिर [श्रावण कृष्ण ३ = ता० १ जुलाई] को बीकानेर से १२ कोसपर पहुंचा, वहां बहुतसे हुमायूंके आदमियों ने राव मालदेवकी तरफसे दगा होनेका शुब्हा किया तब बादशाहने समन्दरबेग को रावकेपास जोधपुर भेजा. उसने वापस आकर कहा कि राव जाहिरदारीमें बहुत खातिर करता है लेकिन उसकी बातें एतिबारके लायक नहीं हैं.

जब बादशाह फलोदीमें पहुंचा तब वहांसे एक बादशाही ड्योढ़ीबान राजू और दूसरा खानमुहम्मद भागकर राव मालदेवके पास पहुंचे, जिन्होंने बादशाहके पास बहुत जवाहिरात होना बयान किया; फिर बादशाह जोगीतालाबपर पहुंचा जो अब किशनगढ़ (कृष्णगढ़) के पास है; जब बादशाहको राव मालदेवकी तरफसे जियादह खत्रा हुआ तो वहांसे सांभरमें आ ठहरा, लेकिन उस जगह भी न जमसका और उसके बहुतसे साथियोंने अपनी २ राह ली, बादशाह वहांसे भी चला उसवक्त उसकी सवारीको दो घोड़े और एक खच्चरके सिवाय और कुछ न था.

इसवक्त की तकलीफ का हाल बादशाहका आफताबची (१) अक्बर जौहर लिखता है, जो इस सफरमें हमराह था. इस हालको सुनकर कलेजा कांपता है, कि जिसकी सवारीमें लाखों सवार और हजारों हाथी चलते थे वह अपनी बेगमको पैदल उतारकर लड़ाईके समय घोड़ेपर सवार हुआ. मारवाड़की थलियोंमें उसके बहुतसे आदमी प्यासकेमारे मरगये. जब बादशाहके साथी बीस सवार रास्तह भूलकर गुम होगये उस वक्त पांचसौ सवार राजपूतोंके आपहुंचे. बादशाहके पास कुल सोलह सवार रहगये थे, लेकिन मुक़ाबिला होते ही दो सर गिरोह राजपूत मारेजानेसे बाकी सब राजपूत भागगये. फिर जैसलमेर के इलाकेमें भी गाय मारनेपर वहांके राजपूतोंने लड़ाई की. ये लोग लड़ते भिड़ते ५ कोस पर एक गांवमें जा ठहरे.

रावल लूणकरण ने अपने बेटे मालदेवको हुक्म दिया कि रास्तोंपर जितने कुए हों उन्हें रेतसे भरदो. यह आफतमें और आफत पैदाहुई. जहां पहुंचकर कुएमें डोल डालते पीछे निकालनेपर खाली मिलता (२); अक्सर वक्त पानी मिलने पर तक्सीम करनेमें खुद बादशाहको इन्तिजाम करना पड़ता था जिसपर भी कई आदमी प्यासके मारे मरगये, और तकलीफ इस दर्जेपर पहुंची कि रौशनबेग का घोड़ा जो बादशाहकी गर्भवती बेगमको दियागया था उसने वापस लेलिया. तब बादशाहने खुद पैदल

(१) रजवाड़े में इसको पानेरी कहते हैं.

(२) वहां कुए इसकदर गहरे थे कि डोल बाहर निकाले बिदून पानीकी आवाज़ नहीं आती थी.

होकर बेगमको अपने घोड़ेपर सवार किया; जब बादशाह थक गया तो पखालके ऊँटपर बैठलिया. और आखिरमें ये तकलीफें उठाताहुआ अमरकोट पहुंचा.

वहांका राणा प्रसाद बड़ी मिहरबानी से पेश आया, पहिले अपने भाइयोंको बादशाहके पास भेजा और पीछेसे खुद आकर कहा कि हम सातहजार राजपूत सवार आपका साथ देनेको तय्यार हैं. इस बातसे बादशाहको तसल्ली हुई और खाना पीना भी अच्छा मालूम हुआ. बादशाह अपनी गर्भवती बेगमको खटले समेत अमरकोट किलेमें छोड़ कर आप बहुतसे राजपूतोंके साथ वहांसे बारह कोस जून मकामके तालाब पर पहुंचा. वहां बड़ी फ़ज़र कासिदोंने आकर खबर दी कि अमरकोटमें हमीदहवानू बेगमके पेटसे बादशाहके एक शहजादह पैदा हुआ.

हिजरी ९४९ ता० १४ शाबान [वि० १५९९ मार्गशीर्ष शुक्ल १५ = ई० १५४२ ता० २३ नोवेंबर] शनिवार को यह खुशी हुई. बादशाहने निहायत खुश होकर जौहर आफ़ताबचीसे कस्तूरीका नाफ़ा लेकर सब सर्दारोंको बांटा और १४ तारीखको जन्म होनेसे “बद्रुद्दीन” और “जलालुद्दीन” शाहजादेका नाम रक्खा गया, क्योंकि चौदहवीं तारीखके चांदको बद्र कहते हैं और जलाल भी उसीके अर्थसे मिलता है (१).

फिर हुमायूँशाहने अपनी बेगम और शाहजादेको कई दिनके बाद अपने पास बुलालिया उस समय शाहजादेकी उम्र ३५ दिनकी थी और इस वक्त सोढा व काठियावाड़ी वगैरह पन्द्रह या सोलह हजार सवार बादशाहके पास जमा होगये थे, लेकिन चन्द रोज़ बाद स्वाजा गाज़ी और अमरकोटके राणा प्रसादमें बिगाड़ हो गया जिससे प्रसाद नाराज़ होकर चला गया और इसीसे दूसरे राजपूतोंकी जमय्यत बिखर गई तब हुमायूँशाहने कन्धारकी तरफ़ जानेका इरादा किया, उसी समय बैरमखां (२) भी हुमायूँसे आ मिला, जो कन्नौजकी लड़ाईमें हुमायूँसे जुदा होकर संभलके राजा मित्रसेनके पास चला गया था और जिसको शेरशाहने अपने पास बुलाकर खातिरसे रक्खा

(१) अबुलफ़ज़ल अपनी तवारीख़ अकबरनामा और निज़ामुद्दीन अहमद तबक़ात अकबरीमें ५ वीं रजबको अकबरका जन्म होना लिखते हैं लेकिन जौहर आफ़ताबची जो उस वक्त हुमायूँके साथ था उसका लिखना मोतबर है और उसने १४ तारीखको बद्र होनेके सबब उसका नाम बद्रुद्दीन और जलालुद्दीन रक्खा जाना लिखा है सो ग़लत नहीं हो सकता. दूसरी किताबोंमें भी जो अबुलफ़ज़ल वगैरह के बयानसे ५ वीं रजब लिखदिया है इसका ज़ियादा बयान हम अकबरके हालमें लिखेंगे.

(२) यह वही बैरमखां है जो हुमायूँ और अकबरके वक्तमें खानखानाके नामसे प्रसिद्ध था.

था. लेकिन वह बुर्हानपुरसे भागकर अहमदाबाद और सूरतकी तरफ छिपता हुआ हुमायूँके पास चला आया. हुमायूँ इसके मिलनेसे बहुत खुश हुआ और कन्धारकी तरफ कूचकिया.

जब कन्धार थोड़ी दूर रहा तब मिर्जा कामरांके लिखनेसे मिर्जा अस्करी बंद इरादे के साथ हुमायूँ पर चढ़ा, लेकिन हुमायूँको किसी शस्त्रसे अस्करीकी दगभवाजीसे वाकिफ करदिया था जिसके सबब मक़ाम सालजमिस्तांसे हुमायूँ अपनी बेगम, शाहजादे और साथियोंको छोड़कर २२ आदमियों समेत भाग निकला. अस्करीने आकर हुमायूँको न पाया तब वह बेगम और शाहजादेको साथियों समेत कन्धार ले गया और हुमायूँ रास्तेमें तकलीफ उठाता हुआ बिलोचिस्तानमें पहुंचा, जहां बिलोच लोग बड़ी खातिरदारीसे पेश आये. फिर वहांसे ईरानके इलाके सीस्तानमें पहुंचा जहांका हाकिम मुहम्मद सुल्तान शामलू पेशवाईको आया और बहुत अदब आदाब बजा लाया. एक शस्त्र गयासबेग उस हाकिमका उस वक्त नायब था जिसकी बेटी नूरजहां बेगम, बादशाह जहांगीरशाहके समयमें हिन्दुस्तानकी बड़ी मुस्तार हुई.

जब यह खबर ईरानके बादशाह तहमास्प को मिली तो उसने अपने शाहजादे सुल्तान मुहम्मद मिर्जाको जो उस समय हिरातमें था हुकमनामा लिखभेजा. अगर हम उस हुकमनामे का तर्जुमा यहां लिखें तो बहुत बढ़जावे. उसका मतलब यह है कि १२ कोस तक तो सीस्तानका हाकिम हिरातसे जावे और ३ कोस तक शाहजादा खुद पेशवाईकरे. उम्दा तौरपर पेशवाईके साथ हिरातमें पहुंचने पर हुमायूँशाह की इस कदर खातिर हुई कि दिल्लीका तख्त छोड़नेके बाद आरामके साथ इतनी इज्जत न मिली होगी, फिर हिरातसे मशहदमें, हिजरी ९५१ ता० १५ मुहर्रम [वि० १६०१ वैशाख कृष्ण १ = ई० १५४४ ता० ८ एप्रिल] को नेशापुर, वहांसे सब्जवार, वहांसे दामगान और फिर सियाम, वहांसे सिनान और वहांसे अगदू फिर सेमा, वहांसे कच्चीन की तरफ चला. वहां बादशाह ईरानका भाई शाहजादा साममिर्जा, और शाहजादा बहराम पेशवाईके लिये आये. इस मक़ामपर बड़ी खातिरके साथ मिहमानदारी हुई, फिर सुल्तानिया मक़ामके पास खुद बादशाह ईरान पेशवाईके लिये जमादियुलअव्वल [भाद्रपद = अगस्त] में आया और बड़ी खातिर की; इसके बाद दोनों बादशाह अपने २ डेरोंको गये, दूसरे दिन दावत हुई. इसी तरह दिन बदिन हुमायूँशाह की खातिर होती थी.

एक दिन बादशाह तहमास्प ने बादशाह हुमायूँसे पूछा कि आपको इतनी तकलीफें किस सबबसे हुईं? हुमायूँने जवाबदिया कि भाइयोंकी नालायकी से. इस बात

को सुनकर तहमास्पका भाई मिर्जा बहराम नाराज होकर तहमास्पको बहकाने लगा लेकिन उसपर कुछ असर नहीं हुआ. ईरानियों ने हुमायूँकी बहुत कुछ खातिर की और शाह तहमास्पने हुमायूँशाहको यह भी कहा कि हिन्दुस्तानी राजाओंके साथ रिश्तेदारी होती तो आपकी बादशाहतमें खलल न आता, हुमायूँने भी इस नसीहतको प्रसन्द किया. इस तरह तीन वर्ष बड़े आरामके साथ ईरानमें गुजरे, फिर तहमास्पशाहने अपने शाहजादे मुरादको १२ हजार फौज समेत हुमायूँका मददगार बनाकर हिन्दुस्तानकी तरफ़ रवाना किया.

हुमायूँशाह मन्जिल ब मन्जिल कन्धार पहुंचा; उसके भाई अस्करीने किलेको दुरुस्त किया. लड़ाई होनेके ३ महीने बाद मिर्जा अस्करी हुमायूँके पास लाचार होकर चला आया, तब किला कन्धार खाली करवाकर हुमायूँशाहने इकरारके मुवाफ़िक़ ईरानी सदाओंको सौंप दिया. थोड़े दिनों बाद ईरानी शाहजादा मुराद मरगया, जिसके बाद हुमायूँशाहने किला कन्धार ईरानियोंसे छिन लिया और काबुल लेनेकी फ़िक्र हुई. इन दिनोंमें काबुलसे मिर्जा कामरांको छोड़कर मिर्जा हिन्दाल और नासिर मिर्जा कन्धारमें भाग आये थे. बादशाहने काबुल पर चढ़ाई की, मिर्जा कामरां पहिले तो लड़ाई करनेके लिये तय्यार हुआ लेकिन जब इसके सदांर हुमायूँसे आ मिले, तब रातके वक्क ग़ज़नीकी तरफ़ भागगया और हिजरी ९५३ ता० १० रमज़ान [वि० १६०३ कार्तिक शुक्ल ११ = ई० १५४६ ता० ५ नोवेम्बर] को हुमायूँने काबुल पर कब्ज़ा करलिया (१).

कामरांको ग़ज़नीमें घुसनेका मौका नहीं मिला, जिससे वह हजारह (२) लोगोंकी तरफ़ चलागया, फिर नासिर मिर्जाने बगावत करनी चाही तो बादशाहने उसे कैद करके क़त्ल करवादिया. जब हुमायूँ बदस्शांको फ़तह करके वहां बीमार होगया तब मौका देखकर पीछेसे मिर्जा कामरांने ग़ज़नी और काबुलपर कब्ज़ा करलिया. यह सुनकर तन्दुरुस्त होनेकेबाद हुमायूँ फिर काबुलकी तरफ़ चला; रास्तेमें घाटियोंपर कामरांकी फौजसे मुकाबिला करताहुआ फ़तहयाबीके साथ काबुल आपहुंचा और किलेको घेरलिया. उस समय कामरांने दाया (धाय) समेत शाहजादे अक्बरको किलेकी दीवारके कंगूरोंपर बिठाया और हुमायूँके सदांरोंके बालबच्चोंको भी

(१) अबुलफज़ल इस फ़तहको हिजरी ९५२ ता० १२ रमज़ान [वि० १६०२ मार्गशीर्ष शुक्ल १३ = ई० १५४५ ता० १७ नोवेम्बर] में लिखता है और हमने तबक़ात अक्बरीके मुवाफ़िक़ लिखा है.

(२) पठानोंके एक गिरोहका नाम है.

कंगूरोसे लटकादिया, लेकिन परमेश्वरकी कृपासे शाहजादे अकबरको कोई चोट न लगी. [अबुल्फज़ल बड़ी खुशामदके साथ लिखता है कि वह शाहजादा वली (देवपुरुष) था इस कारण उसे चोट नहीं लगी] .

हुमायूँके पास बलख और कन्धारसे फौजी मदद आगई और कामरां किला छोड़ भागा. हिजरी ९५४ ता० ७ रबीउलअव्वल [वि० १६०४ वैशाख शुक्ल ९ = ई० १५४७ ता० ३० एप्रिल] को हुमायूँने दुबारा काबुल पर कब्जा किया.

कामरांने हजारा लोगोंकी मददसे बदरशां लेलिया, लेकिन तालकान किलेके पास हुमायूँ की फौजसे शिकस्त खाने बाद वह हाजिर होगया. बादशाह उसको कोलाबका इलाका जागीरके तौर देकर काबुलमें लौट आया. कुछ दिनोंके बाद हुमायूँ शाहने बदरशांकी तरफ चढ़ाई करके वहां कब्जा करलिया; फिर बलखकी तरफ सुल्तान मुहम्मद उजबकसे भी लड़ाई हुई, जिसमें बादशाह हुमायूँने फतह पाई लेकिन दूसरी दफा उजबकोंने तीस हजार फौजलेकर हमला किया और हुमायूँ शिकस्त खाकर काबुलकी तरफ भाग आया.

इस समय मिर्जा कामरां भी दुबारा बागी होगया, हुमायूँके सदर्कोंकी मिलावटसे मुकाबिलेको आया और हुमायूँके सदर् उससे जामिले. इस लड़ाई में हुमायूँके सिरमें तलवारका घाव लगा और घोड़ा भी घायल हुआ आखिरकार हुमायूँ जानलेकर बामियां मकामकी तरफ भागगया.

यह लड़ाई काबुलपर हिजरी ९५५ ता० ५ जमादियुलअव्वल [वि० १६०५ आषाढ़ शुक्ल ६ = ई० १५४८ ता० १५ जून] को हुई, हुमायूँशाह फौज एकट्ठी करके तीन महीने बाद काबुल आया, जहां कामरांसे लड़ाई हुई. कामरां भागगया, लेकिन मिर्जा अस्करी और उसके दूसरे साथी कैद करलिये गये, तीसरीबार हुमायूँने काबुलमें कब्जा करलिया, एक वर्ष तक हुमायूँने यहां आराम पाया, इसके बाद कामरांको हमेशा शिकस्त ही मिलतीरही.

ऊपर लिखे संवत् व सन्में कामरांने एकबार हुमायूँकी फौजपर छपा मारा जिसमें मिर्जा हिन्दाल मारागया, लेकिन कामरां भागकर हिन्दुस्तानके पठान बादशाह सलीम-शाहके पास चला आया.

तब बादशाह हुमायूँने हिजरी ९५९ [वि० १६०९ = ई० १५५२] में हिन्दुस्तान पर चढ़ाई की, उस समय कामरां दिल्लीसे भागकर कखड़ पठान सुल्तान आदमके पास पहुंचा; उसने मिर्जाको पकड़कर हुमायूँके हवाले करदिया. हुमायूँका इरादा तो अब भी इसपर रहम करने ही का था लेकिन सदर्कोंने उसे कत्ल करना चाहा

तब हुमायूँने उसकी आंखोंमें सलाई फिरवाकर अन्धा करवा दिया, कामरां रुस्सत लेकर मक्केकी तरफ चला गया और उधर ही हिजरी ९६४ [वि० १६१४ = ई० १५५७] में मर गया.

हुमायूँका इरादा कश्मीर लेनेका था लेकिन सिपाहियों की बेदिलीसे वापस काबुलको लौट आया. हिजरी ९६१ ता० १५ जमादि युल्अव्वल् [वि० १६११ ज्येष्ठ कृष्ण १ = ई० १५५४ ता० १८ एप्रिल] को हुमायूँकी दूसरी बेगमके पेटसे दूसरा शाहजादा मिर्जा हकीम पैदा हुआ. हिजरी ९६१ जिलहिज [वि० १६११ कार्तिक = ई० १५५४ के नोवेम्बर] में दिल्लीके पठान बादशाह सलीमशाह के मरनेकी खबर सुनने बाद हिन्दुस्तान पर हुमायूँने चढ़ाई की और पेशावर होकर लाहौरको बिना लड़ाई लेलिया. इसी तरह सरहिन्द, हिसार, और जालन्धर पर जमाव कर लिया.

देपालपुरके पास पठानोंसे मुगलिया फौजकी लड़ाई हुई जिसमें मुगल गालिब रहे. सिकन्दरशाह सूरने हबीबखां और तातारखांकी मातहतमें ३०००० फौज हुमायूँसे लड़नेको भेजी. सतलजके किनारेपर रातके समय पठानोंकी फौजमें आग भड़कनेसे खराबी होगई और मुगलिया फौजने यहां भी फतह पाई. यह खबर सुननेसे सिकन्दरशाह सूर खुद ८०००० फौज लेकर सरहिन्दके पास आया, जिसके मुकाबिल हुमायूँशाह भी फौज लेकर चला, सरहिन्दपर लड़ाई हुई और सिकन्दरशाह भागा, हुमायूँके सदर्दारोंने पीछा किया. यह लड़ाई हिजरी ९६२ ता० २ शाबान [वि० १६१२ आषाढ शुक्ल ४ = ई० १५५५ ता० २३ जून] को हुई. सिकन्दरशाह सिवालकके पहाड़ोंकी तरफ भाग गया जिसका पीछा करनेके लिये हुमायूँने शाहअबुलमआलीको भेजा.

हुमायूँ बादशाह पहिली रमजानको सलीमगढ़ और ४ रमजान [श्रावण शुक्ल ६ = ई० ता० २५ जुलाई] को दिल्लीमें दाखिल हुआ और अपने नामका सिका व खुतवा दूसरी बार हिन्दुस्तानमें जारी किया. शाह अबुलमआलीसे सिकन्दरशाहका कुछ भी नुकसान नहीं हुआ. जब किले सियालकोटमें वह छिपता हुआ जाता था तब हुमायूँशाहने शाहजादे मुहम्मद अकबरको बैरमखांके साथ उस तरफ भेजा. यह शाहजादा कलानौरके पास पहुंचा था कि पीछेसे हिजरी ९६३ ता० १५ रबीउलअव्वल् [वि० १६१२ फाल्गुन कृष्ण १ = ई० १५५६ ता० २७ जैन्वअरी] को हुमायूँ गुजर गया.

यह हाल इस तरह पर है कि शामके वक्त हुमायूँशाह कुतबखाने (पुस्तकालय) के कोठे पर बैठा हुआ था, जब नीचे उतरने लगा तो नमाज़के समय आजानकी आवाज़ सुनकर अदबकरनेकी इच्छासे सीढ़ी पर बैठ गया, खड़ा होनेके वक्त हाथमें की लकड़ी फिसलजानेसे लुढ़कता हुआ जमीन पर आ गिरा. सिरका हिस्सा

कटकर कानसे कुछ खून आया। यह बात सातवीं रबीउलअव्वलको हुई, और इस तकलीफसे एक हफ्ते बाद देहान्त होगया। ता० २८ रबीउलअव्वल [फाल्गुन कृष्ण १४ = ता० ९ फेब्रुअरी] को इस बातकी खबर पहुंचने पर शाहजादा अकबर १३ वर्षकी उम्रमें कलानौर मकाम पर तस्तनशीन हुआ।

बादशाह हुमायूं इल्मका शौकीन व कदरदान, वादेका पक्का, सीधा, सच्चा और बहादुर व उस समय के मुगलोंसे बहुत कुछ नर्म दिल और दयावान था।

अब यहां उम्र पठान बादशाहोंका हाल लिखा जाता है, जो हुमायूंके निकलजाने पर तीन पीढ़ी तक दिल्लीके बादशाह रहे और चौथे सिकन्दरशाहको हुमायूंने मुल्कसे निकाल दिया।

फरीदखां—शेरशाह सूर,

दिल्लीके बादशाह सुल्तान बहलोल लोदीके समय स्वादबाजौर (१) के पहाड़ी जिलेका रहनेवाला इब्राहीम सूर दिल्लीके किसी सर्दारके पास आकर नौकर हुआ, जिसके बेटे (२) हसनको थोड़े दिनोंबाद हिसारकी हुकूमत मिली, और वह सुल्तान इब्राहीमके सर्दारोंमें गिनागया। उसको सहसराम, टांडा और खवासपुर वगैरह परगने बिहारकी तरफ जागीरमें मिले।

हसनके आठ बेटे थे, जिनमें से फरीद और निज़ाम तो विवाहता पठानीके पेट से थे और बाकी ६ लौंडियोंसे पैदाहुए थे। फरीद अपने बापकी नामिहरबानीके सबब जौनपुर चलागया, लेकिन रिश्तहदारोंने पीछे बुलाकर रजामन्दीके साथ हसन की जागीरका इन्तिज़ाम उसे दिलादिया। उसने वहां अच्छी कार्रवाई की; लेकिन वह अपनी सौतेली माकी नाराज़गी के कारण दौलतखांके पास चलागया, जो इब्राहीम लोदी बादशाहका सर्दार था। हसनके मरने पर उसकी जागीर दौलतखांने फरीदको दिलादी; जब कि इब्राहीम लोदी और बाबर बादशाहकी लड़ाई से पठानों की बादशाहत बिगड़गई तब फरीदखां, बिहारके खुद मुस्तार हाकिम सुल्तान मुहम्मद के पास जा रहा। सुल्तान मुहम्मद एक दिन शिकारको गया था, उसपर शेर भपटा। फरीदखांने हिम्मत करके तलवारसे शेरको मारडाला, जिसपर सुल्तान-मुहम्मदने खुशहोकर फरीदको "शेरखां" का खिताब दिया और अपने बेटे जलालखांका

(१) यह अफ़ग़ानिस्तानका पूर्वी हिस्सा है।

(२) तबक़ात अक़बरीमें लिखाहै कि उसी इब्राहीमका नाम हसन था और तारीख़ सलातीन अफ़ाग़िना और तारीख़ फ़िरिश्तामें इब्राहीमको हसनका बाप लिखाहै और तोहफ़े अक़बरीका भी यहीबयान है।

अतालिक बनाया. जोंदाके हाकिम मुहम्मदखाने शेरखांके भाइयोंको जागीर पर काबिज करादिया, तब शेरखां नाउम्मेद होकर बाबर बादशाहके सदाँर जौनपुरके हाकिम सुल्तान जुनैद बरलाससे जामिला और फौज मांगकर उसने अपनी जागीर से मुहम्मदकी फौजको निकालदिया.

शेरखां अपने छोटे भाई निजामखांको जागीरमें छोड़कर बादशाह बाबरके पास हाजिर हो गया और चंदेरीके सफरमें बादशाहके साथ रहा. लेकिन मुगलोंकी तरफसे डरके सबब शेरखां भागकर अपनी जागीरमें चला आया और वहांसे सुल्तान मुहम्मदके पास बिहारमें पहुंचा. सुल्तान मुहम्मदने दुबारा शेरखांको अपने बेटेका उस्ताद बनाया. सुल्तान मुहम्मदके मरने पर उसके बेटे जलालखांके समयमें शेरखां बड़ा ताकतवाला हो गया. तब जलालखां, दूसरे पठानों समेत तंग होकर बंगालके सुल्तानसे जा मिला. शेरखांने धोखा देकर बंगाली पठानोंकी फौजको शिकस्त दी और उनका बहुतसा सामान हाथ लगनेसे ताकत पाकर बिहारका एक रईस बनगया.

इसी अर्सेमें इब्राहीम लोदीका मातहत, किले चनारका हाकिम ताजखां अपने बेटे के हाथसे मारागया तब शेरखांने उसकी बीबी लाडोमलिकासे निकाह (विवाह) करलिया और किले चनारको खजाने समेत अपने तहतमें लिया. फिर इसने बंगाले पर चढ़ाई करके वहांके बादशाहको भी शिकस्त दी. इस वक्त हुमायूँशाह अपने भाइयोंकी लड़ाई और बहादुरशाह गुजरातीके भगड़ोंमें लगरहा था, इससे शेरखांको मुल्क लेनेका खूब मौका मिला. सिकन्दर लोदीका बेटा महमूद जो महाराणा सांगा के साथ बाबर बादशाहसे शिकस्त खाकर भागा था ठठेमें अपना अमल जमाताहुआ एक फौज बनाकर बिहारमें आया. शेरखांने पठानोंको उसका तरफदार देखकर ताबेदारी इस्तिथार की. महमूदने बिहारका इलाका सदाँरोंमें बाँटकर शेरखांको भी थोड़ीसी जागीर दी और कहाकि मुगलों पर फतह पाने बाद यह सब इलाका तुम्हको ही जागीर में दिया जावेगा; सुल्तान महमूद लोदीने मुगलोंकी फौजपर फतह पाकर मानकपुर तक कब्जा करलिया. हुमायूँशाहने कालिन्जरसे अमीर हिन्दूबेग को फौज देकर उस तरफ भेजा. शेरखां लड़ाईके समय हिन्दूबेगसे मिलावट करके भागनिकला, जिससे पठानोंकी फौज बर्बाद होगई.

हिजरी ९४९ [वि० १५९९ = ई० १५४२] में सुल्तान महमूद लोदी परेशान फिरताहुआ मरगया.

किला चनार खाली न करनेके सबब हुमायूँशाहने शेरखांपर चढ़ाई की

लेकिन शेरखाने नरमीके साथ अपने बेटे कुतुबखानेको हुमायूँशाह की खिदमतमें भेज दिया. हुमायूँने भी बहादुरशाह गुजरातीकी लड़ाईके सबब इस सुल्हपर राजी होकर पीछे कूच किया, लेकिन जब बादशाह गुजरातमें पहुंचा तब कुतुबखाना भागकर अपने बापकेपास चलाआया. शेरखाने इस असेमें सुल्तान महमूद बंगालीसे बंगाला फ़तह करलिया लेकिन थोड़ेही दिनोंके बाद हुमायूँने शेरखानपर चढ़ाई करके किला चनार फ़तह करलिया.

हुमायूँ अपने सदार दोस्तबेगको इस किलेमें छोड़कर शेरखानेके पीछे चला और रास्तेमें ही गढ़ीनाम किले और गौड़ (१) को फ़तह किया. शेरखाने भागकर किला रोहतास फ़रेबके साथ वहांके राजासे छिनलिया, हुमायूँशाहको तीन महीने तक आराम करने बाद खबर मिली कि मिर्जा हिन्दालने आगरे और मेवातकी तरफ़ बगावतकी है. तब बादशाह ५००० सवार बंगालेमें छोड़कर आप आगरेकी तरफ़ चला. जब जोसार मक़ाममें पहुंचा तो शेरशाहने बादशाहको धोखा देकर छापा मारा जिसमें हुमायूँको हिजरी ९४६ [वि० १५९६ = ई० १५३९] में शिकस्त खाकर भागना पड़ा और बहुतसी मुग़लिया फ़ौज बर्बाद हुई.

इसके बाद शेरखाना बंगाले में पहुंचा, वहां जहांगीर कुली ५००० फ़ौज के साथ गौड़ मक़ाम पर ठहराहुआ था, कई लड़ाइयोंके बाद इस फ़ौज को भी बर्बाद करके शेरखाने अपना लक़ब "शेरशाह" रक्खा. हुमायूँशाह आगरे में पहुंचा और मिर्जा कामरां लाहौर चलागया, दूसरे रिश्तहदार भी बिखरगये; लेकिन हुमायूँशाह हिम्मत के साथ एक लाख (२) फ़ौज एकट्ठी करके कन्नौज में शेरशाह के मुक़ाबिल पहुंचा.

हिजरी ९४६ ता० २३ ज़िलहिज [वि० १५९७ ज्येष्ठ कृष्ण ९ = ई० १५४० ता० २ मई] को हुमायूँ पर अचानक शेरशाह का हमला हुआ जिससे हुमायूँशाह बिना मुक़ाबिले के शिकस्त खाकर आगरे होताहुआ लाहौर पहुंचा और शेरशाहने बादशाही ताज अपने सिरपर रक्खा.

हिजरी ९४९ [वि० १५९९ = ई० १५४२] में ग्वालियरका किला भी शेरशाह ने हुमायूँके सदार अबुल् कासिमबेगसे छिन लिया, और इसी संवत् में इसने मालवेकी तरफ़ चढ़ाई की और किला रणथंभोर सुल्ह के साथ लेकर आगरे आगया.

दूसरे वर्षमें मुल्तान का सूबा भी लेलिया. हिजरी ९५० [वि० १६०० = ई० १५४३] में रायसेन का किला लिया और वहांके राजा सलहदी तंवर के बेटे

(१) गौड़ एक मक़ामका नामहै जिसे लखनौती भी कहते हैं.

(२) फ़ौज की तादाद में बाज़ बाज़ किताबों के बयानसे इस्तिस्लाफ़ पायाजाता है.

पूर्णमल्ल को बालबच्चों समेत अन्नका भरोसा देकर थोड़ी दूर किलेसे बाहर निकलने दिया, लेकिन पीछेसे फौज भेजकर घेरलिया और राजा औरतों समेत बहादुरीसे लड़कर मारा गया।

शेरशाह आगरे में आया और वहांसे उसने बड़ी फौजके साथ मारवाड़के राव मालदेव पर चढ़ाई की।

हिजरी ९५० ता० १० शव्वाल [वि० १६०० पौष शुक्ल ११ = ई० १५४३ ता० ७ डिसेम्बर] को मुकाबिले की नौबत पहुंची अजमेरके पास दोनों फौजें एक महीने तक मुकाबिल पड़ी रहीं, आखिरकार ऊपर लिखे हुए दिनको शेरशाहने फरेबके साथ फतह पाई, जिसका पूरा जिक्र मारवाड़ की तवारीख में लिखा जायगा।

इस लड़ाईके पीछे चित्तौड़वालोंसे सुलह करता हुआ वापस रणथम्भोर आया, और वहांसे कालिन्जर पहुंचकर किलेका घेरा डाला। वहांके राजाने मुकाबिला किया, शेरशाह एक दिन बारूदके खजाने (मेगज़ीन) के पास खड़ा था कि उसमें आग लगजानेसे वह मए अपने उस्ताद वगैरहके जल गया। हिजरी ९५२ ता० १२ रबीउलअव्वल [वि० १६०२ ज्येष्ठ शुक्ल १३ = ई० १५४५ ता० २४ मई] को इस तकलीफमें फतहकी खबर सुनकर मर गया।

यह बादशाह आमतौर पर इन्साफ़ पसन्द और मुल्कगीरीमें दगावाज़ था। अपनी रअध्यतको दिलसे आराम देना चाहता था। इसने सड़कें तय्यार करवाकर दोतरफ़ा सायादार पेड़ लगवाये थे और मौके २ पर कुए और सराएं बनवाई थीं। जब वह अपनी डाढ़ीको सिफ़ेद देखता तो अफ़सोसके साथ कहता कि मुझको शामके वक्त बादशाहत मिली।

जलालखां इस्लामखां, सलीमशाह सूर.

शेरशाहके पीछे दो बेटे आदिलखां और जलालखां रहे, उनमेंसे आदिलखां तो अपने बापके मरनेके वक्त रणथम्भोरमें था और जलालखां छोटा पास होनेके सबब सर्दारोंकी मददसे कालिन्जरके पास तख्त पर बैठा। इसने अपने बड़े भाई आदिलखांके नाम एक अर्ज़ी लिख भेजी, कि आप दूर फ़ासले पर थे जिससे मैं पास होनेके कारण तख्त पर बैठ गया ताकि सल्तनतमें किसी प्रकार खलल न आवे, वरना मैं तो आपका तावेदार ही हूँ।

इस तरह सलीमशाह हिजरी ९५२ ता० १५ रबीउलअव्वल [वि० १६०२ आपाढ़ कृष्ण १ = ई० १५४५ ता० २६ मई] को तख्तपर बैठकर सीकरी में

पहुंचा, और अपने भाई आदिलखांको बुलाकर उसकी बहुत कुछ ख़ातिर की, फिर आगरे में पहुंचकर आदिलखांको तस्तपर बैठनेके लिये कहा लेकिन उसने इन्कार किया और सलीमशाहको तस्तपर बिठाया, तब सलीमशाहने आदिलखांको बयाने का इलाका देकर विदा किया; लेकिन सलीमशाहने दो महीनेके बाद आदिलखांके कैद करनेके लिये ग़ाज़ी महल्दारको भेजा. आदिलखां यह ख़बर सुनकर मेवातके हाकिम ख़वासखांके पास पहुंचा. जब ग़ाज़ी महल्दार गुजरातमें पहुंचा तो ख़वासखांने महल्दारको कैदकिया और आप आदिलखां का मददगार होकर आगरेकी तरफ़ चला. इसने सलीमशाहके कई सर्दारोंको मिलालिया था लेकिन आगरेके पास लड़ाई होने पर सलीमशाहने फ़तह पाई और आदिलखां भागकर पटनेकी तरफ़ चला गया, जहांसे उसका कुछ भी पता नलगा, और ख़वासखां वगैरह उसके साथी भी भागकर बिखरगये. सलीमशाह फ़तह पानेके बाद अपनी राजधानी में आया.

ख़वासखां और ईसाखां पर सलीमशाहने चढ़ाई की लेकिन फ़ीरोज़पुरके पास शिकस्त खाई दूसरी बार चढ़ाई करनेसे वे दोनों सर्दार कमाऊंकी तरफ़ भागगये ख़वासखां और ईसाखां दोनों, आजमहुमायूँके पास पहुंचे जो लाहौरका हाकिम था. सलीमशाहने उस तरफ़ भी चढ़ाई की और दिल्लीमें पहुंचकर सलीमगढ़ नामी क़िला बनवाया जो अबतक मौजूद है.

दिल्लीसे लाहौरकी तरफ़ चला, अंवालेके पास मुक़ाबिला हुआ; आजमहुमायूँ और ख़वासखांके बीच नया बादशाह बनानेके बारेमें तकरार होगई जिससे ख़वासखां लड़ाईके शुरूमें अलहदा होकर चलदिया, और आजमहुमायूँ शिकस्त खाकर पहाड़ोंमें भागगया. सलीमशाह कुछ फ़ौज लाहौरमें छोड़कर लौट आया.

हिजरी ९५४ [वि० १६०४ = ई० १५४७] में मालवेके सूबेदार शुजाअतखां को किसी आदमीने तलवारसे ज़रमी किया, जिसको उसने सलीमशाहके इशारेसे मरवाडालने का इरादा समझा और मालवेकी तरफ़ भागा. सलीमशाहने मांडू तक उसका पीछा किया, लेकिन वह बांसवाड़ेकी तरफ़ पहाड़ोंमें जा छिपा. सलीमशाह, ईसाखां सूरको बीस (२००००) हजार सवारोंके साथ उजैनमें छोड़कर आप आगरे चलाआया.

आजमहुमायूँ दुबारा, नियाज़ी ककखड़ोंसे मिलकर फ़साद करानेलगा; तब सलीमशाहने उसपर चढ़ाई की. ककखड़ लोगोंका मुल्क फ़तह होगया तो आजमहुमायूँ और सईदखां कश्मीर पहुंचकर वहांके लोगोंके हाथसे क़त्लहुए और सलीमशाह वापस आया.

इन्हीं दिनोंमें हुमायूँशाहका भाई मिर्जा कामरां सलीमशाहके पास आकर सिवालकके पहाड़ोंकी तरफ़ चलागया जिसको कक्खड़ोंने पकड़कर हुमायूँके हवाले किया जिसका पूरा जिक्र हुमायूँशाहके हालमें लिखागया है।

सलीमशाहने हुमायूँशाहके सिन्धु नदीपर आनेकी खबर सुनकर पन्जाबकी तरफ़ चढ़ाई की लेकिन हुमायूँशाहके पीछे लौटजानेकी खबर सुनकर यह भी ग्वालियर में चलाआया। फिर वह आंतरी (१) की तरफ़ शिकारको आया, उसके बदखाहोंने उसे क़त्ल करवाना चाहा लेकिन वह बचगया। सलीमशाह इस शकमें सय्यद बहाउद्दीन और महमूदको क़त्ल करवाकर ग्वालियरको चलागया, और दूसरे भी कई ज़बरदस्त सर्दारोंको कैद और क़त्ल किया।

हिजरी ९५९ [वि० १६०९ = ई० १५५२] में शुजाअतखां, संभलके हाकिम ताजखांके पास पहुंचा, जिसने सलीमशाहके कहनेसे शुजाअतखांको क़त्ल करवाडाला। पिछले दिनोंमें सलीमशाह ज़ियादा अय्याश होगया और उसे भगन्दरकी बीमारी हुई जिस पर दाग़ दिलवानेसे तकलीफ़ ज़ियादा बढ़गई। आखिर, शुरू हिजरी ९६० [वि० १६१० = ई० १५५३] में इस जहानसे कूच करगया।

यह बादशाह फ़रेबी और बहादुर था, पिछले दिनोंमें ऐश इशरत और शिकार में अपना समय खोनेलगा। इसके समय में एक नई बात यह हुई कि अब्दुल्ला अफ़ग़ान, शैख़ सलीम चिश्तीका मुरीद इमाम महदी बनकर बयाने में मशहूर हुआ। सलीमशाहने पहिले तो उसको समझाया और जब वह अपने इरादेसे नहीं फिरा तब उसको अपने इलाके से निकलवादिया, लेकिन फिर वह चलाआया और ज़ियादा बीमार हुआ तो सलीमशाहने कहा कि तू अपनी ज़बानसे कहदे कि मैं महदी नहीं हूं। इसपर उसने मुंह फेरलिया, जिससे सलीमशाहने गुस्सेमें आकर तीन चाबुक लगवाये और जाली (बनावटी) महदीका दम निकलगया।

मुबारिजखां मुहम्मदशाह अदली.

जब सलीमशाह मरगया तो उसका १२ वर्षका बेटा फ़ीरोज़ ग्वालियरमें तरत पर बिठाया गया, लेकिन तीन ही दिनके बाद शेरशाहके भाई निज़ाम सूरके बेटे मुबारिजखाने (२) जो सलीमशाहका साला भी था अपने भान्जेको मारकर सलीमशाह

(१) आंतरी मेवाड़का पूर्वाञ्जिला कहलाता है, जिसका कुछ हिस्सा बेगूरावतकी जागीरमें से ग्वालियरके कब्जेमें चलागया है।

(२) तारीख़ अफ़ागिनामें इसका नाम ममरेज़ लिखा है।

का तख्त ले लिया और अपना खिताब मुहम्मदशाह आदिल रक्खा. इसने अपना वजीर शेरखांके गुलाम शमशेरखांको बनाया और दौलतखां नौहानीको मुसाहिब ठहराया. फिर हेमूं नाम दूसर (१) जो बाज़ारका चौधरी था, मुहम्मदशाहअदलीके इज्जतदार नौकरोंमें होगया. एक महीना भी इसकी सल्तनतको नहीं हुआ था कि मुहम्मदशाह ने कन्नौजकी जागीर मुहम्मद करमलीसे छिनकर शम्सखांको देनी चाही, करमलीके बेटे सिकन्दरने शम्सखांको बादशाहके सामने मारडाला. मुहम्मदशाह अदली जनानखानेमें भागगया, लेकिन उसके बहनोई इब्राहीमखांने सिकन्दरको मारडाला. ताजखां बागी होकर भागा, अदलीशाहने उसका पीछा किया, ताजखां अपने भाइयों और मकरानी मुसल्मानोंसे मिलकर लड़ने लगा, अदलीशाहके मुसाहिब हेमूं दूसरने उनको शिकस्त देकर भगादिया.

अदलीशाहके बहनोईका बेटा इब्राहीम (२) डरकर चनारसे भागा और अपने बाप गाजीखांके पास हिंडौनको चलागया. ईसाखांको अदलीशाहने उसके पीछे फौज देकर भेजा, काल्पीके पास मुकाबिला हुआ, इब्राहीम फतहपाकर दिल्ली और आगरेका बादशाह बनगया, और अदलीशाह चनारको चला गया.

यह दिल्ली और आगरेमें सुल्तान इब्राहीमके नामसे मशहूर हुआ और इसने सिक्रा और खुत्बा अपने नामका जारी किया.

पंजाबमें अदलीशाहके दूसरे बहनोई अहमदखां सूरने बादशाह बनकर अपना लकब सिकन्दरशाह रक्खा और आगरेकी तरफ सुल्तान इब्राहीम पर चढ़ाई की. सामना होने पर इब्राहीम शिकस्त खाकर संभलकी तरफ भागा और सिकन्दरशाहने दिल्ली आगरेमें सिक्रा और खुत्बा अपने नामका जारी किया. इस मौके पर हुमायूंशाहके हिन्दुस्तानमें आकर लाहौर पर कब्जा कर लेनेकी खबर मिली. सिकन्दरशाह बड़ी ज़रूर फौज लेकर पंजाबकी तरफ चला और सरहिंदके पास मुकाबिले से भाग कर पहाड़ोंमें चला गया. हुमायूंशाह फतह पाकर दिल्लीमें आया, जिसका हाल ऊपर लिखा गया है.

इब्राहीम एक बड़ी फौज बनाकर काल्पीकी तरफ गया जहां मुहम्मदशाह अदली और उसके मुसाहिब हेमूंसे शिकस्त खाकर बयानेमें अपने बाप गाजीखांके पास पहुंचा. हेमूंने वहां भी इसे जाघेरा. इब्राहीम वहांसे भागकर ठठेमें आया


(१) दूसरको अक्सर तवारीखोंमें बनिया लिखा है परन्तु यह और ही कौम है जो अपनेको ब्राह्मणोंसे निकला बतलाती है और अपनी जात भार्गव ब्राह्मण भृगु ऋषिसे बयान करती है.

(२) यह इनकी खास बहिनका बेटा था या बहनोईकी दूसरी बीबीका, इस बातका पता न मिलनेसे बहनोईका बेटा लिखा है.

और वहांके राजा रामचन्द्रने उसको कैद करलिया. फिर वहांसे निकलकर मालवे की तरफ़ होताहुआ उड़ीसेमें पहुंचा; वहां करानी सुलैमानके हाथसे हिजरी ९७५ [वि० १६२४ = ई० १५६७ या ६८] में मारागया.

मुहम्मदशाह अदली और हेमूकी चरकटा मक़ाम पर मुहम्मदखां से लड़ाई हुई जिसमें वह मारागया. मुहम्मदशाह अदली तो चनारमें आया और हेमूको फ़ौज देकर अकबरसे मुक़ाबिलेके लिये दिल्ली और आगरेकी तरफ़ भेजा; क्योंकि वह हुमायूँके बाद दिल्लीके तख्त पर बैठगया था. आगरेके मुग़लिया सदाँर सिकन्दरखां उजबक और क़बाखांने दिल्लीकी राह ली और हेमूने आगरे पर क़ब्ज़ा किया. मुहम्मदशाह अदलीका सदाँर ईसाखां दिल्ली पर चढ़ा जिसने तदीबेग़खां मुग़लसे दिल्ली छीन ली. ईसाखां पानीपतकी लड़ाईमें मुग़लोंके हाथसे मारागया जिसका हाल मौँके पर लिखा जायगा. हेमू पर बैरमखां वगैरह सदाँरोंको फ़ौज देकर अकबरशाह ने खाना किया जिन्होंने हेमूको गिरिफ्तारीके बाद क़त्ल किया, इसका पूरा हाल भी अकबरके ज़िक्रमें लिखा जायगा.

आखिरमें मुहम्मदशाह अदली और महमूदखां गौड़ियाके बेटे खिज़रखांसे लड़ाई हुई जिसमें मुहम्मदशाह अदली मारागया. तीन वर्ष के अनुमान मुहम्मदशाह अदली की हुकूमत गिनीजाती है. इसके बाद हिन्दुस्तान में पठानों की सल्तनत का ख़ातिमाहो कर मुग़लोंकी बादशाहत जमगई, जिनमें से अकबर बड़ानामी बादशाह हुआ; उसका हाल आगे मौँके पर लिखाजायगा.



शेषसंग्रह.

महाराणा विक्रमादित्यका माराजाना और बनवीरका गद्दी पर बैठना विक्रमी १५९३ में लिखा है, इस हिसाबसे उक्त संवत् के श्रावण कृष्ण १ से फाल्गुन कृष्ण २ के बीचमें यह बात हुई होगी; क्योंकि अमरकाव्यमें श्रावणादि संवत् हैं और दूसरी तवारीखोंमें संवत् १५९२ वि० लिखा है, सो उसमें उक्त लेखसे सन्देह होता है.

चित्तौड़गढ़के ऊपरी दरवाजे रामपौलके दक्षिणी दीवारपर बाहरकी तरफ़ यह प्रशस्ति लिखी है—


प्रशस्ति.

महाराजाधिराज महाराणा श्री बणवीर आदेशातु चारण ब्राह्मण जोग्यां दाणदपाण मुक्ति कीधो जको चित्रकूट राजविहो एन चारण भाटशुं दाणलेवे जीकी माउए गधेगाल है श्री मुखी सम्बत १५९३ वर्षे फागण बदी २ दिने चारण कालजीवाही दाणमुक्ति करायो चारण.

छन्द मुक्तादाम.

कियो बध विक्रमको बनबीर । उदै हरि गे गिरि कुम्भल तीर ॥
 धरे बनबीर तबें सिर छत्र । सुभट्टनके थट भंभट तत्र ॥ १ ॥
 मिले महिपालहि कुम्भलमेर । निकार दियो बनबीरहि फेर ॥
 सिरोहियकी धर दावन सार । कियो नृप ऊदलमन्द विचार ॥ २ ॥
 सगारथ भल्लनके हित सोध । बढ़यो मरुमाल महीप विरोध ॥
 पदच्युत बुन्दियतें सुल्तान । दियो नृप सुर्जन कों वह थान ॥ ३ ॥
 भयो सरणागत हाजियखान । कियो अनयी बन युद्ध दिवान ॥
 उदैपुर और उदै सर थाप । तहां प्रसरयो निज वंश प्रताप ॥ ४ ॥
 अकब्बर दिछियतें दल आन । ललक चितोर लियो मुगलान ॥
 वही फिर वत्सर अन्तर आय । लियो रणथम्भक् सुर्जणनाय ॥ ५ ॥
 लिख्योवृत्त गोहिलपिप्पलिराज । वही विधि पत्तन भाव समाज ॥
 तदन्वय क्षत्रप पालिय तान । तथा लघु गोहिल वंश बयान ॥ ६ ॥
 कह्यो फिर बुन्दियको इतिहास । कियो तिहि ठां कुल हड निवास ॥
 हुमायुं दिलीपति जीवन वृत्त । भयो सुख दुख लिखी सब बत्त ॥ ७ ॥
 भयो बिच सूर पठानन राज । कियो मुगलान कबूतर बाज ॥
 सुशेर सलीम सिकन्दर शाह । रच्यो इतिहास जु सुक्षम राह ॥ ८ ॥
 प्रकाशन आशय सज्जन रान । फते नृप शासन पाय महान ॥
 कियो कविराज सुश्यामलदास । उदै नृप वीर विनोद विलास ॥ ९ ॥

महाराणा उदयसिंह- तृतीय प्रकरण
समाप्त.



महाराणा प्रतापसिंह-चतुर्थ प्रकरण.

यह महाराणा विक्रमी १६२८ फाल्गुन शुद्ध १५ [हि० १७९ ता० १४ शन्वाल = ई० १५७२ ता० १ मार्च] को गोगूंदे मक़ाममें राज्य गद्दीपर बैठे, जिसका वृत्तान्त इस तरह पर है—कि जब महाराणा उदयसिंहका देहान्त हुआ उस समय सब सर्दार व महाराजकुमार महाराणाकी दाह क्रियामें गये. कुंवर सगरसे ग्वालियरके राजा रामसिंहने पूछा कि जगमाल कहां हैं ? सगर ने उत्तर दिया कि आप क्या नहीं जानते हैं—कि वैकुंठवासी महाराणाने उनको राज्यका मालिक बनाया है. सर्दारोंमें से अक्षयराज सोनगराने रावत् कृष्णदास और रावत् सांगासे कहा कि आप चूंडाके पोते हैं यह काम आप हीकी सम्मतिसे होना चाहिये, क्योंकि बादशाह अकबर जैसा तो दुश्मन सिरपर लगाहुआ है; चित्तौड़ छूट गया, मेवाड़ उजड़ रहा है, अब यह घरका बखेड़ा भी उठा तो फिर इस राज्य की बर्बादी में क्या सन्देह रहा ? रावत् कृष्णदास और सांगाने कहा कि पाटवी, हकदार और बहादुर प्रतापसिंह किस कुसूरसे खारिज समझा जावे ? इस विचार के बाद महाराणाकी उत्तर क्रिया करके जब सब सर्दार वापस आये तो प्रतापसिंह को लाकर गद्दीपर बिठा दिया, और जगमालको उतारकर कहा कि आपकी बैठक गद्दीके सामने है, सो वहां बैठना चाहिये.

जगमाल नाराज होकर वहांसे निकलगाया, तब सब सर्दारोंने महाराणा प्रताप-

सिंहको नजराना करके प्रार्थना की कि आज होलीका दिन है सो आप अहेड़ा (१) के शिकारके लिये पधारिये; यदि आप शोक रक्खेंगे तो पुस्तों तक इस दिनकी “औख” (गमीकी रस्म जिसमें कुछ भी खुशी न मानीजाय) रहजायगी. यह सुनकर महाराणा, नक्कारा बजायेजाने बाद शिकार खेलकर पीछे पधारे. उस दिन की एक कहावत मारवाड़ी भाषामें कवियोंकी कही हुई अब तक प्रसिद्ध है “मारीजे किम मांजरे होली जिशो तुहार” (२). गोगूंदे से महाराणा सवार होकर कुम्भलमेर पधारे और वहीं राज्याभिषेक का उत्सव किया.

जगमाल गोगूंदेसे निकलने बाद अपने बालबच्चोंको लेकर जहाजपुर गया. अजमेरके सूबेने उसके बालबच्चोंके रहनेके लिये आज्ञा दी और जहाजपुरका परगना ठेकेमें लिख दिया. फिर जगमाल अकबर बादशाहके पास दिल्ली (दिहली) गया और सब बीते हुये समाचार कह सुनाये. बादशाह अकबरने जहाजपुर (३) का परगना उसको जागीरमें दिया.

महाराणा प्रतापसिंह कुम्भलमेरमें रहकर मेवाड़का राज्य करने लगे; और यह खबर बादशाह अकबरको भी मिली. परन्तु उसने पहिले गुजरातका फसाद दूर करना जरूर समझकर सिद्धपुरकी तरफ कूच किया, और विक्रमी १६२९ [हि० १८० = ई० १५७२] में गुजरातको फतह करके डूंगरपुर व उदयपुरकी तरफ फौज भेजी, जिसके अप्सर आंबेरके कुंवर मानसिंह कियेगये और उनके साथ दूसरे भी सर्दार शाह कुलीखां, मुरादखां, मुहम्मद कुलीखां, सय्यद अब्दुल्ला, आंबेरके राजा भारमल्लका छोटा बेटा जगन्नाथ कछवाहा, राजा गोपाल, बहादुरखां, लश्करखां, जलालखां और बूंदीके राव हाड़ा भोज, वगैरह को भेजा और हुक्म दिया कि जो बादशाही खिदमत करें उनकी खातिर करो, और जो प्रतिकूल अर्थात् बखिलाफ हों उनको सजा दो. यह हुक्म लेकर कुंवर मानसिंह डूंगरपुर पहुंचे. वहां रावल आशकरनसे लड़ाई हुई, जिसमें दोनों तरफके बहुतसे आदमी मारेगये; बादशाही फौजने डूंगरपुरको फतह करलिया और रावल वहांसे निकलकर पहाड़ोंमें चलागया.

मानसिंहने डूंगरपुरको कब्जेमें लेकर अपनी जरूरतसे जियादा फौजको अजमेर भेजा और कुछ फौजके साथ महाराणाको समझानेके लिये विक्रमी १६३०

(१) होलीके दिन शिकारको जानेका राजपूताना में आम रिवाज है, उसे “अहेड़ा” का शिकार कहते हैं.

(२) अर्थ—होली जैसे महोत्सवको व्यर्थ खोना अनुचित है.

(३) यह परगना बूंदी और जयपुरकी हद्द पर उदयपुरसे ईशान कोणमें मेवाड़के तहतमें है.

प्रथम आषाढ़ [हि० ९८१ सफ़र = ई० १५७३ जून] में उदयपुर आये, जिनका महाराणा प्रतापसिंहने बहुत आदर (खातिर तवाजो) किया और आपसमें मुहब्बतका बर्ताव हुआ.

मानसिंहने महाराणा प्रतापसिंहको बादशाहकी खिदमतमें लेजानेके विचारसे बहुत बहाने और उद्योग किये, परन्तु वे सब बेफ़ायदा गये, यानी महाराणाने एक भी बात न मानी (१). महाराणाने कुंवर मानसिंहके वास्ते उदयसागर तालाबपर गोठ (२) की तय्यारी करवाई और कुंवर अमरसिंह समेत मानसिंहको लेकर उदयसागरपर पहुंचे. भोजन तय्यार होनेपर अमरसिंहने परोसकारी करके कुंवर मानसिंहसे भोजन करनेको कहा; इनका विचार महाराणाको अपने साथ भोजन करानेका था, परन्तु महाराणाने पेटकी गिरानी अर्थात् अजीर्णका उज़र करके टाला (३). मानसिंहने डोडिया ठाकुर भीमसिंहकी मारफ़त कहलायाकि गिरानीकी दवा में खूब जानता हूं, अबतक तो हमने आपकी भलाई चाही लेकिन आगेको होशयार रहना चाहिये. जिसपर महाराणाने उत्तर दिया कि जो आप अपनी ताक़तसे आएंगे तो मालपुरे तक पेशवाई कीजावेगी और जो अपने फूफ़ाके (४) जोरसे आएंगे तो जहां मौका होगा वहां खातिर करेंगे. भीमसिंहने यह बात ज्योंकी त्यों कुंवर मानसिंहसे कहदी. मानसिंह और भीमसिंहमें ज़वानी तक़ार हुई जिसमें भीमसिंहने कहाकि तुम जिस हाथीपर चढ़कर आओगे उसीपर भाला मारूं तो मेरा भी नाम भीमसिंह है; अपने फूफ़ाको लेकर जल्दी आना. इस तरह रसविरस होगया और सब घोड़ोंपर सवार होकर चलदिये.

मानसिंह के रवाना होजाने बाद महाराणाने खानेकी चीज़ें, चांदी सोने के पात्रों (बरतनों) समेत तालाब में फिकवादीं. जहां कुंवर मानसिंह खड़े थे वहां दो दो गज़ ज़मीन खुदवाकर गंगाजल छिड़कवाया और सब राजपूतों को स्नान करवाकर कपड़े बदलवाये. इस बातको अकबरनाममें अबुल्फ़ज़लने मुस्तसर लिखा है कि “ कुंवर मानसिंह वगैरह उदयपुर पहुंचे जो राणाका वतन है. वहां पर राणाने

(१) क्योंकि उनके मिज़ाजमें आज़ादी घुसी हुई थी.

(२) गोठका अर्थ दावतके खानेका है.

(३) मुसल्मानों के संबंधकी नफ़रतसे नहीं खाया.

(४) अकबरको इनकी भुवा विवाही गई थी, जिससे जहांगीर पैदा हुआ, इसीसे फूफ़ाका इशारा

बादशाहकी तरफ़ है.

पेशवाई करके बादशाही खिलअत (१) अदबके साथ पहना और मानसिंह को मिहमानी के लिये अपने घर लेगया, और नालियाकती से उज़र करनेलगा कि बादशाही हुज़ूर में मेरे जानेका मौका अभी नहीं है". यहां 'उज़र' शब्दसे दौवतमें शामिल न होना तथा बादशाह के पास जाने में इन्कार करना भी साबित होता है.

राजपूताना की पुस्तकों में यह हाल ऊपर लिखे अनुसार है. हिन्दी कविता में राम कवि की बनाई हुई "जयसिंह चरित्र" नामक जयपुर की तवारीखमें भी यह बात इसीप्रकार लिखी है.

दोहा

राना सों भोजन समय गही मान यह वान ॥
हम क्यों जैवें आपहू जैवत हो किन आन ॥ १ ॥
कुंवर आप आरोगिये राना भाख्यो हेरि ॥
मोहि गरानी सी कछू अबै जैइहूं फेरि ॥ २ ॥
कही गरानी की कुंवर भई गरानी जोहि ॥
अटक नहीं करदेहुंगो तूरण चूरण तोहि ॥ ३ ॥
दियो ठेल कांसो कुंवर उठे सहित निज साथ ॥
चुलू आन भरि हौं कह्यो पौंछ रुमालन हाथ ॥ ४ ॥

सिवाय इसके नैनसी महताके इतिहास और राजसमुद्र की प्रशस्ति और वूदीके वंशभास्कर आदि में भी यह बात इसी तरह लिखी है.

कुंवर मानसिंह तो सीधे आगरे पहुंचे, बादशाह वहां गुजरातकी मुहिमसे पहिले ही आचुके थे. मानसिंहने उदयसागरकी जियाफतका हाल बादशाहसे अर्ज किया. अक्बरने कुंवर मानसिंहको बहुतसी तसल्ली दी; लेकिन हमारा खयाल है कि बादशाह दिलमें खुश हुए होंगे, क्योंकि राजपूतोंका मेल मिलाप उनको नागवार था, गो मस्लहतसे (२) खाली न था. बादशाह उसी वक्त मेवाड़पर फौज भेजते,

(१) हमारी रायमें खिलअत पहननेके लिये या तो कुंवर मानसिंहने अपनी कारगुजारी दिखाने के वास्ते बादशाहसे वयान करदिया होगा या अबुल्फज़लने बादशाही बड़प्पन दिखानेको लिखा है वरना खिलअत तो विक्रमी १६७१ [हि० १०२३ = ई० १६१४] में महाराणा अमरसिंहने पहना, जिस लज्जासे अगरचे वे पांच वा छः वर्ष जीते रहे लेकिन इस मुद्दतमें किसी आदमीको मुंह नहीं दिखलाया, और प्रतापसिंहने उनको ताना भी दिया था जिसका हाल मौके पर लिखा जायगा.

(२) इस बातके दो वर्ष बाद शाहबाजख़ां किले कुम्भलमेरको गया उस वक्त उसने राजा भगवानदास और कुंवर मानसिंहको बादशाह अक्बरके पास भेजदिया था कि शायद वे मिल न जावें. (देखो इक्बालनामह जहांगीरी की जिल्द २ के पृष्ठ ३२१ में हि० ९८६ वें का हाल).

लेकिन दूसरे मुल्की इन्तिजामकी फ़िक्रमें लगरहे थे, इससे देर होगई. अनुमान ५ या ६ महीनेके बाद राजा भगवानदास कछवाहा, जिसको अकबर बादशाह गुजरातमें बन्दोबस्तके लिये छोड़ आयाथा, गोगूंदे आया (१) और महाराणा प्रतापसिंहसे मिला. इन्होंने उनकी बड़ी खातिर की, इस मौकेपर अबुल्फ़ज़ल अपनी किताब अकबरनामह की तीसरी जिल्दके ४४ वें पृष्ठमें लिखता है कि “राणाने अपने बेटे अमराको राजा भगवानदासके साथ बादशाही खिदमतमें भेजकर अपने आनेमें उज़्र किया, और कहा कि बादशाही मिहरबानियां होंगी तो फिर मैं भी आजाऊंगा. राजा भगवानदास राणाके बेटे अमराके साथ आगरेमें हाज़िर हुआ”. यह बात हमारे ध्यानमें नहीं आती, क्योंकि प्रथम, तो महाराणा प्रतापसिंह बादशाही ताबेदारी और खिलअत पहनने और फ़र्मान लेनेसे बिल्कुल नफ़रत (घृणा) रखते थे और इसी बारेमें अपने बेटे अमरसिंहको जो ताना दिया, उसका बयान उनके हालमें किया जायगा, दूसरे, बादशाह जहांगीर, तुजकजहांगीरीके पृष्ठ १३४ में शहजादे खुर्रम और महाराणा अमरसिंहकी सुलहके बयानमें, लिखता है कि “राणा अमरसिंह और उसके बाप दादोंने घमंड और पहाड़ी मक़ामोंके भरोसेपर किसी बादशाहके पास हाज़िर होकर ताबेदारी नहीं की है, यह मुआमिला मेरे समयमें बाकी न रहजावे”. तीसरे, इसके पहिले भी जब बादशाह जहांगीरने अपने शाहजादे परवेज़को महाराणा अमरसिंह पर भेजा, उस समय लिखता है कि “राणा तुझसे आकर मिले और अपने बड़े बेटेको हमारेपास भेजदेवेतो सुलह करलेना”. और इसी तरह जब खुर्रमको भेजा तो सुलह भी मन्ज़ूर हुई और कुंवर कर्णसिंह जहांगीर के पास पहुंचे, उसका जिक्र जहांगीरने अपनी किताब में बहुत बढ़ाकर लिखा है. कुंवर कर्णसिंह जब जहांगीर के दरबार में अजमेर गये उस समय इंग्लिस्तान के बादशाह पहिले जेम्स का एल्ची ‘सर टॉमस रो’ भी वहां मौजूद था, जो लिखता है कि “पोरसके खान्दानका एक राजा मुग़ल (बादशाह) की सल्तनत में है जो कि गत वर्षके पहिले कभी ताबे नहीं हुआ था”. इन बातोंसे प्रकट होता है कि कुंवर कर्णसिंहसे पहिले कोई मेवाड़का पाटवी कुंवर शाही दरबार में नहीं गया, अगर गया होता तो अबुल्फ़ज़ल भी कुछ उसको ज़ियादा

(१) जयपुर की तवारीख़ में इसतरह लिखा है कि राजा भगवानदास गुजरात से आते हुये महाराणा प्रतापसिंह से मिले, और खाना खाने के समय महाराणा उनके शामिल नहीं बैठे; तब भगवानदास ने कहा कि मेरी तरह मानसिंह का हतक न करना क्योंकि उसका मिजाज तेज़ है. इसके बाद मानसिंह आये और उनके साथ भी वैसा ही बर्ताव कियागया, परन्तु अकबरनामे में मानसिंह का पहिले और भगवानदास का पीछे आना लिखा है, जैसा कि मूलमें लिखा गया.

तफ्सीलके साथ लिखता. मालूम होता है कि महाराणा प्रतापसिंहका कोई छोटा बेटा या भाई गया होगा, जिसका नाम अबुल्फज़लने 'अमरसिंह' ग़लतीसे लिखदिया है. लेकिन कुंवर मानसिंह की खटक बादशाहके दिलकी मुराद को खत्म करनेवाली थी.

वि० १६३२ [हि० ९८३ = ई० १५७५] में बादशाह अजमेरको आये और दिलमें पक्का इरादा करलिया कि मेवाड़ के राणा को जेर करना चाहिये. इसलिये कुंवर मानसिंह को, जिसे वह बेटा कहाकरता था, इस मुहिम पर खाना किया, क्योंकि बादशाह जानता था कि मानसिंह और प्रतापसिंह में तक्रार (१) हुई है जिससे लड़ने को वह जरूर आवेगा और माराजावेगा. कुंवर मानसिंह के साथ बड़े बड़े सर्दार किये, जिनके नाम ये हैं— ग़ाज़ीखां बदरूशी, ख़ाजह ग़यासुद्दीनअली, आसिफ़खां, सय्यद अहमदखां, सय्यद हाशिमखां, जगन्नाथ कछवाहा, सय्यद राजू, मिहतरखां, माधवसिंह कछवाहा, मुजाहिदबेग, राय लूणकर्ण वगैरह.

हल्दीघाटीकी लड़ाई.

जब कुंवर मानसिंह शाही फ़ौज लेकर मांडलगढ़ पहुंचे, उस वक्त महाराणा प्रतापसिंह भी कुम्भलमेरसे निकलकर गोगुंदेमें आये और लड़ाईके लिये सलाह व मशवरा किया. महाराणाकी सलाह तो यही थी कि मांडलगढ़के पास जाकर मानसिंहसे मुक़ाबिला करें, लेकिन सब सर्दारोंने अर्ज की कि कुंवर मानसिंह अपनी ताकतसे नहीं आये हैं, वह अपने फूफा याने बादशाह की फ़ौज लेकर आये हैं, इसवास्ते आपको भी लाजिम है कि पहाड़ोंमें रहकर उनको बहादुरी दिखलावें. जिस पर यही बात पकी ठहरी.

कुंवर मानसिंह भी महाराणासे लड़ना और उदयसागर तालाब पर अपने कहे हुए बोलको सिद्ध करना कुछ छोटी बात नहीं समझते थे. इसलिये बहुतसी फ़ौज एकट्ठी करने बाद जब लड़ाईका पूरा सामान तय्यार होगया तो उन्होंने वहांसे

(१) मोतमदखां इक़बालनामह की दूसरी जिल्द के ३०३ पृष्ठ में लिखता है कि कुंवर मानसिंह को भेजने से बादशाहका अस्ल मत्लब यह था कि—मानसिंह राणाकी कौममें से है, बल्कि अक्बर बादशाह के जुलूस के पहिले मानसिंह के बाप दादा राणाके ताबे और खिराज गुज़ारों में दाखिल रहे हैं. शायद ज़ियादा शर्म और घमंड से इस मर्तवा उसके मुक़ाबिले पर आकर लड़ाई करे. अबुल्फज़ल अक्बर नामह की तीसरी जिल्द के १५१ वें पृष्ठ में लिखता है कि कुंवर मानसिंह मांडलगढ़ पहुंचकर फ़ौज एकट्ठी करने के लिये ठहरा. राणा निहायत गुरूर से गुस्तेमें आया और बादशाही ताकत पर ध्यान न रखकर बादशाही फ़ौजके सर्दार मानसिंह को अपना मातहत ज़मींदार खयाल करके मक़ाम मांडलगढ़ पर लड़ाई के लिये आना चाहता था.

मोही (१) गांवमें आकर डेरा किया. महाराणाने भी लड़ाईका सब सामान दुरुस्त कर लिया, कुंवर मानसिंहने भूताला गांवके पास होते हुये शाही लश्कर समेत खमनोरके नज्दीक हल्दी घाटीके पास पहुंचकर बनास नदीके किनारे पर डेरे किये. महाराणा प्रतापसिंह भी अपनी फौजको दुरुस्त करके गोगूंदेसे चढ़े, सो दोनों फौजोंमें तीन कोसका फासिला था.

विक्रमी १६३२ [हि० १८३ = ई० १५७५] को कुंवर मानसिंह शिकार खेलनेके वास्ते एक हजार सवार समेत अपने डेरोंसे दो कोस महाराणाकी फौजकी तरफ आये (२), उस वक्त कितने ही सर्दारोंने अर्ज की कि कुंवर मानसिंह पर हमला करें, लेकिन भाला बीदाने कहा कि इस तरह दगा करना बहादुरोंका काम नहीं है. महाराणाने भी बीदाके कहनेको पसन्द किया— दूसरे रोज कुंवर मानसिंहको महाराणा प्रतापसिंहके आनेकी खबर मिली.

विक्रमी १६३३ द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल २ [हि० १८४ ता० १ रबीउलअव्वल = ई० १५७६ ता० ३१ मई] को मानसिंहने अपनी फौज लड़ाईके लिये इस तरह पर तय्यार की कि दहिनी तरफ बारहके सय्यद, और बाई तरफ ग़ज़ीखां बदरूशी और राय लूणकर्ण, हरावल (आगे) में कछवाहा जगन्नाथ, स्वाजह गयासुद्दीन अली व आसिफ़खां, और चंदावलमें याने पीछे माधवसिंह और दूसरे कई अमीरोंको मुकर्रर किया; और मिहतरखांको बहुतसे अमीरोंके साथ फौजके आगे रवाना किया. महाराणा प्रतापसिंहने भी अपनी फौजको इस तरह तय्यार किया— ग्वालियरका राजा रामसिंह तंवर, अपने बेटों शालिवाहन, भवानसिंह व प्रतापसिंह समेत, व भामाशाह अपने भाई ताराचन्द सहित दहिनी तरफ, और भाला मानसिंह जैतसिंहोत सजावत, भाला बीदा सुल्तानोत और सोनगरा मानसिंह अक्षयराजोत बाई तरफ मुकर्रर हुए— हरावलमें डोडिया भीमसिंह, रावत कृष्णदास चूंडावत, रावत सांगा (संग्रामसिंह), राठौड़ रामसिंह और पठान हकीमखां सूर—और चंदावलमें याने पीछे भीलोंका सर्दार मेरपुरका राणा पूंजा, पुरोहित गोपीनाथ, पुरोहित जगन्नाथ, पड़िहार कल्याण, बछावत महता जयमल्ल, महता रत्नचन्द खेमावत, महासहानी जगन्नाथ और चारण जैसा और केशव (सोदा, बारहट) नियत हुए. पहर दिन चढ़े घाटी पर दोनों फौजोंका मुकाबिला हुआ. अबुल्फज़ल लिखता है कि “ये दोनों लश्कर लड़ाईके दोस्त और जिन्दगीके दुश्मन थे; जिन्होंने जान तो

(१) यह गांव अब महाराणाकी तरफसे भाटी राजपूतोंकी जागीरमें है.

(२) यह बात नैनसी महता ने लिखी है.

सस्ती और इज्जत मंहगी करदी". बाईं तरफका महाराणाका लश्कर दहिनी तरफके बादशाही लश्कर पर टूटपड़ा. राय लूणकर्ण भागकर शाही फौजके दहिनी तरफ आघुसा और शैखजादे सीकरी वाले भी एकदम भागे. महाराणाका तीर शैख मन्सूरके कूल्हेपर लगा. काजीखां मर्दानगी करके पहिले तो खड़ा रहा लेकिन एक अंगुली कटने बाद भाग गया. महाराणाकी हरावल फौजने शाही हरावल फौजको शिकस्त दी. महाराणाकी तरफसे लूणा हाथी और शाही फौजका गजमुक्ता हाथी आपसमें लड़नेलगे. शाही हाथी ज़रूमी होकर भागनेको था कि इसी असेमें लूणा हाथीके महावतके गोली लगी जिससे वह गिरगया, और हाथी भी पीछे मुड़गया. फिर महाराणाके रामप्रसाद हाथी और शाही फौजके गजराज हाथीमें लड़ाई हुई. इस वक्त भी रामप्रसाद हाथीके महावतके गोली लगी और हाथी बादशाही फौजके हाथ लगा. निदान पहर दिन चढ़ेसे दोपहरके वक्त तक दोनों फौजोंमें खूब मुकाबिला हुआ. महाराणाकी तरफसे जयमल्लका बेटा राठौड़ रामदास, कछवाहे जगन्नाथके मुकाबिलेमें लड़कर मारागया, और भाला मानसिंह व बीदा तथा ग्वालियरका राजा रामसिंह अपने तीनों बेटों समेत बड़ी बहादुरीसे लड़कर काम आये; चारण बरहट जैसा और केशव भी मारेगये. इसी असेमें डोडिया ठाकुर भीमसिंह ने अपने घोड़ेको बढ़ाकर कुंवर मानसिंहके हाथी पर उड़ाया, और कहा कि "मैं भीमसिंह आगया हूं संभलना", यों कहकर बर्छा चलाया, सो मानसिंह तो बचगया और बर्छा हौंदेमें लगकर रहगया. लेकिन भीमसिंह बड़ी बहादुरीके साथ मारा गया. महाराणा प्रतापसिंहने अपने चेटक नामक घोड़ेको उड़ाकर कुंवर मानसिंहसे कहा कि "तुझसे जहां तक हो सके बहादुरी दिखला (१) प्रतापसिंह आया", सो मानसिंह तो हाथीके हौंदेमें झुककर बचगये, और महाराणा प्रतापसिंहका बर्छा हौंदेमें लगा. महाराणाके चेटक घोड़ेके दोनों अगले पैर कुंवर मानसिंहके हाथीके सिर पर लगे और हाथीकी सूंडमें जो खांडा याने तलवार थी, उसके वारसे महाराणाके घोड़ेका पिछला एक पैर कट पड़ा. महाराणाने घोड़ेको पीछे मोड़कर यह समझलिया कि कुंवर मानसिंहका काम तमाम होगया. शाही फौजकी हरावल भाग निकली.

मौलवी अब्दुलकादिर मुन्तखबुत्तवारीखवाला, जो उस लड़ाईमें मौजूद था, लिखता है कि शाही फौजकी भागने वाली हरावल पांच या छः कोस तक भाग चुकी थी, और अबुलफज़ल अकबर नामह में बना कर लिखता है कि करीब था

(१) यह मज़मून, डोडिया भीमसिंह और महाराणा प्रतापसिंहका, मेवाड़वालोंके कथनानुसार लिखा है.

कि शाही फौज भागे, लेकिन इसी असेमें शाही चंदावल फौजने एक दम आगे बढ़ कर हौरा मचाया कि बादशाह आगये, जिससे शाही फौजकी मज़बूती हुई और मेवाड़ी फौजके पैर उखड़ गये. पानड़वेके भीलोंका सर्दार पूजा राणा लड़ाईके शुरूमें ही भागनिकला. महाराणाने अपना घोड़ा गोगूंदेकी तरफ बढ़ाया, जिनका पीछा दो मुसल्मान सर्दारोंने किया. महाराणा प्रतापसिंहके छोटे भाई महाराज शक्तिसिंह, जो शाही फौजमें मौजूद थे, जाहिरदारीमें शाही सर्दारोंकी मददके लिये रवाना हुए, लेकिन अन्दरूनी मन्शा इनका अपने भाईको मदद पहुंचानेका था. पीछेसे उन दोनों अमीर मुसल्मानोंको उनके साथियों समेत हम्ला करके शक्तिसिंहने मारलिया. उन दोनों अमीरोंके नाम मेवाड़की पोथियोंमें 'खुरासानखां' व 'मुल्तानखां' लिखे हैं; क़ियाससे मालूम होता है कि वे खुरासान और मुल्तानके रहने वाले थे और ये उनके खिताबी नाम होंगे.

शक्तिसिंहने अपने भाई प्रतापसिंहको आवाज़ दी कि आप किस तरह चले जाते हैं, अपने घोड़े को देखिये कि वह तीन पैरसे चलरहा है. महाराणाने अपने भाईकी आवाज़ सुनकर घोड़ेको रोका और दोनों भाई उतरकर मिले; शक्तिसिंहने उन दोनों मुसल्मानोंके मारनेका हाल कहा. महाराणाका घोड़ा पैर कटनेके सिवाय बहुत ज़रूमी होगया था, जिससे उसी जगह गिर कर मर गया; शक्तिसिंहने अपना घोड़ा नज़र किया, जिस पर सवार होकर महाराणा आहोर होतेहुये कोल्यारी ग्राममें पहुंचे.

मेवाड़की पोथियोंमें लिखा है कि महाराणाके पास बीस हजार सवार और कुछ पैदल थे, जिनमेंसे सिर्फ़ आठ हजार बचकर कोल्यारीमें पहुंचे, बाकी सब मारेगये और कितने ही भागगये. मेवाड़की पोथियोंमें कुंवर मानसिंहके संग ८०००० फौज लिखी है, और फ़ारसी तवारीखोंमें कोई तादाद नहीं है. अबुल्फज़ल लिखता है कि गर्मियोंके सबबसे ग़नीमका पीछा शाही फौजने नहीं किया. लेकिन लड़ाईके हाल से मालूम होता है कि लड़ाई करनेकी ताकत दोनोंमें नहीं रही थी. अल्बत्ता फ़तह का भंडा बादशाही फौजके हाथ रहा.

महाराणा प्रतापसिंहके चेटक घोड़ेका चबूतरा हल्दीघाटीमें बनाया गया, जो अबतक मौजूद है. महाराज शक्तिसिंहने पीछे शाही फौजमें पहुंचकर जाहिर किया कि महाराणा प्रतापसिंहने मेरे घोड़ेको मारकर उन दोनों मुसल्मान सर्दारोंको भी साथियों समेत क़ल्ल कर डाला.

कुंवर मानसिंह दो रोज़के बाद बादशाही फौजके साथ गोगूंदेको आये

जो महाराणाका पहाड़ी कियाम्गाह था, लेकिन वहां दस बीस आदमियोंके (१) सिवाय किसीसे मुक़ाबिला न हुआ; क्योंकि महाराणा तो कोल्यारीकी तरफ़ अपने बहादुर ज़स्मी आदमियोंकी हिफ़ाज़तमें लगरहेथे, कुंवर मानसिंहने बहुत बड़ा हिस्सा गोगूंदेके थाने पर मुक़र्रर करके अजमेरकी तरफ़ कूच किया. रामप्रसाद हाथी जो शाही फ़ौजके हाथ लड़ाईके वक्त आया था वह पेशतर ही मौलवी अब्दुल्कादिर बदायूनीके साथ बादशाहकी ख़िदमतमें भेजदिया गया था. जब मानसिंह शाही दरबार (अजमेर) में पहुंचे, तो बादशाहने खुशहोकर उनकी बहुत खातिर की और अपने सब बहादुरों की इज़तें बढ़ाई.

कर्नेल टॉड साहिब अपनी किताबमें यह लड़ाई शाहज़ादे सलीमके साथ होना लिखतेहैं; परन्तु यह ठीक नहीं, क्योंकि बादशाह अकबरने कुंवर मानसिंह को महाराणासे ना इतिफ़ाकी होनेके कारण भेजाथा, और यह लड़ाई विक्रमी १६३३ (२) द्वितीय ज्येष्ठ शुक्र [हि० १८४ शुरु रबीउल् अब्दुल् = ई० १५७६ जून] में हुई; जिस वक्त जहांगीर यानी शाहज़ादे सलीमकी उम्र ६ वर्षकी थी, क्योंकि इस शाहज़ादे का जन्म विक्रमी १६२६ आश्विन कृष्ण २ [हि० १७७ ता० १६ रबीउल्-अब्दुल् = ई० १५६९ ता० २९ अगस्त] को हुआथा. सोचनेसे भी यहबात साबित हो सकती है कि ऐसी उम्रमें शाहज़ादा लड़ाईपर नहीं भेजा जासक्ता. इसके सिवाय राजपूताना की मोतबर तवारीखोंमें भी लिखाहै कि यह लड़ाई कुंवर मानसिंहसे ही हुई, और महाराणा प्रतापसिंहके जमानेका चित्रपट यानी (तस्वीरोंका नक्शा) उसी वक्तके मुसव्विरों के हाथका अबतक मौजूद है, जिसमें कहीं शाहज़ादे सलीमका निशान भी नहीं है, सिर्फ़ कुंवर मानसिंह व महाराणा प्रतापसिंहकी तस्वीरें तरफ़ैनके सर्दारों समेत हैं. जयपुरके पुस्तकालयकी दो तीन तवारीखी पोथियोंमें भी कुंवर मानसिंह व महाराणा प्रतापसिंह

(१) ये दस बीस आदमी महाराणाके महल व मन्दिरोंकी हिफ़ाज़तके लिये रहगये थे, जो मुक़ाबिले में मारे गये.

(२) मेवाड़की पोथियोंमें इस लड़ाईका होना विक्रमी १६३२ [हि० १८३ = ई० १५७५] में लिखाहै और फ़ारसी तवारीखोंके हिसाबसे विक्रमी १६३३ [हि० १८४ = ई० १५७६] है. इसका फ़ैसला इस तरहपर होसक्ता है कि यहां विक्रमी संवत् ज्योतिषके तरीकेसे, व साहूकारोंमें व जन्तियोंमें तो चैत्र शुक्र १ से मानते हैं और फ़सली संवत् मेवाड़के सर्कारी मुलाज़िम कुल आवण कृष्ण १ से गिनते हैं. हमने अपनी किताबमें ज्योतिष, आम रिवाज और जन्तियोंके तरीकोंसे लिखा है, जिससे विक्रमी १६३३ हुआ क्योंकि इसी संवत्की वैशाख शुक्र २ को हिजरी १८४ का मुहर्रम शुरु हुआ और ज्येष्ठ महीना अधिक पड़ा जिससे द्वितीय ज्येष्ठके शुक्र पक्षमें लड़ाई हुई, और यह रियासती संवत् उस वक्त भी इसी तरह समझा जाता था जैसाकि अब माना जाता है.

से इस लड़ाईका होना लिखा है, और अबुल्फज्ज भी अकबरनामहमें साफ साफ कुंवर मानसिंहसे ही मुकाबिला होना तहरीर करताहै. इसी तरह मुन्तखबुत्तवारीख व फ़ारसीकी कुल किताबोंमें प्रतापसिंह और कुंवर मानसिंहमें ही लड़ाई होना लिखाहै, कर्नेल् टॉड साहिबने महाबतखांको भी शाहजादे सलीमके साथ इस लड़ाईमें शामिल होना लिखकर महाराणा उदयसिंहके बेटे महाराज सगरका बेटा बतलाया है, लेकिन यह भी ग़लत है क्योंकि वह जहांगीरसे भी उम्रमें छोटा और काबुलके रहनेवाले सय्यद ग़यूरबेगका बेटा था जो ज़िले ईरानके शहर शीराजसे काबुलमें आरहा था और जिसका असली नाम ज़मानबेग था और उसको तरुतनशीन होकर जहांगीरने 'महाबतखां' का खिताब दिया; इसके पहिले यह अहदियोंमें नौकर था; इसका मुफ़स्सल हाल किताब मआसिरुलउमरा वगैरह में लिखा है—

जब कुंवर मानसिंह गोगूंदेसे अजमेर गये तब कई सर्दारोंको ज़बरदस्त फौज के साथ गोगूंदेके थाने पर छोड़ गये थे, और बादशाह अकबरने कई अमीरोंको फिर वहां भेजा, लेकिन महाराणा प्रतापसिंहने ज़रूमी बहादुरोंका इलाज करके अपने राजपूत व भीलोंकी ताकतसे कुल पहाड़ी रास्ते व नाके बन्द करदिये; न रसद वगैरह खानेका सामान पहुंचने दिया और न किसी छोटे गिरोह को बाहर निकलने दिया. शाही फौजके आदमी हवालाती कैदियोंके मुवाफ़िक़ गोगूंदेमें पड़े थे. जो कभी थोड़े आदमी रसद वगैरह लेनेके लिये फौजसे अलहदा जाते तो उन पर महाराणाके राजपूतोंका धावा होता था. जब शाही फौजके लोग बहुत घबरा गये और खाना पीना न मिलसका तब मेवाड़के राजपूतोंसे लड़ते भिड़ते पहाड़ोंसे निकलकर बादशाहके पास अजमेर पहुंचे; बादशाह इन लोगों पर बहुत नाराज़ हुए लेकिन पीछे सब हाल सुनकर इनको बेक़सूर समझा. महाराणा प्रतापसिंह कोल्यारी गांवसे गोगूंदे होते हुये मजेरा ग्राममें राणेराव तालाबकी पाल पर पहुंचे और मुल्क (मेवाड़) में फौज भेजकर बादशाही थानेदारोंको निकाल दिया और अपना अमल कायम किया. गोगूंदेके थाने पर मांडण कूंपावतको रखकर महाराणा आप कुम्भलमेर किलेमें चले गये और महता नर्बदको वहांका किलेदार किया.

जब यह ख़बर बादशाह अकबरको मिली तो वह गुस्से होकर उसी संवत् व सन्में मेवाड़की तरफ़ आया; महाराणाने भी किले कुम्भलगढ़में लड़ाई की तय्यारी की. इन महाराणाके ससुर ईडरके राव नारायणदास भी इनके लिखनेके मुवाफ़िक़ उन बादशाही थानों पर हमला करने लगे, जो गुजरातकी तरफ़ थे. बादशाह अकबर भी इस हंगामेका हाल सुनकर बढ़ते आते थे, जब

मांडल वगैरह मेवाड़के थानोंकी तरफ़ ठहरते हुये मोही गांवमें पहुंचे तो वहांसे अपनी सब फ़ौजको दुरुस्त करके गोगूंदेकी तरफ़ खाना हुए. साफ़ मुल्कमें कुछ लड़ाई नहीं हुई, लेकिन पहाड़ोंमें शाही फ़ौज पर महाराणाके राजपूत कहीं कहीं घाटियों के मौके पर हमला करते थे; बड़ी लड़ाई कहीं नहीं हुई. बादशाह खुद गोगूंदे में आ पहुंचा. महाराणा प्रतापसिंहके जो बहुतसे राजपूत पहिले हल्दीघाटी की लड़ाईमें मारे गये थे, इस लिये फ़ौजी ताकतकी कमीसे मुकाबिला न किया गया, लेकिन महाराणाकी बहादुराना हिम्मत और जिस्मानी ताकतमें बिल्कुल फ़र्क़ न आया. उन्होंने वक्तकी मसलहत से अपने ससुर नारायणदासको साथ लेकर पहाड़ोंमें लड़ाई करना मुफ़ीद समझा.

बादशाहने गोगूंदेसे मुकाबिलेके वास्ते पहाड़ोंमें फ़ौज भेजी, जिसमें कुतुबुद्दीनखां, राजा भगवानदास और कुंवर मानसिंह थे. ये सब लोग हल्दीघाटीके पास इधर उधर फिर कर पीछे बादशाही फ़ौजमें आ शामिल हुए.

फिर बादशाहने ईडरकी तरफ़ किलीचखां, स्वाजह गयासुद्दीन, नकीबखां, तीमूर बदरुज़ी, मीर अबुल्ग़ौस और नूरकिलीच वगैरहको खाना किया. ईडर की सरहद पर महाराणा प्रतापसिंह व राव नारायणदाससे मुकाबिला हुआ. उमरखां पठान व हसन बहादुर वगैरह शाही फ़ौजके अफ़सर बहुतसे फ़ौजी सिपाहियोंके साथ मारे गये और राजपूत भी बहुत लड़कर काम आये. आखिरमें ईडर पर बादशाही कब्ज़ा होगया.

मेवाड़में बादशाह अकबरने गोगूंदेसे बांसवाड़ेकी तरफ़ कूच किया, जहां पर बांसवाड़ेके रावल प्रतापसिंह, और डूंगरपुरके रावल आशकर्ण, पहिली बार राजा भगवानदासकी मारफ़त बादशाही खिदमतमें हाज़िरहुए. इसके पीछे बादशाहने मोही व मदारियामें बहुतसी फ़ौजें रख कर थाने बिठाये. मोहीमें गाज़ीखां बदरुज़ी और शरीफ़खां, मुजाहिदखां, व सुब्हानकुलीतुर्क वगैरह, और मदारिये में अब्दुर्रहमान मुअय्यिदबेग और अब्दुर्रहमान जलालुद्दीनबेग वगैरहको तइनात करके बादशाह आप पीछे लौटे और पंजाबकी तरफ़ खाना होकर लाहौर पहुंचे.

विक्रमी १६३५ चैत्र [हि० १८६ मुहर्रम = ई० १५७८ मार्च] में बादशाह अकबरने बड़ी जरूरत फ़ौजके साथ शाहबाजखांको कई अमीरों समेत कुम्भलगढ़की तरफ़ भेजा. शाहबाजखां जब तय्यार होकर चला तब उसको शक हुआ कि राजा भगवानदास और कुंवर मानसिंह, जो मेरेसाथ हैं, राणाके हमकौम (राजपूत) होनेसे मिलावट न करलें. इसलिये सोच विचारकर दोनोंको बादशाही खिदमतमें खाना करदिया और अपने साथ बैरमखांके बेटे मिर्जाखां खानखानां, शरीफ़खां व गाज़ीखां

वगैरह बहादुरोंको लिया. महाराणा प्रतापसिंह भी कुम्भलगढ़ किलेपर मौजूद थे; राजपूत लोग, शाही फौजपर पहाड़ोंकी घाटियोंमें हमला करनेलगे. एक दिन मेवाड़ी राजपूतोंने रातके वक्त छापा मारकर शाही फौजके ४ हाथी किलेमें लाकर महाराणाको नजर किये. जब शाही फौजने नाडोल व कैलवाड़ा की तरफ नाकाबन्दी करके किलेके रास्ते रोकदिये और रसदका पहुंचना दुश्वार (कठिन) होगया तब महाराणा प्रतापसिंहसे सब राजपूतोंने अर्ज की कि घिरकर मरना आपका काम नहीं है, हम लोग किलेमें अच्छी तरह लड़ेंगे, और आप मारेजावेंगे तो मुल्की दावा कोई न करसकेगा. इस तरह पर समझाकर महाराणाको बाहर जानेको तय्यार किया, और कुम्भलमेरमें राव अक्षयराजका बेटा भाण किलेदार मुकर्रर कियागया. महाराणा प्रतापसिंह किले से निकलकर राणपुरमें आ ठहरे, जहांसे खाना होकर ईडरकी तरफ चूलिया ग्राममें पहुंचे.

किलेपर बादशाही फौजके हमले होने लगे, और बहादुर राजपूत भी लड़कर फौजके हमलोंको रोकते थे, परन्तु आखिरकार शाही फौजके बहादुर किले पर चढ़ने लगे, उस वक्त किलेवालोंने भी किवाड़ खोल दिये. राव भाण सोनगरा वगैरह बहुतसे नामी बहादुर राजपूत किलेके दर्वाजों व मन्दिरों पर मारेगये, और शाहबाजखाने फतहके साथ किलेपर बादशाही भंडा कायम किया.

कुम्भलमेर किलेकी फतह विक्रमी १६३५ आषाढ़ कृष्ण ३० [हि० १८६ ता० २९ रवीउलअव्वल = ई० १५७८ ता० ५ जून] को हुई. यह किला विक्रमी १५०९ [हि० ८५६ = ई० १४५२] में बनवाया गया था, और जबसे अबतक इसपर किसी दुश्मनका कब्जा नहीं हुआ था. शाहबाजखाने कुम्भलमेर किलेमें पुरता बन्दोवस्त करके किले गोगूंदेकी तरफ कूच किया.

महाराणाका प्रधान भामाशाह कुम्भलमेरकी रअय्यतको लेकर मालवेमें रामपुरे की तरफ चलागया, जहांके राव दुर्गाने उसको साथियों समेत बड़ी हिफाजतसे रक्खा. यहां शाहबाजखाने गोगूंदा व उदयपुरमें शाही फौजके थाने बिठादिये.

इसी संवत् व सन्में भामाशाह व उसका भाई ताराचन्द मुल्क मालवेसे दंडके २५००००० रुपये और २०००० अशर्फियें लेकर चूलिया ग्राममें महाराणा प्रतापसिंहके पास पहुंचा और रुपये व अशर्फियें नजर कीं. इस असेमें रामा महासहाणी प्रधानेका काम करता था. जिसके एवज भामाशाहको वह काम सौंपागया. उस वक्तके किसी शाइरने मारवाड़ी ज़बानमें एक दोहा कहा था, जो यहां लिखाजाता है—

दोहा (१).

भामो परधानो करै रामो कीधो रह ॥
धरची बाहर करणनूं मिलियो आय मरह ॥ १ ॥

महाराणा प्रतापसिंहने भामाशाहकी बहुत खातिर की और उसके व अपने साथी राजपूत सर्दारों समेत दिवेरके शाही थानेपर हम्ला किया. उस थानेपर सुल्तानखां मुगल मुरतार था, जिसकी छतिमें राजकुमार अमरसिंहके हाथका बर्छा लगकर घोड़ेमें होताहुआ पार निकलगया, और वह घोड़े समेत मारागया. एक दूसरे राजपूतके हाथकी तलवार हाथीके लगी जिससे उसका पिछला पैर कटपड़ा. इसके बाद जहां जहां शाही थानोंपर थोड़े आदमी थे वे सब खौफ खाकर भागगये. बहलोलखां नामी मुगलके महाराणाके हाथकी तलवार लगी जिससे वह घोड़े समेत कल्ल हुआ, और इसी तरह इस थानेपर दूसरे आदमी भी मारे गये, और दिवेरकी नालपर महाराणा ने कब्जा करलिया; महाराणाने वहांसे चलकर हमीरसर तालाबपर, जो कुम्भलमेरके नज्दीक है, मकाम किया. कुम्भलमेरमें बन्दोबस्तके लिये शाहीफौजके थोड़े से आदमी रहगये थे, वे महाराणाकी दहशतसे किला छोड़कर भागगये, और वहां भी बन्दोबस्त करतेहुए महाराणा ओवरां ग्राममें आ ठहरे, वहांसे जावरमें कब्जा करके छप्पन, बागड़के पहाड़ोंमें फतह पाकर चावंडमें निवास किया.

महाराणाने भामाशाहके भाई ताराचन्दको मालवेमें रामपुरेकी तरफ भेजा था, जिसको शाहबाजखाने जा घेरा. और ताराचन्द वहांसे लड़ाई करताहुआ बसीके नज्दीक पहुंचा, जहां ज़रमी होनेके सबब घोड़ेसे गिरा. लेकिन बसीका राव देवड़ासाईं-दास, उस ज़रमीको जो बेहोश होगया था, उठाकर अपने किलेमें ले आया. शाहबाजखां तो दूसरी तरफ रवाना हुआ, और यह हाल महाराणा प्रतापसिंहने सुनकर चावंडसे कूच किया, सो दशोर वगैरह मालवेके शाही थानोंको तहस नहस करते और दंड लेतेहुए चावंडमें आ पहुंचे.

फिर बादशाहने मिर्जाखां खानखानांको फौज देकर मालवेकी तरफ भेजा, जिससे भामाशाह जाकर मिला. मिर्जाखांने महाराणाको बादशाहकी खिदमतमें लेजाना चाहा लेकिन भामाशाहने मंजूर न किया.

जब छप्पनके राठौड़ोंने शोर मचाया तब महाराणाने लूणा चावंडिया राठौड़को चावंडसे निकालकर वहां अपनी राजधानी बनाई, और आसपास, दूर नज्दीक जहां

(१) अर्थ—भामा प्रधाना करता है—रामा दूर कियागया, और देशकी तरफदारी करनेको वह मर्द आमिला.

शाही थाना सुनते वहीं जाकर छापा मारते. चावंडमें महाराणाने चांमुंडा माताका मन्दिर (१) और अपने रहनेके लिये छोटे छोटे महल बनवाये. कुछ दिनों बाद बांसवाड़े व डूंगरपुर वालोंको, जो बादशाही खिदमतमें हाज़िर होचुके थे, फौज भेजकर अपने ताबे किया.

विक्रमी १६३७ [हि० १८८ = ई० १५८०] में महाराणा प्रतापसिंह का यह सब हाल सुनकर बादशाहने शाहबाजखां को बड़ी जरूर फौज देकर मेवाड़की तरफ़ भेजा और उसके साथ गाज़ीखां बदरुज़ी और शैख़ मुहम्मदहुसैन व तीमूर और मिर्जा ज़ादेअलीखां वगैरह को खाना किया. इन लोगोंने जहाज़पुर व मालवेकी तरफ़से मेवाड़ी पहाड़ों पर बहुतसे हम्ले किये लेकिन कामयाब न हुए. बादशाहने शाहबाजखां को इस मुहिम से बुलाकर बंगाले की तरफ़ भेजदिया.

विक्रमी १६३९ [हि० १९० = ई० १५८२] में बादशाह अकबर ने आंबेरके राजा भारमल्लके बेटे राजा जगन्नाथ कछवाहे को जाफ़रखां बदरुज़ी समेत मेवाड़ पर भेजा, जिसने मांडलगढ़, मोही, और मदारिया वगैरह मेवाड़के हिस्सोंमें बहुतसे थाने बिठाये, लेकिन महाराणा प्रतापसिंह ने भी जहां मौका पाया वहां इन लोगोंसे मुकाबिला किया, और मेवाड़में आम हुकम जारी करदिया कि जो कोई एक बिस्वा ज़मीन भी ज़िराअत (खेती) करके मुसल्मानों को हासिल देगा उसका सिर काटा जायगा. इसी हुकमके मुवाफ़िक़ ज़िराअतका करना कुल मेवाड़में बन्द होगया. किसान लोग अपने बालबच्चों समेत खेतीका सामान लेकर दूसरे इलाकों में जा बसे. जितने शाही थाने तइनात थे उनके लिये खाने पीनेकी रसद भी अजमेरकी तरफ़से पूरे बन्दोबस्तके साथ मंगवाई जाती थी. शाही मुलाजिमों के सामने कभी राजपूतोंका छोटा गिरोह आता तो उसको क़त्ल या कैद किये बिना नहीं छोड़ते थे. इसी तरह राजपूतोंके काबूमें जब कभी शाही मुलाजिम आजाता तो वे भी अपना बदला लेनेमें कोताही (कमी) नहीं करते. ऊंटालेकी शाही फौजके किसी थानेदारने एक किसानसे एक क़िस्मकी तर्कारी खेतमें बुवाई थी, इसका हाल सुनकर महाराणा प्रतापसिंहने रातके समय शाही फौजके बीचमें जाकर उस किसानका सिर काटडाला, कि जिसने हुकमके खिलाफ़ तर्कारी बोई थी. बहुतसे फौजी आदमियोंने भी महाराणा पर हम्ला किया, सो यह उनसे लड़ते भिड़ते पीछे पहाड़ोंमें चले आये; इसके पीछे एक बिस्वा ज़मीनमें भी कहीं ज़िराअत न हुई.

(१) मन्दिर तो अबतक साबित है और महलोंके खंडहर पड़े हैं.

विक्रमी १६४० के श्रावण शुद्ध १२ [हि० १९११ ता० १० रजब = ई० १५८३ ता० १ अगस्त] को कुंवर अमरसिंहकी स्त्रीके गर्भसे राजकुमार कर्णसिंहका जन्म हुआ. उन्हीं पहाड़ोंमें महाराणा प्रतापसिंहने समयानुसार अपने घर पोता होनेकी खुशी की.

इसी संवत्के कार्तिक शुद्ध ११ [ता० १० शव्वाल = ता० २७ अक्टोबर] को महाराणा उदयसिंहके पुत्र जगमाल, जो महाराणा प्रतापसिंहके भाई थे सिरोहीमें राव सुल्तान देवड़ासे लड़कर मारे गये. जिसका हाल इस तरह पर है कि— महाराज जगमालकी शादी सिरोहीके राव मानसिंहकी बेटिके साथ हुई थी, और मानसिंहके औलाद नहीं थी. इस वास्ते सब राजपूतोंने मिलकर सिरोही का राज्य तिलक राव सुल्तान भाणावतको दिया. राव मानसिंहकी राणी बाढ़मेरीको गर्भ था सो वह निकलकर अपने पीहर बाढ़मेरमें चली गई; वहां उसके बेटा पैदा हुआ. देवड़ा बिजा हरराजोत बड़ा बहादुर आदमी था और राव सुल्तान भी उसकी सलाहसे रियासतका काम करता था, लेकिन राव सुल्तानके काका सूजा रणधीरोतकी, जिसके पास अच्छे अच्छे राजपूत सवार मौजूद थे, बिजासे दुश्मनी होगई; इससे बिजाने सूजाको मारने और राव सुल्तानको गादीसे खारिज करने तथा मानसिंहके बेटेको बाढ़मेरसे लाकर गादी पर बिठानेका इरादा किया, और अपने भाइयोंसे कहा कि सूजाको मारना चाहिये. उसके भाइयोंने मना किया, लेकिन बिजाने नहीं माना और रावत शैखावत, बालीशा देवड़ा व जगमाल देवड़ाको भेजकर सूजाको मरवाडाला और आप भी वहां जा पहुंचा. देवड़ा गोविन्ददास भी इसी लड़ाईमें मारा गया. फिर बिजाने मानसिंहके बेटेको बाढ़मेरसे बुलाया और राव सुल्तानको कालधरी गांवमें कैद रखकर आप कुंवरकी पेशवाईकेलिये गया. पीछेसे रावसुल्तानने देखा कि बिजा आकर मुझको मारडालेगा, इसलिये देवड़ा डूंगरोत व चीवासे कहा कि मुझको निकालदो तो मैं जन्मभर तुम्हारा इहसान्मन्द रहूंगा— इस तरह राव सुल्तान निकलकर रामसेन चला गया. जब देवड़ा बिजाने देवड़ा सूजाको मारा था, उस वक्त सूजाका एक बेटा माला तो मारा गया और दूसरे पृथ्वीराज श्यामदास सूजावतको इनकी मा छिपा कर रामसेनमें ले आई.

बिजा देवड़ा जो राव मानसिंहके बेटेकी पेशवाईके लिये गया था, उसने लड़के को अपनी गोदमें लिया, लेकिन दैव इच्छासे वह लड़का उसी रातमें मर गया, जिससे बिजा देवड़ा उदास होकर फिर सिरोही आया और देवड़ा समरा व सूरसे कहा कि मुझको सिरोहीका राज्यतिलक देदो, जिसपर इन दोनोंने इन्कार किया और जवाब दिया कि राव लाखाकी औलादमें बीस आदमी मौजूद हैं, तुमको सिरोहीका राज्यतिलक नहीं

दिया जासکتा. इस पर बिजाकी उनसे तक़रार हुई जिससे वे यहांसे निकल गये. यह बात महाराणा प्रतापसिंहने सुनकर अपने भान्जे राव कल्ला मेहाजलोतको फौज देकर सिरोहीका मालिक करदिया. बिजा यहांसे निकलकर ईडर चलागया, राव सुल्तान भी कल्लाके ताबे होकर सिरोहीमें आगया. देवड़ा चीबा और खेमा भारमलोत राव कल्लाके मुसाहिब थे; देवड़ा समरा और सूरा भी कल्लाके पास आगये; चीबा और समरा व सूरामें तक़रार होगई, तब समरा व सूरा दोनों गुस्सेमें आकर निकलगये और राव सुल्तानको अपने पास बुलाकर सिरोहीका मालिक बनानेका इरादा किया. बिजा देवड़ा भी इनके लिखनेके मुवाफ़िक़ ईडरसे रवाना हुआ और उसके आनेकी ख़बर सुनकर राव कल्लाने देवड़ा रावतं हामावतको ५०० सवार देकर घाटेपर लड़नेको भेजा. रावत हामावत माल ग्राममें और देवड़ा बिजा ब्रह्माण ग्राममें आगये. दोनों ग्रामोंकी सरहदपर मुकाबिला हुआ, जिसमें राव कल्लाके चालीस आदमी मारेगये और ६० जस्मी हुए, बिजाके भी बहुतसे राजपूत काम आये, लेकिन देवड़ा बिजा फ़तहयाब होकर रामसेन ग्राममें सुल्तानसे जामिला. बिजा के आनेसे सुल्तानको बड़ा जोर होगया. जालौरके हाकिम मलिकख़ांको भी अपनी मददके वास्ते सुल्तानने बुलालिया. ३००० आदमी तो इनके और १५०० मलिकख़ां (१) के होगये. यह बात सुनकर राव कल्ला भी सिरोहीसे ४००० आदमी लेकर चढ़ा और रास्तेमें कालधरी ग्रामपर आकर मोर्चाबन्दी की; तब देवड़ा समरा, सूरा व बिजाने राव सुल्तानसे कहा कि हमको कालधरी जानेसे क्या मल्लब है ? सीधे सिरोही चलना चाहिये— यों कहकर ये लोग राव सुल्तानको सिरोहीकी तरफ़ लाये.

कालधरीसे एक कोसके फ़ासिलेपर पहुंचे थे कि वहां राव कल्ला भी अपनी फौज लेकर सामने आ मौजूद हुआ, लड़ाई शुरू हुई, दोनों तरफ़के बहादुर राजपूत खूब लड़े. राव सुल्तानकी तरफ़के दस बीस बड़े आदमी मारे गये, और देवड़ा समराका भाई सूरा नरसिंहोत भी काम आया. राव कल्लाके भी कई राजपूत चीबा, पत्ता सीसोदिया, मुकुन्ददास सीसोदिया, श्यामदास सीसोदिया और दलपत वगैरह मारे गये. आखिरकार राव सुल्तानने फ़तह पाई, और राव कल्ला यहांसे निकलकर कहीं पहाड़ोंमें जा छिपा. राव सुल्तान सिरोहीका मालिक हुआ, जिसका बड़ा मुसाहिब देवड़ा बिजा था. फिर राव सुल्तान व देवड़ा बिजाके भी आपसमें

(१) मलिक खान नाम नैनसी महताने अपनी किताबमें लिखा है, लेकिन तवारीख़ 'गुजरात राजस्थान' में इसका नाम 'मलिकख़ान्जी ख़ान' लिखाहै, जो अस्लमें 'मलिकख़ाने जहां' मालूम होता है.

बिगाड़ होने लगा. रावने अच्छे अच्छे राजपूतोंको अपनी तरफ़ मिला लिया, यहां तक कि बिजाके भाई लूणा और मानाको भी अपना खैरख़्वाह बनाकर बिजाको सिरोहीसे निकालदिया.

बिजा अपनी जागीरके ग्राममें जाकर कुछ फ़साद उठानेको था, कि इसी असें में बीकानेरके महाराज रायसिंह, जिनको बादशाह अकबरने गिरनार व सोरठका सूबा दिया था, वहां जातेहुए सिरोही आ निकले. राव सुल्तानने उनसे मुलाकात करके अपनी सारी हकीकत कह सुनाई; तब महाराज रायसिंहने राव सुल्तानसे सिरोहीका आधा राज्य बादशाहके नज़र करनेका इक़रार लिखवाकर मदना पातावतको ५०० सवारोंके साथ राव सुल्तानकी मददके लिये छोड़दिया और आप गिरनार पहुंचकर वहांसे बादशाहके हुज़ूरमें सिरोहीकी हालत लिख भेजी; उस वक्त महाराणा उदयसिंहका बेटा जगमाल, बादशाहकी खिदमतमें हाज़िर था, जिसको सिरोहीका वाकिफ़कार और वहांके राव मानसिंह देवड़ाका दामाद समझकर आधा राज्य बादशाहने लिख दिया, जिसके सबब महाराज जगमाल वहां रहने लगा.

राव सुल्तान भी जगमाल से मुहब्बत रखता था, लेकिन देवड़ा बिजा जगमाल के पास आरहा, जो जगमाल (१) को कहने लगा कि आपके ससुरके महल व क़िले में सुल्तान रहता है सो आपको छिन लेना चाहिये. इसका कहना जगमालको भी पसन्द आया. एक दिन राव सुल्तान तो कहीं बाहर गया था और पीछेसे जगमाल ने उनके मकानों पर हम्ला किया लेकिन कामयाबी हासिल न हुई, जिसकी शर्मिन्दगीसे जगमालने दिल्ली जाकर बादशाह अकबरको अपनी सरगुज़िशत कह सुनाई.

बादशाहने इनको मददके तौर फ़ौज दी और यह शाही फ़ौज लेकर सिरोही आये. इनकी अवाई सुनकर राव सुल्तान आबूके पहाड़ों में जा बैठा. जगमाल कुल राज्यका मालिक होकर सिरोहीके क़िलेमें रहने लगा लेकिन देवड़ा बिजा की सलाहसे राव रायसिंह चन्द्रसेणोत व कोलीसिंह दांतीवाड़ा वालेको शाही फ़ौज समेत साथ लेकर जगमालने राव सुल्तानपर चढ़ाई की, और देवड़ा बिजा हरराजोत व राठौड़ खींवा मांडणोतको राव सुल्तानके राजपूतों पर दूसरी तरफ़ विदा किया. जब बिजा हरराजोतने महाराज जगमालसे कहा कि मैं आपसे जुदा हूंगा तो राव सुल्तान आपकी तरफ़ ज़रूर आवेगा. तब राठौड़ रायसिंह चन्द्रसेणोतने जवाब दिया कि क्या जहां मुर्गा होता है वहीं फ़ज (सवेरा) होती है ! यह सुनकर देवड़ा बिजा

(१) जगमालकी स्त्री देवड़ी भी हमेशा रो रोकर अपने पतिसे कहती कि मेरे बापके रहनेकी जगहसे सुल्तानको निकालदेना चाहिये.

तो दूसरे पहाड़ोंकी तरफ़ राव सुल्तानके राजपूतोंसे लड़नेको गया, लेकिन राव सुल्तान व देवड़ा समराने अपनी जमइयत समेत विक्रमी १६४० कार्तिक शुक्ल ११ [हि० १९११ ता० १० शबवाल = ई० १९८३ ता० २७ अक्टोबर]को धावा करके फ़तह पाई और महाराज जगमाल लड़ाईमें मारा गया, और बहुतसे सर्दार उनके साथ काम आये, जिनके नाम नीचे लिखे जाते हैं—

राव रायसिंह चन्द्रसेणोत, दांतीवाड़ेका कोलिसिंह, गोपालदास किशनदासोत गांगावत राठौड़, सादूल (शार्दूल) महेसोत कूपावत, राठौड़ पूर्णमल्ल मांडणोत कूपावत, राठौड़ लूणकर्ण सुर्ताणोत गांगावत, राठौड़ केसरदास ईसरदासोत, चहुवान शैखा भांभणोत पड़ियार, गोरा राघावत, पड़ियार भाण अभावत, देवा ऊदावत, भाटी नेतसी, मांगलियो जयमल्ल, बारहट ईसर सेलहत वाला, मांगलिया किशना, धांधू खेतसी, राजसी राघावत, भाटी कान्ह आंवावत, मांगलियो गोपाल भोजावत, राठौड़ खिमो, रायसलोत ईंदो और चारण (१) महडूजाड़ा वगैरह लोग शाही मददगारोंके साथ मारे गये— यह बात महाराणा प्रतापसिंहने सुनी, लेकिन गादीनशीनीकी अदावतसे जगमालके मरनेका कुछ शोक न किया. इन महाराणाके वक्तमें बादशाह अकबरने ऊंटाला, मोही, मदारिया, चित्तौड़, मांडल, मांडलगढ़, जहाजपुर, और मन्दशोर वगैरहमें बड़े मजबूत थाने बिठादिये थे, जिनमेंसे हर एक जगह हज़ारहा आदमियोंका लश्कर था. महाराणाने शाही थानोंपर कई दफ़ा हमला किया, और कहते हैं कि इन्होंने अपने बदनसे ज़िरह बकरको एक घड़ीभर भी दूर नहीं किया. इनकी तमाम ज़िन्दगी शमशेर हाथमें लिये बहादुराना बर्तावसे गुज़री, आराम करना बिल्कुल हराम होगया था. यह भी मशहूर है कि जिस वक्त अकबर बड़ी ज़रूर फ़ौज लेकर खुद गोगूंदेमें आया और बादशाही फ़ौजें इन महाराणाके पीछे चारों तरफ़से लगीं उस वक्त एक जगह महाराणाके भोजनकी तय्यारी होरही थी, जहां दुश्मनोंने आघेरा. वहांसे हटकर दूसरे पहाड़ोंमें भोजन तय्यार करनेका हुकम दिया— इसी तरह एक दिनमें रसोईके लिये सात मक़ाम बदलने पड़े, तो भी आरामसे भोजन न मिला.

विक्रमी १६४६ [हि० १९१७ = ई० १९८९] में इन महाराणाने फिर फ़ौज

(१) यह वही जाड़ा महडू है जिसको जगमालने जहाजपुर दे दिया था. जाड़ा महडूने थोड़े असें तक जहाजपुरको अपने कब्ज़ेमें रक्खा और पीछे जहाजपुर तो जगमालके सुपुर्द किया और सरसिया ग्राम अपनी औलादके लिये उसी परगनेमें से रखलिया, जो अब तक उसकी औलाद के कब्ज़ेमें मौजूद है.

एकट्ठी करके शाही थानोंपर हम्ला किया, जो उनके प्रधान भामाशाहकी हिम्मतसे हुआ था. चित्तौड़, मांडलगढ़ और अजमेरके सिवाय कुल बादशाही थाने उठादिये गये, जिसपर बादशाह अकबरने बहुतसी फौज देकर मानसिंह, माधवसिंह व जगन्नाथ कछवाहेको, कई मुसल्मान सर्दारोंके साथ मेवाड़पर भेजा. इन लोगोंने नये सिरसे हरएक जगह थाने जमादिये.

एक दिन महाराणा प्रतापसिंह किसी पहाड़पर फूसके भोंपड़ोंमें अपनी राणियों और बेटों सहित सोते थे, कि मेंह बरसने लगा. उस समय महाराणा तो एक भोंपड़ी में तलवार हाथमें लिये होशियार बैठे थे और दूसरे छप्परमें कुंवर अमरसिंह मौजूद थे; जब ऊपरसे पानी टपकने लगा तब कुंवरांनीने लम्बा सांस खेंचकर कहा कि “हम इस दुःखसे कभी पार उतरेंगे या नहीं”? तब महाराजकुमारने जवाब दिया कि “हम क्या करें? दाजीराज (१) के बखिलाफ कुछ नहीं कर सक्ते”. कुंवर और कुंवरांनी की ये बातें सुनकर महाराणा प्रतापसिंहने सवेरे सब सर्दारोंको एकट्ठा करके उनसे महाराजकुमार अमरसिंहके सामने रातकी सुनी हुई बातोंका इशारा जताकर कहा कि “ऐ सर्दार लोगो! मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मेरे पीछे यह अमरसिंह, जो दिलसे आराम चाहता है, कभी तकलीफ न उठावेगा और मुसल्मान बादशाहोंके दियेहुये खिल-अत पहनेगा और फर्मानको अदबके साथ लेना और ताबेदारी करना कुबूल करेगा, और हमारे बेदाग वंशको अपने आरामके लिये दाग लगावेगा”. कुंवर अमरसिंह इस बातको सुनकर बहुत शर्मिन्दा हुए, लेकिन अपने पिताके सामने कुछ न कहसके, मगर दिलमें मजबूत इरादा करलिया कि “मैं हर्गिज बादशाहोंका फर्मावर्दार न बनूंगा.

इन महाराणा प्रतापसिंहका वैकुंठवास विक्रमी १६५३ माघ शुक्ल ११ [हि० १००५ ता० ९ जमादियुस्सानी = ई० १५९७ ता० २९ जैन्वूअरी] को ५७ वर्षकी उम्रपाकर चावंड ग्राममें हुआ. इनका जन्म विक्रमी १५९६ ज्येष्ठ शुक्ल १३ (२) [हि० ९४६ ता० ११ मुहर्रम = ई० १५३९ ता० ३१ मई] में और राज्याभिषेक विक्रमी १६२८ फाल्गुन शुक्ल १५ [हि० ९७९ ता० १४ शव्वाल = ई० १५७२ ता० १ मार्च] को हुआ था.

इन महाराणाका कद लम्बा और पुष्ट, आंखें बड़ी, चिहरा और मूछें बड़ी, हाथ लम्बे, और सीना चौड़ा था, पुराने रिवाजके मुवाफिक डाढ़ी नहीं रखते

(१) “दाजीराज” शब्द मेवाड़के राजा व राज्यवंशी अपने बापके लिये बोलते हैं.

(२) ‘अमरकाव्यमें,’ जो महाराणा राजसिंहके समयमें बना है, ज्येष्ठ शुक्ल १३ लिखी है और नैनसी महताके लिखनेसे ३ मालूम होती है.

थे; और रंग गेहुवां था; चिहरेपर ऐसी तेजी थी कि तस्वीर देखकर अब भी हरएक आदमीपर रोब छाजाता है. इनके बेटे यानी महाराज कुमार नीचे लिखे मुवाफिक थे—

महाराणी अजबांदे पंवारके गर्भसे अमरसिंह और भगवानदास; महाराणी सोलंखिणी पूर बाईके गर्भसे सहसा और गोपाल; महाराणी चंपाबाई भालीके गर्भसे कचरा, सांवलदास और दुर्जनसिंह; महाराणी जसोदाबाई चहुवानके गर्भसे कल्याणदास; महाराणी फूलबाई राठौड़के गर्भसे चांदा व शैखा; महाराणी शाहमतीबाई हाडीके गर्भसे पूरा; महाराणी खीचण आसाबाईके गर्भसे हाथी और रामसिंह; महाराणी आलमदेबाई चहुवानके गर्भसे जसवन्तसिंह; महाराणी रत्नावतीबाई प्रमारके गर्भसे माना; महाराणी अमराबाई राठौड़के गर्भसे नाथा और महाराणी लखाबाई राठौड़के गर्भसे रायभाण.

महाराणा प्रतापसिंहकी छत्री यानी समाधि उदयपुरसे दक्षिण की तरफ १७ कोसके फ़ासिलेपर प्रसाद ग्राम व जयसमुद्रके बीच चावंडमें मौजूद है.

अबुल्फ़तह जलालुद्दीन मुहम्मद,
अकबर बादशाह.

इस बादशाहका जन्म हिज्री० ९४९ ता० १४ शवान [घि० १५९९ मार्ग-शिर शुक्र १५ = ई० १५४२ ता० २३ नोवेम्बर] शनिवार को अमरकोटमें हमीदाबानू बेगमके गर्भसे हुआ.

अकबरनामह, तबक़ात अकबरी व मुन्तख़बुत्तवारीख़ वगैरह किताबोंमें ऊपर लिखेहुए हिज्री सनकी ५ वीं रजबको आदित्यवारके दिन पैदा होना लिखा है, लेकिन बादशाह हुमायूँके हमेशा पास रहनेवाला, जो अकबरके जन्म समय पर भी हाज़िर था, अपनी किताब 'तज़किरतुल्वाकिआत' में १४ वीं शवान ही लिखता है. इस सन्देहके दूर करनेके लिये हमने एकलेख एशियाटिक् सोसाइटी बंगालके जर्नल नम्बर १ भाग १ सन् १८८६ ईसवीमें लिखा है जिसका तर्जुमा शेषसंग्रह [नम्बर १] में लिखा जायगा.

यह बादशाह १३ वर्षकी (१) उम्रमें हिज्री ९६३ ता० ३ रबीउस्सानी [वि० १६१२ फाल्गुन शुक्ल ५ = ई० १५५६ ता० १५ फेब्रुअरी] को कलानोर मक़ाममें तरुत पर बैठा और २५ दिनके बाद इसने नौरोज़ (खुशीके दिन) का जल्सा करके उसी दिनसे एक नया सन् फ़सूलका हिसाब रखनेको “इलाही” नामसे जारी किया. इसके महीने तुर्की हैं और सन्का हिसाब सूर्यकी चालपर रक्खा गया है, जिसके महीनोंके नाम ये हैं—

१ फ़र्वदी, २ उर्दीबिहिश्त ३ खुर्दाद, ४ तीर, ५ मिर्दाद, ६ शहरेवर, ७ मिहर, ८ आबान, ९ आजर, १० दै, ११ बहमन्, १२ इसफ़िन्दार्मुज.

इलाही सन्, हि० ९६३ ता० २८ रबीउस्सानी [विक्रमी १६१३ चैत्र शुक्ल १ = ई० १५५६ ता० १२ मार्च] को शुरू हुआ. इसके हर एक महीनेके ३० दिन माने गये हैं. आखिरी महीनेमें ५ दिन बढ़ाकर ‘इसफ़िन्दार्मुज’ ३५ दिनका कर लिया जाता है. संक्रान्तिके हिसाबसे मेषसंक्रान्तिका प्रारंभ, ‘फ़र्वदी’ अर्थात् पहिले महीनेका, शुरू दिन है.

अकबरशाहने अपना फ़ौजी व मुल्की वज़ीर व वकील मुल्क (२) बैरमखां खानखानां को, जो उसके बापके समयसे काम करता था, बनाया; और तरुत नशीन् होते ही एक वर्षके लिये अपनी कुल बादशाहत में साइरका महसूल मुआफ़ कर दिया. तर्दीबिगखांको दिल्ली और मेवातका सूबेदार बनाकर अपने नामका सिक्का और खुत्वा जारी करनेके लिये भेजकर सिकन्दर सूरकी गिरिफ्तारीके विचारमें ठहरा रहा. नगरकोटका राजा रामचन्द्र, जो उत्तराखंडके पहाड़ों में बड़ा नामवर था, उसके पास हाज़िर होगया.

इन्हीं दिनोंमें नारनौलके हाकिम मज्नुं काक़शाल अकबरशाहीको, शेरखां पठानके नौकर हाजीखांने घेर लिया, जिसके साथ आबेरका राजा भारमल्ल कछवाहा भी था. भारमल्लने सुलह कराकर काक़शालको सलामतीके साथ दिल्लीकी तरफ़ रवाना किया और नारनौलका क़िला हाजीखांको दिला दिया. यह ख़बर सुनकर तर्दीबिग सूबेदार दिल्लीसे चला, और हाजीखांको नारनौलसे मेवातकी दक्षिणी सीमा तक भगाकर, आप फ़तहके साथ पीछे दिल्लीमें आगया; परन्तु अदलीशाह का वज़ीर हेमू दूसर फ़ौज लेकर दिल्लीकी तरफ़ चला, जिसके साथ ५०००० सवार १००० हाथी और १५० तोपें थीं.

(१) इस बादशाहकी उम्र तरुत पर बैठनेके वक्त हिन्दीके हिसाबसे १३ वर्ष २ महीने और २० दिन की, हिज्री सन्के हिसाबसे १३ वर्ष ७ महीने १८ दिनकी, और सन् ईसवीसे १३ वर्ष २ महीने १८ दिनकी थी.

(२) यह ओहदा बादशाह के एवज़का समझा जाता था.

हिजी ९६३ ता० २ जिल्हज [वि० १६१३ कार्तिक शुद्ध ४ = ई० १५५६ ता० ८ अक्टोबर] को दिल्लीके पास तुगलकाबादमें शाही फौजसे मुकाबिला हुआ, जिसमें तर्दीबेग शिकस्त खाकर भागा और हेमूने दिल्ली पर कब्जा करलिया. जालन्धरमें पहुंचते ही तर्दीबेगको बैरमखां खानखानाने दगासे मरवाडाला.

अकबरशाह बैरमकी सलाहपर चलता था और उसको खानबाबा कहाकरता था. बादशाह दिल्लीकी तरफ रवाना हुआ, जहांसे हेमूने भी लड़ाईकी तय्यारी की. पानीपतके पास दोनों फौजोंका मुकाबिला हुआ. हिजी ९६४ ता० २ मुहर्रम [वि० १६१३ मार्गशिर शुद्ध ३ = ई० १५५६ ता० ६ नोवेंबर] को हेमूने शिकस्त खाई और आंखमें तीर लगनेसे ज़स्मी होकर कैदमें आने बाद बैरमखांके हाथसे क़त्ल हुआ.

तर्दीबेगखां बादशाही नौकर और हेमू दुश्मन, दोनोंको बैरमखांने बादशाहकी मर्जीके बखिलाफ़ मारा, परन्तु उस वक्त बादशाह अकबरको बैरमखांका राजी रखना जरूर था इसलिये चुप हो रहा. इस फ़तहके बाद अकबरशाहने दिल्लीमें पहुंचकर अली कुलीखांको खानेजमांका खिताब और संभलका जिला जागीरमें दिया और क़ियाखांको आगरेकी निज़ामत इनायत की.

इन्हीं दिनोंमें मज्नुखां काक़शालकी सिफ़ारिशसे बादशाहने आंबेरके राजा भारमल्ल कछवाहेको दिल्ली बुलाया और उसको बहुत कुछ इन्आम इक्राम देकर रुख़्सत किया. जब यह वहांसे जानेको तय्यार हुआ तो एक मस्त हाथी, जिसपर उस समय बादशाह सवार थे, लोगोंकी तरफ़ हम्ला करने लगा; सब लोग भागगये लेकिन राजा भारमल्ल अपने राजपूतों सहित बहादुरीसे जमारहा. अकबरशाहके दिल पर राजपूतोंकी बहादुरीका यह पहिला जमाव था. बादशाहने राजाको बहुत खातिर के साथ तसल्ली देकर फिर जल्दी आनेके लिये ताकीद करदी.

इसी वर्षमें मौलवी पिरमुहम्मदको बड़ी फौज देकर हाजीखां पठान और हेमूके बापपर भेजा, जो मेवातकी तरफ़ अपना अमल जमारहे थे. मौलवी पिर मुहम्मदने हेमूके बापको गिरिफ़्तार करके हाजीखांको शिकस्त दी और हेमूके बापको मुसल्मानी मजहब इस्तिथार (१) न करनेके कारण मरवाडाला. हाजीखां भागकर अजमेरकी तरफ़ आया और महाराणा उदयसिंहके शरणमें रहा, लेकिन कुछ दिनों पीछे महाराणासे लड़ाई करके गुजरातकी तरफ़ चलागया; जिसका मुफ़स्सल हाल पहिले लिखागया है—[पृष्ठ ७० व ७१].

(१) इस बूढ़ेने जवाब दिया था— कि अस्सी वर्ष एक मतमें रहकर थोड़े दिनोंके वास्ते दूसरा मजहब क्या इस्तिथार करूं ?

इसी सालमें ईरानियोंने कन्धार दबालिया और सिकन्दरखां सूरने लाहौरके हाकिम स्वाजह खिज़रखांको शिकस्त दी. अकबर बादशाहने सिकन्दरखांको किले मानगढ़में जा घेरा. छःमहीने तक लड़ाई करनेके बाद वह अपने बेटे अब्दुरहमानको अकबर बादशाहकी खिदमतमें भेजकर आप बंगालेकी तरफ चला गया. उसी स्थान (मानगढ़) पर अकबरकी मा हमीदाबानू बेगम काबुलसे आई और मिर्जा हकीमको, जो काबुलमें रह गया था, वहांकी हुकूमत दी गई.

इस वर्षमें बड़ा भारी अकाल (कर्कट) पड़ा और इसी हिज्जी ९६४ [वि० १६१४ = ई० १५५७] को खान्खानां बैरमखांके बेटे अब्दुरहीमका जन्म हुआ, जो मिर्जाखां खान्खानांके खिताबसे प्रसिद्ध था. बैरमखांका इस्तिथार यहांतक बढ़ गया था कि उसकी मर्जी बगैर बादशाह कुछ भी नहीं करसक्ता था. बाबर बादशाहकी दोहिती सलीमासुल्तान, बैरमखांके साथ व्याही गई. हिज्जी ९६५ ता० २५ जमादियुस्सानी [वि० १६१५ वैशाख कृष्ण ११ = ई० १५५८ ता० १५ एप्रिल] को बादशाह पंजाबसे दिल्ली आये. बैरमखां और बादशाहकी नाइतिफाकी प्रति दिन बढ़ती गई, और बैरमखां खान्खानाने मुसाहिबबेग नाम सर्दारको, जोकि उससे नाइतिफाकी (विरोध) रखता था, मरवा डाला.

हिज्जी ९६६ शुरू मुहर्रम [वि० १६१५ कार्तिक = ई० १५१८ अक्टोबर] में बादशाह आगरे पहुंचा. इसी वर्षमें रणथम्भोर किला लेनेको फौज भेजी, जो बगैर कामयाबीके वापस बुलाली गई. फिर बैरमखाने मौलवी पीरमुहम्मदको जो पहिले उसका दोस्त था, बयाना किलेमें कैदकरके जबरदस्ती मक्केको भेज दिया.

इसी असेंमें ग्वालियरका किला बैरमखांकी मारफत फतह हुआ. यह किला पठान बादशाहोंकी राजधानी बन गया था. अलीकुलीखाने जौनपुर और बनारसका इलाका भी इन्हीं दिनों में ले लिया. शैख मुहम्मद गौस ग्वालियरी बादशाहके पास आया, जिसकी अकबरशाह खातिर करना चाहता था, परन्तु बैरमखाने उसे निकाल दिया और वह ग्वालियरको लौट गया— इस तरह पर बैरमखांकी तरफसे बादशाहको रंज जियादा हो गया. बादशाह आगरेका इन्तिजाम बैरमखांको सौंपकर शिकार खेलने चला और मुसाहिबों की सलाहसे अपनी माके देखनेको दिल्ली पहुंचा, जहां पर सब लोग बैरमखांके दुश्मन जमा थे, उन्होंने बादशाहको जियादा भड़काया. अकबर बहुत विचारवान था, लेकिन जिस तरह सूखीहुई लकड़ी में भी अधिक घिसनेसे आग जल उठती है वैसे ही उसमें भी आदमी होनेके सबब

बातोंने असर किया; क्योंकि हकीकतमें बैरमखां ज़ालिम ही था. उसने आगरे से बादशाहको अर्जियां भेजीं लेकिन उनसे कुछ फ़ायदा नहुआ, इस लिये वह डरसे आगरा छोड़कर मालवेकी तरफ़ चलदिया. उसके साथी सर्दार उसे छोड़ छोड़ कर बादशाहके पास चलेआये; तब बैरमखाने नागौर आकर मक्के जानेका इरादा किया, लेकिन उसके साथियोंने उसको बागी बनाना चाहा. इसी असेमें तसल्लीका शाही फ़र्मान आगया और वह मक्के जानेके इरादेसे बीकानेर पहुंचा. राव मालदेवसे बैरमखांकी दुश्मनी थी, इसलिये बीकानेरके राव कल्याणमल्लसे मदद लेकर उसने मक्केको जाना चाहा लेकिन उसके साथियोंने उसको फिर बहकाया. यह खबर सुनकर बादशाहने मुल्ला पिरमुहम्मदको, जो मक्केके रास्तेसे लौट आया था, बैरमखांका पीछा करनेको भेजा. बैरमखां वहांसे पंजाबकी तरफ़ भागा और खानेआज़मसे माछीवाड़ेके पास मुक़ाबिला होने बाद जम्बूकी तरफ़ निकलगया, फिर बादशाहने स्वाजह अब्दुल्मजीदको 'आसिफ़-खां' का खिताब देकर दिल्लीका सूबेदार बनाया और आप लाहौरकी तरफ़ खाना हुआ. बैरमखांको पहाड़ोंमें जाकर दबाया, जिससे वह लाचार होकर हिज्री ९६८ रबीउ-स्सानी [वि० १६१७ पौष = ई० १५६० डिसेम्बर] में बादशाहके पास हाज़िर होगया.

जब वह पैरोंमें गिरकर रोने लगा तो बादशाहने तसल्लीके साथ फ़र्माया कि तुम्हारी इच्छा हो तो कालपी और चंदेरी वगैरहका इलाका जागीरमें दियाजावे, मुसाहिबीमें रहना चाहते हो तो यह भी मंज़ूर है और जो मक्केजानेकी स्वाहिश हो तो मुनासिब सामान इनायत कियाजावे. इसपर उसने मक्केजानेकी स्वाहिश जाहिर की. बादशाहने ५०००० रुपया और मुनासिब सामान देकर उसे खाना किया, और आप दिल्लीको लौट आया. बैरमखां गुजरातमें पट्टनके पास पहुंचा था कि वहां एक पठान मुबारिकखां नामीने, जिसके बापको बैरमखांके नौकरोंने हेमूकी लड़ाईमें मारा था, हिज्री ९६८ ता० १५ जमादियुल्अव्वल [वि० १६१७ फाल्गुन कृष्ण १ = ई० १५६१ ता० २ फेब्रुअरी] में, उसको दगासे मारडाला. बैरमखांके बेटे अब्दुरहीम को, जो उस समय ४ वर्षकी उम्रमें था, गुजराती सर्दार एतिमादखांने हिफ़ाज़तके साथ बादशाह अकबरके पास दिल्लीमें भेजदिया.

बादशाह अकबरने अद्दहमखां कूका (धायभाई) को बाज़बहादुरकी तरफ़ मालवेमें भेजा, जो सारंगपुरमें हुकूमत करता था, परन्तु बाज़बहादुर, अद्दहमखांसे मुक़ाबिला करनेके बाद, भागकर बुर्हानपुरकी तरफ़ चलागया. बादशाह अकबर भी

आगरेसे रवाना होकर गागरौनको फ़तह करताहुँआ सारंगपुर पहुंचा. अद्दहमखाने तीन कोसपर आकर पेशवाई की. फिर मुहम्मदशाह अदलीका बेटा शेरखां ४०००० सवार लेकर बंगालेकी तरफ़से जौनपुर लेनेको आया और वहांके अकबरशाही सदाँर अली कुलीखां खानेजमांसे मुक़ाबिला करके बंगालेकी तरफ़ भागगया.

हिजी ९६९ जमादियुल्अव्वल् [वि० १६१८ माघ = ई० १५६२ जैन्वू-अरी] को बादशाह आगरेसे राजपूतानाकी तरफ़ रवाना हुआ, जब कियाम कलावली ग्राममें हुआ तो चग़ताखाने राजा भारमल्लके खिदमतमें आने और ताबे रहनेकी स्वाहिश जाहिर की और शरफुद्दीनहुसैन मिर्जा मेवातके जागीरदारकी कार्रवाईके बख़ि-लाफ़ राजाको सांगानेरमें हाजिर किया. बादशाहने मक़ाम सांभरमें राजा भारमल्ल कछवाहेकी बड़ी बेटिके साथ शादी की. यह पहिला ही मौक़ा है कि राजपूतोंकी बेटी खुशीसे बादशाहके साथ व्याहीगई, और बादशाह हुमायूँकी इच्छा उसके बेटे अकबर-शाहने पूरी की (१).

फिर शरफुद्दीन वगैरहको फ़ौज देकर मेड़तेकी तरफ़ रवाना किया और आप स्वाजह मुईनुद्दीन चिश्तीके दर्शन करके आगरेको लौटगया. शरफुद्दीन हुसैन मिर्जा ने किले मेड़ताको फ़तह किया, जिसका ज़ियादा बयान जोधपुरके हालमें लिखाजायगा. इन्हीं दिनोंमें मौलवी पीरमुहम्मद मालवेके सूबेदार अकबरशाहिने बाजबहादुरसे मुक़ाबिलेके लिये चढ़ाई करके बीजानगर और बुर्हानपुर लेलिया. लेकिन मीरां मुहम्मदशाह फ़ारूकीसे मदद लेकर बाजबहादुरने हम्ला किया, जिससे मौलवी पीर-मुहम्मद भागताहुँआ नर्मदा नदीमें डूबकर मरगया, और बाजबहादुरने मालवे पर कब्ज़ा करलिया.

जब मालवेके भागेहुँए मुग़लिया लड़करके सदाँर आगरेमें पहुंचे तो बादशाहने

(१) आम राजपूत लोगों में इस बातका जिक्र इस तरहपर है— कि हुमायूँशाहकी वसियत के मुब़ाफ़िक़ बादशाह अकबरने राजपूतोंसे कहा कि हमारे रिश्तेदार तो तुर्किस्तान में दूर रहते हैं और हम बड़े खानदानोंके सिवाय रिश्तहदारी नहीं कर सके. तुम लोग हिन्दुस्तानमें बड़े इज्जतदार और पुराने खानदानी हो, इसलिये हमारी बेटियोंके साथ शादी करना कुबूल करो. जिसपर राजपूतोंने सोच विचारकर कहा कि आपकी बेटियां तो हमारी सदाँर हैं, जिनके साथ शादी करना बेअदबीमें दाखिल होगा और अपनी बेटियां हम लोग आपको व्याहदेंगे. इन लोगोंका इस बात से यह मत्लब था कि बादशाहोंकी बेटियां हमारे घरों में आईं तो उनके बड़प्पनसे परहेजमें खलल आकर मुसल्मान होना पड़ेगा और हमारी बेटी बादशाहके घरमें गई तो ज़ियादा अन्देशेकी बात नहीं है; इसलिये राजा भारमल्ल कछवाहेने सबसे अव्वल अपनी बेटी बाइशाह को दी.

उनको कैद किया और अब्दुल्लाखांको नई फौज देकर मालवेकी तरफ भेजा. बाजबहा-
दुर भागकर महाराणा उदयसिंहके पास मेवाड़में आया और यहांसे गुजरातकी तरफ
भागता छुपता अन्तमें अकबर बादशाहके पास हाजिर होगया; और बादशाहने उसे
अपना नौकर बनालिया. इसी वर्षमें ईरानके बादशाह तहमास्पका चचा एल्ची हो-
कर आगरे आया, जिसको बादशाहने सात लाख रुपया और बहुतसे तुहफे देकर
बिदा किया.

हिजी ९७० ता० २२ रमजान [वि० १६२० ज्येष्ठ कृष्ण ८ = ई० १५६३
ता० १६ मई] को अद्दहमखां कूकेने खानेआजम शम्सुद्दीन कूकेको दगासे बाद-
शाही महलोंमें मारडाला. बादशाह जनानेमें था तलवार लेकर दौड़ा, अद्दहमखांने
दौड़कर उसके हाथ पकड़लिये. लेकिन बादशाहने हाथ छोड़ाकर उसे गिरादिया
और दूसरे लोगोंने उसको छतसे नीचे डालकर मारडाला. खानेआजमका बड़ा
बेटा अपने बापका एवज लेनेको तय्यार हुआ था लेकिन बादशाहकी इन्साफी
कार्रवाईसे ठंडाहोगया और आजमके बेटों व भाइयोंको तनस्वाह, इज्जत और
मन्सब देकर खुश किया.

अकबरने कक्खड़ोंको, जिन्होंने पंजाबकी तरफ सिर उठायाथा, सजा देकर आदमखां
कक्खड़को गिरिफ्तार करलिया. फिर शरफुद्दीनहुसैन मिर्जा और शाह अबुल्मआली
ने बगावतका भंडा खड़ा किया और नारनौलको जा लूटा. अजमेरके सूबेदार हुसैन कु-
लीने उन्हें शिकस्त देकर भगादिया. अबुल्मआली काबुलमें पहुंचा, जहां अकबरके छोटे
भाई मिर्जा हकीमने अपनी बहिनका विवाह उसके साथ करदिया. अबुल्मआलीने
काबुलकी बादशाहत लेनेके लिये अपनी सासको कल्ल और मिर्जा हकीमको कैद कर-
दिया. लेकिन मिर्जा सुलैमानने, बदरुशांसे काबुलमें आकर अबुल्मआलीको मार-
डाला. मिर्जा शरफुद्दीन हुसैन भागकर जालौर होताहुआ गुजरातमें पहुंचा.

हिजी ९७१ [वि० १६२० = ई० १५६४] में शरफुद्दीनके नौकर कल्लक
फौलादने आगरेके बाजारकी दूकानमें बैठकर अकबरशाहपर सवारीमें जातेहुए तीर
चलाया, जो उसकी भुजामें घुस गया. मुजिमको लोगोंने मारडाला और बादशाह
का घाव एक अठवारेमें अच्छा होगया. इसी वर्षके अखीरमें बादशाह, नरवरकी
तरफ हाथियोंका शिकार खेलने गया, और अब्दुल्लाखां उज्बकको बागी जानकर मालवे
में पहुंचा. अब्दुल्लाखां भागकर गुजरातकी तरफ चलागया और आसिफखांने राणी
दुर्गावतीसे गोंडवानेका इलाका फतह किया.

हिजी ९७२ मुहर्रम [वि० १६२१ भाद्रपद = ई० १५६४ अगस्त] को बाद-

शाह मांडूमें पहुंचा और आसिरका मालिक मीरां मुहम्मदशाह फारूकी बादशाहके ताबे हुआ. बादशाह, करावहादुरखांको मालवेकी सूबेदारी देकर आप आगरेको लौटआया.

इसी वर्षमें मिर्जा हकीम और मिर्जा सुलैमान बदरुशांके हाकिममें नाइतिफाकी हुई; सुलैमानने पेशावर तक अपना कब्जा करलिया. यह खबर सुनकर बादशाहने अपने भाई मिर्जा हकीमकी मददके लिये पंजाबके सर्दारोंको भेजा, जिनकी मददसे मिर्जा हकीम ने जलालाबाद और काबुलपर अपना जमाव किया और खानेकलां, मिर्जा हकीमका मददगार रक्खा गया, लेकिन कुछ असें बाद मिर्जाकी नाराजगीके कारण वह लाहौरमें चलाआया.

इसी संवत् और सन्में आगरेके किलेकी नीव डालीगई और किला आठ-वर्ष (१) में बनकर तय्यार हुआ. तीन या चार हजार आदमी उसपर हर रोज काम करते थे; इस किलेके ४ दर्वाजे और २० बुर्ज रखे गये हैं और यह लाल पत्थरका बहुत मजबूत बनाया गया है.

बादशाह, हिजी ९७३ शव्वाल [वि० १६२३ वैशाख = ई० १५६६ एप्रिल] में आसिफ़खां, सिकन्दरखां, अलीकुलीखां और इब्राहीमखां उज्बक वगैरह अपने सर्दारोंको सजा देनेके लिये, जो बागी होकर इलाके दबा बैठे थे, जौनपुर और काल्पीकी तरफ़ रवाना हुआ. बादशाही फौजकी कई बार हार जीत हुई, कभी आसिफ़खां और कभी बहादुरखां बादशाहके पास हाजिर होगये, और कभी भागकर अपने साथियों में जा मिले. आखिरकार बादशाहने फ़तह पाकर बागियोंको तबाह किया. इसी सालमें बादशाहके छोटे भाई मिर्जा हकीमने, लोगोंके बहकानेमें आकर काबुलसे चढ़ाई करके लाहौरको आघेरा, इसलिये हिजी ९७४ ता० १४ जमादियुलअव्वल [वि० १६२३ मार्गशिर शुद्ध १५ = ई० १५६६ ता० २८ नोवेम्बर] को बादशाह पंजाबकी तरफ़ रवाना हुआ, और यह सुनकर मिर्जा, हकीम पीछे भाग गया. थोड़े दिनों बाद मुहम्मदहुसैन मिर्जा, इब्राहीम मिर्जा, मसूद हुसैन मिर्जा, आकिल मिर्जा, अलग मिर्जा, और शाह मिर्जाने संभलकी तरफ़ बगावत की; लेकिन उनको वहांके जागीरदारोंने मारकर निकाल दिया और सुल्तान मिर्जाको मुन्इमखाने गिरिफ्तार करके किले बयानामें भेज दिया. दूसरे मिर्जाओंने भागकर मालवा जादबाया, और वहांसे वे गुजरातमें पहुंचे, जिनका हाल गुजराती बादशाहोंकी तारीखमें लिखा गया है.

(१) तबक़ात अकबरीमें ४ वर्ष लिखा है.

हिज्री ९७५ ता० १९ रबीउस्सानी [वि० १६२४ मार्गशीर्ष कृष्ण ५ = ई० १५६७ ता० २३ अक्टोबर] को बादशाहने चित्तौड़का किला आघेरा और उसी सालकी २५ शाबान [चैत्र कृष्ण ११ = ई० १५६८ ता० २४ फेब्रुअरी] मंगलवारको किला फतह करके बादशाह ख्वाजह मुईनुद्दीन चिश्तीकी जियारत करता हुआ आगरे पहुंचा, इसका मुफ़स्सल बयान महाराणा उदयसिंहके हालमें लिखागया है— (पृष्ठ ७३). इसी सालमें इब्राहीमहुसैन और मुहम्मदहुसैन मिर्जाने उजैनको घेरलिया लेकिन उनको किलीचखां वगैरह अकबरके सदर्दारोंने मार भगाया.

हिज्री ९७६ [वि० १६२५ = ई० १५६८] में बादशाहने आगरेसे कूच करके किले रणथंभोर पर घेरा डाला और ता० ३ शव्वाल [वि० १६२६ चैत्र शुक्ल ४ = ई० १५६९ ता० २१ मार्च] को रणथंभोरके किलेदार राव सुर्जणने ताबेदारी कुबूल करके किला हवाले करदिया. वहांसे लौटतेहुये बादशाह आंबेरमें राजा भगवानदासके घर मिहमान रहा, जहांसे ता० २४ जिल्काद [ज्येष्ठ कृष्ण १० = ता० ११ मई] को आगरे पहुंचा. इन्हीं दिनोंमें सीकरी ग्राममें बहुतसी इमारतें बनवाकर उसका नाम फतहपुर रक्खा, क्योंकि उसके दादे बाबर बादशाहने महाराणा सांगा पर इसी जगह फतह पाई थी.

हिज्री ९७७ सफ़र [वि० १६२६ श्रावण = ई० १५६९ जुलाई] में कालिंजरके राजा रामचन्द्र बुंदेलाने कालिंजरका किला बादशाहके हवाले किया, और इसी वर्षमें राजा भारमल कछवाहेकी बेटीके पेटसे बादशाह अकबरके शाहजादा “सलीम” पैदा हुआ; जिसका हाल इस तरहपर है कि बादशाहकी उम्र जब २७ वर्षके करीब पहुंची और कोई लड़का न हुआ तो इससे उसको बहुत फ़िक्र थी.

फतहपुरमें एक फ़कीर “शैख सलीम” चिश्ती खानदानका रहता था और बादशाह उसके दर्शनोंको अक्सर जायाकरता था. जब राजा भारमल कछवाहेकी बेटी और भगवानदासकी बहिन, अकबरकी बीबिको गर्भ रहा; तो बादशाहने उस बेगमको शैख सलीमके घरपर रखदिया कि इस करामाती फ़कीरकी बरकत और दुआसे लड़का पैदा होकर जिन्दा रहे. हिज्री ९७७ ता० १७ (१) रबीउलअव्वल [वि० १६२६ आश्विन कृष्ण ३ = ई० १५६९ ता० २९ अगस्त] बुधवार को शाहजादेका जन्म हुआ और उसका नाम उसी वलीके नामपर सलीम रक्खागया. इस वक्त बादशाह

(१) लेकिन बादशाह जहांगीर अपनी किताब तुजकजहांगीरी में अपनी पैदाइशका दिन १८ रबीउलअव्वल लिखता है, और कहता है कि मेरे बापने कभी मुझको ‘सलीम’ नामसे नहीं पुकारा, ‘शैखूबाबा’ कहाकरतेथे.

को बहुत खुशी हुई परन्तु ज्योतिषियोंकी अर्जके अनुसार कुछ असेतक शाहजादेको नहीं देखसका. इसी सालकी तारीख १२ शाबान [माघ शुक्ल १३ = ई० १५७० ता० २० जैन्युअरी] को आगरेसे पियादा र्वाजह मुईनुद्दीन चिश्तीकी जियारतके लिये अजमेरको रवाना हुआ, क्योंकि शैख सलीम चिश्तीकी मर्जीके अनुसार इसने यह मन्नत मानी थी. अजमेरकी जियारत करके माह रमजान [फाल्गुन = फेब्रुअरी] को आगरे पहुंचगया.

हिज्री ९७८ ता० ३ मुहर्रम [वि० १६२७ आषाढ़ शुक्ल ५ = ई० १५७० ता० ८ जून] को दूसरा शाहजादा मुराद पैदा हुआ और इसी सालकी ता० २० रबीउस्सानी [आश्विन कृष्ण ६ = ता० २० सेप्टेम्बर] में बादशाह फिर र्वाजह मुईनुद्दीन चिश्तीकी जियारत करनेको अजमेर आया और वहांकी शहरपनाह बनवाकर एक छोटासा किला तय्यार कराया.

अजमेरसे बादशाह नागौर गया, जहांपर राव मालदेवका बेटा चन्द्रसेन और बीकानेरका राव कल्यानमल्ल उसके पास हाजिर हुए. राव कल्यानमल्लके भाई राव कान्हाकी बेटिकी शादी अकबरके साथ इसी मकामपर हुई और जैसलमेरके रावल हर-राजकी बेटिकी भी बादशाहने राजा भगवानदासकी मारफत मंगवाकर इसी जगह अपने महलोंमें दाखिल किया. राव मालदेवकी बेटी रुक्मावती, जो टीपू पातरके पेटसे पैदा हुई थी, उसकी भी शादी बादशाहके साथ इसी मकामपर हुई. इस जगहसे बादशाह पट्टनकी तरफ शैख फरीदकी जियारत करताहुआ देपालपुर और लाहौरकी तरफ चला. राव कल्यानमल्ल भारी बदनके कारण घोड़े पर नहीं चढ़ सका था इसलिये उसको बीकानेरकी रुखसत देकर कुंवर रायसिंहको अपने साथ लिया.

हिज्री ९७९ ता० १ सफर [वि० १६२८ अपाढ़ शुक्ल २ = ई० १५७१ ता० २४ जून] में हिसार की तरफ होताहुआ जियारतके लिये अजमेर आया, और वहांसे आगरेको गया. हिज्री ९८० ता० २० सफर [वि० १६२९ श्रावण कृष्ण ६ = ई० १५७२ ता० ३ जुलाई] को आगरेसे रवाना होकर अजमेरमें पहुंचा; वहांसे बादशाह नागौरकी तरफ चलकर बीलोद मकामपर था कि पीछे अजमेरमें ता० २ जमादियुलअव्वल [आश्विन शुक्ल ४ = ता० १३ सेप्टेम्बर] को शाहजादे दानियालका जन्म हुआ. यहांसे बादशाह गुजरातकी तरफ गया और लड़ाई भगड़ोंके बाद वह मुल्क फतह किया, जिसका जिक्र गुजराती बादशाहोंके हालमें मुफ़स्सल लिखा गया है. इसी समय मुजफ़्फ़रशाह गुजराती, अकबर बादशाहके पास हाजिर होगया.

हिज्री ९८१ ता० २४ रबीउस्सानी [वि० १६३० भाद्रपद कृष्ण १० =

ई० १५७३ ता० २४ अगस्त] को गुजरातमें फ़सादकी ख़बर सुननेपर बादशाह छड़ी सवारीसे आगरा छोड़कर अहमदाबादकी तरफ़ चला. इस वक्त उसके साथ, नीचे लिखेहुए सर्दार थे:—

बैरमका बेटा मिर्जाखां, सैफ़खां कूका, स्वाजह अब्दुल्ला, जगन्नाथ कछवाहा, रायसाल, जयमल्ल, जगमाल पंवार, अली आसिफ़खां, स्वाजह गयासुद्दीन, राजा बीरबल, राजा दीपचन्द, राजा मभोला, नकीबखां, मुहम्मदजमान, मानसिंह दर्बारी, शैख़ अब्दुरहीम, रामदास कछवाहा, रामचन्द्र, बहादुरखां, सांवलदास जादव (यादव), चारण हापा (१) बारहट, कान्हा दर्बारी, हरदास, ताराचन्द ख़वास और लाल कलावत वगैरह कुल ३०० आदमी.

आगरेसे अहमदाबाद ९ दिनमें पहुंचे, और वहां इस्तिथारुलमुल्क गुजराती और मुहम्मद हुसैन मिर्जापर, जिनके साथ १२००० फ़ौज थी, हम्ला किया. मिर्जा ज़स्मी होकर पकड़ागया, जो बीकानेरके राजा रायसिंहकी सुपुर्दगीमें रहा. उसके बाद जब इस्तिथारुलमुल्कसे लड़ाई हुई, तब मिर्जाको रायसिंहके आदमियोंने भागजानेके डरसे मारडाला, इस्तिथारुलमुल्कभी पकड़ागया. इस थोड़ी जमय्यतके हम्लेकी फ़तहसे बादशाहका बहुत रोब जमगया, इस कारण कई एक ज़ईफ़-एतिकादवाले लोग अकबरशाहको वली, करामाती और जादूवाला जानने-लगे थे.

बादशाह अजीज कूकेको गुजरातके सूबेपर छोड़कर आप आगरे चला-गया. इसी वर्षमें बंगालेका दाऊदखां करानी पठान बागी होगया. पहिले मुन्इमखांसे उसकी लड़ाई हुई; फिर राजा टोडरमल्ल भेजागया, लेकिन उसका फ़साद न मिटा, तब बादशाहने खुद चढ़ाई की. वह भागा और बादशाह अपनी फ़ौज और सर्दारोंको उसके पीछे छोड़कर आगरे चला आया. सर्दारोंने उसका बहुत पीछा किया; आखिर दाऊदखां लाचारीके साथ हाज़िर होगया— इसी वर्षमें शैख़ अबुल्फ़ज़ल बादशाही नौकर हुआ.

हिज्री ९८१ [वि० १६३० = ई० १५७३] में बादशाहने मारवाड़ और सिवाने की तरफ़ फ़ौज भेजी, लेकिन उससे मल्लव हासिल नहीं हुआ, जिससे बादशाह हिज्री ९८२ [वि० १६३१ = ई० १५७४] को अजमेरमें आया और सिवाने की तरफ़ ज़ियादा फ़ौज भेजी, लेकिन फिर भी कामयाबी न हुई. बादशाह आगरेको

(१) इसकी औलादके लोग अबतक जयपुरमें चारण हापावत मग़हूरहैं और महाराजा जयपुरके पौलपात (दर्वाज़ेपर विवाहमें नेग लेनेवाले) हैं.

लौटा और अजमेरसे आगरे तक हरएक कोस पर उसने मनारा और कुआ बनवादिया.

हिज्जी ९८३ [वि० १६३२ = ई० १५७५] में दाऊदखां पठानने भागकर बंगालमें फिर फ़साद उठाया, लेकिन गिरिफ़्तार होकर क़त्ल कियागया. इसी वर्षमें नागौर और सिवानेके क़िले लेनेको शाहबाज़खां भेजागया और उसने उनको फ़तह किया— जिसका मुफ़स्सल हाल मारवाड़की तवारीख़में लिखाजायगा.

हिज्जी ९८४ [वि० १६३३ = ई० १५७६] में बादशाह अजमेर आया और कुंवर मानसिंह कछवाहेको बड़ी फ़ौजके साथ उदयपुर भेजा. महाराणा प्रतापसिंहने हल्दी घाटीपर मुक़ाबिला किया. पीछे खुद बादशाह गोगूदा, डूंगरपुर और बांसवाड़े की तरफ़ होताहुआ आगरे चलागया, और शाहबाज़खांने कुम्भलमेरका क़िला फ़तह किया. यह बयान व्यौरेवार पहिले लिखा गया है— (पृष्ठ १५७).

इसी सन्में बूंदीके राव सुर्जणका बड़ा बेटा दूदा बादशाही नौकरीसे दिल उठाकर दिल्लीसे वापस चला आया और उसने बूंदीपर क़ब्ज़ा करलिया; बादशाह ने सुर्जणके छोटे बेटे भोजको बड़ा बनाया और जैनखां कूकेको फ़ौज देकर उसके साथ भेजा. कई लड़ाइयां होने बाद दूदा तो क़िला छोड़कर उदयपुरके पहाड़ोंकी तरफ़ चलागया और भोज (१) को बूंदीका मालिक बनाकर जैनखां वापस लौट आया.

इसी सालमें बादशाहने ओरछाके राजा मधुकरशाहपर सादिक़खां, मोटा राजा (२), राजा आसकर्ण और कासिमअलीखां वगैरहको फ़ौज समेत भेजा. लड़ाई होने बाद राजा मधुकरशाह अपने बेटे रामशाह समेत पहाड़ोंमें भागगया और ओरछापर बादशाही क़ब्ज़ा होगया.

हिज्जी ९८५ [वि० १६३४ = ई० १५७७] में बादशाह शैख़ फ़रीदके दर्शनके लिये पंजाबकी तरफ़ गया— इस वक्त इसका इरादा काबुल जानेका था, लेकिन किसी सबबसे पीछे लौट आया. शायद पूंछल तारेके उदय होनेसे उसने जाना मुनासिब नहीं समझा होगा, क्योंकि उन्हीं दिनोंमें एक पूंछल तारा (धूमकेतु) उदयहुआ था.

(१) भोजका बाप सुर्जण जीता था परन्तु उसने मज्हबी विश्वासके मुवाफ़िक़ राज्य छोड़कर काशीवास किया था.

(२) मोटा राजा जोधपुरके राव मालदेवका तीसरा बेटा उदयसिंह था, परन्तु इन दिनोंमें जोधपुर उनको नहीं मिलाथा, शायद राजाका खिताब मिलगया होगा, या 'राजा' का खिताब भी पीछे मिला हो, लेकिन इस सबबसे कि इक्बाल नामह अकबरके समयसे पीछेका बनाहुआ है, उसके बनानेवालेने 'राजा' लिखदिया हो, तो आश्चर्य नहीं और 'राजा' के साथ 'मोटा' लफ़ज़ जोधपुरकी गद्दीपर बैठनेके बाद मिला है.

हिज्री ९८६ [वि० १६३५ = ई० १५७८] में इब्राहिम मिर्जाके बेटे मुजफ्फर-हुसैन मिर्जाको उसकी मा समेत खानदेशके फारूकी राजेअलिखाने गिरिफ्तार करके बादशाहके पास भेजदिया. अकबरशाहने मिहर्बान होकर उसको अपनी बेटी शाहजादाखानम व्याहदी.

हिज्री ९८८ [वि० १६३७ = ई० १५८०] में राजा गजपतिने बंगाले में फसाद किया, जिसपर बादशाहने शाहबाजखां वगैरह सर्दारोंको फौज समेत भेजा; उन्होंने उसे ताबे बनालिया.

हिज्री ९८९ ता० ११ मुहर्रम [वि० १६३७ फाल्गुन शुक्ल १२ = ई० १५८१ ता० १५ फेब्रुअरी] को अकबर बादशाहके भाई मिर्जा हकीमने बंगालेका फसाद सुनते ही काबुलसे रवाना होकर लाहौरको आघेरा. वहांके सूबेदार सर्दारखां और मददगार राजा भगवानदास और कुंवर मानसिंह कछवाहेने किलेको मजबूत किया. यह सुनकर बादशाह अकबर भी लाहौरको चला. पानीपतके मकामपर पहुंचने की खबर सुनकर मिर्जा हकीम काबुलकी तरफ भागा; बादशाह भी उसके पीछे चला. काबुलके पास हरावल फौजके अप्सर शाहजादे मुराद (१) से मिर्जा हकीमकी लड़ाई हुई, जिसमें मिर्जा शिकस्त खाकर पहाड़ोंमें भागगया, लेकिन बादशाह उसकी लाचारीपर काबुलकी हुकूमत छोड़कर लौट आया. हिज्री ९९० [वि० १६३९ = ई० १५८२] में सिन्धु नदीपर अटक नामका एक किला बनाया और उसकी किलेदारी राजा भगवानदासको देकर वापस फतहपुर चला आया. इन्हीं दिनोंमें बादशाहने ज्वर और दस्तकी बीमारीसे ज़ियादा तकलीफ पाई, लेकिन कुछ अर्सेके बाद तन्दुरुस्त होगया.

हिज्री ९९१ शव्वाल [वि० १६४० कार्तिक = ई० १५८३ अक्टोबर] में गंगा जमुनाके संगम 'प्रयाग' पर एक किलेकी नींव डाली, जो अबतक इलाहाबादके किलेके नामसे मशहूर है. इसी वर्षमें महाभारत पुस्तकका तर्जुमा फ़ारसीमें करवाकर उसका नाम 'रज़्मनामह' (२) रक्खा. इसी सालमें सिरोहीके राव सुल्तान देवड़ासे

(१) शाहजादे मुरादकी उम्र इस समय १० वर्षकी थी लेकिन किसी बड़े सर्दारके साथ हरावल में गयाहोगा, क्योंकि अकबरके भाईसे मुकाबला करनेमें नौकरोंका रोब नहीं माना जाता था, और किसी वक्त ऐसा भी होता था, कि नामके लिये फौजके गिरोह की सर्दारी शाहजादोंके नाम पर मुकर्रर की जाती थी, चाहे शाहजादा उस फौजमें हो या न हो, कमउम्र शाहजादे अलहदा नौकरीपर नहीं भेजे जाते थे.

(२) लड़ाई के हालकी किताब.

उसका इलाका लेकर महाराणा प्रतापसिंहके भाई जगमालको दिलानेके लिये एतिमाद-खांको हुकम भेजा, और उसने हुकमके अनुसार रावको निकालकर जगमालको वह इलाका दिलादिया और उसकी सहायताके लिये गज्नीखां, महमूदखां जालौरी, बिजा देवड़ा और राव चन्द्रसेन राठौड़के बेटे रायसिंहको मुकर्रर किया. इन महाराज जगमाल का बाकी हाल ऊपर लिखा गया है- (पृष्ठ १६२-१६३).

इसी सालमें मुजफ्फर गुजरातीने भागकर गुजरातमें फसाद मचाया, जिसका बयान गुजराती बादशाहोंके हालमें लिखा गया है.

हिज्जी ९९२ [वि० १६४१ = ई० १५८४] में निजामशाह बहरी, अपने भाई मुर्तजा निजामशाहसे शिकस्त खाकर अकबरशाहके पास चला आया, जिसकी सलाहसे बादशाह अकबरने खानेआजम अजीजकूकेको फौज देकर दक्षिणकी तरफ भेजा; लेकिन दक्षिणियोंकी फौज ज़ियादा होनेके कारण खानेआजम दबकर गुजरातमें लौट आया.

हिज्जी ९९३ [वि० १६४२ = ई० १५८५] में बदख्शांका नव्वाब शाहरुख मिर्जा, अब्दुल्लाखां उज्बकके दबावसे बादशाह अकबरके पास चला आया और बादशाहने उसे पांचहज़ारी जात और सवारका मन्सब दिया. इसी सालमें आंबेरके राजा भगवानदास कछवाहेकी बेटिके साथ शाहज़ादे सलीमकी शादी बड़ी धूमधामसे हुई. बादशाह राजाके घरपर बरात लेकर गया. इसी सालमें बूंदीके राव सुर्जणके बड़े बेटे दूदाका इन्तिकाल होगया.

हिज्जी ९९४ [वि० १६४३ = ई० १५८६] में अकबरशाहका भाई मिर्जा हकीम काबुलकी जागीर छोड़कर दूसरे जहानको उठगया, जिसका बादशाहने बहुत रंज किया. बादशाह इस वर्षमें पंजाबकी तरफ गया और कुंवर मानसिंह, मिर्जा हकीमके दोनों बेटोंको काबुलसे रावलपिंडीमें बादशाहके पास लेआया.

हिज्जी ९९५ [वि० १६४४ = ई० १५८७] में बादशाहने शाहरुख मिर्जा और राजा भगवानदास वगैरह को कश्मीर लेनेके लिये भेजा और कूका जैनखांको अफ़्गानिस्तानमें स्वाद बाजौरकी तरफ रवाना किया, जहांके पठानोंने बादशाही फौज को बड़ी शिकस्त दी और जैनखांके साथी बड़े बड़े सर्दारोंको ८००० आदमियों समेत क़त्ल किया. कुंवर मानसिंहको काबुलकी क़िलेदारी देकर खैवरी लोगोंके ज़ेर करनेको भेजा.

इसी वर्षमें बीकानेरके राव रायसिंहकी बेटिकी शादी शाहज़ादे सलीमके साथ

राजाके मकानपर हुई और राजा बासू तंवर बादशाहके पाससे भागकर पंजाबके उत्तरी पहाड़ोंमें फसाद करने लगा, लेकिन राजा टोडरमल्लके समभानेसे हाज़िर होकर बादशाही नौकर होगया. इसी वर्ष कश्मीरका इलाका खालिसेमें शामिल किया गया.

हिज्री ९९६ [वि० १६४५ = ई० १५८८] में राजा भगवानदासकी बेटीके गर्भसे मकाम लाहौरमें शाहजादे सलीमके बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम सुल्तान खुस्रौ रक्खागया. इसी साल कुंवर मानसिंहसे अफ़ग़ानोंका मुकाबला हुआ और वह हारकर बंगशकी तरफ़ भागगया, तब बादशाहने जैनखां कूकेको काबुलमें भेजकर मानसिंहको बिहारका सूबेदार बनाया. इसी वर्ष शाहजादे मुरादके एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम मिर्जा रुस्तम् रक्खागया.

हिज्री ९९७ [वि० १६४६ = ई० १५८९] में बादशाहने कश्मीर और काबुलकी तरफ़ दौरा किया, और खबर मिली कि राजा भगवानदास और राजा टोडरमल्लका देहान्त हुआ. इन्हीं दिनोंमें कलांत तानसेन मरगया, और यह भी खबर मिली कि अजमेरका सूबेदार राजा गोपाल जादव मरगया. शाहजादे सलीमके स्वाजह हसनकी बेटीसे शाहजादा पर्वेज़ पैदा हुआ.

हिज्री ९९८ [वि० १६४७ = ई० १५९०] में बिहार और उड़ीसाकी तरफ़ राजा मानसिंहने लड़ाइयों में फ़तह पाकर अच्छी कार्रवाइयां कीं. इसी सालमें जैनखां कूका कश्मीरका फ़साद मिटानेके लिये भेजागया, और वह नीचे लिखे-हुए राजाओंको ताबे बनाकर बादशाहके पास लेआया:—

राजा बुधचन्द, जम्बूका राजा परशुराम, मऊका ज़मींदार राजा बासू, राजा अनिरुद्ध जैसवाल, काम्लोरीका राजा सिख, राजा जगदीशचन्द ग्वालियरी, राजा संसारचन्द दहवाला, राव प्रताप, राव भसौर, राव बलभद्र, राव दौलत, राव कृष्ण, राव नारायण और राव उदय. इन राजाओंके हुकममें आठ हजार सवार और एकलाख पैदल थे; इसी वर्ष कन्धार ईरानियोंके कब्जेसे लेलियागया.

हिज्री ९९९ [वि० १६४८ = ई० १५९१] में शाहजादे मुरादको मालवे की सूबेदारीपर जगन्नाथ कछवाहा, रामपुरेके राव सीसोदिया चन्द्रावत दुर्गभानु सहित भेजा, जो अपने सूबेसे ओरछेकी तरफ़ फ़साद सुनकर वहां पहुंचा; और राजा मधुकर-शाहको शिकस्त देकर पहाड़ोंमें भगादिया, जो उन्हीं दिनों पहाड़ोंमें मरगया, और उसका बेटा रामचन्द्र बादशाही नौकर हुआ. जाड़ेचा जाम और जूनागढ़के नव्वाब मिलकर बगावत की, लेकिन अज़ीज़ कूकेने उन दोनोंको शिकस्त

देकर भगादिया; इसी साल अजीज कूकेने मुजफ्फरशाह गुजरातीपर फ़तह पाई, और उसके मददगार बहुतसे गुजराती राजपूत मारेगये, बाकी मुजफ्फरके साथ पहाड़ोंमें भागगये.

हिज्री १००० [वि० १६४८ = ई० १५९१] में सिन्धुका मुल्क खालिसा किया गया, और वहांका सर्दार जानीबेग बादशाही खिदमतमें हाज़िर होगया; इसी वर्षमें मुजफ्फरशाह गुजरातीने कैद होकर उस्तरेसे खुद कुशी (आत्मघात) की, और तबक़ात अकबरीका मुसन्निफ़ निज़ामुद्दीन बादशाही मीरबख़्शी हुआ.

हिज्री १००० ता० ३० रबीउलअव्वल [वि० १६४८ माघ शुक्ल २ = ई० १५९२ ता० १७ जैन्वूअरी] को जोधपुरके राजा उदयसिंहकी बेटी मानवाईके पेटसे शाहज़ादे सलीमके एक बेटा पैदा हुआ, अकबरशाहने उसका नाम सुल्तानखुर्रम रक्खा, पीछे इस शाहज़ादेका पद (लक़ब) बादशाह जहांगीरने “शाहजहां” रक्खा था, सो इसके बादशाह होने पर भी यही लक़ब कायम रहा; जब इस शाहज़ादेका जन्म लाहौरमें हुआ, बादशाह अकबर भी सिंधु और कश्मीरके भगड़े दूर करनेके इरादे पर वहीं मौजूद था.

हिज्री १००१ [वि० १६५० = ई० १५९३] में अहमदाबादके सूबेदार अजीज कूकेको डाढ़ी मुंडवाना, सिज्दा करना वगैरह मुहम्मदी मज़हबके बख़िलाफ़ बातें नापसन्द हुई, इस लिये बादशाहके तलब करनेपर बे इजाज़त वह मक़ेको चलागया; बादशाहने सुल्तान मुरादको गुजरातकी सूबेदारी दी, और मिर्जा शाहरुख़को मालवेकी निज़ामत इनायत की.

हिज्री १००२ मुहर्रम [वि० १६५० आश्विन = ई० १५९३ अक्टोबर] में दक्षिणके बादशाहोंको दबानेके लिये शाहज़ादा मुराद रवाना कियागया, और उसके साथ ७०००० फौज समेत नीचे लिखेहुए सर्दार भेजेगये :—

मिर्जा अब्दुरहीम खानखाना, शाहबाज़खां कम्बो, बीकानेरका राव रायसिंह, राजा जगन्नाथ कछवाहा, रामपुरेका राव दुर्गभान चन्द्रावत सीसोदिया, औरछेका राजा रामचन्द्र गहरवार वगैरह.

इन्हीं दिनोंमें बादशाह लाहौर और कश्मीरकी तरफ़ गया; और तबक़ात-अकबरीका बनानेवाला ख़ाजा निज़ामुद्दीन अहमद बख़्शी मरगया, जिसने अपने मरनेके वर्षतक हिन्दुस्तानकी तवारीख़ लिखी है. हमारे विचारसे दूसरे फ़ार्सी तवारीख़ लिखनेवाले लोगोंसे इसमें मज़हबी व कौमी तअस्सुब कुछ कम है. हां अबुल्फ़ज़ल भी बे तअस्सुब है लेकिन बादशाही खुशामद ज़ियादा करता है और उसकी तवारीख़ शाहरी के ढंगसे फैलावके साथ लिखी गई है. इसी वर्षमें शाहज़ादे सलीमको १० हज़ारी ज़ात और सवारका मन्सब दिया, जिसमें पांच हज़ार राजपूत, चार हज़ार मुग़ल

और एक हजार अहदी थे; शहजादेके मातहत (फौजी अफसर) नीचे लिखेहुये लोग थे:-

जगतसिंह कछवाहा, मिर्जा मुहम्मदबाकिर अन्सारी, मीर कासिम बदख्शी, शक्तिसिंह, तस्तावेग, राव मनोहर कछवाहा और बहादुरखां वगैरह. इसी साल कन्धारका हाकिम रुस्तम मिर्जा जो बादशाह ईरानकी तरफसे वहांका सूबेदार था, अपने बादशाहसे रंजीदा होकर बादशाह अकबरके पास चलाआया, और किला कन्धार बादशाही लोगोंके हवाले किया, जिसपर बादशाह अकबरने मुल्तानकी सूबेदारी उसको दी.

हिज्री १००३ ता० १४ शव्वाल [वि० १६५२ द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल १५ = ई० १५९५ ता० १३ जून] में जोधपुरका राजा उदयसिंह दमेकी बीमारीसे मरगया और चार स्त्रियां उसके साथ सती हुईं. इन्हीं दिनोंमें हकीम हुमाम जो बड़ा आलिम् था मरगया, और इसी वर्षमें शहजादे मुरादके दक्षिणकी तरफ जानेके सबब अहमदाबाद की सूबेदारी जोधपुरके राजा सूरसिंहको मिली. बुर्हान निजामशाह अहमदनगरवाला मरगया और उसका बेटा इब्राहिम निजामशाह भी बीजापुरके इब्राहिम आदिलशाहसे लड़कर मारागया; तब निजामशाही सर्दार मंझूखांने अहमद नामी लड़केको निजाम बनाया. इसपर दूसरे सर्दारोंने मंझूखांसे भगड़ाकिया, तब उसने शहजादे मुरादको मददपर बुलाया लेकिन शहजादेके पहुंचनेपर मंझूखां अहमदशाह को लेकर बीजापुरके इलाकेमें चलागया और अहमदनगरमें चांद सुल्ताना बेगमको शाहजादेसे लड़ाई करनेके लिये छोड़ा.

हिज्री १००४ [वि० १६५२ = ई० १५९६] में शहजादे मुरादने लड़ाई होने बाद बरारका इलाका लेकर सुलह करली और बालापुरके पास एक कस्बा बसाकर वहां अपनी छावनी रक्खी.

हिज्री १००५ [वि० १६५३ = ई० १५९७] में निजामशाह, आदिलशाह और कुतुबुल्मुल्क, तीनोंकी फौजने एक होकर लड़ाईपर तय्यारी की. शाहजादे मुरादने भी नीचे लिखीहुई तर्तीबसे फौज जमाकर मुकाबला किया:—

बीचकी फौजमें मिर्जा शाहरुख, अब्दुरहीम खानखानां, मिर्जा अलीबेग, शैख दौलत, एतिवारखां, वफादारखां, अफज़ल तोलकूची, शेरअफ़्गन्, मीरशरीफ़ गीलानी मुहम्मदखां, कादिर कुली कूका, इस्लामखां, कुतुबुद्दीन, मीर तूफ़ान वगैरह; दाहिनी तरफ़ सय्यद कासिम बारह, अबुल्फ़तह, हुसैनखां, शैख मुस्तफ़ा, आलमखां, केशवदास, शैख सालिह, शैख उस्मान् वगैरह; बाई तरफ़ खानदेशका नव्वाब राजेअलीखां अपनी फौज समेत; हरावलमें जगन्नाथ कछवाहा, राव दुर्गभान सीसोदिया, राजसिंह, ओछेंका

रामचन्द्र गहरवार, दूसरा केशवदास, सांवलदास, रायमल्ल, तीसरा केशवदास, जैस लमेर का रावल भीम, नारायणदास जाड़ेचा, (१) मनोहर जाड़ेचा, पृथ्वीराज, नरहरदास, कल्ला, शक्तिसिंह, मुल्तान भट्टी, ठाकुरसी, भोजराज, परशुराम, शैख जमाल वगैरह. जब दोनों फौजोंका मुकाबला हुआ तो बड़ी लड़ाईके बाद दक्षिणियोंकी फौज हारकर भागी जो करीब ६०००० के थी, और बादशाही २०००० फौजने फ़तह पाई. इस लड़ाईमें बादशाही सर्दार नव्वाब राजेअलीखां फ़ारूकी, द्वारकादास, सय्यद जलाल, ओछेंका राजा रामचन्द्र वगैरह मारेगये; राजा जगन्नाथ कछवाहा, राजसिंह, राव दुर्गभान चन्द्रावत आदिने अच्छी बहादुरी दिखलाई; बहुतसे दक्षिणियोंको मारा और जख्मी किया. इन्हीं दिनोंमें बहादुर, जो मुजफ़्फ़रशाह गुजराती का बेटा था गुजरातके इलाकेमें उपद्रव करनेलगा, जिसकी जोधपुरके राजा सूरसिंहके साथ धँधूका मक़ामपर लड़ाई हुई; बहादुर शिकस्त खाकर भागगया. इसी वर्षमें बादशाहने कश्मीरकी तरफ़ दौरा किया, राव पितरदासकी कोशिशसे क़िला बांधू फ़तह हुआ, राजा मानसिंह कछवाहेका बेटा दुर्जनसिंह बंगालेके पठानोंकी लड़ाइयोंमें बहादुरीसे लड़कर मारागया.

हिज्री १००६ [वि० १६५४ = ई० १५९८] में जोधपुरके राजा उदयसिंहकी बेटी मानबाईके पेटसे शहजादे सलीमके एक लड़की पैदा हुई. शहजादे मुरादकी फौजमें खानखाना अब्दुरहीमसे सर्दारोंकी तक्रार हुई, जिससे बादशाहने खानखानाको बुलाकर अबुल्फ़ज़लको शहजादेके पास भेजा. इसने वहां जाकर परनाला और खेलना वगैरह किले फ़तह किये.

हिज्री १००७ [वि० १६५५ = ई० १५९९] में शहजादा मुराद ज़ियादा शराब पीनेके कारण बीमार होकर बरारके इलाके शाहपुरकी छावनीमें मरगया, जिससे बादशाहको बहुत रंज हुआ; शाहजादेकी लाश दिल्लीमें लाकर हुमायूँ बादशाहके मक़बरे में गाड़ी गई और उसकी जगहपर शहजादा दान्याल, अब्दुरहीम खानखाना समेत भेजागया.

हिज्री १००८ [वि० १६५६ = ई० १६००] में बादशाहने सुना कि दक्षिणियोंकी फौजें एकट्ठी होकर जोर पकड़ती जाती हैं, इसलिये आप उस तरफ़को खाना हुआ और शहजादे सलीमको राजा मानसिंह समेत अजमेरमें छोड़कर हिदायत की कि महाराणा उदयपुरको धमकाता रहे. इन्हीं दिनोंमें राजा मानसिंहका बड़ा बेटा जगतसिंह उसके एवज़ बंगालेकी सूबेदारीपर खाना किया-

(१) यहदोनों, कच्छके राव खंगार जाड़ेचाके बेटे थे.

गया था, जो रास्तेमें मरगया; मानसिंहने उसके एवज अपने पोते महासिंहको भेजा. बादशाह अकबरने आसीरका किला बहादुरखां फारूकीसे लड़कर लेलिया. बादशाहकी धाय कूका अजीजकी मा मरगई, अकबरने उसके जनाजेको थोड़ी दूरतक कन्धा दिया और डाढ़ी मूँछें मुंडवाई, जिसकी पैरवी कई अमीरोंने भी की. इन्हीं दिनोंमें नासिकका इलाका फतह हुआ; राजू हब्शीने फसाद उठाना चाहा लेकिन वह शाहजादे दान्यालके भेजेहुए राजा सूरसिंह और दौलतखां वगैरह के पहुंचनेसे भगगया.

हिजी १००९ [वि० १६५७ = ई० १६००] में अहमदनगर फतह हुआ, इसी अर्सेमें शाहजादा सलीम जो अजमेरसे मेवाड़की तरफ धावा कर रहा था, राजा मानसिंह वगैरह सर्दारोंके बहकानेसे बंगालेकी तरफ चला गया और उसने इलाहाबाद (प्रयाग) का इलाका बंगाले समेत दबालिया, खफीखां मुन्तखबुल्लुबाबमें लिखता है कि अक्सर तवारीख लिखनेवाले लोग शाहजादेकी खास बातोंको छोड़गये हैं. अस्लमें शाहजादे सलीमका मन्शा आगरेपर कब्जा करलेनेका था क्योंकि बादशाह अकबर, अबुल्फजल और शाहजादा दान्याल, तीनोंके दक्षिणमें होनेसे वह डरता था, वह आगरेमें अपनी दादी हमीदा बानूके मौजूद होनेसे नहीं गया और इलाहाबाद वगैरह पर कब्जा करलिया; अकबरने भी अहमदनगर, बरार, आसीर और बुर्हानपुर शाहजादे दान्यालको जागीरमें देकर खानगी मुल्की फसादोंके कारण आगरेकी तरफ कूच किया, और दक्षिणकी लड़ाइयोंका काम अबुल्फजलके भरोसेपर छोड़ा. दक्षिणियोंसे लड़ाई होनेपर खानखाना अब्दुरहीमने अबुल्फजलकी मन्शाके बखिलाफ सुलह करली, क्योंकि बड़े शाहजादेके फसादसे बादशाही मदद मिलनेकी उम्मेद न थी.

हिजी १०१० [वि० १६५८ = ई० १६०१] में शाहजादे सलीमने इलाहाबादमें तीस हजारसे जियादा सवार एकट्ठे करके आगरेकी तरफ कूच किया, लेकिन बादशाहके मुहब्बतसे भरेहुए कोमल शब्दोंके फर्मानके पहुंचनेपर शाहजादा इटावेसे इलाहाबादको लौटगया; पीछेसे बादशाहने बंगाला भी शाहजादेको जागीरमें लिख भेजा.

हिजी १०११ पहिली रबीउलअव्वल [वि० १६५९ भाद्रपद शुक्ल ३ = ई० १६०२ ता० २१ अगस्त] में शैख अबुल्फजलको दक्षिणसे बादशाह ने बुलाया, यह खबर सुनकर शाहजादा सलीम घबराया और राजा नरसिंहदेव बुंदेलेको भेजकर ग्वालियरके पास अबुल्फजलको मरवाडाला. बादशाहको अबुल्फजलके मरनेका अधिक रंज हुआ, और राजा रामचंद्र बुंदेले आदिको हुकम

दिया कि राजा नरसिंहदेवको क़त्ल करो या पकड़लाओ; लेकिन वह हाथ न आया, इस क़त्लके इनआममें शाहज़ादे सलीमने तस्तपर बैठनेके बाद राजा नरसिंहदेवको एक मन्दिर केशवरायका मथुरामें बनानेकी आज्ञा दी, जिसको राजाने ३६००००० छत्तीस लाख रुपये लगाकर बनवाया.

बादशाह अकबरने अपनी बेगम सलीमा सुल्तानको इलाहाबाद भेजकर सलीमको बुलाया. शाहज़ादा सलीम अपनी सौतेली मा (१) की नसीहतसे आगरे को रवाना हुआ, लेकिन डरता था, इसलिये अपनी दादी हमीदा बानूके साथ बादशाह के पास जानेकी स्वाहिश की. उसकी इच्छाके मुवाफ़िक़ हमीदाबानू लेआई और दोनों को मिलादिया, शाहज़ादेने बारह हज़ार मुहर और ९७७ हाथी बादशाहको नज़्र दिये, बादशाहने अपनी पगड़ी उतारकर शाहज़ादेके सिरपर रखदी.

फिर शाहज़ादेको बादशाहने मेवाड़पर भेजनेको तय्यार किया (२) लेकिन वह फ़तहपुरमें ठहरकर जंगी सामान दुरुस्तीके साथ नमिलनेकी शिकायत करनेलगा, तब बादशाहने उसको इलाहाबाद जानेकी आज्ञा दी जिससे वह उस तरफ़ चला-गया.

हिज़्री १०१२ [वि० १६६० = ई० १६०३] में राजा भगवानदासकी बेटी शाहज़ादे सलीमकी बड़ी बेगम अफ़ीम खाकर मरगई, क्योंकि उसका बेटा खुस्त्रौ अकबरशाहके पास अपने बाप सुल्तान सलीमकी हमेशा बुराइयां किया करता था, इस लज्जासे उसने आप घात किया, शाहज़ादे सलीमको उसके मरनेसे अधिक रंजहुआ.

शाहज़ादे सलीमका वाकिआनवीस (इतिहास लेखक) एक ख़वासपर आशिक़ था और वह ख़वास दूसरे नौकर पर, इन तीनोंने भागकर दक्षिणमें शाहज़ादे दानु-यालके पास जाना चाहा; लेकिन वे गिरिफ़्तार होकर सलीमकेपास लायेगये, वाकिआनवीसको तो खाल खिंचवाकर मरवाड़ाला, खिदमतगारको खोजा बनाया और ख़वासको बेटों (बेटों) से पिटवाया. यह बात सुनकर बादशाह अकबरने बहुत रंज किया और कहा कि हमनेतमाम उम्रमें किसी बकरीकी भी खाल नहीं खिंचवाई, लेकिन हमारे बेटे ऐसे पैदा हुए कि आदमियोंकी खाल खिंचवाकर बेरहमीसे मारते हैं. शाहज़ादेको अपने पास लानेके लिये आप बादशाह आगरेसे इलाहाबादको रवाना हुआ, लेकिन अपनी

(१) इसने सलीमको बेटेके समान पर्वरिशकिया था.

(२) इसके साथ राजा जगन्नाथ, रायसिंह, माधवसिंह, राय दुर्गा, राय भोज, हाशिमखां, कराबेग-खां, इफ़ितख़ारबेग, राजा विक्रमादित्य, राजा उदयसिंह जोधपुर वालेका बेटा दलीप, स्वाजा हिसार, राजा शालिबाहन, मिर्जा यूसुफ़खांका बेटा लश्करी, शाहकुली और शाहबेग वगैरा थे.

मा हमीदाबानूकी ज़ियादा बीमारीके कारण पीछे लौटआया, हमीदाबानू ज़ियादा बीमार होकर हिज्री १०१३ ता० ७ जमादियुल्अव्वल [वि० १६६१ आश्विन शुक्ल ९ = ई० १६०४ ता० ४ अक्टोबर] को मरगई, बादशाहको बहुत रंज हुआ; अपनी माके जनाजेको कन्धा देकर दिल्ली भेजा और हुमायूंशाहके मकबरेमें दफ्न कराया, बादशाह ने अपनी और अपने अमीरोंकी डाढ़ी मूछें मुंडवाईं. इसी वर्षमें दान्यालका बेटा बायसगर पैदा हुआ; शाहज़ादा सलीम भी हमीदाबानूके मरने और अपने बापके इरादे और खानगीकी खबर सुनकर आगरे चलाआया. बादशाहने उसको तसल्ली देकर अपनी निगरानीमें रक्खा, लेकिन पीछे उसको उसकी हवेलीमें भेजदिया. इसी वर्ष कश्मीरमें फ़साद उठा लेकिन जल्द मिटादिया गया. राजा मानसिंह कछवाहेको बंगालेसे बुलवाया, क्योंकि बादशाहका इरादा था कि शाहज़ादा सलीम और राजा मानसिंह तूरानका देश फ़तह करनेको भेजेजावें, लेकिन बीमारीके सबब यह कार्रवाई बन्द रही.

हिज्री १०१३ [वि० १६६१ = ई० १६०४] में ओर्छा फ़तह हुआ और राजा नरसिंहदेव पहाड़ोंमें भागगया. इसी सालकी २८ शव्वाल [चैत्र कृष्ण १४ = ई० १६०५ ता० ८ मार्च] को बुर्हानपुरमें शाहज़ादा दान्याल बहुत शराब पीनेके सबब मरगया, उसके ३ बेटे और ४ बेटियां बाकी रहीं, जिनके नाम नीचे लिखे हैं—

बेटे—

- १ तहमूस
- २ होशंग
- ३ बायसगर

बेटियां—

- १ सआदतबानू
- २ बुलाकी बेगम
- ३ बाई बेगम
- ४ बुर्हान बेगम

बादशाहने हिज्री १०१४ [वि० १६६२ = ई० १६०५] में अपने पोते, शाहज़ादे खुस्त्रौको दस हज़ारी जात और सवारका मन्सब दिया, और राजा मानसिंह सात हज़ारी जात और छः हज़ार सवारका मन्सब पाकर सुल्तान खुस्त्रौका मददगार बनाया गया.

इसी वर्षकी १८ जमादियुल्अव्वल [मुताबिक़ कार्तिक कृष्ण ४ = ता० १ अक्टोबर] में बादशाह अकबरको दस्तकी बीमारी हुई और कुछ बुखार भी आनेलगा. हकीमोंने बहुतसा इलाज किया परन्तु कुछ भी सिहत न हुई. आखिरकार इसी सालकी १३ जमादियुस्सानी [कार्तिक शुक्ल १४ = ता० २६ अक्टोबर] बुधवारकी रातको बादशाहका देहान्त होगया.

इस बादशाहके तीन बेटे और तीन बेटियोंमेंसे एक शाहज़ादा सलीम और तीन

बेटियां बाकी रहीं. उसने खजानेमें दस किरोड़ रुपये नकद, दस मन सोना, सत्तर मन चांदी और बहुतसा जवाहिर छोड़ा था; उसकी पायगाहमें खासे ६००० छः हजार हाथी और बारह हजार घोड़े थे, शिकारी चीते एक हजार और हिरण ५००० गिने जाते थे; अबुल्फज़ल इस बादशाहके जनानखानेकी पांच हजार औरतें आईन अकबरीमें लिखता है और हरएक बेगमकी तनस्वाह सात व आठसौ रुपये माहवारीसे लेकर सोलहसौ रुपये तक; और हरएक खवासकी तनस्वाह २० रुपयेसे लेकर ५१ रुपये तक बयान करता है.

यह बादशाह अपने खयालसे तो एकके सिवाय दूसरी औरतके साथ शादी करना बुरा जानता था, परन्तु उसका यह नेक खयाल ४० वर्षकी उम्रके बाद हुआ, वना शायद इतनी बेगमें नहीं करता. मौलवी अब्दुल्कादिर अपनी किताब 'मुन्तखबुत्तवारीख' में हिज्री ९९५ [वि० १६४४ = ई० १५८७] के बयानमें लिखता है कि "बादशाहने यह हुकम जारी किया कि कोई भी एक विवाहके सिवाय दूसरी औरत न करने पावे."

इस बादशाहमें नेक आदतें जियादा और बुरी बहुत ही कम निकलेंगी; इसका एतिकाद ४० वर्षकी उम्रके पहिले जईफ था लेकिन पीछे बहुत दुरुस्त होगया. वह सब मज्हबोंको एकसा समझता था. मौलवी अब्दुल्कादिर बदायूनीने मज्हबी तअस्सुब से जियादा हिकारतके साथ उस बादशाहके ऐब छांटे हैं, जिनके देखनेसे पढ़नेवालोंको वेही उसके गुण मालूम होंगे. यह मौलवी मुहम्मदी मज्हबका बड़ा पक्षपाती और भद्दे खयालका आदमी था और इसने बादशाहकी निस्वत मुन्तखबुत्तवारीखके पृष्ठ २२० से २२४ तक में जो हाल लिखाहै, वह नीचे बयान कियाजाता है:—

"हिज्री ९८६ [वि० १६३५ = ई० १५७८] में अब्दुल्कादिरने एक किताब, जिसका नाम 'किताबुल् अहादीस' है फतहपुरमें बादशाहको नज़ कीथी, जो कुतबखाने में दाखिल कीगई.

बादशाह अकबर आलिम और बुजुर्ग लोगोंकी सुहबतमें अपना वक्त खर्च करता रहा, बड़ी छोटी कुल बातें निश्चय (तहकीक) करनेका खयाल रखता था. आलिमोंने आपसकी दुश्मनी और जिद्दसे एक दूसरेको काफ़िर और गुमराह कहना शुरू किया; यह भगड़ा सुन्नी, शीआ, सूफ़ी और हकीमोंसे गुजरकर सारा मुआमिला बिगड़गया और कई वर्षमें मज्हबका कुछ भी निशान बाकी न रहा.

इस तरहपर कई वर्षमें हर मुल्क, हर कौम और हर मज्हबके होशियार लोग दरबारमें एकट्ठे होते गये, जिनको बादशाहसे हरतरहकी बातें करना नसीब होगया. बादशाह हमेशा रात दिनकी तलाश और फ़िक्रसे, जिसके सिवाय दूसरे काम कम होते थे, इल्म और हिकमतकी बारीक और गहरी बातें, जिनके लिये कई दफ़्तर

चाहियें, जिह्न नशीन करता जाता था; जो कुछ पसन्द आता था हरएक आदमीसे चाहे किसी मज्दबका हो चुन लेता और हरएक ना पसन्द चीजसे पर्हेज रखता था.

लड़कपनसे शुरू जवानी और जवानीसे आखिर जवानी तक कई हालतें बदलती रहीं, हरएक मज्दबकी सब बातें सुनने और अपनी अकलके सोचनेसे एक जदी कैफियत पैदा होगई, जोकि किताबोंमें नहीं पाई जाती है.

तमाम सूरतवाली चीजोंके लिये एक मादेका होना तबीअतमें जमगया, और यह बात पक्की मानली कि अकलमन्द लोग तमाम मज्दबोंमें मौजूद हैं और मिहनती व इबादत करनेवाले हर गिरोहमें पैदा होते हैं.

नेकी और सच्च हर जगह पाया जासक्ता है, एक मज्दब या कौममें उसके लिये कैद नहीं है, क्योंकि हरएक नये और पुराने मज्दबके बखिलाफ दूसरे बहुतसे मज्दब होते हैं, सबको बे दलील बुरा जानकर एकको बड़ा समझलेना अकलके खिलाफ है.

कुछ अर्से तक ब्राह्मणोंपर तवज्जुह होगई थी. फिर मुसलमानोंके तसव्वुफ याने वेदान्तपर दिल लगाया गया.

ईरानियोंकी सुहबतसे राफिजीपनको अच्छा जानलिया था, फरंगियोंके बुजुर्ग याने पाद्रियोंकी हाजिरीसे 'इन्जील' तर्जुमा कराकर सुनीगई; सूरजको नाज, मेवा और दरस्त पैदा होनेका बड़ा सबब जानकर ताजिमके लायक सम्झा.

गुजरातकी तरफसे मजूसी याने पार्सियोंने हाजिर होकर जर्दुश्ती बातें बयान कीं, जिससे महलके करीब आतिशकदा (अग्निस्थान) बनानेकी इजाजत दी.

राजाओंकी बेटियोंके साथ महलमें होम कियेजाते थे, सूरज और आगको भी सिज्दा कियाजाता था मुसलमानोंके बखिलाफ बहुतसी बातें रिवाजमें करली थीं, जिनका कुछ ठिकाना नहीं है.

अबुल्फजल बहुतसी दहरिया (नास्तिकी) बातें, जो किसी मज्दबकी न हों, बनाता था, जिसके मुकाबलेपर किसीको बोलनेकी ताकत न थी. लाचार में (अबुल्कादिर) ने दरबारसे अलहदगी इस्तिथार की, जिसके एवज बेइज्जत रहना पड़ा; लेकिन खुदाका शुक्र है कि मैं इस हालमें ही खुशहूँ".

पृष्ठ २२७-

"हिज्जी ९८७ [वि० १६३६ = ई० १५७९] में बादशाह आखिरी दफा अजमेरको जियारतके लिये गये; शहरके पास पहुंचकर हँसीसे कहते थे कि स्वाजह के मुवाफिक जमीन पर हजारों बली हुए हैं.

कुछ दिनोंमें करामातकी बातों, जिन्न और फरिश्तोंके होनेसे साफ

इन्कार करने लगे, बल्कि मौतके बाद रूहका बाकी रहना भी मुश्किल समझते थे”.

पृष्ठ २३८ से २४० तक—

“हिज्री ९९० [वि० १६३९ = ई० १५८२] में बीमारी वगैरह जुरूरत के लिये शराब पीना ठीक समझा गया और एक कलालकी दूकान कायम की गई, कि शराब लेजाने वालोंका नाम लिखलिया करे; अगर कोई ज़ियादा पीकर फ़साद करे तो उसे सज़ा दीजावे.

बाज़ारी औरतें जो राजधानीमें एकट्ठी होगई थीं उनको शहरसे बाहर बसा कर उनके महल्लेका नाम ‘शैतानपुरा’ रखदिया और वहां भी एक दारोगा मुकर्रर किया, जिसका यह काम था कि वहां आने जाने वालोंके नाम लिखलिया करे. जब कोई बड़ा सद्दार ऐसे काममें शरीक दर्याफ़्त होता तो उसको कैद करते थे.

एक बार बीरबलका नाम मालूम हुआ, और उसके नाम जागीरसे हाज़िरीका फ़र्मान गया, वह जोगी बनना चाहता था कि उसका कुसूर मुआफ़ करदिया गया.

राजाओंकी बेटियों जो बहुतसी महलमें दाखिल होगई थीं उनके बहकानेसे, गाय का गोशत, पियाज़, लहसन खानेसे पर्हेज़ किया और डाढ़ीका मुंडवाना बिहतर समझा.

खास मुसाहिबोंसे इक्रार लियाजाता था कि बादशाहके वास्ते जान, माल, इज़त, मज्दब, फ़िदा (न्यौछावर) करनेमें कभी कोताही न होगी, इसका नाम ‘चारतर्क’ (चार चीज़ें—छोड़ना) था.

आदमीके मरनेपर खाना पकाना बिल्कुल फुज़ूल समझा गया. मामा और चाचाकी बेटियोंसे विवाह करना बुरा समझा क्योंकि स्वाहिश कम होती है, इसी तरह लड़के के लिये सोलह वर्ष और लड़कीके लिये चौदह वर्षसे कम उम्रमें विवाह करना मना करदिया क्योंकि ऐसा करनेसे औलाद कमज़ोर होती है.

मर्दोंके लिये सोना और रेशम पहरना मामूली बात होगई.

मज्दबी अरबी किताबें पढ़ना बन्द और हिक्मत, तवारीख़, शेर, हिसाब वगैरह सीखना जुरूर होगया”.

पृष्ठ २४३—

“मुहम्मद, मुस्तफ़ा वगैरह अरबी नाम छोड़कर तुर्की शब्द पसन्द कियेगये, लेकिन यह भी मुनासिब था कि नालायक लोग अच्छे नामसे न पुकारे जाएं”.

पृष्ठ २४६—

“हिज्री ९९१ [वि० १६४० = ई० १५८३] में कई घड़न्तें हुईं— रविवार के दिन तमाम मुल्कमें जानवर मारना मना करदिया गया और अपनी पैदाइशके महीनेमें भी यही हुक्म दिया”.

छ : महीनेसे ज़ियादा तक आप भी गोश्त नहीं खाते थे और ऐसा इरादा था कि धीरे धीरे बिल्कुल गोश्त खाना छोड़ दिया जावे.

मस्जिद और मन्दिरोंमें फ़राशख़ाने और चौकीख़ाने नज़र आते थे, शहरके अन्दर कब्र बनाना मना था.

शहरके बाहर दो महल बनवाये गये, जिनमेंसे हिन्दू और मुसलमान फ़कीरोंको खाना दिया जाता था; इन मकानोंमें से एकका नाम “खैरपुरा” और दूसरेका “धर्मपुरा” रक्खा गया”.

“हिज्री ९९२ [वि० १६४१ = ई० १५८४] में गुम्बदकी शक़का खेमा जो फ़रंगियोंका बनाया हुआ है जश्नके लिये खड़ा किया गया, खास मुसाहिबोंको बादशाहकी तस्वीरें मिलीं, कि सोने और जवाहिरमें जड़वाकर पगड़ीपर बाँधा करें”.

पृष्ठ २५३—

“हिज्री ९९२ [वि० १६४१ = ई० १५८४] में अपने जारी किये हुए कायदेके मुवाफ़िक़ सोलह वर्षकी उम्रमें बड़े शाहज़ादे सलीमका विवाह राजा भगवानदासकी बेटीके साथकिया”.

पृष्ठ २५८—

“हिज्री ९९५ [वि० १६४४ = ई० १५८७] में यह घड़न्त हुई, कि हर आदमी एक औरतसे ज़ियादा विवाह न करे, लेकिन उस सूरतमें करसक्ता है कि औरत बाभ हो”

विधवा औरतें अगर विवाह करना चाहें तो कोई उनको न रोके, परन्तु चालीस वर्षसे ज़ियादा उम्रमें ऐसा न किया जावे.

हिन्दू मुर्देके साथ कोई औरत ज़बर्दस्तीसे सती न कीजायाकरे, और कम उम्रवाली जो स्वामी (खाविन्द) के पास नगई हो उसको सती होनेसे ज़बर्दस्ती रोका जावे. इसके बख़िलाफ़ करनेवाले, जातसे बाहर निकाले जावेंगे”.

पृष्ठ २६६—

“हिज्री ९९९ [वि० १६४८ = ई० १५९१] में भैंस, भेड़, घोड़े और ऊंटका गोश्त खाना हराम किया गया, कई कई भांति (मुख्तलिफ़ किस्म) के रुपये और अशर्फियोंको गलवाकर चांदी सोनेके भावमें बेचनेका हुकम दिया, एक बज़नका रुपया और अशर्फी जारी हुई”—

पृष्ठ २६६—

हमारी रायमें बादशाहने कई कायदे अच्छे अच्छे जारी किये थे.

शैख़ अबुल्फ़ज़ल और राजा टोडरमल्लने मालका इन्तिज़ाम बहुत उम्दा

किया था, उन्होंने पटैल पटवारी और कानूंगो, हर एक गांवमें मुकर्रर करदिये. हर जगह पर फौजदारी और दीवानीका इन्तिजाम भी अच्छा किया.

इज्जतदार अमीरोंके लिये मन्सब, जो पहिले बादशाहोंके वक्तमें एक खिताबी नाम गिने जाते थे; इस बादशाहने उनको कायदेके साथ जारी किया.

(१) माही मरातिबका बयान—

[स्लीमन् साहिबकी किताबकी पहिली जिल्दके पृष्ठ १७६ से लिखा जाता है]
जब ईरानके बादशाह नौशीरवांका पोता “खुस्रौ पर्वेज” ईरानसे निकाला गया और उसने यूनानमें जाकर “शीरी” नाम एक शाहजादीसे शादी करके अपनी ससुराल की फौजी मददसे ईसवी ५९१ [= वि० ६४८] में ईरानको फिर फ़तह किया, तो उस वक्त ‘चाँद’ मीन राशि यानी ‘माही’ बुर्जमें था, उसने अपने ज्योतिषिके कहनेके मुवाफ़िक़ एक तो चाँद और दूसरी मच्छीकी शक़ बनवाकर अपने सर्दारोंको इज्जतके लिये दी. इस बातके बहुत अर्से बाद दूसरा बादशाह सिंह राशि यानी चाँदके शेर बुर्जमें होनेके वक्त ईरानकी गद्दीपर बैठा. उसने एक तरफ़ शेरका सिर, दूसरी तरफ़ चाँद और बीचमें मच्छीकी शक़ बनाकर अपने सर्दारोंको इज्जतके तौर दी. जब मुग़लोंने हिन्दुस्तानको फ़तह किया तो ईरानके पड़ोसी होनेके कारण “माही मरातिब” की रस्म इन लोगोंने यहां भी जारी की.

मन्सबका बयान.

अबुल्फज़ल अपनी किताब आईनअकबरीकी पहिली जिल्दके १४० पृष्ठमें लिखता है—कि बादशाहने इन्तिजामके लिये दससे लेकर दसहज़ार तक मन्सब जारी किये.

पांच हज़ारीसे कम मन्सब नौकरोंके लिये, और इससे ज़ियादा दसहज़ारी तक शाहजादोंके लिये थे.

जब मन्सबमें जातकी बराबर सवार हों तो अब्बल दरजेका मन्सबदार उसी तादादी मन्सबमें गिना जावेगा. मन्सबमें जातसे आधे तक सवार हों तो दूसरे दरजेमें शुमार होगा, और मन्सबमें जातसे आधेसे भी कम सवार हों तो तीसरे दरजेका मन्सबदार होगा. मन्सबका पूरा हाल उस नक़्शेसे समझना चाहिये जो यहां लिखाजाताहै:—

(१) “माही” का अर्थ मछली और चाँद वाली चीज़का है.

मन्सबदारोंके कायदेका नक्शा.

मन्सब	घोड़े							हाथी					बारबदारी				कुल मीजान	माहवारी तन्ख्वाह			
	इराकी	दोगले	तुर्की	टट	ताजी	लंगला	मीजान	बेरगीर	सादा	संभोला	करवा	फुंकि या	मीजान	जट	खुबूर	गाड़ी		मीजान	कुल	प्रबल दरजेकी	दूसरे दरजेकी
दसहजारी	६८	६८	१३६	१३६	१३६	१३६	१३६	४०	६०	४०	४०	२०	२००	१६०	४०	३२०	५२०	१४००	६००००	०	०
आठहजारी	५४	५४	१०८	१०८	१०८	१०८	५४०	३५	५०	३६	३४	१५	१००	१३०	३४	२६०	४२४	११३४	५००००	०	०
सातहजारी	४८	४८	९६	९६	९६	९६	४३०	३०	४२	२७	२७	१२	१३८	११०	२७	२२०	३५७	९२५	४५०००	०	०
पांचहजारी	३४	३४	६८	६८	६७	६६	३३७	२०	३०	२०	२०	१०	१००	८०	२०	१६०	२६०	६९७	३००००	२९०००	२८०००
चारहजार नौसी	३३	३३	६७	६७	६६	६५	३३१	२०	३०	१८	१८	१०	९८	७८	१८	१५७	२५८	६८७	२७६००	२७४००	२७३००
चारहजार आठसी	३२	३२	६६	६६	६५	६४	३२६	२०	२८	१८	१८	९	९६	७७	१८	१५२	२५०	६७२	२७०००	२६८००	२६७००
चारहजार सातसी	३१	३१	६५	६५	६३	६२	३१८	१८	२८	१८	१८	९	९४	७५	१८	१५१	२४६	६५८	२६८००	२६६००	२६५००
चारहजार छःसी	३१	३१	६३	६३	६२	६२	३१२	१८	२८	१८	१८	९	९२	७४	१८	१४८	२४४	६४८	२६४००	२६२००	२६१००
चारहजार पांचसी	३१	३०	६१	६१	६१	६१	३०५	१८	२८	१८	१७	८	९०	७२	१८	१४५	२४१	६३६	२६०००	२५८००	२५७००
चारहजार चारसी	३०	२९	६०	६०	५९	५९	२९७	१८	२८	१८	१६	७	८८	७१	१८	१४२	२३२	६१७	२५२००	२५०००	२४८००
चारहजार तीनसी	२९	२८	५९	५९	५८	५८	२९१	१७	२७	१८	१६	७	८६	६९	१८	१३९	२२९	६०६	२४४००	२४२००	२४०००
चारहजार दोसी	२८	२७	५८	५८	५७	५६	२८४	१६	२६	१८	१६	७	८४	६८	१७	१३६	२२४	५९२	२३९००	२३४००	२३२००
चारहजार एकसी	२७	२७	५६	५६	५६	५५	२७७	१६	२६	१८	१६	६	८२	६८	१७	१३३	२२०	५७९	२२८००	२२४००	२२२००
चारहजारी	२७	२७	५४	५४	५४	५४	२७०	१६	२५	१८	१५	६	८०	६५	१७	१३०	२१२	५६२	२२०००	२१८००	२१६००
तीनहजार नौसी	२६	२६	५३	५३	५३	५२	२६३	१६	२४	१८	१५	६	७९	६३	१६	१२७	२१३	५५५	२१४००	२१२००	२११००
तीनहजार आठसी	२६	२६	५१	५१	५१	५१	२५६	१६	२३	१८	१५	६	७८	६२	१६	१२४	२०४	५३८	२०८००	२०६००	२०५००
तीनहजार सातसी	२५	२५	५०	५०	५०	४९	२४९	१६	२३	१७	१५	६	७७	६०	१६	१२१	२०१	५२७	२०२००	२००००	१९९००

मन्सबदारोंके कायदेका नक्शा.

मन्सब	घोड़े						हाथी						बारबदारी				कुलमजान	माहवारी तन्ख्वाह					
	हरकी	दोगले	तुकी	टट	ताजी	जंगला	मीजान	घेरगीर	सारा	संभोजा	करवा	कुंदकिशा	मीजान	कंट	खुचर	गाडी		मीजान	प्रववा	दरजेकी	इसरे	दरजेकी	तीसरे
तीनहजार छः सौ	२५	२५	४८	४८	४८	४७	२४२	१६	२३	१७	१४	६	७६	५८	१५	११८	१८६	५१४	१८६००	१८४००	१८३००	१८३००	१८३००
तीनहजार पांचसौ	२४	२४	४७	४७	४७	४६	२३५	१६	२३	१७	१४	५	७५	५७	१५	११५	१८३	५०३	१८०००	१८८००	१८७००	१८७००	१८७००
तीनहजार चारसौ	२३	२३	४६	४६	४६	४४	२२८	१६	२२	१७	१४	५	७४	५६	१५	११२	१८४	४८६	१८६००	१८४००	१८३००	१८३००	१८३००
तीनहजार तीनसौ	२२	२२	४५	४५	४४	४३	२२१	१५	२२	१७	१४	५	७३	५४	१५	१०८	१८१	४७५	१८२००	१८०००	१७९००	१७९००	१७९००
तीनहजार दोसौ	२१	२१	४४	४४	४२	४२	२१४	१५	२१	१७	१४	५	७२	५३	१४	१०६	१७६	४६२	१७८००	१७६००	१७५००	१७५००	१७५००
तीनहजार एकसौ	२०	२०	४३	४३	४१	४०	२०७	१५	२०	१७	१४	५	७१	५१	१४	१०३	१७३	४५१	१७४००	१७२००	१७१००	१७१००	१७१००
तीनहजार	२०	२०	४०	४०	४०	४०	२००	१५	२०	१६	१४	५	७०	५०	१४	१००	१६४	४३४	१७०००	१६८००	१६७००	१६७००	१६७००
दोहजार नौसौ	१८	१८	३८	३८	३८	३८	१८४	१५	१८	१६	१३	४	६७	४८	१३	९६	१५८	४१८	१६४००	१६२००	१६१००	१६१००	१६१००
दोहजार आठसौ	१८	१८	३८	३८	३८	३८	१८८	१५	१८	१४	१२	३	६२	४६	१२	९२	१५२	४०२	१५८००	१५६००	१५५००	१५५००	१५५००
दोहजार सातसौ	१७	१७	३७	३७	३७	३७	१८२	१४	१७	१३	११	३	५८	४४	११	८८	१४६	३८६	१५२००	१५०००	१४९००	१४९००	१४९००
दोहजार छः सौ	१७	१७	३६	३६	३५	३५	१७६	१३	१५	१२	११	३	५४	४२	१०	८४	१४०	३७०	१४६००	१४४००	१४३००	१४३००	१४३००
दोहजार पांचसौ	१७	१७	३४	३४	३४	३४	१७०	१२	१४	१२	१०	२	५०	४०	१०	८०	१३०	३५०	१४०००	१३८००	१३७००	१३७००	१३७००
दोहजार चारसौ	१७	१७	३३	३३	३३	३३	१६६	१२	१३	११	१०	२	४८	३८	९	७८	१२५	३३८	१३६००	१३४००	१३३००	१३३००	१३३००
दोहजार तीनसौ	१६	१६	३२	३२	३२	३२	१६२	१२	१२	१०	१०	२	४६	३६	८	७४	१२०	३२८	१३२००	१३०००	१२९००	१२९००	१२९००
दोहजार दोसौ	१६	१६	३२	३२	३१	३१	१५८	११	१२	९	९	२	४३	३४	८	७१	११९	३१२	१२८००	१२६००	१२५००	१२५००	१२५००
दोहजार एकसौ	१५	१५	३१	३१	३१	३१	१५४	१०	१२	९	९	२	४२	३२	७	६४	१०६	३०२	१२४००	१२२००	१२१००	१२१००	१२१००
दोहजार	१५	१५	३०	३०	३०	३०	१५०	१०	१२	९	७	२	४०	३०	७	६०	९७	२८७	१२०००	११८००	११८००	११८००	११८००

मन्सबदारोंके कायदेका नक्शा.

मन्सब	घोड़े								हाथी				बारबर्दारी				मीजाज कुल	माहवारी तनख्वाह		
	पराकी	दोगले	सुनी	टङ्गे	तानी	जंगला	मीजाज	मेरगीर	सादा	संभोला	करवा	कुदुकिवा	मीजाज	कंट	खुचर	गाडी		मीजाज	प्रवब दरजेकी	दूसरे दरजेकी
एकहज़ार नौसी	१४	१४	२८	२८	२८	३०	१४५	१०	१२	८	७	२	४०	२८ वर	६	८८	२८४	११७५० रु०	११६५० रु०	११४५० रु०
एकहज़ार पाठसी	१४	१३	२८	२८	२८	२८	१४०	१०	११	८	७	२	४८	२७ वर	६	८२	२७२	११४०० रु०	११३५० रु०	११३०० रु०
एकहज़ार सातसी	१४	१३	२७	२७	२७	२७	१३५	८	११	८	७	२	४८	२६ वर	५	८१	२६४	११२२५ रु०	११००० रु०	१०८०० रु०
एकहज़ार छःसी	१३	१२	२६	२६	२५	२५	१२८	८	१०	८	७	२	४७	२५ वर	५	८५	२५०	१०६०० रु०	१०४०० रु०	१०२०० रु०
एकहज़ार पांचसी	१२	१२	२४	२४	२४	२४	१२०	८	१०	८	७	२	४५	२४ वर	५	७८	२३४	१०००० रु०	९८०० रु०	९७०० रु०
एकहज़ार चारसी	१२	१२	२४	२४	२३	२३	११८	८	१०	८	७	२	४५	२३ वर	४	८८	२२५	९६०० रु०	९४०० रु०	९३०० रु०
एकहज़ार तीनसी	१२	१२	२३	२३	२३	२२	११५	८	१०	७	७	२	४४	२३ वर	४	८८	२२७	९२०० रु०	९१०० रु०	९०५० रु०
एकहज़ार दो सी	११	११	२२	२२	२२	२२	११०	७	९	७	७	२	४२	२२ वर	४	८६	२१८	९००० रु०	८९०० रु०	८८०० रु०
एकहज़ार एकसी	११	११	२२	२२	२१	२१	१०८	७	९	७	७	२	४२	२२ वर	४	८४	२१२	८७०० रु०	८५०० रु०	८४०० रु०
एकहज़ारी	१०	१०	२१	२१	२१	२१	१०४	७	८	६	७	२	४०	२१ वर	४	८२	२०२	८२०० रु०	८१०० रु०	८००० रु०
नौसीवाले	१०	१०	२०	२०	२०	२०	१००	७	८	६	७	२	४०	२० वर	४	८०	१९४	७७०० रु०	७६०० रु०	७५०० रु०
पाठसीवाले	१०	८	१७	१७	१६	१६	९२	७	८	६	५	२	३८	१७ वर	३	७४	१६८	५००० रु०	४७०० रु०	४४०० रु०
सातसीवाले	६	८	१३	१३	१४	७	६१	४	५	५	४	१	१८	१५ वर	३	७७	१२७	४००० रु०	३७०० रु०	३६०० रु०
छःसीवाले	५	७	८	८	४	४	५८	४	५	५	४	१	१५	१४ वर	२	७९	९२	३५०० रु०	३२०० रु०	३००० रु०
पांचसीवाले	४	७	८	८	४	४	४४	४	५	५	४	१	११	१३ वर	२	७५	७५	२८०० रु०	२७५० रु०	२७०० रु०
साढ़े चारसीवाले	४	६	८	८	४	३	३३	३	४	४	३	१	१०	१० वर	०	७२	६५	२५०० रु०	२३०० रु०	२१०० रु०
चारसीवाले	३	४	५	५	३	३	२०	२	३	३	२	१	१०	५ वर	०	७२	५७	२००० रु०	१७०० रु०	१५०० रु०

मन्सबदारोंके कायदेका नक्शा.

मन्सब	घोड़े					हाथी					बारबदारी				कुल मीजान	माहवारी तन्व्वाह					
	इराकी	दोगले	तुर्की	टहू	ताजी	बंगला	मीजान	बेरीर	सादा	संभोला	करवा	फुंदकिया	मीजान	फंट		खुचर	गाड़ी	मीजान	प्रव्वल दरजेकी	सूसरे दरजेकी	तीसरे दरजेकी
साढ़ तीनसी वाले	३	४	४	४	२	०	१७	१	१	२	२	१	७	४	०	११	१७	४१	१४५०	१३७५	१३५०
तीनसी वाले	३	३	३	४	२	०	१५	१	१	२	२	१	७	४	०	१०	१४	३६	१३००	१२५०	१२००
चारसी वाले	३	३	३	४	२	०	१५	१	१	२	२	०	६	३	०	८	१३	३४	११५०	११००	१०००
दोसी वाले	२	३	३	३	२	०	१३	१	१	१	२	०	५	३	०	७	१०	२८	८७५	८५०	८००
ढेड़सी वाले	२	३	३	३	२	०	१३	१	२	१	२	०	६	४	०	६	१०	२८	८७५	८५०	८००
एकसी पचसी	२	२	२	३	२	०	११	०	१	१	२	०	४	२	०	५	८	२३	७८०	७६०	७५०
एकसीबीसी	२	२	२	३	२	०	११	०	१	१	२	०	४	२	०	५	८	२३	७४५	७४०	७३०
एकसी वाले	२	२	२	२	२	०	१०	०	१	१	१	०	३	२	०	५	७	२०	७००	६००	५००
चारबीसी	२	१	२	२	१	१	८	०	०	१	२	०	३	२	०	३	५	१७	४१०	३८०	३५०
तीनबीसी	१	१	२	२	१	१	८	०	०	१	१	०	२	१	०	२	५	१५	३०१	२८५	२७०
पचासी	१	१	२	२	१	१	८	०	०	१	१	०	२	१	०	२	५	१५	२५०	२४०	२३०
दोबीसी	१	२	२	१	१	१	८	०	१	०	०	०	१	१	०	१	४	१३	२२३	२००	१८५
तीर बन्द	०	१	१	२	१	१	६	०	०	०	१	०	१	१	०	१	३	१०	१७५	१६५	१५५
एकबीसी	०	१	१	१	२	०	५	०	०	०	१	०	१	१	०	१	३	८	१३५	१२५	११५
दस वाले	०	०	२	२	०	०	४	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	४	१००	८५	७५



मन्सबके बयानके बाद उन मन्सबदारोंके नाम लिखेजाते हैं जो अबुल्फज्जले 'आईन अकबरी' पहिली जिल्दके १८१ पृष्ठसे १८६ तक हिज्री १००३ [वि० १६५२ = ई० ११९५] में लिखे हैं, इस वर्षसे पहिले जो मरचुके और जो इस सालमें ज़िन्दा थे उनमेंसे मरे हुआँके ५०० मन्सबसे ऊपर, और ज़िन्दा लोगोंके २०० मन्सबसे ज़ियादा वालों तकके नाम नीचे लिखेजाते हैं—

अकबर बादशाहके मन्सब्दार सर्दार.

(दसहज़ारी.)	१५ शम्सुद्दीन अत्काखां.
१ शाहज़ादा सलीम, बादशाह- का बड़ा बेटा.	१६ मीरमुहम्मद— खानेकलां.
(आठहज़ारी.)	१७ शरफुद्दीनहुसैनमिर्जा अहरारी.
२ शाहज़ादा शाहमुराद, बाद- शाहका दूसरा बेटा.	१८ अत्काखांका बेटा यूसुफ़ मुह- म्मदखां.
(सातहज़ारी.)	१९ अद्दहमखां धायभाई.
३ शाहज़ादा दान्याल, बादशा- हका तीसरा बेटा.	२० पौर मुहम्मदखां शिर्वानी.
(पांच हज़ारी.)	२१ अत्काखांका बेटा खाने आज- म मिर्जा.
४ सुल्तान खुस्त्रौ, बड़े शाहज़ादे- का बेटा.	२२ बहादुरखां.
५ मिर्जा सुलैमान तीमूरी.	२३ पृथ्वीराज कछवाहेका बेटा- राजा भारमल्ल.
६ मिर्जा इब्राहीम तीमूरी.	२४ हुसैन कुली— खानेजहां.
७ मिर्जा शाहरुख़ तीमूरी	२५ सईदखां.
८ मिर्जा मुजफ़्फ़र हुसैन सफ़वी ईरानी.	२६ शिहाबुद्दीन अहमदखां.
९ मिर्जा रुस्तम ईरानी.	२७ राजा भारमल्लका बेटा— राजा भगवानदास.
१० बैरमखां खानखानां.	२८ कुतुबुद्दीनखां.
११ बैरमबेगका बेटा मुनइमखां.	२९ बैरमखांका बेटा— अब्दुरहीम खानखानां.
१२ तर्दीबेगखां तुर्किस्तानी.	३० राजा भगवानदासका बेटा- राजा मानसिंह.
१३ खानेजमां शीबानी.	३१ मुहम्मद कुलीखां बर्लास.
१४ अब्दुल्लाखां उज्बक.	३२ तरसूखां.

- ३३ कियारखां गुंग.
(साढेचार हजारी.)
- ३४ जैनखां हवीं.
- ३५ मिर्जा यूसुफ़खां रजवी.
(चार हजारी.)
- ३६ महदी कासिमखां.
- ३७ मुजफ़रखां तबेनी.
- ३८ सैफ़खां कूका.
- ३९ राजा टोडरमल्ल खत्री.
- ४० मुहम्मद कासिमखां नेशापुरी.
- ४१ वजीरखां.
- ४२ किलीचखां.
- ४३ सादिकखां.
- ४४ कल्यानमल्ल बीकानेरीका बेटा—
राव रायसिंह.
(साढेतीन हजारी.)
- ४५ मिर्जा जानीबेग.
- ४६ सिकन्दरखां उज्बक.
- ४७ अब्दुल्मजीद आसिफ़खां.
- ४८ मजूनखां काक्शाल.
- ४९ मुक़ीम शुजाअतखां अरबी.
- ५० शाहबदाग़खां समक़न्दी.
- ५१ हुसैनखां.
- ५२ मुरादखां.
- ५३ हाजीमुहम्मदखां सीस्तानी.
- ५४ सुल्तानअली अफ़ज़लख़.
- ५५ शाहबेग़खां अलीमबेग़—ख़ान
आलम
- ५६ दर्याई दारोग़ा क़सिमखां.

- ५७ वाकीखां.
- ५८ मीर मुइज़ुल्मुल्क.
- ५९ मीर अलीअकबर.
- ६० शरीफ़खां.
(ढाई हजारी.)
- ६१ इब्राहीमखां शीबानी.
- ६२ जलालुद्दीन खुरासानी.
- ६३ हैदर मुहम्मदखां.
- ६४ एतिमादखां गुजराती.
- ६५ पाइन्दाखां मुग़ल.
- ६६ राजाभारमल्लकाबेटा-जगन्नाथ.
- ६७ मख़्सूसखां.
- ६८ शैख़ मुबारिकका बेटा—
अबुल्फ़ज़ल.
(दोहजारी.)
- ६९ इस्माईलखां.
- ७० मीर उलूस.
- ७१ अशरफ़खां सब्जवारी.
- ७२ सय्यद महमूद बारह
- ७३ अब्दुल्लाखां मुग़ल.
- ७४ शैख़ मुहम्मद बुख़ारी.
- ७५ सय्यद हामिद बुख़ारी.
- ७६ रुस्तमखां तुर्किस्तानी.
- ७७ शहबाजखां कम्बो.
- ७८ दर्वेश मुहम्मद उज्बक.
- ७९ शैख़ इब्राहीम सीकरीवाला.
- ८० अब्दुल्लतीफ़खां.
- ८१ एतिबारखां स्वाजासरा.
- ८२ राजा बीरबल ब्राह्मण.

- ८३ इख्लासखां स्वाजासरा.
 ८४ हुमायूँका गुलाम- बहादुरखां.
 ८५ शाह फख्रुद्दीन.
 ८६ राजा रामचन्द्र बघेला.
 ८७ लश्करखां खुरासानी.
 ८८ सय्यद अहमद बारह.
 ८९ काकड़ अलीखां चिश्ती.
 ९० बीकानेरका राव कल्याणमल्ल.
 ९१ ताहिरखां.
 ९२ शाह मुहम्मदखां कलाती.
 ९३ बूंदीका राव सुर्जण हाड़ा.
 ९४ शाहमखां जलाइर.
 ९५ जअफरबेग आसिफखां.

(डेढ़ हजारी.)

- ९६ शैख फरीद बुखारी.
 ९७ हलीमबेगका बेटा समानजीखां
 ९८ तर्दीबेग.
 ९९ हुमायूँका गुलाम- मिहतरखां.
 १०० रामपुरेका रावदुर्गा सीसोदिया.
 १०१ राजा भगवानदासका बेटा मा-
 धवसिंह.

- १०२ सय्यद कासिम.

(एक हजारी दोसौ मन्सब वाले.)

- १०३ रायशाल शैखावत दर्बारी.

(एक हजारी.)

- १०४ मुहिब्वे अलीखां.
 १०५ सुल्तान् स्वाजा.
 १०६ स्वाजा अब्दुल्ला.
 १०७ स्वाजा जहां.
 १०८ तातारखां खुरासानी.

- १०९ हकीम अबुलफ़ह गीलानी.
 ११० शैख जमाल.
 १११ जअफरखां.
 ११२ शाह फत्ता.
 ११३ असदुल्लाखां तब्रेजी.
 ११४ राजा भारमल्लका भाई- रूपसी
 बैरागी.
 ११५ एतिमादखां स्वाजासरा.
 ११६ बाज बहादुर.
 ११७ राव मालदेवका बेटा- मोटा
 राजा उदयसिंह.
 ११८ शाह मन्सूर शीराजी.
 ११९ कल्लक कदमखां.
 १२० आदिलखां.
 १२१ गयासुद्दीनखां.
 १२२ फरुख हुसैनखां उज्बक.
 १२३ मुईनखां.
 १२४ मुहम्मद कुली तौकबाय.
 १२५ मिहर अलीखां सल्दोज़.
 १२६ स्वाजा इब्राहिम बदख्शी.
 १२७ सलीमखां काकड़.
 १२८ हबीब अलीखां कोलाबी.
 १२९ राजा भारामल्लका भाई जग-
 माल.
 १३० अलगखां, गुजराती खानह-
 जाद.
 १३१ मक्सूद अलीखां कोर.
 १३२ कुबूलखां.
 (नौसौ मन्सबवाले.)
 १३३ कोचक अलीखां कोलाबी.

- १३४ हुमायूँका- गुलाम सब्दलखां.
 १३५ अमरोहेका सय्यद मुहम्मद,
 मीरअद्ल.
 १३६ रजवीखां रजवी.
 १३७ मिर्जा निजाबतखां.
 १३८ सय्यद हाशिम बारह.
 १३९ गाजीखां बदख्शी.
 १४० फरहतखां.
 १४१ रूमीखां.
 १४२ गोर्चीका बेटा समान्जीखां.
 १४३ शाहबेगखां.
 १४४ मिर्जा हुसैनखां.
 १४५ हकीम जम्बील.
 १४६ खुदावन्दखां दखनी.
 १४७ मिर्जा अलीखां.
 १४८ सआदत मिर्जा.
 १४९ शिमालखां चेला.
 १५० शाह गाजीखां.
 १५१ अफाजिल्खां.
 १५२ मअसूमखां.
 १५३ तोलकखां.
 १५४ खाजा शमसुद्दीन खाफ़ी.
 १५५ राजा मानसिंहका बड़ा बेटा
 जगतसिंह.
 १५६ नकीबखां.
 १५७ मीर मुर्तजा.
 १५८ अअज़म मिर्जाका बेटा-श-
 मसी
 १५९ मीर जमालुद्दीन हुसैन.
 १६० सय्यद राजू बारह.

- १६१ मीर शरीफ़ आमिली.
 १६२ शेरोयाखां.
 १६३ नज़रबेगउज्बक.
 १६४ जलालखां ककखड़.
 १६५ ताशबेगखां मुग़ल.
 १६६ शैख़ अब्दुल्ला ग्वालियरी.
 १६७ राजा आसकर्ण कछवाहेका
 बेटा-राजसिंह.
 १६८ राव सुरजणका बेटा-राव भोज.
 (आठसौ मन्सबवाले.)
 १६९ शेर खाजा.
 १७० अअज़म मिर्जाका बेटा खुर्रम.
 (सातसौ मन्सबवाले.)
 १७१ कुरैश सुल्तान.
 १७२ करा बहादुर.
 १७३ मुजफ़्फ़र हुसैन मिर्जा.
 १७४ कवीजौकखां उज्बक.
 १७५ सुल्तान अब्दुल्ला.
 १७६ मिर्जा अब्दुर्रहमान.
 १७७ क़ियाखां.
 १७८ बारखां.
 १७९ अब्दुर्रहमान.
 १८० कासिमअलीखां.
 १८१ बाजबहादुरखां.
 १८२ सय्यद अब्दुल्लाखां.
 १८३ टोडरमल्लका बेटा-बिहार.
 १८४ अहमदबेग काबुली.
 १८५ हकीम अली ईरानी.
 १८६ गूजरखां.
 १८७ सद्रेजहां मुफ़्ती.

- १८८ तख्ताबेग काबुली.
 १८९ राव पितृदास खत्री.
 १९० शैख अब्दुरहीम.
 १९१ मेदिनीराय चहुवान.
 १९२ अबुल् कासिम तम्कीन्.
 १९३ वजीरबेग जमील.
 १९४ ताहिर सैफुल् मुल्क.
 १९५ बाबू मंगली.
 (छः सौ मन्सबवाले.)
 १९६ मुहम्मद कुली तुर्कमान.
 १९७ इस्तिथार बेग.
 १९८ हकीम हुमाम गीलानी.
 १९९ खाने अञ्जमका बेटा-मिर्जा-
 नूर.

(पांचसौ मन्सबवाले.)

- २०० बाल्तूखां.
 २०१ मीरखां बहादुर.
 २०२ लालखां.
 २०३ शैख अहमद सलीम.
 २०४ सिकन्दर बेग.
 २०५ बेग नौरसखां.
 २०६ जलालखां कोर्ची.
 २०७ परमानन्द खत्री.
 २०८ तीमूरखां यक्का.
 २०९ सानी हवीं.
 २१० सय्यद जलाल बारह.
 २११ जगमाल पुँवार.
 २१२ हुसैन बेग.
 २१३ हुसैनखां पन्नी.
 २१४ सय्यद छजू बारह.

- २१५ मुन्सिफ़खां हवीं.
 २१६ काजीखां बख्शी.
 २१७ हाजी यूसुफ़खां.
 २१८ रावल भीम जैसलमेरी.
 २१९ हाशिमबेग.
 २२० मिर्जा फ़रेदू.
 २२१ यूसुफ़खां कश्मीरी.
 २२२ पूर किलीच.
 २२३ मीर अब्दुल हय्य.
 २२४ शाह कुलीखां.
 २२५ फ़रुख़खां.
 २२६ खाने अञ्जमका बेटा-शादमां.
 २२७ हकीम ऐनुल्मुल्क शीराजी.
 २२८ जांशबहादुर मुग़ल.
 २२९ मीर ताहिर.
 २३० मिर्जा अलीबेग.
 २३१ रामदास कछवाहा.
 २३२ मुहम्मदखां नियाजी.
 २३३ अबुल् मुजफ़्फ़र.
 २३४ ख़्वाजगी मुहम्मद हुसैन.
 २३५ अबुल् कासिम.
 २३६ कमरखां.
 २३७ राजा मानसिंहका बेटा-अर्जुन-
 सिंह.
 २३८ राजा मानसिंहका बेटा सबल-
 सिंह.
 २३९ मुस्तफ़ा ग़लज़ई.
 २४० नज़रखां.
 २४१ मधुकरका बेटा-रामचन्द्र.
 २४२ राजा मुकुटमणि भदौरिया.

- २४३ उड़ीसेका जमींदार रामचन्द्र.
 २४४ अमरोहेके सय्यद मुहम्मदका
 बेटा-अबुल् कासिम.
 २४५ रायसिंह बीकानेरीका बेटा-
 दलपत.

(चारसौ मन्सबवाले.)

- २४६ अबुल्फजलका भाई शैख
 फैजी.
 २४७ हकीम मिसरी.
 २४८ मिर्जाखांका बेटा-ईरज.
 २४९ राजा मानसिंहका बेटा-शक्ति-
 सिंह.
 २५० मिर्जा अजमका बेटा-अ-
 ब्दुल्लाखां.
 २५१ अली मुहम्मद अस्प.
 २५२ मिर्जा मुहम्मद.
 २५३ शैख बायजीद सीकरीवाला.
 २५४ गजनीखां जालौरी.
 २५५ कजक स्वाजा.
 २५६ शेरखां मुगल.
 २५७ फतहुल्ला.
 २५८ लूणकर्णका बेटा-राव मनोहर.
 २५९ स्वाजा अब्दुस्समद.
 २६० राजा भारमल्लका बेटा-सलहदी.
 २६१ रामचन्द्र कछवाहा.
 २६२ बहादुरखां कोरदार.
 २६३ बालका कछवाहा.

(साढ़ेतीनसौ मन्सबवाले.)

- २६४ मिर्जा अबू सईद.

- २६५ मिर्जा संजर.
 २६६ अली मर्दान बहादुर.
 २६७ रजा कुली.
 २६८ शैख खूबू.
 २६९ जियाउल् मुल्क काशी.
 २७० हमजाबेग फरागली.
 २७१ मुस्तारबेग.
 २७२ हैदरअली अरब.
 २७३ पेशरौखां.
 २७४ हाजी हसन कच्चीनी.
 २७५ मीर मुराद.
 २७६ मीर कासिम बदरुगी.
 २७७ बन्दे अली मैदानी.
 २७८ स्वाजगी फतहुल्ला.
 २७९ जाहिद.
 २८० दोस्त.
 २८१ यार.
 २८२ इज्जतुल्ला.

(तीनसौ मन्सबवाले.)

- २८३ अलतून किलीच.
 २८४ सैफुल्ला.
 २८५ चीन किलीच.
 २८६ अबुल् फतह.
 २८७ सय्यद बायजीद बारह.
 २८८ बलभद्र राठौड़.
 २८९ अमरोहेके सय्यद मुहम्मदका
 बेटा-अबुल् मअली.
 २९० बाकिर अन्सारी.
 २९१ बायजीदबेग तुर्कमान.
 २९२ शैख दौलत बस्तियार.

- २९३ हुसैन पगलीवाल.
 २९४ जयमल्लका बेटा—केशवदास.
 २९५ मिर्जाखां.
 २९६ मुजफ्फर.
 २९७ तुलसीदास जादव.
 २९८ रहमतखां.
 २९९ अहमद कासिम कूका.
 ३०० बहादुर गोहिलोत.
 ३०१ दौलतखां लोधी.
 ३०२ शाहमुहम्मद.
 ३०३ हसनखां मियानह.
 ३०४ ताहिरबेग.
 ३०५ कृष्णदास तँवर.
 ३०६ मानसिंह कछवाहा.
 ३०७ मीर गदाई.
 ३०८ कासिम स्वाजा.
 ३०९ नादेअली मैदानी.
 ३१० उडीसेका जमींदार नीलकण्ठ.
 ३११ गयासबेग तहरानी.
 ३१२ स्वाजा शरफ़.
 ३१३ शरफ़बेग शीराजी.
 ३१४ इब्राहीम कुली.

(द्वाइसौ मन्सब वाले.)

- ३१५ अबुल् फ़तह.
 ३१६ बेग मुहम्मद तौक़बाय.
 ३१७ इमामकुली शिग़ाली.
 ३१८ सफ़दरबेग.
 ३१९ स्वाजा सुलैमान
 ३२० बरखुर्दार.
 ३२१ मीर मअसूम भकरी.

- ३२२ स्वाजा मलिक.
 ३२३ राय रामदास दीवान.
 ३२४ शाह मुहम्मद.
 ३२५ रहिम कुली.
 ३२६ शेरबेग.

(दोसौ मन्सब वाले.)

- ३२७ इफ़ितख़ारबेग.
 ३२८ राजा भगवानदासका बेटा
 प्रतापसिंह.
 ३२९ हुसैनखां क़ब्ज़ीनी.
 ३३० यादगार हुसैन.
 ३३१ कामरांबेग गीलानी.
 ३३२ मुहम्मदखां तुर्कमान.
 ३३३ निजामुद्दीन अहमद.
 ३३४ राजा मानका बेटा-जगत्सिंह.
 ३३५ इमादुल् मुल्क.
 ३३६ शरीफ़ सर्मेदी.
 ३३७ करा बहरी.
 ३३८ तातारबेग.
 ३३९ स्वाजा. मुहब्बेअली खाफ़ी.
 ३४० हकीम मुजफ़्फ़र अर्दिस्तानी.
 ३४१ अब्दुस्सुबहान.
 ३४२ कासिमबेग तब्रेजी.
 ३४३ शरीफ़.
 ३४४ तक़िया शुस्तरी.
 ३४५ अब्दुस्समद काशी.
 ३४६ हकीम लुत्फ़ुल्ला.
 ३४७ शेर अफ़ग़ान.
 ३४८ अमानुल्लाखां.
 ३४९ सलीम कुली.

- | | |
|---|-------------------------------|
| ३५० खलील कुली. | ३७७ मुकीमखां. |
| ३५१ वली बेग. | ३७८ लाला-राजा बीरबलका बेटा. |
| ३५२ बेग मुहम्मद. | ३८९ यूसुफ़ कश्मीरी. |
| ३५३ मीरखां. | ३८० जय-यसावल. |
| ३५४ सरमस्तखां. | ३८१ हैदर दोस्त. |
| ३५५ अमरोहेके सय्यद मुहम्मदका
बेटा-अबुल् हसन. | ३८२ दोस्त मुहम्मद. |
| ३५६ अमरोहेका सय्यद अब्दुल-
वाहिद. | ३८३ शाहरुख. |
| ३५७ स्वाजाबेग. | ३८४ शाह मुहम्मद. |
| ३५८ सगरा-राना प्रतापका भाई. | ३८५ सांवलदास जादव. |
| ३५९ शादीबे उज्बक. | ३८६ स्वाजा जहीरुद्दीन. |
| ३६० बाकीबेग. | ३८७ मीर अबुल् कासिम. |
| ३६१ नौमानबेग. | ३८८ हाजी अर्दिस्तानी. |
| ३६२ शैख कबीर चिश्ती. | ३८९ मुहम्मदखां. |
| ३६३ मिर्जा स्वाजा. | ३९० स्वाजा मुकीम. |
| ३६४ मिर्जा शरीफ़. | ३९१ कादिर अली. |
| ३६५ शुक्रुल्ला. | ३९२ फ़ीरोज़खां. |
| ३६६ मीर अब्दुल मोमिन. | ३९३ मीर शरीफ़ कोलाबी. |
| ३६७ लश्करी. | ३९४ बहादुरखां बिल्लोच. |
| ३६८ मुहम्मद अली हाजी. | ३९५ केशवदास राठौड़. |
| ३६९ मथुरादास खत्री. | ३९६ शेर मुहम्मद. |
| ३७० सुथरादास. | ३९७ अली कुली. |
| ३७१ मीर मुराद. | ३९८ सय्यद लाद बारह. |
| ३७२ कल्ला कल्लावाहा. | ३९९ जैनुद्दीन अली. |
| ३७३ सय्यद दर्वेश. | ४०० नसीर मुबीन. |
| ३७४ जुनैद मडल. | ४०१ सांख पुंवार. |
| ३७५ सय्यद अबू इस्हाक़. | ४०२ काबिल. |
| ३७६ फ़तहखां चीताबान. | ४०३ उड़ीसेका ज़मींदार ओडण्ड. |
| | ४०४ उड़ीसेका ज़मींदार सुन्दर. |
| | ४०५ पूरम, इब्राहीमका धायभाई. |

अकबर बादशाहने अपने नवें जुलूसमें सब रअग्रय्यतसे जिज़्या (१) लेना मुआफ़ किया, और कहा कि-बादशाह सब रअग्रय्यतका निगहवान है, खज़ानेमें किसी चीज़की कमी नहीं, तो इस लागतके लेनेकी भी जरूरत नहीं है. हिज्री ९९४ [वि० १६४३ = ई० १५८६] में जब अकाल पड़ा तो बादशाहने रअग्रय्यतसे महसूलका छठा हिस्सा छोड़दिया.

“जब हिज्री ९७७ तारीख २३ रमज़ान [वि० १६२६ चैत्र कृष्ण ९ = ई० १५७० ता० २८ फ़ेब्रुअरी] को जेज़्विट् पादरी रोडोल्फो एका वाइवा, एन्टोनियो डी मौन्सिरैटी, फ्रैन्सिस्को एनरिक्स, फ़हपुर सीकरीमें बादशाह अकबरके पास पहुंचे और मर्यम् और क्रॉसपर चढ़ेहुए ईसाकी तस्वीरें पेश कीं तो बादशाहने हिन्दू, मुसल्मान और ईसाई तीनोंके तरीकेसे उस तस्वीरको तअज़ीम देकर कहा कि खुदाको सब तरह पूजना चाहिये” (२). इस बादशाहने कुछ मज्हबोंका भगड़ा मिटानेको एक जुदा मज्हब चलाना चाहा था.

सलामका तरीका भी बदल दिया था कि एक आदमी “अल्लाहु अकबर” कहता, दूसरा ‘जल्ला जलालुहु’ बोलकर जवाब देता; सब मज्हबोंके तरीके थोड़े थोड़े इस्तिथार करलिये थे कि जिससे सब लोग खुश रहें, तीर्थोंपर जो महसूल दूसरे बादशाहोंने लगाये थे इसने छोड़दिये, और प्रयागमें गंगा जमुनाके संगम पर उस करोत (आरा) को जिससे हिन्दू लोग चिरकर जानदेते थे खराब जानकर तुड़वाडाला, और ज़बर्दस्ती सती करना बन्द किया.

इस बादशाहकी नेकियां और आकिलाना कार्रवाई लिखी जावे तो बहुत फैलाव होगा, अब इसके वक्तकी मुल्की आमदनी लिखीजाती है.

चौदह किरोड़ उन्नीस लाख नौ हजार पांचसौ चौरासी रुपये ज़मीनकी पैदाइश, और सायर, खिराज वगैरह सब मिलाकर बत्तीस किरोड़ रुपयेकी आमदनी थी. अन्तमें इस बादशाहका विश्वास किसी मज्हब पर नहीं रहा था— मिरात वारदातमें लिखा है कि “बादशाह दस्तोंकी बीमारी छः महीने तक रहनेसे मरनेके करीब

(१) जिज़्या, एक तरहका महसूल था जो मुसल्मानोंके पैग़म्बर और उनके ख़लीफ़ाओंके समयमें यहूदी, ईसाई, पार्सी, मूर्तिपूजकोंसे उनकी हिफ़ाज़तके एवज़ लियाजाता था.

हरएक लड़ने वाले काफ़िर, कमउम्र आदमी, औरत, गुलाम, लंगड़े, लुंजे, अन्धे, और दीवाने व बहुत ग़रीब लोगोंसे मुआफ़ था, हरवर्षमें कमदरजेके आदमीसे १२ दिरम याने कल्दार ३ रु० आठआनेके अनुमान और मध्यम दरजेके आदमीसे इसका दूना याने २४ दिरम और अमीर आदमीसे ४८ दिरम लियाजाना मुकर्रर था— तारीख़ मिरात अहमदी जिल्द २.

(२) यह बयान द्यू मरे साहिबकी किताब (डिस्कवरीज़ ऐण्ड ट्रैवलज़ इन् एशिया) की दूसरी जिल्दके पृष्ठ ८९ से लियागया है, जो सन् १८२० ईस्वी में एडिम्बरा में छपी.

होगया, उस समय मिर्जा अजीज खाने अञ्जम कूका और राजा मानसिंह कछवाहा मौजूद थे. खराब हाल देखकर खाने अञ्जमने बादशाहसे मज्हबी कलिमा पढ़ने को कईबार कहा, लेकिन उसने कुछ भी ध्यान न दिया.

फिर खाने अञ्जमके इशारेसे अकलमन्द राजा मानसिंहने अर्जकी कि हम लोगोंने जिदके सबब कुफ़की बातें कुबूल नहीं कररक्खी हैं बल्कि इस कारणसे हिन्दू बनेहुए हैं कि जो अकेले मुसल्मानी कुबूल करलें तौ कौमके लोग हमें छोड़कर अलग होजावें और कोई सद्दार न बनावे, इस भगड़ेके सबब लाचार हैं; वर्ना सब मज्हबोंसे मुसल्मानी मज्हब बिहतर जानते हैं, तकलीफ़की हालतमें हुजूरको ऐसी इबारत जो कि मुक्ति दिलासक्ती है पढ़नी चाहिये. यह बात सुननेसे बादशाह अपना मुंह दूसरी तरफ़को फेरना चाहता था कि दम निकलगया—इस मुआमलेसे खाने अञ्जम और दूसरे बुजुर्ग लोगोंने बादशाहके जनाजेपर नमाज़ रवा न रक्खी, और बिना नमाज़के आगरेसे सिकन्दराबाद लेजाकर दफ़न करदिया, जो आगरेसे अलहदा पुराना शहर था”.

इस बादशाहके समयमें सवारोंकी तनस्वाह पन्द्रह रुपयेसे लेकर २५ रुपये तक, और पैदलोंकी ६ रु० से लेकर १२॥ रु० तक थी; खालिसे और जमींदारोंकी कुछ फौज अबुल्फज़लने चालीस लाखसे ज़ियादा लिखदी है, लेकिन कलमबन्दीकी खास फौज पांच लाख खयाल कीजाती है.

इस बादशाहके मुल्ककी सीमा, जिसने ५० वर्षसे कुछ ज़ियादा हुकूमत की, काबुलसे बंगाला, और कश्मीरसे बरारतक थी.

शेषसंग्रह.

अकबरके जन्मदिनमें तारीखीफ़र्क.

राजपूतानाकी तारीख बनानेके लिये सामान एकट्ठा करनेके वास्ते हिन्दुस्तान के इतिहासोंके देखनेसे पायाजाता है कि अकबर बादशाहके जन्मदिनकी बाबत फ़ारसी तारीख लिखनेवालोंकी राय एकसी नहीं है.

१ अकबरके वज़ीर (शैख) अबुल्फज़लका बयान है कि “हुमायूँकी बेगम हमीदाबानूके पेटसे शाहज़ादे अकबरका जन्म हिज्री ९४९ ता० ५ रजब रविवार [वि० १५९९ कार्तिक शुक्ल ६ = ई० १५४२ ता० १५ अक्टोबर] की रातको अमरकोट में हुआ”— (अकबर नामह जिल्द १ पृष्ठ ३१-५३). परन्तु अबुल्फज़लने इस तारीखका ठीक होना तहकीक़ नहीं किया— वह कहता है कि जब शाहज़ादे

का जन्म हुआ उस वक्त दो ज्योतिषी, मौलाना 'चांद' और 'इल्यास' अमरकोटमें मौजूद थे.

इससे खयाल कियाजाता है कि अबुल्फज़लके लिखनेसे पहिले उन दोनोंका देहान्त हो चुका था— क्योंकि अगर ऐसा न होता तो वह उनसे पूछकर शाहजादे का जन्म दिन लिखता. पैदाइशके वक्त उनके मौजूद होने ही पर अपने लेख को मजबूत न करता.

उसने (अकबरनाममें) शाहजादेकी कई जन्मपत्रियां लिखी हैं, जिनमेंसे कोई यूनानी और कोई हिन्दुस्तानी तरीकेसे बनाई गई है, लेकिन आपसमें एक भी नहीं मिलती, किसीमें सूर्य तुला राशिका और किसीमें वृश्चिकका लिखा है— किसीमें जन्म सिंह लग्न का और किसीमें कन्याका बताया है— अबुल्फज़लने अकबरके सालाना जुलूसके मुताबिक उसके जन्मोत्सवका बयान नहीं किया है.

(२) 'तबकात अकबरी' का लिखनेवाला निजामुद्दीन अहमद बरूशी अकबरके जन्मका दिन वही बतलाता है जो अबुल्फज़लने लिखा, और 'मुन्तख़बुत्तवारीख़' के बनानेवाले मौलवी बदायूनीका बयान भी उसीके मुवाफ़िक है.

इन तीनों शस्त्रोंका लिखना, जो अकबर बादशाहके मोतबर आदमी थे, ठीक और यकीनके लायक मानागया. इसी कारण १ 'इक़्बालनामए जहांगीरी' २ 'तारीख़े फिरिश्ता' ३ 'मुन्तख़बुल्लुबाब' ४ 'सैरुलमुतअस्ख़िरीन' और ५ 'मुलख़सुत्तवारीख़' वगैरहके बनानेवालोंने भी वही लिखदिया.

(३) 'मिराते आफ़ताबनुमा' के बनानेवालेने इस मुआमिलेमें कोई मजबूत राय नहीं दी, सिर्फ़ नीचे लिखेहुए शुब्हेसे वह कहता है कि—

“कई तहरीरोंके मुताबिक़ हिज्री ९४९ में और किसीसे हिज्री ९५० को जलालुद्दीनमुहम्मद अकबरका जन्म अमरकोटमें हमीदाबानूबेगमके पेटसे, जो अहमद जामकी औलादमें थी, हुआ. अकबरनामके बयानसे इस नेक शाहजादेका जन्म अमरकोटमें, हिज्री ९४९ ता० ५ रजब रविवारकी रातको हुआ, जिस समय सूरज वृश्चिक राशिपर था”—

'तज़किरतुल् वाकिआत' (कल्मी किताब ४४ पत्र) का बनानेवाला अकबर जौहर, हुमायूं बादशाहका आफ़ताबची (पानेड़ेका दारोगा) लिखताहै कि “बादशाह हुमायूं अमरकोटसे भकर लेनेके इरादेपर आगे बढ़े, वहांसे १२ कोसपर एक हौजके पास ठहरे थे, जहां सुबहके वक्त अमरकोटसे एक कासिद मुबारिकबादी लाया और अर्ज किया कि बुजुर्ग ख़ुदाने हज़रतके घरमें एक नेकबस्त बेटा इनायत किया. इस

खबरके सुननेसे हज़रत बादशाह बहुत खुश हुए, शाहजादेकी पैदाइशका वक्त हिज्री ९४९ शअबानकी १४ तारीख [वि० १५९९ मार्गशिर शुक्ल १५ = ई० १५४२ ता० २३ नोवेम्बर] शनैश्वरकी रात है- १४ वीं रातके चांदको 'बद्र' कहते हैं, जिस तारीखको शाहजादेकी पैदाइश हुई. 'जलालुद्दीन' और 'बद्रुद्दीन' का एकसाही अर्थ है इस लिये शाहजादेका नाम 'बद्रुद्दीन' और जलालुद्दीन रक्खा; जब हज़रत बादशाह नमाज़ पढ़चुके तब अमीरोंने आकर सलाम किया.

इसके बाद हज़रत बादशाहने इस ताबेदार (जौहर आफ़ताबची) से फ़र्माया कि हमने तुम्हको अमानत सौंपी थी; जवाबमें अर्जकिया कि दुरुस्त है. दुबारा फ़र्माया कि क्या थी ? अर्ज किया कि २०० शाहरुखी रुपये, चांदिके दस्ताने और एक कस्तूरीका नाफ़ा (नाभि) था.

शाहरुखी रुपये और दस्ताने हज़रतके हुकमसे खुदावन्दखांको देदिये. हज़रतने फ़र्माया वह शाहरुखी रुपये व दस्ताने तुमको इनायत किये थे, तुमने किस वास्ते देदिये. ताबेदारने अर्ज किया कि हज़रत बादशाहके हुकमसे दिये. हुकम दिया कि वह कस्तूरीका नाफ़ा ले आओ ! ताबेदारने पेश करदिया. बादशाह ने एक चीनीकी रकाबी मांगी, वह हाज़िर की गई, जिसमें नाफ़ेको तोड़ा; सर्दारोंको बुलाकर वह नाफ़ा बांटदिया, और कहा कि यह हमारे बेटा पैदा होनेकी खुशीका निशान है- तमाम आदमियोंने दुआके साथ मुबारिकबाद दी".

(५) अंग्रेज़ी किताबोंके बनानेवालोंने अबुल्फज़लकी तहरीर यकीनके लायक मानकर उसीके मुवाफ़िक़ लिखदिया है- ज़ियादा तलाश नहीं की, जैसे :-

१ अर्सकिन् साहिबने हिन्दुस्तानके बादशाह बाबर और हुमायूँके बयानमें- जिल्द २ पृष्ठ २५४ - में लिखा है.

२ अलिग्ज़ेंडर डौने हिन्दुस्तानकी तारीख - जिल्द २ पृष्ठ १६०- में

३ इलियट साहिबकी - हिन्दुस्तानकी तवारीख - जिल्द १ पृष्ठ ३१८-

४ एल्फिन्सटन - हिन्दुस्तानकी तवारीख - पृष्ठ ४५३-

५ मिल साहिबने कोई तारीख नहीं लिखी-

२ मौजूदा तारीख लिखने वालोंकी राय-

अकबर जौहरके बयानके मुवाफ़िक़ बादशाह अकबरका जन्मदिन अबुल्फज़लकी लिखी हुई तारीखसे ४० दिन (अर्थात् ५ वीं रजबसे १४ शअबान तक फ़र्कके सबब) पीछे हुआ.

यह फ़र्क देखकर मुझे बड़ा शुब्हा हुआ- इसलिये मैंने इस बातको तहकीक़

करनेके लिये यह सुवाल पहिले तो अपने दोस्त मौलवी उबैदुल्लाह फर्हतीकी मारफत उर्दू अखबार 'खैरखाहे आलम' में छपवाकर जाहिर किया, लेकिन उसका जवाब कहींसे नहीं मिला.

फिर मैंने नीचे लिखे हुए शस्त्रोंको लिखा, जो हिन्दुस्तानके मशहूर तारीख जानने वाले हैं:—

१ राजा शिवप्रसाद— सितारेहिन्द.

२ मौलवी सय्यद अहमद खान बहादुर— सितारेहिन्द.

३ मौलवी अनवारुलहक़—राजपूताना रेजिडेन्सीके मीरमुन्शी.

इनमेंसे सिर्फ राजा शिवप्रसाद साहिबने जवाब दिया, जिसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ. अगरचे उनके लेखसे ज़ियादा मल्लब न निकला, क्योंकि वह अबुल्फज़लके मुवाफ़िक़ उन दो तीन फ़ार्सी किताबोंका हवाला देकर, जिनके नाम ऊपर लिखे हैं, अकबरका जन्म ५ रजबको बतलाते हैं; और उसे साबित करनेके लिये लिखते हैं कि यकीनके लायक़ हिन्दू ज्योतिषियोंके पास जो जन्मपत्रियां हैं उनमें भी अकबरके जन्मकी यही तारीख़ पाईजाती है. मेरे पास भी उज्जैन वगैरहके ज्योतिषियोंसे मिली हुई, मुग़ल बादशाहों व उदयपुर, जयपुर और जोधपुर वगैरह ठिकानोंके राजाओंकी जन्मपत्रियां मौजूद हैं; लेकिन अकबरकी कोई जन्मपत्री यकीनके लायक़ नहीं मिली.

६ डॉक्टर हन्टरसाहिब अपने गज़ेटियर (जिल्द ९ पृष्ठ १८२) में अमरकोट की बाबत लिखते हैं कि "यहां अक्टोबर सन् १५४२ ई० में हुमायूँका बेटा अकबर पैदा हुआ, जब कि हुमायूँ भागकर अफ़ग़ानिस्तानको जा रहा था; जिस स्थान में अकबरका जन्म होना बतलाया जाता है, वहां एक खुदाहुआ पत्थर जमाया गया है".

यह पता पाकर मुझको अकबरका सहीह जन्म दिन मिलनेकी कुछ उम्मेद हुई, इसलिये मैंने अपने दोस्त सर एडवर्ड आर० सी० ब्रैडफ़ोर्ड साहिब, के० सी० एस० आई०, एजेन्ट गवर्नर जनरल राजपूतानाको उस प्रशस्तिकी नक़ल मंगानेके लिये एक काग़ज़ लिखा; उसके जवाबमें जो ख़त मेरे पास आया मैं उसका धन्यवाद देकर उसका तर्जुमा नीचे लिखता हूँ—

कैम्प अजमेर

१ डिसेम्बर सन् १८८५.

मिहर्बान दोस्त,

आपके १ अक्टोबरके ख़तके जवाबमें सर एडवर्ड ब्रैडफ़ोर्ड साहिबने आपके पास

इसके साथका कागज़ भेजनेके लिये फ़र्माया है, जो कि 'थर' और 'पारकर' के डिप्युटी कमिशनरके यहांसे आया है, और जिसमें अमरकोटके लिखेहुए पत्थरकी नक़ल है.

बनाम
कविराज श्यामलदास
उदयपुर.

द० इलियट कॉल्विन

चिट्ठीके साथके कागज़का तर्जुमा—

साहिब,

छब्बीसवीं तारीखके कागज़के जवाबमें अर्ज करता हूं, कि वह पत्थर अमरकोट से एक कोस पश्चिमोत्तर कोनमें है— जिसपर यह इबारात अरबी हफ़ोंमें खुदी हुई है—

“हिन हन्दमे

मुहम्मद अकबरबादशाह
जायो सन् ९६३ हिज्री मे”.

अर्थ—अकबर बादशाह यहां सन् ९६३ हिज्रीमें पैदा हुआ.

अमरकोट ३० अक्टोबर
सन् १८८५ ई०
बनाम के० बी० काज़ी फ़ैज़ मुहम्मद

द० उम्मेद अली, मुन्शी
हेडमास्टर अमरकोट स्कूल.

हिज्री ९६३ [वि० १६१३ ई० १५५५-५६] अकबरके जुलूसका सन् है; जन्म संवत् इस लेखमें नहीं है— इसलिये यह लिखाहुआ पत्थर, जो पीछेसे जमाया गया होगा, किसी कामका नहीं है.

अब मैं मजबूरीसे अपनेही भरोसेपर यह ज़रूर समझताहूं कि इस बाबत अपनी राय बंगालेकी एशियाटिक सोसाइटीके आलिम मेम्बरोंको ज़ाहिर करूं, जिनके लिये यह मज्मून नये सालकी भेटके तौर तय्यार कियागया है.

३. लिखनेवालेकी राय.

मैं नीचे लिखेहुए सुबूतों पर अकबर जौहरका लिखना सहीह और यकीनके लायक मानता हूं.

(१) अकबर जौहर हर हालमें हमेशा हुमायूँके पास रहता था, और बादशाहको उसपर पूरा एतिबार था.

(२) जब अकबरके जन्मकी खुशखबरी हुमायूँके पास पहुंची तो उसवक्त अकबर जौहर मौजूद था और उसीसे कस्तूरीका नाफा लेकर बादशाहने सर्दारोंको बांटा. . . इस हालतमें शाहजादे अकबरका जन्मदिन वह ग़लत नहीं लिख सका.

४. शुब्हेका दूर करना.

(क) यह शक नहीं होसक्ता कि 'तज़किरतुल् वाकिआत'के बननेके पीछे नकल करनेमें लेखक दोष आगया हो, क्योंकि अकबर जौहरने जन्मकी तारीख व महीना लिखकर शाहजादेका नाम 'जलालुद्दीन' (बद्रुद्दीन) रखाजाना १४ वीं तारीखको जन्महोनेके सबब माना है; जिस दिनका चन्द्रमा पूरा होनेके कारण 'बद्र' कहलाता है.

इससे किसी दूसरी तारीखके बदलेमें भूलसे १४ वीं तारीखका लिखाजाना कियासमें नहीं आता.

(ख) यह शक भी नहीं होसक्ता कि अकबरने तख्तपर बैठकर अपना नाम "जलालुद्दीन" रक्खा हो, क्योंकि जौहरके लिखनेसे यह नाम अकबरकी पैदाइशके वक्त ही रक्खाजाना पायाजाता है, जो शाहनवाज़ख़ांकी किताब 'मिरात आफ़ताबनुमा' के लेखसे भी सिद्ध होता है, जिसने लिखा है कि—

"क़िला जोयशाही जो अब 'जलालाबाद' के नामसे मशहूर है शाहजादगीके दिनोंमें रोटी खर्चके तौर मुहम्मद हुमायूँ बादशाहने अपने बेटे जलालुद्दीन अकबरको जागीर में इनायत किया था, जिस वक्त कि बादशाहको पठानोंने हिन्दुस्तानसे निकाल दिया और जिसके बाद वह अपने भाइयोंसे लड़कर काबुलका मालिक बन गया था.

जिस वक्तसे कि यह जगह उन (अकबर) के तअल्लुक कीगई, जियादा आबाद होकर 'जलालाबाद' नामसे मशहूर हुई"— (क़ल्मी किताब पृष्ठ २१२). इस तरह १४ वीं तारीखको जन्म होने में जैसा अकबर जौहरने लिखा है कुछ भी शुब्हा नहीं रहा.

इसके सिवाय 'जौन' मक़ामपर जब हमीदाबानू बेगम और शाहजादे अकबर को बादशाहने अमरकोटसे बुलाया, उस बाबत जौहर अपनी किताबके ४५ वें पृष्ठमें लिखता है कि—

"जौन गांवके पास कई लुटेरे दुश्मनोंसे सामना करना पड़ा; शैख़ अलीबेग उन लोगोंको भगाकर वापस आया, तो बादशाहने गांवके पास एक बाग़में डेरा किया, उसके गिर्द खन्दक़ खुदवाकर एक सर्दारको हुकम दिया कि शाहजादे, औरतों और नौकरोंको 'जौन' में ले आवे— जब शाहजादा अमरकोटसे जौनमें पहुंचा और

अपने बुजुर्ग बापकी खिदमतमें इज्जत हासिल की, रमजान महीनेकी २० वीं तारीख थी. शाहजादेकी पैदाइशको ३५ दिन हुए थे कि इस मुलाक़ातका मौका मिला. इस बयानसे शाहजादेका जन्म १४ वीं शअबानको होनेमें कुछ शक न रहा; इसीबयान में थोड़ी इबारतके आगे रोज़ा रखनेका हाल है; इसलिये शाहजादेके रमजान महीने में आनेकी बाबत भी शुब्हा नहीं रहा क्योंकि रोज़ा रमजानमें ही रक्खा जाता है.

अब यह बात रह गई कि 'अकबरनामा', 'तबक़ात अकबरी' और 'मुन्तख़बुतवारीख़' के बनाने वालोंने १४ शअबान शनिवारके एवज़ पांचवीं रजब रविवार क्यों लिखा?

हिन्दुओंको नीचे लिखे हुए श्लोकके अनुसार ९ बातें बतलाना मना है—

आयुर्वित्तं गृहच्छिद्रं मंत्र मैथुन मौषधीं ॥ दान मानापमानञ्च नवगोप्यानि कारयेत् ॥

अर्थात् उम्र, घरका धन, घरके ऐब, मंत्र (वैदिकहों या तांत्रिक), मैथुन, दवा, दान, मान और अपमान; ये ९ बातें गुप्त रखनी चाहियें.

[१ जन्मदिनके बतलानेसे कोई जादूकरके मारडाले; २ घरका धन जानलेनेसे राजा छिनले, या चोरलेजावे; ३ घरका दोष ज़ाहिर करनेमें बेइज्जती है; ४ मन्त्र दूसरोंको बतलानेसे झूठा होजाता है; ५ मैथुन ज़ाहिरकरनेमें लज्जा है; ६ दवा मालूम होजानेसे बीमारका विश्वास चलाजाता है और शायद दूसरे लोग उसमें विष मिलादें या उसपर जादू करदें; ७ दान प्रसिद्धकरनेसे पुण्य नहीं होता और एक तरह अपनी तारीफ़ करना है; ८ अपना मान ज़ियादा बतलाना घमंड है; ९ अपनी बेइज्जतीका हाल दूसरोंसे कहना लज्जाकी बात है.]

इनमेंसे पहिली बातको अबतक हिन्दुस्तानके बड़े आदमी मज़बूतीके साथ मानते हैं; सौ में सिर्फ़ दस आदमी, जिनके विचार वर्तमान वक्तके अनुसार होंगे, अपना जन्म दिन दूसरोंको बतलावेंगे—सालागिरहकी खुशी अक्सर ठीक जन्मदिनसे एक या दो दिन आगे पीछे कीजाती है, और अगर इस तरहसे जन्मकी तिथि ज़ाहिर हो जावे तो जन्म संवत् नहीं बतलाया जाता. बड़े आदमियोंकी जन्मपत्रियां बड़े एतिबारी पुरोहितोंके पास रक्खी रहती हैं, जो किसी दूसरेको नहीं बतलाते.

देखागया है कि बाज़ेलोग अपने दुश्मनोंको किसी बड़े आदमी पर जादूकरनेका दोष लगाते हैं तो उसको सच ठहरानेके लिये उस आदमीके घरसे, जिसपर अपराध लगाते हैं, कुछ निशानोंके साथ बनीहुई उस बड़े आदमीकी जन्मपत्री और कपड़े का बनाहुआ पुतला निकालनेका सामान करते हैं; इस तरहकी बातें अगले वक्तोंमें मुग़ल लोगोंमें भी जारी थीं, क्योंकि पहिले हिन्दू (आर्य) उनके साथ तिब्बत वगैरामें एक जगह रहते थे.

मेरे मित्र कर्नेल जॉन् बिडल्फ़ साहिब अपनी किताब 'ट्राइब्ज़ आफ़ दी हिन्दूकुश' (हिन्दू कुशकी कौमोंका हाल) के पृष्ठ ९४ से ९८ तक में लिखते हैं कि "यहांके लोग नक्षत्र, भूकम्प और भूत प्रेत वगैरह के होनेपर यकीन रखते हैं". इस लेखसे साफ़ पायाजाता है कि मध्य एशिया और तिब्बतके रहनेवालोंने मुसल्मानी मज़हब, कुबूल करनेपर भी उन दस्तूरोको नहीं छोड़ा, जो उनके आर्य भाइयों में जारी थे.

मुग़ल लोग बड़े काम करनेके समय शकुन भी लेते थे जैसे—

(१) फ़तहपुर सीकरीकी लड़ाईके वक्त जो विक्रमी १५८४ [हि० १३३ = ई० १५२७] में महाराणा सांगा (संग्रामसिंह) और बाबर बादशाहसे हुई थी, शरीफ़ नाम ज्योतिषीने कहा था, कि मंगलका तारा साम्हने है इसलिये बादशाह जरूर हारेगा. बाबरने अपना मत्लब बिगड़ता हुआ देखकर उसकी बातको न माना, पर उसकी फौजके लोग नुजूमिकी बातको सच मानकर घबरागये.

(२) जब शाहज़ादा हुमायूं बहुत बीमार पड़ा तो उस वक्त लोगोंने सलाह दी कि शाहज़ादेको आराम होनेके लिये बहुत प्यारी और निहायत कीमती चीज़ न्यौछावर करनी चाहिये.

बादशाहने शाहज़ादेके पलंगकी परिक्रमा (तवाफ़) करके यह दुआ मांगनी चाही कि बीमारी उसे छोड़कर मुझमें आजावे.

सर्दारोंने इस बातमें बादशाहकी जानका नुक़सान समझकर ऐसा करनेसे मना किया, लेकिन बाबरने नमाना. अबुल्फ़ज़लने इस बातका नतीजा इस तरहपर लिखा है—

“जबसे कि बादशाहने ऐसा काम (तवाफ़) किया उसी वक्तसे बीमारीने शाहज़ादेको छोड़ा और बाबरको घेरा, जिससे उसका इन्तिकाल होगया” — (अकबरनामह जिल्द १ पृष्ठ १४४ - १४५).

(३) शाहज़ादे अकबरके जन्मसे आठवें महीनेके शुरूमें उसकी धाय जीजी अलगा जो दूसरी धाय माहम् अलगासे दुश्मनी रखती थी, उसके बारेमें लोगोंने हुमायूं बादशाहसे कहदिया था कि जीजी अलगाने शाहज़ादेपर जादू करदिया है कि दूसरी औरतका दूध न पीवे; इन बातोंकी फ़िक्र दूरकरनेके लिये जीजी अलगासे आठ महीनेकी उम्रवाले शाहज़ादेने एकान्तमें कहा कि तू सोच मतकर, मैं तेरे हीपास पर्वरिश पाऊंगा और तेरी औलादको बहुत फ़ायदा पहुंचाऊंगा— (अकबर नामह जिल्द १ पृष्ठ २२५).

(४) अबुल्फ़ज़लने एक करामाती छुरीका बयान, जो अकबरके चौदहवें जुलूसमें कजलीके राजाने बादशाहको भेजी थी, इसतरह पर लिखा है—

“ वह छुरी अबतक बादशाही खज़ानेमें मौजूद है और कई बार मैंने हज़रत बादशाहकी ज़बानी सुना कि दोसौ आदमियोंसे ज़ियादा, जो बीमारीसे मरनेके करीब पहुंचे थे, इस छुरीके मलने (स्पर्ष) से अच्छे होगये”-(अकबरनामह जिल्द २ पृष्ठ ४३१).

(५) “ बादशाहके एक दो लड़केवाले होकर मरगये तो शैख सलीम चिश्ती की दुआसे शाहज़ादा सलीम पैदा हुआ, जिसको लोगोंने दो महीने तक अकबरके सामने नहीं लानेदिया”-(अकबरनामह जिल्द २ पृष्ठ ४३५). अबुल्फज़ल इस बातको बनावटके साथ लिखता है, लेकिन यह ज्योतिषिके कहनेसे हुआ होगा.

इसमें कुछ शक नहीं कि बादशाह अकबर, शैख सलीमको करामाती मानता था. वह एकबार स्वाजह मुईनुद्दीन चिश्तीकी यात्राको आगरेसे पियादा और उसीतरह चित्तौड़की फ़तहके बाद मानता मानकर (अजमेरकी तरफ़) गया था.

मुग़लोंके एतिकादकी ऐसी बातें ज़ियादा लिखना ज़रूर नहीं; अस्ल बात यह है कि जब अकबर बादशाह बालक था उस वक्तसे लेकर तरुतपर बैठनेके बाद तक उसकी मा रक्षा करनेवाली हमीदाबानू मौजूद थी, औरतोंको जादू वगैरहमें ज़ियादा यकीन होनेके सबब अकबरका जन्मदिन शायद उसीने छिपाया हो. अबुल्फज़ल वगैरह दूसरे लोगोंको उसीने १४ शअबानके बदले ५ वीं रजब बतलाया होगा; क्योंकि अकबरके जन्मकी मुसीबती हालतमें उसकी जन्म तिथि उनको याद न रही होगी; जो हमीदाबानू बेगमने कहा वह सच मानकर शायद जन्मपत्री बनाई हो; ऐसा भी हो सकता है कि ‘अकबरनामह’, ‘तबक़ात अकबरी’ और ‘मुन्तख़बुत्तवारीख़’ के बनानेवालों ने अकबरकी हिफ़ाज़तके वास्ते खैरस्वहाही दिखानेको जान बूझकर दूसरी तारीख़ (१) लिखी हो, क्योंकि ४० वर्षकी उम्र तक खुद अकबर भी ज़ईफ़ एतिकादवाला (भ्रम रखने वाला) था.

यह भी शुब्हा किया जासक्ता है कि बादशाह जलालुद्दीन मुहम्मद अकबरके जन्मका हाल, जो तज़किरतुलवाकिआतमें अकबर जौहरने लिखा है, उसपर लोगोंका खयाल क्यों नहीं गया?

अकबर जौहर एक सीधा सादा कमदरजेका आदमी, अपना काम चलानेके लायक पढ़ा लिखा था, अपनी समझके मुवाफ़िक़ जैसा देखा वैसा लिखदिया.

(१) इस बाबत अबुल्फज़लकी यह बात सच मालूम होती है, जो अकबरकी कई जन्मपत्रियां लिखकर यह राय ज़ाहिर करता है— कि “ ऐसे कुद्वतके नमूने (अकबर) का हाल हर एक आदमीको न जानना ही अच्छा है”.

उस जमानेके दूसरे किताब बनाने वालोंकी तहरीर के मुवाफिक, जिनका रिवाज ज़ियादा था, जौहरकी लिखावट साफ़ और उम्दा नहीं थी.

उसके मरने बाद बहुत वर्ष तक उसकी किताब छिपेहुए ख़ज़ानेकी तरह पड़ी रही; जब यूरोपके होशियार लोगोंने पुरानी किताबोंका खोज लगाया तो यह किताब भी क़द्रके लायक़ समझी गई, और लोगोंमें मशहूर हुई, जिसका नतीजा यह निकला कि इसकी क़ल्मी लिखीहुई जिल्दें मिलती हैं.

अकबर जौहरको बादशाहका जन्मदिन बदलनेसे कुछ ग़रज़ नहीं, क्योंकि वह अपने तौरपर बग़ैर किसीकी खुशामदके हाल लिखता था और जन्मतिथि ज़ियादा तफ़्सीलके साथ लिखी है.

इस लिये मेरी रायमें अकबर बादशाहका जन्म हिज्री सन् ९४९ ता० १४ शब्ज़-बान शनिवार [विक्रमी १५९९ मार्गशीर्ष शुक्ल १५ = ई० १५४२ ता० २३ नोवेम्बर] को हुआ, जैसा कि 'तज़्किरतुल वाकिअत' में लिखा है.

उम्मेद है कि सोसाइटीके लायक़ मेम्बर इसकी बाबत अपनी राय ज़ाहिर करेंगे; और जो उसमें कुछ ज़ियादा मज़बूती पाईजायगी तो मैं उसे धन्यवादके साथ अपनी किताबमें लिखूंगा—

कविराज—

श्यामलदास. (१)




(१) हमने इस लेखका अंग्रेज़ी तर्जुमा अपने कारख़ानेके अहलकार बाबू रामप्रसादसे कराकर सोसाइटीमें भेजा था.

छन्द गीतिका.

वसु नैन अंग शशांक वत्सर रान ऊदल पात भौ ।
 जगमाल गदिय बैठ ताहि उठाय पातल नाथ भौ ॥
 फिर कच्छ राजकुमार मानहि रान भोजन कैनकों ।
 बढि क्रोध त्यों भगवानदास महीप मेलन वैनकों ॥ १ ॥
 बनि घोर युद्ध अथोर पातल मान हरदीघाट पै ।
 तब क्रोध बोधहि सोध शाह अनेक जोधन दाट पै ॥
 मेवार आगम धार दुग्ग पहार घेरन फेरको ।
 भटसेन साजरु शाहबाज विरोध कुम्भलमेरको ॥ २ ॥
 इसलाम और प्रताप युद्ध विरुद्ध सेन पलायकें ।
 लघु सब्ज खेत निहार खेतियकार मार मलायकें ॥
 जगमाल अर्बुद नाथ होय विरोध जुझ शताप भौ ।
 परलोक बास प्रताप तें इसलाम सेन अताप भौ ॥ ३ ॥
 इतिहास अक्बरशाह रीतिरु नीति प्रीति बिलेखतें ।
 उर वृत्त सज्जन रान होन प्रकाश लेखन लेखतें ॥
 कविराज श्यामलदासने फतमाल शासन मानकें ।
 यह ग्रन्थ वीर विनोद खंड प्रताप पूरन ठानिकें ॥ ४ ॥

महाराणा प्रतापसिंह-चतुर्थ प्रकरण

समाप्त.



महाराणा अमरसिंह अठ्ठल-पञ्चम प्रकरण.

इन महाराणाका राज्याभिषेक विक्रमी १६५३ माघ शुक्ल ११ [हि० १००५ ता० ९ जमादियुस्सानी = ई० १५९७ ता० २९ जैन्यूअरी] को चावंडमें हुआ, जिस का उत्तान्त इस तरह पर है—कि गद्दीपर बैठते ही इन्हें महाराणा प्रतापसिंहकी वह बात याद आई जो उन्होंने तानेके साथ मुसल्मानोंकी नौकरी करने व खिलअत पहरनेके बारेमें कही थी.

गद्दी बैठनेके वक्तसे ही महाराणा अमरसिंहने तलवारसे लड़ाईके सिवाय और दूसरे सब काम मुलतवी रक्खे. पहिले इन्होंने कुल्ल बादशाही थाने उठाकर मेवाड़में अपना अमल जमाया, जिसका हाल बादशाहने भी सुना.

बादशाह अकबर महाराणा प्रतापसिंहके देहान्तका हाल सुनकर बहुत फिक्र और हैरानीके साथ चुप होरहा. यह हाल देखकर सब दरबारी लोगोंको बड़ा अचम्भा हुआ, कि महाराणा प्रतापसिंहके मरनेसे बादशाहको खुश होना चाहिये न कि उदास ! उस समय चारण दुरसा आढ़ाने एक छप्पय मारवाड़ी भाषामें कही, जिसका जिक्र सुनकर बादशाहने उसे रूबरू बुलाया और उस छप्पयको सुना, लोगोंने जाना कि बादशाह दुरसासे जरूर नाराज होगा, परन्तु अकबरने इनअम देकर कहा कि इस चारणने प्रतापसिंहके मरने पर मेरे दिलगीर होनेके सबब को जाहिर करदिया— वह छप्पय यह थी :-

छप्पय.

अश लेगो अण दाग, पाघ लेगो अण नामी ।
गो आडा गवड़ाय, जिको बहतो धुर बामी ॥
नव रोजै नह गयो, नगो आतशां नवल्ली ।
न गो भरोखा हेठ, जेथ दुनियाण दहल्ली ॥
गहलोत राण जीती गयो, दसण मूद रशणा डसी ।
नीशास मूकभरिया नयण, तोमृत शाह प्रतापसी ॥ १ ॥

अर्थ— अपने घोड़ोंको दाग (१) नहीं लगवाया, अपनी पाघ (सिर) को किसीके सामने नहीं झुकाया, आड़ा (२) गवाता हुआ चला गया, जो कि हिन्दु-स्तानके भारकी गाड़ीको बाईं तरफसे खेंचनेवाला था (३) “नौ रोज” के जल्सेमें कभी नहीं गया, नये आतश (बादशाही डेरों) में नहीं गया, और ऐसे भरोखेके नीचे नहीं आया जिसका रोब दुनूयापर गालिब था. इस तरहका गहलोत (राणाप्रतापसिंह) फतहयाबीके साथ गया, जिससे बादशाहने ज़बानको दांतोंमें दबाया, और वह ठंडा श्वास लेकर आंखोंमें पानी भरलिया. ऐ प्रतापसिंह! तेरे मरनेसे ऐसा हुआ.

जब महाराणा अमरसिंहका जोरशोर बादशाहने बहुत दिनोंतक सुना, तो विक्रमी १६५५ [हि० १००७ = ई० १५९८] में मेवाड़पर चढ़ाई की, और महाराणा भी साम्हना करनेकी तय्यारीमें मशगूल हुए. पहिले बादशाहने फौज भेजी और फिर आप उदयपुरकी तरफ चला. महाराणाने बादशाही फौजपर कई बार हम्ले किये और बहुतसे बादशाही परगने लूटकर पहाड़ोंमें चलेआये. इनका काम यही था कि धावा मारकर पहाड़ोंमें चले आवें.

(१) बादशाही दस्तूरसे उन घोड़ोंके पुट्टेपर दागलगाया जाता था, जो बादशाही फौजोंमें नौकरी देते थे.

(२) राजपूतानामें अबतक रिवाज है कि—ऐसी शाइरी कीजाती है—जिसमें उससे अदावत रखनेवाले पर ताना हो— इसतरहके सोरठे प्रतापसिंहके साम्हने ढोली गायाकरते थे, जैसा कि—
सोरठा,

अक्बर घोर अंधार, जंघाणा हिन्दू अवर ॥
जागे जग दातार, पोहोरे राण प्रतापसी ॥ १ ॥
अइरे अकबरियाह, तेज तुहालो तुर्कड़ा ॥
नय नय नीसरियाह, राण बिना शहराजवी ॥ २ ॥

(३) बहादुर राजपूतोंको राजपूतानाके कवी यह उपमा देते हैं.

बादशाही फौजके काबूमें महाराणा नहीं आये, तब बादशाह तो दक्षिणकी तरफ़ ग़दर सुनकर चलेगये और शाहजादे सलीमको राजा मानसिंह कछवाहे समेत अजमेरमें छोड़ा, परन्तु शाहजादा आगरे होताहुआ प्रयागको चलागया और यहां बादशाही फौजके ऊंटाला, मोही, मदारिया कोशीथल, बागौर, मांडल, मांडलगढ़ और चित्तौड़, वगैरहमें थाने बैठगये.

विक्रमी १६५७ [हि० १००९ = ई० १६००] में महाराणा अमरसिंहने मेवाड़के बादशाही थानोंपर हम्ला करनेकी तय्यारी करके पहिले ऊंटालेके थानेदार कायमखां मुग़लपर चढ़ाई की और ग्राम ऊंटालेको घेरलिया. शाही फौजके बहादुरों ने भी लड़ाईके लिये महाराणाकी पेशवाई की और खूब मुकाबला होकर सैकड़ों आदमी दोनों तरफ़के मारेगये; कायम खान् मुग़लको खुद महाराणाने मारा, बहुतसे आदमी शाही फौजके भागकर बिखरगये और बहुतसोंने ऊंटालेकी गढ़ीका सहारा लिया. जब महाराणाने अपने बहादुर राजपूतोंको किलेपर हम्ला करनेका हुक्म दिया, तो शाही मुलाजिमोंने भी किलेसे तीर बन्दूक चलाना शुरू किया, जिनसे मेवाड़की फौजके सैकड़ों आदमी निशाना बनकर मारेगये (१).

महाराणाकी फौजमें कायदा था कि हरावलमें चूडावत और चन्दावलमें (याने फौजके पीछे,) शक्तिसिंहके बेटे पोते शक्तावत रहें. इस बातसे चूडावत हरएक बात में शक्तावतोंको ताना दियाकरते थे. इसवक्त महाराणा अमरसिंहने हुक्म दिया कि पहिले ऊंटालेके किलेमें जो हमारी फ़तहका निशान कायम करेगा उन्हींके नामपर हरावल होगी. यह हुक्म सुनकर शक्तावत व चूडावत दोनों गिरोहके सर्दार अपनी अपनी जमइयत सहित किलेकी तरफ़ चले. बल्लू शक्तावत तो दर्वाजेकी तरफ़ गया और रावत जैतसिंह कृष्णावत दीवारकी तरफ़. बल्लू शक्तावतने अपने हाथीके महावत से कहा कि हाथीको हूलकर दर्वाजेके किवाड़ तुड़वा. हाथीवानने कहा कि हाथी मुकना (बिना दांतका) है और किवाड़ोंमें भाले लगे हैं, इसलिये टक्कर नहीं मारता. रावत बल्लूने किवाड़के भालोंपर खड़े होकर हाथीवानको कहा कि मेरे बदनपर हाथीको हूलदे, नहीं तो तुभको मारडालूंगा; उसने वैसाही किया. जब कि बल्लूके बदनपर हाथी झुका तो उसी वक्त रावत जैतसिंह कृष्णावत सीढ़ी लगाकर दीवारपर चढ़ा, और किलेवालोंकी तरफ़से उसकी छातीमें गोली लगी; जब सीढ़ीसे गिरनेलगा तो अपने साथियोंसे कहा कि मेरा सिर काटकर किलेमें फेंकदो, जिसपर उसके राजपूतोंने वैसाही किया, और सीढ़ियोंसे चूडावत किलेपर चढ़गये, शक्तावत भी किवाड़ तोड़कर

(१) अमर काव्यमें यह हम्ला संवत् १६६४ वि० के बाद लिखा है,

भीतर चलेआये, किला फ़तह हुआ, शाही मुलाजिम अक्सर मारेगये और बहुतसे पकड़ लियेगये. शक्तावत और चूडावतोंकी महाराणाने तारीफ़ करके इज्जतें बढ़ाई, और हरावल चूडावतों की साबित रही. इस लड़ाईमें रावल जैतसिंह, शक्तावत बल्लू, रावल तेजसिंह खंगारोतके सिवाय और भी बहुतसे बहादुर मारेगये.

इसके बाद महाराणा अमरसिंह यहांसे कूच करके मांडल और बागौर वगैरह के थाने उठातेहुए मालपुरे तक पहुंचे. बाजे शाही थानेदार लड़े और बाजे भागकर अजमेर चलेगये.

यह खबर बादशाह अकबरने सुनकर मिर्जा शाहरुखको बड़ी फ़ौजके साथ मेवाड़की तरफ़ विदा किया. महाराणा मालपुरेसे पीछे लौटकर उदयपुर चलेआये. बादशाहको उग्रसेन रावल बांसवाड़े वालेपर जियादा गुस्सा आया, क्योंकि पेशतर डूंगरपुर और बांसवाड़े (बांसवाला) के दोनों रावल बादशाह अकबरके नौकर होचुके थे; और मानसिंह, जो बांसवाड़ेका मालिक बनगया था उसको उठाकर महाराणा प्रतापसिंहने रावल उग्रसेनको गद्दीपर बिठाया था; इसलिये उग्रसेन महाराणाकी फ़ौजमें रहकर शाही मुलाजिमोंपर हमेशा हम्ला करतारहा, और इस वक्त भी उसने सबसे बढ़कर बहादुरी दिखलाई, जिसपर बादशाहने शाहरुखको हुकम दिया कि उग्रसेनको बहुत बड़ी सज़ा देकर उसका मुल्क छिनलेना चाहिये. शाहरुखने राजा भारमल्लके बेटे राजा जगन्नाथ आंबेर वालेको बहुतसी फ़ौज देकर मांडलके थानेपर मुक़र्रर किया और आप चित्तौड़ होताहुआ बांसवाड़े पहुंचा. वहां रावल उग्रसेनने साम्हना किया जिसमें सैकड़ों राजपूत और मुसल्मान मारेगये. शाहरुख फ़तह पाकर बांसवाड़ेमें ठहरा और रावल उग्रसेनने वहांसे निकलकर शाही मुल्क मालवेको लूटना शुरू किया, बहुतसे शाही मुलाजिमोंको मारा और रअध्यतसे दण्ड लिया. यह खबर सुनकर शाहरुख अपनी फ़ौज समेत मालवेकी तरफ़ चला, और रावल उग्रसेनने मालवेसे लौटकर अपने मुल्कपर कब्ज़ा करलिया; शाहरुखने फिर पहाड़ोंकी तरफ़ रुख न किया.

अब थोड़ासा हाल महाराज सगरका लिखाजाता है, जो महाराणा प्रतापसिंह के समयमें नाराज होकर दिल्ली चलेगये थे :-

महाराज जगमाल महाराणा उदयसिंहके बेटे, महाराणी भटियाणीके गर्भसे थे, जिनका जन्म विक्रमी १६११ प्रथम आषाढ़ कृष्ण ५ रविवार [हि० १६१ ता० १९ जमादियुस्सानी = ई० १५५४ ता० २२ मई] को, और सगर उनके छोटे भाई का जन्म विक्रमी १६१३ भाद्रपद कृष्ण ३ [हि० १६३ ता० १७ रमजान = ई० १५५६ ता० २५ जुलाई] को हुआ था.

जब महाराज जगमाल, जिनका जिक्र ऊपर हो चुका है, सिरोहीमें राव सुल्तानसे लड़कर मारे गये, तो उनके छोटे भाई सगर महाराजाके ही पास रहे. महाराजा अमर सिंहने अपनी बाईका सम्बन्ध करनेके लिये सिरोहीके राव सुल्तानको कहलाया. यह बात सुनकर महाराज सगरने महाराजा प्रतापसिंहसे अर्ज की— कि हमने भी इसी घरमें जन्म लिया है, आप हमारे मालिक और हम आपके ताबेदार भाई हैं, मेरे बड़े भाई जगमाल, जिनको सिरोहीके राव सुल्तान व देवड़ा समरा, सूराने मार डाला, उनकी चिता हमारे कलेजेमें जलरही है और आप अपनी बाईका सम्बन्ध हमारे दुश्मन, सिरोहीके रावके साथ करते हैं, तो हमारा बैर लेनेवाला कौन है ? यह सुनकर महाराजा प्रतापसिंहने (जगमालके गद्दी नशीन होनेकी बातको याद करके) फर्माया कि कुछ सीसोदिये हमारे भाई हैं, जिनमेंसे बहुतसे मारे जाते हैं, हम किस किसका बैर लेते फिरे, सिवाय इसके हम राजाओंके सामने सब राजपूत बराबर हैं. सगरने उठकर सलाम किया कि हमको रुखसत हो, महाराजाने फर्माया कि बेशक चले जाओ, तुम्हारे जानेसे हमारा कुछ हर्ज नहीं. लेकिन इस तर्जपर जाना जभी सम्भजावे कि आप खुद अपने पराक्रमसे नामवरी हासिल करें, वना जाहिर है कि हमारे घरानेके नामसे दिल्ली जाकर मुसलमानोंकी नौकरी करके पेट भरोगे.

इस बातको सुनकर सगर चुपचाप अपने मकानपर चले आये, किसीको कुछ भेद न दिया, आधी रातके वक्त अकेले एक तलवार हाथमें लेकर पैदल ही चल दिये, और आंबेरके कुंवर मानसिंहके सिपाहियोंमें जाकर नौकरी करली. बहुत अर्सा गुजर जानेके बाद एक दिन सगर आंबेरके महलोंके नीचे रातके वक्त पहरा दे रहे थे, और राजा मानसिंह महाराजा भटियाणीके साथ महलमें सोते थे. यह भटियाणी रावल लूणकरण भाटी की उन दो बेटियोंमेंसे एक थी, जिनमेंसे बड़ी बहिनकी शादी महाराजा उदयसिंहके साथ हुई थी, और जिनके गर्भसे जगमाल, सगर वगैरह पांच बेटे पैदा हुए; और छोटीकी शादी मानसिंहके साथ की थी; सो वही भटियाणी सगरकी मौसी कुंवर मानसिंहके पास मौजूद थी. अंधेरी रातके समय मेह मूसलाधार बरसरहा था, महलकी छतके पर्नालेका पानी नीचे पत्थरोंपर गिरनेसे सरसत आवाज सुनकर सगरने दिलमें सोचा कि इस वक्त कुंवर और कुंवराणी दोनों खुशीमें हैं, इस पर्नालेके पानीकी आवाज उनको बे शक बुरी मालूम होती होगी; सगरने घोड़ोंके पायगाहसे घास लाकर उस पानीकी धारके नीचे डाल दी, जिससे वह आवाज बन्द होगई. कुंवरने लौंडियोंसे पूछा कि क्या पानीका बरसना बन्द हो गया? उन्होंने कहा कि नहीं हुआ, तब कुंवरने आप उठकर भरोखेसे निगाह डाली तो बिजलीकी रौशनीसे पर्नालेकी धारके नीचे घास पड़ी हुई दिखाई दी; उस सिपाहीकी इस कार्रवाईसे खुश हुए और सोचा कि यह आदमी गरीब सिपाही नहीं है,

किसी बड़े घरानेका बेटा या किसी अमीरका खास मुसाहिब है, जो किसी आफतसे इस नौबतको पहुंचा है; एक लौंडीसे फर्माया कि नीचे जाकर इससे दर्याफ्त कर कि तेरा नाम, ग्राम और खान्दान क्या है ? उसने दर्याफ्त किया तो सगरा सीसोदिया मालूम हुआ; मानसिंहको शक हुआ कि महाराज सगर तो नहीं हैं; तब कुंवरांनीने अपनी धायको भेजा, जो सगरको बचपनसे पहचानती थी, उसने भटियाणीके हुक्मसे उसको जाकर आवाज दी कि तुम्हारा नाम क्या है ? सगरने जवाब दिया कि तुमको मेरे नामसे क्या काम है ? अगर कोई काम हो तो कहो. उनकी आवाज पहचानकर धाय नज़दीक गई और रौशनीसे पूरा पहचानकर गले लिपटगई, और कहा कि ओ हो लालजी तुम्हारी यह क्या हालत है !

धायकी यह आवाज सुनकर कुंवर मानसिंह भी नीचे दौड़आये और सगरका हाथ पकड़कर महलमें लेगये जहां सब हाल दर्याफ्त किया; सगरने जो गुजरा था कह सुनाया और इसके बाद अपनी मौसीसे मिले. मानसिंहने पोशाक मंगाकर उनको पहनाई और जाहिरा अपने पास रखनेलगे, कुछ अर्से बाद महाराज मानसिंह बादशाही खिदमतमें दिल्ली जानेलगे, तब सगरसे कहा कि आप अगर अपने दिलकी मुराद पूरी करना चाहें तो बगैर बादशाही नौकरिके कुछ भी नहीं होसक्ता— यह समझाकर अपने साथ लेगये, और सगरने बादशाहके सामने भी अपनी सब सरगुजस्त कह सुनाई, जिसपर बादशाहने फर्माया कि हम अपनी मिहर्बानीसे तुम्हारी मुराद पूरी करेंगे.

देवड़ा बिजा भी महाराज सगरके पास हाज़िर होगया था; एक दिन बादशाह ने जोधपुरके महाराज उदयसिंहसे, जिनको मोटा राजा भी कहते थे, फर्माया कि हम जामबेगको तुम्हारे साथ फौज देकर भेजते हैं और सगर भी तुम्हारे साथ जावेगा, तुम्हारे भतीजे रायसिंह चन्द्रसेणोत और सगरके भाई जगमालको सिरोहीके देवड़ों ने मारडाला था, सो तुम लोग भी शाही मदद लेकर उनको बर्बाद करो. जब महाराज उदयसिंह, सगर, जामबेग व देवड़ा बिजा फौज लेकर सिरोही आये तो वहां राव सुल्तानने इनसे लड़ाई की, जिसमें देवड़ा समरा नरसिंहोत बड़ी बहादुरीसे लड़कर मारागया और देवड़ा पत्ता सावन्तसिंहोत, तोगा सूरवत और चीबा व जैता खिमावत बहुतसे राजपूत राव सुल्तानके मातहत मारेगये, उसवक्त राव सुल्तान निकलकर पहाड़ोंमें चलागया और देवड़ा बिजा मारागया; तब सगर अपने घायल राजपूतोंको उठाने और दुश्मनके जख्मियोंको मारने लगा. राव सुल्तानके नेगी चारण दुरसा आढ़ाको जख्मी पड़ाहुआ देखकर सगरने कहा कि यह कोई

देवड़ोंका बड़ा सर्दार है, इसको भी दूध पिलाना (१) चाहिये, तब दुरसाने कहा कि मैं चारण हूं, तुमको राजपूत होकर मेरा मारना उचित नहीं, सगरने कहा कि समृधी थोड़े जीनेके वास्ते दूसरेकी औलाद बनना बहादुरोंका काम नहीं है! इसपर दुरसाने कहा कि सचमुच मैं चारण हूं. सगरने जवाब दिया कि तुम सच ही चारण हो तो यह समरा देवड़ा जो अभी अच्छी तरह बहादुरीसे मारा गया है उसकी तारीफमें कोई दोहा कहो, उसने उसी वक्त मारवाड़ी भाषामें यह दोहा कहा—

दोहा.

धर रावां जश डूंगरां, बृद पोतां सत्र हाण॥

समरे मरण सुधारियो, चहुं थोकाँ चहुँवाण॥ १ ॥

अर्थ—सगरने चारों तरहसे अपना मरण सुधारा, सिरोहीके रावोंकी जमीन मजबूत की, पहाड़ोंकी तारीफ करवाई कि जिनमें रहकर कई लड़ाइयां कीं, और अपने बेटे पोतोंको इस बातका अभिमान दिया कि हमारा बुजुर्ग नाम्वर था, और दुश्मनों को नुकसान पहुंचाया.

सगरने दुरसाको पालकीमें बिठाकर उसकी हिफाजत करवाई. सिरोहीके मुल्कको तहसनहस करके महाराज उदयसिंह जोधपुर और महाराज सगर दिल्ली गये, बादशाह अकबरने इनको अपने पास रक्खा और फर्माया कि तुमको हम उदयपुरका राणा बनादेवेंगे, क्योंकि तुम्हारे भाई जगमालकी यही मुराद थी जो कि पूरी न हुई.

अब यह काम तुम पूरा करो और राणा अमरसिंहको अपना ताबेदार बनाओ, आजसे हमने तुमको 'राणा' का खिताब दिया.

महाराज सगरने आदाब बजालाकर नज़ू दी, लेकिन खिताब राणाका नाम मात्र के लिये था. अकबरने मेवाड़की तरफ फिर कोई बड़ी चढ़ाई नहीं की, इससे महाराणा अमरसिंहको फुरसत मिली और मेवाड़को आबाद करने लगे. फिर बादशाह अकबरका देहान्त होगया जिसका व्योरेवार हाल ऊपर लिखा गया है.

अकबरके बाद शाहजादा सलीम तरुतपर बैठा और उसने अपना लक़ब "नूरुद्दीन मुहम्मद, जहांगीर" रक्खा. उसने तरुतपर बैठते ही अपने बापकी उस उम्मेद को जिसे वह दिलमें रखकर मरा था, याद किया और कहा कि उदयपुरके राणाकी मुहिम् मेरे बापने मेरे नाम लिखदी थी, इसलिये मुझे जरूर है कि पहिले इसी काम

(१) दूध पिलानेसे इशारा मारनेका है, कि हिन्दुओंके एतिकादसे यह शरीर छोड़कर दूसरा जन्म लेवे और अपनी माका दूध पीवे.

को करूं. और ऐसा दस्तूर भी है कि जब कोई राजा या बादशाह तस्तनशीन होता है तो अपना रोब जमानेके लिये किसी कठिन कामपर हाथ डालता है.

बादशाह जहांगीरने विक्रमी १६६२ मार्गशीर्ष शुक्लपक्ष [हि० १०१४ रजब = ई० १६०५ नोवेम्बर] में अपने शाहजादे पर्वेजको महाराणा अमरसिंहपर लड़ाईके लिये भेजा और उसके साथ नीचे लिखेहुए सदाँर किये.

आसिफ़खाँ वज़ीर, अब्दुरज़ाक़ मअ्मूरी बरूज़ी, आसिफ़खाँका चचा दीवान मुरुत्तारबेग, राजा भारमल्लका बेटा जगन्नाथ, महाराणा उदयसिंहका बेटा राणा सगर, राजा मानसिंह कछवाहेका भाई माधवसिंह, रायसाल शैखावत, शैख़ रुक़नुद्दीन पठान, शेरखाँ, अबुल्फ़ज़लका बेटा शैख़ अब्दुरहमान, राजा मानसिंहका पोता महासिंह, सादिक़खाँका बेटा जाहिदखाँ, वज़ीर जमील, कराखाँ तुर्कमान, मनोहरसिंह (१) शैखावत और १००० अहदी; इन सबको अपने अपने लश्करोँ समेत शाहजादेके साथ करदिया. बादशाह जहांगीर अपनी किताब 'तुजक जहांगीरी' में लिखता है कि "मेरे बापकी आर्जू पूरी करनेके लिये मेरे जुलूसके मौक़ेपर बड़े बड़े मन्सबदार गए अपनी जमइयतोँके एकट्ठे होगये थे, उन सब उमरावोंको मैंने इस बड़ी मुहिमपर भेजदिया".

इस तरह पर्वेजने मेवाड़पर चढ़ाई की. महाराणा अमरसिंहने पहिले तो अपने देशको ऊजड़ करदिया कि जिससे शाही लश्करको कोई रसद खाने पीनेकी न मिले. जब शाहजादे पर्वेजकी फौजके कई हिस्से होकर अजमेरसे मेवाड़की तरफ़ रवाना हुए, तो महाराणाके बहादुर राजपूतोँने भी देसूरी, बदनौर, मांडल, मांडलगढ़, चित्तौड़की तलहटीकी शाही फौजोंपर हमला करना शुरू किया. इन लड़ाइयोँमें मांडलपर अचलदास चूडावत व बसीके पहाड़ोंमें जयमल्ल सांगावत वगैरह बहुतसे राजपूत दुश्मनोंको मारकर मारेगये, और शाहजादे पर्वेजने शाही हुक्मके मुवाफ़िक़ राणा सगरको चित्तौड़पर राणा बनाकर गद्दी बिठाया, और अपने दादा अक्बर के बचनको पूरा किया. सगर भी अपने बड़े भाई जगमालका इरादा पूरा करनेके

(१) यह राव मनोहर सिंह फ़ार्सी ज़बान खूब जानता था, और उसमें शाइरी भी करता था, जिसका एक शेअर बादशाह जहांगीरने तारीफ़के साथ अपनी किताबमें लिखा है—

शेअर—गरज ज़ि खिल्क़ति सायह हमीं बुवद कि कसे, * ब नूरि हज़ति खुशेद पाय खुद न निहद.*

अर्थका दोहा.

चरण दैन रवि किरणपै दोषजान करतार ॥

यह छाया पैदा करी हरज मिटावन हार ॥

लिये मेवाड़के राजा बनकर चित्तौड़पर चंवर उड़वाने लगे, लेकिन यह ऐसे राजा थे कि 'काग हंसकी चाल चलनेलगा, सो अपनी भी भूलगया'; क्योंकि जो मेवाड़के तहतका आबाद मुल्क था जैसे बदनौर, हुरड़ा, मांडल, जहाजपुर, मांडलगढ़, वह सब तो बादशाही खालिसेमें शुमार कियागया, और चित्तौड़से पश्चिमी देश मेवाड़का हिस्सा बिलकुल वीरान पड़ा था, केवल पहाड़ी मुल्क महाराणा अमरसिंहके कब्जेमें रहा, फ़क़त चित्तौड़से पूर्वी इलाका कुछ खैराड़, आंतरी और थोड़ासा मालवेका टुकड़ा सगरकी जागीरमें था. बादशाही मुलाजिमोंने कहा कि हम मददगार हैं अपने मुल्कको आबाद करके आप कब्जेमें लाओ, लेकिन सगरसे यह कब होसक्ता था.

चित्तौड़ और उदयपुरके बीचकी ज़मीनको तो राजपूत और मुसल्मान बहादुरोंके बलिदानकी भूमि कहना चाहिये, क्योंकि कोई दिन ऐसा नहीं जाता था कि मेवाड़ी राजपूतोंने शाही मुलाजिमोंपर हमला न किया हो. गुजरात, मालवा व अजमेरका शाही मुल्क लूट लूट कर मेवाड़ी राजपूत अपना और अपने मालिकका खर्च चलाते थे. कभी शाही फ़ौजके बहादुर पहाड़ोंमें घुसकर राजपूतोंको कैद व क़त्ल करते थे, कभी मेवाड़ी बहादुर बादशाही बहादुरोंको मारकर हटादेते थे.

विक्रमी १६६३ के चैत्र शुक्लपक्ष [हि० १०१४ ज़िलहिज = ई० १६०६ मार्च] में शाहज़ादा पर्वेज़ चारों तरफ़की शाही फ़ौजको मिलाकर ऊंटाला, और दैवारी (देवड़ावारी) के बीच आया. महाराणा अमरसिंहने भी अपने कुल राजपूतोंको एकट्ठा करके शाही फ़ौजपर हमला करनेका विचार किया. पानड़वाके भील सर्दार पूजा राणाके बेटेको हजारों भीलोंका अप्सर बनाकर पहाड़ोंमें अपनी फ़ौजका मददगार और शाही फ़ौजकी रसद लूटने पर नियत किया. रातके वक्त शाही फ़ौजपर महाराणा अमरसिंहने हमला किया. इस हमलेसे दोनों तरफ़के बहादुरोंने अपने खूनसे ज़मीनको लाल करदिया, और बादशाही फ़ौजका बहुत नुक़सान हुआ, शाहज़ादा पर्वेज़ भागकर मांडलकी तरफ़ चलागया.

इस लड़ाईका ज़िक्र फ़ार्सी तवारीखोंमें कहीं भी नहीं लिखा, सिर्फ़ बहुतसे हमलोंका होना बयान करके विक्रमी १६६३ के वैशाख [हि० १०१५ के मुहर्रम = ई० १६०६ एप्रिल] में लिखा है— कि जहांगीरने पर्वेज़को खुसरोके फ़सादसे आगरेकी हिफ़ाज़तके लिये बुलालिया, सो वह मेवाड़की मुहिमपर बादशाही फ़ौज बाजे सर्दारोंके सुपर्द करके महाराणा अमरसिंहके बेटे बाघसिंहको लेकर लाहौरमें हाज़िर हुआ. बल्कि जहांगीर बादशाहने अपने तुज़कमें शाहज़ादे पर्वेज़की इस लड़ाईमें फ़तह लिखी है, लेकिन इस लड़ाईका हाल राजपूताना

की बहुतसी पोथियोंमें लिखा है जिसकी तस्दीक ईस्ट इंडिया कम्पनीके मुलाजिम लेफ्टिनेण्ट कर्नेल् अलिग्जैण्डर डाऊकी हिन्दुस्तानकी तवारीखकी तीसरी जिल्दके ४३ वें पृष्ठसे स्पष्ट है, बल्कि डाऊ साहिब लिखते हैं कि जहांगीर ने पर्वेजसे बहुत नाराज होकर उसको वली अहदीके हक्कसे खारिज करदिया, और शाही मुलाजिमोंने जुदी जुदी चिट्ठियां बादशाहको लिखीं, जिनमें एक दूसरेका कुसूर जाहिर करता था.

कर्नेल् टॉड साहिब भी कर्नेल् डाऊ साहिबके मुताबिक ही पर्वेजका शिकस्त खाना अपनी किताबमें लिखते हैं, लेकिन हमारे बखिलाफ वह इस लड़ाईका होना खमनोर मुतअल्लिक कुम्भलमेर पर लिखते हैं.

सगर महाराजने चित्तौड़पर नये उमराव और सर्दार बनाना शुरू किया; महाराणा उदयसिंहके परपोते शक्तिसिंहके पोते अचलदासके बेटे नारायणदासको बेगूं ८४ गांवों और रत्नगढ़ ८४ गांव समेत जागीरमें दिया. बादशाह जहांगीरने मुइज़ुल् मुल्कको बख्शी बनाकर मेवाड़पर भेजा. इसी फौजने मिर्जा शाहखुके बेटे बदीउज़्जमांको गिरिफ्तार किया, जो मालवेमें कुछ फसाद उठाकर महाराणा अमरसिंह से मिलना चाहता था. इस फौजने भी बहुतसी दौड़ धूप की लेकिन अस्ली मल्लव बादशाहका पूरा नहीं हुआ. तब बादशाह जहांगीरने विक्रमी १६६५ चैत्र शुक्लपक्ष [हि० १०१६ जिलहिज = ई० १६०८ मार्च] में महावतखांको नीचे लिखीहुई बड़ी जरार फौज देकर मेवाड़ पर भेजा:-

१२००० जंगी सवार और सर्दार लड़नेवाले, ५०० पैदल, २००० बर्कन्दाज, और १७ तोप गजनाल और शतरनाल, ६० हाथी व बीस २०००००० लाख रुपये का खजाना.

बादशाहने महावतखांको तीन हजारी जात और २५०० सवारका मन्सब दिया, और खिलअत, घोड़ा हाथी और पटका, जड़ाऊ खंजर, इनायत किया, दूसरे उमरावोंको, जो उसके साथ थे, इनआम देकर विदा किया. महावतखां बड़े ग़रूरके साथ शाहजादे पर्वेजकी फौजकी खराबीका बदला लेना चाहता था; वह अजमेरसे निकलकर मेवाड़में शाही थाने ठौर ठौर बिठाता हुआ ऊंटाले तक पहुंचा और यहां अपनी फौजको मजबूत करके पहाड़ोंमें होकर महाराणा अमरसिंहको फतह करना चाहता था; उसी अर्सेमें उसको दो तीन रोज इस मकामपर न गुजरे होंगे कि महाराणा अमरसिंहने पहाड़ोंसे उदयपुरमें आकर अपने राजपूतोंको शाही फौजपर हम्ला करनेका हुक्म दिया और आप भी पहाड़ोंसे बाहर निकले.

रातका समय था, रावत मेघसिंह गोविन्ददासोत चूडावतने अपनी होश्यारी से एक हिक्मत सोचकर अपने दस बीस राजपूतोंको कीरोंके लिबासमें भैंसोंके साथ करके शाही लश्करमें भेजदिया और उन भैंसोंमें खरबूजोंके एवज जो वे लोग बेचाकरते हैं आतिशबाजी भरदी. जब ये लोग अपने भैंसोंको लेकर शाही लश्कर में महाबतखांकी ड्योढ़ीके पास पहुंचे, तो रावत मेघसिंहने दस बीस आदमियोंको गाय व बैलोंके सींगोंसे फलीते (फ़तीले) बंधवाकर तीन तरफसे शाही फ़ौजकी तरफ चलाया. महाबतखांकी ड्योढ़ीपर उन राजपूतोंने भैंसोंकी आतिशबाजीमें आग डाली, जंगलमें बहुतसी रौशनी दिखाई देनेसे वे लोग घबराकर भागने लगे, हरएकको यह खयाल होगया— कि बड़ा भारी लश्कर आपहुंचा, जिधर जिसका मुंह उठा भाग निकला.

रावत मेघसिंहने अपने पांचसौ सवारोंसे शाही लश्करपर हम्ला करदिया, जिससे नव्वाब महाबतखांको भी भागना पड़ा. इस खबरके पाते ही मेवाड़के कुल्ल सर्दारोंने शाही फ़ौजका पीछा किया. कहते हैं कि उसी रातमें जितने थाने महाबतखांने बिठाये थे, सब भागगये. इस लड़ाईमें हजारहा आदमी शाही फ़ौजके मारेगये, और माल अस्बाब मेवाड़के राजपूतोंने लूटा; बादशाह जहांगीरने नाराज होकर महाबतखांको बुलालिया— इस फ़तहका हाल भी पर्वेजकी शिकस्तकी तरह जहांगीरने अपनी किताब तुजक जहांगीरीमें बयान नहीं किया. सिर्फ इतना ही लिखा है कि राणाकी लड़ाई जैसी चाहिये थी न हुई, इससे उसको बुलालिया; लेकिन इतने ही लिखनेसे ऊपर लिखी हुई लड़ाईकी सच्चाई मालूम हो सकती है.

केवल चित्तौड़पर शाही फ़ौज समेत महाराज सगर व मांडलके थानेपर राजा जगन्नाथ कछवाहा भारमल्लोत ठहरा रहा लेकिन सम्वत् (१) विक्रमी १६६६ [हि० १०१८ = ई० १६०९] में राजा जगन्नाथ बीमार होकर मरगये, जिनकी छत्री सफ़ेद पत्थरकी मांडलमें विक्रमी १६७० [हि० १०२२ = ई० १६१३] में बनाई गई जो अबतक मौजूद है. (शेषसंग्रह देखो प्रशस्ति नम्बर १)— इनका जन्म विक्रमी १६०९ पौष कृष्ण ९ [हि० १५५९ ता० २३ ज़िलाहिज = ई० १५५२ ता० ११ डिसेम्बर] का था; इस राजाके मरनेका बादशाह जहांगीरको भी बहुत रंज हुआ.

फिर जहांगीरने अब्दुल्लाखांको बहुत बड़ी फ़ौज देकर मेवाड़में भेजदिया, पेशतर महाबतखांने मोहिके परगनेमें पहुंचकर दरयापत किया कि अमरसिंहका खटला

(१) नैनसी महताने विक्रमी १६६५ लिखा है, लेकिन तुजक जहांगीरी वगैरह किताबोंके देखने से विक्रमी १६६६ मालूम होताहै—

कहाँ रहता है? किसीने कह दिया कि महाराणाके बालबच्चे जोधपुरके राजा सूरसिंहके मुल्कमें रहते हैं, तब उसने राजा सूरसिंहसे सोजतका परगना जब्त करके राठौड़ चन्द्रसेन उग्रसेनोतको इस शर्तपर दे दिया कि राणा व राणाका खटला उस तरफ़ आवे तो हमको फौरन खबर दो; जब अब्दुल्लाखां आया तो सूरसिंहके कुंवर गजसिंहने अपना परगना पीछे लेनेकी कोशिश की. अब्दुल्लाखांने सोजत वापस देकर गजसिंहको नाडोलके थानेपर तईनात किया. अहमदाबादसे एक कतार कुछ खज़ाना व सामान लेकर आगेको जाती थी, जिसकी खबर अम्बावके पहाड़ोंमें महाराणा अमरसिंहको मिली, और कुंवर कर्णसिंह उस वक्त नीचे लिखे हुए राजपूतोंको साथ लेकर चढ़े:—

शैखा राणा प्रतापसिंहोत, कुंवर बाघसिंह अमरसिंहोत, भाला शत्रुशाल मानावत, सोलंखी बीरमदेव, राठौड़ किसनदास (कृष्णदास) गोपाल दासोत, राठौड़ हरिदास बलुओत, सीसोदिया माधवसिंह, शार्दूलसिंह राणा उदयसिंहोत, सहसमल्ल राणा प्रतापसिंहोत, सींधल बीदो, सींधल सांवलदास बीदावत, कुंवर अर्जुनसिंह अमरसिंहोत, माधवसिंह राणा उदयसिंहोत, राठौड़ माला भीमकर्णोत, देवड़ा पत्ता कलावत, सींधल अमरा भांडावत, सींधल तोगा भांडावत, सोनगरा केशवदास भाणावत, अक्षयराजका पोता सोनगरा सावन्तसिंह नारायणदासोत और चूंडावत दूदा सांगावत वगैरह. जब मारवाड़में सोनगरा नारायणदास डोडिया गोपालदास, डोडिया सादा, डोडिया सूजा, डोडिया अगरा, डोडिया जगमाल कतार लूटनेको पहुंचे तो खबर लगी कि कतार निकलकर पेशतर अजमेर चली गई. इस लिये ये निराश होकर पीछे फिरे, उस वक्त अब्दुल्लाखांकी बादशाही फौज, जो थानोंपर तईनात थी, जा पहुंची, नाडौलसे भाटी गोविन्ददास भी अपनी जमइयत लेकर शाही फौजमें शामिल हुआ, भादराजून और मालगढ़के पास शाही मुलाजिमोंसे मुकाबला हुआ. सरत लड़ाई होनेके बाद कुंवर कर्णसिंह भागकर पहाड़ोंमें चलेगये, तरफैतके अक्सर बहादुर कामआए. कर्णसिंहकी तरफके नीचे लिखे हुए राजपूत मारेगये—

दूदा सांगावत, राठौड़ हरिदास, नारायणदास सोनगरा, डोडिया गोपालदास, डोडिया सादा, डोडिया सूजा, डोडिया अगरा, और डोडिया जगमाल. यह लड़ाई विक्रमी १६६८ [हि० १०२० = ई० १६११] में हुई; इसके बाद अब्दुल्लाखांका लश्कर कुछ दिनों तक मेवाड़में इधर उधर घूमता रहा, मेवाड़के राजपूत भी जहाँ मौका देखते हमला करते.

एक वक्त कैलवा ग्रामके नज्दीक राठौड़ ठाकुर मन्मनदास मुकुन्ददासोतने शाही फौजपर छापा मारा; अब्दुल्लाखांसे भी बादशाहकी मन्शाके मुवाफिक काम न हुआ। तब विक्रमी १६६८ [हि० १०२० = ई० १६११] में अब्दुल्लाखांको बादशाहने चार लाख (४०००००) रु० देकर गुजरातकी सूबेदारीपर भेजा, और मेवाड़ की लड़ाई पर उसके एवज राजा बासू (१) मुकर्रर होकर रवाना किया गया।

(१) राजा बासू, तंवर राजपूत, पंजाबके पहाड़ी जिलेमें ग्राम नूरपुरका राजा था, जो इलाके जालन्धर जिले कांगड़ामें गिनाजाता है,— इनका कुछ तवारीखी हाल, नूरपुरके पुरोहित सुखानन्दके कागज़ोंसे मालूम हुआ, जो विक्रमी १९४१ [हि० १३०१ = ई० १८८४] में यहाँ (उदयपुर) आया था। उस पुरोहितके पास एक ताम्रपत्र भी, महाराणा अमरसिंहके समय विक्रमी १६६९ भावण कृष्ण ९ [हि० १०२१ ता० २३ जमादियुल अब्बल = ई० १६१२ ता० १३ जुलाई] का है, जिसकी नक़ल तारीखी अहवालके साथ नीचे लिखीजाती है—

राजा दलीपसे जब दिल्लीकी राजधानी छूटी और उनके पुत्र जैतपाल भेटने नूरपुरको अपनी राजधानी बनाया; उससे २४ वीं पीढ़ीमें राजा बासू हुआ, जो बादशाह जहाँगीरके भेजनेसे अपने प्रधान पुरोहित व्यास समेत चित्तौड़ आया, उस समय राजा बासूने महाराणा अमरसिंहसे एक मूर्ति, जो अब नूरपुरके किलेमें ब्रजराज स्वामीके नामसे प्रसिद्ध और मीरां बाईकी पूजाहुई बताते हैं, मांगी, इसपर महाराणाने उनके प्रधान पुरोहित व्यासको वह मूर्ति एक ग्राम समेत, जिसका ताम्रपत्र नीचे लिखाजायगा, संकल्प करके देदी, इससे मालूम होता है— कि महाराणा अमरसिंहसे राजा बासू मिलगया था।

राजा बासूका बेटा जगतसिंह बड़ा प्रतापी हुआ, जो बादशाहोंसे अक्सर लड़ता रहा। इनके कब्जेमें कई लाखका मुल्क होगया था, यह जगतसिंह किसी साधूके कहनेसे हिमालयमें जाकर गलगया।

जगतसिंहसे छठी पीढ़ीमें राजा वीरसिंहके समयमें राजा रणजीतसिंह सिक्खने इनका बहुतसा मुल्क छिनलिया, बल्कि धोखेसे लाहौरमें उसे बुलाया और कैद करके किला नूरपुर भी लेलिया। वीरसिंहने कैदसे छूटने बाद कईबार हमले किये, लेकिन राजधानी हाथ न आई।

हालके राजाके कब्जेमें दस बारह हजार सालाना आमदनीकी जागीर रहगई है, और नूरपुर से आध मीलके फासिलेपर खुश नगरमें उनका निवास है।

विक्रमी १९१४ [हि० १२७४ = ई० १८५७] के ग़दर बाद सरकार अंग्रेजीने किले नूरपुरको तोड़कर आधा किला और कुछ बागबगीचा भी वर्तमान राजा जशवंतसिंहको देदिया।

१ राजा दलीप, २ जैतपाल भेट, ३ त्रिपाल, ४ बुधपाल, ५ जरीपत, ६ जयपाल, ७ सकूनी, ८ जगरथ, ९ राम, १० गोपाल, ११ अर्जुन, १२ विद्वारथ, १३ झगड़मल्ल, १४ राम, १५ कीरत, १६ धीरवो, १७ जसता, १८ कैलाश, १९ नागा, २० पृथ्वीमल्ल, २१ भीलो, २२ बख्तमल्ल, २३ पहाड़मल्ल, २४ बासू, २५ जगतसिंह, २६ राजरूप, २७ मानधाता, २८ दयाधाता, २९ पृथ्वीसिंह, ३० फ़रहसिंह, ३१ वीरसिंह, ३२ यशवन्तसिंह।

महाराणा अमरसिंहने बादशाही फौजसे १७ सत्रह लड़ाइयां कीं, जब अपने बापका कौल इनको याद आता तो जोशमें आकर शाही मुलाजिमोंपर हम्ला किये बगैर नहीं रहते थे, लेकिन तमाम हिन्दुस्तानके बादशाहके साथ छोटेसे मुल्कका मालिक कब बराबरी करसक्ता है, इसके सिवाय आमदनीका मुल्क बिल्कुल वीरान होगया, रिआया इलाका छोड़कर भागगई, सिर्फ पहाड़ी हिस्सोंमें भील लोग आबाद थे, जिनसे सिवाय लड़ाईकी मददके कुछ आमदनी नहीं होसकी थी. विक्रमी १६२४ [हि० १७५ = ई० १५६७] से वि० १६७० [हि० १०२२ = ई० १६१३] तक हजारहा आदमियों व रणवास बगैरहका खर्च बड़ी मुश्किलसे चलायागया.

राजपूत लोगोंमेंसे दोदो चारचार पीढ़ियां सबकी मारीगई थीं. पहाड़ोंके चारों तरफसे बादशाही फौजोंके हमले होते थे, आज एक बहादुर राजपूत मौजूद है, कल मारागया, परसों उसके बेटेने भी हमलाकरके अपनी जान दी, उनकी बेवा औरतें अपने खाविन्दोंके साथ आगमें जलती थीं, उन लोगोंके लड़के लड़की, जो कमउम्र रहजाते, उनकी पर्वरिश भी महाराणाको ही करनी पड़ती थी; जिसपर

ताम्रपत्रकी नकूल.

श्रीरामो जयति.

श्रीगणेशप्रसादातु.

श्रीएकलिंग प्रसादातु.



सही

महाराजाधिराज महाराणा श्रीअमरसिंहजी आवेशातु पुरोहित व्यास कस्य,

(१) ग्राम झीथो रेवलीरी पाखतीरो उदक आघाट करे मया कीधो. विक्रमी १६६९ वर्षे सावण कृष्णा ९ रवे ऊ स्वदत्त परदत्त वावेहरंति वसुंधरा षष्ठीवर्ष सहसराणां विष्टायांजायते क्रमी दुए श्रीमुख प्रति दुए साह इंगरसी लिखत पंचोली शंकरदास.

(१) अर्थ- रेवल्याके पासका झींत्या ग्राम समर्पण किया.

भी यह खौफ था कि हमारे राजपूतोंकी औलाद मुसलमानोंके हाथ पड़कर गुलाम न बनाई जावे. अगर कभी ऐसा हो भी जाता था तो उस बातका सद्मा महाराणा अमरसिंहके दिलमें छेद करता था, एक एक दिनमें कई जगह रसोई (खाना) करना पड़ा है, याने एक जगह भोजन तय्यार हुआ और शाही मुलाजिमोंने आघेरा, फिर दूसरी जगह बनाना पड़ा, वहां भी दुश्मनोंने आदबाया, तब तीसरी जगह किसी पहाड़की खोहमें रोटियां होने लगीं. छोटे छोटे बच्चे अपने अपने मा बापसे खाना मांगते, वे उनको दम देदेकर दिन कटाते थे. लेकिन धन्य है मेवाड़के उन बहादुर राजपूतोंको कि ऐसी तकलीफें उठानेपर भी अपने बाप दादोंकी इज्जत और कहावतोंपर खयाल करके मरते और मारते थे, और जो कोई आदमी निकलकर शाही मुलाजिम होता था उसपर हज़ारहा लानत मलामत करते थे, लेकिन जो महाराज शक्तिसिंहके समान अपने मालिककी खैरस्वाहीको दिलमें मज़बूत रखकर शाही नौकरी करते, ऐसे लोगोंको अपने एल्चीके मुवाफिक जानकर खबर वगैरहका काम निकालते थे. यह लानत मलामत राजपूत लोग महाराज जगमाल व सगर जैसे कौमी दुश्मनोंपर करते थे.

जब शाहजादा पर्वेज़ व महाबतखां और अब्दुल्लाखां वगैरह शिकस्तें खाखाकर नाउम्मेद होचुके, तो बादशाह जहांगीरने सोचा कि बगैर हमारे जानेके उदयपुरका महाराणा ताबे नहीं होसकता. तब खुद बादशाह विक्रमी १६७० आश्विन शुक्ल ४ [हि० १०२२ ता० २ शबान = ई० १६१३ ता० १९ सेप्टेम्बर] को सात घड़ी रात गये आगरेसे अजमेरकी तरफ़ रवाना होकर मार्गशीर्ष शुक्ल ७ [ता० ५ शबवाल = ता० २० नोवेम्बर] को अजमेरमें दाखिल हुआ.

बादशाहने अपना कियाम अजमेरमें रखना मुनासिब जानकर शाहजादे खुर्रमको मेवाड़ पर जानेका हुक्म दिया. शाहजादेको कपड़े, गहना, हाथी, घोड़े, हथियार, खिलअत व खिताबसे बढ़ाकर नीचे लिखे हुए सद्दार, उमरावोंको साथ दिया:—

जोधपुरके राजा सूरसिंह राठौड़ उदयसिंहोत, नवाजिशखां, सैफ़खां, तर्बियतखां, अबुल्फ़तह दक्षिणी राजा सूरसिंहके भाई कृष्णगढ़के राजा कृष्णसिंह, सगर राणा उदयसिंहोत, सुलैमानबेग वाकिआ नवीस, बूंदीके राव हाड़ा रत्न, राजा सूरजमल्ल तैवर, नूरपुरके राजा बासूका बेटा जगतसिंह, राजा विक्रमादित्य भदौरिया, सय्यद अली-खिताब सलाबतखां, सय्यद हाजी हाजीपुरी, शाहरुख़का बेटा मिर्जा बदीउज़्जमां, मीर हिसामुद्दीन, रज़ाकबेग उज़्बक, दोस्तबेग, स्वाजा मुहसिन, अरबखां, बारहका सय्यद शिहाब.

विक्रमी १६७० पौष शुक्ल १५ [हि० १०२२ ता० १४ ज़िकाद = ई०]

१६१३ ता० २६ डिसेम्बर] को शाहजादा खुर्रम, जिसकी उम्र २१ वर्ष ११ महीने ११ दिनकी थी, रवाना किया गया, और सूबे मालवेसे खान् आजम मिर्जा अजीज कोकलताश सूबेदार, फरेदूखां, सर्दारखां और वहांके सब मन्सबदार; सूबे गुजरातसे अब्दुल्लाखां बहादुर सूबेदार, दिलावरखां काकड़, सजावारखां, जाहिद, यारवेग वगैरह मन्सबदार; सूबे दक्षिणमें, जो बादशाही लश्कर शाहजादे पर्वेजके तहतमें था, उसमेंसे राजा नरसिंहदेव बुंदेला, मुहम्मदखां, याकूबखां नियाजी, हाजीबेग उज्बक, मिर्जा मुराद सफवी, शिर्जाखां, अल्लाह यार कूका, गजनीखां जालौरी वगैरह; सबको हुक्म हुआ कि शाहजादे खुर्रमकी मददके वास्ते शाही लश्करमें शामिल हों.

हमको एक बात बादशाहनामेकी जिल्द १ सफ़्हे १६५ से, जिसको मौलवी अब्दुल हमीद लाहौरीने लिखा है, बयानकरनी जरूर हुई, क्योंकि फ़ार्सी मुवर्रिखों के सिवाय खुद बादशाह जहांगीर भी अपनी शाही फौजोंकी शिकस्त व खराबियों के हालको हज्म करगया. मुल्ला अब्दुल् हमीद लिखता है कि राणाकी मुहिम पर जानेसे शाहजादे पर्वेज व महाबतखां व अब्दुल्लाखाने सिवाय परेशानी व सरगर्दानी के कुछ फ़ायदा न उठाया.

इस कलामके देखने से पढ़ने वालोंको यकीन होगा कि ऊपर लिखीहुई शिकस्तोंसे भी बढ़कर शाही फौजोंकी खराबियां हुई हैं. हमको मेवाड़ी मुवर्रिख जानकर तरफ़दारीका दोष कोई न लगावेंगे, हमने बहुतसी लड़ाइयोंका हाल, जो कर्नेल् टॉड वगैरहने लिखा है, छोड़दिया; क्योंकि एक तो छोटी छोटी लड़ाइयोंके लिखने से तवालत (विस्तार) होजाती है— दूसरे हमारी तसल्लीके लायक़ सुबूत न मिले. खैर अब हम अस्ली मतलबको बयान करते हैं.

जब शाहजादा बादशाही लश्कर समेत मांडलमें, जो मेवाड़में उदयपुरसे ईशान कौनकी तरफ़ करीब ४० कोसके है, पहुंचा, तो मुल्ला अब्दुल् हमीद बादशाह नामेकी जिल्द १ सफ़्हे १६७ में लिखता है कि “सुल्तान पर्वेज व महाबतखां इस जगहसे आगे न बढ़े थे, सो वास्तवमें उनका यहांसे कामयाबीके साथ आगे बढ़ना नहीं जानपड़ता, क्योंकि जब बढ़े तब खराब हालतसे वापस आये,—शाहजादे खुर्रमको पहिले यह फ़िक्र हुई कि उदयपुरमें हमारे पास रसद पहुंचनेका पक्का बन्दोबस्त कियाजावे, इसीवास्ते एक फौजका टुकड़ा जमालखां तुर्कीके साथ मांडलमें छोड़ा, दूसरा फौजका हिस्सा कपासनमें दोस्तबेग और स्वाजह मुहसिनके हवाले किया, तीसरा थाना अंटालेमें सय्यद हाजीके सुपर्द किया, चौथा नाहर मगरेके थानेपर अरबखांके हवाले रहा, पांचवां थाना डबोकमें नियत किया, और छठे दैबारीके थानेपर सय्यद शिहाब

बारहको रक्खा; ये छत्रों थाने बिठाकर शाहजादा उदयपुर आया, जहां दूसरी तय्यारीकी. राजा सूरसिंहने शाहजादेको उंटालेमें ठहरनेकी राय दी थी, लेकिन वह उसकी सलाहके बखिलाफ़ उदयपुरमें विक्रमी १६७० फाल्गुन [हि० १०२३ मुहर्रम = ई० १६१४ फेब्रुअरी] को आपहुंचा; गुजरातसे अब्दुल्लाखां भी बहुत बड़ी जमइयतके साथ उदयपुरमें शाहजादेके पास हाजिर हुआ. खुर्रमने पहाड़ोंमें घुस कर हमला करनेका पक्का विचार करके नीचे लिखे लोगोंको अलहदा अलहदा तय्यार किया—

पहिले गिरोहका अफसर अब्दुल्लाखां बहादुर फ़ीरोज़जंग, जो अहमदाबादसे आया था; दूसरी फौजका मालिक दिलावरखां काकड़, और उसकी मददके लिये बैरम्बेग बख्शी; तीसरी सेनाका अफसर सय्यद सैफ़खां व कृष्णगढ़का राजा कृष्णसिंह राठौड़; चौथे गिरोहका मुख्तार मीर मुहम्मद तकी मीरबख्शी हुआ; इन चारों फौजोंने हर तरफ़ लूटना, मारना, जलाना, गिरिफ्तार करना, शुरू किया.

महाराणा अमरसिंहने भी अपने बहादुर राजपूत, चहुवान राव बल्लू, चहुवान रावत पृथ्वीराज, राठौड़ सांवलदास, भाला हरदास, पंवार शुभकरण, चूंडावत रावत मेघसिंह, चूंडावत रावत मानसिंह, भाला कल्याण, सोलंखी बीरमदेव, राठौड़ कृष्णदास, सोनगरा केशवदास भाणावत, डोडिया जयसिंह भीमसिंहोत वगैरहको मए अपने काका, भाई व बेटोंके जुदा जुदा सेनापति बनाकर शाही फौजका मुकाबला करनेको तय्यार किया. राजपूत लोगोंका यह काम था कि पहाड़ों में शाही फौजको न घुसने दें, उनको गाफ़िल देखकर धावा करें और रसद लूटें. लेकिन खुद जहांगीर अजमेरमें बैठकर कुल हिन्दुस्तानकी फौजको मेवाड़के पहाड़ों पर विदा करचुका, तो कहांतक एक मेवाड़का राजा लड़सक्ता था. बादशाही फौज पहाड़ोंमें अपना कब्ज़ा बढ़ाती जाती थी. अब्दुल्लाखाने, जो पहाड़ोंमें बढ़गया था, महाराणा अमरसिंहके आलमगुमान नामी हाथीको, जो पांच हाथियों समेत उसके हाथ आया, विक्रमी १६७१ चैत्र शुक्ला ११ [हि० १०२३ ता० ९ सफ़र = ई० १६१४ ता० २२ मार्च] को लाकर शाहजादेके नज़र किया.

जब महाराणा अमरसिंहने शाही फौजोंका ज़ियादा जोर शोर देखा तो लाचार चावंडको छोड़कर ईडरके पहाड़ोंकी तरफ़ चले. उस वक्त ये हाथी पीछे रहगये थे, जिनको अब्दुल्लाखांके आदमियोंने गिरिफ्तार करलिया. दिलावरखां व बैरम्बेगके कब्जेमें भी महाराणाके कई हाथी आगये और दूसरे सर्दारोंने भी जिसके जो हाथ आया शाहजादेके पास पहुंचाया. शाहजादेने आलमगुमान हाथी समेत सत्रह हाथी फ़तह किये हुए बादशाह जहांगीरके पास अपने दीवान जादूरायके

साथ अजमेर भेजदिये. बादशाहने इन हाथियोंको देखकर और फ़तहकी खुशख़बरी सुनकर अपने बेटे खुर्रमको बहुत तारीफ़के साथ खास अपने हाथसे फ़र्मान लिख भेजा. शाहजादेने बादशाही फ़ौजोंके नीचे लिखेहुए थाने कायम करदिये.

कुम्भलमेरमें बदीउज्जमांको अच्छे बन्दूकदारों समेत, भाड़ौलमें सय्यद सैफ़खांको, गोगूँदेमें राणा सगरको, आंजणेमें दिलावरखांको, औरगनेमें फ़रेदूखां और हाड़ा रत्नसिंह बूंदी वालेको चावंडमें, मुहम्मद तकी मीरबख़्शीको, बीजापुरमें बैरमबेगको, जावरमें इब्राहिमखांको, मादड़ीमें मिर्जा मुरादको, पानड़वेमें सज़ावारखांको, केवड़ेमें ज़ाहिद, और सादड़ीमें राठौड़ राजा सूरसिंहकी फ़ौजको मुकर्रर किया.

इन थानोंमेंसे हरएकपर इसक़दर फ़ौज रक्खीगई थी— कि एक दूसरेकी मददका सहारा न देखे. इसतरह मेवाड़के उत्तरी पहाड़ोंको शाही फ़ौजोंने कब्ज़में करलिया, जिससे उनके लिये रसद आनेमें कुछ भी खटका न रहा, क्योंकि उत्तरी मेवाड़में राजपूतों का पहुंचना बिल्कुल बन्द होगया था. महाराणा और उनके सदाँर व बालबच्चे दक्षिणी पहाड़ोंमें रहे. गर्मियोंके मौसममें कभी कभी कहीं कहीं लड़ाइयां होती रहीं. बदनौरवालोंका बुजुर्ग जयमल्ल मेड़तिया जो विक्रमी १६२४ [हि० १७५ = ई० १५६७] को चित्तौड़की लड़ाईमें मारागया था, उसका बेटा मुकुन्ददास गोड़वाड़में राणपुरके मन्दिरोंकी खराबी करनेवाली बादशाही फ़ौजसे लड़कर मारा गया, जिसका बेटा मन्मनदास बदनौर और विजयपुरका जागीरदार रहा.

भाला मानसिंह देलवाड़ेका जागीरदार, जिसकी शादी महाराणा उदयसिंहकी बेटीसे हुई थी, और जो विक्रमी १६३३ द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल २ [हि० १८४ ता० १ रबी-उलअव्वल = ई० १५७६ ता० ३१ मई] को हल्दीघाटीमें शाही फ़ौजसे लड़कर मारागया था, उसके बेटों शत्रुशाल, कल्याण, और आसकरण मेंसे शत्रुशाल महाराणा प्रतापसिंहकी बहिनका बेटा होनेके कारण तेज़ मिजाजीके साथ महाराणासे बोलचालमें खटपट रखता था. किसी वक्त देलवाड़ेमें दस्तक (धौंस) होनेपर रूबरू महाराणा प्रतापसिंहसे तक्रार होगई. शत्रुशाल नाराज़ होकर निकला, महाराणाने अंगरखेका दामन पकड़कर रोका, उन्होंने पेशकब्ज़से दामन काटडाला. महाराणाने फ़र्माया कि शत्रुशालके नामवालेको मैं कभी अपने राजमें न रक्खूंगा, शत्रुशालने अर्ज किया कि मैं भी ज़िन्दगी भर सीसोदियोंकी नौकरी न करूंगा. यह कहकर वह यहांसे निकलकर जोधपुरके महाराजा सूरसिंहके पास चलागया. वहांसे उनको भाद्राजूनका पट्टा जागीरमें मिला. महाराणाने राठौड़ मन्मनदासको देलवाड़ा इनायत किया, मन्मनदासने अर्ज की कि शत्रुशाल आपकी बहिनके बेटे हैं, अर्ज मारूज़ या मुहब्बतसे उनका ठिकाना उनको पीछे दियाजावे तो मेरी हंसी होगी, महाराणाने कसम खाकर फ़र्माया कि

तुम्हारी जिन्दगी तक देलवाड़ा तुमसे हर्गिज तागीर (तग्यीर) न होगा; शत्रुशालके छोटे भाई कल्याण और आसकर्ण देलवाड़ा खालिसे होनेसे कुछ असें तक चीरवामें, जो ब्राह्मणोंका सासण ग्राम है, रहे; जब महाराणा प्रतापसिंहका देहान्त हुआ और महाराणा अमरसिंहने बहुतसी लड़ाइयां बादशाही फौजोंसे कीं, तब कल्याणमे भी महाराणाको कई लड़ाइयोंमें अपनी बहादुरी दिखलाई. महाराणाने किसी जागीरका हुक्म दिया. कल्याणने अर्ज की कि हमारे बापका ठिकाना तो देलवाड़ा है वही इनायत कीजिये, महाराणा अमरसिंहने फर्माया कि देलवाड़ातो राठौड़ मन्मनदासकी जिन्दगी तक उनके कब्जेमें रखनेके लिये श्री दाजीराज (पिता) का हुक्म है, जिसको हम नहीं मिटासके.

विक्रमी १६६७ [हि० १०१९ = ई० १६१०] में जब राठौड़ मन्मनदासका देहान्त हुआ तब राज कल्याणको महाराणा अमरसिंहने देलवाड़ा इनायत किया, और राठौड़ मन्मनदासके बेटे सांवलदास बदनौरमें रहे, जब इस वक्त शाहजादे खुर्रमकी फौजके जोरशोर से भालोंको अपने खैरस्वाह राजपूत जानकर महाराणा अमरसिंहने राज कल्याणको हुक्म दिया कि तुम जोधपुर जाकर अपने भाई शत्रुशालको ले आओ, हम उनको दूसरी जागीर देंगे; महाराणाके हुक्मसे कल्याण जोधपुरकी तरफ गया, शत्रुशाल अपने मालिक पर बादशाही फौजकी चढ़ाई जानकर सूरसिंहके साथ शाही फौजमें न आया. जोधपुरमें कुंवर गजसिंहने शत्रुशालको हँसीके तौरपर कहा कि आज कल महाराणा अपनी रानियों समेत पहाड़ों में दौड़ते फिरते हैं, शत्रुशालने कहा कि हां बादशाहोंको बेटियां देकर आराम लेना दूसरोंके अनुसार उन्होंने पसन्द नहीं किया. और इस इज्जतकी तकलीफ को बे इज्जतीके आरामसे बिहतर जानकर मुसलमानोंको वे अपनी बहादुरी दिखला रहे हैं. कुंवर गजसिंहने गुस्सेमें आकर कहा कि ऐसे खैरस्वाहोंको तो शाही फौजसे लड़कर मरना चाहिये. शत्रुशाल उठखड़ा हुआ और कुंवरसे कहा कि मैं आपकी नसीहतको गनीमत जानकर शाही फौजसे लडूंगा.

शत्रुशाल जोधपुरसे रवाना होकर मेवाड़की तरफ आता था, कल्याण रास्तेमें मिला और महाराणाका हुक्म अपने भाईको सुनाया. शत्रुशालने सुनकर जवाब दिया कि मैंने महाराणाकी नौकरी करनेकी सौगन्द खाई है, और जिस कामके लिये बुलाते हैं वह काम करना मुझे फर्ज है, जोधपुरकी सरगुज्जत भी अपने भाईको कहसुनाई, दोनों भाइयोंने सलाहकरके मेवाड़ मारवाड़के बीच पहाड़ी घाटेकी अंबल संवलकी नालमें नव्वाब अब्दुल्लाखांके जेरदस्त जो शाही फौज तईनात थी, उसपर हमला किया. तरफैनके बहादुर खूब लड़े; भाला भोपत वगैरह बहुतसे राजपूत कल्याण

और शत्रुशालके मारेगये. शत्रुशाल तो ज़स्मी होकर मेवाड़के पहाड़ोंमें चलागया, और कल्याण अपना घोड़ा मारेजाने और खुद ज़स्मी होनेके सबब बादशाही फौजसे घिरगया. वह एक मन्दिरमें बैठकर कमानसे तीर चलाने लगा और जबतक तीर रहे किसीको नज़दीक न आने दिया; जब तीर न रहे तो लोगोंने उसको चारों तरफसे हमलाकरके गिरफ्तार करलिया. नवाब अब्दुल्लाखानेराज कल्याण ज़स्मीको पालकी में बिठाकर शाहज़ादे खुर्रमके पास भेजदिया. शाहज़ादेने मर्हम पट्टी वगैरह इलाजका हुकम दिया. शत्रुशालने पहाड़ोंमें तन्दुरुस्तहोकर गोगूंदेके थानेपर, जहां राणा सगर वगैरह शाही मुलाज़िम बड़ी ज़रार फौजके साथ तईनात थे, हमला किया. क्योंकि शत्रुशाल तो जोधपुरसे मरना ठानकर निकला था इसलिये गोगूंदेकी फौजसे लड़ता-हुआ रावल्यां गांवमें मारागया. यह खबर सुनकर महाराणा अमरसिंहने सब सर्दारों केसाम्हने हुकम दिया कि शत्रुशाल गोगूंदेमें मारागया जिससे गोगूंदा ही हमने उसकी औलादके लिये जागीरमें इनायत किया. फिर अमन हुआ तो उसवक्त गोगूंदा शत्रुशालके छोटे बेटे कान्हकी जागीरमें रहा और बड़े नाथसिंह मदारके जागीरदार कहलाये, जो अब देलवाड़ेके ताबेदार राजपूतोंमें हैं. इसका ज़ियादा जिक्र सर्दारोंकी तवारीखमें लिखाजायगा. राज कल्याणको तन्दुरुस्त होनेके बाद शाहज़ादेने कैदसे छोड़ दिया, [जिसका जिक्र बादशाहनामेकी पहिली जिल्दके अब्बल दौर, दूसरे हिस्सेके दूसरे सफ़हेमें लिखा है.]

बर्सात आनेपर शाही फौजोंने अपने अपने थानोंको मज़बूत किया, और मेवाड़ी राजपूत कभी २ रात या दिनको धावा मारजाते थे. जब बर्सात गुज़री और सर्दीका मौसम आया तो शाही फौजने ज़ियादा ताक़त पाई.

दिन बदिन मेवाड़ी राजपूतोंका बल कम होने लगा, तब सब रियासती आदमियोंने कहा कि अब सुलह किये बिना राज्य रहना कठिन है; महाराणाने हुकम दिया कि एक दोहा हम लिखदेते हैं जो खानखाना अब्दुरहीमके पास पहुंचायाजाय, क्योंकि वह अकबर बादशाहका मुसाहिब और हमारा ईमानदार मित्र है; उसका उत्तर आनेपर हम जवाब देंगे. यह दोहा किसी दोस्तकी मारफ़त कासिदोंके हाथ दाक्षिण में खानखानाके पास पहुंचाया गया, और उसने भी उसका जवाब दोहेमें लिखभेजा— वे दोनों दोहे नीचे लिखेजाते हैं.

महाराणाका लिखाहुआ दोहा

गोड़ कछाहा राठवड़ गोखां जोख करंत ॥

कहजो खानाखानने बनचर हुआ फिरंत ॥ १ ॥

अर्थ— गौड़ कछवाहा राठौड़ महलोंके भरोखोंमें आराम करते हैं इसवास्ते खानाखानको कहना कि हम (महाराणा) बन मानुष हुए फिरते हैं. महाराणाका यह इशारा था, कि तुम कहो तो हम भी अपनी आजादीको छोड़कर मुस्लमान बादशाहोंके नौकर कहलावें—यह दोहा पढ़कर खानखाना अब्दुरहीमने मारवाड़ी भाषा ही में जवाबी दोहा लिखा—

जवाबी दोहा.

धर रहसी रहसी धरम खपजासी खुरसाण ॥

अमर विशंभर उपरा राखो निहचो राण ॥ १ ॥

अर्थ—जमीन और ईमान रहेगा, और खुरासानी लोग अर्थात् मुगल नाश होजाएंगे, ऐ राणा अमरसिंह आप इस दुनयाके पालने वाले पर भरोसा रखें. अब्दुरहीमका यह मत्त्व था कि जमीन और ईमानदारी सदा कायम रहती है और बादशाहत हमेशा ग़ारत हुआकरती है, इसलिये हिम्मत रखना चाहिये, अर्थात् ग़ैरतके आरामसे इज़तकी तकलीफ़ अच्छी है.

यह खानखाना अरबी, फ़ारसी, तुर्की, संस्कृत, और हिन्दीका आलिम व शाइर था, हिन्दी शाइरोंके ज़रीएसे महाराणाकी और उसकी दोस्ती थी.

इस दोहेके पहुंचनेसे महाराणाको और भी ज़ियादह हिम्मत हुई, और अपने सदाँरोंको वह दोहा बतलाया; फिर कुछ दिनों तक ऐसी लड़ाइयां होती रहीं, कि जिन्दगीकी उम्मेद भी बाकी न रही.

इसलिये कुल राजपूतोंने मिलकर कुंवर कर्णसिंहसे सलाह की कि अब क्या करना चाहिये ? खानेको अन्न व पहन्नेको कपड़ा नहीं रहा, लड़ाईका सामान भी नहीं है, एक एक घरानेकी चार चार पुश्तें मारीगईं. किसीके बालबच्चे मुसलमानोंके हाथ पड़जाते हैं, तो लौंडी गुलाम बनायेजाते हैं, गूलरके फल खा खाकर दिन काटने पड़ते हैं, इसपर भी मरनेके सिवाय इज़त बिगड़नेका खौफ़ लगा रहता है, क्योंकि मेवाड़ी राजपूतोंके बालबच्चे पकड़े जानेपर राठौड़ व कछवाहे उनको देखकर हंसते हैं, हमारी बहादुराना हिम्मतको जिहालत और अपनी आरामीको बुद्धिमानी जानकर घमंड करते हैं; हम लोग मरनेसे डरकर आपसे यह नहीं कहते हैं. ४७ वर्ष बड़ी बड़ी तकलीफें उठाकर निकाले, और यह उम्मेद नहीं कि कब तकलीफें खत्म होंगी. यह सुनकर कुंवर कर्णसिंहने कुल भाई बेटे और राजपूतोंकी बहादुरी व खैरस्वाहीपर हज़ारों धन्यवाद देकर कहा— कि मैं भी जानता हूँ कि मेरे प्यारे भाई और राजपूत गूलरके फल खा खाकर शाही फौजोंपर हमले करते हैं, लेकिन

राजपूराज (अमरसिंह), श्री महाराणा प्रतापसिंहके उस तानेको जो उन्होंने बादशाही त्मबेदार बननेकी बाबत दिया था, यादकरके हर्गिज सुलह करना नहीं चाहते; तब भाला हरदास और पँवार शुभकर्णने अर्ज की कि हम सब लोग सुलह करनेपर तय्यार होंगे तो अकेले महाराणा क्या करसक्ते हैं? अब्बल शाहजादे खुर्रमके मन्शाको जांचें, कि पाटवी बड़े कुंवरके शाही दरबारमें जानेपर सुलह करसक्ता है या नहीं? अगर आपके जानेपर सुलह होजावे तो कुछ हर्ज नहीं क्योंकि अपने यहां पाटवी कुंवरकी बैठक बड़े दरजेके कुल उमराव सर्दारोंके नीचे है. बादशाह तो यह समझेंगे कि पाटवी कुंवर आगये और हम अपने यहांसे इस बातको एक सर्दारका जाना खयाल करेंगे.

इन दोनों सर्दारोंकी सलाह सबने पसन्द की और एक जवान होकर कहदिया कि यही करना चाहिये, लेकिन कुंवर कर्णसिंहने कहा कि यह सलाह महाराणाके कान तक पहुंचेगी तो कभी पसन्द न करेंगे, इसलिये तुम दोनों आदमी, उनके बगैर हुक्म शाहजादे खुर्रमके पास चलेजाओ. तब उन्होंने अर्ज की कि पेशतर कागज़ भेजकर शाहजादेका मन्शा दर्याफ्त कीजिये कि अगर इस शर्तपर सुलह मन्जूर हो तो कीजावे, वना हम लोग राजपूत हैं तलवारसे सवाल जवाब करेंगे. इसको भी सबने पसन्द किया और इस मुआमलेका कागज़ राय सुन्दरदास (१) की मारफ़त शाहजादेके पास भेजा गया, सुन्दरदासने शाहजादेके पास जाकर कुल हाल इस सुलहका जिसतरहपर कुंवर कर्णसिंह चाहते थे अर्ज किया. तब खुर्रमके इशारे से सुन्दरदासने तसल्लीका जवाब लिखा जिससे कुंवर कर्णसिंहने हरदास भाला और पँवार शुभकर्णको भेज दिया, इसके बाद शाहजादेने मौलवी शुक्रुल्लाह और सुन्दरदासको महाराणा अमरसिंहके पैगामी कागज़ देकर बादशाह जहांगीरकी खिदमतमें अजमेरको रवाना किया. इन दोनों सर्दारोंने वहां पहुंचकर कुल हाल बादशाहसे अर्ज किया, जिससे वह खुश हुआ, और इस खुशखबरी पहुंचानेके एवज मुल्ला शुक्रुल्लाहको 'अफ़ज़लखां' व राय सुन्दरदासको 'रायरायां' का खिताब देकर उसी वक्त वापस उदयपुर भेजदिया और एक फ़र्मान महाराणा अमरसिंहके नाम जिसमें बहुतसी खातिर, तसल्लीकी बातें लिखी थीं, और एक ढाकेकी मलमलके टुकड़े पर बादशाहके खास पंजेका निशान केसरकी रंगतका लगाहुआ, (जो अभीतक रियासतमें मौजूद है), भेजा. इस पंजेके निशानसे बादशाहका यह मल्लब था कि

(१) मेवाड़की पोथियोंमें जयपुरवाले कछवाहोंकी मारफ़त भेजाजाना लिखा है, शायद उनमेंसे भी कोई शरीक होगा.

इसको हमारा वचन समझकर राणा अमरसिंह कुछ खौफ न करे, और शाहजादेको लिखा कि राणा उदयपुर जिन शर्तोंके साथ दरवास्त पेश करे, वह मंजूर करके कुंवर कर्णसिंहको हमारे पास लेआओ. सुन्दरदास और शुक्रल्लाहके अजमेरसे पीछे आनेपर भाला हरदास व शुभकर्ण दोनों तसल्लीका जवाब पहुंचनेसे राय सुन्दरदास की मारफत शाहजादेके पास हाजिर हुए, जिनको बहुत तसल्ली देकर अपने आदमियोंके साथ मए शाही फर्मानके रुस्त दी.

गोगूंदेके पश्चिमी पहाड़ोंमें, जिनको आज कल ढाणा बोलते हैं महाराणा अमरसिंह मए अपने राजपूत व भाई बेटोंके आगये थे- ये पहाड़ बड़ेही विकट हैं- जब इतनी बात होचुकी और फर्मान कुंवर कर्णसिंहके पास पहुंचगया, तब मए कुछ सदाँर व भाई बेटोंके कुंवर कर्णसिंहने महाराणाके पास जाकर सुलहका सब हाल अर्ज किया, महाराणा अमरसिंह सुनकर चुप होगये, जवान से कुछ न कहा, लेकिन चिहरे पर ऐसी उदासी छा गई कि मानो कोई आसमा-नी बला एक दम उनके सिर पर आपड़ी है. उस खामोशीके आलममें थोड़ी देरके बाद महाराणाने कहा कि मैं अकेला अब क्या करसक्ता हूं? तुम सब लोगों की यही मरजी है तो मुझको भी सहना पड़ेगा, दाजीराजका ताना सहन करनेका इरादा मेरा नहीं था लेकिन ईश्वरने आंखसे दिखाया. सब सदाँरोंने जो आकिल और दाना थे, बहुतसी नसीहतोंसे अर्ज किया कि बादशाहके साम्हने आपके बड़े कुंवर भेजेजाते हैं, जो उमरावके बराबर हैं. तब महाराणाने कहा कि तुम लोग जो मेरी तसल्लीके लिये बातें करते हो वह सब ठीक हैं, लेकिन फर्मानकी पेशवाईको जाना, खिलअत पहन्ना और शाहजादेके पास जाकर सलाम करना, जो आजतक मेरे बड़े बूढ़ोंने कभी नहीं किया, वह मुझको करना पड़ा. इस तरह अफ-सोस करनेके बाद दस्तूरके मुवाफिक पेशवाई वगैरह करके शाही फर्मान लियागया.

इसके बाद सबको एकट्ठा शाहजादेके पास जानेमें दगाका खौफ होनेसे, कुंवर कर्णसिंहको डेरोंपर छोड़कर महाराणा अमरसिंह शाहजादे खुरमके पास गये, भीमसिंह, सूरजमल्ल, बाघसिंह महाराणाके तीनोंबेटे, और सहसमल्ल, कल्याण भाइयों वगैरहने महाराणाको अकेला न जानेदिया, और साथ होलिये. इनके सिवाय दूसरे भी १०० बड़े दरजेके बहादुर राजपूत सदाँर, मए अपने अपने चुनेहुए मुलाजिमोंके हम्राह चले, गोगूंदा मकाममें लश्करके नज्दीक पहुंचे तो शाहजादेने महाराणाकी पेशवाईके लिये अब्दुल्लाहखां बहादुर (गुज-रातका सूबेदार), राजा सूरसिंह (जोधपुरवाला), राजा नरसिंहदेव बुंदेला, सुखदेव

व सय्यद सैफखां बारहको भेजा. इन लोगोंने लश्करके बाहर आकर पेशवाई की और बड़ी इज्जतके साथ शाहजादेके पास लाये. दस्तूरके मुवाफिक़ सलाम कलामके बाद शाहजादेके बाईं तरफ़ महाराणा बिठाये गये.

महाराणा अमरसिंहकी तरफ़से एक बहुत उम्दा लाल (१) जो तोलमें ८ टांक, और कीमतमें रु० ६०००० का था, और दूसरे जवाहिरात बेश कीमत, जड़ाऊ शस्त्र, ९ हाथी व ९ घोड़े शाहजादेको नज़र कियेगये. और शाहजादेने भी खिलअत और जड़ाऊ जम्धर व तलवार जड़ाऊ और घोड़ा १ सोनेके साज़ समेत और हाथी १ चांदीकी झूल समेत दिया, और महाराणाके ३ बेटे, दो भाई व ५ राजपूत सर्दारों मेंसे, जो बड़े इज्जतदार थे, हरएक को खिलअत व जड़ाऊ जम्धर और घोड़ा, और चालीस अमीर सर्दारोंको खिलअत व घोड़ा, और पचास राजपूतोंको खाली खिलअत दिये, और बड़े आदर सत्कारके साथ महाराणा को विदा किया, शुक्ररुल्लाह अफ़ज़लखां व सुन्दरदास रायरायांको महाराणाके पहुंचानेके लिये पेशवाईकी जगह तक भेजा.

महाराणा पीछे अपने स्थानपर गये और कुंवर कर्णसिंहको शाहजादेके पास जानेकी आज्ञा दी. शाहजादेने भी अफ़ज़लखां व रायरायां सुन्दरदासको हुक्म दिया कि आज ही कुंवर कर्णसिंहको लावें, क्योंकि आज की ही तारीख़ ज्योतिषियोंने रवानगीके लिये मुकर्रर कीहै.

कुंवर कर्णसिंह उसी दिन शाहजादेके पास गये, इज्जतके साथ अफ़ज़लखां और सुन्दरदास पेशवाई करके उनको लेआये, शाहजादेने कर्णसिंहको खिलअत व जड़ाऊ जम्धर व घोड़ा सोनेके सामान समेत व हाथी चांदीके गहने व झूल समेत दिया. जब शाहजादेने कर्णसिंहको अपने साथ अजमेर चलनेके लिये कहा, तो कर्णसिंहने अपने मुल्ककी बर्बादी व तकलीफ़ोंका हाल कहकर जल्दी सफ़र न करसकनेका उज़्र किया, शाहजादेने ५०००० रु० नक़्द अपने पाससे सफ़र खर्चके लिये कुंवरको दिये. तब कुंवरने अपना सामान दुरुस्त करके शाहजादेके साथ चलनेकी तय्यारी की.

(१) यह लाल मारवाड़के राजा मालदेवके पास था जो उनके बेटे चंद्रसेनने महाराणा उदयसिंहको दिया था, जब शाहजादे खुर्रमने अजमेर पहुंचकर जहांगीरकी नज़र किया, तो जहांगीरने इस लाल पर यह खुदवाया कि (बसुल्लान खुर्रम दर हीने मुलाजमत, राना अमरसिंह पेशकश नमूद). वही लाल विक्रमी १९३८ [हि० १२९८ = ई० १८८१] में किसी सौदागरकी मारफ़त हिन्दुस्तानमें बिकनेको आया था, जिसका जिक्र कई अख़बारोंमें सुना गया.

शाहजादा खुर्रम कुंवर कर्णसिंहको लेकर कूच दरकूच विक्रमी १६७१ फाल्गुन कृष्ण ५ [हि० १०२४ ता० १९ मुहर्रम = ई० १६१५ ता० १८ फेब्रुअरी] को अजमेरमें पहुंचा, जहां बादशाहके हुकमसे सब अमीरोंने शाहजादेकी पेशवाई की. दूसरे रोज़ शाहजादा बादशाही दरबारमें हाज़िर हुआ, उस वक्तकी खुशी बादशाह जहांगीरकी जो कोई शस्त्र मालूम करना चाहे वह तुजक जहांगीरकी को देखले. जब कुंवर कर्णसिंह बुलायेगये उस वक्त इंग्लिस्तानके बादशाह अब्दुल जेम्सका एल्ची सर टामस रो शाही दरबारमें मौजूद था. वह लिखता है कि "बादशाहने कुंवर कर्णको कटहरेके भीतर बुलाया और उसका सिर चूमा". बादशाह जहांगीर लिखता है कि- "मैंने कर्णकी जंगली तबीअत देखकर उसको खुश करनेके लिये मिहर्बानी की कोई बात बाकी न रखी, उसको खिलअत और तलवार जड़ाऊ, और इसके दूसरे दिन तलवार जड़ाऊ, फिर खासा इराकी घोड़ा जड़ाऊ जीन समेत बख्शा, और उसी दिन कर्ण जनाने महलपर गया, तो नूरजहां बेगमकी तरफसे खिलअत, तलवार जड़ाऊ, घोड़ा जीन समेत और १ हाथी मिला. पीछे एक माला मैंने कर्णको दी. दूसरे दिन हाथी खासा बख्शा".

बादशाहने चाहा कि कर्णको तमाम चीज़ोंमेंसे एक एक देनी चाहिये, इस लिये तीन बाज़, ३ जुर्र, १ तलवार खासा, १ जिरह बक्तर और दो अंगूठियां एक लाल जड़ीहुई दूसरी पन्नेकी, बरुंगी. इसी महीनेके अंतमें कालीन नमूदा तक्या और हर तरहकी खुशबू और सोनेके बरतन व दो बैल गुजराती और दुशाले वगैरह, १०० किशतियोंमें रखकर कर्णको दिये, और दिन दिन ज़ियादा मिहर्बानी बढ़ती रही. एक माला नीलम और मोतियोंकी जिसमें लाल था बख्शी, और पांचहज़ारी जात और सवारका मन्सब दिया.

बादशाहने विक्रमी १६७२ ज्येष्ठ कृष्ण ८ [हि० १०२४ ता० २२ रबीउस्सानी = ई० १६१५ ता० २१ मई] में कुंवर कर्णसिंहको जिस तफ़्सीलके साथ जागीर इनायत की, उसके फ़र्मानका तर्जुमा नीचे लिखाजाता है-

जहांगीर बादशाहके फ़र्मानकी नक़ल—

उन इकरारोंके मुवाफ़िक जो १९ वीं तीर सन् १० जुलूसको हुए हैं, इस वक्तमें बड़े दर्जेवाला फ़र्मान मिहर्बानीके तरीकेसे जारी किया जाता है— कि पांच किरोड़ तीस लाख छः हज़ार आठसौ बत्तीस दाम, बुजुर्ग सदाँर मिहर्बानियोंके लायक बादशाहके पसन्दीदा कुंवर कर्ण, बड़ी इज़तवाले खान्दानी राणा अमरसिंहके बेटेकी जागीरमें मुकरर होकर सोंपे जाते हैं.

मुनासिब है कि बड़े हाकिम, अह्लकार, जागीरदार और कामदार दीवानी बले, बादशाही हुकम मानने वाले और कामोंके संभालनेवाले, बड़े पाक हुकमके मुवाफ़िक़ तामील करके उन परगनोंको, जिक्र किये हुए आदमीके कब्जेमें छोड़कर, वहाँके कायदोंमें किसी तरहका फ़र्क़ न डालें.

चौधरी, कानूनगो, पटैल, रअग्रय्यत और किसानोंको चाहिये— कि नीचे लिखे हुए परगनोंमें ऊपर लिखेहुए आदमीको अपना जागीरदार (हाकिम) जानकर अच्छी तरह दीवानीकी रस्मोंमें कायदेके मुवाफ़िक़ फ़स्ल फ़स्लपर और वर्ष वर्षपर जवाबदिही करते रहें, किसी तरह इस काममें कमी न करें— उस (कर्ण) के हिसाबी गुमाशतोंकी सलाह और तदबीरसे बख़िलाफ़ न होकर उनकी जगहमें उनके पास हाज़िर होते रहें, हुकमसे बख़िलाफ़ कोई काम न हो, अपने कायदेपर जमे रहें.

कुंवर कर्ण, राणा अमरसिंहके बेटेकी जागीर—

५ क़िरोड़.

३० लाख.

६ हजार ८ सौ ३२ दाम.

याद्दाश्तकी मुवाफ़िक़ तारीख़ दिन आजर ३१ वीं उर्दीबिहिश्त सन् १० जुलूस चहस्पति वार सन् १०२४ हिज्री ता० २२ रबीउस्सानी को बादशाही उम्दा सर्दार और बादशाही कामोंके मुख्तार एतिमादुद्दौलाके रिसालेमें, और बड़े अक़लमन्द हकीम मसीहुज़्जमांकी चौकीमें, और छोटे खैरख़्वाह इसहाक़की वाकिआ नवीसीकी बारीमें, बुजुर्ग़ हुकम जारी हुआ, कि कुंवर कर्ण, राणा अमरसिंहके बेटेकी जागीर मुवाफ़िक़ मन्सब पांचहज़ारी जात और सवारके इस तरह मुकरर हो— बादशाही याद्दाश्तके मुवाफ़िक़ लिखा गया.

यह लिखावट वाकिएके मुवाफ़िक़ है— बयान लिखावटका एतिमादुद्दौला दुबारा अर्ज करे— बयान बादशाही दर्गाहके हाज़िरबाश मुख़लिसख़ांके हाथसे लिखाहुआ तारीख़ ५ वीं ख़ुर्दाद सन् १० जुलूस मुवाफ़िक़ २७ वीं रबीउस्सानीको दुबारा अर्ज होकर, एतिमादुद्दौलाके हाथसे बुजुर्ग़ फ़र्मान लिखा जावे.

५ हजार सवार मए खास,

मुकर्रर तनस्वाह

५२ लाख दाम,

खास पांच हजारी जात.

३० हजार ४० दाम,

१२ लाख दाम,

मुकर्रर वर्षके सवार, रियासती हिस्सेके,

५ किरोड,

७२ लाख दाम खास चौथके,

माल

५ किरोड

३९ लाख दाम,

३८ लाख,

६ हजार ७ सौ ३४ दाम— रतलामके परगने, उज्जेनके जिले, मालवेके सूबेमेंसे.

बयानपर एतिमादुबोलाके
हाथसे बादशाही महकिलमें तस्वीज
होकर बादशाही इस्तखत हुए वह
अस्त कागज़ इस्तारमें है-

याबाश्तके करासे मुवाफिक शनिवार २८ वीं महिने सफर दिन आजर उर्दी सन् १० जुलूस मुवाफिक बख्शी, स्वाजह उम्दा सदार, बादशाहके सन् १०२४ हिजीको, उम्दा सदार, के रिसालेमें, बजीर, मुल्कके लायक, दाऊदखां स्वाजा इब्राहिम हुसैनकी बाकिअनवीसकी और मिहबानीके दर्गाहके ताबेदार अस्करी मामूरीकी वाकिअनवीसकी और बादशाही कुआ, कि कुंवर कर्ण, राणा अमरसिंहका बेटा "पांच हजारी जात और सवार" के मन्सबपर सर बुलन्द हो— याबाश्तके मुवाफिक लिखागया— यह बयान बाकिअनवीसकी लिखावटके एतिमादुद्दौलाकी लिखावटका तारीख पहली आबान फरवदी सन् १० जुलूस मुवाफिक ६ रबी-दूसरा बयान बुजुर्ग सदार एतिमादुद्दौलाकी लिखावटका तारीख पहली आबान फरवदी सन् १० जुलूस मुवाफिक ६ रबी-दूसरा बयान बुजुर्ग सदार एतिमादुद्दौलाकी लिखावटके मुवाफिक लिखागया— यह बयान लायक मिर्जा सादिककी लिखावटका तारीख पहली आबान फरवदी सन् १० जुलूस मुवाफिक ६ रबी-उलअव्वल सन् १०२४ हिजी "पांच हजारी जात और पांच हजार सवार" दुबारा बादशाहसे अर्ज कुआ.

इफरारकी लिखावट कुंवर कर्णके दस्तखतसे, १९ वीं महिने खुर्दाद सन् १० जुलूसके मुवाफिक. मतलब इस लिखेहुएसे यह है, कि मेरानाम कुंवर कर्ण है पांच किरोड उन्तालिस लाख दामकी जागीर, नीचे लिखे हुए इत्याकोंमेंसे, शुरु बरखिलाफिसि अपनी रजामन्दीके साथ कुबूल करताहूँ—कि लिखावट एतिमादुद्दौलाकी एतिवार कीजावे—नीचे लिखे मुवाफिक—

५ किरोड.
३९ लाख २ सौ ६६ दाम.

तुर्की.
पारस
लिखावट
रबीअ
एरिमातु
तविशकां

फ़स्ल रबीअ (१) तवि-
शकां ईलसे—
३ किरोड़
१५ लाख
५४ हजार ७ सौ दाम.

आधी रबीअ तविशकां ईल
बदनौर परगनेसे—
५० लाख दाम.

दूसरी लिखावट
आधी तविशकां ईलसे.

फ़स्ल खरीफ़ तविशकां ईलसे—
एक किरोड़
३५ लाख
३८ हजार ५ सौ ६६ दाम.

खरीफ़ तविशकां ईलसे

(१) हिन्दू लोग चार या बारह वर्षका एक युग मानते हैं, उसी तरह तुर्किस्तान के लोगोंने बारह वर्षका एक दौर ठहराकर उन बारह वर्षोंके जुदे २ जानवरों के नाम पर नाम रखे हैं— जिनका फल भी उन्हीं जानवरोंकी आदतसे निकालते हैं— उन जानवरोंके नाम यह हैं—

१	सिचकां	=	चूहा
२	ऊद	=	गाय
३	पारस	=	चीता
४	तविशकां	=	खरगोश
५	लोए	=	मगर
६	पीलां	=	सर्प
७	योंत	=	घोड़ा
८	कोए	=	गाडर
९	बीचे	=	बन्दर
१०	तखाकू	=	मुर्ग
११	ईत	=	कुत्ता
१२	तुंगोज़	=	सूअर

और ईल, वर्षको कहते हैं, जिससे जानवरके नामके बाद ईल लगायाजाता है—जैसे तविशकां

ईल बगैरह.

आधेकी मुवाफिक-

२ किरोड़

६२ लाख.

५० हजार दाम.

३८ लाख ६ हजार ७ सौ ३४ दाम परगने रतलाम, जिले उज्जैन, सूबे मालवासे निकाले गये.

रावल गिर्धरदास जमींदार बांस-
वालाकी जागीरमेंसे रबीअ तविशकां
ईलसे निकालनेका हुकम हुआ-

३३ लाख

९९ हजार दाम.

४४ लाख ९३ हजार २ सौ
३६ दाम, इस तरह
द्वारिकादासकी जागीरमेंसे-
५ लाख
३६ हजार ७ सौ ३७ दाम.

शम्शेर अरबकी जागीर रबी-
अ तविशकां ईल अपने तौरपर खरीफ
तविशकां ईलसे निकालने का हुकम
हुआ.-

४ लाख

७ हजार ७ सौ ३४ दाम.

जियादा जागीर
शम्शेर अरब
५२ हजार ५ सौ २ दाम.

२ किरोड़

३१ लाख

४३ हजार २ सौ ६६ दाम.

रबीअ तविशकां ईल मेंसे-

४६ लाख

४० हजार ७ सौ दाम.

खरीफ तविशकां ईल मेंसे-

१ किरोड़,

३५ लाख,

३८ हजार ५ सौ ६६ दाम.

आधी रबीअ तविशकां ईल परगने बदनौरसे-

५० लाख दाम.

(परगना.)

फूलिया वगैरह सूबे अजमेरमेंसे—

२ किरोड़,

१९ लाख,

१६ हजार ४ सौ ४१ दाम.

२९ लाख ७७ हजार ८ सौ ७५ दाम, परगने जीरणसे, जो दूसरी जागीरमें लिखा गया.

१ किरोड़

८९ लाख

३८ हजार ५ सौ ६६ दाम.

रबीअ तविशकां ईलसे—

४ लाख दाम.

खरीफ तविशकां ईलसे—

१ किरोड़

३५ लाख

३८ हजार ५ सौ ६६ दाम.

फूलिया वगैरह, रावत सगरकी जागीर मेंसे, जिसकी रबीअ तविशकां ईल भामावत करोरीकी नौकरीमें खालिसे से मुकर्रर हुई. खरीफ तविशकां ईलसे जागीरदारको हुक्म मिला—

१ किरोड़

८ लाख

८८ हजार ३१ दाम.

फूलिया, भामावत कम्बोकी नौकरी में—

४४ लाख दाम.

अस्ल—

३० लाख दाम.

इजाफा—

मांडलगढ़ वगैरह हरीदासकी नौकरीमें—

६४ लाख

८८ हजार ३१ दाम.

मांडलगढ़, पुर, रावत सगर

४४ लाख से उतारकर—

रबीअ तविशकां ईल से—

४ लाख दाम.

खरीफ तविशकां ईलसे—

२६ लाख

५० हजार

५ सौ ३० दाम—

आधी रबीअ तविशकां ईल परगने बदनौरसे—

५० लाख दाम.

बदनौर वगैरह—

८० लाख

५० हजार ५ सौ ३० दाम.

१४ लाख दाम.	३ हजार २	२५ लाख	बदनौरसे आधीरबीअ	भैसरोड़ वगैरह, राव
सौ ७२ दाम.	८७ हजार		तविशकां ईलसे निकालनेका	चांदासे खरीफ़ तवि-
१३ लाख	२ सौ ८१ दाम.		हुक्म हुआ-	शकां ईलके निकाल-
४७ हजार	खास जागी-	५० लाख दाम.		नेका हुक्म
७ सौ १ दाम.	२-		नरहरदाससे किशनसिंह मोटे	हुआ-
खालसा,	१९ लाख दाम.		निकाले हुए- राजाकेबेटे	२६ लाख
रावत सगर	कमी-	४७ लाख	से निकाले हुए-	५० हजार ५ सौ
कीजागीर	६ लाख	४१ हजार	२ लाख	३० दाम.
से ३० लाख	८७ हजार	दाम.	५९ हजार दाम.	भैसरोड़ नीमच
५५ हजार ५-	२ सौ ८१ दाम.		ऊपरमाल, उग्रसेनकी	१४ लाख १२ लाख
सौ ६५ दाम.	हमीरपुर,		जागीरसे रबीअ तविशकां	५० हजार दाम.
वागोर, रावत	४५ हजार		ईलके निकालनेका हुक्म	५ सौ ३०
सगरकी जागी-	१ सौ ८५ दाम.		हुआ-	दाम.
रसे-			४ लाख दाम.	
८ लाख दाम.				
खास जागीर.	ज़ियादा-			
४ लाख	३ लाख,			
२० हजार	७९ हजार			
८ सौ ७५	१ सौ २५ दाम.			
दाम.				

परगना.

जीरण वगैरह

८० लाख

११ हजार ४ सौ ३४ दाम.

३८ लाख ३ हजार ७ सौ ३४ दाम, परगने रतलाम, ज़िले उज्जैन, सूबे मालवासे, ऊपर लिखे मुवाफ़िक़ निकालनेका हुक्म हुआ.

४२ लाख

४ हजार ७ सौ १ दाम.

जीरण, ज़िले चित्तौड़, सूबे अजमेर, रावत सगरकी जागीरसे रबीअ तविशकां ईलसे निकालनेका हुक्म हुआ-

बसार वगैरह, ज़िले मन्दसोर, रबीअ तविशकां ईलसे

१२ लाख

२९ लाख
७७ हजार
८ सौ ७५ दाम.

२६ हजार ७ सौ ९५ दाम.
बसार- गयासपुर-
९ लाख २ लाख
६६ हजार ३ सौ ६० हजार ४ सौ
७५ दाम. २० दाम.

आधी रबीअ तविशकां ईलसे-

२ किरोड़
६९ लाख
५० हजार दाम.

परगने उदयपुर वगैरह सूबे अजमेरसे-

८० किरोड़
४४ लाख
३८ हजार ७ सौ ६१ दाम.

परगना.

परगना उदयपुर वगैरह, जो हमेशा बादशाही नौकरोंकी तनखाहमें रहा है, करार यादाश्त वाके दिन आजर तारीख़ शुरू माह खुर्दाद इलाही सन् १० जुलूस, मुवाफ़िक़ शुक्रवार रबीउस्सानी सन् १०२४ हिज्री, रिसाले नव्वाब शाहजादे इज़्ज़तदार और चौकी इरादतखां और नौबत वाकिअनवीसी मुहम्मद ज़ाहिद मर्वारीदमें जारी हुआ, बाजे परगने, इलाके रानाकी ज़मीनके पासवाले, मुदतसे दो तरफ़ा अमलमें रहे, और वह परगने मिहर्बानीसे तनखाहमें जागीर दारोंको मिले; अगरचि ज़ाहिर है कि जागीर-दार कुछ नहीं पाते थे.

इस वक़्त कि जागीर और तनखाह कुंवर कर्णकी पेश है, हुक़म हुआ कि आधी तनखाह दें, और अर्ज करें कि परगने मज़कूर जो कागज़ोंमें अमली सीग़ेमें दाख़िल हैं उनमें से आधी ग़ैर अमल तनखाह होती है-- जो हकीक़त उस तरफ़की बादशाहसे अर्ज हुई, हुक़म बादशाही सादिर हुआ, कि वह परगने मुवाफ़िक़ अर्ज कुंवर कर्णके उसको दें और दीवान आधेमें ग़ैर अमल एतिबार करके तनखाह दें. मुवाफ़िक़ तस्दीक़ यादाश्तके लिखा गया, हाशियेका बयान वाकिअके मुवाफ़िक़ है, शरह जुम्दतुल्मुल्कके ख़तसे दोबारा अर्जमें पहुंची.

दूसरी शरह मुख़लिसख़ांके ख़तसे तारीख़ माह इलाही सन् १०, मुवाफ़िक़ २७ रबीउस्सानी सन् १०२४ हिज्री दूसरी दफ़ा अर्ज हुई-

		६४ लाख	
		३८ हजार ७ सौ ६१ दाम.	
उदयपुर वगैरह- ३ परगने उदयपुर चार परगने भीलवाड़ २१ लाख २० हजार दाम.	बेगूं, रावत सगर की जागीरसे- ११ लाख ७५ हजार ७ सौ २९ दाम.	शाहजादा आबाद, उर्फ कपासन, रावत सगरकी जागीरसे- ५ लाख ८५ हजार ९ सौ दाम.	शाहआबाद उर्फ बसार- ९ लाख, ५ हजार ९ सौ दाम. बादशाही जियादा- रिआयत- ९२ हजार ८ लाख ७ सौ दाम. १२ हजार ६ लाख दाम. ८५ हजार ३ सौ दाम. ९ सौ दाम.
सादड़ी, रावत सगरसे उतार कर- ४ लाख २० हजार ८ सौ दाम.	कोसमाना- २ लाख ६३ हजार ८ सौ १२ दाम.	अरनोद- २ लाख.	मदारिया- १ लाख ६० हजार दाम.
इस्लामपुर- १ लाख ८ हजार ९ सौ दाम.			

(परगना).

डूंगरपुर, गैर अमली, ८० लाख दाम.

बयान जुम्दतुल्मुल्कके खतका, डूंगरपुर
की जमा एक किरोड़ साठ लाख दाम
करार पाई, जियादाकी निस्बत दूसरा जो
कुछ कि हुक्म होगा अमलमें लाया जावेगा.

(परगना).

बाकी ज़िला कुम्भलमेर और ज़िला गोगूदा वगैरह, राना अमरसिंहके मुल्क में से-

८० किरोड़

२५ लाख

११ हजार

२ सौ ३९ दाम.

मुवाफ़िक़ यादाश्त तारीख़ दिन गोश १४ तारीख़ महीना खुर्दाद इलाही सन् १० जुलूस, मुवाफ़िक़ बृहस्पति वार तारीख़ १७ जमादियुलअव्वल सन् १०२४ हिज्री, रिसाले एतिमादुदौला, चौकी हकीम मसीहुज़्ज़मां, नौबत वाकिअनवीसी इस्हाकमें, हुक्म बादशाही सादिर हुआ, कि जागीर कुंवर कर्णकी खास और सवार पांच हज़ारी, एवज़ परगने रतलाम, ज़िला उज्जेन, सूबे माल्वासे इस तरह मुक़रर हो.

मुवाफ़िक़ बादशाही यादाश्तके लिखा गया,— बयान हाशियेका मुवाफ़िक़ वाकिअके है— बयान जुम्दतुल्मुल्कने दूसरी बार अर्ज़ किया— बयान मुखलिसखांके ख़तसे तारीख़ आठवीं माह तीर सन् १० को दूसरी दफ़ा बादशाहसे अर्ज़ हुआ. बयान जुम्दतुल्मुल्कके ख़तसे यह है कि फ़र्मान आलीशान लिखा जावे.

३८ लाख

६ हजार ७ सौ ३४ दाम की जमा कुंवर कर्णकी बहाल जागीरमें मुक़रर तनख़्वाह, नीचे लिखे मुवाफ़िक़ है—

२९ लाख.

१३ हजार ५ सौ ६६ दाम.

जहाज़पुर ज़िला और सूबा अजमेर,
राजा सूरजसिंहकी जागीरसे—

इस्लामपुर, ज़िला चित्तौड़, कर्मसेन और
रामसिंहसे उतारकर— ११ लाख दाम.

१८ लाख

१३ हजार ५ सौ ६६ दाम.

मन्सब वगैरा देनेके बाद बादशाहने लिखा है—कि “कुंवर कर्णकी रुखसतके दिन नज्दीक आगये थे, और मैं अपने बन्दूक चलानेका फ़न् कर्णको दिखलाना चाहता था, इसी असेमें शिकारी एक शेरनीके आनेकी खबर लाये. मैंने अहद किया था, कि सिवाय शेरनरके मादाका शिकार न करूंगा, लेकिन इस खयालसे कि शायद इसके जाने तक कोई और शेर न मिले, शेरनी ही के शिकारपर मुतवजिह हुआ, और कर्णसे पूछा कि जिस जगह तुम कहो वहीं गोली लगाऊं, तब कर्णने दहिनी आंखमें लगानेको कहा. इतिफ़ाकसे उस वक्त हवा तेज़ चलती थी, और सवारीकी हथनी भी शेरके खौफ़में घबराकर एक जगह न ठहरती थी; इन दो बातोंके होनेपर भी मेरी गोली मुकर्रर जगह याने दहिनी आंखमें लगी—खुदाने मुझे उसके सामने शर्मिन्दा न किया, खास बन्दूक कुंवर कर्णने मांगी, मैंने उसी वक्त उसको देदी— फिर कुंवर कर्णको मैंने मज्लिसमें क़बाय परमनर्म (दुशाला) खासा और १२ हिरन और १० कुत्ते ताज़ी और दूसरे दिन ४० घोड़े और तीसरे दिन ४१ घोड़े; चौथे दिन २० घोड़े; पांचवें दिन १० चीरे, १० क़बा, १० कमरबन्द और छठेदिन १ लाल और एक कलगी २००० रुपयेकी कर्णको दी. जब कर्णने घरजानेकी रुखसत पाई, तो घोड़ा और हाथी खासा और खिलअत और मोतियोंका एक झुब्बा कीमती ५००० रु० का और खंजर कीमती २००० रु० का कर्णको देकर राणा अमरसिंहके लिये घोड़ा व हाथी और मुबारिकखां सजावलको पहुंचानेके लिये साथ किया”.

जहांगीर बादशाह फिर लिखता है— कि “मैंने कुंवर कर्णको हाजिरीके समयसे खानगी तक जवाहिरात, शस्त्र और नक़द वगैरा जो कुछ दिया, उसकी कीमत दो लाख है, और सिवाय इसके ११० घोड़े और ५ हाथी दिये, शाहज़ादे खुर्रमने जो सामान और नक़द कई दफ़ा दिया है, वह भी इसके सिवाय है. बहुत सी बातें मुहब्बत व नसीहतकी राणा अमरसिंहको कहलाई.”

इस पुस्तकके पढ़ने वालोंको याद रखना चाहिये कि जिस तरह ब्रिटिश इंडिया गवर्मेन्ट इस समय में अफ़्ग़ान लोगोंके साथ बर्ताव कर रही है, उसी तरह मेवाड़ी राजाओंके साथ जहांगीरने किया था, अगर यह मुअमिल्ला वर्तमान समयसे पीछे मुसल्मान बादशाहोंके साथ मेवाड़ी राजपूतोंका हुआ होता तो हम बेशक ब्रिटिश इंडिया गवर्मेन्ट व अफ़्ग़ान राजनीतिको उपमा और उसको उपमेय कहते, लेकिन उसके पहिले और इसके पीछे होनेसे प्रतीप अलंकार समझना चाहिये. सर टॉमस रो इंग्लिस्तानके जेम्स बादशाहका एल्ची उस वक्त

वहां मौजूद था उसने केन्टरवरी के आर्चबिशप अर्थात् केन्टरवरीके मुख्य लॉर्ड

पादरीको, जो चिट्ठी लिखी उसमें बयान करता है कि “एक पोरसके खानदानका राजकुमार, मुग़ल बादशाहके दरबारमें आया, जिसको बड़े मुग़ल (बादशाह) ने बख़्शिशां से ताबे बनाया है, तलवारके जोरसे नहीं.” अब सोचना चाहिये कि इस चिट्ठी के मज़मूनसे या जहांगीरकी कर्णके साथ मुल्की तदबीरसे इस घरानेके राज कुमारोंको दिल्लीके मुसल्मान बादशाह किस कठिनताके साथ अपने काबूमें लाये थे.

कुंवर कर्णसिंह अजमेरसे निकलकर अपने मुल्क मेवाड़को, जितना हो सका, आबाद करतेहुये उदयपुरमें पहुंचे, और महाराणा अमरसिंहको बड़ी रंजीदा हालतमें पाया, जो अपने नामके अमर महलमें गोशानशीन थे. कर्णसिंहके आते ही राज्यका कुल काम महाराणा अमरसिंहने उनके सुपुर्द करदिया. कोठार व राय (राज्य) आंगन तथा उसके पूर्व पश्चिमकी चौपाड़ें, जो अब ‘नीकाकी चौपाड़’, ‘पांडेकी ओवरी’ तथा ‘पांणेरा’ के नामसे मशहूर हैं, महाराणा उदयसिंहने बनवाये थे, और महाराणा प्रतापसिंहने थोड़ीसी इमारत चावंडमें रहनेके लायक बनवाली थी, क्योंकि उनको लड़ाईकी तकलीफोंसे उदयपुरमें ज़ियादा रहनेका मौका न मिला. इन महाराणा अमरसिंहने, जिनका प्रधान भामाशाह ओसवाल कावड़िया गोतका महाजन बड़ा आकिल् और बहादुर था, उसीके प्रधानेमें महलोंका अब्बल दर्वाज़ा, जिसको ‘बड़ी पौल’ कहते हैं, और ‘अमर महल’, जो ज़नाने महलोंके नज्दीक हैं बनवाये थे.

भामाशाह बड़ी जुरअतका आदमी था, महाराणा प्रतापसिंहके शुरू समयसे महाराणा अमरसिंहके राज्यके २॥ तथा ३ वर्ष तक प्रधान रहा, इसने ऊपर लिखी हुई बड़ी बड़ी लड़ाइयोंमें हज़ारों आदमियोंका खर्च चलाया. यह नामी प्रधान सम्वत् १६५६ माघ शुक्ल ११ [हिज्री १००८ ता० ९ रजब = ई० १६०० ता० २७ जैन्वूअरी] को ५१ वर्ष ७ महीनेकी उम्रमें परलोकको सिधाया; इसका जन्म सम्वत् १६०४ आषाढ शुक्ल १० [हिज्री ९५४ ता० ८ जमादियुल्अब्बल् = ई० १५४७ ता० २८ जून] सोमवारको हुआ था, इसने मरनेके एक दिन पहिले अपनी स्त्रीको एक बही अपने हाथकी लिखी हुई दी, औरकहा कि इसमें मेवाड़के खज़ानेका कुल हाल लिखा हुआ है, जिस वक्त तकलीफ हो, यह बही उन (महाराणा) की नज़र करना. यह खैरस्वाह प्रधान इस बहीके लिखे हुए खज़ाने से महाराणा अमरसिंहका कई वर्षों तक खर्च चलाता रहा. मरनेपर इसके बेटे जीवाशाहको महाराणा अमरसिंहने प्रधाना दिया था, वह भी खैरस्वाह आदमी था, लेकिन भामाशाहकी सानीका होना कठिन था.

जब कुंवर कर्णसिंह बादशाह जहांगीरके पास अजमेर गये, तब शाह जीवराज भी साथ था. जीवराजके पीछे भी महाराणा कर्णसिंहने उसके बेटे अक्षयराजको प्रधाना दिया. इसके घरमें तीन पुस्त तक तीन महाराणाओं

का प्रधाना रहा. भामाशाहके बाप भारमल्लको महाराणा सांगाने रणथम्भोरकी किलेदारी दी थी, जो पीछे सूरजमल्ल हाड़ा बूंदी वालेको मिली, इसपर भी किले रणथम्भोरमें एतिवारी नौकरी और कुल कारवार भारमल्लके ही हाथ रहा था. इस खैरखाह घरानेके आदमी कुल अच्छे ही थे, परन्तु भामाशाहके नामसे आसवाल जातके हर एक महाजनको घमंड होता है, जिसतरह वस्तपाल तेजपाल, जो अन्हलवाड़ेके सोलंखी राजाओंके प्रधान थे और जिन्होंने आवूपर जैनके मन्दिर बनवाये, वैसाही पराक्रमी और नामी भामाशाहको भी जानना चाहिये, जिसकी नौकरीके एवज में वर्तमान समय तक उसकी औलादके कावड़िये महाजन महाजनोंके बड़े जल्सोंमें सबसे पहिले पेशानीपर तिलक पाते हैं, अब उन लोगोंमें कोई मशहूर आदमी नहीं रहा, तो भी भामाशाहका नाम कुल मुल्कमें मशहूर है.

कुंवर कर्णसिंह उदयपुरमें आये और मुल्क की रिआयाको बुला बुलाकर आबाद किया. कुछ दिनों बाद कुंवर कर्णसिंहके बड़े पुत्र भंवर (१) जगत्सिंहको हरदास भाला और बहुतसे राजपूतों समेत, बादशाह जहांगीरके पास भेजा; बादशाहने २०००० रुपये और १ हाथी व १ घोड़ा और खिलअत और शाल खासा, भंवर जगत्सिंहको, ५००० रुपये और १ घोड़ा खिलअत हरदास भालाको देकर विदा किया.

जब कुंवर कर्णसिंह अजमेरसे उदयपुरको आये थे, तभी सगर अपने राणा पदको किले चित्तौड़में छोड़कर गए अपने बालबच्चोंके जहांगीरके पास पहुंचे, तब बादशाहने रावतका खिताब और ऊमरी भदौराका परगना उनको जागीरमें दिया, जो अबतक उनकी औलादके कब्जेमें चला आता है. किला चित्तौड़ महाराणा अमरसिंहके कब्जेमें आया, लेकिन नारायणदास अचलदासोत शक्तावतने बेगूं का कब्जा नहीं छोड़ा, जो सगरका जागीरदार था; कुंवर कर्णसिंहने रावत मेघसिंह गोइन्ददासोत चूडावतको उसके निकाल देनेके लिये भेजा, मेघसिंहने बेगूं जाकर नारायणदासको समझाया— कि महाराणा अपने मालिक व मा बाप हैं, उनसे साम्हना न करना चाहिये, इस तरह समझानेसे नारायणदास वहांसे निकल गया, और बेगूं व रत्नगढ़में महाराणाका कब्जा होगया महाराणा अमरसिंहके हुक्मसे कुंवर कर्णसिंहने बल्लू चहुवानको बेगूंका पट्टा लिखादिया, जिससे नाराज होकर रावत मेघसिंहने उदयपुर आकर रुखसत चाही

(१) दादेकी मौजूदगीमें कुंवरके बेटेको मेवाड़में भंवर कहते हैं.

कुंवर कर्णसिंहने तानेके तौरपर कहा कि क्या बादशाहके पास जाकर मालपुरेका पट्टा पाओगे ? इसी ताने पर रावत मेघसिंह वहांसे निकल कर दिल्ली पहुंचा. एक दिन बादशाह जहांगीरने कहा कि तुमने एक रातमें मेवाड़के कुल बादशाही थाने किस तरह उठादिये थे, उसी तरहका लिबास पहिनकर हमारे साम्हने आओ.

मेघसिंहने डेरे जाकर मए अपने राजपूतोंके काले कपड़े पहिने और सिरपर धोंकड़े की टहनियोंके एवज रजकेकी किलंगियें लगाकर छोटी मश्क पानी पीनेकी बगलमें रखी, बन्दूक तलवार कसकर बादशाहके साम्हने आया, तब जहांगीरने कहा कि इसको 'काली मेघ' कहना चाहिये. बादशाह खुश हुआ और मेघसिंहकी अर्जके मुवाफ़िक़ मालपुरा जागीरमें देदिया, इस बाबत बादशाही फ़र्मान व शाहज़ादे खुर्रमके निशान, जो मेघसिंह और उसके बेटे नरसिंहदासके नाम आये थे, उनका तर्जुमा यहां लिखाजाता है—

जहांगीर बादशाहका फ़र्मान, रावत मेघसिंहके नाम.

फ़र्मान, अबुल् मुज़फ़्फ़र,
नूरुद्दीन मुहम्मद, जहां-
गीर बादशाह गाज़ी.

इस वक्त बड़े दरजेका नेक फ़र्मान जारी किया जाता है— कि बाईस लाख अड़तीस हजार पांच सौ दामकी जागीर, परगने मालपुरेकी, शुरू फ़स्ल रबीअ ईत ईल (चैती) से, मौजूद ज़मानेके मुवाफ़िक़, रावत मेघाकी तनख़्वाही जागीरमें मुक़रर कीजावे.

मुनासिब है कि हाकिम, कामदार, जागीरदार, दीवानीके अहलकार और हिसाबी जिम्मेदार, पाक और बुजुर्गहुकमके मुवाफ़िक़ अमल करके, उन गांव और जागीरको जिक्र कियेहुए आदमीके कब्जेमें छोड़ दें— किसी तरहका फ़र्क और कोई तब्दीली उसके कायदोंमें न करें.

चौधरी, कानूनगो, पटैल, रअग्रयत, किसान वगैरहको चाहिये कि जिक्र किये हुए रावतको अपना जागीरदार (हाकिम) जानें.

दीवानी और माली हिसाब किताबको दस्तूरके मुवाफ़िक़ हर फ़स्ल और हर वर्ष पर उसे समभावें और जवाब देते रहें.

किसी तरह इसमें कमी न करें, उसकी हिसाबी तद्बोरोंसे बख़िलाफ़ी न करके हर बातके लिये जिक्र कियेहुए रावतके पास हाजिर होते रहें—हुकमकी ताबेदारी जरूर समझें.

(कागज़की पीठकी तहरीह) .

जागीर

रावत् मेघाके नाम यादाशतके मुवाफिक यह है-

सुबहके वक्त दिन आस्मान २७ इस्तिफ़ार इलाही सन् १० जुलूस, बुधवार हिज्जी १०२५ ता० २७ सफ़र (१) को जुम्दतुल्मुल्क, मदारुल्महाम, मुस्ता-रुदौला, एतिमादुदौलाके रिसालेमें, और नेकबरत मुस्तफ़ाखांकी चौकी, और बादशाही ताबेदार मुहम्मदअली शुक्रुल्लाहकी वाकिअनवीसी में, बुजुर्ग, रौशन हुक्म जारी हुआ-कि रावत् मेघाकी जागीर जाती चारसौ और सवार दोसौ इस तरह मुकर्रर कीजावे- तस्दीकके मुवाफिक लिखागया, बयान वाकिअनवीसका सहीह है, दूसरा बयान जुम्दतुल्मुल्क, मदारुल्महाम, एतिमादुदौला वज़ीरके खतसे दो बारा अर्जहुआ, दूसरा बयान खास मुसाहिब दियानतखाने ११ जुलूस, मुवाफिक मंगलवार तारीख १० रबीउल्अव्वल सन् १०२५ हिज्जी को कारवाईमें हुक्मके मुवाफिक दोबारा अर्ज हुआ- दूसरा बयान जुम्दतुल्मुल्क वज़ीरके खतसे, फर्मान लिखा जावे.

२०० सवार मए खास
तन्स्वाह
२२३८५०० दाम.
मुकर्रर एवज
परगना भरसावर, जिला उजैन, सूबे
मालवासे, जो केशवदासको तन्स्वाहमें
मिला था.
दूसरी बार १०००००० दाम ज़ियादा
तन्स्वाह, २०० सवार,
३२३८५०० दाम.
मुकर्रर तन्स्वाह परगने मालपुरा, जिले रणथम्भोर,
सूबे अजमेरमेंसे, जो मिर्जा रुस्तमसे उतारकर खालिसेमें
दाखिल हुआ था.

(१) विक्रमी १६७२ चैत्र कृष्ण १४ = सन् १३१६ ई० ता० १६ मार्च.

शरह
यादाशत दिन आस्-
मान २७ बहमन्, १० जुलूस,
मुताबिक मंगलवार २७ मुहर्रम सन्
१०२५ हिज्जीको बडे सदार और सिहबानियोंके लाय-
खाजा अब इस्लाकके रिसाले, और मुताबिक यह मल्लब
के तातारखांकी चौकीमें, वाकिअनवीसके मुताबिक जारी
रावत् मेघाका मन्सब जागीरके सिवाय है-बादशाही हुक्म जारी
सवारके मुवाफिक सरबुलन्द रहे-दियानतखांकी लिखावटसे
सन् १० जुलूस मुवाफिक मंगलवारको कारवाई की फ़र्मा दोबारा अर्ज हुई-चारसौ जात,
दोसौ सवार.

बयान् जुम्दतुल्मुल्क
वज्जिरका यह है, कि शुरु
ईत ईलसे वाकिणमें दा-
खिल करें- दूसरा बयान्
जुम्दतुल्मुल्कका यह है
कि जिंक्र कियेहुए रावत्
मेघाकी तनखाहके लिये
जागीरमें बांटदियाजावे.

जिंशाहे
जहांगीर किश्वर
कुशाय। शुदह राय
बनमालिये राम-१
राय.

३२३८५०० दाम.

तातारखां
मुरीदेजहांगीर
बादशाह.

शाहजादे खुर्रमका निशान, रावत् मेघसिंहके नाम-

खुदा
शाहे जहां करदो बुलन्द
इक्बालु दाद अफसर; व
खुर्रमशाह, बिनशाहे ज-
हांगीर इब्निशह
अक्बर.

निशान, आलीशान् खुर्रम, इब्ने अबु-
ल् मुजफ्फर, नूरुद्दीन मुहम्मद, जहांगीर
बादशाह ग़ाज़ी . ॥

बराबरी वालोंमें उम्दा रावत् मेघ, शाही मिहर्बानीका उम्मेदवार होकर जाने-
हम उसको अपना खैरखाह, कारगुज़ार राजपूत जानते थे, इसलिये हमने उसको
कांगड़ेके भगड़ेपर मुक़रर किया था- उसने अपनी जागीरमें जाकर इस क़दर देर
लगादी कि खैरखाह मददगार ताबेदार एतिवारके लायक राजा विक्रमादित्यने सूरजम-
ल्लके मुआमलेको थमा रक्खा- इसलिये बड़े हज़रत (जहांगीर) बुजुर्ग दरजेके
बादशाहने उसकी जागीर उतारनेके लिये हुक्म दिया था, लेकिन खैरखाह सदाँर
मिहर्बानियोंके लायक कुंवर भीमने हमसे अर्ज किया कि वह ज़रूरतके सबब
ठहरगया है, अब पूरा खयाल है कि वह खाना होचुका होगा- इस बातको हमने
बादशाही हुज़ूरमें अर्ज करके उसकी जागीर साबिक़ दस्तूर बहाल रक्खी है, और
बुजुर्ग निशान् उस मुआमलेकी बावत हमने भेजदिया.

दुबारा उसका एक खत खैरखाह सदाँर खाजा अबुल्हसनके नाम पहुंचा,
जिसका मज़्मून हज़रत शहनशाहके हुज़ूरमें अर्ज हुआ, तो मालूम हुआ, कि वह

अबतक कांगड़ेके लश्करकी तरफ़ खाना नहीं हुआ, इस लिये बड़े हज़रतने उसकी जागीर उतार कर खास खैरखाह बड़े दरजेके सर्दार मिहर्बानीके लायक़ बादशाह-तके मोतबर आसिफ़्खांको इनायत फ़र्मादी. अगर वह चाहता है कि इस कुसूरका एवज़ करे, और बड़े हज़रत उसकी ख़ता मुआफ़ करे, तो मुनासिब है कि अच्छी ज़मइयत लेकर बाला बाला अपने घरसे ज़िक्र किये हुए राजाके पास चलाजावे. जब कि राजा उसके और जाबतेकी मुवाफ़िक़ उसकी ज़मइयत पहुंच जानेकी बाबत अर्ज़ी लिखेगा, तो उस वक्त हम बड़े हुज़ूरकी खिदमतमें अर्ज़ करके उसका कुसूर मुआफ़ करादेंगे- और बड़े दीवानको हुक्म देंगे कि उसकी जागीर किसी दूसरे मुनासिब इलाकेसे तन्खाहके तौर जारी करदें- अगर इस तरीकेपर अमल न करे, और हमारी खिदमतमें नौकरीका इरादा रखता हो, तो फ़ौरन् हाज़िर हो जावे कि उसके लायक़ मिहर्बानियोंके साथ सरबुलन्दी बरूनी जावे- और जो नहीं तो जहां चाहे चलाजावे, कोई रोकने वाला नहीं है- तारीख़ २६ बहमन् इलाही सन् १३ जुलूस, मुताबिक़ सन् १०२७ हिज़ी.

पीठकी इबारत.

बड़े खैरखाह ताबेदार अफ़ज़लखांके रिसाले और वाकिआ नवीसीमें जारी हुआ.

गुरूला
अफ़ज़लखां बन्द-
इ शाहजहां.

जहांगीर बादशाहका फ़र्मान, नरसिंहदासकी जागीरके लिये-

फ़र्मान, अबुल्मुजफ़्फ़र, नूर-
द्दीन मुहम्मद, जहांगीर बाद-
शाह गाज़ी.

इस वक्त बुजुर्ग़ फ़र्मान जारी कियागया कि २९८१०० दो लाख अठ्ठानवे हज़ार एक सौ दामकी जागीर, परगने मालपुरा, ज़िले रणथम्भोर, सूबे अजमेरमें से शुरू रबीअ ईत ईलसे रावत मेघाके बेटे नरसिंहदासकी जागीरी तन्खाहमें मुकर्रर की जावे- मुनासिब है कि हाकिम, जागीरदार और दीवानीके अहलकार और हर तरहके

बादशाही नौकर हुकमके मुवाफ़िक़ अमल करके, ज़िक्र कियेहुए आदमीके कब्ज़ेमें रखदें— किसी तरह वहांके जाबितों और कायदोंमें हेर फेर न करें— चौधरी, कानूनगो, पटैल, रअग्रय्यत् और किसानोंको लाजिम है, कि ज़िक्र कियेहुए आदमीको वहांका जागीरदार समझकर माली और दीवानी जवाबदिही दस्तूरके मुवाफ़िक़ उसके पास फ़स्ल फ़स्ल और साल साल पर करते रहें, किसी तरह इस बातमें कमी नकरें—उसकी हिसाबी तदबीरोसे बख़िलाफ़ न रहकर उसके पास हाज़िर होते रहें— इस हुकमके मुवाफ़िक़ तामील ज़ुरूरी समझें— तारीख़ २२ उर्दीबिहिश्त इलाही सन् ११ जुलूस, मुताबिक़ सन् १०२५ हिज्री.

पीठकी तफ़्सील.

जागीर

रावत मेघाके बेटे नरसिंहदासके नाम, याद्दाश्तकी मुवाफ़िक़ दिन आसमान् तारीख़ २७ इस्तिक्रार मुताबिक़ बुधवार २७ सफ़र सन् १०२५ हिज्री को, जुम्द-तुल्मुल्क मदारुल् महाम एतिमादुद्दौला वज़ीरके रिसालेमें, और नेक खान्दान् मुस्त-फ़ाखांकी चौकीमें, बादशाही नौकर मुहम्मद हयात शुक्रुल्लाहकी वाकिअ नवीसीके मुवाफ़िक़ बुजुर्ग हुकम जारी हुआ कि रावत मेघाके बेटे नरसिंहदासकी जागीर, चार बीसी जात, २० सवार की बाबत, मुक़र्रर की जावे— तस्दीकसे लिखा गया— हाशियेका बयान वाकिअ नवीसके ख़तसे दुरुस्त है— दूसरा बयान जुम्दतुल्मुल्क वज़ीरके ख़तसे दुबारा अर्ज हुआ— दूसरा बयान बादशाही मुसाहिब दियानत-खांके ख़तसे— दिन आबान् ता० १० फ़र्वदी सन् ११ जुलूस, मुवाफ़िक़ बुधवार ता० ११ रबीउल्अव्वल् सन् १०२५ को मुहम्मद हयात खुश नवीसकी वाकि-आ नवीसीसे दुबारा अर्ज हुआ— दूसरा बयान वज़ीरके ख़तसे लिखा गया, कि फ़र्मान लिखा जावे—

रु० २१ सवार मए खास.

मुक़र्रर दरमाहा—

३०८०० दाम.

खास

चार बीसी जात—

मुक़र्रर दरमाहा—

४०३७० दाम.

याद्दाश्तका बयान रोज़ मुर्दाद छठी इस्तिक्रार सन् १० जुलूस मुताबिक़ बुधवार ६ सफ़र सन् १०२५ हिज्री को बड़े दरजेके सदाँर बादशाही खैरस्वाह बख़शि-युल्मुल्क ख़ाजा अबू इस्हाक़के रिसालेमें और नेक

बाबत

फी नफ़र २० बीस सवार

१६८०० दाम-

मुक़र्रर साल्याना सिवाय

३३८८०० दाम.

४८४०० दाम खास.

२९८१०० दाम.

खान्दान् मुस्तफ़ावांकी चौकी
और बादशाही नौकर मुहम्मद मुकीमकी
वाकिअ नवीसीमें बुजुर्ग हुक्म जारी हुआ कि
रावत मेघाके बेटे नरसिंहदासका मन्सब, जो बापके
साथ इन दिनोंमें रानाके पाससे आया, जात और सवार
इस मुवाफ़िक़ मुक़र्रर किया जावे-बयान वाकिअ नवीसके
ख़तसे सहीह है-दूसरा बयान जुम्दतुल्मुल्क मदारुल्महाम
एतिमादुद्दौला वज़ीरके ख़तसे दुबारा अर्ज हुआ-दूसरा
बयान मिहर्बानियोंकी लायक़ दियानतवांके ख़तसे दिन
आबान् १० फ़र्वदी सन् ११ जुलूस मुवाफ़िक़ बुधवार, हुक्म
की मुवाफ़िक़ अर्ज होगया-

चार बीसी.
बीस सवार.

मुक़र्रर तन्ख्याह परगना मालपुरा, ज़िला रणथम्भोर, सूबा अजमेरसे, जो मिर्जा रुस्तमसे वापस ख़ालिसे में करोरीके मातहत मुक़र्रर हुआ था.

हसनखां
मुरीदे जहांगीर
शाह.

दूसरा बयान जुम्दतुल्मुल्क
वज़ीरके ख़तसे, वाकिअमें दाख़ि-
ल किया जावे-

२९८१०० दाम.

ज़ि शाहे जहांगीर
किश्वर कुशाय; शुदह
राय वन्मालिये
रामराय.

सादिक़वां
मुरीदे जहांगीर
बादशाह.

जहंमीर बादशाहकी तरफसे रावत मेघसिंहकी मन्सबी जागीरका फ़र्मान.

अल्लाहु अकबर.

तारीख़ दिन आजर शुरू मिहर इलाही सन् १३ जुलूस, मुवाफ़िक़ सोमवार महीना शव्वाल् सन् १०२७ हिजी को जुम्दतुल्मुल्क मदारुल्महाम बादशाही सर्दार एतिमादुद्दौला वज़ीरके रिसालेमें और बडे़दरजेके सर्दार मोतमदखांकी चौकी, और बादशाही ताबेदार अलीनकी की वाकिअ नवीसीमें, बुजुर्ग हुक़म जारी हुआ कि, रावत मेघ वगैरह की जागीर ५०० पांचसौ जात, २५० सवारकी बाबत, नीचे लिखी तपसीलके मुवाफ़िक़ मुक़रर की जावे—बादशाही यादाश्तके मुवाफ़िक़ लिखा गया.

मीजान.

मुक़ररा तन्स्वाह—

३२५८२०० दाम.

अगले दस्तूरके मुवाफ़िक़—

२५०४७०० दाम.

इन दिनोंकी तरकी, मुवाफ़िक़ १३ उर्दी बिहिश्त इलाही सन् १३ जुलूस के—

७०४५०० दाम.

२३००० दाम हाथियोंकी खुराक.

३२३५२०० दाम.

जागीर—

जात ५०० पांचसौ

सवार २५० ढाईसौ.

२५१ सवार मए खास

मुक़रर दरमाहा—

३०७२०० दाम.

खास—

५०० पांचसौ जात.

२४४० दाम.

मातहत जमइयत—

२५० सवार.

२२१४०० दाम.

मन्सबदार

३ तीन आदमी-

बाबत १३८०० दाम.

फूलदास हरीदास
बीसी. बीसी.

परसराम

बीसी.

४६०० दाम.

जमइयत

२४७

६००८०० दाम.

१९७६०० दाम.

९६००० दाम.

मुकरर साल्याना सिवाय-

३३८१४०० दाम.

३८१३५० दाम.

खास—

चार मन्सबदार—

२६४००० दाम.

३७३५० दाम.

याद्दाश्तका बयान—

तारीख आजर १३ उदीबिहिश्त सन् १३
जुलूस, मुवाफिक १७ जमादियुल् अब्वल सन्
१०२७ हिजी शनिवार को बड़े इज़्ज़दार, उम्दा
सर्दार, बख्शियुल्मुल्क स्वाजा अबुल् हसनके रि-
सालेमें और बड़े अकलमन्द होशयार हकीम मसी-
हुज़्जमांकी चौकी, और बादशाही नौकर मुह-
म्मद मुकीम हिजाजी की वाकिआ नवीसीके
मुताबिक, बुजुर्ग हुक्म जारी हुआ कि रावत
मेघा अस्ल मन्सब और तरकी के साथ सर-
बुलन्द रहे-बख्शी की तरदीक से याद्दाश्त
लिखिर्गई-हाशियेका बयान वाकिआ नवीसके
खतसे सहीह है—बयान वजीरके खतसे दुबारा
अर्ज हुआ-दूसरा बयान उम्दा सर्दार दिया-
नतखांके खतसे ता० आजर इस्फन्दार २९
उदीबिहिश्त सन् १३ जुलूस, मुवाफिक शनि-
वार ता० २३ जमादियुल् अब्वल सन् १०२७
हिजी—अलावल की वाकिआ नवीसी में
दुबारा अर्ज होगया—वजीर के खत से यह
बयान लिखागया कि तफ्सील करदें—
५०० जात.
२५० सवार.

पहला मन्सब-
४०० चार सौ जात.
२०० दोसौ सवार.

इनदिनों में, दोवर्ष दो
महीने सोलह दिन
पीछे तरकी दीगई—
१०० जात.
५० सवार.

पहिला मन्सब चारसौ जात दोसौ सवार, इन दिनोंकी तरकी एकसौ जात, पचास

५० सवार

दोसौ सवार.

मुकर्रर दरमाहा-

२२९४०० दाम.

खास ————— अर्दली —————

४०० जात, २०० दोसौ सवार

१४५० दाम. १७१४०० दाम.

मातहत मन्सब्दार

३ आदमी तीनबीसी

१३८८० दाम.

फूलदास हरीदास

११५ बीसी-

४६०० दाम.

४६०० दाम.

३१ दाम.

४६०० दाम.

अर्दली

१९७

६००८०० दाम. १८१६०० दाम.

५८००० दाम.

मुकर्रर साल्याना सिवाय-

२५२३४०० दाम.

१९७४५० दाम खास.

अर्दली खास दाम. अर्दली मन्सब्दार-

१९०५०० दाम. ३७३५० दाम.

२३२५३५०- ७४०५०० दाम.

मुसव्वदा-

रावत मेघका भाई, तीन बीसी जात, दो बीसी सवार-

११ सवार.

मुकरर दरमाहा

१९००० दाम

खास-

अदली-

तीन बीसी जात

१० सवार

२७५ दाम

८०० दाम

११००० दाम.

७००० दाम.

मुकरर साल्याना, सिवाय

बख्शिश-

२०९००० दाम.

३०२५० दाम खास-

मुकरर तन्स्वाह

१७८७५० दाम

३२३५२०० दाम.

जागीर-

मदद खर्च-

३१३५२०० दाम. १०००००० दाम.

बयान जुम्दतुल्मुल्क रतिमाहुदौला वजीरके खतसे लिखागया कि वाकिअमे दाखिल करे-

बयान तारीख २० रमजान सन् १०२७ हिज्री का, इस लिखावट से यह मल्लब है कि मैं बादशाही दरगाहका नौकर रावत मेघ हूं, मैं कुबूल करता हूं कि तीन महीनेके बाद जावितेके मुवाफिक कांगडेके मुत्सदियोंके पास जाकर घोड़ोंको फौजी दाग कराया जावेगा, अगर न कराया जावे तो तरकीकी जागीर जब्त फर्मावे-यह कई फिकरे लिखे गए-जुम्दतुल्मुल्क वजीरका यह बयान है कि यह आदमी कांगडेकी नौकरी पर मुकरर किया गया और हजरत शाह-जादे तज्वीज करते हैं कि अपने पुराने आदमियोंके घोड़ोंको वहां परफौजी दाग हासिल करावे, इस लिये यह लिखाहुआ मंजूर किया जाता है, लेकिन अगर वादेमें बखिलाफी करे तो जागीर उतारलें

बयान बख्शिश-
जुम्दतुल्मुल्क सादिक-
खांका यह है, कि
मंजूर रखें

साबिक दस्तूर परगने मालपुर वगैरा से २५०४७०० दाम.

परगना मालपुर जिला रणथम्भोर सूबा अजमेर) परगना ताल, जिला मन्दसोर, सूबा
जो मिर्जा रुस्तमसे उतारकर बादशाही खालिसे,) मालवा फ़स्ल खरीफ़ लोय ईल से

मुकरर हुआ था, शुरू रबीअ लोय ईल

२६६२०० दाम.

२७इस्फ़न्दारमुज सन् १० जुलूससे-

२२३८५०० दाम.

इन दिनोंकी तरकी एक सौ जात, पचास सवार मन्सब,

७४०५०० दाम

२३००० दाम. हाथियोंकी खुराक

७३०५०० दाम.

मुकरर तन्स्वाह.

७३०५००. दाम

मन्सब
खर्च
वज्रके
फ़स्तल खरीफ़ ईत ईल
स-

जागीर परगना इकनोद, जिला मन्दसौर, सूबे मालवासे, जो सेवाकिशन मारूसे उतारी गई और जिसको बांसवाड़ा परगनेमें एवज दिया गया-

८०७०६१ दाम.

१७६५६१ दाम दूसरेको तन्स्वाह दीजायगी,

बयान कुबूलियत-
इस लिखावटका यह मल्लब है- कि
मैं रावत मेघ हूं, ६३०५०० दाम पर-
गने इकनोदमें शुरू फ़स्तल खरीफ़ ईत
ईलसे मैंने कुबूल किये- यह बयान
सनदके तौर मैंने लिख दिया, ता०
५ शहरीवर इलाही सन् १०२७ हिज्री,
मक़ाम महमूदाबाद-

१३०५००
दाम.

मदद खर्चके एवजमें यादाश्तके मुवाफ़िक़ रोज़ बहमन् दूसरी शहरीवर इलाही सन् १३ जुलूस, मुताबिक़ ६ रमज़ान सन् १०२७ हिज्रीको मिहर्बानियोंके लायक़ सर्दार मोतमदखांके रिसाले, और मिहर्बानियोंके लायक़ आकिलखांकी चौकी, और बादशाही नौकर अब्दुलवासिअकी वाकिअ नवीसीमें खिदमतगारखाने अर्ज किया कि रावत मेघ, मदद खर्च यानी खालिसेका महसूल अदा करनेमें, उज़र और बहाना करता है- बज़ुर्ग़ हुकम जारी हुआ कि जो कुछ मदद खर्च सरकारी रावत मेघके जिम्मे है, जाबि-

ते और सनदके मुवाफ़िक, बादशाही दीवानीके अहल्कार उसकी जागीरसे वुसूल करलें, यादाश्तके मुवाफ़िक तस्दीक़ लिखी गई—

५३०० दाम, मदद खर्च यादाश्त ता० १० दै इलाही सन् ११ जुलूस के मुवाफ़िक हुक्म हुआ कि ५००० रुपये रावत मेघके महसूली दारोगा कमाल हुसैनसे लिये जावें, और मुचल्का लिखवाया जावे कि परगने मालपुरामेंसे, जो उसकी जागीर है, फ़स्ल रबीअ आर खरीफ़ ईलाईल सन् १२ जुलूस अजमेरके फौजदार शार्दूलके पास भिजवावें कि वह खज़ाने में पहुंचा देगा.

१०७८ वुसूल हुए, शार्दूलको लिख दिया जावे—

४३२२ मुकर्रर मीआदके मुवाफ़िक, जब बराबर होंगे, एवज़ दिया जावेगा—

यह है कि वह कांगड़ेकी लड़ाई पर मुकर्रर हुआ, बयान जुम्दतुल्मुल्क एतिमाडुदौलाका ताकीद लिखी गई— कि वह उसकी तमाम तन्स्वाहमेंसे मदद खर्चके तौर १००००० दाम वुसूल किये जावें— दुबारा वज़ीरके बयानसे १००००० दाम वुसूल किये जावें— नौकरी पर मुकर्रर हुआ है उसकी तन्स्वाहसे

१००००० दाम.
अह्लाहु अकबर (खुदा बुजुर्ग है.)
दिन आबान १० वीं तारीख़
मिहर सन् १३ जुलूस, मुवा-
फ़िक़ बुद्धवार १३ वीं शब्वाल
१०२७ हिज्जी को नईमके वाकिफ़में
दुबारा अर्ज हो चुका, और नौकरीके
वास्ते ज़बरदस्त हुक्म जारी हुआ—

हाशिया
अह्लाहु अकबर
वाकिफ़के मुवाफ़िक
है—

जब शाही फौज कांगड़ेकी तरफ जानेलगी, तो मेघसिंहको भी उसमें जानेका हुक्म हुआ उसने इन्कार किया, परन्तु अपने तीनों बेटों रामचन्द्र, लक्ष्मण, और कल्याणको शाही फौजके साथ भेजदिया— लक्ष्मण और कल्याण तो कांगड़ेकी लड़ाईमें मारेगये, और रामचन्द्रके पीछे आनेपर रावत मेघसिंह ने कहा कि तुम हमारे कामके न रहे, क्योंकि अटक (१) उतरजाने बाद आदमी मुसल्मान होजाता है — लाचार रामचन्द्रको मुसल्मान होना पड़ा. यह बात जहांगीरने सुनी, तो काज़ीका (२) खिताब और फ़ीरोज़पुर जागीरमें दिया—यह बेगूं वालोंका बयान है.

विक्रमी १६७३ चैत्र शुक्ल ३ [हिज्री १० २५ ता० ५ रबीउलअव्वल = ई० १६१६ ता० २० मार्च] में कुंवर कर्णसिंह बादशाह जहांगीरके पास दिल्ली पहुंचे और १०० अशर्फी, एक हजार रुपये, चार घोड़े, और एक हाथी नज़र किया, फिर कुछ दिन ठहरकर पीछे लौटते हुए मालपुरमें आये, मेघसिंहने बहुतसी खातिर की. भोजन करते समय कुंवर कर्णसिंहने हाथ खेंचलिया, तब मेघसिंहने अर्ज की, कि चाकरी बतलानी चाहिये, आप भोजन क्यों नहीं करते ? उन्होंने उत्तर दिया कितुमको दाजीराज ने बुलाया है, उदयपुर चलना चाहिये. मेघसिंहने पहिली नाराज़गीका गुबार निकाला, लेकिन कुंवरने तसल्ली दी और मेघसिंहने चलनेको कहा, तब कुंवरने भोजन किया. मेघसिंह उदयपुर आया और महाराणा अमरसिंहसे बेगूंका पट्टा (३) उसको मिला, और बल्लू चहुवानको बेगूंके बदले गंगारका परगना जागीरमें दियागया. कुछ अर्से बाद खुर्रमने मेघसिंहको बुलानेके लिये निशान् लिखभेजा.

जब बादशाह जहांगीर दक्षिणकी तरफ गये, तो शाहजादा खुर्रम उदयपुरमें आया, महाराणा अमरसिंहने मुलाकात की, शाहजादे ने जड़ाऊ तलवार, घोड़े हाथी, खिलअत वगैरह उनको और उनके भाई बेटोंको दिये.

महाराणाने भी ५ हाथी, २७ घोड़े, व जवाहिरातका भराहुआ एक थाल नज़र किया, परन्तु शाहजादेने तीन घोड़े लेकर बाकी सामान वापस करदिया.

(१) शायद वह फौज अटक नदीके पार किसी कामके लिये गई होगी, वना कांगड़ेका इलाका अटकके पार नहीं है.

(२) काज़ी कोई खिताब नहीं है और न यह किसी नये मुसल्मानको मिलता है, बल्कि एक ओहदे का नाम था, जो सिवाय किसी बड़े आलिम शरूस्के दूसरे को नहीं मिलता था.

(३) जागीरकी तफ़्तील यह है— बेगूं ग्राम ८४ से, रत्नपुर ग्राम ८४ से, गोठोलाई ग्राम १२ से, नीमोतो ग्राम १२ से, बांसिया ग्राम १२ से, और तीन ग्राम उदयपुरके पास घास लकड़ीके वास्ते दिये.

शाहजादे खुर्रमके साथ डेढ़ हजार सवार सहित कुंवर कर्णसिंहका दक्षिण में जाना ठहरा.

कुंवर कर्णसिंहने दक्षिणकी लड़ाइयोंमें बड़ी बहादुरी दिखलाई. कुछदिनों बाद जहांगीरके पास जाकर इसकी खुशखबरी सुनाई, और उदयपुर चले आये. फिर राजा भीम (महाराणा अमरसिंहका बेटा) व भंवर जगतसिंह शाही दरबारमें गये और कश्मीरके सफरमें बादशाहके साथ रहे. इन दोनों राजकुमारोंपर बादशाह निहायत मिहर्बानी करता था. बादशाह जहांगीरके लौटनेके वक्त ये दोनों राजकुमार भी लश्करके साथ थे.

इन्हीं दिनोंमें रावत मेघसिंह चूडावत और शक्तावतोंमें बखेड़ा हुआ, जिसका हाल इसतरहपर है, कि बेगूके एक ग्रामका रहनेवाला शक्तावत पीथा बाघावत मेघसिंहको अपना मालिक नहीं समझता था. इसलिये मेघसिंहने उसका ग्रामजलादिया, तब पीथाने नारायणदास शक्तावतके पास भणायमें जाकर सब अहवाल कहा, जिससे भाई बन्धु सगे सम्बन्धी सब १२०० सवार एकट्ठे करके नारायणदासने चढ़ाई की, उस वक्त मेघसिंह तो कहीं विवाह करनेको गया था और उसका बड़ा बेटा नरसिंह दास किलेके किवाड़ बन्द करके बैठरहा; नारायणदास बेगूके चारों तरफ घोड़ा फेरकर एक हाथी मेघसिंहका लेगया. मेघसिंह पीछा आया तो अपने बेटे नरसिंहदासको निकालदिया और अपने भाई चूडावतोंकी फौज एकट्ठी करने लगा, लेकिन पीछे आपसके वंश नाश होनेके खयालसे मेघसिंहने सब्र किया. पँवार केशवदाससे, जिसके पट्टेमें भैंसरोड़गढ़ था, मेघसिंहकी लड़ाई हुई, तो मेघसिंहके छोटे बेटे राजसिंहने केशवदासको भाला मारकर हाथीसे गिरादिया. भैंसरोड़में भी मेघसिंहका कब्जा होगया, लेकिन महाराणा अमरसिंहने नाराज होकर वह मकाम वापस पँवारोंको दिलवाया.

मेघसिंहने महाराणासे अपने मरते समय अर्ज कराया कि मेरे बाद मेरे ठिकानेका मालिक राजसिंह रहे, जब रावत मेघसिंहका देहान्त होगया तब आपसका भगड़ा मिटानेके लिये नरसिंहदासको तो गोठोलाई, जो सब चूडावतोंका कदीमी वतन है, और राजसिंहको बेगू, रत्नगढ़ वगैरह देकर दोनोंका दरजा बराबर रक्खा.

विक्रमी १६७६ माघ शुक्ल २ बुधवार [हि० १०२९ ता० १ रबीउल अठवल = ई० १६२० ता० ३० अक्टोबर] को महाराणा अमरसिंहका देहान्त उदयपुरमें हुआ. उनकी आखिरी सवारी बड़ी धूमधामके साथ होकर अहाड़ ग्राममें

पहुंची, वहां गंगोद्वव कुण्डपर उनकी दग्ध क्रिया की गई, और उनके साथ १० रानी, ९ ख्वास और ८ सहेलियां सब २७ औरतें सती हुईं, उनकी छत्री महाराणा कर्णसिंहने सफेद पत्थर की बहुत बड़ी बनवाई, जो अब तक मौजूद है. (महाराणा कर्णसिंह बड़े पिताभक्त थे, कहते हैं कि वे १२ महीने तक अपने पिताके दग्धस्थानपर रहे, और वहां अर्जकरके सब राज्यका कारोबार चलाते थे). इन महाराणाका जन्म संवत् १६१६ विक्रमी चैत्र कृष्ण ३० [हि० १६७ ता० २८ जमादियुस्सानी = ई० १५६० ता० २६ मार्च] को हुआ था.

महाराणा अमरसिंहका कद लम्बा, रंग गेहुवां सियाही मायल, आंखें बड़ी, चिहरा रोबदार, मिजाज तेज था, लेकिन वह दयावान, और सच्चे व मिलनसार, दोस्तीके पूरे, इकारको पूरा करने वाले थे. इनके देहान्तका मेवाड़के सर्दार, भाई, बेटे, रिआया वगैरा कुल्लको बहुत बड़ा रंज हुआ, इनके गुजरनेकी खबर कश्मीरसे लौटते हुए बादशाह जहांगीरको मिली, उसने कुंवर जगतसिंह व भीमसिंहकी बहुत तसल्ली की. बादशाह लिखते हैं कि— “मैंने भीमको व जगतसिंहको खिलअत देकर राजा कृष्णदासको कुंवर कर्णके वास्ते तसल्लीका फर्मान व खिलअत और एक हाथी और एक घोड़ा देकर विदा किया, जिसने जाकर मातमपुरी व मस्नद नशीनीकी रस्म अदा की.”

इन महाराणाके ६ बेटे— १ कर्णसिंह, २ सूरजमल्ल, ३ भीम, ४ अर्जुनसिंह, ५ रत्नसिंह, ६ बाघसिंह, और एक बेटी बछवन्तां वाई थी.

इनके समयके १८ वर्ष तोलड़ाई भगड़ोंमें बीते, और पिछले ५ वर्ष देशमें अमन रहा.

शेष संग्रह— (नम्बर १).

ग्राम मांडलमें राजा जगन्नाथ कछवाहे की बत्तीस थंभोंकी छत्रीकी प्रशस्तिकी नकल.


स्वस्ति श्रीगणेशायनमः यंत्रह्रवेदांत विदोवदंति पर प्रधानं पुरुषं तथान्यः विश्वोद्धतं कारणमीश्वरंवा तस्मै नमोविघ्न विनाशनाय ॥ १ ॥ हजरत श्री पातिसाह अकबर जीकी जलाल दीनगाजीकी पातसाही सलामति श्री पातसाह हजरति साहि सलेम जहांगीर विजय राज्ये पातिसाह दिल्लीके मुगल्वेक ताको उमराव महाराज श्री जगन्नाथजी राज श्री भारमल सुत कछाहा राजा आमेरका, ताकी छत्री सवंराय राज श्री अभैकरसिंहजी राज श्री करमचंद सुतः छत्रीकी प्रतिष्ठा हुई संवत् १६७०

का बरषे शाके १५३५ प्रवर्तमाने मार्गशिर सुदि ११ एकादशी शुक्रवारके दिन श्री सिंहेश्वर महादेव थाप्या सन् १०२२ (हिज्री) मक़ाम माडिल छत्री काराई, तमाम राज श्री आसानंदजी पदम सुतबैसर जसुतः पोतदार सहा धरमदास खंडेलवाल मुसरफी ठाकुर सीतलदास कायथ माथुर वास गढरणथंभ सुत्रधार माधोगोबिंदः रामदास गढका आज्ञा उदयपुरसु पंडित टोडाका सुवाई खीजमतदार श्रीशुभंभवतु श्रीः

छन्द तोटक.

जबही शिवलोक प्रताप गये । अमरेश बरेश नरेश भये ॥
 पत शाहिय फौज प्रबंध कियो । वह थानक व्यूह बखेर दियो ॥ १ ॥
 सुत ऊदल सागर मान मते । गत कूरम मान कुमार नते ॥
 पहुंचे वहिं संग दिलीप ढिगे । पद रानप पायरु रीत डिगे ॥ २ ॥
 सुल्तान चढ्यो पर्वेज जबे । अमरेश किये बहु जुद्ध तबे ॥
 कछु राज चितौर कियो सगरे । जिंहते बल जीवनको विगरे ॥ ३ ॥
 चढ खान महावत धार धुके । रजपूतन तें इस्लाम रुके ॥
 पत शाहिय थानक लूट लिये । फिरके अब्दुल्ल प्रफुल्ल अये ॥ ४ ॥
 चढके फिर कर्ण कुमार लरे । अरु बामुकि सेनप होय अरे ॥
 सुल्तान चढ्यो जव शाह जहां । घुस पव्वय बोलत रान कहां ॥ ५ ॥
 कलियान सता मकवान दहूं । जिनके गुन फैलिय चक्र चहूं ॥
 जब शाहिय फौजन जोर चढ्यो । रजपूतनपें दुख घोर बढ्यो ॥ ६ ॥
 अमरेशरु खान सलाह करी । निज बानि नसीहत काव्य भरी ॥
 पतशाहनतें नृप संधि नई । सुल्तान दिवान मिलान भई ॥ ७ ॥
 अजमेरहि कर्ण कुमार गये । जिनपें अति शाह प्रसन्न भये ॥
 तज रानप रावत सद्य बने । भट मेघ रिसानरु मान मनैं ॥ ८ ॥
 अमरेश गये शिवलोक सही । जिनकी सब आदत रीत कही ॥
 अभिलाप मनोभव सज्जनतें । फ़तमाल प्रभा गुन कज्जनतें ॥ ९ ॥
 सच बीरन बीर बिनोद लह्यो । कविराज तबें यह खंड कह्यो ॥
 यह बीर कथा श्रुत धीर धरे । भ्रम होय यथा लखि शुद्ध करे ॥ १० ॥

महाराणा अमरसिंह अब्बल- पञ्चम प्रकरण
समाप्त.



महाराणा कर्णसिंह-षष्ठ प्रकरण.

महाराणा कर्णसिंहका राज्याभिषेक विक्रमी १६७६ माघ शुक्ल २ बुधवार [हि० १०२९ ता० ३० सफ़र = ई० १६२० ता० ७ फ़ेब्रुअरी] को हुआ, जिसके लिये पहिली बार राजा कृष्णदास राज्यतिलकका टीका (१) और खिलअत बादशाह जहांगीरकी तरफसे लेकर आये, इसके लेने बाद दूसरे राजाओंका भेजाहुआ दस्तूरी सामान लियागया.

इन महाराणाके समयमें सारे देश भर में चैन और आनन्द रहा, किसीतरहका भगड़ा नहीं हुआ.

महाराणा अमरसिंह व शाहजादे खुर्रमकी सुलहके बाद से ही इनका राज्य कहना चाहिये, क्योंकि महाराणा अमरसिंहने तो उसी दिनसे अकेले रहना इस्तिहार किया था और सारे कामकी संभाल इन्हींके जिम्मे थी; इन्होंने मेवाड़ देशमें जुदे जुदे परगने कायम किये और ग्रामोंमें पटैल, पटवारी, सेना, और गांव बलाई बनाये, लेकिन फिर भी हासिलका एक कायदा सारे देशमें न होसका.

थोड़ेही दिनोंमें यहदेश प्रजासे आबाद होगया, फिर जनाना रावला (महल)

(१) गद्दीनशीनीके समय जो छोटे बड़े और बराबरी वाले महाराजाओंकी तरफसे राज्य तिलक में हाथी घोड़े वगैरह आनेका दस्तूर है, उसे राज्य तिलक का टीका कहते हैं.

रसोड़ा (रसोड़ेका बड़ा महल), तोरण पौल, सभाशिरोमणि (बड़ा दरिखाना), गणेश ड्यौढ़ी, दिलखुशाल (दिलकुशा), महलके भीतरकी चौपाड़, चन्द्रमहल, महलोंकी सूर्य हस्तीशाला के नीचे के दालान, जो लदावसे बड़े मजबूत बनेहुए हैं और जिनके ऊपर हाथियोंके बांधनेकी जगह है, और कृष्णनिवास के हौज़ तथा चंपाबाग़ वगैरह तय्यार कराये; भटियानी चौहटेके गुम्बज़, जो अब देलवाड़ेराजकी हवेलीमें आगये हैं, जग-मन्दिरके बड़े गुम्बज़, जिनकी नीव विक्रमी १६७०-७१ [हि० १०२२-२३ = ई० १६१३-१४] में शाहजादे खुर्रमने डाली थी, पूरे तय्यार कराये.

महाराणाने रोहड़िया बारहट लक्खाको लाख पशाव और तीन ग्राम (मन्सूवो, थरावली, जडाणा) इनायत किये, जिनका दानपत्र चित्तौड़के रामपौल दर्वाजेपर पत्थर में खुदा है- (शेष संग्रह नम्बर १) देखो. यह लक्खा बारहट बादशाह जहांगीरके दरबारमें मन्सब्दार शाइर था, जैसे कि दूसरे राजाओंके पौलपात (१) होते हैं उसी तरह अपनी पौलका नेग भी बादशाह इसको देता था.

इन्हीं दिनोंमें कश्मीरके सफ़रमें बादशाह जहांगीरने महाराणाके भाई भीम-सिंहको राजाका खिताब और मन्सब दिया, फिर वह शाहजादे खुर्रमके पास नौकरीपर रक्खागया, जिससे शाहजादेका खास सद्दार बना.

अब बादशाह जहांगीरकी नाराज़गीके सबब शाहजादे खुर्रमका महाराणा

कर्णसिंहके वक्त उदयपुरमें रहनेका हाल लिखाजाता है-

फ़ार्सी मुवर्रिखोंने इस हालको बिल्कुल छोड़दिया है परन्तु उदयपुरमें शाहजादे खुर्रमके रहनेकी कई मजबूत दलीलें हैं.

अव्वल, राजसमुद्रकी प्रशस्तिमें, जिसको महाराणा राजसिंहने बनवाया था, पांचवें सर्गके १३ वा १४ वें श्लोकमें साफ़ लिखा है, कि खुर्रम जब जहांगीरसे बख़िलाफ़ था, उस वक्त उसको अपने देश मेवाड़में रक्खा, और जहांगीरके देहान्त होने बाद अपने भाई अर्जुनसिंहको साथ देकर उसे दिल्लीका मालिक बनाया, वह श्लोक यह है-श्लोक- दिल्लीश्वरा जहांगीरा तस्यः खुर्रम नामकम् ॥ पुत्रविमुखता प्राप्तं स्थापयित्वा निज क्षितौ ॥ १३ ॥ जहांगीरे दिव्याते संगेभ्रातरमर्जुनं ॥ दत्त्वा दिलीश्वरंचक्रे सोऽभूत् शाहजहांभिधः ॥ १४ ॥ यह प्रशस्ति महाराणा राजसिंहके पुत्र महाराणा जयसिंहके समयकी खुदीहुई है, और इसका

(१) राजपूतानाके छोटे बड़े सब राजपूत लोगोंमें रिवाज है कि जिस तरह पुरोहित मंगल वा अमंगल कार्योंमें दस्तूर लेता है, उसी तरह ये लोग मंगलीक, जन्म, विवाहआदि कार्योंमें दस्तूर पाते हैं, परन्तु ममीमें नहीं लेते, उस पौलपात लेनेवालेको बारहट कहते हैं, इसका पूरा हाल पहिली जिल्दमें देखना चाहिये.

बनाने वाला रणछोर भट्ट महाराणा कर्णसिंहके पुत्र महाराणा जगतसिंहके समयमें मौजद था.

दूसरे, बीकानेरकी तवारीखमें (जो जोधपुरके रेजिडेण्ट, लेफ्टिनेण्ट कर्नेल् पाउलेटने बीकानेरकी रियासतसे बड़ी कोशिशसे तहकीकात करके मंगाई, और जिसकी एक नकल मुझे दी), लिखा है— कि शाहजादा खुर्रम कितनेही महीनों तक जहांगीरकी नाराजगीके सबब उदयपुरमें रहा.

तीसरे, बूंदीकी तवारीख वंशभास्करके खुलासे वंशप्रकाशमें भी ऐसाही लिखा है.

चौथे, कर्नेल् टॉड अपनी किताबमें इस बातको बड़ी मज़बूतीके साथ पुख्ता करते हैं.

पांचवें, इकबालनामह जहांगीरके ६१३ पृष्ठमें लिखा है— कि विक्रमी १६८३ [हि० १०३५ = ई० १६२६] में महाबतखां, बादशाह जहांगीरकी नाराजगीके कारण शाहजादे खुर्रम (शाह जहां) के पास चलागया. जहांगीरने इसके पकड़लाने अथवा सरहद से बाहर निकाल देनेके लिये फौज भेजी थी, इससे वह राणाके इलाके की घाटियोंमें रहने लगा; इससे भी पुख्ता यकीन होता है, कि उस समय शाहजादा खुर्रम (शाह जहां) भी मेवाड़ में था, क्योंकि उदयपुरके सिवाय उसके छिपे रहनेके लिये और कोई स्थान न होगा— मुसीबतके वक्तमें एक दूसरे का आश्रय और दो तकलीफ़ वालोंका मेल रहा करता है, और जियादा तर ऐसी दशामें जब कि महाबतखां और खुर्रमको बादशाही फौजसे एकसाही डर था, और जब कि महाबतखां पहाड़ोंकी जगहको मज़बूत जानकर यहां रहा तो, खुर्रम किस लिये इस जगहकी मज़बूती पर खयाल न करता.

छठे, कुल फ़ारसी तवारीखों तुजक जहांगीरी, इकबाल नामह जहांगीरी, बादशाह नामा और शाहजहांनामा वगैरह में शाह जहांकी इन तकलीफ़ोंका हाल लिखा है.

शाहजहांने तख्तपर बैठनेके बाद महाबतखांको अपना सेनापति बनाया. यह उस समयकी दांस्तीका फल था, परन्तु यहकिसी तवारीखमें नहीं देखा, कि शाहजहांके मक़ाम स्थान स्थानके तारीखवार लिखेहों, लेकिन बीच बीचमें इस मुआमलेके कई महीनोंका हाल नहीं मिलता, कि शाहजादा कहां रहा; इसलिये यही गुमान होता है कि वह उदयपुरमें ही रहा होगा, और महाबतखांका मिलना भी शाहजादे शाहजहांसे उसी समय में साबित होता है.

सातवें, शाहजादेकी लाल पगड़ी अभी तक एक काठके डिब्बेमें रक्खी हुई मौ-

जूद है, जो शाहजादेने महाराणा कर्णसिंहसे भाईचारे (१) में बदली बतलाते हैं.

अगर कोई यह एतिराज करे कि दोसौ साठ या दोसौ पैंसठ वर्ष तक कपड़ा नहीं रहसका, तो हमारा यह जवाब है कि शाहजादेके मेवाड़में रहनेसे दस बारह वर्ष पहिले, जो बादशाह जहांगीरने महाराणा अमरसिंहको तसल्लीका फर्मान भेजा था, उसका लपेटा ढाकेके मलमलका, जिस पर खास बादशाह के पंजेका लगाया हुआ केसरका निशान है, अबतक साबित है, उस कपड़ेकी मजूबूती तार निकालकर देखनेसे नये कपड़ेके बराबर पाईजाती है; यकीन होता है कि बहुत वर्षों तक और भी उस कपड़ेका कुछ नहीं बिगड़ेगा. दूसरा कोई यह एतिराज करे कि इतने बड़े बादशाहके शाहजादेने एक राजासे पगड़ी बदलकर अपनी बराबरी दिखलानेको किस तरह ऐसा काम किया होगा; इस बातका हम यह जवाब देते हैं कि जब तक जहांगीरसे सुलह न हुई, तब तक यह राजा भी अपने को एक खुद मुरतार बादशाह समझते थे और सुलह होनेपर भी इनका बड़प्पन, जहांगीरकी किताब 'तुजक जहांगीरी' के देखनेसे जाहिर होता है, और तकलीफमें हरएक शरूस अपने रुतबे का गुरूर छोड़देता है, जैसे इसी शाहजादेने अपनी इस तकलीफ के शुरूमें खान् खानां अब्दुरहीमसे कहा था कि "हमारी शर्मका लिहाज रखना"— (देखो शाहजहां नामह कलमीका पृष्ठ १३).

आठवें, शाहजादे खुरमने किसी शहीद या वलीकी मन्नत मानकर जगमन्दिरोंमें एक छोटीसी जियारत बनवाई थी, जिसको अब भी बहुतसे आदमी कपूरबाबा कहकर पूजते हैं (इसका सहीह नाम गफूर बाबा होगा).

नवें, शाहजादे खुरमके रहनेके लिये, जो महल बनवाया गया था, वह बड़ा गुम्बजदार पच्चीकारीके कामका (शाहजादेकी यादगार) अभी तक मौजूद है, जिसका नकशा बिलकुल शाहजहानी इमारतोंसे मिलता है.

दसवें, किस्से कहानीके तौरसे भी यह बात इतनी मशहूर है, कि राजपूताना के किसी ग्रामके रहनेवालेसे भी पूछाजाय, तो यही कहेगा, कि शाहजादा उदयपुरमें रहा था, जिसके लिये यह बड़ा गुम्बज बनवाया गया. सोचना चाहिये कि शुहरत भी बिलकुल बे बुन्याद नहीं हुआकरती.

ग्यारहवें, उदयपुरके पहाड़ोंकी जगह ऐसी महफूज थी, कि ४८ वर्ष तक बादशाह अक्बर और जहांगीरने कई दफा पूरा पूरा इरादा किया, कि उदयपुरके राजाओंको ताबेदार करें, लेकिन सिवाय परेशानी व सरगर्दानीके कुछ भी बस

(१) हिन्दुस्तानकी रस्म है, कि जब कोई शरूस किसीसे भाईचारा करता है, तो आपसमें एक दूसरेसे पगड़ी बदलता है.

न चला, और सुलह होनेके बाद भी मेवाड़के राजाधिराजोंको दिल्लीके बादशाह ने दामउपायसे जेर किया था, जो सर टॉमस रो की ऊपर लिखी हुई चिट्ठीसे बखूबी साबित होता है. दूसरे सफर करने वाले जॉन एल्वर्ट डी मेंडल्लो जर्मनकी फ्रांसीसी ज़बानकी किताबके अंग्रेज़ी तर्जुमेसे भी यही पायाजाता है, जो हैरिसके सफरनामेकी पहिली जिल्दके ७५८ पृष्ठ में लिखा है— “ कि अहमदाबादके शहरसे थोड़ी दूर बाहरकी तरफ मारवा (१) के बड़े पहाड़ दिखाई देते हैं, जो २१० माइलसे ज़ियादा आगरेकी तरफ फैले हुए हैं, और ३०० माइलसे अधिक औंयों (२) की तरफ, जहां बिकट चटानोंके बीच गढ़ चित्तौड़में राजा राणाका वासस्थान था. मुग़ल और पाटन (३) के बादशाहकी मिलीहुई फौजें मुश्किलसे उसको जीत सकीं, मूर्तिपूजक हिन्दुस्तानी लोग अभीतक उस राजाकी बड़ी ताज़ीम करते हैं, जो उनके कहनेके मुताबिक़ युद्धक्षेत्रमें एक लाख बीस हजार सवार लानेके योग्य था.” इससे भी साफ़ साबित होता है, कि सुलह होनेके बाद भी मेवाड़के राजा कैसे ताक़तवर और बे खौफ़ थे; तो ऐसे राजाके बे खौफ़ मुल्कमें शाहज़ादेका उस हालतमें रहना सम्भव है.

अब शाहज़ादे खुर्रमपर शाहनशाह जहांगीरकी नाराज़गीका हाल शुरूसे आखिर तक लिखा जायगा.

लेकिन पेशतर हमको बादशाह जहांगीरकी बेगम नूरजहांका हाल लिखना ज़रूर है, जो कि इस फ़साद की बुन्याद डालने वाली थी.

नूरजहां बेगमका हाल.

स्वाजा मुहम्मद शरीफ, जो पेशतर हिरातके हाकिम मुहम्मदखां तकलूका दीवान और उसके मरने बाद ईरानके बादशाह तहमास्पका वज़ीर हो गया था, उसने बादशाह हुमायूँकी तकलीफोंमें हिरातके मक़ाम पर बहुत खातिदारी की थी, जबकि पठान लोग उसे निकालकर दिल्लीके मालिक हो गये थे. स्वाजा मुहम्मद शरीफ़ मर गया, तो उसके दो बेटे गयासबेग व मुहम्मद ताहिरबेग ज़मानेकी गर्दिशसे ईरान

(१) मारवाड़ अथवा मेवाड़ होगा.

(२) शायद उज्जैन होगा.

(३) पाटनसे मुराद गुजराती बादशाह होंगे, क्योंकि पहिले गुजरातकी राजधानी पटनमें थी.

छोड़कर हिन्दुस्तानको रवाना हुए, गयासबेगके साथ उसकी बीबी और दो लड़के और एक लड़की थी. कंधारके मक़ाम पर बहुत तकलीफ़की हालतमें एक लड़की और पैदा हुई, जिसका नाम मिहरुन्निसा रक्खा-- (यही नूर जहां थी) .

गयासबेगकी तकलीफ़ोंका ज़ियादा लिखना फ़ुज़ूल समझकर मुस्तसर कर-दिया गया है.

किसी ज़रीएसे यह लोग बादशाह अकबरके दरबारमें पहुंचे, गयासबेग पढ़ा लिखा और होशियार आदमी था, कुछ इल्मके ज़रीएसे या हुमायूँ शाहकी खिदमतों के सबब बादशाह अकबरके दरबारमें इज़तदार होगया, इसको एतिमादुद्दौलाका खिताब और विकालतका उहदा मिला; जब बादशाहके ज़नानखानेमें इसकी औरत आने जाने लगी, तो उसके साथ मिहरुन्निसा भी जाती थी, इसकी खूब-सूरती पर शाहज़ादा सलीम याने जहांगीर माइल होगया और कुछ छेड़छाड़ भी करने लगा, जिसकी ख़बर बादशाहके कानों तक पहुंची, तो बादशाहने मिहरुन्निसाका निकाह शेरअफ़्गनके साथ करादिया. यह शेरअफ़्गन ईरानके बादशाहज़ादे इस्माईल शाहके बावरचीखानेका दारोगा था, जिसका अस्ली नाम अली कुली और कौम इस्तजलू है; इस्माईलके मरजाने पर यह शरूख़ खानखाना अब्दुरहीम के ज़रीएसे शाही दरबारमें पहुंचा, और इसने कई लड़ाइयोंमें बहादुरी करनेके सबब शेरअफ़्गनका खिताब पाकर सूबे बंगालेमें जागीर हासिल की.

जब बादशाह अकबरका इन्तिकाल होगया, और जहांगीर बादशाह हुआ, (जिसके दिलपर मिहरुन्निसाकी मुहब्बत जमीहुई थी) तो उसने स्वाजह सलीम चिश्ती वलिके पोते कुतुबुद्दीनको बंगालेका सूबेदार बनाकर खानगीमें कह दिया, कि शेर अफ़्गनको समझादेना, कि वह मिहरुन्निसाको तलाक़ दे; अगर वह ऐसा नकरे तो किसी तुहमतसे या लड़ाई से क़त्ल या कैद कियाजावे; जब कुतुबुद्दीनने बंगालेमें पहुंचकर शेर अफ़्गनको इशारेसे बादशाहका मन्शा ज़ाहिर किया, तो उसने गुस्सेमें आकर कुतुबुद्दीनको तलवार से मारडाला, और कुतुबुद्दीन के आदमियोंने शेर अफ़्गनख़ांका भी काम तमाम किया. मिहरुन्निसा एक लड़की समेत, जो कि शेर अफ़्गनसे थी, कैद करके शाही दरबार में पहुंचाई गई, जहां ४ वर्ष बाद विक्रमी १६६८ [हि० १०२० = ई० १६११] को वह बादशाह जहांगीरके निकाहमें आई. उसका खिताब बादशाहने पहिले 'नूर महल' और पीछे 'नूरजहां' रक्खा, और कुछ अर्से बाद उसके ऐसा इस्तिथारमें होगया, कि मुहर और सिक्केमें भी उसका नाम खुदवा-दिया था. इसके भाई अबुल्हसनको पहिले एतिकादख़ां और पीछे आसिफ़ख़ांका खिताब

इनायत हुआ, जिसकी बेटी हमीदाबानू ('मुस्ताजमहल') की शादी शाहजादे खुर्रमके साथ हुई, इसी सबबसे नूरजहां पहिले शाहजादे खुर्रमकी बड़ी मददगार थी.

शाहजादे खुर्रमकी इज्जत बादशाह जहांगीरने इतनी बढ़ाई, कि किसी शाहजादे की न हुई होगी; इस शाहजादेको चालीस हजारी जात मन्सब व शाहजहांका खिताब और शाही दबारमें तख्तके सामने कुर्सीपर बैठनेका रुतबा मिला था. नूरजहां बेगम की बेटी, जो शेर अफगनसे थी, उसका निकाह कुछ अर्से बाद शाहजादे शहरयारके साथ किया गया, यही बात शाहजहांकी इज्जत और आरामके जंगलमें चिंगारी के समान हुई, क्योंकि बादशाह जहांगीर तो मोमकी पुतलीके मानिन्द जिधर नूरजहां फेरती थी उसी तरफ़ फिरजाता, वह नामके लिये बादशाह था, शहनशाहीका भंडा नूरजहां बेगम के हाथमें समझना चाहिये, जिसकी मुहरमें यह शिअ्र खुदाहुआ था—

शिअ्र

नूर जहां गश्त व हुक्मे इलाह—

हमदमो हमराजे जहांगीर शाह.

अर्थ— नूरजहां खुदाके हुक्मसे, जहांगीर बादशाहकी दोस्त और सलाहकार हुई.

मुहरके हालको देखकर पढ़नेवालोंको ज़ियादा अचंभा न करना चाहिये, क्योंकि खास जहांगीरके सिकेमें भी नीचे लिखा हुआ शिअ्र दर्ज था—

शिअ्र

व हुक्मि शाहे जहांगीर याफ़त सद ज़ेवर—

व नामे नूरजहां बादशाह बेगम ज़र.

अर्थ— जहांगीर बादशाहके हुक्मसे और नूरजहां बादशाह बेगमके नामसे रुपयेने बहुतसी रौनक पाई.

ऊपर लिखे हुए शिअ्रोंके पढ़नेसे हरएक आदमी अच्छी तरह जान सक्ता है, कि बेगमको सब कुछ इस्तिथार था. उसने शाहजहांकी तरफ़से बादशाहके दिलको फेरना शुरू किया, वह चाहती थी कि मेरा दामाद शहरयार वलीअहद किया जावे. शाहजादे शाहजहांने दक्षिणकी मुहिमसे लौटकर मांडूके किलेसे बादशाहके पास जिले धौलपुरको अपनी जागीरमें मिलानेकी दस्खास्त भेजी, और दर्या नाम पठानको वहांकी हुक्मतके लिये खाना किया, लेकिन नूरजहां बेगमने यह जागीर पहिले ही शहरयारके नामपर लिखवाकर शरीफुलमुल्कको धौलपुर भेजदिया था; जब दर्याखान वहां पहुंचा, तो दोनोंमें लड़ाई हुई, शरीफुलमुल्क आंख

में तीर लगनेसे अन्धा हुआ। यह खबर नूरजहांके कान तक पहुंची, वह मकार बेगम तो पहिलेसे ही बहाना दूँदरही थी यह ताजा गुनाह शाहजादेका उसके हाथ आया, बेगमने बादशाहको खूब भड़काया। बादशाहने शाहजादे खुर्रमको लिखभेजा, कि तुम कंधारकी तरफ, (जो उन्हीं दिनों ईरानके बादशाहने अपने कब्जेमें करलिया था), खाना हो। इससे बेगमका यह मत्लब था, कि खुर्रमको हिन्दुस्तानके बाहर निकालदियाजावे और शहरयारका रोब बढ़ायाजावे। शाहजादे खुर्रमने अपने दीवान अफ़ज़लखांके साथ बहुत नरमीसे बादशाहके पास अर्जी भेजी और चाहता था, कि यह फ़साद रफ़ा हो; दीवानने बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ पेश न गई, और ना उम्मेद फिर आया। शाहजादेके दुश्मन मौका पाकर बेगम और बादशाहके सामने बनावटकी बातें पेशकरने लगे, और आसिफ़खां नूरजहांके भाईसे भी उसका दिल फेरदिया, आसिफ़खांको आगरेका सूबेदार करके वहां भेजा, और महाबतखांको काबुलसे बुलाया, लेकिन महाबतखांने उज़्र किया, कि जबतक आसिफ़खां और मोतमदखां मेरे दुश्मन वहां रहेंगे, उस वक्त तक मैं हाज़िर नहीं होसक्ता; आसिफ़खांको सूबे बंगालपर भेजाजावे, और मोतमदखां मारडाला जावे, तो बेशक मैं आसक्ता हूँ। बेगमने महाबतखांके बेटे अमानुल्लाको मन्सब तीन हज़ारी जात और सतरह सौ सवारका दिलाया, और महाबतखांको लिखागया, कि इसको अपनी जगहपर काबुलमें छोड़ कर जल्दी चलाआवे।

लाहौर मक़ामपर महाबतखां हाज़िर हुआ और उसकी जगह याकूबखां बदख़्शीको नक़ारा देकर काबुलकी सूबेदारीपर भेज दिया। इसी मक़ामपर ईरान के बादशाह अब्बासके एल्ची हैदरबेग वगैरह आये। हम उस ज़मानेके बादशाहोंकी पोलिटिकल् कार्रवाइयोंको दिखलानेके लिये इस किताबके पढ़नेवालों को उन दोनों कागज़ोंके तर्जुमोंसे भी बेख़बर नरक्खेंगे, जो शाह अब्बास और जहांगीरने आपसमें लिखे थे—

ईरानके बादशाह अब्बासके खतका तर्जुमा—

उन दुआओंकी हवाएं, जिनकी कुबूलियतकी खुशबूओंसे मुरादकी कली खिलकर रिश्तेदारीके दिमाग़की खुशी बढ़ाती है, और उन तारीफ़ोंकी किरनें, जिन की साफ़ चमकसे दोस्तीकी महफ़िल् रौशन् होकर बेगानगी के अंधेरे को दूर करती है, उन बड़े हज़रत सायह खुदाकी महफ़िल का इत्र और उन खुदाके नूरफ़ले हुएकी सच्चाई और सफ़ाईकी महफ़िल्का चिराग़ बनाकर, रौशान अक़ल और रौशनी फैलानेवाले साफ़ दिलपर जाहिर कियाजाता है— कि उन जानकी बरा-

वर भाई के होश्यारी पसन्द करनेवाले दिल और आस्मानकी बराबर बलन्द तबीअत पर, जो दानाई और होश्यारीका आईना और पैदाइशकी हकीकतोंकी सूरतका शीशा है, रौशन और मालूम होगा—कि बादशाह स्वर्गवासीके बे इलाज मुआमलेके (गुजरनेके) पीछे बहुतसे भगड़े ईरानमें जाहिर हुए, जिनमें बाजे इलाके इस बुजुर्ग खानदानके कब्जेसे निकल गये. जब यह बे पर्वाह दर्गाह (खुदा) का आजिज (मैं) बादशाहतके कामोंको चलाने लगा, तो खुदाकी मिहर्बानियोंकी बरकत और दोस्तोंकी उम्दह तवज्जुहसे तमाम मौरूसी इलाके, जो दुश्मनोंके कब्जेमें थे, छिन लिये गये. कन्धारको, जो उस बड़े खानदान (आप) के एजन्टोंके कब्जेमें था, अपना ही जानकर भगड़ा न किया गया, भाई बन्दी और दोस्तीके तरीकेसे हमको उम्मेद थी कि आप भी अपने स्वर्ग वासी बाप दादोंकी तरह पर उसके सौंप देनेमें तवज्जुह फर्मावेंगे; आपने जब गफलतसे परवाह न की, तो कई बार कागज़ और पैगामके जरीएसे इशारे और साफ़ बयान भी उसके मांगनेके वास्ते किये गये; शायद आपकी हिम्मत के आगे यह कमदरजा मुल्क इस लायक न मालूम हुआ, कि इस खानदानके वारिसोंको देकर दुश्मनोंका बद गुमान और बदस्वाहोंकी ज़बानदराजी और ऐबजोई दूर करें; कुछ लोगोंने पहिले इस बातको देरमें डालदिया. जब इस मुआमलेकी हकीकत दोस्त और दुश्मनोंमें फैल गई, और आपकी तरफ़ से कोई जवाब इक्रार और इन्कार की बाबत न पहुंचा, तो मेरी साफ़ तबीअत में यह खयाल आया, कि कन्धारकी तरफ़ सैर व शिकार किया जावे, शायद इस वसीलेसे उन नामवर मक्सदवर भाईके एजेन्ट दोस्ती और मुहब्बतके तरीकोंसे, जो आपसमें जारी हैं, इक्बालमन्द लश्करकी पेशवाई करके मेरी खिदमतमें पहुंचेंगे, और नये सिरसे दुन्याके लोगों पर दोनों तरफ़की एकताकी बड़ाई जाहिर होकर दुश्मनों और बदी चाहने वालोंकी ज़बानकी रुकावटका सबब हो. इस इरादे पर बगैर भारी सामान क़िला लेनेके मुतवज्जिह होकर, जब फ़राह मक़ाम पर पहुंचे, तो एक हुकम मिहर्बानिके साथ कन्धारकी सैर व शिकारका मन्शा जाहिर करनेको वहाँके हाकिमके पास भेजा, ताकि मिहमानीका सामान करे; इज़तदार स्वाजह बाकी कर्कराक़ को बुलाकर वहाँके हाकिम और अमीरोंको, जो क़िलेमें थे, पैगाम दिया, कि बड़े हज़रत बादशाह (जहांगीर) और हमारी सलतनतमें जुदाई नहीं है, और जो कुछ आपसमें जान पहिचान है, वह सब जानते हैं; हम सैरके तरीकेपर उस सुबेकी तरफ़ आते हैं, ऐसा न करें, कि कोई रंजीदगी की बात पैदा हो. उन्होंने हुकमके मज्मून और पैगाम की मस्लहतको सफ़ाईके साथ न सुना और दोनों तरफ़ की मुहब्बत और दोस्तीकी रस्मोंपर खयाल न रखकर गुस्ताखी और गुनाह-

गारी जाहिर की. जब हम किलेके पास पहुंचे तो फिर इज्जतदार स्वाजह बाकी को बुलाकर जोकुछ नसीहतका हक था उसको कहलाभेजा, और दस रोज तक फ़तहमन्द लश्करको ताकीद फ़र्मादी, कि किलेके गिर्द न भटकें; लेकिन नसीहतोंने कुछ फ़ायदा न दिया, और दुश्मनीसे जिद्द की. जब कि इससे ज़ियादा नरमीकी गुन्जाइश न मालूम हुई, कज़लबाश लश्करने बावजूद किलागीरीका सामान न होनेके किलेका मुहासरा शुरू किया, थोड़े दिनोंमें बुर्ज और चारदीवारीको ज़मीन की तरह बराबर करके किलेवालोंको लाचार करदिया, जिससे उन्होंने पनाह मांगी. हमने भी मुहब्बतका तरीका, जो बहुत दिनोंसे इन दो बड़े खानदानोंमें जारी चला आता है, और भाईबन्दीका लिहाज़, जो नयेसिरेसे उस बड़े दरजे और बुजुर्गीके तस्त्नशीनकी हुकूमतके वक्तसे हमारी सल्तनतके साथ इस तरहपर मज़बूत हुआ था, कि दुन्याके बादशाहोंको जलन पैदा हुई, अपनी नज़रमें कायम रखकर, ज़ाती मुरब्बतके सबब से उनके कुसूरों और नालायकियों को, अपनी बख़्शिशसे मुआफ़ करके मिहर्बानियोंके साथ बिल्कुल सहीह सलामत हैदरबेग तूरवाशीके हमराह, जो इस खानदानके सच्चे खैरखाहोंमेंसे है, बड़ी दरगाह (आपके पास) को खाना किया. कसम है कि मौरूसी मुहब्बत और मामूली दोस्तीकी बुन्याद इस सफ़ाई हूँदनेवाले की (मेरी) तरफ़से ऐसीबलन्द और मज़बूत नहीं है, कि बाजे कामोंके जाहिर होनेके सबब, जो खुदाकी कुदरत से पैदा होजाते हैं, नुक़सान पावे.

शिअर.

मियाने मा ओ तो रस्मे जफ़ा नस्वाहद वूद,

बजुज़ तरीक़ण मिहरो वफ़ा नस्वाहद वूद.

तर्जुमा—हमारे और तुम्हारे दर्मियान् सस्तीका तरीका न बर्ताजावेगा, सिवाय मुहब्बत और वफ़ादारीकी रस्मके दूसरी बात न होगी.

यह उम्मेद कीजाती है, कि आपकी तरफ़से भी यही उम्दा तरीका जारी रहकर बाजे इत्तिफ़ाक़िया कामों को नेक निशान नज़रसे पसन्द न फ़र्माकर, अगर कोई नुक़सान मुहब्बतके तरीकेमें पैदा हुआ हो, तो ज़ाती मिहर्बानी और कुदरती मुहब्बतकी उम्दगीसे, उसके दूर करनेमें कोशिश करके हमेशाकी बहारवाले एक दिली और एकताके फूलको सरसब्ज़ और ताज़ा रखकर, अपनी बलन्द हिम्मतको दोस्तीकी जड़ोंकी मज़बूती और इत्तिफ़ाक़की मन्ज़िलोंकी दुरुस्तीपर, जो जहान और जहान वालोंकी आराम बख़्शने वाली हैं, मसरूफ़ फ़र्मावें, और हमारे कब्जेके कुछ इलाकोंको अपने तअल्लुकमें जानकर, जिस किसीको चाहें, अता फ़र्माकर इत्तला

बख्शें, कि बिला तअम्मूल उसको सौंप दिया जावे. इन छोटी बातोंपर कुछ खयाल न करना चाहिये. जो अमीर और सर्दार किलेमें थे, उनसे आगरचि कई, ऐसे काम, जो दोस्तीकी रस्मोंके खिलाफ़ थे, जाहिर हुए, लेकिन जो कुछ भी हुआ हमारी तरफ़से समझें; उन लोगोंने, जो कुछ नौकरी और वफ़ादारीका हक़ था, अदा किया. मुझको यकीन है, कि वह हज़रत भी बादशाही बुजुर्गी और बड़ी मिह-बानी उनके हालपर जाहिर फ़र्माकर, हमको उनसे शर्मिन्दा न करेंगे. ज़ियादा क्या लिखाजावे, हमेशा आस्मान तक पहुंचनेवाले नेज़े खुदाकी तरफ़से मदद पाते रहें.

इसके जवाबमें शहनशाह जहांगीरने शाह ईरानको जो खत लिखा उसका तर्जुमा यह है—

वह शुक्र, जो कियासकी हदसे बाहर है, और वह तारीफ़, जो जाहिरी मिसालोंसे अलहदा है, उस बुजुर्ग़ खुदाको लायक़ है, जिसने बड़े बादशाहोंके इकारों और क़ानूनोंकी मज़बूतीको दुन्याके इन्तिज़ामका सबब, और जहानमें हुकूमत रखनेवालोंको आदमियोंकी आसानी और आरामका ज़रीआ जो खुदाकी एक अमानत है, बनाया है. इस बयान और मुआमलेकी पूरी मिसाल वह मुवाफ़क़त और दोस्ती है, जो इस बड़े ख़ान्दान बलन्द दरजेके दरमियान कायम हुई, और हमारी रोज़ बरोज़ बढ़नेवाली बादशाहतके वक्तमें नये सिरसे उस दरजेपर बलन्द और मजबूत हुई, कि ज़मानेके बादशाहोंको रंज दिलाने लगी. उन बादशाह जमशैदके दरजे, सितारोंकी फ़ौज, आस्मानकी दरगाह, और कैयानी ख़ान्दानके चमकने वाले ताज, बादशाही तरुतके लायक़, बुजुर्ग़ बादशाहतके बाग़के फलदार दररुत, बड़े ख़ान्दानके चुनेहुए, सफ़वी घरानेके सरताजने, बग़ैर किसी सबबके दोस्ती और भाई बन्दी और एक दिलीके बाग़को परेशान किया, जिसपर ज़मानोंके गुज़रने और वक्तोंके बदलनेसे नुक़्सानकी धूलके जमनेका मौक़ा न हुआ था. ऐसी जाहिरी दोस्ती और मुहब्बत दुन्याके मामूली हाकिमोंमें होती है, कि ऐन मज़बूती और भाईबन्दी और दोस्तीमें, जिसपर क़समखालीजाती है, और निहायतरूहानी मुवाफ़क़त और जिस्मानी सच्चाईसे, जिसके सबबसे जान तककी भी परवाह न रखकर मुल्क और मालकी कुछ हकीक़त नहीं समझीजाती, इसतरह पर सैर व शिकार कियाजावे.


मिसरअ .

सद हैफ़ बर मुहब्बते वेश अज़ कियासे मा.

अर्थ— हमारी कियाससे ज़ियादा मुहब्बत पर सैकड़ों अप्सोस हैं.

मुहब्बत भरे हुए खतके आनेसे, जो कन्धारकी सैर और शिकारके उज्जमें, नेकबरूत हैदरबेग और बलीबेगके हाथ भेजा था, और उस फरिश्तोंकी आदत वाली जातकी तन्दुरुस्तीके हालसे भरा हुआ था, खुशीके निशान मुबारक हालतके साथ पैदा हुए. उन बड़े दरजेके मक़्सदवर भाईकी दुनूया संवारनेवाली रायपर पोशीदा न रहे, कि बुजुर्ग पैगाम वाले रम्बलबेगके हमारी दरगाहमें पहुंचने तक कभी तहरीरी या ज़बानी ख़्वाहिश कन्धारके मुआमलेकी बाबत न जाहिरकी गई थी. जब कि हम उम्दा इलाके काश्मीर की सैर व शिकारमें मशगूल थे, उसवक्त दक्षिणके कमहिम्मत लोगोंने बेवकूफीसे ताबेदारीके तरीकेसे क़दम बाहर रखकर गुनहगारीका तरीका इस्ति्यार किया, जिससे बादशाही हिम्मत पर उन बेवकूफोंकी सज़ा और तंबीह लाज़िम हुई, और हमारा लश्कर दारुस्सलतनत लाहौरमें पहुंचा. प्यारे बेटे शाहजहांको ज़बरदस्त फौजके साथ उन बदबस्तोंपर मुक़रर फ़र्माया, और हम आप दारुलख़िलाफ़त आगरेकी तरफ़ रुजूअ हुए; उस वक्त रम्बलबेग पहुंचा, और मुहब्बत बढ़ाने वाला और तरूत की रौनक बख़्शनेवाला खत पेश किया; हम उस दोस्तीके तावीज़को एक अच्छा शगून (शकुन) समझकर दुश्मनोंकी शरारतके दूर करनेके इरादेपर आगरेकी तरफ़ रवाना हुए. उस बड़े कीमती खतमें कन्धारकी ख़्वाहिश जाहिर न कीगई थी, रम्बलबेगने ज़बानी कहाथा, जिसके जवाबमें हमने फ़र्मादिया था, कि “हमको उन मक़्सदवर भाईसे किसी चीज़में तअम्मूल नहीं है, अगर खुदाने चाहा तो दक्षिणकी मुहिमके तै होने बाद जिस तौरपर कि हमको मुनासिब मालूम होगा, तुमको रुख़सत करेंगे”, और हमने फ़र्माया था, कि वह दूर दराज़ सफ़र तै करके आया है, थोड़े दिन लाहौर में रास्तेकी तकलीफोंसे आराम ले, फिर बुलालिया जावेगा; आगरेमें पहुंचनेके बाद हमने उसको तलब किया, ताकि रुख़सत दीजावे. खुदाकी मिहर्बानियें उसकी दरगाहके ताबेदारके (मेरे) हालपर जारी हैं, इस सबबसे फ़तहके साथ तबीअतको इत्मीनान हासिल हुआ, और मैं पंजाबको रवाना होकर इसी बातकी फ़िक्रमें था, कि कासिदको रुख़सत करूं, बाज़े ज़रूरी कामोंके पूरा होनेके बाद इलाके काश्मीर की तरफ़, जो आब हवाकी दुरुस्ती और सफ़ाईमें तमाम दुनूयाके सय्याहोंके नज़दीक उम्दा मानाहुआ है, मुतवाज़िह हुए; उस दिलपसन्द इलाकेमें पहुंचने पर रम्बलबेगको हमने रुख़सतके लिये बुलाया, ताकि अपने साथ रखकर उस जगहकी एक एक ताज़गी और खुशी बख़्शनेवाली चीज़को उसे दिखलावें. इसी मौकेपर उन मक़्सदवर भाईके कन्धारको लेनेके इरादेकी ख़बर, जो हर्गिज़ ख़ातिरमें न गुज़री थी, पहुंची; बड़ा तअज़ुब मालूम हुआ, कि एक भट्टी की मुवाफ़िक़ गांवकी क्या हकीकत है, जिसके लेनेकेवास्ते खुद मुतवाज़िह और

दोस्ती व भाईबन्दी और मुहब्बतकी आंख बन्द करलें. अगरचि सच्चे सहीह कौल वाले मुखबिर इत्तला देते थे, लेकिन हम यकीन नहीं करते थे. जब कि यह खबर तहकीक होगई, फौरन् अब्दुल्अजीजखांको हमने हुक्म भेजदिया, कि उन मक्सद-वर भाईकी मरजी से बखिलाफी न करे, अभी तक भाईबन्दीका बर्ताव मजबूत है; इस दोस्ती और एकताके दरजेको हम एक जहान भरसे जियादा जानते हैं, और किसी चीजको उसके बराबर नहीं समझते. बस इसवास्ते भाई बन्दीके लायक और मुनासिब यह था, कि एल्चीके आने तक, जो शायद अपने मल्लब व मुह-आके मुवाफिक़ खिद्मतमें पहुंचता, सब फर्माते. एल्चीके पहुंचनेसे पहिले ऐसा नुक्सान रवा रखनेपर जमाने वालोंके नज्दीक इक्रार और सच्चाईके कानून, और मुर-व्वत व हिम्मतवरीके तोड़नेका कुसूर किसकी तरफ़ समझा जावेगा. बुजुर्ग़ खुदा हर-एक हालतमें निगहबान और मददगार रहे.



शाहजादे खुर्रमकी जागीरें, जो गंगा जमुनाके आसपासकी थीं, जूब्त होकर दूसरे सर्दारोंको देदी गई, और शाहजादेको लिखागया, कि मालवे, दक्षिण और गुजरातकी तरफ़ अपनी जागीर मुक़र्रर करे. सूबे दक्षिणमें जिस क़दर बादशाही फौज मौजूद है, फौरन् कन्धारकी मुहिमके लिये यहां भेजदे. यह सब हुक्म बेगमकी तरफ़से होता था, बादशाहकी दिली स्वाहिश नहीं थी.

इस फ़सादके वक्त बादशाह काश्मीर व लाहौरकी तरफ़ था, शाहजादेके दक्षिणसे आगरेकी तरफ़ कूच करनेकी खबर सुनकर बादशाह भी लाहौरसे आगरे को रवाना हुआ; उसी वक्त आगरेसे आसिफ़खांकी अरजी पहुंची, कि जो खज़ाना तलब फर्माया गया है, उसके भेजनेका वक्त नहीं है, क्योंकि शाहजादे खुर्रमका इरादा बद मालूम होता है, और उसके आगरेकी तरफ़ आनेकी खबर गरम है. इस पर बादशाहने बहुत खफ़ा होकर शाहजादे खुर्रमका नाम 'बेदौलत' रख-दिया, बल्कि तहरीरोंमें भी यही नाम लिखनेका हुक्म होगया. बादशाह खास अपनी तुज़क जहांगीरी नाम किताबमें निहायत रंजसे लिखता है— कि—

“वह पर्वरिशें और मिहर्बानियें, जो उस (खुर्रम) के हक़में मुझसे जुहूरमें आई हैं, मैं कह सक्ता हूं, कि अब तक किसी बादशाहने अपने बेटे पर नकी होंगी; जो कुछ मेरे बापने मेरे भाइयोंको उहदे दिये थे, मैंने उसके नौकरोंको इनायत किये, और खिताब व नेज़ा और नक़ारा उनको दिया गया, जैसा मैं सिलसिले वार इस

किताबमें पहिले लिख आया हूं, पढ़ने वालोंसे पोशीदा न रहेगा; जिस कदर तवजुह और मिहबानी उस पर की गई, क़लमको उसके लिखनेकी ताक़त नहीं है, ज़ियादा रंजके सबब नहीं लिखाजासक्ता. इस वक्तमें, जब कि सफ़रकी थकान और मिज़ाजकी कमज़ोरी और आव हवाकी ना मुवाफ़क़त मौजूद है, मुझको सवार होकर ऐसे नालायक़ बेटेकी तरफ़ चलना पड़ता है, बहुतसे नौकर, जिनको बहुत वर्षों तक मैंने पाला था, और अमीरीके दरजेपर पहुंचाया था, और वह आजके दिन उज़बक या कज़लबाश कौमकी लड़ाईमें काम आते, वे बेदौलतकी बदबस्तीसे बे फ़ायदा सज़ाको पहुंचे, और मेरे हाथसे ख़राब हुए; लेकिन मैं खुदाका शुक्र करता हूं, कि उस बुजुर्ग़ और पाकने इसक़दर हिम्मत और बुर्दबारी मुझको बख़्शी है, कि इन तमाम तकलीफ़ोंको उठालूंगा, और अपनी उम्रके दूसरे अहवालकी तरहपर पूरा करके आसान करलूंगा, लेकिन जो बात मेरे दिलपर भारी गुज़रती है, और मेरे ग़ैरल्दार मिज़ाजको परेशानीमें डालती है, वह यह है, कि ऐसे वक्तमें मुनासिब था, कि मेरे नेकबस्त लड़के और साफ़ दिल सर्दार आपसमें एक इरादा होकर क़न्धार और ख़ुरासानकी कारगुज़ारीको, जो हिन्दुस्तानकी बादशाहतके लिये इज़त है, इस्तिथार करते, इस बे नसीबने अपने पांवपर कुल्हाड़ी मारकर, इस इरादेको रोक दिया, और क़न्धारके मुआमलेकी गिरह मेरे दिलमें पड़ी रहगई, जिसका सुलभना देरमें होगा; मैं उम्मेद रखता हूं, कि बुजुर्ग़ खुदा इन फ़िक्रोंको मेरे दिलसे दूर करेगा”.

बादशाहकी इबारतका तर्जुमा इस वास्ते लिखा गया, कि पढ़ने वालोंको मालूमहो, कि बूढ़े बादशाहको मल्लबी लोगोंने किस तरहकी तकलीफ़ें पहुंचाईं. इस वक्त महाबतख़ाने अपनी पुरानी दुश्मनीका बदला लेना शुरू किया, मुहतरमखां ख़्वाजेसरा, ख़लीलबेग़ ज़विल्क़द्र और फ़िदाईखां मीरतुज़क़ तीनों आदमियों पर शाहजादे खुर्रमसे ख़तकिताबत रखनेका इल्ज़ाम लगाया, मुहतरमखां आर ख़लीलबेग़को मिर्जा रुस्तमके क़स्मिया बयान व नूरुद्दीन कुलीकी तस्दीक़से और अबूसईदके कई खूनी मुक़द्दमातकी तुहमत लगानेसे महाबतख़ाने शाही हुक़मके मुताबिक़ अपनी तलवारसे बेगुनाह क़त्ल किया, और फ़िदाईखांको बे कुसूर जानकर कैदसे छोड़दिया.

बादशाहने राजा रोज़अफ़ज़ूको शाहजादे पर्वेज़के लानेके लिये बंगाले व बिहारकी तरफ़ ड़ाक़में रवाना किया; जब बादशाह नूरसराय मक़ामपर पहुंचा, तो उस वक्त एतिबारखांकी अरज़ीसे मालूम हुआ, कि शाहजादा खुर्रम फ़तहपुर और आगरेके पास पहुंचा, और क़िलोंके मज़बूत होनेसे भीतर न घुसने पाया,

ताहम बाहर जहां कहीं काबू पाया, वहां बिगाड़ किया, जैसे लश्करखांके मकानसे नौ लाख रुपये और दूसरे अमीरोंसे जितना मिलसका, शाहजादेके मुलाजिम सुन्दरदासने लूटलिया. बादशाह जहांगिरने मूसवीखांको इस वारदातकी खबरके पहिले शाहजादेकी दिली स्वाहिश जानने व फहमाइशके वास्ते रवाना करदिया था, वह खुर्रमके पास पहुंचा, तो शाहजादा दिलसे चाहता था, कि मैं अकेला बापकी खिदमतमें हाज़िर होजाऊं, जिससे दोनोंकी नेकनामीको दाग़ न लगे; मूसवीखांके साथ अपने मोतमद काज़ी अब्दुलअज़ीज़को शहनशाही खिदमतमें भेजदिया, और आप आगरे और फ़तहपुरकी तरफ़से चला गया. बादशाहको तो नूरजहांने आगका शोला बनारक्खा था, काज़ीकी एक बात भी न सुनी, और कैदकरके महाबतखांके हवाले किया.

जब बादशाह दिल्ली पहुंचे, तो बहुतसी फ़ौजें एकट्ठी होगई, शाहजहां के मुकाबलेके लिये पच्चीस हजार सवार अब्दुल्लाखां और स्वाजह अबुल्हसनकी मातहती में, लश्करखां, फ़िदाईखां और नवाज़िशखां वगैरह समेत भेजे, वह मालवेकी सरहद पर शाहजादेकी फ़ौजके नज़्दीक पहुंचे थे, कि शाहजादेने अपने बापकी फ़ौजसे मुकाबला करना वाजिब न जानकर या और किसी सबबसे परगने कोटलाकी तरफ़ किनारा किया, जो रास्तेसे २० कोस बाईं तरफ़ था; शाही फ़ौजको रोकनेके लिये खानखानां अब्दुरहीमके बेटे दाराबखां व राजा विक्रमादित्यको छोड़ा, दोनों तरफ़के फ़ौजी अप्सरोंने लड़ाईके लिये लश्करोंकी दुरुस्ती की, लेकिन् मुकाबलेके वक्त अब्दुल्लाखां शाही हरावल फ़ौजका बड़ा अप्सर शाहजादेकी फ़ौजसे जामिला, उस वक्त जबरदस्तखां व शेरपंजा व शेरहमला व मुहम्मदहुसैन स्वाजह जहांका भाई और नूरजमां असदखां मामूरीका बेटा वगैरह अब्दुल्लाखांकी फ़ौजसे लड़कर मारेगये, और शाहजादेकी फ़ौजका अप्सर राजा विक्रमादित्य भी गोली लगनेसे हलाक हुआ; दोनों तरफ़की फ़ौजोंमें शोर मचगया, क्योंकि शाही फ़ौजसे तो अब्दुल्लाखां शाहजादे की तरफ़ आगया और शाहजादेकी फ़ौजका बड़ा अप्सर (राजा विक्रमादित्य) (१) मारागया, इसी सबबसे दोनों फ़ौजोंका मुकाबला होना बन्द रहा. फिर शाही फ़ौज तो लौटकर अजमेरकी तरफ़ आई और शाहजादा मए अपनी फ़ौजके मांडूमें पहुंचा.

(१) यह राजा विक्रमादित्य कौमका ब्राह्मण और पहिले बादशाही तोपखानेका दारोगा था, जो खुर्रमका साथी होगया.

शाहजादा पर्वेज़ बंगालेसे शाही खिदमतमें हाज़िर हुआ. बादशाह जहांगीरने उसको शाही फौजका अफसर बनाकर शाहजादे खुर्रमके पीछे रवाना किया, और पर्वेज़का मददगार महाबतखां हुआ. शाही फौज जब मालवेमें पहुंची तो शाहजादे शाहजहांने भी अपनी फौज उसके मुकाबलेको रवाना की, लेकिन रुस्तमखां (जिसको शाहजादे शाहजहांने अदना दरजेसे पंजहजारी मन्सब देकर गुजरातका सूबेदार बनाया था) भागकर महाबतखां व पर्वेज़की फौजसे मए अपने साथियोंके जामिला, जिससे शाहजहांकी फौजका इन्तिजाम बिल्कुल बिगड़ गया, और कुल अपने साथी सर्दारोंसे शाहजादेका एतिबार उठगया, तो जो अपनी फौज थी उसको बुलाकर किले मांडूसे नर्मदाके पार होकर बैरमबेग बख्शीको थोड़ी फौजके साथ नर्मदा किनारे छोड़कर आप किले आसेरगढ़ व बुर्हानपुरकी तरफ चलागया, किसी क़दर नर्मदा पर जो किश्तियां थीं वे बैरमबेगने अपने कब्जेमें करलीं, इस वक्त मुहम्मद तकी बख्शीने एक चिट्ठी पकड़कर शाहजादे खुर्रमको नज़की, जो खानखानां अब्दुरहीमकी तरफसे महाबतखांके नाम लिखीगई थी, उसमें यह शिअर दर्ज था.

शिअर.

सद् कस्ब नज़र निगाह मेदारन्दम् ,

वरना बिपरीदमे जि वे आगामी .

अर्थ—मुझको सैकड़ों आदमी निगाह रखते हैं, नहीं तो वे करारीसे निकल भागता.

जब यह चिट्ठी खानखानांको मए उसके लड़केके तलब करके शाहजादे ने दिखलाई तो उससे कुछ जवाब न दियागया, इस लिये कैद कियागया.

शाहजहां किले आसेरमें बहुतसा खटला मए लौंडी बांदियोंके छोड़कर गोपालदास राजपूतको वहांका हाकिम बनाने बाद आप बुर्हानपुरकी तरफ चलागया.

पीछेसे शाहजादा पर्वेज़ मए महाबतखांके शाही फौजको लेकर नर्मदा नदी पर आया, लेकिन बैरमबेग शाहजादे खुर्रमका मुलाज़िम पेशतरसे ही किश्तियोंको अपने कब्जेमें करलेनेसे दक्षिणी किनारेको तोपखाने व अपने बहादुर सिपाहियों से मज़बूत करके लड़ाईको तय्यार था. महाबतखांने नदी उतरना मुश्किल जानकर खानखानां अब्दुरहीमको पोशीदा लिखावटसे अपनी तरफ मिलाया. उस बूढ़ेने भी महाबतखांके दावमें आकर शाहजादेको फ़रेबसे कहा, कि अब सुलह

इस्तियार करना बिहतर है, मैं आपका खैरखाह हूं, अगला कुसूर मुआफ़ कर

दीजिये अब हर्गिज खिदमत गुजारीमें फर्क न आवेगा. शाहजादा खुर्रम उसके कहनेको सच मानगया और कुरआनकी सौगन्द दिलाने पर उसको महाबतखांकी तरफ रवाना किया, और उसके बेटोंको अपने कब्जेमें रक्खा, उसको चलते वक्त लाचारीसे यह भी कहा, कि हर तरह इज्जत हाथसे न देना चाहिये. खान्-खानां दक्षिणी किनारेसे हुक्मके मुवाफिक सुलहके लिये तहरीरी शर्तें कर रहा था, जिससे जंगी लोग मए बैरमबेगके सुस्त होगये; रातके वक्त शाही फौजके मुलाजिम नदी उतर आये और खान्खानां उनसे मिलगया. बैरमबेगने भागकर शाहजादेको इस हालकी खबर दी, शाही फौजने बुर्हानपुर तक पीछा किया, और शाहजादा खुर्रम गोलकुंडा वगैरह गैर अमल्दारीमें होताहुआ उड़ीसेकी तरफ पहुंचा, वहांके हाकिमोंने सामना न किया, जो कुछ माल अस्वाब हाथ आया लेताहुआ बर्दवानको गया; वहांका हाकिम मुहम्मद सालिह कुछ मुकाबलेसे पेश आया, लेकिन भागकर इब्राहिमखां सूबेदार बंगालाको खबर दी.

खुर्रमने उसको मिलाना चाहा लेकिन वह नमक हलाल नूरजहां बेगमका मौसा वादशाही खैरखाहीपर निगाह रखकर शाहजादेसे न मिला, और ढाकेसे चलकर राजमहलके पास मुकाबला करनेको तय्यार हुआ. शाहजादेने भी राजा भीम महाराणा अमरसिंहके बेटे, अब्दुल्लाखां फीरोजजंग, ख्वाजा साबिर, खान्दौरां, दर्याखां, बहादुरखां सहेला, अलीखां व शेरबहादुर वगैराको तय्यार करके उसकी तरफ मुकाबलेके लिये भेजा. इब्राहिमखांने भी मए पांच हजार सवार व जंगी हाथियोंके मुकाबला किया, दोनों तरफके बहुतसे बहादुर आदमी मारेगये, और अब्दुल्लाखांके किसी सर्दारने इब्राहिमखांका सिर काटकर अपने मालिकके पास पेश किया. शाहजादेने ढाकेपर कब्जा करलिया, वहांसे चालीस लाख ४०००००० (१) रुपया नकद व पांच सौ हाथी हासिल हुए; शाहजादा खुर्रम खान्-खानांके बेटे दाराबखांको बंगालेका नाजिम मुकर्रर करके उसके बेटे शाहनवाज व एक बेटी और उसकी औरतको साथ लेकर जौनपुर व इलाहाबादकी तरफ रवाना हुआ. बंगालेके बहुतसे सर्दार शाहजादे खुर्रमसे आमिले, और सय्यद मुबारकने हाजिर होकर किला रुहतास (रोहिताश्व) शाहजादेके सुपुर्द किया; उसी किलेमें विक्रमी १६८१ कार्तिक कृष्ण ११ [हि० १०३३ ता० २५

(१) इनमेंसे तीन लाख रुपये अब्दुल्लाखां फीरोज जंगको, दो लाख रुपये राजा भीम सीसोदियेको, एक लाख रुपये दाराबखां, एक लाख दर्याखां, पचास पचास हजार रुपये वजीरखां, गुजाभूतखां, मुहम्मद तकी और बैरमबेगमें से हरएकको दिये.

जिलहज = ई० १६२४ ता० ९ अक्टोबर] शनिवारको चार घड़ी रात गये शाहजहांके बेटे शाहजादे मुरादबख्श का जन्म हुआ. शाहजादा खुर्रम अपने जनानेको इसी किलेमें छोड़कर जौनपुर गया.

बादशाह जहांगीरने शाहजादे पर्वेजको मए शाही लश्कर व बड़े अमीरोंके बुर्हानपुरकी तरफसे इलाहाबाद जानेका हुक्म दिया, और पर्वेजको यह भी लिखा कि खानखानां अब्दुरहीम नजरबन्द रक्खाजावे, क्योंकि उसका बेटा दाराबखां, शाहजहांके पास है, पर्वेजने वैसाही किया, लेकिन खानखानां के एक गुलाम फहीम नामीने कैद होना पसन्द न करके अपने एक बेटे और चौदह आदमियों समेत लड़कर जान दी. अब्दुल्लाखाने इलाहाबादका किला जाघेरा, लेकिन पर्वेज और महाबतखांके पहुंचनेसे उसे छोड़कर पीछे लौटनापड़ा. शाहजादे खुर्रमने गंगा पर बन्दोबस्त कररक्खा था, कि शाही फौज न उतरसके, बादशाही लश्करने उतरना चाहा; वहां मुहम्मद जमान् शाही लश्करके अप्सरसे लड़कर खुर्रमका सर्दार बैरमबेग मारागया, और बादशाहकी सेना गंगा उतर गई.

जब शाहजादा खुर्रम टोंस नदीपर पहुंचकर अपने सर्दारों से सलाह करनेलगा तो अब्दुल्लाखाने दिल्लीकी तरफ होकर दक्षिणमें जानेकी सलाह दी, और कहा कि ४०००० बादशाही फौजसे अपनी सात हजार फौजका लड़ना कठिन है; लेकिन राजा भीमसिंह अमरसिंहोतने उसके बखिलाफ लड़नेके लिये जिद्द की. शाहजादेने भी यही सलाह पसन्द की और दोनों फौजोंका मुकाबला हुआ. मेवाड़की पोथियों में व शाइरोंने दो बातें फ़ार्सी तवारीखोंसे जियादा लिखी हैं, वे ये हैं—

राजा भीमने जौनपुर मक़ामपर अपने राजपूत सर्दारोंको जिरह बक्तर व घोड़े तकसीम किये, और केसरिया (१) कपड़ेपहनाये, उस वक्तर राजा भीमने मानसिंह शक्तावतके लिये, जो उनका पूरा मित्र था, एक घोड़ा और एक जिरह बक्तर बाकी रक्खा, तब सब लोगोंने कहा कि वह मेवाड़में बहुत दूर है इस लड़ाईमें इतनी दूरसे किसतरह आसक्ता है ! राजाने कहा कि वह मेरा पूरा मित्र है मेरी तकलीफों और ऐसे तीर्थोंके मौके पर लड़ाइयोंका हाल सुनकर जरूर आवेगा. जब यह लड़ाई टोंस नदीपर शुरू हुई, उस वक्तर मानसिंह गया, और अपनी जिरह बक्तर पहनकर बड़ी बहादुरीके साथ लड़ाईमें मारागया.

(१) राजपूतोंमें आम तरीका है, कि जब जीनेसे बिल्कुल ना उम्मेद होजाते हैं, और मरना इस्तिथार करलेते हैं, तब केसरिया कपड़े पहनते हैं. ऐसा लिबास करने बाद या तो मारे जावें, या फतह करें, वना दूसरे सबबोंसे जीते वापस नहीं फिरते.

दूसरी बात यह है, कि जयपुरके राजा जयसिंह कछवाहे और जोधपुरके राजा गजसिंह राठौड़ने, जो शाही फ़ौजमें पर्वजके साथ थे, राजा भीमसिंहसे कहलाया कि तुम कहाकरते थे कि क़िला चित्तौड़ हमारे सिरपर बन्धा है, अब उसको पैर से बांधकर किसतरह घसीटते फिरतेहो (२), जिसपर भीमसिंहने कहलाया कि मैं भागता नहीं हूँ, कोई तीर्थका मौका देखता हूँ, जहां लड़ाई होनेसे हज़ारहा आदमियोंको मोक्ष मिले. इसी बातपर शाहज़ादेसे कहा कि हम तो ज़रूर लड़ कर मारे जावेंगे, और आप उदयपुर महाराणा कर्णसिंहके पास पहाड़ोंमें जाकर ठहरें. इस पिछली बातकी तस्दीक़ कुछ कुछ तुजकजहांगीरीसे भी लड़ाईकी सलाह देनेसे होती है.

राजा भीमसिंह अपने बहादुर राजपूतोंके साथ बादशाही फ़ौज पर हमला करनेको तय्यार हुआ, उस वक्त राजाका साला शार्दूलसिंह प्रमार, जिसने पेशतरकी लड़ाइयोंमें कईजगह बड़ी बहादुरियें दिखलाई थीं, घबराया; तब राजाने कहा कि “तू इस तरह क्यों डरता है, यह वक्त राजपूतोंके वास्ते खुशीका है”. इस तरह पर समझाकर राजाने उसका हाथ पकड़ लिया और लड़ाईमें चलनेके लिये कहा, तब शार्दूलसिंह बोला कि पहिली लड़ाइयों में मुझको हाथी मेंडक और आदमी मच्छरके बराबर दिखाई देते थे, और अब पहाड़ व मशेरके मानिन्द नज़र आते हैं और तलवार व भालोंकी चमक, तोपोंकी धमकसे मेरा कलेजा फटा जाता है. भीमसिंहने उसका हाथ छोड़कर अपने हाथको गंगाजलसे धोया, शार्दूलसिंह भागकर घरको गया, और राजा भीमसिंहने अपने साथियों समेत घोड़ोंकी बाग़ शाही लश्कर पर उठाई. महाराजा आंबेर व महाराजा जोधपुर के लश्करोंको तितर बितर करता हुआ शाहज़ादे पर्वजके नज़्दीक पहुंचा, जोताजोत एक बड़े नामी हाथीको, जो लड़ाईमें अपना सानी न रखता था, राजा भीमने तलवारों और बछोंसे मारकर गिरादिया; करीब था कि शाहज़ादे पर्वजको भी अपनी तलवारोंसे बहादुरीका तमाशा दिखावे, लेकिन खुर्रमकी फ़ौजके दूसरे सर्दारों मेंसे किसीने मदद न की, इससे भीमसिंह सत्ताईस ज़ख्म भाले और तलवारोंके अपने बदनपर खाकर, शाहज़ादे पर्वजकी खास अर्दलीके लोगोंके हाथसे मारेगये. इस राजा भीमकी बहादुरीका हाल तुजक जहांगीरी, बादशाह नामा, मुन्तखबुल्लुबाब, शाहजहां नामा वगैरा बहुतसी किताबोंमें बखूबी लिखा है, जिनमेंसे मुन्तखबुल्लुबाब, के बयानका तर्जुमा नीचे लिखाजाता है—

(२) यह एक ताना था, कि अब ग़ैरत छोड़कर भागते फिरते हो.

“राजा भीम और शेरखाने बहादुरीके साथ शाहजादे पर्वेजकी फौजके मुकाबिल आकर तोपखानेपर ऐसी तेजी और जोशसे सस्त हम्ला किया, कि बयानमें नहीं आसक्ता, खास राजा भीम अपने हाथसे तलवार मारताहुआ वफादार हमराहियों समेत फौजकी सफ़्को चीरकर खास सुल्तान् पर्वेजके गिरोह तक पहुंच गया. इस मौकेपर जो कोई उसके सामने आया तलवार और भालेसे क़त्ल हुआ, उसके सुल्तान पर्वेज की फौजमें पहुंचने तक बहुतसे बहादुर आदमी और नामी सर्दार घोड़ोंसे गिरकर जानसे गये, और करीब था, कि चालीस हजार सवारकी बादशाही फौजका जमाव बिखरजावे, महाबतखाने फर्माया, कि उसके मुकाबिल मस्त हाथी कियाजावे. राजा भीम और शेरखाने दूसरे राजपूतोंके साथ उस काली बला याने हाथीको तलवार और बछियोंके ज़रूमसे सूंड काटकर ज़मीनपर गिरादिया, हर बार जब कि वह जोर शोरसे हम्ला करता, दोनों तरफ़से तारीफ़ सुनीजाती. आखिरमें खुद महाबतखां कई दिलेर हमराहियों समेत उसके मुकाबिल पहुंचा; राजा भीम बहुतसे सस्त ज़रूम उठाकर कई हमले करने बाद महाबतखांके सामने घोड़ेसे गिरा, जब एक आदमी उसका सिर काटनेके इरादेपर पास आया, तो फिर उसने गौरतके जोशसे खड़ेहोकर अपने दुश्मनका काम तमाम किया, और जबतक कि उसके दममें दम रहा, तलवार हाथसे न डाली, शेरखां भी कई राजपूतों समेत दिलेरीसे लड़कर मारागया”.

राजा भीमके मारेजानेसे शाहजादे खुर्रमकी फौजी ताक़त कम होगई, तो भी वह दिली मज़बूतीसे शाही फौजपर खुद हम्ला करना चाहता था, लेकिन अब्दुल्लाखाने मग़ कितने एक दूसरे अमीरोंके वावर व हुमायूँकी मिसाल देकर शाहजादेको रुहतास गढ़की तरफ़ बचेहुए सवारों समेत पीछे लौटाया. शाहजादा रुहताससे अपने बेटे व बेगमोंको लेकर दक्षिणकी तरफ़ रवाना हुआ, जिसकी ख़बर जहांगीरको मिली. बादशाहने शाहजादे पर्वेजको लिखा, कि सूबे बंगालेको महाबतखांके सुपुर्द करके तुम फौरन् दक्षिणकी तरफ़ जाओ और शाहजहांका पीछा करो. खानखाना अब्दुरहीमके बेटे दाराबखाने शाहजादे खुर्रमके साथ जानेमें चन्द उज़्र लिख भेजे, इसलिये अब्दुल्लाखाने दाराबखांके बेटेको शाहजहांके वगैर इत्तिला मारडाला, और दाराबखांको महाबतखाने क़त्ल किया. फिर शाहजादे शाहजहांने दक्षिणमें पहुंचकर सूबे बुर्हानपुर पर कब्जा किया.

विक्रमी १६८३ [हि० १०३५ = ई० १६२६] तक का हाल, जो शाहजादे शाहजहांपर गुज़रा, नहीं मिलता, कि वह सन् १०३४ हिज्जीके किस किस महीनेमें कहां कहां रहा था ? इससे पाया जाता है, कि शायद वह इन दिनोंमें

उदयपुर रहा, और महाराणा कर्णसिंहसे पगड़ी बदलकर भाईचारा किया, क्योंकि जहांगीरके खौफसे उसको ठहरनेकी जगह न मिलती थी और उन दिनों पर्वज वारिस तरुतका जिन्दा था और खुर्रमको जहांगीरके बाद तरुत लेनेकी आर्जू थी, इस लिये उसने ऐसे राजपूतोंके गिरोहके मालिक महाराजाको अपना मददगार बनाया, और वह बड़ा गुम्बज, जो पेशतरसे तय्यार होरहा था, महाराणा कर्णसिंहने उसके रहने के लिये बहुत जल्द पूरा करवाया, लेकिन यह इमारत शाहजादेकी सलाहसे शुरू और इस वक्त भी उसकी मरजीके मुवाफिक तय्यार हुई; यह कहाजासکتा है, कि इसी नमूनेके मुवाफिक उसने मुम्ताजगंजके रौजेका काम बनवाया; अलबत्ता यह इमारत बहुत छोटी है जिसमें पच्चीकारीके बेलबूटे भी मोटे और थोड़े हैं, लेकिन तर्जमें दोनों कुछ कुछ एकसे कहे जासक्ते हैं.

यहां आम आदमियोंकी जबानी इस तरह मशहूर है, कि शाहजादा पहिले देलवाड़ेकी हवेलीके गुम्बजोंमें ठहरायागया था, लेकिन सवारियों और नकारखानों वगैरा रियासती दस्तूरोंको उसने अपने सामने होना बे अदबी बयान किया, तब महाराणा कर्णसिंहने उसको जगमन्दिरोंके उसी गुम्बजमें मिहमान रक्खा. यह साबित होता है, कि कुछ अर्से बाद शाहजादा वापस दक्षिणको चलागया; मेरे कियामसे तो शाहजादेने, जब दुबारा दक्षिणको गया, याने वि० १६८१ [हिज्री १०३३ = ई० १६२४] के बाद, उदयपुरको अपना पोशीदा कियामगाह रक्खा होगा, और दक्षिण, गुजरात व सिन्ध वगैरा मुल्कोंमें यहांसे निकलकर जाना और उन्हीं मुल्कोंमें अपना रहना मशहूर किया होगा. इससे पीछे जब गुजरातमें रहा उस समय भी उदयपुरमें रहना खयाल किया जासक्ता है.

शाहजहांने वि० १६८३ [हिज्री १०३५ = ई० १६२६] में अपने दो शाहजादों दाराशिकोह व औरंगजेबको बादशाह जहांगीरके हुजूरमें भेजदिया. उन्हीं दिनोंमें बादशाह जहांगीर महाबतखांसे नाराज हुए, जो अपनी जान व इज्जतके खौफसे भागकर शाहजादे खुर्रमके पास चलागया. महाबतखां कुछ अर्से तक उदयपुर व देवलियाके पहाड़ोंमें रहा और उसने देवलियाके रावत जसवन्तसिंहको कीमती जवाहिरकी जड़ीहुई एक अंगूठी भी दी. इन्हीं तकलीफोंके वक्तकी मुहब्बतके सबबसे उसने हरिसिंहको शाहजहां बादशाहसे मन्सब दिलाकर देवलियाका ठिकाना उदयपुरकी मातहतीसे जुदा किया. इसी सालमें शाहजादे खुर्रमने सिन्धमें ठठेकी तरफ़ धावा किया और उसी मकामपर महाबतखां शाहजादेसे जा मिला; फिर वहांसे गुजरातकी तरफ़ गया. अब शाहजादेका हाल छोड़कर महाराणा कर्णसिंहका बाकी बयान लिखा जाता है.

इन्हीं दिनोंमें महाराणा कर्णसिंहने मेवाड़के मेरोंकी सरकशीसे उनपर ठाकुर जयसिंह डोडियाकी अप्सरीमें फौज भेजी; फौजने मेरोंकी सरकशी तो मिटा दी, लेकिन ठाकुर जयसिंह लड़ाईमें मारा गया. इसके बाद महाराणा कर्णसिंहने बादशाही अहदके खिलाफ़ क़िले चित्तौड़की मरम्मत करानी शुरू की.

इन महाराणाके वृत्तान्तमें लिखनेके लायक़ यही शाहज़ादे खुर्रमका यहां रहना था, जो मुफ़स्सल लिखा गया.

इन्हीं दिनोंमें बादशाह जहांगीरका देहान्त हुआ, यह सुनकर शाहजहां (खुर्रम) दक्षिणसे गुजरात होता हुआ आगरेकी तरफ़ तरुत नशीनीके लिये जाते समय गोगूंदेमें ठहरा. महाराणाने मुलाक़ात करके अपने भाई अर्जुनसिंहको शाहजहांके साथ करदिया, और आप उदयपुर चले आये, जहां बीमारीने आघेरा और उसी बीमारीसे उनका इन्तिकाल होगया. इनका गेहुवांरंग, मभोला क़द, बड़े नेत्र और बड़ी पेशानी थी और दयावान, बहादुर, हँसमुख और सच्चाई व सफ़ाई पसन्द करनेवाले थे, परन्तु मुअामले व मुक़द्दमोंमें हर एक रीतिसे काम निकाललेनेको भी रवा रखते थे.

यह पहिले बहुत तकलीफ़ पानेके कारण अपने राज्यके समयमें ऐसा ज़ियादा खर्च नहीं करते थे जैसा कि उनके बड़ोंने किया था. इन महाराणाका जन्म विक्रमी १६४० श्रावण शुक्ल १२ [हि० १९१ तारीख़ ११ रजब = ई० १५८३ ता० १ अगस्त] को और देहान्त विक्रमी १६८४ फाल्गुन [हि० १०३७ रजब = ई० १६२८ मार्च] को हुआ.

अब इनका हाल खत्म करके बादशाह जहांगीरकी वफ़ात इन्हीं दिनोंमें होनेसे उसका मुस्तसर हाल यहां लिखाजाता है.

अबुल् मुजफ्फ़र नूरुद्दीन मुहम्मद
जहांगीर बादशाह.

इस बादशाहका जन्म हिज्री ९७७ ता० १७ रबीउल अब्बल [वि० १६२६
आश्विन कृष्ण ३ = ई० १५६९ ता० ३० अगस्त] को फ़तहपुर सीकरीमें
शैख़ सलीम चिश्तीके घरपर आवेरके राजा भारमल्ल कछवाहेकी बेटीसे हुआ
था, और हिज्री १०१४ ता० १३ जमादियुस्सानी [वि० १६६२ कार्तिक
शुक्ल १४ = ई० १६०५ ता० २६ अक्टोबर] को तख्त नशीनी समझी जाती
है, क्योंकि इसी दिन बादशाह अकबरका देहान्त हुआ था.

जब बादशाह अकबरका देहान्त हुआ उस वक्त राजा मानसिंह कछवाहा और
खानेआजम मिर्जा अज़ीज़ कूकेने शाहज़ादे खुस्त्रौको तख्तपर बिठा दिया, जो
जहांगीरका बड़ा बेटा और राजा मानसिंह कछवाहेका भानजा था, जहांगीर भग-
डेके डरसे अपनी हवेलीमें चुपचाप बैठा रहा, सातवें रोज़ अर्थात् २० वीं जमादि-
युस्सानी [मार्गशीर्ष कृष्ण ६ = ता० २ नोवेंबर] को शाहज़ादा खुस्त्रौ तो
अपने दादेकी कब्रपर हलवा बांटने गया और शैख़ फ़रीद वख़्शीने जहांगीरको
क़िलेमें बुलाकर तख्तपर बिठा दिया— हक़दार होनेके सबब सब लोगोंने ताबे-
दारी कुबूल की. सलीमने तख्तपर बैठकर अपना खिताब अबुल्मुजफ़्फ़र नूरुद्दीन
जहांगीर रक्खा, और नीचे लिखेहुए १३ हुक्म जारी किये—

- (१)—एक सोनेकी जंजीर आगरे क़िलेके शाह बुर्जसे जमना किनारे एक छोटे
पत्थरके मूंडे तक लगादी थी, इस जंजीरमें एक घंटा लटकाया था, जो
जंजीर हिलानेसे बजता था—हरएक फ़र्यादी जिसने किसी हाकिमसे
जुल्म उठाया हो, इस ज़रीएसे इन्साफ़को पहुंच सका था.
- (२)—हर क़िस्मके मज़हबी और मुल्की महसूल, जो सूबेदार और जागीरदारोंने
जारी कर रखे थे, मौकूफ़ किये.
- (३)—हुक्म था, कि ऊजड़ रास्तोंमें, जहां लूट मारका डर हो, एक सराय और
कुआ व मस्जिद तय्यार कराई जावे—यह जगह खालिसेमें हो तो
सर्कारी अहलकार, और अगर जागीरमें हो तो वहांका ज़मींदार इसका
बन्दोबस्त करे, और किसी सौदागरका माल बग़ैर उसकी रज़ामन्दीके
न खोला जावे.

- (४)—मुल्कमें जो कोई ग़ैर मज़हबी आदमी या मुसल्मान मरजावे, तो उसका माल

असबाब उसके वारिसोंको दियाजावे, अगर कोई वारिस न मिले तो उसके खर्चसे पुल, तालाब और कुएँ रअध्यतके फ़ायदेको बनवाये जावें.

- (५) - शराब और दूसरी नशेदार चीज़ें कोई न बनावे और न बेचे; बादशाह कहता है कि- “अगरचि में इस ख़राबीमें पड़रहा हूं, लेकिन दूसरोंके लिये इसका नुक़सान पसन्द नहीं करता.”
- (६) - किसी आदमीके घरपर दरूल न कियाजावे.
- (७) - कोई आदमी किसी कुसूरवारके नाक, कान न काटे, बादशाही तरफ़से भी यह सज़ा किसीको न दी जावे.
- (८) - हुक़म दियागया, कि ख़ालिसेके अहल्लकार और कोई जागीरदार रअध्यत की ज़मीन न दबावें.
- (९) - ख़ालिसेका हाकिम या किसी परगनेका जागीर दार बग़ैर बादशाही हुक़म के आपसमें रिश्तेदारी न करे.
- (१०) - हर एक बड़े शहरमें शिफ़ाख़ाने तय्यार होकर दवाके वास्तेहकीम और वैद्य मुक़रर किये जावें, और इसका तमाम खर्च सरकारसे दिया जावे.
- (११) - अक़बरके तरीके पर हुक़म दिया, कि १८ वीं रबीउल्अव्वलको, जो बादशाहकी पैदाइशका दिन है, और हर अठवारेमें दो दिन और इतवार (रविवार) को; जिस दिन कि अक़बर पैदा हुआ था, तमाम मुल्कमें कोई जानवर न मारा जावे.
- (१२) - अक़बरके वक्तकी जागीरें और मन्सब बहाल रक्खे गये, और किसी क़दर तरकी दी गई.
- (१३) - जुलूसके दिन तमाम कैदी छोड़ दियेगये.

इस बादशाहने अपने नामका सिक्का जारी करके उसमें यह शिअर खुदवाया.

रूए ज़रा सास्त नूरानी बरंगे मिहरो माह,

शाहे नूरुद्दीं जहांगीर इब्ने अक़बर बादशाह.

अर्थ- रुपयेकी सूरतको चांद और सूर्यकी तरह पर, अक़बर बादशाहके बेटे नूरुद्दीन जहांगीर शाहने रौशन किया.

शरीफ़ख़ांको वज़ीर आजमका उहदा, अमीरुलउमराका खिताब व पांच हज़ारी जात और सवारका मन्सब दिया, और राजा मानसिंह कछवाहेको भी बंगालेकी सूबेदारी पर बहाल रक्खा.

यद्यपि राजाने खुस्त्रौको तस्तपर बिठाकर बड़ा भारी फ़साद करना चाहा था, परन्तु जहांगीर शाहने इस बातपर कुछ भी ख़याल न किया.

बादशाहने इस समय बड़ा भारी लश्कर एकट्ठा देखकर अकबर बादशाहकी मन्शाके मुवाफिक महाराणा मेवाड़को अपना ताबेदार बनानेके लिये शाहजादे पर्वेजको भेजा, जिसका पूरा हाल महाराणा अमरसिंहके जिक्रमें लिखा गया है- (देखो पृष्ठ २२२).

इसके बाद यह हुक्म हुआ, कि पुराने नौकरोंको उनके वतनमें जागीरें दी जायें, जो हमेशा बहाल रहें, ऐसी जागीरके फर्मानोंपर शंगर्फ (हिंगलू) की मुहर लगाई जाती, जिसकी डिविया सोने की थी.

इसी वर्षमें गयूरवेग काबुलीके बेटे जमानावेगको डेढ़ हज़ारी मन्सब और महाबतखांका खिताब दिया- राजा नरसिंहदेव बुंदेलेको तीन हज़ारी और राजा मानसिंह कछवाहेके बेटे भावसिंहको डेढ़ हज़ारी मन्सब दिया.

आंबेरके राजा भगवानदासके छोटे बेटे अक्षयराज के तीन बेटों अभयराम, जयराम, और श्यामराम ने बादशाहके बिना हुक्म आगरेसे चुपके निकलकर महाराणा अमरसिंहके पास चलाजाना चाहा, यह खबर सुनकर बादशाहने इन तीनोंको शरीफखां अमीरुलउमराकी निगरानीमें नज़र कैद करदिया.

जब इनके हथियार, खुलवाने चाहे तो ये लोग मरने मारनेपर तय्यार हुए, और तलवार व जम्धरसे लड़कर तीनों मारेगये, और बादशाही मुलाजिमोंमेंसे दिलावरखां कई अहदियों सहित इनके हाथसे क़त्ल हुआ. बादशाहने हिन्दुस्तान व काबुलका सायर (देश दान) बिल्कुल मुआफ़ करदिया.

इसी सन्में आठवीं ज़िल्हिज [वि० १६६३ चैत्र शुक्ल १० = ई० १६०६ ता० १८ मार्च] को शाहजादा खुस्त्रौ क़िलेसे भागकर पंजाबकी तरफ़ चला गया, उसके पीछे शैख़ फ़रीद बख़्शीको भेजकर दूसरे दिन आप भी सवार हुआ, पानीपतसे आगे अब्दुरहीम खुस्त्रौसे मिलकर उसका मुसाहिब बनगया, और शाहजादेने मलिक अनवर राय का खिताब दिया; पानीपतके मक़ामसे दिलावरखांने भागकर लाहौरका क़िला मज़बूत किया. दो दिनके बाद खुस्त्रौ भी लाहौर पहुंचा और उसने क़ब्ज़ा करना चाहा, लेकिन दिलावरखांने शहरमें नहीं घुसने दिया, और सईदखां भी कश्मीरसे दिलावरखांकी मददको आपहुंचा; पीछेसे बादशाहके आनेकी ख़बर मिली, यह सुनकर खुस्त्रौ लाहौर से बापके मुक़ाबलेको चला; बादशाही फ़ौजके आदमियोंसे सुल्तानपुरके पास मुक़ाबला करके उसको भागना पड़ा, चनाब नदीमें उतरनेके वक़्त वहांके बाशिन्दों और बादशाही

नौकरोंने शाहजादेको हिज्जी १०१४ ता० २९ जिल्हज्ज [वि० १६६३ वैशाख शु० १ = ई० १६०६ ता० ८ एप्रिल] को गिरिफ्तार करलिया.

हिज्जी १०१५ ता० ३ मुहर्रम [वि० वैशाख शु० ५ = ई० ता० १२ एप्रिल] को लाहौरमें खुस्त्रौको मए अब्दुरहीम (१) मुसाहिब व हुसैनबेगके हाजिर किया, बादशाहने खुस्त्रौको कैदमें रखकर अब्दुरहीमको गधेके और हुसैनबेगको गायके चमड़ेमें सिलाया और गधोंपर लटकवाकर शहरमें फिरवाया; हुसैनबेग तो उसी हालतमें मरगया, और अब्दुरहीम जीतारहा, बादशाहने उसका अब्दुरहीम खर नाम रक्खा. बाकी जो शाहजादेको गिरिफ्तार करनेवाले थे उनको जागीर और जमीन दी, और खुस्त्रौके साथी जो गिरिफ्तार हुए थे सड़कके दोनों तरफ सूलीपर चढ़ादिये गये. इन्हीं दिनोंमें खुस्त्रौका उपद्रव सुनकर ईरानके कज़लबाश लोगोंने कंधारपर हमला किया, लेकिन शाहबेगखांकी दिलेरीसे वे किला न लेसके; उसकी मददके लिये लाहौरसे मिर्जा गाज़ीको मए फौजके भेजा, इसके बाद अर्जुन नाम हिन्दू फकीरको पकड़वाकर कत्ल करवादिया, जो खुस्त्रौका करामाती मददगार बनगया था. यह आदमी नानकके पन्थ में (सिक्खांका गुरु) था.

शाहजादा पर्वेज़ जो मेवाड़की मुहिमसे आगरे आया था, लाहौरमें हाजिर हुआ, बादशाहने उसको छत्र छांगी और दस हज़ारी मन्सब दिया. जहांगीरकी मा, जो राजा भारमल्लकी बेटी थी, लाहौरमें आई, बादशाहने पेशवाई वगैरह बहुत कुछ ताज़ीम की, इसके बाद राजा मानसिंह कछवाहेसे बंगाले और उड़ीसेकी सूबेदारी उतारकर कुतुबुद्दीन कूकेको दी.

अज़ीज़ कूकेका खत, जो खुस्त्रौका ससुर और उसका मददगार था, पकड़ा गया, जो उसने अकबर बादशाहके समयमें फारूकी राजे अलीखांको बादशाहकी बुराईमें लिखा था. जहांगीरशाहने उसके हाथमें देकर पढ़वाया, और शर्मिन्दा न होनेपर बहुतसी लानत मलामत करके उसका मन्सब और जागीर ज़ब्त करली.

इन्हीं दिनोंमें बीकानेरके राजा रायसिंह और उनके बेटे दलपत पर नाराज़ होकर जाहिदखां और अबुल्फज़लके बेटे अब्दुरहमान व राणा सगर उदयसिंहोत व मुइज़ुलमुल्क वगैरह को भेजा, नागोरके पास मुकाबला होनेपर रायसिंह भागगया.

बादशाहने काबुलकी तरफ कूच किया, और शहर गुजरातमें मक़ाम हुआ, जिसको बादशाह अकबरने गूजरांके बसाये जानेसे गुजरात नाम दिया था.

वहांसे कश्मीरकी सैर करताहुआ हिज्री १०१६ ता० १ मुहर्म्म [वि० १६६४ वैशाख शुक्ल ३ = ई० १६०७ ता० २९ एप्रिल] को किले रुहतासमें पहुंचा, और वहांसे रावलपिंडी, अटक, पेशावर, होता हुआ हिज्री तारीख १४ सफर [वि० ज्येष्ठ शुक्ल १५ = ई० ता० १० जून] को काबुलमें दाखिल हुआ; इसी सफरमें विजारतका उहदा अमीरुल् उमरा शरीफखांसे बुढ़ापेके सबब लेकर आसिफखां को दिया.

हिज्री तारीख १२ रबीउलअव्वल [वि० आषाढ़ शुक्ल १३ = ई० ता० ७ जुलाई] में शाहजादे खुस्त्रौको कैदसे छोड़ा, इन्हीं दिनोंमें राजा मानसिंह के पोते महासिंह और रामदास कछवाहेको बंगशके फसादियों पर फौज देकर विदा किया और इसी महीनेमें राणा सगरको ढाई हजारी जात और सवारका मन्सब दिया.

फिर शेर अफगन और कुतुबुद्दीन कूकाके मारेजानेकी खबर बंगालेसे पहुंची, जिसका हाल पृष्ठ २७४ में लिखागया है. नूर जहां इसी शेर अफगनकी बीबी थी—(पृष्ठ २७३).

हिज्री तारीख ४ जमादियुलअव्वल [वि० भाद्रपद शु० ६ = ई० ता० २८ अगस्त] में बादशाह जहांगीर काबुलसे हिन्दुस्तानकी तरफरवाना हुए. इन्हीं दिनोंमें मिर्जा शाहरुखमालवेके सूबेदारके मरनेकी खबर आई.

रास्तेमें फिर शाहजादे खुस्त्रौने जहांगीरको मारडालनेका इरादा किया, यह बात खुस्त्रौके मिलावटी लोगोंमेंसे एकने खुर्रमके दीवान स्वाजह वैसी से कही, जिस ने खुर्रमके कान तक पहुंचाई और उसने बादशाहको इत्तिला दी. बादशाह जहांगीरने उसी समय हकीम फतहुल्लाको कैद किया, जो फसादी लोगोंमें मुख्य था, और नूरुद्दीन व एतिमादुद्दौलाके बेटे शरीफ वगैरहको कत्ल करवा दिया.

इसी सफरमें यह खबर मिली कि मिर्जा शाहरुखका बेटा बदीउज्जमां महाराणा अमरसिंहसे मिलकर कुछ फसाद उठाना चाहता था, लेकिन् अब्दुल्लाखाने गिरिफ्तार कर लिया. पंजाबमें अमीरुल् उमरा शरीफखांकी मारिफत बीकानेरका राजा रायसिंह राठौड़ बादशाहके पास हाजिर होगया, जहांगीरने उसका कुसूर मुआफ करके मन्सब व जागीर पहिलेके मुवाफिक बहाल रखी.

इसी हिज्री सालके शअवान [वि० मार्गशीर्ष = ई० डिसेम्बर] में रामपुरेके राव दुर्गभान चन्द्रावतके मरनेकी खबर मालूम हुई, और हिज्री ता० ८ जीकाद [वि० फाल्गुन शु० १० = ई० १६०८ ता० २५ फेब्रुअरी] को बादशाह दिल्ली पहुंचे. हिज्री जिल्हिज [वि० १६६५ चैत्र शुक्ल = ई० १६०८ मार्च] में बूंदीके राव रत्न हाड़ाको सरवलन्द रायका खिताब दिया. इन्हीं दिनोंमें जोधपुरका महाराजा सूरसिंह राठौड़ हाजिर हुआ, और महाराज जगमालके

बेटे और महाराणा उदयसिंहके पोते श्यामसिंहको साथ लाया. बादशाह लिखता है, कि श्यामसिंह हाथीपर अच्छा सवार होता है.

हिज्री १०१७ ता० ४ रबीउलअव्वल [वि० १६६५ आषाढ़ शुक्र ६ = ई० १६०८ ता० २० जून] को आंबेरके राजा मानसिंहकी पोती और जगतसिंहकी बेटिकी शादी बादशाहके साथ हुई (१). इन्हीं दिनोंमें महाबतखांको फौजके साथ मेवाड़में भेजा, जिसका जिक्र महाराणा अमरसिंहके हालमें लिखा गया है.

इसी संवत् और सन्में बीकानेरका राजा रायसिंह मर गया, और उसके बेटे दलपतको बीकानेरका राजा बनाया, इसी वर्ष बादशाहने हुकम जारी किया, कि कोई मेरे मुल्कमें बच्चे या आदमीको जान बूझकर खोजा (हिजड़ा) बनावेगा तो उसे जन्म कैद या क़त्लकी सज़ा दी जावेगी, और कोई गुलाम बेचने और खरीदने न पावे.

इसी वर्षमें अक्बरका मक्बरा सिकन्दरेमें तय्यार हुआ, जिसपर १५ लाख रुपये खर्च पड़े. इन्हीं दिनोंमें खानखानांको दक्षिणकी मुहिम पर भेजा और उसके साथ जोधपुरके राजा सूरजसिंह (सूरसिंह) को तीन हज़ारी जात और दो हज़ार सवार का मन्सब दिया.

इसके बाद हिज्री ता० ४ जिल्हिज [वि० १६६५ के फाल्गुन शु० ६ = ई० १६०९ ता० १२ मार्च] को शाहजादे खुस्तौके खाने आजमकी बेटिसे एक लड़का पैदा हुआ, जिसका नाम बलन्द अरुतर रखा गया.

हिज्री १०१८ मुहर्रम [वि० १६६६ चैत्र शुक्र = ई० १६०९ एप्रिल] में महाबतखांको मेवाड़की लड़ाईसे बुलाया और उसके एवज अब्दुल्लाखांको फ़ीरोज़ जंगका खिताब देकर भेज दिया, जिसका हाल महाराणा अमरसिंहके बयानमें लिखा गया है.

राजा मानसिंह कछवाहेको दक्षिणमें भेजा और जगन्नाथके बेटे रामचन्दको भी दो हज़ारी जात व सवारका मन्सब देकर पर्वज के साथ दक्षिणकी तरफ़ रवाना किया.

(१) मआसिरुल् उमरा वाला, बूंदीके राव भोज हाड़ाके बयानमें इस शादीकी बाबत लिखता है—कि बादशाह जहांगीरने इरादा किया, कि राजा मानसिंहके बड़े बेटे जगतसिंहकी बेटि बादशाही महलमें बाख़िल की जावे, राव भोज जो इस लड़कीका नाना था इस बातसे राजी न हुआ, इस सबबसे बादशाहने चाहा था कि रावको पूरी सज़ा दी जावे, लेकिन वह बादशाहके काबुलसे वापस आनेके पहिले हिज्री १०१६ [वि० १६६४ = ई० १६०७] में मर गया.

हिज्री ता० २८ मुहर्रम [वि० ज्येष्ठ क० १४ = ई० ता० १५ मई] को भारमल्लके बेटे जगन्नाथ कछवाहेको पांच हज़ारी ज़ात और सवारका मन्सब दिया गया. इन्हीं दिनोंमें भांग वगैरह नशीली चीज़ोंके न बेचनेकी सख्त ताकीद हुई, और जुआ खेलना बिल्कुल बन्द कराया. हिज्री ता० २५ रमज़ान [वि० पौष क० ११ = ई० १६०९ ता० ३ जैन्युएरी] को रामचंद्र बुंदेलेकी लड़कीके साथ बादशाह की शादी हुई. इसी वर्षकी ता० १४ ज़िलहिज़् [वि० फाल्गुन् शुक्ल १५ = ई० ता० २० मार्च] को अब्दुरहीमका कुमूर मुआफ़ करके शिकार खानेका दारोगा बनाया.

हिज्री १०१८ ता० ४ सफ़र [वि० १६६६ बैशाख शु० ६ = ई० १६०९ ता० १० मई] को जाली खुस्रौ पकड़ा गया; यह कोई बदमआश था, जो कहता था, कि मैं शाहज़ादा खुस्रौ हूँ, और कैदसे भाग आया हूँ; बहुतसे बदमआशोंने उसके साथ होकर पटनेका क़िला दबा लिया, और पुनपुना नदीपर अफज़लखांसे मुकाबला किया— फिर लड़ाईसे भागकर पटनेमें जा घुसा, अफज़लखांने पकड़कर मरवा डाला.

इसी सालके रमज़ान [वि० मार्गशीर्ष = ई० डिसेम्बर] में आगरेके जंगलोंमें बादशाह शिकारको गया था, शेरने बादशाहपर हमला किया, उस समय राजा अनूपसिंह बड़गूजर शेरसे लिपट गया, शेरने उसका हाथ चाबा और उसने खंजर और तलवारसे शेरको घायल किया, बादशाह भी इस धक्कम् धक्केमें ज़मीनपर गिर पड़ा, दूसरे लोगों ने शेरपर वार किये और अनूपसिंहको छुड़ा लिया, पीछेसे उसने फिर तलवार मारी, शेर पीछे उसपर चला, तब उसने तलवारसे उसका सिर ज़ख्मी किया, और शेर मर गया; बादशाहने अनूपसिंहको बहादुरीके एवज़ सिंहदलन अनीरायका खिताब दिया.

हिज्री १०२० ता० २४ मुहर्रम [वि० १६६८ वैशाख कृष्ण १० = ई० १६११ ता० ९ एप्रिल] को ईरानके शाह अब्बासका एल्ची आया, जिसको खिलअत और ३०००० तीसहज़ार रुपया खर्चके लिये दिया. इसी वर्ष बादशाहने नूर जहांके साथ निकाह किया, और काबुलमें पठानोंने फ़साद उठाया, जिसको बादशाही सर्दारोंने दूर किया.

गयासबेग एतिमादुद्दौलाको विज़ारत दी गई, और अब्दुल्लाखां फ़ीरोज़-जंगको मेवाड़से गुजरातकी सूबेदारीपर भेजा, उसकी जगह राजा बासू मुकर्रर हुआ. इसी वर्षमें रामदास कछवाहेको राजाका खिताब और क़िला रणथम्भोर देकर दक्षिणकी लड़ाईपर भेजा. इन्हीं दिनोंमें मिर्जा शाहख़के बेटे बदीउज़्ज़मांको

मेवाड़ पर भेजा. फिर इसी वर्षके ज़िकाद [वि० पौष = ई० १६१२ के जैन्युएरी] में नीचे लिखे हुए हुक्म जारी किये—

(१)—कोई भरोखेमें न बैठे. (२)—अपने मददगार अमीर लोगोंसे पहरा चौकी न ले. (३)—हाथी न लड़ावे. (४)—किसी कुसूरपर अन्धा न करें, और नाक, कान न काटें. (५)—जबर्दस्ती किसीको मुसल्मान न बनावें. (६)—अपने नौकरोंको कोई खिताब न दें. (७)—बादशाही नौकरोंसे ताज़ीम न लें. (८)—दरबारके काइदेपर गवय्ये लोगोंसे कोई बारी बांधकर न गवावें. (९)—सवारीके वक्त नक्कारा न बजावें. (१०)—हाथी घोड़ा जब अपने नौकरों या बादशाही आदमियोंको दें, तो उनके कन्धेपर अंकुश रखाकर सलाम न करावें. (११)—अपनी सवारीमें बादशाही नौकरोंको पैदल न चलावें. (१२)—अगर बादशाही आदमियोंको कुछ लिखें तो मुहर कागज़की पेशानी पर न लगावें. ये काइदे तमाम मुल्कमें जारी किये गये.

इसके सिवाय ख़फ़ीख़ां मुन्तख़बुल्लुबाबमें इतना और ज़ियादा लिखता है—कि घोड़ोंके वास्ते कोई सुर्ख कपड़ेकी झूल न बनावे, और उसपर बेल वूटे भी न खेंचे. इन्हीं दिनों बंगालेमें उस्मानख़ां पठानने उपद्रव उठाया, जिसको इस्लामख़ां और सुब्हानख़ां वगैरह बादशाही सर्दारोंने फ़तहमन्दीके साथ मिटा दिया.

हिज़्री १०२१ [वि० १६६९ = ई० १६१२] में अब्दुल्लाख़ां फ़ारोज़-जंगने मए राजा रामदास कछवाहे के दक्षिणी फ़ौजपर हमला किया, लेकिन शिकस्त खाकर भागना पड़ा. इस वर्षमें महाराजा रायसिंह बीकानेरवालेका देहान्त हुआ, जहांगीर शाह अपने तुज़कमें लिखते हैं, कि—

“दलीप (राव दलपत) दक्षिणसे हाज़िर हुआ, उसका बाप राव रायसिंह गुज़र गया था, इस लिये मैंने उसको खिलअत पहिनाकर रावका खिताब दिया. रायसिंह अपने दूसरे बेटे सूरजसिंहको राज देना चाहता था, क्योंकि उसकी मा से वह ज़ियादा मुहब्बत रखता था. जिस वक्त रायसिंहके मरनेका जिक्र होरहा था, सूरजसिंह कम अक्ली और कम उम्रसे अर्ज करने लगा, कि बापने मुझको टीका दिया है, तब मैंने कहा, कि हम दलीपको इज़तके साथ टीका देते हैं. मैंने अपने हाथसे उसके टीका लगाकर वतनकी जागीर इनायत की.”

इसी वर्षके ज़िकाद [वि० पौष = ई० १६१३ जैन्युएरी] में बादशाहकी सौतेली मा सलीमा सुल्तान जो उसे मासेभी ज़ियादा प्यारी थी, मरगई, इसका बड़ा रंज हुआ. इन्हीं दिनोंमें ख़ाने आजमको मेवाड़पर जानेकी इजाज़त मिली.

हिज्री १०२२ ता० २ शअबान [वि० १६७० आश्विन शु० ४ = ई० १६१३ ता० १८ सेप्टेम्बर] को बादशाहने अजमेर आकर स्वाजह मुईनुद्दीन चिश्तीकी जियारत और उदयपुरपर चढ़ाई की, जिसका जिक्र महाराणा अमरसिंह के हालमें लिखागया (देखो पृष्ठ २२९).

हिज्री ता० ५ शव्वाल [वि० मार्गशीर्ष शु० ७ = ई० तारीख २० नोवेम्बर] को बादशाह अजमेर में दाखिल हुआ, इसके दो दिन बाद शिकार के लिये पुश्कर गया, और वहां जो रावत् (राणा) सगरका बनवाया हुआ श्री बाराह भगवानका मन्दिर था उसकी मूर्तिको नापसन्द होनेके कारण तालाब में डलवा दिया. फिर आप तो अजमेरमें रहा, और शाहजादे खुर्रमको महाराणा अमरसिंह पर बड़ी फौजके साथ भेजा—

हिज्री १०२३ [वि० १६७१ = ई० १६१४] में बीकानेरके राव दलपतने उपद्रव किया, इससे उसके छोटे भाई सूरसिंहको बीकानेरका राव बनाया, और दलपत गिरिफ्तार होकर मारा गया, जिसका बयान बीकानेरके हालमें लिखाजायगा; शाहजादे खुर्रमको सलाम करजानेका हुक्म मिलगया, लेकिन थोड़े ही दिनोंके बाद उसका आना फिर बन्द हुआ. इसी वर्षमें राजा मानसिंह कछवाहे का दक्षिणमें देहान्त हुआ. बादशाह जहांगीर लिखता है, कि—

“मैंने अक्सर बादशाही नौकरोको दक्षिणकी मुहिमपर भेजा था, इनमेंसे राजा मानसिंह भी था; वह उस तरफ मरगया, तो मैंने उसके होशियार बेटे भावसिंहको हुजूरमें बुलाया, वह शाहजादगीके दिनोंसे मेरी खिदमत बहुत करता था. आंबेरकी रियासत हिन्दुओंके काइदोंके मुवाफिक महासिंहको पहुंचती थी, जो जगतसिंहका बेटा और मानसिंहका पोता है. मैंने इसको पसन्द न किया, भावसिंहको मिर्जा राजाका खिताब, चार हजारी मन्सब और आंबेरकी जागीर इनायत की. महासिंहके खुश रखनेको उसके मन्सबमें तरकी करके गढ़का इलाका इनआममें दिया”.

इसी वर्षमें आनासागरकी पालको दुरुस्त करवाकर उसपर सफेद पत्थरके बहुत उम्दा मकान बाग समेत बनवाये. इसी वर्षमें शाहजादे खुर्रमकी मारिफत महाराणा उदयपुरसे सुलह हुई. हिज्री १०२४ [वि० १६७२ = ई० १६१५] में शाहजादे खुर्रमके हमीदाबानू (मुम्ताजमहल) से दाराशिकोह पैदा हुआ. इसके बाद जोधपुरके राजा सूरजसिंहको पांच हजारी जात और सवारका मन्सब दिया. मोटे राजा उदयसिंहके बेटे सूरसिंहका मुसाहिव गोइन्ददास भाटी और मोटे राजाका दूसरा बेटा किशनसिंह अजमेरमें लड़मरे, जिसका पूरा हाल कृष्णगढ़ की तवारीखमें लिखाजायगा. आंबेरके राजा मानसिंह कछवाहेके बड़े बेटे जगत-

सिंहके बेटे महासिंहको राजाका खिताब दिया. राजा रायसिंह कछवाहा दक्षिणमें मरगया, और उसके बेटे रामदासको एक हज़ारी जात और सवारका मन्सब दिया. हिज्री १०२५ [वि० १६७३ = ई० १६१६] में दक्षिणियोंसे शाही फौजकी लड़ाई हुई. बिहार और पटनेकी तरफको खेड़ाके रईस दुर्जनसालको, जिसके इलाकेमें हीरेकी खान थी, गिरिफ्तार करलिया, और उसके इलाकेपर बादशाही कब्ज़ा हुआ; इस लड़ाईमें इब्राहीमखांको फतहजंगका खिताब मिला.

इसी वर्षमें हमीदाबानू (मुमताजमहल) से शाहज़ादा शुजाअ़ पैदा हुआ, और नूरमहलको नूरजहांका खिताब और उसके बाप एतिमादुदौलाको सात हज़ारी जात और पांच हज़ार सवारका मन्सब दिया. अब्दुल्लाखां फ़िरोज़ जंग गुजरातके सूबेदारने वाकिअनवीसको अपनी बुरी ख़बरें लिखनेके सबब धमकाया; यह ख़बर सुनकर बादशाहने हुक़्म दिया, कि दियानतखां जाकर उसे अहमदाबादसे पैदल निकाले और रास्तेमें घोड़ेपर लावे और सूबेदारी उतारली जावे. बेचारे अब्दुल्लाखांने अहमदाबादके एवज़ आधेसे ज़ियादा रास्ता पैदल तै किया, दियानतखांने मुश्किलसे सवार कराया; कुछ अर्से तक ड्योढ़ी मुआफ़ रही, फिर शाहज़ादे खुर्रमकी सिफ़ारिशसे सलाम हुआ. राव मनोहर कछवाहा शैखावत दक्षिणमें मरगया, जो वहां बादशाही नौकरीपर गया हुआ था. इन्हीं दिनोंमें महाराणा अमरासिंहके बेटे कुंवर कर्णसिंहको रुख़्सतके समय खिलअ़त, घोड़ा, हाथी और शस्त्र देकर विदा किया; लाहौरके सूबेदार मुर्तज़ाखांके मरनेकी ख़बर मिली. इस के बाद एक तरहकी ऐसी मरी फैली कि जिससे हज़ारहा आदमी मरने लगे. बांधूगढ़का राजा विक्रमादित्य शाहज़ादे खुर्रमकी मारिफ़त हाज़िर हुआ, और गैर हाज़िरीका कुसूर मुआफ़ किया.

जैसलमेरके बारेमें बादशाह जहांगिर लिखता है—कि “कल्याण जैसलमेरी, जिसके बुलानेको राजा कृष्णदास गया था, हाज़िर हुआ, और उसने १०० अशफ़ी, एक हज़ार रुपया नज़ किया. उसका बड़ा भाई भीम जागीरदार था, जब वह गुज़र गया, तो उसने दो महीनेका बच्चा छोड़ा, वह भी ज़ियादा न जिया. शाहज़ादगीके दिनोंमें उसकी बेटिको मैंने व्याहा था, और मलिकए जहां खिताब दिया था. ये लोग मुद्दतसे हमारे खैर स्वाह रहे हैं, और इनसे रिश्तेदारी भी होगई थी, इसलिये मैंने रावल भीमके भाई कल्याणको बुलाकर राजका टीका और रावलका खिताब दिया.”

हिज्री जमादियुल्अव्वल [वि० ज्येष्ठ = ई० मई] में शाहज़ादे खुर्रमकी

एक बेटी मरगाई, जिसका बादशाहको बड़ा रंज हुआ. बादशाहने आपही दक्षिणमें जाना बिचारा और शाहजादे पर्वेजको दक्षिणसे इलाहाबाद जानेका हुक्म दिया, और शाहजादे खुर्रमको शाह खुर्रमका खिताब दिया. इसी सालकी ता० १ ज़िकाद [वि० १६७३ कार्तिक = ई० १६१६ नोवेंबर] को अजमेरसे बग्गी (१) में सवार होकर बादशाह दक्षिणको रवाना हुआ, देवराई ग्राममें पहिला मक़ाम किया, और वहांसे चलकर रामसरमें आठदिन तक ठहरा रहा; इस मक़ामसे महाराणा अमरसिंहके पोते जगतसिंह को घोड़ा और खिलअत देकर उदयपुरकी रुखसत दी, और उसके साथ केशवदास भालाको भी घोड़ा इनायत किया. राजा महासिंह कछवाहेका बेटा मक़ाम रणथम्भोर में हाज़िर हुआ, शामके वक्त बादशाहने वहांके कैदियों को छोड़दिया.

इन्हीं दिनों ता० २५ ज़िकाद [वि० मार्गशीर्ष क० ३० = ई० ता० ९ डिसेम्बर] को उदयपुरमें महाराणा अमरसिंहके बनवायेहुए बड़ीपौल दर्वाजे (जो राज-महलका सदर दर्वाजा है) की छतके नीचे पत्थरमें काज़ी मुल्ला जमालने कुछ अरबी आयत व एक शिअर वगैरह लिखा, और एक तरफ़ पंडित लोगोंने तीन पंक्ति नागरीमें लिखीं. ये अक्षर खुदवाकर उनके भीतर सुर्खी भरवादी गई थी— (देखो शेषसंग्रह नम्बर २).

हिज्री १०२६ [वि० १६७४ = ई० १६१७] में बादशाह उज्जैन पहुंचे, वहां जालौरके जागीरदार गज़नीखांके बेटे पहाड़खांको उसकी माके मारडालने के कुसूरपर कत्ल करवाया, और यहींपर जगरूप नामके एक सन्यासीके दर्शनको गया, जिसके फ़कीरी ढंग और वेदान्तकी बातोंसे बहुत खुश हुआ. चार महीने और दो दिनमें अजमेरसे चलकर क़िले मांडूपर पहुंचे, जहां क़िलेकी मरम्मत करवानेमें तीन लाख रुपये खर्च किये, इस क़िलेमेंसे नसीरुद्दीन खिल्जी की कब्रको खुदवाकर नर्मदामें फिकवा दिया, इस खयालसे कि उसने अपने बाप गयासुद्दीनको ज़हर देकर मारडाला था. शाहजादे खुर्रमने बुर्हानपुर पहुंचकर आदिलशाह बीजापुरीपर दबाव डाला, उसने बरारका इलाका छोड़कर सालयाना खिराज देना कुबूल किया. इन्हीं दिनोंमें बादशाहने तम्बाकूका पीना बन्द करदिया, जो उसी समयमें यूरोपियन लोग अमेरिकासे लाये थे. मिर्जा राजा भावसिंह कछवाहेको पांच हज़ारी ज़ात और सवारका मन्सब दिया, और सूबे गुजरातकी दीवानी केशवदाससे उतारकर मिर्जा हुसैनको दी. इन्हीं दिनोंमें राजा मानसिंह

(१) यह सवारी पहले पहल अंग्रेज़ी एल्ची सर टॉमस रो ने इसी मक़ामपर बादशाहको नज़ की थी, जिसको बादशाहने तुज़क जहांगीरीमें फ़रंगी रथ लिखा है.

कछवाहेका पोता महासिंह बरारके इलाकेमें ज़ियादा शराब पीनेके सबब ३२ वर्षकी उम्रमें मरगया. तुज़क जहांगीरीमें लिखा है, कि—“इसका बाप भी इसी बत्तीस वर्षकी उम्रमें ज़ियादा शराब पीनेके कारण मरा था”. इसी मौकेपर महाराणा अमरसिंहने बादशाहके लिये दो घोड़े, गुजराती थान और आचार, मुरब्बा भेजा, और बादशाहने आदिलखां बीजापुरीकी तरफ़का आया हुआ मस्त हाथी गजराज, महाराणाके लिये भेजा. बांसवाड़ेका रावल समरसी बादशाहके पास हाज़िर हुआ, जिसने तीस हजार रुपया और तीन हाथी वगैरा नज़ू किये; इसके बाद अहमदनगर फ़तह करनेकी ख़बर शाहज़ादे खुर्रमने बादशाहको भेजी, और इसी वर्षमें बादशाहने ख़ास लिबासके लिये भी हुक़म जारी किया, कि दूसरे लोग इस तरहके कपड़े न पहिनने पावें— लिबास नादिरा, तूसी, ज़रीका पटका वगैरह.

हिज़्री ता० २८ शअ्वान [वि० भाद्रपद क० १४ = ई० ता० ३० ऑगस्ट] को आंबेरके राजा मानसिंहके पड़पोते और महासिंहके बेटे जयसिंहको बादशाहने अपने पास बुलाकर एक हज़ारी ज़ात और पांच सौ सवारका मन्सब दिया, और आदिलशाह बीजापुरीके नाम शाहज़ादोंके मुवाफ़िक़ फ़र्मान लिखा गया. इन्हीं दिनोंमें शाहज़ादे खुर्रमके एक बेटी पैदा हुई, जिसका नाम रौशनआरा रखवा गया. चन्द्रकोटेके रईस हरिभानको दो हज़ारी ज़ात और डेढ़ हज़ार सवारका मन्सब दिया, और विक्रमादित्य भदौरियेका लड़का भोज दक्षिणसे बादशाहके पास हाज़िर हुआ.

हिज़्री ता० ११ शव्वाल [वि० आश्विन शुक्ल १३ = ई० ता० १३ ऑक्टोबर] को शाहज़ादा खुर्रम दक्षिणसे मांडूमें बादशाहके पास हाज़िर हुआ, और नीचे लिखे हुए शाहज़ादेके साथी सदाओंकी नज़ू हुई.

खाने जहां लोदी, अब्दुल्लाखां फ़ीरोज़जंग, महाबतखां, मिर्जा राजा भावसिंह कछवाहा, दाराबखां, सदांरखां, शुजाअतखां अरब, दियानतखां, मोतमदखां बख़्शी, उदाराम मरहठा, बीजापुरी आदिलखांके वकील वगैरह.

इस फ़तहके इनआममें बादशाहने शाहज़ादेको तीस हज़ारी ज़ात और बीस हज़ार सवारका मन्सब और तरुतके सामने कुर्सीकी बैठक व शाहजहांका खिताब दिया, और शाहज़ादेने भी बहुतसी चीज़ें नज़ूमें पेश कीं, जिनमेंसे बीस लाख रुपयेकी कीमती चीज़ें बादशाहने रखकर बाकी फेर दीं. बादशाह मांडूसे अहमदाबादकी तरफ़ खाना हुआ, और कई दिन पीछे परगने हलवदपर, जो केशवदासकी जागीरमें था, मक़ाम हुआ.

हिज़्री १०२७ [वि० १६७५ = ई० १६१८] में बादशाह खम्भात पहुंचे, जहां

किश्तियोंमें बैठकर दर्याकी सैर की—यह व्यापारका बड़ा बन्दर था. बादशाहने कुल सायर (दाण) का महसूल मुआफ़ करदिया. बादशाह अहमदाबादमें आया, और गुजरातका देश शाहजादे खुर्रमको जागीरमें देदिया. ईडरके राव कल्याणने हाजिर होकर एक हाथी और नौ घोड़े नज़ किये. बादशाहको अहमदाबादका शहर बिल्कुल ना पसन्द आया, और इसी जगह यह हुक्म जारी किया, कि जती लोगोंको बादशाही इलाकोंसे निकाल दियाजावे, जो कि जैनी महाजनोंके गुरू हैं.

शाहवाज़खां लोदी व विक्रमादित्य राजाको कांगड़ेका फ़साद मिटानेके लिये भेजदिया, जो नूरपुरके राजाने किया था, और वहांसे आगरेकी तरफ़ कूच किया, मही नदी पर राजा जाम जस्सा (जेहा) हाजिर हुआ, और उसने ५० घोड़े नज़ किये, कूचविहारका राजा लक्ष्मीनारायण भी इसी जगह आया. फिर सीसो-दिया रावत् सगर उदयसिंहोत सूबे बिहारमें मरगया. यह ख़बर सुनकर बादशाहने उसके बेटे रावत मानसिंहको दो हज़ारी ज़ात और छःसौ सवारका मन्सब दिया. भुजका राव भारा जाड़ेचा भी हाजिर हुआ, जो उस समय नव्वे वर्षकी उम्र का था. इसी सफ़रमें बादशाहने यह हुक्म जारी किया, कि कोई मुजिम बग़ैर तीन हुक्मके क़त्ल न कियाजाय.

हिज्री ता० १ शव्वाल [वि० आश्विन शु० ३ = ई० ता० २३ सेप्टेम्बर] को राजा भारा जाड़ेचाको जड़ाऊ तलवार, घोड़ा, और खिलअत देकर वतन की रुख़सत दी. ता० १५ जीकाद [वि० मार्गशीर्ष क० १ = ई० ता० ४ नोवेम्बर] को शाहजादे खुर्रमके बेगम मुम्ताज़महल से शाहजादा औरंगजेब पैदा हुआ. बादशाह उजैनकी तरफ़ आया, जहां महाराणा अमरसिंह के बेटे कुंवर कर्णसिंह गये.

हिज्री १०२८ [वि० १६७५ = ई० १६१८] में बादशाह रणथम्भोर होतेहुए अख़ीर मुहर्रम [वि० माघ कृष्ण पक्ष = ई० डिसेम्बर] को आगरे पहुंचे. यह मेवाड़, मालवा और गुजरातका सफ़र पांच वर्ष और चार महीनेमें तै हुआ. इन दिनोंमें कांगड़े और मऊका क़िला फ़तह हुआ, और राजा सूरजमल्ल वहांसे भागगया; उसके छोटेभाई जगतसिंहको वहांका राजा बनाया. राजा कृष्णसिंहके छोटे बेटे जगमाल और भारमल्लको पांच सौ ज़ात और सवादो सौ सवारका मन्सब दिया. शाहनवाज़खांके मरनेपर उसके भाई दाराबखांको पांच हज़ारी ज़ात व सवार का मन्सब दिया, और बूंदीके हाड़ा राव रत्नसिंहको सर बलन्द राय का खिताब मिला. शाहजादापर्वेज़ इलाहाबाद (प्रयाग) से हाजिर हुआ.

हिज्जी शव्वाल [वि० १६७६ भाद्रपद = ई० १६१९ सेप्टेम्बर] में जोधपुरके राजा सूरजसिंहके मरनेकी खबर मिली, जो दक्षिणकी फौजमें था, उसके बेटे गजसिंहको राजाका खिताब और तीन हज़ारी जात और दो हज़ार सवारका मन्सब दिया. फिर बादशाहने हुक्म दिया, कि आगरसे दिल्ली और अटक तक पंजाबमें और बंगाले तक पूर्वमें सड़कें बनाकर दोतरफ़ा पेड़, व कोस कोसपर मीनार और तीन तीन कोसपर कुआ बनाया जावे. शाहजादे खुस्त्रौको कैदसे छोड़कर सलाम करजानेकी इजाज़त दी. मिर्जा राजा भावसिंह कछवाहेको दक्षिणकी फौजमें भेजा, इसके बाद बादशाह दिल्लीकी तरफ़ होता हुआ कश्मीरको चला.

हिज्जी १०२९ ता० ११ मुहर्रम [वि० मार्गशीर्ष शुक्ल १३ = ई० ता० २० डिसेम्बर] को शाहजादे खुर्रमके हमीदाबानू (मुम्ताज़ महल) से एक लड़का पैदा हुआ, जिसका नाम उम्मेदबख़्श रक्खागया.

जब बादशाह कश्मीरको जाते हुए हसन अब्दालसे एक मंज़िल आगे ग्राम सुल्तानपुरमें पहुंचे, तो वहां महाराणा अमरसिंहके देहान्तकी खबर मिली, तब महाराणाके वलीअहद पोते जगतसिंह और छोटे बेटे भीमसिंहको, जो उस वक्त बादशाही लश्करमें मौजूद थे, मातमी खिलअत देकर जगतसिंहको उदयपुरकी रुख़सत दी, और राजा कृष्णदासको टीके (गद्दी नशीनी) का सामान देकर उदयपुर भेजा. बादशाह कश्मीरमें पहुंचे, जहां राव मनोहर शैखावतके बेटे पृथ्वीचन्दके कांगड़े की लड़ाईमें मारेजानेकी खबर सुनी.

कुछ दिनों पीछे दक्षिणियोंके फ़सादकी खबर मिली, दाराबख़ाने उनको शिकस्त देकर हबशी मन्सूर दक्षिणीको पकड़ लिया. इन्हीं दिनोंमें बादशाहने महाराणा अमरसिंहके छोटे बेटे भीमसिंहको राजाका खिताब दिया, और सीसोदिया रावत सगरके बेटे मानसिंहको डेढ़ हज़ारी जात और सवारका मन्सब इनायत किया.

हिज्जी ज़िल्हिज्ज [वि० १६७७ कार्तिक = १६२० नोवेम्बर] में बादशाह कश्मीरसे पंजाबकी तरफ़ खाना हुए.

हिज्जी १०३० [वि० १६७७ = ई० १६२१] में शाहजादे खुर्रमको साढ़े छः सौ मन्सबदार, एक हज़ार अहदी, एक हज़ार बर्कन्दाज़, एक हज़ार गोलंदाज़ और बहुतसा तोपखाना व हाथी देकर दक्षिणको खाना किया, जहां इकतीस हज़ार सवार पहिलेसे मौजूद थे. इन्हीं दिनोंमें उदयपुरसे महाराणा कर्णसिंहके कुंवर जगतसिंह बादशाहके पास गये, जिनको शाहजादे खुर्रमके साथ दक्षिणमें भेज दिया. बूंदीके हृदयनारायण हाड़ाको नौसौ जात और छः सौ सवारका मन्सब दिया.

हिज्री रबीउलअव्वल [वि० माघ = ई० १६२१ फेब्रुअरी] में बादशाह आगरे आये, ईरानके तीन एल्चियोंको रुख्सत दी. खाने आलम (१) के भतीजेको इस कुसूरमें कल्ल करवाया, कि उसने किसी आदमीको मरवाडाला था. हिज्री शव्वाल [वि० १६७८ भाद्रपद = ई० १६२१ ऑगस्ट] में एतिक़ादखां नूरजहांके भाईको चार हज़ारी ज़ात और ढाई हज़ार सवार, व राजा गजसिंह जोधपुर वालेको चार हज़ारी ज़ात और तीन हज़ार सवारका मन्सब दिया. अब्दुल्लाखां फ़ीरोज़जंग दक्षिणसे बग़ैर हुकम चला आया, जिससे उसकी जागीर छीनकर वहीं जानेका हुकम हुआ.

इन दिनों बादशाहको दमेकी बीमारी हुई, इससे शुरू हिज्री १०३१ [वि० १६७८ = ई० १६२१] में आगरेका सूबेदार मुज़फ़्फ़रखांको बनाकर काश्मीरकी तरफ़ खाना हुए. आंबेरका मिर्जा राजा भावसिंह, जो दक्षिणकी तरफ़ तईनात था, ज़ियादा शराब पीनेके कारण हिज्री १०३१ सफ़र [वि० पौष = ई० डिसेम्बर] में परलोक सिधारा, और उसके बड़े भाई जगतसिंहका पोता और महासिंह का बेटा जयसिंह आंबेरका राजा बनायागया. नूरजहांके बाप और मा दोनों मरगये, इसी अर्सेमें बादशाहको पंजाबमें शाहज़ादे खुर्रमकी अर्जीसे मालूम हुआ, कि खुस्त्रौ मरगया. राजा किशनदासको दिल्लीकी फ़ौजदारी दी, और फ़ौजदारी फ़ैसलेकी लगान सारे मुल्कसे मुआफ़ करदी. शाहज़ादे खुर्रमकी सुफ़ारिशसे अब्दुल्लाखां फ़ीरोज़ जंगको छः हज़ारी मन्सब और जोधपुरके राजा गजसिंह को नक़ारा इनायत हुआ.

बादशाह हिज्री १०३१ जमादियुल् अव्वल [वि० १६७९ चैत्र शुक्ल पक्ष = ई० १६२२ मार्च] में कश्मीर पहुंचे. इन दिनोंमें मालूम हुआ, कि ईरानके बादशाह अब्बासने कन्धारको घेरलिया, इसपर जहांगीर शाहने भी कश्मीरसे चलनेकी तय्यारी की. शाहज़ादे खुर्रमको भी दक्षिणसे बुलाया था, लेकिन उसकी अर्जी वर्षाके बाद हाज़िर होनेके उज़ूसे आई, जिसपर बादशाहने नाराज़ होकर मुसल्मान और राजपूत सदाँर व मन्सबदारोंको भेज देनेका हुकम दिया. इस समयसे शाहजहां पर बादशाहकी नाराज़गी बढ़ने लगी, क्योंकि नूरजहां उसकी दुश्मन होगई थी, जिसकी बेटी जो शेर अफ़ग़ानसे थी, शाहज़ादे शहरयारके साथ

(१) इसके बाप दादा तीमूरके समयसे इज्जतवार नौकर चलेआते थे, और इसको भी बादशाह जहांगीरने पांच हज़ारी मन्सब और खाने आलमका खिताब, व शाहजहांने छः हज़ारी मन्सब दिया. इसका अस्ली नाम मिर्जा बरखुर्दार था.

व्याही गई थी, और वह उसको वलीअहद बनाना चाहती थी. यह कुल हाल शाहजहां और जहांगीरकी ना इतिफ़ाकीका ऊपर लिखा गया है— (देखो पृष्ठ २७५). कन्धार, जो ईरानके बादशाहने लेलिया, और जिसपर जहांगीर शाह और शाह अब्बासके दर्मियान जो खत किताबत हुई, वह शाहजादेकी बगावतके हालमें लिखी गई है. बादशाहने शाहजादे शहरयार और मिर्जा रुस्तमको बहुतसी फौजके साथ कन्धार भेजा, लेकिन उन्हें मुल्तानमें ठहरनेका हुकम था. इन्हीं दिनोंमें बादशाहको स्वासकी बीमारीने बहुत सताया, इस कारण मोतमदखांको हुकम हुआ, कि तुजकजहांगीरी, जो बादशाह खुद लिखा करते थे, आगेको वह लिखा करे और दिखा दिया करे.

हिज्जी १०३२ [वि० १६८० = ई० १६२३] में बादशाह दिल्लीके पास पहुंचे, वहां आंबेरका राजा पहिला जयसिंह हाजिर हुआ.

राजा नरसिंहदेव बुंदेलेको महाराजाका खिताब दिया, फिर शाहजादे खुर्रमके मुक़ाबलेपर महाबतखांको फौज देकर भेजा, आगरेके पास लड़ाई हुई, जिसमें शाहजादेका मुसाहिव रायरायां सुन्दरदास मारागया. इसके बाद बूंदीका राव सरबलन्द राय रत्न हाजिर हुआ, और आंबेरके राजा जयसिंहको तीन हज़ारी जात और डेढ़ हज़ार सवारका मन्सब दिया. जब बादशाह हिंडौन स्थानपर पहुंचे, तो वहां बंगालेकी तरफसे शाहजादा पर्वेज हाजिर हुआ, जिसको चालीस हज़ारी जात और तीस हज़ार सवारका मन्सब दियागया. इन्हीं दिनोंमें मिर्जा शाहरुखका बेटा बदीउज़्जमां अपने भाइयोंके हाथसे मारागया, लेकिन मारनेका कुसूर उनपर साबित न हुआ.

जोधपुरके राजा गजसिंह व बीकानेरके राजा सूरसिंह भी हाजिर हुए, इनमेंसे पहिलेको पांच हज़ारी जात और चार हज़ार सवारका मन्सब दिया, और दोनों पर्वेजके साथ शाहजादे खुर्रमपर भेजे गये, बंगालेकी सूबेदारी आसिफ़िखांको दी. इसके बाद हिज्जी रजब [वि० वैशाख = ई० एप्रिल] में बादशाहकी मा आंबेरके राजा भारमल्लकी बेटाका देहान्त हुआ. इसके बाद शाहजादे खुर्रमको बादशाही लोगोंने गुजरातसे भी निकाल दिया, वह सूरतकी तरफ़ होता हुआ बंगालेमें पहुंचा.

हिज्जी १०३३ सफ़र [वि० १६८० मार्गशीर्ष = ई० १६२३ डिसेम्बर] में महाराणा कर्णसिंहके कुंवर जगतसिंहको बादशाहने उदयपुरकी रुखसत दी. राजा गिरधर कछवाहा, पर्वेज और महाबतखांकी फौजमें मारागया, जिसका हाल इस तरहपर है, कि सध्यद कबीरके आदमियोंमेंसे किसी शरूसने तलवार साफ़ करनेके लिये

सैकलगरको दी थी, जिसपर तक्रार हुई, वह सैकलगर राजा गिरधरके पड़ोसमें रहता था, मजदूरी देने लेनेकी बाबत भगड़ा बढ़ा, और राजपूत व सय्यदोंमें लड़ाई हुई, उसमें राजा गिरधर २६ आदमियों समेत सैकलगरकी हिमायत करनेके सबब मारा गया, और ४० राजपूत घायल हुए; सय्यदोंकी तरफके चार आदमी कत्ल और कई जख्मी हुए. इसपर राजपूत और सय्यदोंकी दो बड़ी फौजें लड़नेको तय्यार होगई, इस फसादको शाहजादे पर्वेज और महाबतखाने बड़ी मुश्किल से रोका, और सय्यद कबीरको महाबतखाने पकड़कर कत्ल किया, इससे राजपूतोंका जोश कम हुआ.

इसके बाद मेवातके मेव और जाटोंने लूटमार शुरू की, वहां खानेजहां लोदीको भेजा, उसने मारकूटकर फसादियोंको जेर किया. इन्हीं दिनोंमें राजा बासूके बेटे जगतसिंहने कांगड़ेकी तरफ फसाद किया, जहां सादिकखां भेजा गया, उसने राजाको किलेमें घेरलेनेके बाद बादशाहके पास हाजिर किया.

इसी वर्षमें बादशाहने आव हवा बदलनेके इरादेसे कश्मीरकी तरफ कूच किया, सरहिन्दके पास पहुंचकर बादशाहको खबर मिली, कि शाहजादा खुर्रम दक्षिण और उड़ीसे होता हुआ बंगालेमें पहुंचा; अकीदतखांकी अर्जीसे जाना गया, कि जोधपुरके राजा गजसिंहकी बहिनके साथ शाहजादे पर्वेजने हुक्मके मुवाफिक शादी की.

इसी वर्षमें खाने आजम मिर्जा अजीज कोकेके मरनेकी खबर मिली, और इसी वर्षसे मोतमदखांके एवज मिर्जा मुहम्मद हादिने जहांगीरके तुजकको लिखना शुरू किया. इसी सालमें बादशाहकी बहिन आरामबानू बेगम चालीस वर्षकी उम्र पाकर मरगई; उज्बक लोगोंने काबुलियोंसे मिलकर सरहदपर फसाद किया, जो सय्यद हाजी व सिंहदलन अनीरायने उनको निकालकर मिटाया. फिर अर्ज हुई, कि शाहजादे पर्वेज और महाबतखाने बंगालेमें शाहजहां (शाहजादा खुर्रम) पर फतह पाई; इसपर महाबतखांको खानखानाका खिताब और सिपह-सालारीका उहदा दिया गया.

हिजी १०३४ [वि० १६८२ = ई० १६२५] में बादशाह कश्मीरसे पंजाबको लौटे, और पंजाबकी सूबेदारी आसिफखांको और बंगालेकी महाबतखांको दीगई. शाहजादा खुर्रम बंगालेसे भागकर दक्षिणमें पहुंचा. इन्हीं दिनोंमें खबर मिली, कि महाबतखां बंगालेमें जियादा जुल्म करता है; इस बातकी तहकीकातके लिये अरबखां भेजा गया, हुक्म था, कि महाबतखांको लेआवे, महाबतखां अच्छे अच्छे राजपूतोंकी फौज बनाकर रवाना हुआ.

हिजी १०३५ [वि० १६८३ = ई० १६२६] में बादशाह पंजाबसे फिर

कश्मीरकी तरफ चले, और खबर मिली, कि किले बुर्हानपुरमें बूंदीके हाड़ा राव रत्नने खुर्रमकी फौजसे अच्छा मुकाबला किया, और किला हाथसे नहीं जाने दिया; इसके इनआममें बादशाहने रत्नको रावरायका खिताब और पांच हजारी जात व सवारका मन्सब दिया. इन्हीं दिनोंमें खुर्रमके दोनों शाहजादे दाराशिकोह व औरंगजेब बादशाहके पास बुलालियेगये. सर्दी आजानेके कारण बादशाह कश्मीरसे लौटे; अब्दुरहीम खानखाना बादशाहके पास हाजिर हुआ, बादशाहने तसल्ली दी. अब्दुल्लाखां फ़ीरोज़ जंगने भी खानेजहांकी मारिफ़त कुसूरोकी मुआफ़ी चाही, जो बादशाहने मंजूर की.

इन दिनोंमें महाबतखांपर भी बादशाही नाराज़गी बढ़ गई, और उसके जमाई वरखुर्दारको कैद करदिया, बादशाह काबुलको रवाना हुए; महाबतखां और आसिफ़खांसे तक्रार होगई थी, इसी सबब नूरजहां बेगम अपने भाईकी हिमायत से महाबतखांको मरवाडालना चाहती थी, महाबतखांने पांच हजार राजपूतोंके साथ तय्यार होकर जिहलम नदीके किनारेपर बादशाहको घेरकर अपने काबूमें करलिया, जब कि तमाम बादशाही लश्कर नदीके पार उतरगया था; दो हजार राजपूतों को नदीकी तरफ़ भेजा और बाकी तीन हजार सवारोंको साथ लेकर बादशाही डेरोंकी तरफ़ चला, और दो सौ राजपूतोंके साथ खास डेरोंमें जाकर जहांगीरको घेरलिया. महाबतखां ज़बानी बहुत अदबके साथ पेश आया, और बादशाहको हाथीपर सवार कराकर अपने डेरोंमें लेआया. नूरजहां बेगम अपने भाई आसिफ़खांके पास पहिले ही नदी पार फौजमें जापहुंची थी, वहांसे उसने मए शाही फौजके हम्ला किया. बहुतसे सवार नदीमें डूब मरे, और खास बेगमकी दोहिती, जो हाथीपर उसके पास सवार थी, तीर लगनेसे ज़स्मी हुई, और शाही फौज खराब होकर दर्याकी तरफ़ लौटी; आखिरको नूरजहां बेगम बड़े बड़े सर्दारों सहित महाबतखांकी फौजमें चलीआई, और आसिफ़खां किले अटकमें जा छिपा, लेकिन वहांसे कैद होकर महाबतखांके पास लायागया, उसके कई दोस्तोंको महाबतखांने मरवाडाला. फिर बादशाहको महाबतखां अपने काबूमें लेकर काबुलको रवाना हुआ; और जलालाबाद होते हुए सब काबुल पहुंचे; वहां महाबतखांके राजपूत और बादशाही अहदियोंमें फ़साद हुआ, सैकड़ों राजपूत वगैरह मारेगये, इससे महाबतखांकी ताक़तमें फ़र्क़ आगया. इस खबर को सुनकर शाहजादा खुर्रम भी दक्षिणसे अजमेर व मारवाड़ होताहुआ ठट्ठे की तरफ़ चला, अजमेरमें उसका बड़ा सर्दार राजा भीमका बेटा कृष्णसिंह मरगया, जो पांच सौ राजपूत सवारोंका अफ़सर था, इससे शाहजादेको बहुत रंज हुआ. बादशाह भी काबुलसे लाहौरकी तरफ़ लौटे, और नूरजहांकी सलाह

से महाबतखांपर ज़ियादा मिहर्बानी ज़ाहिर करते थे, जिससे वह गाफ़िल रहने लगा; किले रुहतासके पास नूरजहां बेगमने अपनी फौजकी हाज़िरीके बहानेसे बादशाह को महाबतखांसे अलग किया, यह हाल पेश आनेसे महाबतखां जान लेकर भागा, लेकिन दानयालके शाहज़ादे और आसिफ़खां व उसके बेटे अबूतालिबको कैदी बनाकर साथ लेगया. बादशाहके कहलानेसे दानयालके बेटेको तो छोड़दिया, लेकिन आसिफ़खां व उसके बेटेको, जबतक दूर न निकलगया, न छोड़ा.

हिज्जी १०३६ मुहर्रम [वि० १६८३ आश्विन = ई० १६२६ सेप्टेम्बर] में बादशाह लाहौर पहुंचे, वहां अब्दुरहीम खानखानांका सात हज़ारी मन्सब बहाल करके अजमेर जागीरमें दिया, और महाबतखांका पीछा करनेको तईनात किया, और मुकर्रमखांको बंगालेकी सूबेदारी इनायत की. इसी हिज्जीकी ता० ७ सफ़र [वि० कार्तिक शुक्ल ९ = ई० ता० २९ अक्टोबर] को शाहज़ादा पर्वेज़ ३८ वर्ष की उम्रमें मरगया. बादशाहने आसिफ़खांके बेटे अबूतालिबको शायस्ताखांका खिताब दिया. इन्हीं दिनोंमें याकूतखां हबशीने राव राजा रत्न हाड़ेकी मारिफ़त बादशाही ताबेदारी कुबूल की. शाहज़ादे खुर्रमने ईरान जानेका विचार किया था, परन्तु पर्वेज़ के मरजानेसे उस इरादेको छोड़कर दक्षिण पहुंचा. बादशाहने आसिफ़खांको सात हज़ारी जात और सवारका मन्सब दिया. खानेजहाने तीन लाख होन (१५ लाख रुपये) लेकर बाला घाटका इलाका दक्षिणियोंको देदिया; इसी वर्षमें अब्दुरहीम खानखानां मरगया. बादशाहको ख़बर मिली कि महाबतखां खुर्रमके पास पहुंचगया, और उसने उसको अपनी फौजका अफ़सर बनाया.

बादशाह कश्मीरकी तरफ़ चले, और रास्तेमें बीमारीसे ज़ियादा तकलीफ़ हुई, आखिरकार राजौर मक़ामपर हिज्जी १०३७ ता० २८ सफ़र [वि० १६८४ कार्तिक कृष्ण १४ = ई० १६२७ ता० ९ नोवेंबर] में बादशाह जहांगीरका देहान्त हुआ. शाहज़ादा खुर्रम (शाहजहां) अपने ससुर आसिफ़खांकी मददसे कई भाई भतीजोंको क़त्ल कराकर बादशाहतका मालिक बना, जिसका पूरा जिक्र मौक़ेपर किया जायगा.

हम बादशाह जहांगीरका कुछ चाल चलन लिखना चाहते थे, लेकिन जॉन-हेरिस डी, डी, और ऐफ, आर, ऐस के सफ़रनामेमें, जो ईसवी १७६४ [वि० १८२१ = हि० ११७७] में लंडनमें छपा है, उसका जिक्र मिलगया, इसलिये उसका ही तर्जुमा यहांपर लिखदिया जाता है. इस सफ़रनामेकी पहिली जिल्द, दूसरा बाब, बाईसवां खंड और नवें लेखके ६३७ पृष्ठमें लिखा है— कि “इस बादशाह जहांगीरकी लयाक़त (जाती तौरपर) उसके बापसे बहुतही कम थी, और

ऐबोमें वह उससे बहुतही बढ़कर था. वह खाना व पीना जितना बादशाहोंको चाहिये उससे बहुत ज़ियादा पसन्द करता था, और खास सबब उसके मुसल्मानी तरीकेके बखिलाफ़ क्रिस्तानी मज़हबकी तरफ़ झुकनेका यह था, कि इस मज़हबमें उसको खाने पीनेकी बाबत कुछ रोक टोक नहीं थी, जैसी कि पहिलेमें. वह बहुत दिलेर था, गो कि अपने बुजुर्गोंकी तरह लड़ाई पसन्द नहीं करता था, परन्तु जब कभी उसको लड़ाईके मौकेपर जाना पड़ता, तब वह फौज लेजानेमें वैसी ही लयाकत दिखलाता, जैसे कि उसके बुजुर्ग. वह फिरंगी अर्थात् यूरोपी लोगोंको बहुत चाहता था, क्योंकि वे लोग मुसल्मानोंकी बनिसबत जिन्दगीके उस तरीकेकी तरफ़ ज़ियादा माइल थे, जिसे वह सबसे ज़ियादा पसन्द करता था, और मुसल्मानोंके साथ बड़ी सस्ती और रुखाईसे सुलूक करता, क्योंकि वह सालके उस वक्तमें दावतें देना पसन्द करता था, जब कि अपने कानूनके मुवाफ़िक़ उनको फ़ाका अर्थात् रोज़ा रखना जरूर होता था, अगर ऐसे वक्त पर वे उसकी मर्जीके खिलाफ़ खाने पीनेसे इन्कार करते, तो उन्हें खाना खानेकी कोठरीकी खिड़की मेंसे बाहर फेंक देनेकी धमकी देता, जहां हमेशा दो शेर जंजीरोंसे बंधे रहते थे. इससे जानाजाता है, कि वह हठी और ज़ालिम था, परन्तु यह निश्चय है, कि कोई बादशाह औरतों या वज़ीरोंके ज़ेर असर उससे ज़ियादा न था".

अब हम इस बादशाहके ज़ालिम होनेके और भी सुबूत लिखते हैं, कि वह आदमियोंको ऐसी सस्ती सज़ा देता था, कि उसके बापने किसीको न दी होगी, इसने अपनी शाहज़ादगीके वक्त इलाहाबाद (प्रयाग) में एक आदमी की खाल खिंचवाकर भुस भरवाया, और बादशाह होनेपर सर टॉमस रो (एल्ची जेम्स बादशाह इङ्ग्लेण्ड) के सामने एक महलकी औरत को जिन्दा ज़मीनमें गड़वाया, और खोजेसराको हाथीके पैरोंसे खुंदवाडाला. यह बात सर टॉमस रो की किताबके ३७ वें पृष्ठमें लिखी है. जहांगीर आप भी अपनी किताबमें लिखता है, कि मैं हिज़्री १०१८ [वि० १६६६ = ई० १६०९] में जब सामरका शिकार कर रहा था, उस वक्त एक अर्दलीका सिपाही और दो कहार, बीचमें आगये, उनमेंसे सिपाहीको तो जानसे मरवाडाला और कहारों के पैर कटवादिये. उस ज़मानेके सब बादशाह वगैरा ऐसा जुल्म करते थे, परन्तु यह अक्बरका बेटा होनेके कारण ज़ालिम समझा गया. वरना पहिले खिलजी, तुग़लक़ वगैरह बादशाहोंके जुल्म देखते, यह बादशाह बड़ा नेक और रहमदिल था, अगरचि वह बाज़ दफ़ा गुस्से और शराबके जोशमें बाज़े सस्ती हुकम देता था— लेकिन दिलसे हमेशा इन्साफ़ पसन्द करता था, जैसा कि आगरा किलेके

बुर्जसे जमुनाके किनारे तक फ़र्यादियोंके लिये जंजीर लटकाने, और कुसूरवारोंके हाथ पाँव न काटनेकी बाबत ताकीदोंसे जाहिर है. इस बादशाहकी औलाद पांच शाहज़ादे और दो बेटियां थीं:— १ खुस्त्रौ, २ पर्वेज़, ३ खुर्रम, ४ जहांदार, ५ शहरयार, और बेटियोंमें बड़ी सुल्ताननिसा और छोटी बहारवानूबेगम.

शाहज़ादा खुस्त्रौ हिज्री ९९५ [वि० १६४४ = ई० १५८७] में राजा भगवानदास कछवाहे की बेटीसे पैदा हुआ था, जो बापके सामने मरगया. शाह-ज़ादा पर्वेज़ हिज्री ९९७ [वि० १६४६ = ई० १५८९] में जैनखां कोकेकी बेटीसे पैदा हुआ था, जो बापसे एक वर्ष पहिले गुज़र गया. तीसरा खुर्रम हिज्री १००० के रबीउलअव्वल [वि० १६४८ पौष = ई० १५९१ डिसेम्बर] में मोटेराजा उदयसिंह जोधपुरवालेकी बेटीसे पैदा हुआ, जो बापके बाद बादशाह बना. चौथा शाहज़ादा जहांदार और पांचवां शहरयार था, ये दोनों पासवानोंके पेटसे पैदा हुए थे, जिनमेंसे पहला तो बापके सामने ही मरगया, और पिछला शाहजहांके बादशाह होनेपर क़त्ल कियागया; सुल्तान निसाबेगम केशवदास मेड़तिया राठौड़की बेटीसे हिज्री ९९८ [वि० १६४७ = ई० १५९०] में पैदा हुई, और बहार वानूबेगम हिज्री ९९९ [वि० १६४८ = ई० १५९१] में कर्मसी राठौड़की बेटीसे पैदा हुई. इनमेंसे जहांगीरके बाद शाहजहां और दोनों बेटियां ही बाकी रहीं.

शेषसंग्रह (नम्बर १).

(यह प्रशस्ति चित्तौड़ गढ़के रामपौल दर्वाजे बाहर जातेहुए दहिनी तरफ़ है).

श्री महाराजा धिराज महाराणा श्री कर्णसिंहजी आदेशातु बारहठ लखा कस्य— पहिली श्री दिवाण, लखाजी हे गाम तांबापत्र करेदीधा, यां गांवांरा पत्र गढ़ चित्र-कोटरी पौले लिखायो, १ गाम मन्सवो मांडलगढ़रो, १ गाम थरावली फुल्यारो, १ गाम जडाणो भिणायरो, संवत् १६७८ वर्षे आसोज शुदि १५. गंगामस्तु धारि आलाक्षरामें सु कोई चोलण करे, श्रीएकलिंगजीरी आपण-लिखितं पंचोली शवरदास रामदास उपादेली लिखितं ॥

शेषसंग्रह (नम्बर २).

खयाल किया गया है, कि मेवाड़के महाराणासुलह होनेपर भी बादशाही खैरखाही सेनफ़्त करते थे, और फिर लड़ाई फ़सादका इरादा रखते थे इस लिये दर्वाजेकी हिफ़ाज़त के वास्ते काज़ी मुल्ला जमालसे (जो यहांपर बादशाही मुकर्रर किया हुआ काज़ी होगा), अरबीकी आयत व फ़ासी शिअर लिखवाकर खुदवाया, कि जिससे मुसल्मान लोग इस दर्वाजे (बड़ी पौल) व महल वगैरहको न तोड़ें.

बड़ीपौल दर्वाजेकी छतके अन्दरकी खुदीहुई इबारत व शिअर—

श्रीएकलिङ्गजी प्रसादात्. श्रीगणेशायनमः संवत् १६७३ वर्षे मार्गसिर बदी ४ शुके राजाधिराज महाराणा श्री अमरसिंहजी चिरंजीव महाराजकुंअर श्री करणजी चरण कमलानु — — — श्रीमेदपाटेनृप सूनु कर्णे — — — विण — — परागसेवित्ममंडनोयं ॥ — — विसूत्रधारास्तेने क्कितंभूपतिवल्लभोयम् ॥ १ ॥ शुभं भवतु — — — सेवक सुतार मुकन्दरामको बेटो — — — — — तूरकी ईक्षर, लिखा काज़ी मूला जमालखां.

विस्मिह्लाहिरहमा निरहीम.

नस्त्रुम्निनल्लाहे व फ़ल्हुन करीब, व वडिशारिलमुअ् मिनीनः फ़ल्लाहु खैरुन हाफ़िजा. अर्थ— मदद और फ़ल्ह खुदाकी तरफ़से आसान है, और खुशख़बरी ईमानदारोंके वास्ते हो; बेशक़ खुदा उम्दा हिफ़ाज़त करने वाला है.

शिअर.

{ या हाफ़िज़ हरकि दर्री खानः नज़र बद कुनद,
{ ऐ निगाहबान चश्म शवद कोरो शिकम दर्द (१) कुनद.

अर्थ—अगर इस मकानमें कोई बद निगाह करे, तो उसकी आंख अंधी हो, और पेट दर्द करे.

दर अमले राणा अमरसिंह, व कुंवर कर्णसिंह, काज़ी मुल्ला जमाल.


अर्थ—राणा अमरसिंह और कुंवर कर्णसिंहके वक्त में काज़ी जमालने तय्यार किया.

तारीख २२ जिल्काद


सन् १०२५ हिज्री.

(१) दर्दके एवज़ रद रक्खाजावे, तो शिअरका वज़न और काफ़िया ठीक होजावे, लेकिन अस्ल प्रशस्तिमें ऐसा ही लिखाहै.


त्रिभंगी छन्द.



नृप अमर निदानं, गे सुरथानं, जान जहानं, हानि भई ॥
 परिजन दुखहर्नै, भूपति कर्नै, नीति वितर्नै, प्रीति नई ॥
 खुर्रम जुवराजा, पितु भय भाजा, छोर समाजा, छांह लई ॥
 नृप कर्ण सहाई, व्हे शर्णाई, कै निज भाई, बांह दर्ई ॥ १ ॥
 बेगम बढि मानं, नूरजहानं, ता वृत्त गानं, लेख भयो ॥
 फिर नृप ईरानी, मधु कटु बानी, दल बडमानी, सार लयो ॥
 जन्नत मकानी, उत्तर ठानी, दुस्सह हानी, मान दयो ॥
 प्रिय सुत विपरीतं, संगर नीतं, जान अनीतं, शाह नयो ॥ २ ॥
 राणावत भीमं, साहस सीमं, दै जुध नीमं, जुष्क पस्थो ॥
 फिर भूपति कर्णै, गेशिव शर्णै, लोक विवर्णै, शोक भस्थो ॥
 अक्बर सुत तासं, कछु इतिहासं, श्यामलदासं, लेख कियो ॥
 नृप सज्जन इच्छा, फतमल शिच्छा पूरण दिच्छा पूर हियो ॥ ३ ॥



महाराणा कर्णसिंह—षष्ठ प्रकरण
समाप्त.



महाराणा जगतसिंह-अव्वल.
सप्तम प्रकरण.

इनका राज्याभिषेक विक्रमी १६८४ के फाल्गुन [हि० १०३७ रजब = ई० १६२८ मार्च] में, और राज्याभिषेकोत्सव विक्रमी १६८५ वैशाख शुक्ल ५ [हि० १०३७ ता० ३ रमजान = ई० १६२८ ता० ९ मई] को हुआ. यह महाराणा महेचा राठौड़ जशवन्तसिंहकी बेटी जाम्बुवती बाईके पेटसे पैदा हुए थे; इनकी तबीअत बालकपनेसे ही तेज थी; जब यह बालकपनमें बादशाह जहांगीरके पास गये, तो बादशाहने भी इनकी शान शौकत व बहादुराना सूरतकी तारीफ़ की. यह अपने पिता व दादाके वक्तमें जहांगीरके साथ हरिद्वार काश्मीर वगैरह हिन्दुस्तानके कई हिस्सोंका सफ़र कर चुके थे. महाराणा कर्णसिंहके वैकुंठवास होनेके पहिले इन्होंने विक्रमी १६८२ [हि० १०३४ = ई० १६२५] के करीब ढुंढाड़के एक नरूका राजपूतको, जो उन्हींके पास रहता था, किसी कुसूरपर मरवाडाला. उस राजपूतके छोटे भाईने अपने बड़े भाईका माराजाना सुनकर पगड़ीके एवज़ सिर पर रूमाल बांधना इस्तिथार किया, कि जबतक मैं अपने भाईके मारने वालेको न मारलूंगा, पगड़ी न बाधूंगा; उसके घरमें एक उम्दा और बड़े धावेका घोड़ा था, जिसपर वह सवार होकर उदयपुर आया, और चारण खेमराजके हाथसे मारागया, जिसका हाल इस तरहपर है :-

महाराणा प्रतापसिंहके पुत्र सहसमल्लके बेटे भोपतराम बाठरड़ाके जागीरदार

थे, और अब उनकी औलाद वाले धरयावदके जागीरदार रावत कहलाते हैं; ग्राम ऊँटालाके नज्दीक धारता ग्रामके चारण दधिवाड़िया जयमल्लका बेटा खेमराज अपनी गरीबी हालतमें धारतेसे निकलकर बाठरड़े जाता था, धूपकी गरमीसे दुपहरीके वक्त बड़के दररूतके नीचे सोरहा, थोड़ी देरमें उसके मुंहपर धूप आने लगी, उस समय एक काले सांपने अपने फनसे छाया की; इस मौकेपर माहोलीका एक ओसवाल महाजन किसी जरूरी कामके लिये कहीं जाताहुआ उधर आ निकला, महाजनको देखकर सर्प तो चलागया, लेकिन महाजनने सर्पका साया करना देखलिया था, खेमराजको जगाकर कहा, कि तुमको जो शकुन हुआ है, उसका फल मुझको दे दीजिये. खेमराज पन्द्रह वर्षकी उम्रका था, लेकिन होश्यारीसे उसने इन्कार किया, फिर उस महाजनने कहा, कि जब आपका रुतवा बढे, तब काम करनेका इक्कार मुझको लिखदीजिये, खेमराजने इसपर भी बहुत इन्कार किया; आखिरकार महाजनकी हुजतसे लिखदिया, महाजनने भी जो दस बीस रुपये उसके पास थे, खेमराजको देदिये, वह लेकर बाठरड़े पहुंचा, और महाराज भोपतरामके पास रहने लगा, कभी बाठरड़े कभी उदयपुर आता जाता रहा; अपनी होश्यारीके सबब भोपतरामके कुल कामका मुख्तार होगया. बल्कि उसके कुंवर विजयसिंहसे भी उसकी सकारमें खेमराजकी हुकूमत जियादा थी.

एक दिन घोड़ा दौड़ा कर खेमराज शहर (उदयपुर) में आता था, उस वक्त वह नरूका राजपूत भी उसी तरफ आया, जिसने अपनी तलवार निकालकर एक सैकलगरको दी और कहा, कि पांच रुपये ले और मेरी तलवारकी धारको ऐसा दुरुस्त करदे, कि इसके मुवाफिक किसी दूसरे की न हो. यह बात खेमराजने सुनकर विचार किया, कि ऐसा घोड़ा और ऐसे ढंगसे अजनबी बहादुर आदमी पहर रात गये अपनी तलवारकी धार दुरुस्त करने के लिये पांच रुपये देता है, बगैर किसी जरूरी सबबके न होगा, खेमराजने भी अपनी तलवार किसी दूसरे सैकलगरको देकर उसीतरह पांच रुपये दिये; उस राजपूतने दो घड़ी रात रहे तलवार लेनेका इक्कार किया, इसने चारघड़ी रात रहे लेनेका वादा किया, और पांच घड़ी रात रहे एक अमव्वा दुपट्टा सिरपर बांधकर और उसी रंगका अंगरखा पहनकर अबलक घोड़े पर सवार होकर सैकलगरसे वादेके मुवाफिक तलवार मांगली, और भटियाणी चौहट्टे होताहुआ शीतला माताके पास पहुंचा; वह नरूका राजपूत भी अपने वादेके मुवाफिक सैकलगरसे तलवार लेकर बाटेश्वर महादेव व महौली चौहट्टेमें होता हुआ वहीं पहुंचा, जहां खेमराज तय्यार खड़ा था.

कुंवर जगतसिंह दिन निकलते ही छोटे घोड़ेपर सवार होकर बीस तीस शागिर्दपेशा लोगोंके साथ हमेशा खरगोशोंके शिकारके वास्ते कृष्णपौल दर्वाजे बाहर जाया करते थे; बाप बेटोंमें ज़ियादा मुहब्बत होनेके कारण महाराणा कर्णसिंह दिलकुशाल (दिलकुशा) के गोखड़ेसे अपने बेटे को आतेवक्त देखते रहते थे, उस दिन भी देखने लगे. उस नरूके राजपूतने खेमराजसे कहा, कि मेरा घोड़ा तेरे घोड़े से बिगड़ता है, इसलिये दूर रह, जिसपर खेमराजने जवाब दिया, कि मेरा भी घोड़ा है घोड़ी नहीं, इसके सिवाय तेरा घोड़ा क्रोध करता हो तो तूही दूर चलाजा, राजपूतको दूसरा काम करना था, चुप हो रहा; महाराजकुमार जगतसिंह भी उस वक्त कृष्णपौलकी तरफसे नज़्दीक आये, उस राजपूतने तलवार निकालकर आवाज़ दी, कि कुंवर मैं अपने भाईका बैर मांगता हूं, यह कहकर अपना घोड़ा उनकी तरफ़ दौड़ाया; खेमराजने अपने घोड़ेको खेंचकर एक हाथ तलवारका मारा, जिससे उस राजपूतका सिर और तलवारका हाथ बदनसे जुदा होकर कुंवर जगतसिंहके सामने जापड़ा; खेमराज तो उसी समय अपने घोड़ेको मोड़कर भोपतरामकी हवेली चलाआया. महाराणा कर्णसिंह दिलकुशाल (दिलकुशा) के गोखड़ेसे अपने बेटेको आताहुआ देखरहे थे, तलवारका निकलना देखकर घबराये, और कहा, कि मेरा घर डूबगया. इधर कुंवर और उनके साथवाले भी भयचकसे रहगये, किसी ने कहा, कि खुद एकलिंगजीने आकर आपकी रक्षा की है, किसीने कहा, इस शरूस्को मारनेवाला कोई दैवी मनुष्य था. आखिरकार उस नरूके राजपूतका सिर और घोड़ा लेकर कुंवर अपने पितासे आमिले. महाराणाने भी अपने बेटेकी जिन्दगी नई जानकर हज़ारहा रुपया लोगोंको खैरातमें दिया.

कुंवरने अर्ज की कि मैंने अपनी जान बचानेवालेको देखा है, वह कोई मेवाड़ी बहादुरोंमेंसे था. तब सबने कहा, कि ऐसी बड़ी नौकरीपहुंचकर वह क्यों चलागया? इस बातका आश्चर्य है. महाराणाने हुक्म दिया, कि उमराव सदांर व भाई बेटे कुल अपनी अपनी जमइयतोंके साथ बड़ीपौलमें होकर महलोंके नीचे होते हुए पीछेलेकी पालकी तरफ़ निकल जावें. महाराज भोपतरामने घोड़ेका पसीना और खेमराजके कपड़ोंपर खूनके छींटे देखकर कहा, कि बेटे खेमराज अगर यह काम तैने किया हो तो बहुत बड़ी बात है, मेरी और तेरी इज़्जत बढ़नेका कारण होगा, छिपानेकी बात नहीं है; तब खेमराजने सारी कार्रवाई कह सुनाई. भोपतरामने खेमराजको छातीसे लगाकर उसी अब्लक़ घोड़ेपर सवार कराया, और मए अपनी जमइयतके महलोंकी बड़ी पौलमें लाया; नज़र पड़तेही महारा-

ज कुंवर जगतसिंहने महाराणासे अर्ज की, कि मेरा प्राण रक्षक यही शरूस् है, जो अब्लक घोड़ेपर चढ़ा आता है. महाराणाने खुश होकर मण महाराज भोपतरामके खेमराजको ऊपर बुलाया और दौड़कर खेमराजको छातीसे लगाकर कहा, कि अबतक मेरे तीन बेटे थे, आजसे तुझ समेत चार हुए, फिर उसको कुंवर जगतसिंहके पास रखदिया, और उसका कुल खर्च अपने छोटे बेटोंके मुवाफिक सर्कारसे मुकर्रर किया. कुंवर जगतसिंह भी खेमराजको भाई कहाकरते थे. जब जगतसिंह गादीपर बैठे, तो थोड़े ही अर्सेके बाद खेमराजको ७०००० सत्तर हजार रुपये सालयाना आमदनीकी जागीरके कई ग्रामों सहित ठीकरिया ग्राम दिया, और उसका नाम खेमपुर रक्खा- (देखो शेषसंग्रह नम्बर १).

जब महाराणा जगतसिंहका राज्याभिषेक हुआ, उस समय बादशाह शाहजहाने राजा बीरनारायण बड़गूजर दक्षिणीके साथ गद्दी नशीनीका दस्तूरी सामान (टीका) महाराणा जगतसिंहके लिये भेजा, जिसमें खिलअत खासा, जड़ाऊ खपुवा मण फूलकटारेके, जड़ाऊ तलवार, घोड़ा खासा मण सुनहरी सामानके, और खासा हाथी चांदी के असबाब सहित था. राजा बीर नारायणने आकर गद्दी नशीनीके वक्त सब दस्तूर अदा किये.

जब शाहजहां बादशाहने महाबतखांको खानखानाका खिताब और सिपहसालारीका उहदा इनायत किया, तब कुछ दिनोंके बाद वह देवलियाके महारावत जशवन्तसिंहकी तरफदारी करने लगा, क्योंकि तकलीफके वक्त जहांगीरकी नाराजगी से वह देवलियामें रहा था. देवलियाका जशवन्तसिंह, रावत सिंहाकी गादीपर विक्रमी १६७९ [हि० १०३१ = ई० १६२२] में बैठा था, जब वह महाबतखांकी तरफदारीसे उदयपुरके हुकमकी बखिलाफी और सर्कशी करने लगा, तब कई दफा लिखागया, लेकिन उन्होंने हिमायतसे जगतसिंहके हुकमको बिल्कुल न माना; महाराणाने किसी आदमीको भेजकर तसल्लीके साथ रावतको उदयपुर बुलवाया. जशवन्तसिंह दिलमें महाराणाकी तरफसे खटका होनेके कारण अपने छोटे बेटे हरीसिंहको देवलियाका कुल बंदोबस्त सौंपकर आप मण बड़े बेटे महासिंह व एक हजार अच्छे राजपूतोंके उदयपुर आया, और चम्पाबागमें डेरा किया, जो महाराणा कर्णसिंहका बनवाया हुआ शहरसे एक मीलके फासलेपर पूर्वी तरफ है. जशवन्तसिंहको महाराणाने यहांकी फर्माबदारीके बखिलाफ न रहनेकी बाबत बहुतसी नसीहत की, लेकिन उसके दिलमें महाबतखांकी हिमायत का जोर भरा हुआ था, महाराणाके मन्शासे खिलाफ जवाब दिया. महाराणाने अपने सलाहकारोंसे पूछा, तो सबने अर्ज की, कि जशवन्तसिंह यहांसे चला गया, तो बिल्कुल आपकी हुकू-

मतसे अलहदा होजावेगा. तब महाराणाने अपने सलाहकारोंके कहनेपर अमल करके, अपने बड़प्पनको बड़ा लगानेवाली बात, याने जशवन्तसिंहका मारडालना इस्तिथार किया.

महाराणाको मुनासिव था, कि जशवन्तसिंहको अपने यहांसे विदाकरके देवलिया पर फौज भेजते, लेकिन उन्होंने धोखेके साथ कार्रवाई की, और रामसिंह (१) राठौड़को फौज देकर आधीरातके वक्त चम्पाबागमें महारावतके घेरलेनेका हुक्म दिया; रामसिंहने वैसा ही किया. जशवन्तसिंह मए अपने कुंवर महासिंह व एक हजार राजपूतोंके अच्छी तरह लड़कर मारे गये, महाराणाके राजपूत भी बहुतसे काम आये. यह भगड़ा विक्रमी १६८५ [हि० १०३८ = ई० १६२८] में हुआ.

इस नामुनासिव कामके करनेसे देवलिया महाराणाके हाथसे निकल गया, क्योंकि जशवन्तसिंहके छोटे बेटे हरीसिंहने, जो देवलियाकी गादीपर बैठा, अपने बाप और भाईके मारेजानेसे बिल्कुल विश्वास उठालिया, इस खौफसे कि महाराणा फौज भेजकर मुझे मरवा डालेंगे. वह अपनी गादी नशीनीका दस्तूर करके सीधा दिल्ली बादशाह शाहजहाँके पास चलागया. इस वक्तसे देवलिया वालोंको उदयपुरकी हुक्मतसे अलहदा होनेका मौका मिला. अगरचि इस वक्तकी अलहदगी बहुत अर्से तक न रही, लेकिन जिस वक्त ताकत पाई, तब ही जुदा होनेकी कोशिश करते रहे. हरीसिंहके विचारके मुवाफिक ही नतीजा पैदा हुआ, कि हरीसिंह तो अपने बाप और भाईके मारेजानेकी खबर सुनते ही दिल्लीकी तरफ चलागया, और राठौड़ रामसिंह फौज लेकर देवलिये पहुंचा, जहां बहुतसी लूटखसोट करके उस इलाकेको बर्बाद किया. उसी संवत्में डूंगरपुरके रावल पूजा पर, जो बादशाही मन्सबदार होकर उदयपुर की सरपरस्तीको नहीं मानता था, महाराणाने अपने प्रधान अक्षयराजको फौज देकर डूंगरपुरकी तरफ भेजा. पेशतर महाराणा प्रतापसिंहके वक्तमें डूंगरपुरके रावल आशकरण बादशाह अकबर के मन्सबदार होगये थे, तबसे डूंगरपुरवाले भी उदयपुरकी फर्मावदारीसे निकलगये थे, इस लिये यह फौज भेजीगई. रावल पूजा तो पहाड़ोंमें भागगया, और फौजने डूंगरपुरको बर्बाद करके चन्दन के गोखड़ेको,

(१) राव मालदेवके बेटे चन्द्रसेन और चन्द्रसेनके बेटे उग्रसेन और उसके बेटे कर्मसेनका बेटा रामसिंह था, जो महाराणा जगतसिंहकी बहिनसे पैदा हुआ, और महाराणाके पास नौकरीमें रहनेलगा था; वह हिज्री १०५० [वि० १६९७ = ई० १६४०] में बादशाह शाहजहाँके पास गया, और हजारी जात व छःसौ सवारका मन्सब व खिलअत पाकर बादशाही नौकर हुआ—यह रामसिंह रोटलाके नामसे अबतक मशहूर है.

जो उसके महलोंमें था, गिरादिया; इस तरहपर डूंगरपुरको भी ख़राब करके फ़ौज लौट आई.

विक्रमी १६८६ कार्तिक कृष्ण २ [हि० १०३९ ता० १ सफ़र = ई० १६२९ ता० ४ अक्टोबर] को महाराणा जगतसिंहके, राजसिंह मेड़तियाकी बेटी महाराणी जनादे बाई मेरतणीके गर्भसे, कुंवर राजसिंहका जन्म हुआ; फिर एक वर्षके बाद उन्हीं महाराणीसे छोटे कुंवर अरिसिंह पैदा हुए. डूंगरपुर और देवलियाके मुवाफ़िक़ सिरोहीके राव अक्षयराजने भी सरकशी इस्ति्यार की. सिरोहीके राव सुल्तानका देहान्त होने बाद उसका बड़ा बेटा राजसिंह सिरोहीकी गादीपर बैठा; वह सीधा सादा सर्दार था. राव सुल्तानके छोटे बेटे सूरसिंहने राजसिंहसे बगावत करना शुरू किया; देवड़ा भैरवदास समरावत और राघव डूंगरोत वगैरह भी सूरसिंहकी तरफ़दारीकरते थे, और रावकी तरफ़दारीमें भी देवड़ा पृथ्वीराज सूजावत वगैरह कई आदमी थे. लड़ाई होनेपर सूरसिंहको शिकस्त देनेसे पृथ्वीराजको गुरूर होगया था, इसी सबबसे पृथ्वीराज और राजसिंहके बीचमें भी अदावत पड़ी. पृथ्वीराजके भाई भतीजे वगैरह रिश्तेदार राजपूतोंकी ज़ियादती थी, जब ज़ियादा अदावत बढ़ने लगी, तो महाराणा अमरसिंहके कुंवर कर्णसिंहने राव राजसिंह व पृथ्वीराजको बुलाकर आपसमें मेल रखनेकी बहुतसी नसीहतें कीं, उस वक्त तो वह इक्रार करके पीछा सिरोही चलागया, लेकिन इनकी अदावतकी आगके शुअ्रले ज्यों के त्यों भड़कते रहे, तब राव राजसिंहने भैरवदास समरावतको जागीर देकर अपने पास रक्खा. मौका देखकर पृथ्वीराजने भैरवदास समरावतको मारडाला, राव राजसिंह पृथ्वीराज से दबकर न बोला, लेकिन भैरवदासके बेटे रामदासको उसके बापकी जागीर देकर अपने पास रखलिया, आखिरकार इस अदावतसे पृथ्वीराजके राजपूत सीसोदिया पर्वतसिंह व देवड़ा रामाके हाथसे राव राजसिंह मारागया, और उसका बेटा अक्षयराज दो वर्षकी उम्रमें विक्रमी १६७५ [हि० १०२७ = ई० १६१८] को सिरोहीकी गादीपर बैठा; इस बालक राजाकी हिमायत व हिफ़ाज़त महाराणा कर्णसिंहने अच्छी तरह की, पृथ्वीराज मए अपने मातहत राजपूतोंके अम्बावके पहाड़ोंकी तरफ़ चलागया, और सिरोहीके मुल्कमें लूटमार करतारहा; आखिरकार पृथ्वीराज, अक्षयराजके राजपूतोंके हाथसे मारागया, और पृथ्वीराजके बेटे चांदाने बहुतसी लड़ाइयां कीं. राव अक्षयराजने महाराणा कर्णसिंहकी पर्वरिशको भूलकर महाराणा जगतसिंहसे सरकशी की. महाराणाने भी फ़ौज भेजकर राव अक्षयराजको दुरुस्त किया.

इसी तरह बांसवाड़ेके रावल समरसीने भी महाराणा प्रतापसिंहकी अगली पर्वरिश को भूलकर बादशाही हिमायतका सहारा लिया. महाराणा जगतसिंहने अपने प्रधान भागचन्दको फौज देकर बांसवाड़े पर भेजा, रावल समरसी वहां से भागकर पहाड़ोंमें चला गया, सो प्रधान भागचन्द छः महीने तक वहां ही ठहरा रहा. रावल समरसीने अपने शहर व मुल्ककी बर्बादी के बाद २००००० दो लाख रुपया जुमाने के तौर नज़र करके कुसूरकी मुआफ़ी चाही, उदयपुरसे भी उसकी तसल्ली की गई. यह हाल किसी क़दर ग्राम बैड़वासकी बावड़ी की प्रशस्तिमें (जो इसी प्रधान भागचन्दके बेटे फ़तहचन्दकी बनवाई हुई है) लिखा है— (देखो शेष संग्रह नम्बर २).

महाराणा जगतसिंहने अपनी बहिनकी शादी तो बीकानेरके महाराज कर्णसिंहके साथ की, और अपनी बेटी बूंदीके राव शत्रुशाल हाड़ाको व्याह दी. इन शादियोंमें लाखों रुपये इनआम व इक़ाम वगैरहमें खर्च हुए. पहिले लिखा गया है, कि बूंदीके राव शत्रुशालके बुजुर्ग उदयपुरकी ताबेदारी करते थे, जिनको बादशाह अकबरने अपना नौकर बनाया था; शत्रुशालने इस खानदानसे बेटी मिलनेका मौका ग़नीमत समझकर चारणोंको बहुतसे हाथी इनआममें दिये; लिखा है, कि महलोंकी सीढ़ियोंपर चढ़ते गये और फ़ी सीढ़ी एक एक हाथी देतेगये. एक चारण संडायच हरीदासको ग़फ़लतसे हाथी न दिया गया, तब हरीदासने नाराज़ होकर मारवाड़ी ज़बानमें यह दोहा कहा—

दोहा.

जाती काया सांसवें राव कवड़ी रेस ॥

शत्रुशाल माया ऊधमै छाया फल जगतेस ॥ १ ॥

इसका मतलब यह है, कि बड़े सूम (कंजूस) शत्रुशाल एक कौड़ी के वास्ते अपने बदनको दुबला करते हैं, लेकिन इस वक्त जो दौलत उड़ाते हैं, महाराणा जगतसिंहकी छाया पड़नेका नतीजा है.

जब चित्तौड़की मरम्मत व डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सिरोही वगैरह पर फौजकशी करनेकी शिकायतें बादशाह शाहजहांके कान तक पहुंचीं, तो महाराणा जगतसिंहने, जो बड़े बुद्धिमान थे, अपने सलाहकारोंसे राय ली, कि अब बादशाही गुस्से को ठंडा करना चाहिये वरना वही ढंग फिर होजायगा, जो अकबर व जहांगीरके वक्तमें था. भाला राज कल्याणको मए एक हाथी व चन्द तुहफ़ोंके दिल्लीकी तरफ़ रवाना किया, उसने बादशाह शाहजहांके दरबारमें पहुंचकर महाराणाकी तरफ़से वह हाथी और तुहफ़े नज़र किये. विक्रमी १६९० फाल्गुण कृष्ण ६

[हि० १०४३ ता० २० शरद्वर्ष = ई० १६३४ ता० १९ फेब्रुअरी] को बादशाहने राज कल्याणको खुश होकर खिलअत और घोड़ा इनायत किया, और महाराणाके लिये उम्दा खिलअत और दो घोड़े, जिनमें से एकपर सुनहरी सामान और दूसरे पर सोनेका मुलम्मा कियाहुआ था, और एक हाथी देकर रुखसत किया.

जब बादशाही तकाजा जियादा होनेलगा, कि एक हजार सवार जहांगीरी अहदके मुवाफिक दक्षिणमें भेजना चाहिये, तब महाराणाने भोपतराम (१) वगैरह राजपूतोंको भेजदिया; वहां उन लोगोंने शाही फौजमें रहकर अच्छी कारगुजारी दिखाई. भोपतरामने विक्रमी १६९३ भाद्रपद शुक्ल पक्ष [हि० १०४६ रबीउस्सानी = ई० १६३६ सेप्टेम्बर] को दिल्ली पहुंचकर दक्षिणकी फतहकी मुबारकबादी बादशाह शाहजहांको दी, और उदयपुर आया. कुछ अर्से बाद विक्रमी १६९४ [हि० १०४७ = ई० १६३७] में राज कल्याण भालाको कुछ चीजें बादशाहके वास्ते देकर महाराणाने खाना किया, उसने वहां पहुंचकर बादशाही दरबारमें सामान नज़ किया. बादशाहने बहुत खुश होकर एक घोड़ा और एक हाथी राज कल्याणको और महाराणाके लिये बहुत उम्दा खिलअत और हाथी देकर रुखसत किया.

इसके बाद पौष कृष्ण १ [ता० १५ रजब = ता० ३ डिसेम्बर] को जब बादशाह शाहजहां अजमेरसे खाना होनेलगा, तो महाराणा जगतसिंह के कुंवर राजसिंहको, जो वहां गया था, जडाऊ खिलअत, खपुवा (२) और सोनेके सामानकी तलवार, हाथी घोड़ा तथा इनके साथवाले राजपूत राव बल्लू चहुवान और रावत मानसिंह चूडावत वगैरहको खिलअत और घोड़े, और महाराणा जगतसिंहके लिये हाथी देकर विदा किया.

विक्रमी १६९८ [हि० १०५१ = ई० १६४१] में महाराणा जगतसिंहने अपनी माता जाम्बुवती बाईको द्वारिकानाथकी यात्राके लिये बड़ी फौजके साथ भेजा; द्वारिकापुरीमें जाकर उन्होंने सोनेकी तुला वगैरह लाखों रुपयेका दान दिया, फिर पीछे उदयपुर आनेपर बाईजीराजको गंगास्नान करनेके लिये सोरमजीकी तरफ मए कुंवर राजसिंहके खाना किया. वे शूकर क्षेत्र याने सोरमजीमें पहुंचे, तब बाईजीराज और कुंवर राजसिंहने सुवर्णकी तुला की. इसके सिवाय और भी लाखों रुपयेका धन वहां

(१) भोपतराम धरयावद वालोंका पूर्वज था.

(२) यह एक छोटी किस्मके हथियार का नाम है.

खैरात किया. फिर पीछे बाईजीराज व महाराजकुमार उसी जरार फौजके साथ उदयपुर आये, लेकिन दोनों बार सफरमें जो बादशाही मुल्क रास्तेमें पड़ते थे इस से कहीं कहीं बेजा रोक टोकके सबब मुसलमानोंसे छोटे छोटे बखेड़े भी होगये, जिनको शाही मुलाजिमोंने बड़ी तूल तवील शिकायतोंके साथ लिखकर बादशाहके कान तक पहुंचाया. बादशाह दिलमें नाराज होकर महाराणा जगतसिंहको फौजी ताकत दिखलानेके लिये तय्यार हुआ, कि जिससे कुछ राजपूतानाके राजपूत दबे रहें.

शाहजहाने जाहिरा स्वाजह मुईनुद्दीन चिश्तीकी जियारतके बहानेसे विक्रमी १७०० मार्गशीर्ष कृ० ४ [हि० १०५३ ता० १८ शरबान = ई० १६४३ ता० १ नोवेम्बर] चन्द्रवारको आगरेसे खाना होकर बाग नूरमन्जिलमें मकाम किया, और सय्यद खानेजहांको खिलअत उम्दा देकर आगरेकी हिफाजतके वास्ते छोड़ा, किशवरखांके बेटे शैख अल्लाहदियाको, कि जो पहिले एक हजारी जात और आठ सौ सवारका मन्सब रखता था, डेढ़ हजारी जात और हजार सवारका मन्सब दिया. मार्गशीर्ष कृष्ण ६ [ता० २० शरबान = ता० ३ नोवेम्बर] को नूरमन्जिलसे बुस्तान सराय मकाम किया; सुबह रूपवासमें ठहरकर कितनेही अमीरोंको फतहपुर की तरफ रुखसत करके आप वहां शिकार खेलने लगा, जहां सलाबतखांको नक्कारा व निशान मिला, और दो शेर बादशाहकी बन्दूकसे शिकार हुए. मार्गशीर्ष कृष्ण १० [ता० २४ शरबान = ता० ७ नोवेम्बर] को स्वाजेजहांकी सरायके पास डेरा हुआ. इस मन्जिलमें इस्लामखां वगैरह कई सर्दार हाजिर होगये. मार्गशीर्ष शुक्ल ३ [ता० १ रमजान = ता० १३ नोवेम्बर] को चाटसूके पास राजा जयसिंहने मण अपने बेटोंके आवेरसे आकर हाजिरी दी, क्योंकि उनकी राजधानी यहांसे करीब थी; मार्गशीर्ष शुक्ल ५ [ता० ३ रमजान = ता० १५ नोवेम्बर] को महाराजा जयसिंहने एक हाथी और ९ घोड़े बादशाहको नज़र किये. मार्गशीर्ष शुक्ल ९ [ता० ७ रमजान = ता० २० नोवेम्बर] को जोगी तालाबपर मकाम हुआ, जो अजमेरके करीब है.

जब आगरेसे जरार फौजके साथ बादशाहका खाना होना अजमेरकी तरफ सुना, तो महाराणा जगतसिंहने सोचा, कि चित्तौड़की मरम्मत कराना व डूंगरपुर, बांसवाड़े व सिरोहीपर फौजका भेजना और तीर्थ यात्रामें हमारी फौजका शाही मुलाजिमोंके साथ कुछ कुछ बखेड़ा करना और बादशाह जहांगीरके वक्त बड़े कुंवर को शाही दरबारमें भेजनेका जो इक़रार हुआ था, उसमें भी हमारी गद्दी नशीनीके बाद टाला टूली रहना, नापसन्द हुआ; जरूर अजमेरकी जियारतके बहानेसे बादशाहका इरादा मेवाड़ पर चढ़ाई करनेका होगा, क्योंकि पहिले भी बादशाह अकबरने

शिकारके बहानेसे आगरेको छोड़कर चित्तौड़की तरफ कूच किया था, और जहांगीरने भी विक्रमी १६७० [हि० १०२२ = ई० १६१३] में अजमेरमें रहकर मेवाड़पर फौज भेजी थी. इसलिये कुंवर राजसिंहको बादशाही दरबारमें भेजकर सफाई करलेना चाहिये. इस खयालसे कुंवर राजसिंहको उदयपुरसे रवाना किया. वे अजमेरके नज़्दीक जोगी तालाबपर शाही दरबारमें पहुंचे, और वहां हाज़िर होकर एक हाथी नज़ किया, बादशाहने भी इनकी हाज़िरीसे खुश होकर कुंवर राजसिंहको खिलअत उम्दा और सरपेच, जड़ाऊ जम्धर और घोड़ा मण सोनेके सामानके दिया.

विक्रमी १७०० मार्गशीर्ष शुक्ल १० [हिज्जी १०५३ ता० ८ रमज़ान = ई० १६४३ ता० २१ नोवेम्बर] को बादशाह मक़ाम अजमेरके तालाब आनासागरकी पालपर पहुंचे, वहां स्वाजह मुई नुद्दीन चिश्तीकी जियारत करके रु० १०००० दस हजार वहांके खादिम और मुहताजोंको देकर डेरोंमें आये, फिर अपने शिकार किये हुए रोभके गोश्तका पुलाव बड़ी देग (१) में पकवाकर मुहताजोंको खिलाया. इसी मक़ामपर महाराजा जशवन्तसिंह जोधपुरवाला भी हाज़िर हुआ, और आंबेरके महाराजा जयसिंहने पांच हजार सवार राजपूतों समेत हाज़िरी दी. पौष कृष्ण १ [ता० १५ रमज़ान = ता० २७ नोवेम्बर] को बादशाहने आगरेकी तरफ कूच किया, और महाराजा जशवन्तसिंह व महाराजा जयसिंहको खिलअत देकर अपने अपने बतन जानेकी रुखसत दी, और महाराजा जयसिंहके कुंवर रामसिंह और कीर्तिसिंहको घोड़ा और सिरोपाव देकर उनके बापके साथ विदा किया. पौष कृष्ण २ [ता० १६ रमज़ान = ता० २८ नोवेम्बर] में कुंवर राजसिंहको खिलअत उम्दा, तलवार, ढाल व सामान सुनहरी मीनाकार समेत घोड़ा व हाथी तथा कुछ जेवर जो राजपूत राजा पहनते थे, और अव्वल दरजेके दो सर्दारोंको खिलअत और घोड़े और आठ सर्दारोंको खिलअत दिये, और महाराणा जगतसिंहके वास्ते मोतियोंकी माला और तलवार, ढाल सुनहरी मीनाकारीकी व दो घोड़े, एक अरबी और एक इराकी मण सोने के सामानके देकर रुखसत किया. पौष कृष्ण ४ [ता० १८ रमज़ान = ता० ३० नोवेम्बर] के दिन सादुल्लाखांको खिलअत और डेढ़ हज़ारी जात और तीन सौ सवारसे दो हज़ारी जात व पांच सौ सवारका मन्सब देकर खिदमत मीरसामानीपर मुकर्रर किया. पौष कृष्ण १० [ता० २४

(१) इस देगमें १४५ मन बादशाही तोलके चावल, गोश्त, घी, मसाला वगैरह एकबार पकता है, इसे बादशाह जहांगीरने हिज्जी १०२३ [वि० १६७१ = ई० १६१४] में बनवाकर भेट किया था.

रमजान = ता० ६ डिसेम्बर] को मालपुरमें मकाम हुआ, जो राजा बिठ्ठलदास गौड़की जागीरमें था; राजा बिठ्ठलदासने एक हाथी और एक हथनी बादशाह को नज़ की; जिसमेंसे हथनी रक्खी गई. रामपुरकी तरफ़ होतेहुए पौष शुक्र १ [ता० आखिर रमजान = ता० १२ डिसेम्बर] को बाड़ी पहुंचे, वहां राजा कृष्णसिंह भदौरियेके मरनेकी ख़बर पहुंची. कृष्णसिंहके औलाद न होनेके सबब उसके भतीजे बदनसिंहको गोद रखकर राजाका खिताब व खिलअत और मन्सब इनायत किया, और अब्दुल्लाखां फ़ीरोज़जंगकी जागीर ज़ब्त होकर जो रु० १००००० एक लाख सालियाना नक़्द मुकर्रर होगये थे, बादशाहने फिर मिहर्बान होकर छः हज़ारी ज़ात व छः हज़ार सवारका मन्सब दिया. इसके बाद माघ कृष्ण १ [ता० १५ शव्वाल = ता० २७ डिसेम्बर] को बादशाह आगरे दाखिल होगये. कुंवर राजसिंह भी बादशाहसे रुख़्मत होकर उदयपुर आये.

जब राव अमरसिंह राठौड़ नागौर वाला आगरेमें सलाबतखांको मारकर शाही दरबारमें अर्जुन गौड़के हाथसे मारागया और यह बात मशहूर हुई, उस वक्त राठौड़ बल्लू चांपावत व राठौड़ भावसिंह कूपावत, जो बादशाही नौकर थे, अमरसिंहके मकानके पास रहते थे. अर्जुन गौड़का मकान भी अमरसिंहके मकानके पासही था. अमरसिंहके आदमियोंमेंसे जिनका जी नहीं ठहरा वे तो उसी वक्त भागकर नागौरकी तरफ़ चलेगये, और कितने ही राजपूतोंने अर्जुन गौड़को मारकर अपने मालिकका बदला लेना चाहा, बल्लू व भावसिंह भी इनके शरीक होगये; जिस वक्त बल्लू राठौड़ मरनेके लिये तय्यार हुआ उसी वक्त महाराणा जगतसिंहका भेजाहुआ नीला घोड़ा उसके पास पहुंचा.

यह इस तरह हुआ, कि राठौड़ बल्लू चांपावत जोधपुरके महाराज सूरसिंहके पास रहता था, इसका मिजाज बहुत तेज़ था, सो कुछ तक्रार होनेके सबब उदयपुर में महाराणा अमरसिंहके पास आरहा, फिर कुछ अर्से बाद महाराणा कर्णसिंहके वक्त कुंवर अमरसिंह राठौड़ने इसको बुलालिया अमरसिंह बादशाही मन्सबदार होगया, तब इन दोनों राजपूतोंको भी शाही खिदमतमें हाज़िर किया, और बादशाही मुलाज़िम बनवाया. कुछ अर्सेके बाद उदयपुरमें महाराणा जगतसिंहके पास एक काठियावाड़ी चारण तीन घोड़े लाया और हर एक की कीमत दस हज़ार रुपये बयान की. रुपये ज़ियादा होनेके बाइस एतराज हुआ, तब उस सौदागरने घोड़ोंका सख़्त इम्तिहान करनेको कहा, उसी तरह एक घोड़ेका इम्तिहान किया गया, उस घोड़ेके दोनों बग़लमें पूरे पूरे पेशकब्ज़ मारकर जितनी दूरका वादा

किया गया था, वहां तक घोड़ेने बराबर धावा किया, और फिर घोड़ा मर गया. सौदा-गरको तीस हजार रुपये तीनों घोड़ोंके दिये गये, एक इम्तिहानमें मरा, दो बाकी रहे; महाराणाने फर्माया, कि एक घोड़ेपर हम चढ़ेंगे, और दूसरा बल्लू चांपावतके लायक है; उस दूसरे नीले घोड़ेको मए सामानके आगरेकी तरफ रवाना किया, वह घोड़ा उसी वक्त पहुंचा कि जब बल्लू मरनेको तय्यार हो रहा था. घोड़ेपर सवार होकर महाराणा जगतसिंहसे अर्ज करवाई, कि मुझको ऐसे वक्तमें घोड़ा इनायत करके पूरा राजपूत बनाया, जिसका शुक्रिया अदा नहीं कर सका, मैं तो मारा-जाऊंगा और इसका बदला ईश्वर आपको देगा. यह कहकर बल्लू चांपावत मारा गया, जिसका हाल मौकेपर लिखा जायगा.

जबसे महाराणा जगतसिंहने मेवाड़का राज्य पाया, तबसे वह मज्दबी अकीदोंको तरकी देते रहे, विक्रमी १७०४ [हि० १०५७ = ई० १६४७] में उँकारनाथकी यात्रा करनेके लिये उदयपुरसे कूच किया, पहिला मकाम उदयसागरकी पालपर हुआ; पालके नीचे नालेपर अपने बनवाये हुए महलोंमें, जो शिकस्ता अभी तक मौजूद हैं, रात रहे, वहांसे मन्जिल बमन्जिल बड़े लश्करके साथ उज्जैन पहुंचे, जहां मालवेका सूबेदार रहता था. सूबेदारसे कुछ बिगाड़ होगया, लेकिन फौजकी जियादतीके सबब वह दब गया, वहांकी तीर्थ यात्रा और क्षिप्रा (छपरा) नदी का स्नान करके मान्धातापुरी (उँकारनाथ) में पहुंचे, और नर्मदा स्नान करनेके बाद विक्रमी १७०५ आषाढ़ कृष्ण ३० [हि० १०५८ ता० २९ जमादियुल्-अव्वल् = ई० १६४८ ता० २२ जून] को सुवर्णका तुलादान (१) किया— (शेषसंग्रह प्रशस्ति नम्बर ३), और पीछे उदयपुर पधारे. मालवेके सूबेदार ने महाराणाकी बड़ी लम्बी चौड़ी शिकायत शाही दरबारमें लिख भेजी, जिससे बादशाह दिलसे नाराज हुआ, परन्तु शाहजहां अपने पिताके जमानेमें उदयपुरकी सुलह अपनी मारिफत होना व शाहजादगीमें अपनी पनाहकी जगह जानकर दरगुजर करता था.

फिर इन महाराणाने राजधानी उदयपुरमें जगन्नाथरायजीका मन्दिर बनवाकर विक्रमी १७०९ द्वितीय वैशाख शुक्ल १५ गुरुवार [हि० १०६२ ता० १४ जमादियुस्सानी = ई० १६५२ ता० २४ मई] को प्रतिष्ठा की—(शेषसंग्रह, नम्बर ४), जिसमें कृष्णभट्टको बहुत दान दिया, मुकुन्द व भूधर गजधरको बहुत इनआम दिया. इस मन्दिरके

(१) इस तुलादानका तोरण कृति श्वेत पाषाणका उँकारनाथके द्वारपर है, और काले पत्थरकी प्रशस्ति मन्दिरकी दक्षिणी दीवारमें अभी तक मौजूद हैं.

पास उत्तर दिशा एक दूसरा मन्दिर इन महाराणाकी धायने इसी जमानेमें बनवाया- (शेषसंग्रह, प्रशस्ति नम्बर ५). इन महाराणाने इसी वर्षके अखीरमें तीर्थ यात्रा करनेका इरादा किया था, लेकिन ईश्वरेच्छासे वह न होसका, उनकी उम्रका भी अन्त आचुका था; आखिरकार विक्रमी १७०९ कार्तिक कृष्ण ४ [हि० १०६२ ता० १८ जीकाद = ई० १६५२ ता० २५ अक्टोबर] को इस संसारसे परलोक निवासी हुए.

इन महाराणाके देहान्तसे हिन्दुस्तानके अक्सर लोगोंको बड़ा ही रन्ज हुआ; इनकी प्रकृति मिलनसार रहमदिल थी, कभी कभी लोगोंके कहनेसे बेरहमी भी करते थे, परन्तु बहुत कम; यह बुलन्द हिम्मत थे, इनकी बख्शिश मशहूर है, कि अपनी गद्दीनशीनीके दिनसे देहान्त तक हर साल सुवर्णका तुलादान करते थे, तुलादानके चिन्ह सफेद पत्थरके तोरण, उँकारनाथ व श्री एकलिंगजीकी पुरी व उदयपुरमें बड़ीपौलके भीतर पूर्वी दीवारपर खड़े हैं. यह अपने मजहबके बड़े पाबन्द थे, ब्राह्मण और चारणोंको इन्होंने जो दान दिया उसकी संख्याका एक दोहा मशहूर है--

दोहा.

सिन्धुर दीधा सातसै हैवर छपन हजार ॥

एकावन सासण दिया जगपत जगदातार ॥ १ ॥

इसी तरह एक श्लोक भी लिखा है-

लक्षं हयान् सप्त शतं गजानां ग्रामान् शतं षोडश दान युक्त ॥

योदत्तवानर्थि जनाय भूपतिः कस्तं नृपं स्तोतु मिह प्रसज्येत् ॥ १ ॥

ऊपरके दोहे और श्लोकमें इस्तिलाफ़ है, इसका यह सबब मालूम होता है, कि दोहेमें जो दिये हुए हाथी, घोड़े, ग्राम हैं, वह तादाद चारणोंको मिलनेकी है, और श्लोकमें ब्राह्मण चारण वगैरह कुल्लको मिलनेकी तादाद होगी. दोहेकी तादाद- हाथी ७००, घोड़े ५६०००, ग्राम ५१. श्लोककी तादाद- हाथी ७००, घोड़े १०००००, और ग्राम १००. उनके प्रजापालन व नौकरोंकी पर्वरिशका बयान अबतक मेवाड़के छोटे बड़े लोगोंकी ज़बानपर जारी है. एक दोहा मारवाड़ी भाषामें आम लोगोंकी ज़बानी मशहूर है-

दोहा.

साईं करे परेवड़ा जगपतरे दरबार ॥

पीछेले पाणी पियां कण चुग्गां कोठार ॥ १ ॥

मतलब इसका यह है, कि ईश्वर हमको जानवर भी बनावे, तो जगतसिंहके दर्बारका कबूतर करे, ताकि पीछोले तालाबमें पानी पिये और कोठारके दाने चुगें. इन महाराणाका दर्मियानीकद, मजबूत बदन, बड़ी आंख, चौड़ी पेशानी, हंस मुख चिहरा, और सियाही माइल गेहुवां रंग था; इन्होंने चित्तौड़गढ़की मरम्मत करवाई, माला बुर्ज, पाडल पौल, लक्ष्मण पौलका शुरू तो महाराणा कर्णसिंहने किया था, लेकिन इन्होंने तमाम तय्यार कराया; जगमन्दिरोंमें बड़ा गुम्बज महाराणा कर्णसिंहने तय्यार करवा दिया था, लेकिन इन्होंने जनाना महल व बागीचा वगैरह बनवाकर उन महलोंका जगमन्दिर नाम रक्खा, और अपने संग्रहीता स्त्री अर्थात् खवासके बेटे मोहनदासके नामसे छोटासा मोहनमन्दिर महल पीछोलेमें बनवाया, जो शहरके पास पश्चिम तरफको है, इन्होंने उदयसागर तालाबकी पालके नीचे पूर्वी तरफ नालेपर महल बनवाया. इन महाराणाके पुत्र २, बड़े राजसिंह और छोटे अरिसिंह थे. महाराणाका जन्म विक्रमी १६६४ भाद्रपद शुक्ल ३ [हि० १०१६ ता० १ जमादियुल्-अव्वल = ई० १६०७ ता० २५ अगस्त] को हुआ था.

अबुल् मुजफ्फर शिहाबुद्दीन मुहम्मद खुर्रम, साहिव किराने सानी,
शाहजहां बादशाह.

इस बादशाहका जन्म हिज्जी १००० ता० आखिर रबीउल-अव्वल [वि० १६४८ माघ शुक्ल १ = ई० १५९२ ता० १७ जैन्वूअरी] को हुआ. जब बादशाह जहांगीरका देहान्त हुआ, उस समय एक साथ तहलका मचगया, परन्तु आसिफ्खां बड़ा होशियार आदमी था, जिसने शाहजादे खुस्त्रौके बेटे बुलाकीको कैदसे निकालकर नामके वास्ते तरुतपर बिठाया, और अपने दामाद शाहजहांके पास बनारसी नामी कासिदको अपने नामकी अंगूठी देकर दक्षिणकी तरफ रवाना किया.

नूरजहां बेगम अपने दामाद शहरयारको तरुत नशीन करना चाहती थी, उसने आसिफ्खांको बुलाया, लेकिन वह न गया; सब लोग जहांगीरकी लाश लेकर नूरजहां सहित लाहौर पहुंचे, वहां नूरजहांके बागमें उसको दफ्न किया. सब अमीर आसिफ्खांकी दिली स्वाहिशको जानते थे, कि वह अपने दामाद शाहजहांको

तस्तनशीन करेगा, इसलिये उससे मिलावट करने लगे. ये लोग तो फौज सहित नदीके पार थे, शाहजादे शहरयारने लाहौरमें खजाने व शाही कारखानोंपर कब्जा किया और बहुतसे इनआम इक्राम व मन्सब देने लगा, एक फौज एकट्ठी करके आसिफ़्खां वगैरहकी फौजसे सामना किया. नूरजहां बेगम आसिफ़्खांकी हिरासतमें नजरबन्द थी, लडाईमें शहरयार हारकर भागा, और किले लाहौरमें जा घुसा. आखिरकार वह गिरिफ़्तार होकर बुलाकीके सामने लाया गया, फिर अल्लाहवर्दी-खांकी सुपर्दगीमें कैद हुआ और उसकी आंखोंमें सलाई फेरदी गई; शाहजादे दान-यालके दो बेटे तहमूस और हौशंग भी, जो शहरयारके सिपहसालार बने थे, गिरि-फ़्तार होकर कैद किये गये.

बनारसी कासिद आसिफ़्खांकी मुहर लेकर २० दिनमें निजामुल्मुल्ककी हद्द मुल्क दक्षिणके खैबर मकामपर शाहजादेके लश्करमें पहुंचा. पहिले महाबतखां से सब हाल कहा, जो उसको शाहजहांके पास ले गया, और आसिफ़्खांकी अंगूठी नज़र करके उसकी खैरखाहीका हाल बयान किया. शाहजहांने उसी समय एक फ़र्मान आसिफ़्खांके नाम लिखकर अमानुल्लाह व बायज़ीदखांके हाथ अपनी रवानगीके बारेमें भेजा, और दूसरा फ़र्मान दक्षिणके सूबेदार खानेजहांके पास जानि-सारखांके हाथ पहुंचाया, लेकिन खानेजहांने शाहजहांके बखिलाफ़ कार्रवाई की. निजामुल्मुल्कसे मिलकर कुछ मुल्क तो उसके सुपर्द किया, और आप मग़ राजा गजसिंह जोधपुरवाले व राजा जयसिंह आंबेरवाले वगैरह शाही सर्दारोंके मांडूमें पहुंचकर दक्षिण व मालवेमें कब्जा कर लिया, क्योंकि वह जहांगीरका बड़ा एति-वारी सर्दार और शाहजहांका दुश्मन था.

शाहजहांने हिज्री १०३७ ता० २३ रबीउल्अव्वल [वि० १६८४ मार्गशीर्ष कृष्ण ९ = ई० १६२७ ता० ४ डिसेम्बर] को कूच किया. नाहरखां उर्फ़ शेरखांकी अर्जी अहमदाबादसे पहुंची, कि बन्दह तो आपका नौकर है, परन्तु सैफ़खां का दिल बिल्कुल फिराहुआ है. इस अर्जीके जवाबमें शेरखांको अहमदाबादका सूबेदार मुक़र्रर करके सैफ़खांको गिरिफ़्तार करलानेका हुक्म दिया, लेकिन बादशाहकी बेगम मुम्ताज़महलकी बहिन (आसिफ़्खांकी दूसरी बेटी) का विवाह सैफ़खांके साथ हुआ था, इस खयालसे खिदमतपरस्तखांको भेज दिया, कि सैफ़खांको नजरबन्द हमारेपास लेआवे, और उसे किसी तरहकी तकलीफ़ न हो.

शाहजहां, नर्मदा पार होकर सिनौरमें पहुंचा, वहीं सालगिरहका जश्न किया, और खिदमतपरस्तखां सैफ़खांको लेकर हाज़िर हुआ. शाहजहांने मुम्ताज़महलकी सुफ़ारिशसे उसे छोड़ दिया. फिर वहांसे अहमदाबादमें पहुंचकर कौकरिया

तालाबपर ठहरा और शेरखांको पांच हज़ारी जात व सवारका मन्सब देकर गुजरात का सूबेदार बनाया; मिर्जा ईसातरखांको चार हज़ारी जात व दो हज़ार सवारका मन्सब और पटनेकी सूबेदारी मिली. सात दिन तक यहीं ठहरे, और उसी जगहसे एक खास दस्तख़ती फ़र्मान आसिफ़खांके नाम खिदमतपरस्तखांके हाथ लिखकर लाहौर भेजा, कि इस वक्त बहुत सख्त गर्मी पड़रही है, अगर दावरबख़्श व गुर्शास्प ख़ुन्त्रोके बेटे और शाहज़ादा शहरयार व शाहज़ादे दानयालके बेटे तहमूस व होशंग, पांचोंको मारडालाजावे, तो सब भगड़ा दूरहोकर बे फ़िक्री हो.

हिज्री १०३७ ता० २२ जमादियुल्अव्वल् [वि० १६८४ माघ कृष्ण ८ = ई० १६२८ ता० ३० जैनुअरी] को “अबुल्मुज़फ़्फ़र शिहाबुद्दीन मुहम्मद साहिब किराने सानी शाहजहां बादशाह गाज़ी” के नामसे लाहौरमें खुत्वा पढ़ागया. उसी वक्त दावरबख़्श कैद हुआ, और उसी महीनेकी २५ तारीख़ [वि० माघ कृष्ण ११ = ता० २ फ़ेब्रुअरी] को रज़ाबहादुरके हाथसे पांचों शाहज़ादे लाहौरमें मारेगये (१). शाहजहां अहमदाबादसे कूच करके गोगूंदे आया, वहां महाराणा कर्णसिंहने मुलाक़ात (२) की. दस्तूरके अनुसार नज़ व बख़शिश हुई; महाराणाने अपने छोटे भाई अर्जुनसिंहको फ़ौज सहित शाहजहांके साथ करदिया. उस (शाहजहां) ने अपने लश्करकी हरावलमें अर्जुनको मुक़र्रर किया. फिर मांडल के तालाबपर ३६ वर्षकी उम्र पूरी होकर सैंतिसवां साल शुरू होने के सबब शाहजहांकी सालगिरहका जश्न (उत्सव) सूर्जके हिसाबसे हुआ.

ता० १७ जमादियुल् अव्वल् [माघकृष्ण ३ = ता० २५ जैनुअरी] को अजमेरमें पहुंचकर ख़ाजह मुईनुद्दीन चिश्तीकी जियारत की, और एक मस्जिद संग मरमरकी वहां बनवाई, जो अबतक मौजूद है. ता० २६ जमादियुल्अव्वल् [माघ कृष्ण १२ = ता० ३ फ़ेब्रुअरी] गुरुवार को रात्रिके वक्त आगरे पहुंचकर नूरजहांके बाग़में ठहरा, और ता० ८ जमादियुस्सानी [फ़ाल्गुन् कृष्ण १४ = ता० ७ मार्च] को तख़्तपर बैठकर अपना खिताब “अबुल् मुज़फ़्फ़र शिहाबुद्दीन मुहम्मद साहिब किराने सानी शाहजहां बादशाह

(१) मारवाड़की ख्यातमें लिखा है, कि इस वक्त शाहजहांके हुक्मसे आसिफ़ख़ाने शाही खान्दानके १८ शाहज़ादोंकी जान ली, एक दोहा भी इस बाबत मारवाड़ी भाषामें मद्रहूर है—

दोहा.

सबल सगाई नागिणे । ना सबलांसूं तीर ॥ खुरम अठारा मारिया । कीका, काका, वीर ॥ १ ॥

(२) यह मिलना शाहज़ादगीके तौरपर ही हुआ था.

गाजी" खुतबों व फ़र्मानोंमें जारी किया, इसी जुलूसमें राजा भीमसिंह अमरसिंहोतके बेटे रायसिंहको दो हज़ारी ज़ात और एक हज़ार सवारका मन्सब दिया. उस वक्त रायसिंह बहुत बालक था, लेकिन भीमसिंहकी बहादुरी व उम्दा खिदमतोंपर खयाल रक्खा, और टोडेका परगना जो भीमसिंहको जहांगीरसे मिला था, (और अब जयपुरके राज्यमें है) रायसिंहको कितने ही नये परगनों समेत इनायत किया.

इस बादशाहने सिन्देका रिवाज, जो अकबरके अहदसे जारी था, बदलकर खाली ज़मीनसे हाथ लगाकर सलाम करनेका तरीका बांधा, और आलिम व सय्यद लोगोंके लिये सलामके एवज़ खाली हाथ उठाकर दुआ पढ़ेना करार पाया. आसिफ़ख़ांको आठ हज़ारी ज़ात और सवारका मन्सब दिया, और महाबतख़ांको खानख़ानांका खिताब, सिपहसालारीका उहदा व सात हज़ारी ज़ात और सवारका मन्सब दिया, इसके सिवाय और भी कई आदमियोंको मन्सब दियेगये, जिनकी फ़िहरिस्त आखिरमें लिखी जायगी.

इसी सन्की ता० १ रजब [फाल्गुन शुक्ल ३ = ता० १० मार्च] को दाराशिकोह लाहौरमें हाज़िर हुआ, और इरादतख़ांको विज़ारतका उहदा मिला. ता० १८ रजब [चैत्र कृष्ण ४ = ता० २७ मार्च] को कासिमख़ां व राजा जयसिंहको महाबनका फ़साद मिटानेके लिये भेजा. फिर ता० २३ शअबान [वि० १६८५ वैशाख कृष्ण ९ = ता० २९ एप्रिल] को सात वर्षकी उम्रमें सुरय्याबानू का देहान्त हुआ, जो इस बादशाहकी बेटी थी. इसके बाद ता० ४ रमज़ान [वैशाख शुक्ल ११ = ता० ८ मई] को शाहज़ादा दौलतअफ़ज़ा पैदा हुआ, और कासिमख़ां व राजा जयसिंह महाबनका बन्दोबस्त करके लौटआये. बल्ख व बदख़ांके बादशाह नज़मुहम्मदने काबुलपर चढ़ाई की, लेकिन वह शिकस्त खाकर पीछा चला गया. महाबतख़ां खानख़ानांको काबुलका बन्दोबस्त करनेके लिये भेजा, जिसके साथ नीचे लिखे हुए सर्दार थे—

राव रत्न सरबलन्दराय हाड़ा, राजा रायसिंह कछवाहा, सर्दारख़ां, बीकानेरका राव सूर व मोतमदख़ां वगैरह. इनके वहां पहुंचनेपर तुर्क लोग काबुलसे भागगये.

हिज्री ता० १५ जिल्हिज [वि० भाद्रपद कृष्ण १ = ई० ता० १७ ऑगस्ट] को कासिमख़ांको बंगालेकी सूबेदारी मिली, और महाबतख़ांके बेटे खानेजहांको दक्षिण, बरार और खानदेशकी सूबेदारी दी गई. बीजापुर और गोलकुंडेके बादशाहोंने कुछ तुहफ़े और अर्जियां बादशाहके पास भेजीं.

हिज्री १०३८ [वि० १६८५ = ई० १६२९] में महाबतखां काबुलसे लौट आया, और तूरानके बादशाह इमामकुलीखांके पास शाहजहांने एल्ची भेजा; अब्दुल्लाखांने जुभारसिंह बुंदेलेके कई किले लेलिये, आखिरमें महाबतखांकी मारिफत सुलह होगई. इसके बाद बालाघाटका इलाका, जो खानेजहां लोदी पहिले सूबेदारने कई किरोड़ रुपये लेकर दक्षिणियोंको देदिया था, बादशाह शाहजहांकी मर्जीके मुवाफिक निजामुल्मुल्कने वापस दे दिया. इसी सालकी ता० ८ रमजान [वि० १६८६ वैशाख शुक्ल ६ = ई० १६२९ ता० २९ एप्रिल] को शाहजादा दौलत-अफ्जा मरगया, और ईरानके शाह अब्बासने बहरी बेगको एल्ची बनाकर शाहजहांके पास भेजा. खानेजहां लोदी बादशाहसे बागी होकर भागा, जिसके पीछे नीचे लिखे हुए सर्दारोंको भेजा—

स्वाजह अबुल्हसन, खानेजमां, सय्यद मुजफ्फरखां, राजा जयसिंह कछवाहा, नसीरीखां, फिदाईखां, बीकानेरका राव सूर, राजा बिट्ठलदास गौड़, राजा भारथ बुंदेला, सर्दारखां, मोतमदखां, खिदमतपरस्तखां, माधवसिंह हाड़ा, राय हरचन्द परिहार वगैरह. इनमेंसे मुजफ्फरखां और राजा बिट्ठलदास धौलपुरके पास जल्द जापहुंचे, सामना होनेपर खानेजहां भाग गया, दोनों तरफके बहुतसे आदमी मारेगये, फिर खानेजहां भागकर निजामुल् मुल्कके पास चलागया.

हिज्री १०३९ ता० ८ जमादियुलअव्वल [वि० १६८६ पौष शुक्ल ६ = ई० १६२९ ता० २१ डिसेम्बर] को बादशाह शाहजहां दक्षिणकी तरफ रवाना हुआ. ता० २० रजब [चैत्र कृष्ण ६ = ई० १६३० ता० ५ मार्च] को फौजके तीन हिस्से किये. एक इरादतखांके साथ, जिसमें जुभारसिंह बुंदेला, रिजवांखां मशहदी, इक्रामखां फतहपुरी, नूरुद्दीन कुली, राव दूदा चन्द्रावत रामपुरेका, राजा भगवानदास कछवाहेका पोता और माधवसिंहका बेटा शत्रुशाल कछवाहा, कर्मसी राठौड़, अहमदखां नियाजी, राजा द्वारिकादास कछवाहा, बलभद्र शैखावत, मीरअब्दुल्ला, मुगलखां, श्यामसिंह सीसोदिया जगमालोत, राजा गिर्धर, मुलतफितखां, इहतिमामखां, राव मनोहरका पोता मुलूकचन्द, रामचन्द्र हाड़ा, जगन्नाथ राठौड़, मुकुन्ददास जादव, उदयसिंह राठौड़, याकूतखां हवशी, मालू घोसलाके भाई खेलू और मन्ना, पर्सू भूसला वगैरह, कुल बीस हजार सवार मुकर्रर हुए.

दूसरी फौजका अफसर राजा गजसिंह था, जिसके साथ नुस्रतखां, बहादुरखां रुहेला, राजा बिट्ठलदास गौड़, अनीराय बड़गूजर, राजा मनरूप कछवाहा, जानिसारखां, रावल पूजा डूंगरपुर वाला, शरीफखां, भीम राठौड़, राजा वीरनरायण बड़गूजर, खानेजहां काकड़, खन्जरखां, उस्मान रुहेला,

हबीब सूर, मीर फैजुल्ला, गोकुलदास सीसोदिया, नूरमुहम्मद अरब, करीम दादवेग काकूशाल, नरहरदास भाला, राव हरिचन्द परिहार और ऊदाराम वगैरह, कुल्ल पन्द्रह हजार सवार कियेगये.

तीसरी फौजमें शायस्ताखांके मातहत, सिपहदारखां, राजा जयसिंह कछवाहा, फिदाईखां, बीकानेरका राव सूर, पहाड़सिंह बुंदेला, अल्लाह वर्दीखां, माधवसिंह हाड़ा, राजा रोजअफ़्ज़ू, मरहमतखां, चन्द्रमन बुंदेला, राजा कृष्णसिंह भदौरिया, भगवानदास बुंदेला, इमाम कुली, रावत् राव, आतिशखां हबशी, आसिफ़खांकी जागीरके तीन हजार सवार, महाराणा जगतसिंहके काका अर्जुनसिंहके साथवाले पांच सौ सवार, और दूसरे मन्सबदार वगैरह, सब पन्द्रह हजार सवार थे; कुल्ल फौजकी तादाद ५०००० थी.

ता० २६ रजब [चैत्रकृष्ण १२ = ता० ११ मार्च] को बादशाह बुर्हानपुर पहुंचे, और फौजोंको आगे बढ़ाया. हिज्री जीकाद [वि० १६८७ प्रथम आषाढ़ = ई० जून] में खानेजहां और उसके मददगार दक्षिणियोंसे मुकाबला करके शाहजहां के नीचे लिखे हुए सर्दार मारे गये—

इमाम कुली, रहमानुल्ला, शत्रुशाल कछवाहा अपने दो बेटों भीमसिंह व अनन्दसिंह सहित, राव चन्द्रसेन राठौड़का पोता कर्मसी, बलभद्र शैखावत, जयमल्ल मेड़तियेका पोता और केशवदासका बेटा राजा गिरधर राठौड़ वगैरा कई दूसरे लोग बहादुरीसे लड़कर मारे गये. राजा द्वारिकादास शैखावत ज़रूमी होकर गिरगया, और मुलतफ़तखां व राव दूदा चन्द्रावतने भागकर जान बचाई.

हिज्री १०४० रबीउस्सानी [वि० १६८७ कार्तिक = ई० १६३० नोवेंबर] को आजमखांकी मातहतीमें खानेजहां लोदी पर राजा जयसिंह व अर्जुनसिंह महाराणा अमरसिंहके बेटे वगैरहने हमला किया, जिससे दक्षिणी भाग गये, और परगना जामखेड़ा फौजने अपने कब्जेमें करलिया. इसी सन्के जमादियुस्सानी [वि० पौष = ई० १६३१ जैन्यूर] को दर्याखां दक्षिणी मारागया, और क़िला धारोड़ शाहजहांकी फौजने दक्षिणियोंसे छीन लिया.

हिज्री ता० २८ जमादियुस्सानी [वि० माघ कृष्ण १४ = ई० ता० १ फ़ेब्रुअरी] को खानेजहां बागीपर सस्त हमला हुआ, और उसके बेटे व साथी मारेगये. खानेजहां भागकर कालिन्जरके इलाकेमें सय्यद मुज़फ़्फ़रखां और माधवसिंहसे मुकाबला करके मारागया, और १०० आदमी व उसके बेटे क़त्ल हुए; बादशाही तरफ़के २८ आदमी मारेगये, और कुछ ज़रूमी हुए. इसी साल दक्षिण व गुजरात वगैरहमें बारिशकी कमीसे बड़ा भारी अकाल पड़ा; राजा बिठलदास गौड़को उसकी कारगुजारीके एवज़ रणथम्भोरका क़िला दियागया.

इसी सालकी तारीख १७ जिल्काद [वि० १६८८ आषाढ़ कृष्ण ३ = ई० ता० १७ जून] को बादशाहकी बेगम मुम्ताजमहल मरगई, जिससे शाहजहां को बड़ा रन्ज हुआ.

हिजी १०४१ ता० ५ रबीउलअव्वल [वि० १६८८ आश्विन शुक्र ३ = ई० १६३१ ता० २९ सेप्टेम्बर] को बीकानेरके राव सूरसिंहका देहान्त हुआ, उस के बेटे कर्णसिंहको दो हज़ारी जात व डेढ़ हज़ार सवारका मन्सब और रावका खिताब देकर बीकानेरकी जागीर बहाल रखी; दूसरे बेटे शत्रुशालको पांच सौ जात व दो सौ सवारका मन्सब मिला. इसी वर्षके जमादियुलअव्वल [वि० मार्गशीर्ष = ई० नोवेम्बर] में बूंदीका राव रत्नसिंह हाड़ा मरगया. तब शाहजहां बादशाहने उसके पोते राव शत्रुशालको तीन हज़ारी जात व दो हज़ार सवार का मन्सब और रावका खिताब देकर बूंदी व कटखड़ वगैरह परगने जागीर में बहाल रखे. राव रत्नसिंहके दूसरे बेटे माधवसिंह (१) को ढाई हज़ारी जात व डेढ़ हज़ार सवारका मन्सब देकर परगना कोटा व फलायता जागीरमें इनायत किया, जिससे आगेको अलहदा रियासत कायम होगई. इन्हीं दिनोंमें बादशाहने फतहखां हबशीको मिलाकर अहमदनगरके निज़ामको दौलताबादमें मरवाडाला, और उसके दस वर्षके बेटे हुसैनको निज़ाम बनादिया.

आसिफ़खां को गजराज समेत बीजापुरकी तरफ़ भेजा, लेकिन शोलापुरके पाससे ये पीछे लौट आये. जशवन्तसिंह (२) राठौड़के बेटे कृष्णसिंहने नूरुद्दीन कुलीको मारडाला, जो कि दरबारसे अपने घरको जाता था, क्योंकि पहिले नूरुद्दीन के आदमियोंने जशवन्तसिंहको मारडाला था. इसकेबाद राजा भीमसिंह के बेटे राजा रायसिंहको एक हज़ारकी तरकी से तीन हज़ारी जात व बारह सौ सवार का मन्सब मिला. बादशाह शाहजहां नीचे लिखीहुई जुरूरतोंसे ता० २४ रमज़ान [वि० १६८९ वैशाख कृष्ण १० = ई० १६३२ ता० १६ एप्रिल] को आगरे वापस चला— अव्वल खानेजहां लोदी, जो वागी होगया था, अपने रिश्तेदारों सहित मारागया; निज़ामुल्मुल्क उसका मददगार बननेसे तवाह हुआ. बीजापुरका मुल्क, जो पहिले वक्तमें खराबीसे बचरहा था, इस बार उजाड़ दियागया. बादशाहकी बहुत पसन्दीदा बेगम मुम्ताजमहल मरगई. सफ़रमें दक्षिणकी सूबेदारी आजमखांसे उतारकर महाबतखांको दीगई, और दूसरी फौजें

(१) इसकी औलादके लोग अबतक कोटेमें राज करते हैं, और ये माधाणी हाड़ा कहलाते हैं.

(२) यह जशवन्तसिंह जोधपुरका राजा नहीं है, कोई दूसरा राठौड़ सर्दार मालूम होताहै.

दक्षिणसे लौटालीगई. हिजी ता० १८ जिल्काद [वि० आषाढ कृष्ण ४ = ई० ता० ७ जून] को बादशाह आगरे पहुंचा, और वहांसे ता० १ जिल्हिज [वि० आषाढ शुक्ल ३ = ई० ता० २१ जून] को दिल्लीमें दाखिल हुआ. उड़ीसेकी सूबेदारी बाकरखांसे उतारकर मोतकिदखांको दीगई.

हिजी १०४२ ता० १८ मुहर्रम [वि० १६८९ भाद्रपद कृष्ण ४ = ई० १६३२ ता० ५ ऑगस्ट] को कश्मीरकी सूबेदारी एतिकादखांसे उतारकर रूवाजह अबुल्हसनको दी. बंगालेकी तरफ हुगलीमें फरंगियोंने किला बना लिया था, जिसपर कासिमखां बंगालेके सूबेदारका बेटा अल्लाहयारखां फौजके साथ भेजा गया; उसने हजारों यूरोपियोंको कल्ल व कैद करके वहांका बन्दर बर्बाद करदिया. दक्षिणमें साहू घोसलेने एक नया निजाम बनाया, और फतहखां हबशीसे साहूकी तक्रार होगई थी, इस सबब मौकापाकर शाहजहांकी फौजने किला कालना दबालिया.

इन्हीं दिनोंमें मालवेकी तरफ खाताखेड़ीका भागीरथ भील, नसीरखांकी कोशिशसे बादशाही ताबेदार हुआ. इसी वर्षमें बादशाहने यह हुकम जारी किया, कि हमारे इलाकेमें कोई नया मन्दिर न बनवाने पावे. इसके बाद दाराशिकोहकी शादी पर्वेजकी बेटीके साथ हुई. तारीख १४ रमजान [वि० १६९० चैत्र शुक्ल १५ = ई० १६३३ ता० २५ मार्च] को राजा जयसिंह कछवाहा आंबेरसे बादशाहके पास हाजिर हुआ, और आठ दिनके बाद राजा गजसिंहने भी हाजिरी दी.

हिजी शव्वाल [वि० वैशाख = ई० एप्रिल] में शाहजादे औरंगजेब पर सिद्धकर हाथीने हमला किया. शाहजादेने, जो घोड़ेसे गिरगया था, उठकर हाथीके सिरपर भाला मारा, और पीछेसे शाहजादे शुजाअ व आंबेरके राजा जयसिंह कछवाहेने भी बर्छा लगाया; आखिरकार दूसरे सुन्दर नामी हाथीने, जो सिद्धकरसे लड़नेको मौजूद था, हमला करके भगादिया, और शाहजादा बचगया. इन्हीं दिनोंमें किला दौलताबाद दक्षिणकेसूबेदार खानेजहांने फतह करलिया. दक्षिणियों में साहू और रणदौला आदिलखां बीजापुरी की तरफसे मुकाबले पर थे; खानेजहांकी बादशाही फौजमेंसे राव शत्रुशाल हाड़ा बूंदीका, राव कर्णसिंह राठौड़ बीकानेरका, राव दूदा चन्द्रावत रामपुरेका, महाराणा जगतसिंहका काका अर्जुनसिंह मेवाड़की फौज समेत और पृथ्वीराज राठौड़ वगैरहने हमला किया. इन्हीं लड़ाइयों में राव दूदा चन्द्रावत मारागया, और निजामुल्मुल्क बादशाही फौजमें पकड़ा गया.

हिजी १०४३ [वि० १६९० = ई० १६३३] में शाहजादा शुजाअ मए राजा जयसिंह, सय्यद खानेजहां, अल्लाह वर्दीखां व माधवसिंह हाड़ा वगैरहके दक्षिणमें भेजागया. इसी वर्षमें बादशाह कश्मीरकी सैरको गया.

हिजी १०४४ [वि० १६९१ = ई० १६३४] में शाहजादे शुजाअने अपनी फौजका हरावल राजा जयसिंह व मुबारिजखांको बनाकर बीजापुरकी फौजपर कई बार धावा किया, लेकिन कामयाबी न हुई, और बर्सातके आजाने से पीछा बुर्हानपुरमें लौटआनापड़ा. इसी वर्षमें दक्षिणका मुल्क एक सूबेदारसे न संभलता देखकर दो सूबे बनाये— एक तो बालाघाट, जिसमें सब दक्षिण, दौलताबाद, पट्टन संगमनेर व कुल्ल तिलंगाना वगैरह थे, और जिसकी आमदनी ३०५०००००० रुपये थी, खानेजमांको सौंपागया; और दूसरा हिस्सा पायांघाट, जिसमें तमाम खानदेश और बरारका इलाका था, और आमदनी २३२५००००० रुपये थी, खानेदौरांकी सूबेदारीमें दियागया; और हुक्म हुआ, कि बालाघाट वाले खानेजमांके पास राजा जयसिंह, मुबारिजखां, राव शत्रुशाल हाड़ा व जगराज वगैरह दौलताबादमें रहें, और पायांघाटके सूबेदार खानेदौरांके पास राजा भारसिंह बुंदेला, माधवसिंह व नजर बहादुर वगैरह बुर्हानपुरमें रहें, और छोटे मन्सबदार बराबर बांटलियेजावें. इन्हीं दिनोंमें जमानाबेग महावतखां खानखाना दक्षिणमें सख्त बीमारीसे मरगया. इसी वर्ष बादशाह शाहजहाँने एक किरोड़ रुपयेकी लागतसे तख्त ताऊस (१) बनवाया; यह तख्त सवातीन गज लम्बा, दो गज चौड़ा और पांच गज ऊंचा था, जिसके दोनों कोनोंपर दो मोर और बीचमें एक दरख्त जवाहिरातसे बनवाया था. तीन सीढ़ियें जवाहिरकी जड़ीहुई थीं— यह तख्त सात वर्षमें बना. इसी वर्षमें राजा जयसिंह कछवाहेको एक

(१) लोग कहते हैं, कि इस तख्तमें वह बड़ा हीरा (कोहेनूर) भी जड़वाया था, जिसका पुराना वृत्तान्त कई तरहपर है — बाजे लोगोंका कहना है, कि कई हजार वर्ष पहिले यह हीरा राजा कर्णको मिला था; बाजे कहते हैं, कि महाभारतमें भीम पांडवने जब भूरीश्रवाका हाथ काटा उस वक्त यह उसके भुजपर जेवरमें जड़ा था; कोई कहता है, कि उज्जैनके राजा विक्रमादित्य पंवार को यह हीरा मिला था.

बाबर बादशाह अपनी किताबके दो सौ दो वरकमें लिखता है, कि यह हीरा अलाउद्दीन खिलजीके पास था, फिर ग्वालियरके राजा विक्रमादित्यके पास रहा, और उसकी औलादने शाहजादे हुमायूँको दिया, जो वजनमें आठ मिस्काल (साढ़े चार माशेकी एक मिस्काल गिनीजाती है) का था.

इस हीरेकी बाकी तवारीख एडविन् डब्ल्यू स्ट्रीटरने “दि ग्रेट डायमण्डस् ऑफ़ दि वर्ल्ड” के पृष्ठ ११६ से १३५ तक में इस तरह लिखी है, कि इसको नादिरशाह इस तख्तके साथ ईरान में लेगया, और उसके मरनेपर अहमदशाह दुर्रानीको मिला, जिसकी औलादमें से गुजाउल्मुल्क से, जो कन्धार छोड़कर लाहौरमें आरहा था, पंजाबके राजा रणजीतसिंहने लेलिया, और लाहौर जूट होनेके बाद वह हीरा सर्कार अंग्रेजीने लेकर क्वीन विक्टोरियाके ताजमें लगाया.

हज़ारकी तरकीसे पांच हज़ारी जात व चार हज़ार सवारका मन्सब मिला.

हिज्री १०४५ [वि० १६९२ = ई० १६३५] में ओछेंका राजा जुभारसिंह बुंदेला बागी होगया, जिसपर बादशाह अब्दुल्लाखां फ़ीरोज़जंगको भेजकर पीछेसे आप भी खाना हुए. जुभारसिंह अपने बेटे विक्रमादित्य समेत पहाड़ोंमें भागगया, और उन दोनोंको गोंड लोगोंने मारडाला. उसकी रानी अपने दोनों बेटों दुर्गभान और दुर्जनशाल समेत बादशाही कैदमें आई; पचास लाख सालयाना आमदनीका मुल्क खालिसे हुआ, एक क़िरोड़ रुपया उसके खज़ानेसे बादशाही तहतमें आया. फिर वहांसे बादशाह दौलताबाद पहुंचा, माधवसिंह हाड़ा, राव शत्रुशाल हाड़ा, राव हरिसिंह चन्द्रावत और अर्जुनसिंहने मण मेवाड़की जमइयतके क़िला रामसेन दूसरे छः क़िलों सहित दक्षिणियोंसे छीनलिया, और राजा जयसिंह कछवाहा व खाने दौराने गुलबर्गा मक़ाम तक बीजापुरका मुल्क लूट मारकर तबाह करदिया, जिससे डरकर आदिलशाहने शाहजहांके पास तुहफ़े भेज कर मुआफ़ी चाही. साहू घोसला भी आदिलशाहके पास चलागया, और क़िला जुनैर बादशाही कब्ज़ेमें आया. नया और पुराना दक्षिणका सूबा, जिसकी आमदनी पांच क़िरोड़ सालयाना थी, शाहज़ादे मुहम्मद औरंगज़ेबके हवाले हुआ.

हिज्री १०४६ ता० ७ रबीउस्सानी [वि० १६९३ भाद्रपद शुक्ल ९ = ई० १६३६ ता० १० सेप्टेम्बर] में बादशाह दक्षिणसे लौटकर मांडूके क़िलेमें पहुंचे, महाराणा जगतसिंहने कल्याण भालाको कुछ तुहफ़े देकर दक्षिणी फ़तहकी मुबारकबादी देनेको बादशाहके पास भेजा. हिज्री ता० २४ जमादियुस्सानी [वि० मार्गशीर्ष कृष्ण १४ = ई० ता० २८ नोवेंम्बर] को उसके साथ महाराणाके लिये जड़ाऊ सरपेच और जड़ाऊ तलवार भेजी. बादशाह वहांसे खाना होकर खजूरी, फलायता, और मुंडावरकी तरफ़ निकले; रामपुरेके राव हरिसिंह, कोटेके राव माधवसिंहके बेटे मोहनसिंह व जुभारसिंह और बूंदीके राव शत्रुशाल के बेटे भावसिंह तीनोंने ऊपर लिखे तीनों मक़ामोंपर नज़ें दीं, और बादशाहने उनको ख़िलअत इनायत किये. ता० १२ रजब [मार्गशीर्ष शुक्ल १४ = ता० १३ डिसेम्बर] को अजमेरमें पहुंचे; वहां महाराणा जगतसिंहके कुंवर राजसिंहने आकर नौ घोड़े पेश किये, और बादशाहने जड़ाऊ सरपेच वगैरह ख़िलअत दिया. इन्हीं दिनोंमें साहू घोसलाने निज़ामुल्मुल्कके जमाईको, जिसे उसका वारिस बनाया था, बादशाही नौकरोंके हवाले किया, और वह कैद होकर ग्वालियर भेजागया. बादशाह अजमेरसे आगरे चला, तब महाराणाके कुंवरको हाथी घोड़े ख़िलअत और उनके सदाँर बहू चहुवान और रावत मानसिंह चूडावत वगैरहको भी घोड़े ख़िलअत

देकर उदयपुरकी रुस्तत दी. जब बादशाह आगरे पहुंचे, तो खानेदौरांको छः हज़ारी जात व सवारका मन्सब और राजा जयसिंहको एक हज़ार सवारकी तरकीसे पांच हज़ारी जात व सवारका मन्सब और चाटसूका परगना जागीरमें दिया. महाराजा गजसिंहके बेटे कुंवर अमरसिंहको तीन हज़ारी जात व दो हज़ार सवारका मन्सब और माधवसिंह हाड़ाको तीन हज़ारी जात व दो हज़ार सवारका मन्सब दिया. खानेजमां दौलताबादमें मरगया. इसी वर्षके जिल्हिय महीनेमें शाहजहाँ औरंगजेबकी शादी शाहनवाज़खां सफ़वी ईरानीकी बेटिके साथ की गई.

हिजी १०४७ [वि० १६९४ = ई० १६३७] में कश्मीरके सूबेदार जफ़रखाने कुछ तिब्बतका इलाका लेलिया. महाराजा गजसिंह जोधपुरसे अपने छोटे बेटे जशवन्तसिंह समेत और कल्याण भाला महाराणा जगतसिंहकी तरफसे बादशाही हुजूरमें आये. इसी वर्ष बादशाही फौजने तुर्किस्तानमें बुस्तका क़िला फ़तह किया.

हिजी १०४८ ता० २ मुहर्रम [वि० १६९५ ज्येष्ठ शुक्ल ४ = ई० १६३८ ता० १८ मई] को आगरा मक़ामपर महाराजा गजसिंहका देहान्त हुआ, महाराजाने मरते समय बादशाहसे कहा था, कि मेरे राज्यका मालिक जशवन्तसिंहको करना चाहिये. बादशाहने भी महाराजाकी स्वाहिशके मुवाफ़िक़ वैसाही किया, जिसका व्यौरेवार हाल जोधपुरकी तवारीखमें लिखा जायगा. महाराजा जशवन्तसिंहकी कम उम्र होनेके कारण उसके राज्यकी निगरानी राठौड़ राजसिंहको सौंपी गई, जो पहिले महाराजा गजसिंहका नौकर और फिर बादशाही मन्सबदार एक हज़ारी जात व सवारका होगया था. महाराजा जशवन्तसिंहको चार हज़ारी जात व सवारका मन्सब व राजाका खिताब वग़ैरह मिला, और रायसिंह भालाको आठ सौ जात व चार सौ सवारका मन्सब इनायत किया गया; सूबे पटनाकी सूबेदारी अब्दुल्लाखांके एवज़ शायस्ताखांको दी गई.

हिजी १०४९ [वि० १६९६ = ई० १६३९] में बादशाह काबुलको चले, और आंबेरके राजा जयसिंह कछवाहेको पहिले रवाना किया; काबुलकी सैर करके थोड़ेही दिनोंमें लाहौरको लौट आये. फिर इन्हीं दिनोंमें नूरपुरके पास अली मर्दानखां रावी नदीको काटकर एक नहर बादशाही हुक्मके मुताबिक़ लाहौरमें लाया; इसके बाद कश्मीरकी सैरको बादशाह गये, जहां राव चन्द्रसेन राठौड़का पोता कर्मसेनका बेटा और महाराणा जगतसिंहका भान्जा रामसिंह राठौड़ हाज़िर हुआ, उसको एक हज़ारी जात और छःसौ सवारका मन्सब व ख़िलअत दिया गया. इन्हीं दिनोंमें मेवाड़ इलाके के सर्दार सादड़ीके जागीरदार हरिदास भालाके बेटे रायसिंहको एक हज़ारी जात और चार सौ सवारका मन्सब मिला.

हिज्री १०५० [वि० १६९७ = ई० १६४०] में बादशाह लाहौर आये, और शाहजादा मुरादबख्श, माधवसिंह हाड़ा वगैरह समेत हाज़िर हुआ। इन्हीं दिनोंमें इस जगहपर मुल्ला सादुल्ला लाहौरी बादशाही नौकर बना, जो पीछे सादुल्लाखां वजीरके नामसे मशहूर हुआ; राजसिंह राठौड़के मरजाने से राजा जशवन्तसिंहके प्रधानेका काम महेशदास राठौड़को दिया गया, जो बादशाही मन्सबदार था।

हिज्री १०५१ ता० ११ मुहर्रम [वि० १६९८ वैशाख शुक्ल १३ = ई० १६४१ ता० २३ एप्रिल] में रायसिंह भालाको एक सौ सवारकी तरकीसे हज़ारी जात व पांच सौ सवारका मन्सब मिला। इसी वर्षमें नूरपुरका राजा जगतसिंह बागी होगया, जिसपर शाहजादे मुरादबख्शको मए राजा जयसिंह कछवाहा, नागौरके राव अमरसिंह राठौड़, कोटेके राव माधवसिंह हाड़ा, कृष्णगढ़के राजा हरिसिंह राठौड़, सावरके गोकुलदास सीसोदिया और सादुल्लाके रायसिंह भाला वगैरहको भेजा; इन्होंने मऊका क़िला फ़तह करके जगतसिंहको बादशाही दरबारमें हाज़िर किया।

हिज्री १०५२ [वि० १६९९ = ई० १६४२] में शाहजादा दाराशिकोह कंधारकी तरफ़ रवाना किया गया, क्योंकि ईरानका बादशाह उस मक़ामको दबाना चाहता था; शाहजादेके साथ जोधपुरका महाराजा जशवन्तसिंह, राजा जयसिंह कछवाहा, टोडेका राजा रायसिंह सीसोदिया, नागौरका राव अमरसिंह राठौड़, और बूंदीका राव शत्रुशाल वगैरह बहुतसे मन्सबदार थे; लेकिन ईरानका बादशाह लड़नेको न आया; इसलिये शाहजादा वापस लौटा। इसी वर्षमें मुरादबख्शकी शादी शाहनवाज़खां सफ़वीकी बेटीके साथ हुई, और मुम्ताज़महल बेगमका मक़बरा आगरेमें तय्यार हुआ, जिसपर पचास लाख रुपया बादशाही खर्च हुआ, लेकिन बहुतसा काम बेगारमें लिया गया, और पत्थर मुफ़्त हाथ लगे थे; दो लाख रुपये सालानाकी आमदनीके गांव इसके खर्चके लिये मुक़रर किये गये।

हिज्री १०५३ [वि० १७०० = ई० १६४३] में बादशाह अजमेरमें ख़ाजह मुईनुद्दीन चिश्तीकी ज़ियारतके लिये आये; जोगी तालाबपर (जो कृष्णगढ़के पास है) महाराणा जगतसिंहके कुंवर राजसिंह गये। ता० १५ रमज़ान [पौष कृष्ण १ = ता० २७ नोवेंबर] को बादशाह आगरेकी तरफ़ लौटे, और जोधपुरके राजा जशवन्तसिंह और आंबेरके महाराजा जयसिंहको वतनकी रुख़सत दी।

हिज्री १०५४ सफ़र [वि० १७०१ चैत्र शुक्ल पक्ष = ई० १६४४ मार्च] में कृष्णगढ़का राजा हरीसिंह बे औलाद मरगया. बादशाहने उसके भतीजे रूपसिंहको उसकी जगह कायम किया. इसी वर्षमें शाहज़ादे औरंगज़ेबसे बादशाह नाराज़ होगये, और उसकी जागीर, जो दक्षिणमें थी, और मन्सब वगैरह ज़ब्त करके खानेदौरां नुस्रतजंगको दक्षिणका सूबेदार बनादिया. हिज्री जमादियुस्सानी [वि० श्रावण = ई० जुलाई] में राव अमरसिंह राठौड़, सलाबतखां मीर बख्शीको मारकर खलीलुल्लाखां और अर्जुन गौड़के हाथसे शाहज़ादे दाराशिकोहके मकानपर बादशाहके सामने मारागया, जिसका ज़ियादा हाल मारवाड़के इतिहासमें लिखा जायगा. कल्याण भालाको, जो बहुत दिनोंसे आयाहुआ था, उदयपुर जानेकी रुख़सत मिली; अब्दुल्लाखां बहादुर फ़ीरोज़जंग सत्तर वर्षकी उम्रमें मरगया. दक्षिणमें खानेदौरांके पहुंचने तक महाराजा जयसिंह कछवाहेको कायम मक़ाम सूबेदार रहनेका हुक्म हुआ. हिज्री जीकाद [वि० पौष = ई० डिसेम्बर] में राव अमरसिंहका बेटा रायसिंह अपने वतनसे हाज़िर हुआ, जिसको बादशाहने एक हज़ारी ज़ात व सात सौ सवारका मन्सब देकर नागौरकी जागीरपर बहाल रक्खा.

हिज्री १०५५ [वि० १७०२ = ई० १६४५] में बादशाह लाहौर होकर कश्मीर गये, अलीमर्दानखांको काबुलमें भेजा, और उसकी मददके लिये टोडेके राजा रायसिंह, राजा भारतसिंह बुंदेला व कोटेके राव माधवसिंहको रवाना किया. इन्हीं दिनोंमें हमीरसिंह (१) सीसोदिया ईश्वरदासका बेटा और दूदाका पोता अपना खुशीसे बादशाही नौकर हुआ; उसे पांच सौ ज़ात व तीन सौ सवारका मन्सब मिला. इसी वर्षमें रायसिंह भाला इलाके मेवाड़के मातहत सर्दार सादड़ीके जागीरदारको एक हज़ारी ज़ात व छः सौ सवारका मन्सब मिला; नूरजहां-बेगम, जो दो लाख रुपया सालाना तनख़्वाह पाती थी, मरगई, और उसके बापके मक़बरमें दफ़न कीगई. अली मर्दानखांकी मातहतीमें दो हिस्से फौजके बनाकर बल्ख़ और बदख़शांकी तरफ़ भेजेगये— अब्बल हिस्सेमें सर्दार निजाबतखां, मिर्जाखां, शैख़ फ़रीद, किश्वरखां, मुल्तफ़ितखां, बहादुरखां, राजा बिठलदास गौड़ अजमेरका, राव शत्रुशाल हाड़ा बूंदीका, राव माधवसिंह हाड़ा कोटेका, नज़र बहादुर, महेशदास राठौड़ राजा उदयसिंहका पोता और रतूलाम वालोंका बुजुर्ग, सय्यद आलम, शिवराम गौड़, राजा रूपसिंह कृष्णगढ़का, रामसिंह राठौड़, हयातखां, जमालखां, मुहकमसिंह, गोपालसिंह, गोकुलदास सीसोदिया, गिर्धरदास गौड़, राजा अमर-

(१) यह हमीरसिंह मेवाड़के मातहत सर्दार देवगढ़ वालोंके बड़ोंमेंसे था.

सिंह नर्वरका, सय्यद शिहाब, रायसिंह भाला सादडीका, अर्जुन गौड़, सय्यद नूरुलअयां, सय्यद मुहम्मद, दूसरा महेशदास राठौड़, मुहम्मद कासिम, सुजान-सिंह सीसोदिया शाहपुरेका, कृष्णसिंह तँवर, राव रूपसिंह चन्द्रावत, कृपाराम गौड़, उग्रसेन, इन्द्रशाल, चन्द्रभानु महूका, संग्राम कछवाहा, सय्यद शाहअली, सय्यद मक्बूल, हमीरसिंह सीसोदिया (देवगढ़ वालोंका बड़ा), पेमचन्द्र कछवाहा राव मनोहरका पोता, दानीदास मेड़तिया, सय्यद अजमेरी, बल्लू चहुवान, रावत नारायणदास सीसोदिया (बानसीवालोंका बड़ा); दूसरे हिस्सेमें किलीचखां, शाहबेगखां, राजा देवीसिंह बुंदेला, तुर्कताजखां, खन्जरखां, इहतिमामखां, रुस्तमखां, नूरुल हसन, टोडेका राजा रायसिंह सीसोदिया, राजा राजरूप, सय्यद असदुल्ला, राजा बिहरोज, शत्रुशालका बेटा अजबसिंह, सय्यद चावन, चतुरभुज चहुवान, कृष्णसिंह कछवाहा, नजीरबेग, चन्द्रमन बुंदेला, वगैरह, काबुलसे आगे बढ़े, और हिज्री १०५६ [वि० १७०३ = ई० १६४६] में बलख बदख्शांको दबालिया. वहांका बादशाह नज़मुहम्मद भागकर ईरान पहुंचा. महाराणा जगतसिंहके कुंवर राजसिंहने बादशाहके पास दिल्ली जाकर फतहकी मुबारकबाद दी, और कुछ दिनों बाद रुखसत पाई.

थोड़े दिनों बाद शाहज़ादा मुरादबख्श, जो इस फौज और मुल्ककी संभाल के लिये भेजागया था, बेरुखसत चला आया, जिससे वहांका इन्तिज़ाम बिगड़ गया; इसलिये हिज्री १०५७ [वि० १७०४ = ई० १६४७] में शाहज़ादा मुहम्मद औरंगज़ेब वहांका बन्दोबस्त करनेको भेजागया.

हिज्री १०५८ [वि० १७०५ = ई० १६४८] में बुख़ाराका बादशाह अब्दुल-अज़ीजखां मुल्क दबाने लगा, तब मुनासिब समझकर नज़मुहम्मदखांको ईरानसे बुलाकर उसका मुल्क उसको सौंप दिया.

हिज्री १०५९ [वि० १७०६ = ई० १६४९] में ईरानके बादशाह दूसरे अब्बासने किले कन्धारको लेलिया; वहां किला वापस लेनेके लिये बादशाही फौज भेजी गई, परन्तु कुछ कामयाबी न हुई, और बर्फ व सर्दियोंके डरसे लौट आना पड़ा. इन्हीं दिनोंमें बादशाह काबुल गये, और शाहज़ादे दाराशिकोहको छोड़कर आप हिन्दुस्तानमें वापस आये. इसके बाद ठठे, भकर और मुल्तानकी सूबेदारी शाहज़ादे औरंगज़ेबको दी.

हिज्री १०६० [वि० १७०७ = ई० १६५०] में बादशाहने शाहज़ादे मुरादबख्शको काबुल भेजकर दाराशिकोहको अपने पास बुलालिया. बादशाहने मेवातका इलाका

महाराजा जयसिंह कछवाहेके दूसरे बेटे कीर्तिसिंहको जागीरमें दिया, उसने फ़सादी मेवोंको मारपीटकर सीधा किया.

हिज्री १०६१ [वि० १७०८ = ई० १६५१] में बादशाह कश्मीरकी सैर को गया, पीछे लौटने पर लाहौरमें शाहज़ादा दाराशिकोह हाज़िर हुआ. इसी वर्षमें रूमके सुल्तान मुहम्मदका एल्ची मुहयुद्दीन आया, जिसकी यहां बहुत खातिरदारी कीगई, फिर सुना गया, कि राजा विट्ठलदास गौड़ मरगया, इससे रंज हुआ, और अनिरुद्धसिंहको उसके बापकी जागीर और मन्सब पर कायम किया. इसी वर्षमें सर्दारखां बहादुर ज़फ़रजंग मरगया, और उसके बेटे लुहरास्पको पांच हज़ारी जात व सवारका मन्सब और महाबतखांका खिताब देकर काबुलकी सूबेदारी इनायत की, और हाजी अहमद सईद एल्ची बनाकर रूमकी तरफ़ भेजागया. इसी वर्षके माह रम-जान [वि० भाद्रपद = ई० सेप्टेम्बर] में बादशाह काबुल जाकर पीछे लौट आये.

हिज्री १०६२ मुहर्रम [वि० १७०८ पौष = ई० १६५१ डिसेम्बर] में जहांगीर बादशाहकी बहिन शुक्रुन्निसा मरगई, और शाहज़ादे दाराशिकोहको बड़े लश्करके साथ कंधार भेजा, लेकिन फिर भी कामयाबी न हुई.

हिज्री १०६३ ता० १ जमादियुस्सानी [वि० १७१० वैशाख शुक्ल ३ = ई० १६५३ ता० ३० एप्रिल] को उदयपुरके महाराणा जगतसिंहके देहान्त पीछे मेवाड़के वकील बादशाही दरबारमें पहुंचे. बादशाहने टीकेका सामान जड़ाऊ जम्धर, तलवार, हाथी, घोड़ा वगैरह बादशाही मन्सबदारके साथ भेजा, और महाराणा जगतसिंहके छोटे भाई गरीबदासको डेढ़ हज़ारी जात व सात सौ सवार का मन्सब देकर नौकर रक्खा. इसी वर्षमें शाहज़ादे औरंगज़ेबके शाहज़ादा आजम पैदा हुआ, और आगरेके क़िलेमें सफ़ेद पत्थरकी मस्जिद तय्यार करवाई, जिस में नौ लाख रुपये खर्च पड़े.

हिज्री १०६४ [वि० १७१० = ई० १६५३] में शाहज़ादे मुराद बख़्शको शायस्ताखांके एवज़ गुजरातकी सूबेदारी और जोधपुरके राजा जशवन्तसिंहको महाराजाका खिताब दिया. इसी सन्के रबीउल्अव्वल [वि० माघ = ई० १६५४ जैन्वूअरी] में जसरूप मेड़तिया राठौड़, जो बादशाही नौकर था, किसी रंजके सबब तलवार खेंचकर बादशाहकी तरफ़ दौड़ा, पहिलेही ज़ीनेपर पहुंचा था, कि नौबतखां कोतवाल और ख़ाजा रहमतुल्लाके हाथसे मारागया. नागौरके राव अमरसिंह राठौड़की बेटी, जो महाराजा जयसिंह आंबेरवालेकी

भानूजी थी, शाहजादे सुलैमानशिकोहको व्याहीगई. इन्हीं दिनोंमें तवारीख बादशाहनामहका लिखनेवाला मौलवी अब्दुल्हमीद लाहौरी मरगया. हिजी ता० २ जिल्हिज [वि० १७११ आश्विन शुक्ल ४ = ई० १६५४ ता० १६ ऑक्टोबर] को बादशाह अजमेर आया, जिसका हाल महाराणा राजसिंहके बयानमें लिखाजायगा.

हिजी १०६५ [वि० १७१२ = ई० १६५५] में शाहजादे दाराशिकोह को “शाहे बुलन्द इक्बाल” का खिताब और तरुतके सामने सोनेकी कुर्सीपर बैठक मिली; सिरोहीके राव अक्षयराजको घोड़ा, सरपेच और कुछ जेवर इनायत कियागया, और शायस्ताखांको मालवेकी सूबेदारी दीगई.

हिजी १०६६ [वि० १७१३ = ई० १६५६] में मीर जुम्ला, जो दक्षिणी कुतुबुल्मुल्कका वजीर था, किसी नाराजगीसे निकलकर शाहजादे औरंगजेबकी सुफारिशसे बादशाही नौकर हुआ, जिसको पांच हजारी जात व सवारका मन्सब मिला, और इसी शाहजादेकी सुफारिशसे राव कर्ण बीकानेरीको जसोल बन्दर, जो गुजरातमें है, श्रीपत जर्मांदारसे छीनकर बख्शागया. इसी वर्षमें ता० २२ जमादियुस्सानी [वि० वैशाख कृष्ण ८ = ई० ता० १५ एप्रिल] को सादुल्लाखां वजीर, जो बड़ा आलिम और होशियार था, मरगया, जिसका बादशाह शाहजहांको बहुत रंज हुआ; यह वजीर बड़ा खैर स्वाह और नेक चलन आदमी था. जब मीर जुम्ला भागकर बादशाही नौकर हुआ, तब कुतुबुल्मुल्क ने उसके बेटे मुहम्मद अमीनको कैद किया. बादशाहने औरंगजेबको लिखभेजा, कि हैदराबादपर चढ़ाई करे, कुतुबुल्मुल्कने मुहम्मद अमीनको शाहजादेके पास भेजदिया, परन्तु उसका अस्बाब जेवर वगैरह दाब रक्खा, जिसपर औरंगजेबने अपने बेटे मुहम्मद सुल्तानको हैदराबादपर भेजा, और लड़ाई होनेपर आप भी वहां गया. कुतुबुल्मुल्कने जेवर अस्बाबके सिवाय अपनी बेटी मुहम्मद सुल्तानको व्याहकर एक किरोड़ रुपया दहेजमें देनेपर पीछा छुड़ाया. इस फतहके एवज मुहम्मद सुल्तानको सात हजारी जात व सवारका मन्सब, और शायस्ताखांको खाने-जहांका खिताब मिला.

हिजी १०६७ [वि० १७१४ = ई० १६५७] में आदिलशाह बीजापुरी मरगया, और अली आदिलशाह उसकी जगहपर बैठा. बादशाहने औरंगजेब को लिखभेजा, कि खानेजहांको दौलताबादमें छोड़कर आप बीजापुरपर चढ़ाई करे. शाहजादे दाराशिकोहकी तन्स्वाह डेढ़ किरोड़ रुपये सालाना कीगई. इन्हीं दिनोंमें ऐसी वबा फैली, कि कांखबिलाईकी बीमारीसे हजारों आदमी मरे. इस वर्ष दिल्लीके चारों तरफ शहरपनाहकी मजबूत दीवार बनवाई, जिसमें २७ बुर्ज

और छोटे बड़े ११ दरवाजे रक्खेगये, जो अबतक मौजूद हैं. जाहिदखां अपने शाहजहांनामहमें इसकी लागत चार लाख रुपये लिखता है; इससे मालूम होता है, कि बेगारसे मुफ्तमें बहुतसा काम लिया होगा. अली मर्दानखां अमीरुल-उमरा कश्मीरकी सूबेदारीपर जाताहुआ ता० १२ रजब [वि० वैशाख शुक्ल १३ = ई० ता० २६ एप्रिल]को रास्तेमें मरगया. इसके बाद मुअज़्जमखां मीर जुम्ला, औरंगजेबके पास दक्षिणमें भेजागया, जिसकी मददसे किला बीडर शाहजादेने फतह करलिया. फिर गुलबर्गापर दक्षिणियोंसे बादशाही फौजका बड़ा मुकाबला हुआ, जिसमें महाराणा राजसिंहकी जमइयतका सर्दार शिवराम मारागया, और राजा रायसिंह सीसोदिया व सुजानसिंह वगैरह जख्मी हुए. परन्तु गुलबर्गा और कल्यानीके किले फतह हुए, और दक्षिणी भागगये, परिन्देका किला मण जिले कोकनके व एक किरौड़ रुपया लेनेपर सुलह ठहरी. इसी अर्सेमें बादशाह शाहजहांको कई बीमारियोंने घेरलिया, जिससे दिन दिन ताकत कम होतीजाती थी. दाराशिकोह बादशाहत पानेकी उम्मेदमें अपना इस्तिथार बढ़ाता था.

हिज्री १०६८ [वि० १७१५ = ई० १६५८] में बीमारीके वक्त शाहजहां दाराशिकोहपर मिहर्बान था, लेकिन इस हालतमें उसकी तरफसे शक भी पैदा होगया, तो भी बिल्कुल शाहजादेके इस्तिथारमें रहा; शाहजादे शुजाअने बंगालेमें फौज तय्यार करके आगरेकी तरफ आनेका विचार किया; और औरंगजेबने मुरादबख्शको बादशाह बनानेका लालच देकर मिलाया. दाराशिकोहने फौजे बढ़ाकर अपना जाबित्ता किया, अपने बेटे सुलैमानशिकोहको मण महाराजा जयसिंह कछवाहेके, जिसको छः हजारी मन्सब मिलगया था, शुजाअको रोकनेके लिये बंगालेकी तरफ रवाना किया. सुलैमानशिकोहने बनारसके पास बहादुरपुर ग्राममें शाहजादे शुजाअकी फौज पर हमला करदिया, जब कि वह सोरहा था; शाहजादा शुजाअ भागकर मूंगेर पहुंचा, लेकिन सुलैमानशिकोहके डरसे वहां न ठहरा, और बंगाले चलागया. शाहजादे औरंगजेब और मुरादबख्शको रोकनेके लिये दाराशिकोहने बीस हजार फौज देकर जोधपुरके महाराजा जशवन्तसिंह और कासिमखांको दूसरे कई राजा और सर्दारोंके साथ मालवेकी तरफ रवाना किया. शाहजादे औरंगजेबने मीरजुम्लाको मिलाना चाहा, जो बड़ी फौजके साथ दक्षिणमें कल्यानीका किला घेरेहुए था, और बादशाहके बड़े सर्दारोंमें गिनाजाता था; उसको बुलाकर दौलताबाद के किलेमें कैद किया, लेकिन यह कैद मीरजुम्लाके कहनेसे की गई थी, क्योंकि उसके बालबच्चे आगरेमें दाराशिकोहके इस्तिथारमें थे; मीर जुम्लाकी फौजको साथ लेकर औरंगजेब आगरेकी तरफ रवाना हुआ, नर्मदाके पास मुराद-

बख्श भी आ मिला; औरंगजेबने धोखा देनेके लिये मुरादबख्शको बहकाया, कि मुझे बादशाहतकी जरूरत नहीं है, दारा जो काफिर होगया है, वह मज्दब खराब करदेगा, और शुजाअ भी राफिजी (१) है, इस लिये तुमको बादशाहीके लायक जानकर तरुतपर बिठानेके बाद मैं खुदाकी इबादतमें रहूंगा. इस फरेबसे वह कम अकल (मुराद) बिल्कुल अपनेको बादशाह समझने लगा, औरंगजेब भी उसको हजरत कहकर अदबके साथ पुकारने लगा; आखिरकार हिजी १०६८ ता० २१ रजब [वि० १७१५ वैशाख कृष्ण ७ = ई० १६५८ ता० २४ एप्रिल] को उजैनसे सात कोस पर धरमातपुर के पास दोनों शाहजादोंका मकाम हुआ.

महाराजा जशवन्तसिंह और कासिमखां मालवेमें पहुंचकर उजैनमें ठहरे हुए थे, और इनको हुकम भी यही था, कि पहले शाहजादे मुरादकी खबर लें. ये दोनों सदांर मुरादसे मुकाबला करनेकी फिक्रमें खाचरोद पहुंचे, लेकिन औरंगजेबने नर्मदाके किनारे पर पूरा पूरा बन्दोबस्त करदिया था, कि इधरकी खबर बादशाही लश्करमें न पहुंचे, इससे महाराजा जशवन्तसिंहको उधरका कुछ हाल न मालूम हुआ. जब ये लोग पीछे उजैनकी तरफ लौटे, उस वक्त दोनों शाहजादोंके नर्मदा उतरनेकी खबर मांडूके किलेदार राजा शिवरामने महाराजा जशवन्तसिंहके पास भेजी. तब ये पलटकर धरमातपुरके पास शाहजादोंकी फौजसे एक कोसकी दूरीपर ठहरे, औरंगजेबने कविराय (२) ब्राह्मणको महाराजा जशवन्तसिंहके पास भेजकर कहलाया, कि हम लड़ाईके बिचारसे नहीं जाते हैं, आला हजरत (शाहजहां) की कदम्बोसी और उनकी तन्दुरुस्तीका हाल दर्याफ्त करना जरूर है, तुम्हें चाहिये, कि या तो हमारे शरीक होजाओ, या रास्ता छोड़कर अपने घर चलेजाओ. जशवन्तसिंह और कासिमखाने यह बात न मानी, और जवाब दिया, कि हमको बादशाही हुकम है, कि आपको आगे न बढ़ने दें. इसपर ता० २२ रजब [वैशाख कृष्ण ८ = ता० २५ एप्रिल] को पांच छः घड़ी दिन चढ़े लड़ाई शुरू हुई. शाहजादे औरंगजेबका हरावल उसका बेटा मुहम्मद सुल्तान था, जिसके साथ निजाबतखां और उसका बेटा शुजाअतखां और सय्यद मुजफ्फरखां वारह, लोदीखां, पुरदिल्खां, कमाल लोदी, सय्यद नसीरुद्दीन दक्षिणी, जमाल बीजापुरी, इलहा-मुल्ला, अब्दुल्बारी अन्सारी, मीर अबुल्फज्जल मामूरी और कादिरदाद अन्सारी वगैरह; मददगार फौजमें जुल्फिकारखां उर्फ मुहम्मदबेग, कुछ तोपखाना और

(१) सुन्नी लोग शिया फिकेंको राफिजी कहते हैं, जिसके मझनी फिरेहुए के हैं.

(२) इस कविरायका अस्ली नाम कहीं नहीं लिखा.

बहादुरखां, हादीदादखां, सय्यद दिलावरखां, जबरदस्तखां, सम्प्रादतखां, और हमीद काकड़ वगैरह; खास तोपखानेका अफ़सर मुर्शिदकुलीखां था, जिसके मातहत कई फ़रांसीस भी काम करते थे; दाहिनी तरफ़ शाहज़ादा मुरादबख़्श अपनी फ़ौज व सर्दारों समेत तय्यार था. औरंगजेबके बाईं तरफ़की फ़ौजका अफ़सर शाहज़ादा मुहम्मद आज़म, जिसके साथ मुल्तफ़तखां, हिम्मतखां, कारतलबखां, सिपहदारखां, राजा इन्द्रमणि धन्धेरा, होशदारखां, मुस्तारखां, मीर बहादुरदिल, मुनइमखां, शैख़ अब्दुल् अज़ीज़, सय्यद यूसुफ़, इस्माईल नियाज़ी, याकूब, दिलावर, उज़बकखां, नेमतुल्ला, सय्यद हसन, कर्णसिंह (१) कच्छी, राजा सारंगधर, गैरतबेग, मुर्तजाखां, हमीदुद्दीन एतिमादुद्दौलाका पोता; औरंगजेबके पास दाहिनी तरफ़ शैख़ मीर, सय्यदमीर, अब्दुरहमान, गाज़ी बीजापुरी, फ़तहखां रुहेला, इस्माईल खेशगी, केसरीसिंह बीकानेरके राव कर्णसिंहका बेटा अपने छोटे भाई पद्मसिंह सहित, रघुनाथसिंह राठौड़, मसऊद मंगली, सय्यद मन्सूर, बादल बख़्तियार, सैफ़ बीजापुरी वगैरह. औरंगजेबके बाईं तरफ़ सफ़ शिकनखां कितने एक तोपखाने वालों समेत, ख़वासखां, सिकन्दर रुहेला, और कई एक दक्षिणी सर्दार जादवराय, रुस्तमराय, दौलतमन्दखां, दामाजी, बाबाजी घोसला, बीतूजी और जशवन्तराव थे. फ़ौजकी गिर्दावरी पर ख़ाजह उबैदुल्ला, कज़लबाशखां, अब्दुल्लाखां, मुहम्मद शरीफ़ तोलकची और राद-अन्दाजबेग, वगैरह थे. इस तमाम फ़ौजके बीचमें औरंगजेब खुद रहा; खास अर्दलीमें असालतखां, मुस्लिंसखां, तहव्वुरखां, किलीचखां, जौहरखां, हिज़बखां, मीर इब्राहीम कोरबेगी, बूंदीके राव शत्रुशाल हाड़ाका बेटा भगवन्तसिंह, शुभकर्ण बूंदेला, अल्लाहयारबेग मीरतुजक़ वगैरह थे.

महाराजा जशवन्तसिंहकी शाहीफ़ौजका जमाव इस तरह पर था, हरावल फ़ौजका सर्दार कासिमखां, जिसके साथ मुकुन्दसिंह हाड़ा, राजा सुजानसिंह बूंदेला, अमरसिंह चन्द्रावत रामपुरेका, राजा रत्नसिंह राठौड़ रतूलामका, अर्जुन गौड़, दयालदास भाला, मोहनसिंह हाड़ा, खुशहाल बेग काशग़री, सुल्तान हुसैन वगैरह थे; इनके आगे बहादुरबेग फ़ौजबख़्शी और दारोगा तोपखानहको रक्खा, जिसके साथ जानीबेग वगैरह लोग थे; और गिर्दावरी पर मुख़लिसखां, मुहम्मदबेग, यादगारबेग तूरानी; और मददगार फ़ौजमें महेशदास गौड़, गोवर्धन राठौड़ आदि थे; आप महाराजा जशवन्तसिंह चुनेहुए दो हजार राजपूतों समेत

(१) कर्णसिंह कच्छी कच्छ भुजके चन्द्र वंशी जाड़ेचा हैं.

बीचमें रहे, जिनमें भीमसिंह गौड़ राजा बिठ्ठलदासका बेटा वगैरह था; दहिनी तरफकी फौजमें टोडेका राजा रायसिंह सीसोदिया व शाहपुरेका सुजानसिंह सीसोदिया अपने भाइयों और बहादुर राजपूतों समेत मुकर्रर हुआ; बाई तरफकी फौजमें इफितखारखां, जिसके साथ सय्यद शेरखां बारह, सय्यद सालार, यादगार मसऊद, मुहम्मद मुक़ीम वगैरह थे. कारखाने और डेरोंकी संभाल मालूजी, पर्सूजी और राजा देवीसिंह बुंदेलाके सुपुर्द थी.

औरंगजेब व सुराद बख्शसे जशवन्तसिंह और कासिमखांका मुकाबला.

इस तरह दोनों फौजें तय्यार हुई, तब औरंगजेबने अपना तोपखाना नदी (नरायनाचोर नाला)के किनारे बुलन्दीपर रक्खा, और यह हुक्म दिया, कि दूसरी फौज तोपखानहकी मददसे नदी उतरनेको बढ़ाई जावे; ऐसा ही किया गया, लेकिन बादशाही फौजके तोपखानह ने शाहजादोंकी हरावलको रोका, और बान, बन्दूक और तोपोंसे सामना हुआ. उस वक्त कासिमखांकी हरावलसे बड़े बड़े बहादुर राजपूतों मुकुन्दसिंह हाड़ा, राजा रत्नसिंह राठौड़, दयालदास भाला, अर्जुन गौड़ वगैरहने आगे निकलकर औरंगजेबके तोपखानह पर हम्ला किया. तोपखानहके अफसर मुर्शिदकुलीखां व जुल्फिकारखांने अपने साथियों समेत उन बहादुर हम्ला करनेवाले राजपूतोंके साथ अच्छा मुकाबला किया; मुर्शिदकुलीखां मारा गया, और जुल्फिकारखां अपने साथियों समेत सवारियां छोड़कर लड़नेमें ज़रूमी हुआ. जशवन्तसिंहकी शाही फौजके राजपूत तोपखानहसे आगे बढ़कर औरंगजेब के खास हरावलपर गिरे, और पिछले राजपूत भी उनकी मददको पहुंच गये. यह लड़ाई बहुत भारी और नामी हुई. औरंगजेबके शाहजादे मुहम्मदसुल्तान व मददगार निजावतखांने भी बहुत अच्छी बहादुरी दिखलाई; इसी मौकेपर शेख मीरने एक फौजकी टुकड़ी लेकर दहिनी तरफसे राजपूतोंकी फौजपर हम्ला किया, और उसकी मददके लिये औरंगजेबका सर्दार मुर्तजाखां भी पहुंच गया. इसी तरह बाई तरफसे सफ़शिकनखां राजपूतोंपर टूट पड़ा, और राजपूतोंके जबरदस्त धावे रोकनेके लिये औरंगजेबने अपने सर्दारोंकी मदद करनेको अपनी अर्दलीके लोग भेजकर आप हम्ला करना शुरू किया. यह लड़ाई ऐसी हुई, कि हरावल व दहिनी व बाई तरफकी फौजोंका इन्तिजाम बिगड़ गया, और आगे पीछे होगई; बर्छा, तलवार, कटार चलनेकी नौबत पहुंची; उस समय महाराजा जशवन्तसिंहकी फौजके सर्दार मुकुन्दसिंह हाड़ा, सुजानसिंह सीसोदिया, राजसिंह राठौड़, अर्जुन गौड़ राजा बिठ्ठलदासका बेटा, दयालदास भाला, मोहनसिंह हाड़ा, अपने हजारों राजपूतोंके साथ औरंगजेबकी फौजके बहुतसे आदमियोंको मारकर मारे गये.

जब शाहजादोंकी फौजकी ताकत बढ़ती हुई देखी, तब टोडेका राजा रायसिंह व राजा सुजानसिंह बुंदेला और अमरसिंह चन्द्रावत रामपुरेका अपने साथियों सहित भाग निकले. उस समय शाहजादा मुराद, जो बड़ी बहादुरीसे लड़ रहा था, इतना बढ़ गया, कि महाराजा जशवन्तसिंहके पीछे डेरोंपर जा पहुंचा; डेरोंके मुहाफिज़ मालू व पर्सू और देवीसिंह वगैरहने शाहजादेसे कुछ देर तक मुकाबला किया, बहुतसे आदमी काम आये, आखिरकार मालू, पर्सू वगैरह भाग निकले, और देवीसिंहने शाहजादेकी ताबेदारी इस्तिथार की. जब मुराद दहिनी तरफसे आगे बढ़ा, और महाराजा जशवन्तसिंहके पास होकर लड़ता हुआ निकला, तो इससे महाराजा जशवन्तसिंहकी फौजमेंसे इफितखारखां बहुतसे आदमियों समेत मारा गया. सामनेकी फौजसे भी लड़ाई हो रही थी, इस कारण जशवन्तसिंहकी फौज शाहजादे मुरादको न रोक सकी, औरंगजेब व मुरादकी फौजोंने चारों तरफसे हमला किया; बहुतसे उम्दा सर्दार तो पहिले ही मारे जा चुके थे, अब अक्सर भाग गये. इससे जशवन्तसिंहके राजपूतों ही पर जोर आपड़ा; इस विषयमें बर्नियर फ़रांसीसी लिखता है, कि— कासिमखां जशवन्तसिंहको तकलीफमें छोड़कर पहिले ही भाग निकला, और आलमगीरनामह व मुन्तखवुल्लुवाबमें जशवन्तसिंहके भागजाने बाद कासिमखांका भागना लिखा है. बर्नियर फ़रांसीसी कहता है, कि मैं इस लड़ाईके वक्त मौजूद नहीं था, परन्तु औरंगजेबके तोपखानहपर जो फ़रांसीसी अफ़सर उस लड़ाईमें मौजूद थे, उनके बयानसे लिखता हूँ; हम भी फ़ारसी तवारीखोंसे उसको मोतबर मानते हैं. जशवन्तसिंह अपने बहादुर राजपूतों समेत अच्छी तरह लड़ा, यहांतक कि आठ हजार राजपूतोंमें से सिर्फ़ छः सौ बाकी रहे. राजपूताना के कवि इसका बयान इस तरहपर करते हैं, कि जशवन्तसिंहके राजपूतोंने उसको इस लड़ाईसे जबरदस्ती निकाला, जैसा किसी मारवाड़ी कविने कहा है—

बैत.

औछीबाढो जशवन्त काढो ॥ राजा राख्यां वाजी रहसी ॥

कमधां कोई बुरा न कहसी ॥ भारतरा भार रत्नागरने भलिया ॥

बागां भाल जशवन्त वलिया ॥

बर्नियर फ़रांसीसीका लिखना भी इसके करीब ही है. खैर जशवन्तसिंह और कासिमखांके निकलनेसे (१) लड़ाई खत्म हुई. तोपखाना, खज़ाना वगैरह कुल

(१) मारवाड़की तवारीखमें लिखा है कि कासिमखां वगैरह बादशाही मुसल्मान सर्दार औरंगजेबसे

मिल गये इसकी तस्दीक बर्नियर फ़रांसीसीके बयानसे होती है.

सामान इनका दोनों शाहजादोंके हाथ लगा. जंगलोंमें लाशोंके ढेर लगगये.

शाहजादोंकी फ़तह.

औरंगज़ेबने उसी दिनसे कस्बे धर्मातपुरका नाम फ़तहाबाद रक्खा, जो अब तक मौजूद है. बर्नियरने तो आठ हजार राजपूतोंमेंसे छःसौ बाकी बचना लिखा है, और आलमगीरनामह व मुन्तख़बुल्लुबाबमें जशवन्तासिंहकी फ़ौजके छः हजार आदमी मारेजाने लिखे हैं, परन्तु दोनोंकी लिखावटमें कुछ ज़ियादत फ़र्क नहीं है, इस सबबसे, कि इस लड़ाई के खेतसे जो ज़रूमी निकल गये, उनकी गिन्ती आलमगीरनामहसे भी सिवाय है. औरंगज़ेब और मुरादबख़्शकी फ़ौजके नामी सर्दारोंमेंसे मुर्शिदकुलीख़ांके सिवाय कोई जानसे नहीं मारागया, लेकिन नामी सर्दार ज़ुल्फ़िकारख़ां, सिकन्दर रुहेला, शेख़ अब्दुल् अज़ीज़, राठौड़ रघुनाथसिंह ज़रूमी हुए, और दूसरे लोग तो हजारों मारेगये होंगे, जिनकी तादाद किसी किताबमें नहीं मिलती.

इस फ़तहके बाद दोनों शाहजादोंने उजैनमें आकर बहुतसे सर्दारोंको ख़िलअत, खिताब और मन्सब दिये. फिर ता० २७ रजब [वैशाख कृष्ण १३ = ता० ३० एप्रिल] को यहांसे खाना होकर ता० २८ शअ्वान [ज्येष्ठ कृष्ण १४ = ता० ३१ मई] में दोनों शाहजादे ग्वालियर पहुंचे. वहां रायसेनके क़िलेदार खानेदौरांका बेटा नुस्रतख़ां औरंगज़ेबसे आमिला, उसे ख़िलअत, हाथी, घोड़ा, और खानेदौरांका खिताब दिया. दाराशिकोहने जब फ़तहाबाद पर अपने लोगोंकी शिकस्तका हाल सुना तो बहुत उदास हुआ, और अपने बेटे सुलैमानशिकोहको बंगालसे जल्दी चलेआनेके लिये लिखा, और आप फ़ौजकी तय्यारी करने लगा; जितने मुसल्मान और राजपूत सर्दार बादशाहतके ताबे थे, सब बुलायेगये. शाहजहांके नामसे हुकूमत थी, लेकिन उसके इस्तिथारकी वाग बिल्कुल दारा हीके हाथ थी. दाराकी इस्तिथारी हुकूमतसे बहुत सर्दार नाराज़ थे, क्योंकि शाहजहांने पहिले ही से उसका इस्तिथार बढ़ादिया, वह दूसरे की सलाह कम पसन्द करता था, लेकिन उस समय उसने बहुतसी फ़ौज एकट्ठी करली. बर्नियर फ़रांसीसी लिखता है, कि एक लाख सवार, बीस हजार पैदल और अस्सी तोपें औरंगज़ेब और मुरादके मुकाबले को तय्यार की थीं, औरंगज़ेबके पास सब चालीस हजारसे ज़ियादा फ़ौज न होगी. आलमगीरनामहमें दाराकी साठ हजार फ़ौज और शाहजहांनामहमें औरंगज़ेबकी तीस हजार फ़ौज लिखी है; परन्तु खयाल होता है, कि कुछ दाराके बेटे सुलैमानशिकोहके साथ भेजीगई, बाकी फ़ौज दिल्ली, आगरेकी हिफ़ाज़तको रही. यह सब मिलाकर बर्नियरकी लिखी हुई तादाद सहीह होगी.

जब दारा, औरंगज़ेब व मुरादसे लड़ाईके लिये जानेको तय्यार हुआ, तब शाह-

जहांने उसे रोका, और अपना पेशखैमा खड़ा करनेका हुकम दिया, कि मैं औरंगजेब व मुरादसे मुकाबला करूंगा; लेकिन दाराको शक था, कि बादशाह शाहजादोंमें मिलजावे, या वे अपनी ताकतसे बादशाहको काबूमें करलें, तो बड़ा नुकसान हो; इस लिये शाहजहां को हर सूरतसे रोका. दाराने ता० १६ शअबान [ज्येष्ठ कृष्ण २ = ता० १९ मई] को बादशाही सदांरोंमेंसे खलीलुल्लाखांको अफसर और उसके मातहत कुबादखां, रायसिंह राठौड़, इमाम कुली, नूरीबेग आगर वगैरह और अपने मुलाजिमोंमें से दाऊदखां, अस्करीखां, वगैरहको कुछ फौज देकर धौलपुरकी तरफ रवाना किया, कि चम्बल नदीको रोककर मोर्चे जमावें. फिर शाहजहांके मन्शाके बखिलाफ आप अपने छोटे बेटे सिपहरशिकोह सहित लड़ाईपर जानेकी रुखसत लेनेको बादशाहकी खिदमतमें हाजिर हुआ, उस वक्त शाहजहांकी आंखें भरआई, और आंसू बह निकले; उसको इस बातका बहुत रंज हुआ, कि मेरे घरकी बर्बादी का समय आगया, और वही बताव होरहा है. बादशाहने कई बार औरंगजेब और मुरादको फर्मानों व एतिवारी आदमियों की मारिफत बहुत समझाया, और दाराशिकोहको भी अच्छी तरह नसीहतें कीं. वह यह चाहता था, कि मेरी आंखोंके सामने मेरे घरकी बर्बादी न हो; परन्तु ईश्वरको ऐसाही करना था, किसी फिक्रसे फायदा न हुआ. जब दाराको उसके इरादेसे रुकता न देखा, तब शाहजहांने कहा, कि ऐ मेरे बेटे मैंने तुम्हे ईश्वरके हवाले किया, जाओ ईश्वर तुम्हारी उम्मेदको पूरा करे; आखिरकार ता० २५ शअबान [ज्येष्ठ कृष्ण ११ = ता० २८ मई] को दारा अपने छोटे बेटे सिपहरशिकोह समेत बहुतसी फौजके साथ आगरेसे रवाना होकर पांच मन्जिलमें धौलपुर पहुंचा, और वहां किया म करके अपने बड़े बेटे सुलैमानशिकोहके आनेकी राह देखता था; शाहजहांने भी दाराशिकोहको लिखभेजा, कि जबतक सुलैमानशिकोह न आवे, लड़ाई न करना. दिलमें तो दाराके भी यही था, परन्तु अपनी जियादह फौजके घमंडसे शाहजहांको जवाब लिखा, कि तीन दिनके भीतर औरंगजेब और मुरादको बांधकर आपकी खिदमत में हाजिर करूंगा, पीछे आप अपने दोनों वागी शाहजादोंके हकमें, जो मुनासिब जानें, वह करें.

दाराशिकोहसे औरंगजेब व मुराद बख्शकी लड़ाई.

दाराशिकोहने अपनी फौजोंसे चम्बलके जितने घाटे उतरनेके लायक समझे, सब मजबूतीके साथ रुकवा दिये. औरंगजेब व मुरादने देखा, कि दाराने बिल्कुल नदीके रास्ते बन्द करदिये हैं, तब उन्होंने हरएक आदमीसे पूछकर नदीसे उतरनेकी कोशिश की. दाराने जो रास्ते रोककरखे थे, वह छोड़कर ता० १ रमजान [ज्येष्ठ

शुक्र २ = ता० ३ जून] को ग्राम भदौरी (भदावर) की तरफ राजा चंपत बुंदेले की मददसे औरंगजेबने अपने लश्करको नदीके पार किया. दाराको खबर मिली, कि दोनों शाहजादे नदी और कठिन पहाड़ोंसे निकलकर आगरेकी तरफ जा रहे हैं, तब उसने उनको रोकना चाहा, और आगरेसे १५ या १६ मीलके फासिले पर समूनगर व राजपुरेके पास जा डेरे किये. शाहजहांने फिर भी बहुत मना किया, कि एक दम लड़ाई न कीजावे, लेकिन वह नातजिबेकार शाहजादा इस घमंडमें भूलाहुआ था, कि एक हम्लेमें दोनोंपर फतह पालूंगा. औरंगजेब और मुरादने भी ता० ६ रमजान [वि० ज्येष्ठ शुक्र ७ = ई० ता० ८ जून] को दाराके लश्करसे डेढ़ कोसपर आकर मक़ाम किया, दूसरे दिन ता० ७ रमजान [वि० ज्येष्ठ शुक्र ८ = ई० ता० ९ जून] को दाराशिकोहने अपनी फौज इस तरहपर तय्यार की- खास अपने तोपखानेको बर्कन्दाजख़ांकी मातहतीमें अपनी फौजके आगे दहिनी तरफ जमाया, बादशाही तोपखानेको हुसैनबेगख़ांके इस्तिथार में फौजके आगे बाई तरफ रक्खा, और वूदीके राव शत्रुशाल हाड़ाको हरावल फौजका अफ़सर बनाकर उसके साथ नीचे लिखे हुए लोगोंको तईनात किया-

राजा रूपसिंह राठौड़ रूपनगर या कृष्णगढ़का, वीरमदेव सीसोदिया शाहपुरेके रईस सुजानसिंहका भाई (महाराणा अमरसिंहका पोता), गिर्धर गौड़ राजा विट्ठलदास का भाई, भीम राजा विट्ठलदास गौड़का बेटा, राजा शिवराम गौड़ जो उजैनकी लड़ाईसे भागकर आया था, और दूसरे भी कई नामी राजपूत उनके साथ तईनात हुए, और अपने खास मुलाजिमां मेंसे दाऊदख़ां कुरैशीको चार हजार आदमी और अपने मीर बख़्शी अस्करख़ांको तीन हजार आदमी देकर हरावलका मददगार किया; खलीलुल्लाख़ां बादशाही फौजके मीरबख़्शीको दहिनी फौजका अफ़सर बनाकर उसके साथ इतने सदांर किये- इब्राहीमख़ां अलीमर्दानख़ांका बेटा, इस्माईलबेग, इस्हाकबेग, ताहिरख़ां, कुबादख़ां और तूरानी लोग, रामसिंह राठौड़ कर्मसेनका बेटा और जोधपुरके राव चन्द्रसेनका पोता, सुल्तानहुसैन, मीरख़ां, राजा विष्णुसिंह गौड़, पृथ्वीराज भाटी, वगैरा दूसरे अमीर व मन्सबदारोंको उस फौजमें मुकर्रर किया; बाई फौजकी अफ़सरीपर अपने छोटे बेटे सिपहरशिकोहको मए रुस्तमख़ां बहादुरके मुकर्रर किया- और उसके साथ नीचे लिखेहुए सदांर थे- कासिमख़ां, सरबुलन्दख़ां, सय्यद शेरख़ां बारह, मालूजी, पर्सूजी दक्षिणी, सय्यद बहादुर भक्करी, महासिंह भदौरिया, अब्दुन्नबीख़ां, सय्यद निजाबत, सय्यद मुनव्वर बारह, सय्यद मक्बूलेअलम, और तमाम सय्यद व अर्दलीके लोग व बादशाही गुर्जबर्दार; आप तीन हजार अच्छे खास बहादुर व

फैजुल्ला और खुशहालबेग काशगरी बादशाही नौकरों समेत बीचमें ठहरा. आंबेरके राजा जयसिंहके बड़े कुंवर रामसिंहको फौजका गिर्दावर बनाकर उसके साथमें उसका छोटा भाई कीर्तिसिंह, शैख मुअज़्ज़म फतहपुरी और दूसरे राजपूत कुल दस हजार सवार मुक़र्रर हुए; इसके सिवाय दो फौजें दहिनी और बाईं तरफ़ मुक़र्रर कीं, जिनमेंसे दहिनी तरफ़वाली फौजकी अप्सरी ज़फ़रखां फ़ीरोज़ मेवातीको, और बाईं तरफ़की फौजकी निगहबानी फ़ख़िरखां नज्मे-सानीको दी.

औरंगज़ेबने भी अपनी फौजको नीचे लिखे मुताबिक़ तय्यार किया—सबसे आगे तोपखाना, और मस्त जंगी हाथियोंको सब सामान और लड़ाईके हथियारोंसे सजाकर तोपखानहके पीछे जगह जगह खड़ा किया; बड़े शाहज़ादे मुहम्मद सुल्तान को नजाबतखां खानखानां बहादुर सिपहसालार समेत हरावल बनाकर सय्यद मुज़फ़्फ़रखां बारह, शजाअतखां, लोदीखां, पुरदिलखां, इस्लामखां, तहव्वुरखां, रशीदखां, ख़वासखां, ज़बरदस्तखां, अहमदबेगखां, मामूरखां, सय्यद नसीरुद्दीन दक्षिणी, जमाल बीजापुरी, कादिरदादखां, अब्दुल्बारी अन्सारी, और इनायत पठानको मुक़र्रर किया. जुल्फ़िक़ारखां और बहादुरखांको किसी क़द्र तोपखानह देकर हरावलसे आगे रहनेका हुक़म हुआ. कुल तोपखानहकी अप्सरी पर मुर्शिद कुलीखां रक्खागया;—

दहिनी फौजकी अप्सरी मुरादबख़्शके नाम कीगई, और उस फौजमें इस्लामखां, आजमखां, खानेजमां, मुस्तारखां, कार तलबखां, सैफ़खां, होशदारखां, हिम्मतखां, राजा इन्द्रमाणि धन्धीरा, राजा सारंगधर, चंपत बुंदेला, भगवन्तसिंह हाड़ा, सय्यद हसन, इस्माईलखां नियाजी, ग़ैरतबेग, और कच्छवाले कर्ण वग़ैरह शामिल कियेगये. शाहज़ादह मुहम्मद आजमके नाम बाईं फौज की अप्सरी रक्खीगई; मददगार फौजकी सर्दारी शैख़ मीरको सौंपीगई, उसके साथ सय्यद मीर उसका भाई, शिरज़ाखां, फ़तहजंगखां, जांवाज़खां, सय्यद मन्सूरखां, रघुनाथसिंह राठौड़, केसरीसिंह भूरटिया, मंगलखां, इनायत बीजापुरी, वग़ैरह दूसरे लोग तईनात कियेगये. बहादुरखांको औरंगज़ेबके दहिनी तरफ़ रक्खागया, और उसके साथ दिलावरखां, हिज़ब्रखां, हादीदादखां, शुभकर्ण बुंदेला और काले पठान थे. खानेदौरांको फौजके बाएं हाथकी तरफ़ रक्खा. ख़ाजह अबैदुल्ला करावलबेगीको मए अब्दुल्लाखां, दोस्तबेग, और मुहम्मद शरीफ़ वग़ैरह के गिर्दावरी पर मुक़र्रर किया; आप औरंगज़ेब फौजके अन्दर एक बड़े हाथीपर सवार हुआ, और शाहज़ादे आजमको भी हाथीपर अपने पास रक्खा. मुर्तज़ाखां, असालतखां, दीनदारखां, सज़ावारखां, सअ़ादतखां, ग़ैरतखां,

जुल्कद्रखां, औरंगखां, दौलतमन्दखां दक्षिणी, मीर इब्राहीम कोरबेगी, अल्लाहयार मीर तोजक, खानहजादखां, शैख अब्दुल्कवी वगैरह खास लोगों को अर्दलीमें रक्खा.

बर्नियर अपनी किताबमें इस तरह लिखता है- आगेही आगे तोपखानह जंजीरोंसे बंधा हुआ, फिर शूतरनाल याने ऊंटोंके जुजुबे और पीछेको बन्दूक वाले पैदल सिपाही. और रिसालेके लोगोंके पास तलवार, तीर कमान और बछैदारोंकी फौजकी सजावट लिखी है; और इसी तरह औरंगजेब व मुरादबख्शकी. लेकिन इतना सिवाय था, कि बड़े बड़े सर्दारोंके गिरोहमें मीर जुम्ला की तज्वीजसे बड़ी बड़ी तोपें छिपा रक्खी थीं, जिनसे अच्छी कामयाबी हुई; पहिले पहिल बान चलाये गये, जो बारूदके हथियार होते हैं.

खास लड़ाई.

जब दोनों फौजोंकी दुरुस्ती अच्छी तरह होचुकी, तब तारीख ७ रमजान [वि० ज्येष्ठ शुक्र ८ = ई० ता० ९ जून] को दो पहर दिन चढ़े दाराशिकोहकी फौजसे पहिले तोप, बन्दूक, बान वगैरह चलने शुरू हुए, और औरंगजेब व मुरादकी फौजसे भी उसके जवाब दिये गये. बाईं तरफके गिरोहसे सिपहरशिकोह और रुस्तमखां बहादुर फीरोजजंग दक्षिणीने अपनी दस बारह हजार फौजसे औरंगजेबके तोपखानह पर हम्ला किया. तोपखानह वालोंने भी उनको बड़ी मजबूतीके साथ रोका, लेकिन वे न रुक सके, और तोपखानहकी लैनको चीरकर शाहजादे मुहम्मदसुल्तानकी हरावल फौजपर गिरे, जिससे औरंगजेबकी फौजमें बड़ी हल चल होगई. रुस्तमखांके साथियोंमें हाथीपर एक सर्दारके गोला लगा और वह मरगया, जिस से जरा सिपहरशिकोह और रुस्तमखांका गिरोह रुका, और फिर औरंगजेबकी दहिनी फौजपर झुका, जिसका कि अफसर औरंगजेबका धाभाई बहादुरखां था. उसने इस हमलेको बड़ी बहादुरीके साथ रोका और बहुत ज़रूमी हुआ, बहुतसे आदमी दोनों तरफके मारे गये. रुस्तमखांकी मददके लिये बराबर फौज आती जाती थी, जिससे औरंगजेबकी फौजके पैर उखड़नेको थे, लेकिन इसी मौके पर इस्लामखां, सय्यद दिलावरखां, पठान दिलावरखां, बहादुरखांकी मददको पहुंचगये. इसी वक्त शैख मीर, सय्यद हुसैन, सैफखां, अरबबेग, मुहम्मदसादिक वगैरा मददगार फौज लेकर पहुंचे, जिससे दोनों तरफ बराबरका मुकाबला हुआ. उस वक्त सय्यद दिलावरखां औरंगजेबका मातहत सर्दार बहुतसे ज़रूम खाकर मारागया, और हादीदादखां, सय्यद हुसैन, सैफखां, अरबबेग मुहम्मद सादिक वगैरह ज़रूमी हुए, लेकिन सरूत मुकाबला होनेके बाद सिपहरशिकोह और

रुस्तमखांकी फौजके पैर उखड़े. यह खबर सुनकर दाराशिकोह बीस हजार सवार लेकर सिपहरशिकोह और रुस्तमखांकी मददको पहुंचा, लेकिन औरंगजेबके तोपखानहकी मारसे दूसरी तरफ हटकर मुरादबख्शसे मुकाबला करने लगा; उस वक्त हवा तेज और बारिश शुरू थी, थोड़ी देरके बाद बारिश बन्द हुई, और तोपें चलने लगीं. यह ऐसी सख्त लड़ाई हुई, कि दाराशिकोहकी सवारीका सिंघली हाथी मुर्दोंकी लाशोंसे घिरगया.

औरंगजेबके तोपखानहसे दाराकी फौजका बहुत नुकसान हुआ, अराबोंके ऊंट और घोड़े तित्तर बित्तर होगये; तोपोंके बाद तीर कमानोंसे मुकाबला हुआ, परन्तु उनसे हवाकी तेजीके सबब कम नुकसान पहुंचा; पीछे दोनों फौजोंके बहादुरोंने बछे, तलवार, कटार, और खन्जरोसे अच्छे सवाल जवाब किये. उस वक्त शाहजादा दाराशिकोह अपने बहादुरोंका दिल बलन्द आवाजसे बढ़ाताथा. औरंगजेबकी फौजका रिसाला पीछे हटा; पर वह बड़ी दिलेरीके साथ अपने मरे हुए बहादुरोंका बदला लेना चाहता था, लेकिन कामयाब न हुआ. उसने अपनी अर्दलीके सवारों समेत बड़ी बहादुरीके साथ धावा किया, परन्तु दाराके बहादुरोंने हटा दिया. उस वक्त औरंगजेबके पास एक हजार सवार रहगये थे, तो भी वह बहादुर शाहजादा बिल्कुल न घबराया, बल्कि अपने बहादुरोंको पुकार पुकारकर कहता रहा कि— “ऐ मेरे बहादुरो खुदा तुम्हारे साथ है, हिम्मत न हारो, भागने वालोंके लिये दक्षिण बहुत दूर है, जहां सहारा मिले”. दारा औरंगजेब पर हमला करना चाहता था, परन्तु ऊंची नीची खराब जमीन और औरंगजेबके बहादुर सवारोंके सबब आगे नहीं बढ़ सका.

फिर दारा और मुराद बख्शका सामना हुआ. मुरादका हाथी भागने लगा, तो मुरादने उसके पैरोंमें जंजीरें डलवादीं. दाराशिकोहका औरंगजेबपर हमला न करनेका सबब बर्नियरने इस तरह लिखा है, कि जब दाराके बाईं तरफकी फौज तित्तर बित्तर होगई, उस वक्त उसे खबर मिली, कि रुस्तमखां और बूंदीका हाड़ा राव शत्रुशाल मारेगये, और राजा रामसिंह राठौड़ मुरादके मुकाबले पर खतरेकी हालत में है, तब औरंगजेबका मुकाबला छोड़कर दारा अपने बाईं तरफकी फौजकी मदद को पहुंचा, उस वक्त मुरादकी फौजी हालत खौफनाक थी. औरंगजेब अपने छोटे भाईकी मदद करनेको तय्यार हुआ. आलमगीर नामहमें तो मददगार होकर हमला करना लिखा है, लेकिन खफीखां मुन्तखबुल्लुबाबमें लिखता है, कि शाहजादे मुरादके साथ मेरा बाप था, और वह लड़ाईमें ज़रूमी होकर आखिर तक

वहाँ मौजूद रहा, उसके बयान से लिखा है, कि औरंगजेब मुरादकी मददको तय्यार हुआ, तो शैख मीरने उसे रोका, और कहा, कि एक तीरमें दो चिड़ियां मारी जावें, तो क्या खूब हो; यानी दोनों शाहजादे आपसमें ही लड़मरें, तो आपको फायदा है. औरंगजेब यह सुनकर रुकगया, लेकिन मुराद बड़ी बहादुरीके साथ मुकाबला करता रहा. राठौड़ रामसिंह रोटला (१) अपने राजपूतों समेत मुरादके हाथी को घेरकर ललकारा कि तू दाराशिकोहके मुकाबलेमें क्या बादशाह होना चाहता है ! और हाथीके महावतसे कहा, कि हाथी को बिठादे; एक बर्छा मुरादबख्श पर मारा, उसने ढालके सहारेसे रोका, फिर रामसिंह हाथीका रस्सा काटनेलगा, इसी असेमें शाहजादे मुरादने एक तीर रामसिंह के सिरमें बड़े जोरसे मारा, जिसके सबब वह घोड़ेसे गिरकर वहीं मरगया. यह रामसिंह केसरके रंगकी पोशाकके सिवाय सिरपर मोतियोंका सिहरा बांधे हुए था, जो राजपूतोंका लड़ाईमें मरनेके इरादेका लिबास है, रामसिंहके बहुतसे राजपूत हम्ला करके मुरादके हाथीके इर्द गिर्द मारेगये. उसी वक्त राजपूतोंका एक गिरोह औरंगजेब और उसकी फौजपर टूटपड़ा, जिसमें कृष्णगढ़ का राजा रूपसिंह, जो घोड़ा छोड़कर पैदल था, अपने राजपूतों सहित नंगी तलवारोंसे औरंगजेबकी फौजको चीरकर अपने साथियोंके मारेजाने बाद अकेला शाहजादेके हाथी तक पहुंचा, और औरंगजेबके हाथी का रस्सा काटने लगा; शाहजादे ने बहुत सा कहा, कि इस बहादुर राजपूतको जीता ही पकड़ो, लेकिन उस वक्त कौन सुनता था, अर्दलीके लोगों के मुकाबले में टुकड़े टुकड़े होकर मारागया. राजा विठ्ठलदास गौड़का बेटा रामसिंह और भीमसिंह व राजा शिवराम गौड़ सस्त जस्मी हुए.

बर्नियर लिखता है, कि दहिनी फौजके अफसर खलीलुल्लाखांको, जिसकी बे इज्जती चन्दसाल पेश्वर दाराशिकोहने की थी, हुकम दिया, कि अपनी फौजको आगे बढ़ाओ, तब उसने जवाब दिया, कि हमारी फौज जरूरतके वास्ते रक्खी गई है, आपके कहनेसे हम एक कदम भी नहीं बढ़ सक्ते, और न एक तीर छोड़ेंगे; यह उसने अपनी पहिलेकी हतक इज्जतका बदला लिया, तब दाराशिकोहने अपने दहिनी तरफकी फौजसे मुरादको पीछे हटाया, और खलीलुल्लाखांके हम्ला न करनेसे उसका कुछ भी नुकसान न हुआ.

(१) यह रामसिंह राव मालदेवके बेटे चन्द्रसेन और उसके बेटे कर्मसेनका बेटा था, इसने किसी अकालमें गरीब लोगोंको रोटियें बांटी थीं, और हमेशासे दातार था, इस सबबसे शाइरोंने उसको रोटला मद्दहूर कर दिया.

खलीलुल्लाखां अपनी फौजका थोड़ासा हिस्सा लेकर दाराशिकोहके पास पहुंचा, जिस वक्त कि वह मुरादको हटारहा था; खलीलुल्लाने चिन्हाकर कहा, कि मुबारक हो मुबारक हो !! फतह आपकी है, लेकिन मैं खैरस्वाहीसे अर्ज करता हूं, कि बहुतसे तीर, बन्दूक और गोले चलरहे हैं, कहीं आपके लगजावे, तो मुबारक वक्तमें बड़ा नुकसान हो. दगाबाज खलीलुल्लाकी सलाहका दाराशिकोहपर यह असर हुआ, कि वह हाथीसे उतरकर घोड़ेपर चढ़ा; उसका हाथीसे उतरना मानो हिन्दुस्तानके तस्तसे उतरना था. बर्नियरके बयानसे आलमगीरनामह व मुन्तखबुल्लुबाब के बयानमें यह फर्क है, कि खलीलुल्लाकी दगाबाजीका बिल्कुल जिक्र नहीं, जो उसने लड़ाईके वक्त की, बल्कि खफीखां और मुहम्मद काजिमने लिखा है, कि मुरादबख्श पर खलीलुल्लाखाने बड़ा सस्त हम्ला किया; खलीलुल्लाखांका औरंगजेबके पास चलाजाना फ़ार्सी तवारीखोंमें भी लिखा है, लेकिन बर्नियरने तो दाराके भागते ही खलीलुल्लाका औरंगजेबसे मिलजाना और फौज वगैरह सुपुर्द करदेना ऊपर लिखे मुताबिक ही बयान किया है, और फ़ार्सी तवारीखोंमें जैसे दूसरे लोगोंका औरंगजेबसे लड़ाईके बाद आमिलना लिखा है, उसी तरह इसका हाल जाहिर किया है; अब नहीं मालूम कौनसी बात कहांतक सच है, हमने दोनों बयानोंमें जो फर्क था वह बतला दिया.

दाराशिकोहकी शिकस्त-

ज्योंही कि दाराशिकोह हाथीसे उतर कर घोड़ेपर चढ़ा, फौजने जाना, कि वह मारागया या भागगया. इस खयालसे फौज भी भाग निकली, और लाचार दाराशिकोहको भी भागना पड़ा. औरंगजेबने दाराके भागनेसे मुरादको हिन्दुस्तानका बादशाह कहा, और खलीलुल्लाखांको भी मुरादबख्शके पास लेजाकर कहा, कि यही हिन्दुस्तानका ताज पहरनेके लायक है, और इसीकी होश्यारी व दिलेरीसे फतह हुई.

इस लड़ाईमें दाराकी तरफके नीचे लिखे हुए बहादुर सर्दार मारेगये :-

रुस्तमखां बहादुर, बूंदीका राव शत्रुशाल हाड़ा, रामसिंह राठौड़, भीम गौड़, राजा शिवराम गौड़, कृष्णगढ़का रूपसिंह राठौड़, मुहम्मद सालिह दीवान, सय्यद नाहरखां बारह, यूसुफखां रुहेला, इस्माईलबेग, इस्हाकबेग, शैख मुअज़्ज़म फतहपुरी, स्वाजहखां, हाजीबेग, इस्फन्दयारबेग, आसिफबेग गुर्ज बर्दार, सय्यद बायज़ीद, गुमानसिंह हाड़ा, शैख खान मुहम्मद, केसरीसिंह राठौड़, महदीबेग तुर्कमान, सय्यद इस्माईल बारह, सय्यद कमालुद्दीन बुखारी, इब्राहीमबेग नज्मे सानी, सुजानसिंह राठौड़, सय्यद फ़ाज़िल बारह वगैरह. और बहुतसे लोग ज़रूमी हुए.

औरंगजेब की तरफके सर्दारोंमेंसे— आजमखां फतहके बाद हवाकी तेज़ी

और जिरहबक्तरकी गर्मीसे मरगया. सजावारखां, हादीदादखां और सय्यद दिलावरखां मारेगये; बहादुरखां कूका, जुल्फिकारखां, मुर्तजाखां, दीनदारखां, गैरत-बेग, मुहम्मद सादिक, ममुरेज महमन्द वगैरह जस्मी हुए-

मुरादबख्शकी फौजमेंसे गरीबदास सीसोदिया महाराणा राजसिंहका काका, जिसने तीन बार दाराशिकोहकी फौजमें घोड़ा डाला और वह दाराके हाथी तक पहुंचगया था, परन्तु हाथी ऊंचा होनेके कारण कुछ नुकसान न पहुंचा सका, बड़ी बहादुरीके साथ मारागया. सुल्तानयार और सय्यद शैखनू बारह वगैरह बीस सदांर मारेगये. मुरादबख्श अपने सदांरोंके सिवाय खुद भी घायल हुआ, उसके बदन व चिहरेपर तीरोंके जस्मोंसे लोहू टपकता था, और उसके बैठनेका हौदा तीर व बछोंके लगनेसे टांटियों (बरों) के छत्तेकी तरह होगया था, जो कि फरुखसियरके अहद तक अजायबातके तौरपर रक्खा रहा. औरंगजेबने मुरादको अपने घुटनेपर लिटाकर उसके जस्मोंका खून पोंछा, और आंखोंमें आंसू भरलाया, व उसकी बहादुरीकी तारीफ करके उसको बादशाह होनेकी मुबारकबाद देता था.

बर्नियरके कौलके बमूजिब तीन या चार सौ आदमी और खफीखांके लिखनेके मुताबिक दो हजार सवार दाराके पास बचे थे. वह शामके वक्त अंधेरेमें अपनी आगरेकी हवेलीमें दाखिल हुआ. शाहजहांने उसको अपने पास बुलाना चाहा, परन्तु वह शर्मिन्दगीके मारे न गया. उसी रातके पिछले पहरको सिपहरशिकोह वगैरह लड़के और औरतोंको सवारियोंपर बिठाकर रुपये, अशर्फी और जवाहिरात वगैरह दौलत जितनी चल सकी हाथी, ऊंट व खच्चरों पर लादी, और दिल्लीकी तरफ रवाना हुआ. जब वहांसे तीन मन्जिल पहुंचा, तब कितने ही उसके भागे हुए व शाहजहांके भेजेहुए कुल पांच हजार आदमीके करीब एकट्टे होगये. जिस वक्त कि वह आगरेसे निकल गया, तो शाहजहांने पीछेसे लिखभेजा, कि तुम दिल्ली जाओ, वहां तुमको एक हजार घोड़े और वहांके हाकिमसे बहुत कुछ मदद मिलेगी; मैं भी तुमको तहरीरके जरीएसे खबर देता रहूंगा, और काबू पाया तो औरंगजेबको भी सजा दूंगा. इसी मुवाफिक दारा दिल्ली गया, और ता० १४ रमजान [ज्येष्ठ शुक्ल १५ = ता० १६ जून] को वहां पहुंचकर बाबरके किलेमें उसने कियाम किया.

अब औरंगजेबका कुछ हाल कलम बन्द किया जाता है—

इस बड़ी फतहके बाद औरंगजेब और मुरादने समूनगरके महलोंमें मकाम किया, जो कि जमुनाके किनारे पर हैं. वहां अपने बहादुर जस्मियों व मुरादबख्शके जस्मोंका इलाज करवाया. औरंगजेब जाहिरमें बे अक्ल मुरादको

हजरत और बादशाह कहता था, लेकिन पोशीदा अपनी ही बादशाहतकी बन्दिशें बांधरहा था; उसने कुल सदरोंको मिलानेके लिये खता जारी किये, और मामूं शायस्ताखांको मिला लिया, कि जिसके सबब शाहजहांके पास भी वसीला हो; क्योंकि बादशाहकी बेटी जहांआरा दाराकी मददगार हर वक्त बादशाहके पास मौजूद रहती थी. शाहजहांने दाराके इशारेसे या अपने शकसे शायस्ताखांको कैद किया, लेकिन दो दिनके बाद उसे छोड़दिया. औरंगजेब ने एक अर्जी इस मजूमूनकी अपने बापको लिखी, कि— मेरा इरादा तो आपकी सिहतपुर्सीको आनेका था, क्योंकि आपकी बीमारीकी कई तरहसे खराब खबरें सुनीगई, मैं हर्गिज लड़ाई करना नहीं चाहता था, लेकिन राजा जशवन्तसिंह ने बे अक्ली और गुस्ताखीसे मुझे उजैनके पास रोका, मैं लाचार उसे सजा देकर आगरेकी तरफ रवाना हुआ, तो बेवकूफ दाराने फसादके इरादेसे फौज लेकर मुझे रोका, जिसका फल जैसा चाहिये था, वैसा उसे भी मिला. और मैं लाचार हूं, जो तक्दीरमें था, हुआ.

ता० १० रमजान [ज्येष्ठ शुद्ध ११ = ता० १२ जून] को समूनगरसे रवाना होकर नूरमन्जिल बागमें पहुंचा, जो आगरेसे तीन मील है. वहां शायस्ताखां व मीर जुम्लाका बेटा मुहम्मद अमीनखां औरंगजेबसे आमिले. दूसरे दिन उसकी बहिन जहांआरा बेगम, जो शाहजहांके दिलकी मुस्तार थी, शाहजादोंके पास नसीहत करनेको आई, लेकिन उसकी नसीहतोंका असर, जैसा कि चाहिये था, न हुआ; वह पीछे अपने बापके पास गई— शाहजहांने दुबारा एक खत नसीहतों के साथ और एक तलवार शाही सिलहखानेसे उम्दा किस्मकी, जिसका नाम आलमगीर था, औरंगजेबके पास भेजी. औरंगजेबने उसे अच्छा शकुन समझकर रखलिया, और दिलमें इरादा किया, कि अगर मैं बादशाह हुआ, तो इसीके नामसे अपना आलमगीर खिताब इस्तिफार करूंगा; इसके बाद आगरेके किले पर कब्जा किया, और मथुरामें मुरादको कैद करलिया, दाराशिकोहको मारा, शुजाअको शिकस्त दी, और आप “आलमगीर” नामसे बादशाह बना. यह बयान मौकेपर आगे लिखा जायगा.

इस समयसे औरंगजेब (आलमगीर) को बादशाह कहना चाहिये, शाहजहां आगरेके किलेमें नजर कैद रहा, लेकिन बाजे आदमी जो आलमगीरकी बदनामी करनेके लिये शाहजहांको सरत कैद रखना लिखते हैं, वह नादुरुस्त है, उसको सिर्फ गैर आदमियोंसे मिलने और आगरेके किलेसे बाहर जानेकी मनाई थी. वह किलेमें आरामके साथ रहता, और जो चीज चाहता, वही हाजिर कीजाती थी.

शाहजहां हिज्री १०७६ ता० २६ रजब [वि० १७२२ माघ कृष्ण १२ = ई० १६६६ ता० १२ फ़ेब्रुअरी] को पेचिश और पेशाब बंद होनेकी बीमारीसे मरगया, और आगरा मक़ामपर मुस्ताज़ महलके रौजेमें दफन हुआ.

इस बादशाहका क़द मंभोला, रंग गेहुआं कुछ पीलापन लिये हुए, मंभली पेशानी, डाढ़ीमें दहिनी तरफ़ एक तिल, भौं अलग अलग, आंखें मंभली व सफ़ेद, पुतली सियाह, दहिनी आंखकी पलकपर तिल था, सीधी और बड़ी नाक, बाईं आंख और नाकके बीचमें एक मस्सा, कान मंभले, मुंहफाड़ भी मंभली, ऐसेही होंठ, छोटे छोटे मिले हुए दांत, मीठी आवाज़, और तुर्की, फ़ार्सी, हिन्दीमें अच्छी तरह बात चीत करता था. डाढ़ी एक मुट्ठीसे ज़ियादह लंबी कभी नहीं रक्खी. गर्दन मंभली, सीना कुछ चौड़ा, हाथ मंभले. अंगुलियां न कड़ी न नर्म और दहिने हाथकी अंगुलीमें दो तीन तिल थे.

यह बादशाह पहिले शाहज़ादगीके दिनोंमें बहादुर और लड़ाईका शौकीन था, लेकिन् तरुतपर बैठनेके बाद अय्याश होगया, यह नर्म दिल और सखी तबीअत था, परन्तु कभी कभी सस्ती भी करता, जैसा कि हैरिसके सफ़र-नामोंकी किताबकी पहिली जिल्दके ७६३ पृष्ठमें जॉन गेल्बर्ट डी मेन्डेल्सलो अपने हालमें लिखता है, कि "जब मैं हिन्दुस्तानका सफ़र करने आया, तो वहां शाह खुर्रमकी हुकूमत थी, जो हर रोज़ शेर हाथी चीते वगैरह वहशी जानवरोंकी लड़ाई और अक्सर उन जानवरोंके साथ आदमियोंकी लड़ाई भी देखता था. अपने बेटेके जन्मदिन पर एक शेर बबर और एक बाघकी लड़ाई देखनेके लिये बैठा था; वह दोनों आपसमें लड़कर बहुत घायल हुए, तब बादशाहके हुकमसे यह इशितहार दियागया, कि जिस किसीकी इतनी हिम्मत हो, कि सिर्फ़ तलवार और ढाल लेकर इनमेंसे एक जानवरके साथ लड़े, तो उसको इस जानवरके हरादेनेपर खां का खिताब मिलेगा. तीन हिन्दुस्तानी तय्यार हुए, और उनमेंसे एक आदमी एक ज़बरदस्त शेरसे लड़ने लगा; थोड़ी देर तक खूब लड़ा, और जब वह जानवर उसके बाएं हाथकी तरफ़ जोरसे भपटा, जिसमें उसकी ढाल थी, तो उसके बोभसे ढाल गिरी; आदमीने अपनी जान खतरमें देखकर कमरसे कटार निकाला, और शेरके जबड़ेमें घुसा दिया; इससे शेर उसे छोड़कर जाने लगा, लेकिन् उस आदमीने उसका पीछा किया, और मारकर ज़मीनपर गिरादिया. बादशाह उससे खुश न हुआ, बल्कि उसपर ज़ियादह गुस्सा किया, क्योंकि तलवार और ढालके अलावा उसने कटारका इस्तेमाल किया. बादशाहने हुकम दिया, कि उस आदमीका पेट चाक किया जावे, और उसकी लाश

सारे शहरके लोगोंको दिखलाई जावे. फिर दूसरा आदमी भी एक बाघसे लड़ने को तय्यार हुआ, लेकिन जानवरने उसकी गर्दन पकड़कर मारडाला. तीसरा आदमी अपने साथियोंकी बद् किस्मतीसे बिल्कुल न डरा, और बड़ी दिलेरीके साथ उसने शेरको मारलिया; पहिले एक वारमें उसके दोनों पंजे काटडाले थे; उसकी बहादुरीसे बादशाह बहुत खुश हुआ, और खांका खिताब व एक कलाबतूनी पोशाक उसे अपने हाथसे बख्शी—”

इसी तरह बादशाहके ज़ियादह आराम तलब और बेख़बर होजानेके सबब उसके नौकर भी अक्सर जुल्म किया करते थे—जैसे कि वही मुसाफ़िर इसी किताबके ७५९ पृष्ठमें गुजरातका हाल लिखता है— कि

“हिजी १०४८ ता० ७ जमादियुस्सानी [वि० १६९५ आश्विन शुक्ल ९ = ई० १६३८ ता० १८ अक्टोबर] को अहमदाबादके हाकिम अरबखां की मुलाकातको मैं एक अंग्रेज़ सौदागरके साथ गया, वह खां एक बाग़में ठहराहुआ था. एक घंटे बातचीत करने बाद हम लोगोंकी दावत की. ता० ९ जमादियुस्सानी आश्विन शुक्ल ११ = ता० २० अक्टोबर] को दूसरी दफ़ा मुलाकात करनेके लिये गया, वह उसी जगहमें था, उसकी बात चीत शाह सफ़ीके बाबत होती रही, और उसके वारेमें यह पूछा, कि उसकी संगदिली अभीतक कायम है? मैंने जवाब दिया, कि ज़ियादा उम्र होनेके सबब उसके मिज़ाजकी तेज़ी तो कुछ कम हुई है; तब उसने कहा, कि खान्दानी जुल्म और संगदिली उसके दादाके वक्तसे चलीआती है.

खाना खानेके बाद हम लोग खांसे रुस्सत हुए; एक दिन अंग्रेज़ी और डच कारखानेके दो खास दारोगोंको दावतके लिये बुलवाया, और उनको नाच दिखलानेके लिये तवाइफ़ोंका एक गिरोह तलब किया, उनका तमाशा होजानेके बाद दूसरा गिरोह बुलानेका हुकम दिया, लेकिन वह दूसरी जगह मशगूल होनेके सबब न आसका, और बीमारीका बहाना किया, लेकिन खां उस उज्रसे चुप न हुआ, दूसरी बार बुलावा भेजा; उसके नौकर फिर भी वही जवाब लेकर खाली वापस आये, तो नौकरोंको सज़ा देनेका हुकम दिया, वे अपने तई ख़तरेमें देखकर खांके पैरों पड़े, और साफ़ बयान किया, कि बीमारीका सबब नहीं था, लेकिन रुपयेके लालचसे उन औरतोंने हुकमको नहीं माना. इसपर खां हंसा, और फ़ौरन एक गारद भेजा, कि जाकर उन्हें गिरिफ़्तार कर लावे; जब वे गिरिफ़्तार होकर आईं, तब उनका सिर काटनेका हुकम दिया, जिसकी फ़ौरन् तामील हुई.”

शाहजहाँ बादशाहकी औलाद १६ थी, जिनमेंसे पुरहुनर बानू लड़की मुज़फ़्फ़र-

हुसैन मिर्जा सफ़वीकी बेटीसे हिज्री १०२० ता० १२ जमादियुस्सानी [वि० १६६८ श्रावण शुक्ल १३ = ई० १६११ ता० २३ अगस्त] को और शाहज़ादा जहां-अफ़रोज़ नाम मिर्जा अब्दुरहीम खान्खानांकी बेटीसे हिज्री १०२८ ता० १२ रजब [वि० १६७६ आषाढ़ शुक्ल १३ = ई० १६१९ ता० २६ जून] में पैदा हुआ था, जो डेढ़ वर्षका होकर मर गया.

बाकी ८ बेटे और ६ बेटियों हमीदाबानू मुम्ताज़ महलसे पैदा हुई थीं, जिसका बयान इस तरहपर है—

- (१)— बादशाहज़ादी हूरनिसा बेगम हि० १०२२ ता० ८ सफ़र [वि० १६७० चैत्र शुक्ल १० = ई० १६१३ ता० ३१ मार्च] शनैश्वरके दिन पैदा हुई, जो तीन वर्षके बाद मर गई.
- (२)— जहां आरा शाहज़ादी, मशहूर बेगम साहिब हि० १०२३ ता० २१ सफ़र [वि० १६७१ वैशाख कृष्ण ७ = ई० १६१४ ता० १ एप्रिल] शनैश्वर को पैदा हुई.
- (३)— बड़ा शाहज़ादा मुहम्मद दारा शिकोह, हि० १०२४ ता० २९ सफ़र [वि० १६७२ चैत्र शुक्ल १ = ई० १६१५ ता० ३० मार्च] रवि वारको पैदा हुआ.
- (४)— बादशाहज़ादा मुहम्मद शुजाअ बहादुर, हि० १०२५ ता० १८ जमादियुस्सानी [वि० १६७३ श्रावण कृष्ण ४ = ई० १६१६ ता० ४ जुलाई] शनैश्वरकी रातको पैदा हुआ.
- (५)— बादशाहज़ादी रौशनराय बेगम, हि० १०२६ ता० २ रमज़ान [वि० १६७४ भाद्रपद शुक्ल ४ = ई० १६१७ ता० ४ सेप्टेम्बर] को पैदा हुई.
- (६)— बादशाहज़ादा मुहम्मद औरंगज़ेब बहादुर, हि० १०२७ ता० १५ जिल्काद [वि० १६७५ मार्गशीर्ष कृष्ण १ = ई० १६१८ ता० ४ नोवेम्बर] रवि वारकी रातको पैदा हुआ.
- (७)— बादशाहज़ादा उम्मेदबस्त्र, हिज्री १०२९ ता० ११ मुहर्रम [वि० १६७६ मार्गशीर्ष शुक्ल १३ = ई० १६१९ ता० २१ डिसेम्बर] बुध वारके दिन पैदा हुआ, और दो वर्ष बाद मर गया.
- (८)— बादशाहज़ादी सुरय्याबानू बेगम, हिज्री १०३० ता० २० रजब [वि० १६७८ आषाढ़ कृष्ण ६ = ई० १६२१ ता० ११ जून] को पैदा हुई, और सात वर्ष बाद मर गई.

- (९)- एक लड़का हिजी १०३२ [वि० १६८० = ई० १६२३] में पैदा होकर नाम रखनेसे पहिले थोड़े दिनोंमें मरगया.
- (१०)- शाहजादा मुराद बख्श, हिजी १०३३ ता० २५ जिल्हिय [वि० १६८१ कार्तिक कृष्ण ११ = ई० १६२४ ता० ९ अक्टोबर] बुधकी रातको पैदा हुआ.
- (११)- बादशाहजादा लुफुल्लाह, हि० १०३६ ता० १४ सफ़र [वि० १६८३ कार्तिक शुक्ल १५ = ई० १६२६ ता० ४ नोवेम्बर] बुधकी रातको पैदा हुआ, और डेढ़ वर्ष बाद मरगया.
- (१२)- बादशाहजादा दौलतअफ़जा, हि० १०३७ ता० ४ रमज़ान [वि० १६८५ वैशाख शुक्ल ६ = ई० १६२८ ता० १० मई] बुध वारकी रात को पैदा हुआ, और एक वर्ष बाद मरगया.
- (१३)- शाहजादी कुदसिया बेगम, हिजी १०३९ ता० १० रमज़ान [वि० १६८७ वैशाख शुक्ल १२ = ई० १६३० ता० २४ एप्रिल] को पैदा हुई, और जल्दी ही मरगई.
- (१४)- शाहजादी गौहर आरा बेगम, हिजी १०४० ता० १७ जिल्काद [वि० १६८८ आषाढ कृष्ण ३ = ई० १६३१ ता० १७ जून] बुध वारकी रातको पैदा हुई. इनमेंसे शाहजहांकी बीमारीके वक्त हिजी १०६८ [वि० १७१५ = ई० १६५८] में चार शाहजादे दाराशिकोह, शुजाअ बहादुर, औरंगजेब बहादुर और मुरादबख्श जिन्दा थे.

औरंगजेबने तरुतपर बैठकर दाराशिकोह और मुरादबख्शको कैद होने बाद क़त्ल करादिया, और शुजाअ भागकर अराकानमें मारागया.

शाहजहां बादशाहके मन्सब्दार सर्दारोंकी फ़िहरिस्त नीचे लिखीजाती है—
मन्सब्दारोंकी फ़िहरिस्त— सन् १०६८ हिजी [वि० १७१५ = ई० १६५८] तक.

बादशाहजादे.

- (१) बड़ा शाहजादा मुहम्मद दाराशिकोह— साठ हज़ारी जात, चालीस हज़ार सवार.
- (२) बादशाहजादा शुजाअ बहादुर— बीस हज़ारी जात, पन्द्रह हज़ार सवार.
- (३) बादशाहजादा मुहम्मद औरंगजेब बहादुर— बीस हज़ारी जात, पन्द्रह हज़ार सवार.

- (४) - शाहजादह मुराद बरूझ- पन्द्रह हजारी जात, बारह हज़ार सवार.
 (५) - शाहजादह दाराशिकोहका बेटा सुलैमानशिकोह- पन्द्रह हजारी जात, आठ हज़ार सवार.
 (६) - दाराका दूसरा बेटा फ़लक़शिकोह (सिपहरशिकोह)- आठ हजारी जात, दो हज़ार सवार.
 (७) - शाहजादह शुजाअक़ा बेटा जैनुद्दीन- सात हजारी जात, दो हज़ार सवार.
 (८) - शाहजादह औरंगज़ेबका बेटा मुहम्मद सुल्तान- सात हजारी जात, दो हज़ार सवार.

मन्सब्दार सर्दार

नौ हजारी.

- (९) - यमीनुद्दौला आसिफ़्खां खानख़ानां सिपहसालार- नौ हजारी जात व सवार.
 सात हजारी.
 (१०) - खानेदौरां बहादुर नुस्रतजंग- सात हजारी जात, व सात हज़ार सवार.
 (११) - अली मर्दानखां अमीरुल उमरा- सात हजारी जात, व सात हज़ार सवार.
 (१२) - इस्लामखां- सात हजारी जात, व सात हज़ार सवार.
 (१३) - सईदखां बहादुर ज़फ़रजंग- सात हजारी जात, व सवार.
 (१४) - मुल्ला सादुल्लाखां- सात हजारी जात, व सात हज़ार सवार.
 (१५) - महाबतखां खानख़ानां- सात हजारी जात, सात हज़ार सवार.
 (१६) - अब्दुल्लाखां बहादुर ज़फ़रजंग- सात हजारी जात, छः हज़ार सवार.
 (१७) - खानेजहां लोदी- सात हजारी जात, छः हज़ार सवार.
 (१८) - सय्यद खानेजहां बारह- सात हजारी जात, छः हज़ार सवार.
 (१९) - अफ़ज़लखां- सात हजारी जात, छः हज़ार सवार.
 (२०) - जोधपुरका महाराजा जशवन्तसिंह राठौड़- सात हजारी जात, छः हज़ार सवार.
 (२१) - रुस्तमखां बहादुर- सात हजारी जात, छः हज़ार सवार.
 छः हजारी.
 (२२) - सय्यद जलाल बुख़ारी- छः हजारी जात, छः हज़ार सवार.
 (२३) - स्वाजह अबुलहसन- छः हजारी जात, छः हज़ार सवार.
 (२४) - शायस्ताखां खानेजहां- छः हजारी जात, छः हज़ार सवार.
 (२५) - मिर्जा राजा जयसिंह कछवाहा आंबेरका- छः हजारी जात, पांच हज़ार सवार.

(२६) - खानेजमां बहादुर- छः हज़ारी जात, पांच हज़ार सवार.

(२७) - किलीचखां बहादुर- छः हज़ारी जात, पांच हज़ार सवार.

पांच हज़ारी.

(२८) - वज़ीरखां- पांच हज़ारी जात, पांच हज़ार सवार.

(२९) - शाह नवाजखां- पांच हज़ारी जात, पांच हज़ार सवार.

(३०) - उदयपुरका महाराणा जगतसिंह - पांच हज़ारी जात, पांच हज़ार सवार.

(३१) - जोधपुरका राजा गजसिंह राठौड़ - पांच हज़ारी जात, पांच हज़ार सवार.

(३२) - राजा विठ्ठलदास गौड़ अजमेरका - पांच हज़ारी जात, पांच हज़ार सवार.

(३३) - सफ़्दरखां - पांच हज़ारी जात, पांच हज़ार सवार.

(३४) - सिपहदारखां - पांच हज़ारी जात, पांच हज़ार सवार.

(३५) - राणा राजसिंह (१) उदयपुरका - पांच हज़ारी जात, पांच हज़ार सवार.

(३६) - खवासखां - पांच हज़ारी जात, पांच हज़ार सवार.

(३७) - राव रत्नसिंह हाड़ा बूंदीका - पांच हज़ारी जात, पांच हज़ार सवार.

(३८) - राजा जुभारसिंह बुंदेला ओछेंका - पांच हज़ारी जात, पांच हज़ार सवार.

(३९) - जाफ़रखां - पांच हज़ारी जात, पांच हज़ार सवार.

(४०) - मालूजी (मरहटा) दक्षिणी - पांच हज़ारी जात, पांच हज़ार सवार.

(४१) - ऊदाजी राम (मरहटा) दक्षिणी - पांच हज़ारी जात, पांच हज़ार सवार.

(४२) - खलीलुल्लाखां - पांच हज़ारी जात, पांच हज़ार सवार.

(४३) - असालतखां - पांच हज़ारी जात, चार हज़ार सवार.

(४४) - मिर्जा अलीतरखां - पांच हज़ारी जात, चार हज़ार सवार.

(४५) - राजा रायसिंह सीसोदिया टोडेका - पांच हज़ारी जात, ढाई हज़ार सवार.

(४६) - मुअज़्ज़मखां मीरजुम्ला - पांच हज़ारी जात, दो हज़ार सवार.

चार हज़ारी.

(४७) - सय्यद शजाअतखां - चार हज़ारी जात, चार हज़ार सवार.

(४८) - मक्रुमतखां - चार हज़ारी जात, चार हज़ार सवार.

(४९) - नजाबतखां - चार हज़ारी जात, चार हज़ार सवार.

(५०) - मोतकिदखां - चार हज़ारी जात, चार हज़ार सवार.

(१) इनको बादशाहतो अपनी तरफसे मन्सब्दारोंमें शुमार करते थे और यह अपनेको आज्ञाद जानते थे, हकीकतमें यह न नौकरीमें जाते न घोड़ोंकी गिनती करवाते, लेकिन मुसल्मान मुवरिखोंने बड़प्पन दिखलानेको फ़िहरिस्तमें दर्ज करदिया, इस लिये हमने भी लिखा है.

- (५१) - सैफखां - चार हज़ारी जात, चार हज़ार सवार.
 (५२) - सादिकखां - चार हज़ारी जात, चार हज़ार सवार.
 (५३) - दर्याखां रुहेला - चार हज़ारी जात, चार हज़ार सवार.
 (५४) - कासिमखां - चार हज़ारी जात, चार हज़ार सवार.
 (५५) - राव शत्रुशाल हाड़ा बूंदीका - चार हज़ारी जात, चार हज़ार सवार.
 (५६) - नज़र बहादुर - चार हज़ारी जात, चार हज़ार सवार.
 (५७) - रशीदखां - चार हज़ारी जात, चार हज़ार सवार.
 (५८) - सर्दारखां - चार हज़ारी जात, तीन हज़ार सवार.
 (५९) - राजा भारसिंह बुंदेला - चार हज़ारी जात, तीन हज़ार सवार.
 (६०) - जांसुपारखां - चार हज़ारी जात, तीन हज़ार सवार.
 (६१) - शाहबेगखां - चार हज़ारी जात, तीन हज़ार सवार.
 (६२) - राव अमरसिंह राठौड़ नागौरका - चार हज़ारी जात, तीन हज़ार सवार.
 (६३) - राव सूरसिंह बीकानेरका - चार हज़ारी जात, तीन हज़ार सवार.
 (६४) - रूपसिंह राठौड़ कृष्णागढ़का - चार हज़ारी जात, तीन हज़ार सवार.
 (६५) - सफ़्दरखां - चार हज़ारी जात, ढाई हज़ार सवार.
 (६६) - सलाबतखां बरूड़ी - चार हज़ारी जात, दो हज़ार सवार.
 (६७) - मोतमदखां - चार हज़ारी जात, डेढ़ हज़ार सवार.
 (६८) - हमीरराय - चार हज़ारी जात, डेढ़ हज़ार सवार.
 (६९) - एतिकादखां - चार हज़ारी जात, बारह सौ सवार.
 (७०) - अब्दुरहमान - चार हज़ारी जात, पांच सौ सवार.

तीन हज़ारी.

- (७१) - जुल्फिकारखां - तीन हज़ारी जात, तीन हज़ार सवार.
 (७२) - कारतलबखां - तीन हज़ारी जात, तीन हज़ार सवार.
 (७३) - सज़ावारखां - तीन हज़ारी जात, ढाई हज़ार सवार.
 (७४) - माधवसिंह हाड़ा कोटेका - तीन हज़ारी जात, तीन हज़ार सवार.
 (७५) - पुर्दिलखां - तीन हज़ारी जात, तीन हज़ार सवार.
 (७६) - जौहरखां - तीन हज़ारी जात तीन हज़ार, सवार.
 (७७) - राजा बांधू अनूपसिंह बघेला रीवांका - तीन हज़ारी जात, तीन हज़ार सवार.
 (७८) - राजा अनिरुद्धसिंह गौड़ अजमेरका - तीन हज़ारी जात. तीन हज़ार सवार.
 (७९) - सआदतखां - तीन हज़ारी जात, ढाई हज़ार सवार.
 (८०) - जहांगीर कुलीखां - तीन हज़ारी जात, ढाई हज़ार सवार.

- (८१) - अजीजुल्लाखां- तीन हज़ारी ज़ात, ढाई हज़ार सवार.
- (८२) - महेशदास राठौड़ रतलामके राजाओंका बुजुर्ग और जोधपुरके राजा उदयसिंहका पोता- तीन हज़ारी ज़ात, ढाई हज़ार सवार.
- (८३) - शाह बाजुखां- तीन हज़ारी ज़ात, ढाई हज़ार सवार.
- (८४) - मीर नूरुल्ला - तीन हज़ारी ज़ात, ढाई हज़ार सवार.
- (८५) - बकलानेका भरजी - तीन हज़ारी ज़ात, ढाई हज़ार सवार.
- (८६) - जुलक़द्रखां- तीन हज़ारी ज़ात, ढाई हज़ार सवार.
- (८७) - मिर्जा हसन-- तीन हज़ारी ज़ात, दो हज़ार सवार.
- (८८) - महाबतखांका बेटा लुहरास्पखां - तीन हज़ारी ज़ात, दो हज़ार सवार.
- (८९) - अब्दुरहीमका पोता मिर्जाखां-- तीन हज़ारी ज़ात, दो हज़ार सवार.
- (९०) - अब्दुल्लाखांका भतीजा ग़ैरतखां - तीन हज़ारी ज़ात, दो हज़ार सवार.
- (९१) - अमीरखां - तीन हज़ारी ज़ात, दो हज़ार सवार.
- (९२) - शैख़ फ़रीद - तीन हज़ारी ज़ात, दो हज़ार सवार.
- (९३) - आंबेरके राजा जयसिंहका बेटा रामसिंह - तीन हज़ारी ज़ात, दो हज़ार सवार.
- (९४) - राव मुकुन्दसिंह हाड़ा कोटेका - तीन हज़ारी ज़ात, दो हज़ार सवार.
- (९५) - राव करण बीकानेरी - तीन हज़ारी ज़ात, दो हज़ार सवार.
- (९६) - शाह कुलीखां - तीन हज़ारी ज़ात, दो हज़ार सवार.
- (९७) - मुर्तजाखां - तीन हज़ारी ज़ात, दो हज़ार सवार.
- (९८) - ज़फ़रखां - तीन हज़ारी ज़ात, दो हज़ार सवार.
- (९९) - मऊका राजा जगतसिंह- तीन हज़ारी ज़ात, दो हज़ार सवार.
- (१००) - फ़ीरोज़खां - तीन हज़ारी ज़ात, दो हज़ार सवार.
- (१०१) - ऊदाजीराम (मरहटा) दक्षिणी- तीन हज़ारी ज़ात, दो हज़ार सवार.
- (१०२) - पर्सूजी मरहटा सितारे वाला घोसला - तीन हज़ारी ज़ात, दो हज़ार सवार.
- (१०३) - हमीदखां - तीन हज़ारी ज़ात, दो हज़ार सवार.
- (१०४) - जादवराय (मरहटा) दक्षिणी- तीन हज़ारी ज़ात, डेढ़ हज़ार सवार.
- (१०५) - हबशखां- तीन हज़ारी ज़ात, डेढ़ हज़ार सवार.
- (१०६) - मनकूजी बनालकर (मरहटा)- तीन हज़ारी ज़ात, डेढ़ हज़ार सवार.
- (१०७) - रावत राय (मरहटा) दक्षिणी- तीन हज़ारी ज़ात, डेढ़ हज़ार सवार.
- (१०८) - सय्यद हिज़ब्रखां- तीन हज़ारी ज़ात, डेढ़ हज़ार सवार.
- (१०९) - ताहिरखां - तीन हज़ारी ज़ात, डेढ़ हज़ार सवार.
- (११०) - कर्मसी राठौड़का बेटा सर्दारसिंह - तीन हज़ारी ज़ात, डेढ़ हज़ार सवार.

- (१११) - असदखां मामूरी - तीन हजारी जात, डेढ़ हज़ार सवार.
 (११२) - राजा अनूपसिंह - तीन हजारी जात, डेढ़ हज़ार सवार.
 (११३) - आकिलखां - तीन हजारी जात, एक हज़ार सवार.
 (११४) - मुहम्मद अमीनखां - तीन हजारी जात, एक हज़ार सवार.
 (११५) - राजा मनरूप कछवाहा - तीन हजारी जात, एक हज़ार सवार.
 (११६) - वीरमदेव सीसोदिया (शाहपुरेके सुजानसिंहका छोटा भाई और महाराणा पहिले अमरसिंहका पोता) - तीन हजारी जात, एक हज़ार सवार.
 (११७) - फ़ाजिलखां - तीन हजारी जात, छः सौ सवार.
 (११८) - हकीम मसीहुज़्ज़मां - तीन हजारी जात, पांच सौ सवार.
 (११९) - तक़रुबखां - तीन हजारी जात, तीन सौ सवार.

ढाई हजारी.

- (१२०) - मुर्शिदकुलीखां तुर्कमान - ढाई हजारी जात, ढाई हज़ार सवार.
 (१२१) - अहमदखां नियाजी - ढाई हजारी जात, ढाई हज़ार सवार.
 (१२२) - शम्शेरखां - ढाई हजारी जात, ढाई हज़ार सवार.
 (१२३) - हादीदादखां - ढाई हजारी जात, ढाई हज़ार सवार.
 (१२४) - जानिसारखां - ढाई हजारी जात, दो हज़ार सवार.
 (१२५) - सफ़शिकनखां - ढाई हजारी जात, दो हज़ार सवार.
 (१२६) - एवज़खां काकशाल - ढाई हजारी जात, दो हज़ार सवार.
 (१२७) - राजा देवीसिंह बुंदेला - ढाई हजारी जात, दो हज़ार सवार.
 (१२८) - नामदारखां - ढाई हजारी जात, दो हज़ार सवार.
 (१२९) - लश्करखां - ढाई हजारी जात, दो हज़ार सवार.
 (१३०) - खिद्मतपरस्त्रखां - ढाई हजारी जात, दो हज़ार सवार.
 (१३१) - दिलावरखां दक्षिणी - ढाई हजारी जात, दो हज़ार सवार.
 (१३२) - शम्सखां दक्षिणी - ढाई हजारी जात, डेढ़ हज़ार सवार.
 (१३३) - तर्बियतखां - ढाई हजारी जात, डेढ़ हज़ार सवार.
 (१३४) - हयातखां - ढाई हजारी जात, एक हज़ार सवार.
 (१३५) - फ़ाख़िरखां - ढाई हजारी जात, एक हज़ार सवार.
 (१३६) - सबलसिंह सीसोदिया (शक्तावत भींडर इलाकेमेवाड़का) - ढाई हजारी जात, एक हज़ार सवार.
 (१३७) - अब्दुरहीम उज्बक - ढाई हजारी जात, एक हज़ार सवार.
 (१३८) - नवाजिशखां - ढाई हजारी जात, छः सौ सवार.

- (१३९) - जीवनखां - ढाई हज़ारी जात, पांच सौ सवार.
 (१४०) - सय्यद हिदायतुल्ला - ढाई हज़ारी जात, दो सौ सवार.
 दो हज़ारी.
 (१४१) - अरबखां - दो हज़ारी जात, दो हज़ार सवार.
 (१४२) - उज्बकखां - दो हज़ारी जात, दो हज़ार सवार.
 (१४३) - कज़ाकखां - दो हज़ारी जात, दो हज़ार सवार.
 (१४४) - बाकीखां - दो हज़ारी जात, दो हज़ार सवार.
 (१४५) - मुबारकखां - दो हज़ारी जात, दो हज़ार सवार.
 (१४६) - मुहम्मदजमां - दो हज़ारी जात, दो हज़ार सवार.
 (१४७) - पृथ्वीराज राठौड़ - दो हज़ारी जात, दो हज़ार सवार.
 (१४८) - राजा राजरूप पंजाबी नूरपुर कांगड़ाका - दो हज़ारी जात, दो हज़ार सवार.
 (१४९) - राजा सुजानसिंह बुंदेला - दो हज़ारी जात, दो हज़ार सवार.
 (१५०) - इरादतखां - दो हज़ारी जात, दो हज़ार सवार.
 (१५१) - स्वाजह बखुर्दार - दो हज़ारी जात, दो हज़ार सवार.
 (१५२) - गिर्धरदास गौड़ अजमेरका - दो हज़ारी जात, दो हज़ार सवार.
 (१५३) - महेशदासका बेटा रत्न राठौड़ रतलामका राजा - दो हज़ारी जात, सोलह सौ सवार.
 (१५४) - इख्लासखां - दो हज़ारी जात, डेढ़ हज़ार सवार.
 (१५५) - जाहिदखां कोका - दो हज़ारी जात, डेढ़ हज़ार सवार.
 (१५६) - एहतिमामखां - दो हज़ारी जात, डेढ़ हज़ार सवार.
 (१५७) - इनायतुल्ला - दो हज़ारी जात, डेढ़ हज़ार सवार.
 (१५८) - रहमतखां - दो हज़ारी जात, डेढ़ हज़ार सवार.
 (१५९) - अहमदबेगखां - दो हज़ारी जात, डेढ़ हज़ार सवार.
 (१६०) - राजा सूरजसिंहका बेटा सबलसिंह राठौड़ - दो हज़ारी जात, डेढ़ हज़ार सवार.
 (१६१) - जबरदस्तखां - दो हज़ारी जात, डेढ़ हज़ार सवार.
 (१६२) - मुरतारखां - दो हज़ारी जात, डेढ़ हज़ार सवार.
 (१६३) - रामपुरेका राव दूदा चन्द्रावत - दो हज़ारी जात, डेढ़ हज़ार सवार.
 (१६४) - अर्जुन गौड़ शिवपुरका - दो हज़ारी जात, डेढ़ हज़ार सवार.
 (१६५) - राजा शिवराम - दो हज़ारी जात, डेढ़ हज़ार सवार.

- (१६६) - अबुल्मआली - दो हज़ारी जात, चौदह सौ सवार.
 (१६७) - दीनदारखां - दो हज़ारी जात, बारह सौ सवार.
 (१६८) - बिहारीसिंह कछवाहा - दो हज़ारी जात, बारह सौ सवार.
 (१६९) - राव रूपसिंह चन्द्रावत रामपुरेका - दो हज़ारी जात, बारह सौ सवार.
 (१७०) - राजा रोज़ अफ़ज़ुं - दो हज़ारी जात, बारह सौ सवार.
 (१७१) - अब्दुल्हादी - दो हज़ारी जात, बारह सौ सवार.
 (१७२) - आतिशखां हबशी - दो हज़ारी जात, बारह सौ सवार.
 (१७३) - हाजी मन्सूर - दो हज़ारी जात, एक हज़ार सवार.
 (१७४) - बख़्तिवारखां - दो हज़ारी जात, एक हज़ार सवार.
 (१७५) - अब्दुरहीमबेग - दो हज़ारी जात, एक हज़ार सवार.
 (१७६) - राजा रामदास नर्वरी - दो हज़ारी जात, एक हज़ार सवार.
 (१७७) - शेरखां - दो हज़ारी जात, एक हज़ार सवार.
 (१७८) - पीथूजी (मरहटा) दक्षिणी - दो हज़ारी जात, एक हज़ार सवार.
 (१७९) - सुजानसिंह सीसोदिया शाहपुरेका - दो हज़ारी जात, आठ सौ सवार.

- (१८०) - खुशहालबेग - दो हज़ारी जात, आठ सौ सवार.
 (१८१) - दयानतखां - दो हज़ारी जात, सात सौ सवार.
 (१८२) - महदीकुलीखां - दो हज़ारी जात, छः सौ सवार.
 (१८३) - हकीकतखां - दो हज़ारी जात, तीन सौ सवार.

डेढ़ हज़ारी.

- (१८४) - मुहम्मद हुसैन - डेढ़ हज़ारी जात, डेढ़ हज़ार सवार.
 (१८५) - सय्यद अब्दुल्वह्हाब - डेढ़ हज़ारी जात, डेढ़ हज़ार सवार.
 (१८६) - राय टोडरमल्ल - डेढ़ हज़ारी जात, डेढ़ हज़ार सवार.
 (१८७) - यक्का ताजरां - डेढ़ हज़ारी जात, डेढ़ हज़ार सवार.
 (१८८) - अमानबेग - डेढ़ हज़ारी जात, डेढ़ हज़ार सवार.
 (१८९) - बहादुरखां रुहेला - डेढ़ हज़ारी जात, डेढ़ हज़ार सवार.
 (१९०) - इसफ़िन्दियारबेग - डेढ़ हज़ारी जात, डेढ़ हज़ार सवार.
 (१९१) - अब्दुरहमान - डेढ़ हज़ारी जात, डेढ़ हज़ार सवार.
 (१९२) - डूंगरपुरका रावल पूजा - डेढ़ हज़ारी जात, डेढ़ हज़ार सवार.
 (१९३) - कुतुबुद्दीनखां - डेढ़ हज़ारी जात, चौदह सौ सवार.
 (१९४) - राजा बदनसिंह भदौरिया - डेढ़ हज़ारी जात, चौदह सौ सवार.

- (१९५) - खानहज़ादखां - डेढ़ हज़ारी ज़ात, बारह सौ सवार.
- (१९६) - शरीफ़खां - डेढ़ हज़ारी ज़ात, बारह सौ सवार.
- (१९७) - सरन्दाजखां - डेढ़ हज़ारी ज़ात, बारह सौ सवार.
- (१९८) - राजा गजसिंहका पोता नागौरका राव रायसिंह - डेढ़ हज़ारी ज़ात, एक हज़ार सवार.
- (१९९) - मिर्जा मुरादकाम् - डेढ़ हज़ारी ज़ात, एक हज़ार सवार.
- (२००) - जांबाजखां - डेढ़ हज़ारी ज़ात, एक हज़ार सवार.
- (२०१) - लुफ़ुल्लाह - डेढ़ हज़ारी ज़ात, एक हज़ार सवार.
- (२०२) - भीम राठौड़ - डेढ़ हज़ारी ज़ात, एक हज़ार सवार.
- (२०३) - दौलतखां - डेढ़ हज़ारी ज़ात, एक हज़ार सवार.
- (२०४) - राजा सूरजसिंहका भाई हरिसिंह राठौड़ - डेढ़ हज़ारी ज़ात, एक हज़ार सवार.
- (२०५) - राजा द्वारिकादास कछवाहा - डेढ़ हज़ारी ज़ात, एक हज़ार सवार.
- (२०६) - उज्जैनका राजा प्रताप - डेढ़ हज़ारी ज़ात, एक हज़ार सवार.
- (२०७) - राजा अमरसिंह नर्वरी - डेढ़ हज़ारी ज़ात, एक हज़ार सवार.
- (२०८) - अल्लाहकुली - डेढ़ हज़ारी ज़ात, नौ सौ सवार.
- (२०९) - चन्द्रमन बुंदेला - डेढ़ हज़ारी ज़ात, आठ सौ सवार.
- (२१०) - अब्दुल्लाबेग - डेढ़ हज़ारी ज़ात, आठ सौ सवार.
- (२११) - शम्सुद्दीन - डेढ़ हज़ारी ज़ात, सात सौ सवार.
- (२१२) - महलदारखां - डेढ़ हज़ारी ज़ात सात सौ सवार.
- (२१३) - मुहसिनखां - डेढ़ हज़ारी ज़ात, सात सौ सवार.
- (२१४) - हिसामुद्दीनखां - डेढ़ हज़ारी ज़ात, सात सौ सवार.
- (२१५) - राणा कर्णसिंहका बेटा ग़रीबदास सीसोदिया (कैरियावालोंका बुजुर्ग) - डेढ़ हज़ारी ज़ात, सात सौ सवार.
- (२१६) - यादगार हुसैनखां - डेढ़ हज़ारी ज़ात, सात सौ सवार.
- (२१७) - कृष्णसिंह राठौड़का बेटा जगमाल - डेढ़ हज़ारी ज़ात, सात सौ सवार.
- (२१८) - आका अफ़ज़ल - डेढ़ हज़ारी ज़ात छःसौ सवार.
- (२१९) - कर्मसी राठौड़का बेटा श्यामसिंह - डेढ़ हज़ारी ज़ात, छःसौ सवार.
- (२२०) - कंवर मक़ामका ज़मींदार संग्राम - डेढ़ हज़ारी ज़ात, छः सौ सवार.
- (२२१) - खिद्मतखां ख़ाजासरा - डेढ़ हज़ारी ज़ात, छःसौ सवार.
- (२२२) - जुल्फ़िक़ार बेग तुर्कमान - डेढ़ हज़ारी ज़ात, छःसौ सवार.

- (२२३) - रायबा दक्षिणी - डेढ़ हज़ारी जात, छःसौ सवार.
 (२२४) - मिर्जा सुल्तान् - डेढ़ हज़ारी जात, पांच सौ सवार.
 (२२५) - जमालखां - डेढ़ हज़ारी जात, पांच सौ सवार.
 (२२६) - खुशहालबेग - डेढ़ हज़ारी जात, पांच सौ सवार.
 (२२७) - नवाजिशखां - डेढ़ हज़ारी जात, पांच सौ सवार.
 (२२८) - रहमतखां - डेढ़ हज़ारी जात, चार सौ सवार.
 (२२९) - हकीम गीलानी - डेढ़ हज़ारी जात, तीन सौ सवार.
 (२३०) - मीर अब्दुल्करीम - डेढ़ हज़ारी जात, दो सौ सवार.
 (२३१) - हकीम मोमिन् - डेढ़ हज़ारी जात, एक सौ सवार.

एक हज़ारी.

- (२३२) - आगाहखां - एक हज़ारी जात, एक हज़ार सवार.
 (२३३) - खानेदौरांका बेटा सय्यद मुहम्मद - एक हज़ारी जात, एक हज़ार सवार.
 (२३४) - करमुल्लाह - एक हज़ारी जात, एक हज़ार सवार.
 (२३५) - सुल्तान् यार - एक हज़ारी जात, एक हज़ार सवार.
 (२३६) - हिम्मतखां कोका - एक हज़ारी जात, एक हज़ार सवार.
 (२३७) - लश्करखांका बेटा लुत्फुल्लाह - एक हज़ारी जात, एक हज़ार सवार.
 (२३८) - सय्यद असदुल्लाह - एक हज़ारी जात, एक हज़ार सवार.
 (२३९) - गोपालसिंह कछवाहा - एक हज़ारी जात, एक हज़ार सवार.
 (२४०) - नजफ़अली - एक हज़ारी जात, एक हज़ार सवार.
 (२४१) - बांसवाड़ेका रावल समर्सी - एक हज़ारी जात, एक हज़ार सवार.
 (२४२) - पलामूका प्रताप चर्वा - एक हज़ारी जात, एक हज़ार सवार.
 (२४३) - बहरामखां - एक हज़ारी जात, नौ सौ सवार.
 (२४४) - राजा जयसिंहका बेटा कीर्तिसिंह - एक हज़ारी जात, नौ सौ सवार.
 (२४५) - शाद्मां - एक हज़ारी जात, नौ सौ सवार.
 (२४६) - सय्यद शैखनू बारह - एक हज़ारी जात, नौ सौ सवार.
 (२४७) - खलीलबेग - एक हज़ारी जात, आठ सौ सवार.
 (२४८) - उस्मानखां रुहेला - एक हज़ारी जात, आठ सौ सवार.
 (२४९) - दिलदोस्तखां - एक हज़ारी जात, आठ सौ सवार.
 (२५०) - रहमान्यार - एक हज़ारी जात, साढ़े सात सौ सवार.
 (२५१) - अबू मुहम्मद कम्बो - एक हज़ारी जात, सात सौ सवार.
 (२५२) - रावल सबलसिंह जैसलमेरी - एक हज़ारी जात, सात सौ सवार.

(२५३) - सादड़ी इलाके मेवाड़का रायसिंह भाला - एक हज़ारी जात, सात सौ सवार.

(२५४) - नसीबखां - एक हज़ारी जात, सात सौ सवार.

(२५५) - मीर जाफ़र - एक हज़ारी जात, छः सौ सवार.

(२५६) - राजसिंह राठौड़ - एक हज़ारी जात, छः सौ सवार.

(२५७) - भगवानदास बुंदेला - एक हज़ारी जात, छः सौ सवार.

(२५८) - जियाउद्दीन - एक हज़ारी जात, छः सौ सवार.

(२५९) - नज़ीरबेग - एक हज़ारी जात, छः सौ सवार.

(२६०) - अब्दुलकादिर - एक हज़ारी जात, छः सौ सवार.

(२६१) - बलभद्र शैखावत - एक हज़ारी जात, छः सौ सवार.

(२६२) - राजा हरनारायण बड़गूजर - एक हज़ारी जात, छः सौ सवार.

(२६३) - रूपचन्द्र ग्वालियरी - एक हज़ारी जात, छः सौ सवार.

(२६४) - पर्वरिशखां - एक हज़ारी जात, छः सौ सवार.

(२६५) - भोजराज दक्षिणी - एक हज़ारी जात, छः सौ सवार.

(२६६) - कृष्णसिंह राठौड़का बेटा भारमल्ल कृष्णगढ़ वाला - एक हज़ारी जात, छः सौ सवार.

(२६७) - जयमल्ल मेड़तियाका पोता राजा गिर्धर - एक हज़ारी जात, छः सौ सवार.

(२६८) - चेतसिंह राठौड़ - एक हज़ारी जात, छः सौ सवार.

(२६९) - मित्रसेन गौड़ - एक हज़ारी जात, छः सौ सवार.

(२७०) - मुहम्मद अली - एक हज़ारी जात, छः सौ सवार.

(२७१) - दर्वेश बेग - एक हज़ारी जात, छः सौ सवार.

(२७२) - सुजानसिंह - एक हज़ारी जात, छः सौ सवार.

(२७३) - नाज़िरखां - एक हज़ारी जात, छः सौ सवार.

(२७४) - मुहम्मद हाशिम - एक हज़ारी जात, पांच सौ सवार.

(२७५) - हिम्मतखां काबुली - एक हज़ारी जात, पांच सौ सवार.

(२७६) - ताहिरखां - एक हज़ारी जात, पांच सौ सवार.

(२७७) - हुसैनबेग - एक हज़ारी जात, पांच सौ सवार.

(२७८) - मीर खलील - एक हज़ारी जात, पांच सौ सवार.

(२७९) - सय्यद खादिम बारह - एक हज़ारी जात, पांच सौ सवार.

(२८०) - राय तिलोकचन्द कछवाहा - एक हज़ारी जात, पांच सौ सवार.

(२८१) - राजा कृष्णसिंह तंवर - एक हज़ारी जात, पांच सौ सवार.

- (२८२) - गोरधनदास राठौड़ - एक हज़ारी जात, पांच सौ सवार.
 (२८३) - सिकन्दरखां - एक हज़ारी जात, साढ़े चार सौ सवार.
 (२८४) - सुल्ताननज़र - एक हज़ारी जात, चार सौ सवार.
 (२८५) - लतीफ़खां नक़्शबन्दी - एक हज़ारी जात, चार सौ सवार.
 (२८६) - तुर्कताजखां - एक हज़ारी जात, चार सौ सवार.
 (२८७) - सय्यद मक़बूले आलम - एक हज़ारी जात, चार सौ सवार.
 (२८८) - शफीउल्लाह बरलास - एक हज़ारी जात, चार सौ सवार.
 (२८९) - मुहम्मद सफी - एक हज़ारी जात, चार सौ सवार.
 (२९०) - असालतखां - एक हज़ारी जात, चार सौ सवार.
 (२९१) - मुहम्मद मुराद सल्दोज़ - एक हज़ारी जात, चार सौ सवार.
 (२९२) - किशतवारका राजा कुंवर सेन - एक हज़ारी जात, चार सौ सवार.
 (२९३) - चंपाका राजा पृथ्वीचन्द्र - एक हज़ारी जात, चार सौ सवार.
 (२९४) - यह्याखां - एक हज़ारी जात, चार सौ सवार.
 (२९५) - इस्हाकबेग - एक हज़ारी जात, चार सौ सवार.
 (२९६) - दानादिल - एक हज़ारी जात, चार सौ सवार.
 (२९७) - सय्यद मुनव्वर - एक हज़ारी जात, तीन सौ सवार.
 (२९८) - फिरासतखां - एक हज़ारी जात, तीन सौ सवार.
 (२९९) - तश्रीफ़खां - एक हज़ारी जात, ढाई सौ सवार.
 (३००) - राय काशीदास - एक हज़ारी जात, ढाई सौ सवार.
 (३०१) - सय्यद अली - एक हज़ारी जात, ढाई सौ सवार.
 (३०२) - मीर महमूद - एक हज़ारी जात, ढाई सौ सवार.
 (३०३) - राय माईदास - एक हज़ारी जात, दो सौ सवार.
 (३०४) - अमानतखां - एक हज़ारी जात, दो सौ सवार.
 (३०५) - फ़िदाईखां - एक हज़ारी जात, दो सौ सवार.
 (३०६) - यकदिलखां - एक हज़ारी जात, दो सौ सवार.
 (३०७) - हिदायतुल्ला - एक हज़ारी जात, डेढ़ सौ सवार.
 (३०८) - काज़ी मुहम्मद अस्लम - एक हज़ारी जात, एक सौ सवार.
 (३०९) - हकीम मोमिना - एक हज़ारी जात, एक सौ सवार.
 (३१०) - बीकानेरके राजाकी ख़्वासका बेटा राय बनमालीदास - एक हज़ारी जात, एक सौ सवार.
 (३११) - हकीम फ़तुल्ला मुइज़ुल्मुल्क - एक हज़ारी जात, एक सौ सवार.

(३१२) - मुहम्मद मुराद - एक हज़ारी ज़ात, एक सौ सवार.
नौ सौ.

(३१३) - राजा मानसिंह तंवर ग्वालियरी - नौ सौ ज़ात, नौ सौ सवार.

(३१४) - सूफ़ी बहादुर - नौ सौ ज़ात, आठ सौ सवार.

(३१५) - जाफ़र कदीमी - नौ सौ ज़ात, साढ़े सात सौ सवार.

(३१६) - जगराम कछवाहा - नौ सौ ज़ात, सात सौ सवार.

(३१७) - शिर्जाखां - नौ सौ ज़ात, सात सौ सवार.

(३१८) - अब्दुल्हादी - नौ सौ ज़ात, छः सौ सवार.

(३१९) - राय दयालदास भाला गंगराड़का, (भालावाड़के इलाके कूंडला वालोंका बुजुर्ग) - नौ सौ ज़ात, छः सौ सवार.

(३२०) - इनायतुल्ला - नौ सौ ज़ात, पांच सौ सवार.

(३२१) - अली कुली - नौ सौ ज़ात, साढ़े चार सौ सवार.

(३२२) - आदिलखां - नौ सौ ज़ात, चार सौ सवार.

(३२३) - मुहम्मद तकी - नौ सौ ज़ात, चार सौ सवार.

(३२४) - राव हरचन्द कछवाहा - नौ सौ ज़ात, तीन सौ सवार.

(३२५) - राजा जयसिंहका बेटा माहरू - नौ सौ ज़ात, तीन सौ सवार.

(३२६) - अब्दुल्खालिक - नौ सौ ज़ात, डेढ़ सौ सवार.

(३२७) - अब्दुल्करीम थानेसरी - नौ सौ ज़ात, डेढ़ सौ सवार.

(३२८) - मुहम्मद शरीफ - नौ सौ ज़ात, डेढ़ सौ सवार.

(३२९) - रशीदा खुश नवीस - नौ सौ ज़ात, एक सौ सवार.

(३३०) - नामदारखां - नौ सौ ज़ात, एक सौ सवार.

(३३१) - मीर जाफ़र बल्खी - नौ सौ ज़ात, पचास सवार.

आठ सौ.

(३३२) - सय्यद लुफ़ अली - आठ सौ ज़ात, आठ सौ सवार.

(३३३) - सय्यद हसन - आठ सौ ज़ात, आठ सौ सवार.

(३३४) - जालौरका मुजाहिदखां (पालनपुर वालोंका बुजुर्ग) - आठ सौ ज़ात,
आठ सौ सवार.

(३३५) - नरसिंहदास - आठ सौ ज़ात, आठ सौ सवार.

(३३६) - हमीरसिंह - आठ सौ ज़ात, आठ सौ सवार.

(३३७) - कियामखां - आठ सौ ज़ात, सात सौ सवार.

(३३८) - कृपाराम गौड़ - आठ सौ ज़ात, सात सौ सवार.

- (३३९) - अबुलबका - आठ सौ जात, छः सौ सवार.
- (३४०) - निजामखां - आठ सौ जात, छः सौ सवार.
- (३४१) - उग्रसेन कछवाहा - आठ सौ जात, छः सौ सवार.
- (३४२) - सैफुल्ला - आठ सौ जात, पांच सौ सवार.
- (३४३) - बहादुरखां बाबी - आठ सौ जात, पांच सौ सवार.
- (३४४) - लक्ष्मीसेन चहुवान - आठ सौ जात, पांच सौ सवार.
- (३४५) - राजा उदयभान - आठ सौ जात, पांच सौ सवार.
- (३४६) - अब्दुलअजीज - आठ सौ जात, चार सौ सवार.
- (३४७) - रनबाजखां कम्बो - आठ सौ जात, चार सौ सवार.
- (३४८) - सय्यद अब्दुल माजिद अमरोहा - आठ सौ जात, चार सौ सवार.
- (३४९) - इन्द्रगढ़का राजा इन्द्रशाल हाड़ा - आठ सौ जात, चार सौ सवार.
- (३५०) - सय्यद लुफ़अली - आठ सौ जात, चार सौ सवार.
- (३५१) - राय जगन्नाथ राठौड़ - आठ सौ जात, चार सौ सवार.
- (३५२) - राजा उदयसिंह तंवर - आठ सौ जात, चार सौ सवार.
- (३५३) - सय्यद अमजद - आठ सौ जात, चार सौ सवार.
- (३५४) - सय्यद हामिद - आठ सौ जात, चार सौ सवार.
- (३५५) - अलीअकबर - आठ सौ जात, चार सौ सवार.
- (३५६) - मनोहरदास गौड़ - आठ सौ जात, चार सौ सवार.
- (३५७) - कोटाके राव माधवसिंहका दूसरा बेटा मोहनसिंह हाड़ा - आठ सौ जात, चार सौ सवार.
- (३५८) - अजबसिंह कछवाहा - आठ सौ जात, चार सौ सवार.
- (३५९) - अमरकोटका राना जोधा - आठ सौ जात, तीन सौ सवार.
- (३६०) - नाहर सोलंखी - आठ सौ जात, तीन सौ सवार.
- (३६१) - यादगार मसऊद - आठ सौ जात, ढाई सौ सवार.
- (३६२) - फ़तहसिंह सीसोदिया (बानसी इलाके मेवाड़के रावत केसरीसिंहका बेटा) - आठ सौ जात, ढाई सौ सवार.
- (३६३) - काजी निजामा - आठ सौ जात, दो सौ सवार.
- (३६४) - बेवदलखां - आठ सौ जात, डेढ़ सौ सवार.
- (३६५) - अकीदतखां - आठ सौ जात, एक सौ सवार.
- (३६६) - अब्दुरज़ाक - आठ सौ जात, एक सौ सवार.
- (३६७) - मीर गयास - आठ सौ जात, पचास सवार.

(३६८) - रिज़कुल्ला - आठ सौ जात, चालीस सवार.

सात सौ.

(३६९) - सय्यद सालार बारह - सात सौ जात, सात सौ सवार.

(३७०) - सय्यद अब्दुर्रहमान - सात सौ जात, सात सौ सवार.

(३७१) - मुज़फ़्फ़र सर्वानी - सात सौ जात, सात सौ सवार.

(३७२) - राजा बिहरोज़ - सात सौ जात, सात सौ सवार.

(३७३) - नरूका चन्द्रभान - सात सौ जात, सात सौ सवार.

(३७४) - सद्रखां - सात सौ जात, छः सौ सवार.

(३७५) - नस्रुल्ला अरब - सात सौ जात, छः सौ सवार.

(३७६) - संग्राम कछवाहा - सात सौ जात, छः सौ सवार.

(३७७) - जलालुद्दीन - सात सौ जात, चार सौ सवार.

(३७८) - नसीरुद्दीन - सात सौ जात, चार सौ सवार.

(३७९) - बल्लू चहुवान - सात सौ जात, चार सौ सवार.

(३८०) - सुन्दरदास शक्तावत सीसोदिया (सावर ज़िले अजमेरका ठाकुर) - सात सौ जात, चार सौ सवार.

(३८१) - नेकनामखां - सात सौ जात, तीन सौ सवार.

(३८२) - फ़तहसिंह कछवाहा - सात सौ जात, तीन सौ सवार.

(३८३) - रावत नारायणदास शक्तावत सीसोदिया (बान्सी इलाके मेवाड़के रावत अचलदासका बेटा) - सात सौ जात, तीन सौ सवार.

(३८४) - शाहअली - सात सौ जात, दो सौ सवार.

(३८५) - इब्राहीम - सात सौ जात, दो सौ सवार.

(३८६) - इस्लामखां - सात सौ जात, डेढ़ सौ सवार.

(३८७) - आरिफ़बेग - सात सौ जात, एक सौ सवार.

(३८८) - राय सभाचन्द - सात सौ जात, एक सौ सवार.

(३८९) - मुश्कीबेग - सात सौ जात, अस्सी सवार.

(३९०) - रशीदा - सात सौ जात, साठ सवार.

(३९१) - सय्यद अब्दुस्समद - सात सौ जात, पचास सवार.

(३९२) - मुहम्मद अमीन - सात सौ जात, तीस सवार.

छः सौ.

(३९३) - मुहम्मद शाह - छः सौ जात, छः सौ सवार.

(३९४) - सय्यद अब्दुल्ला - छः सौ जात, छः सौ सवार.

- (३९५) - डूंगरपुरका रावल गिर्धरदास - छः सौ जात, छः सौ सवार.
- (३९६) - चतुरभुज सोनगरा - छः सौ जात, छः सौ सवार.
- (९९७) - राव मनोहरका पोता पेमचन्द शैखावत - छः सौ जात, छः सौ सवार.
- (३९८) - जाफ़रखां तुर्किस्तानी - छः सौ जात, छः सौ सवार.
- (३९९) - सय्यद अब्दुलमुनइम - छः सौ जात, पांच सौ सवार.
- (४००) - रूहुल्ला ताश्कन्दी - छः सौ जात, साढ़े चार सौ सवार.
- (४०१) - सय्यद सुलैमान बारह - छः सौ जात, चार सौ सवार.
- (४०२) - सरमस्त बड़गूजर - छः सौ जात, तीन सौ सवार.
- (४०३) - इलाहयारका बेटा माहयार - छः सौ जात, तीन सौ सवार.
- (४०४) - प्रद्युम्न - छः सौ जात, तीन सौ सवार.
- (४०५) - अहमद कासिम - छः सौ जात, तीन सौ सवार.
- (४०६) - पाइन्दाबेग - छः सौ जात, दो सौ अस्सी सवार.
- (४०७) - सय्यद कुतुब - छः सौ जात, ढाई सौ सवार.
- (४०८) - खुदादोस्त - छः सौ जात, दो सौ सवार.
- (४०९) - अमीरबेग - छः सौ जात, दो सौ सवार.
- (४१०) - अमरसिंहका बेटा अक्बरसिंह - छः सौ जात, दो सौ सवार.
- (४११) - कोटावाले माधवसिंह हाड़ाका बेटा किशोरसिंह - छः सौ जात, दो सौ सवार.
- (४१२) - जलालुद्दीन महमूद - छः सौ जात, दो सौ सवार
- (४१३) - पृथ्वीराज राठौड़का बेटा केसरीसिंह - छः सौ जात, दो सौ सवार.
- (४१४) - मस्ऊद बेग - छः सौ जात, डेढ़ सौ सवार.
- (४१५) - जुल्फ़ीबेग - छः सौ जात, डेढ़ सौ सवार.
- (४१६) - होशदारखां - छः सौ जात, डेढ़ सौ सवार.
- (४१७) - राठौड़ मुकुन्ददास चांपावत पालीका - छः सौ जात, डेढ़ सौ सवार.
- (४१८) - हिदायतुल्ला - छः सौ जात, डेढ़ सौ सवार.
- (४१९) - मीर बाकिर - छः सौ जात, सवा सौ सवार.
- (४२०) - स्वाजह मुहम्मद - छः सौ जात, एक सौ सवार.
- (४२१) - मीर मुअज़्ज़म - छः सौ जात, साठ सवार.
- (४२२) - स्वाजह बख़्शी शामलू - छः सौ जात, पचास सवार.
- (४२३) - मीर नूरुद्दीन - छः सौ जात, चालीस सवार.
- (४२४) - काज़ी खुशहाल - छः सौ जात, तीस सवार.

(४२५) - स्वाजह मीना - छः सौ जात, तीस सवार.

(४२६) - मीर स्वालिह - छः सौ जात, बीस सवार.

(४२७) - शैख फज़लुल्लाह - छः सौ जात, बीस सवार.

पांच सौ.

(४२८) - असदुल्ला - पांच सौ जात, पांच सौ सवार.

(४२९) - हुसैनकुली आगर - पांच सौ जात, पांच सौ सवार.

(४३०) - शरफजानबेग तुकर्मान - पांच सौ जात, पांच सौ सवार.

(४३१) - कासिमअली - पांच सौ जात, पांच सौ सवार.

(४३२) - राजा कृष्णसिंह तंवर - पांच सौ जात, पांच सौ सवार.

(४३३) - चतुरभुज सोनगरा - पांच सौ जात, पांच सौ सवार.

(४३४) - सय्यद अब्दुस्समद - पांच सौ जात, साढ़े चार सौ सवार.

(४३५) - पृथ्वीराज भाटी - पांच सौ जात, साढ़े चार सौ सवार.

(४३६) - करामान - पांच सौ जात, चार सौ सवार.

(४३७) - मुहम्मद जमां अर्लात - पांच सौ जात, चार सौ सवार.

(४३८) - बहादुर कम्बो - पांच सौ जात, चार सौ सवार.

(४३९) - राजा जगमन जादव - पांच सौ जात, चार सौ सवार.

(४४०) - सय्यद इख्तियारुद्दीन - पांच सौ जात, तीन सौ चालीस सवार.

(४४१) - मीर अहमद - पांच सौ जात, तीन सौ सवार.

(४४२) - लुत्फुल्लाह शीराजी - पांच सौ जात, तीन सौ सवार.

(४४३) - अली अकबर सौदागर - पांच सौ जात, तीन सौ सवार.

(४४४) - हमीरसिंह सीसोदिया (जिसकी औलाद अब देवगढ़ इलाके मेवाड़की जागीरदार है) - पांच सौ जात, तीन सौ सवार.

(४४५) - अल्लाह दोस्त काशगरी - पांच सौ जात, ढाई सौ सवार.

(४४६) - हसनअली - पांच सौ जात, ढाई सौ सवार.

(४४७) - अवालैल् अरब - पांच सौ जात, ढाई सौ सवार.

(४४८) - हाजीबेग बरलास - पांच सौ जात, ढाई सौ सवार.

(४४९) - शिताबखां - पांच सौ जात, ढाई सौ सवार.

(४५०) - शैख अबुल् फज़लका पोता पिशोतन - पांच सौ जात, ढाई सौ सवार.

(४५१) - गोविन्ददास राठौड़ - पांच सौ जात, ढाई सौ सवार.

(४५२) - महेशदास राठौड़का भाई जश्वन्त - पांच सौ जात, ढाई सौ सवार.

(४५३) - राजा मानसिंहका पोता पृथ्वीसिंह - पांच सौ जात, ढाई सौ सवार.

- (४५४) - राजा मानसिंहका पोता कृष्णसिंह - पांच सौ जात, ढाई सौ सवार.
- (४५५) - शक्तिसिंह चहुवान - पांच सौ जात, ढाई सौ सवार.
- (४५६) - नईमबेग - पांच सौ जात, दो सौ बीस सवार.
- (४५७) - नजफ़अली - पांच सौ जात, दो सौ सवार.
- (४५८) - याकूबबेग - पांच सौ जात, दो सौ सवार.
- (४६९) - राजा नरसिंहदेव बुंदेलका बेटा बैनीदास - पांच सौ जात, दो सौ सवार.
- (४६०) - मीर फ़त्ताह - पांच सौ जात, दो सौ सवार.
- (४६१) - दर्या पठान - पांच सौ जात, दो सौ सवार.
- (४६२) - फ़र्हाद बिल्लोच - पांच सौ जात, दो सौ सवार.
- (४६३) - अबुलबका - पांच सौ जात, दो सौ सवार.
- (४६४) - फ़तहुल्ला बर्लास - पांच सौ जात, दो सौ सवार.
- (४६५) - जवाहिरखां - पांच सौ जात, दो सौ सवार.
- (४६६) - तुग्रिल अर्सलां - पांच सौ जात, दो सौ सवार.
- (४६७) - इब्राहीम हुसैन तुर्कमान - पांच सौ जात, दो सौ सवार.
- (४६८) - इनायतखां रुहेला - पांच सौ जात, दो सौ सवार.
- (४७९) - राजा मानसिंहका पोता उग्रसेन कछवाहा - पांच सौ जात, दो सौ सवार.
- (४७०) - राजा विक्रमादित्यका बेटा मानसिंह - पांच सौ जात, दो सौ सवार.
- (४७१) - राजा विठ्ठलदासका भाई मनोहरदास - पांच सौ जात, दो सौ सवार.
- (४७२) - बलभद्र शैखावतका बेटा कन्हई - पांच सौ जात, दो सौ सवार.
- (४७३) - अलीबेग जीक - पांच सौ जात, डेढ़ सौ सवार.
- (४७४) - जमालुद्दीन - पांच सौ जात, डेढ़ सौ सवार.
- (४७५) - मुत्तलिखां - पांच सौ जात, डेढ़ सौ सवार.
- (४७६) - सईदखां बहादुरका बेटा फ़तहुल्ला - पांच सौ जात, एक सौ पच्चीस सवार.
- (४७७) - शैख़ मुअज़्ज़म - पांच सौ जात, सौ सवार.
- (४७८) - अताउल्ला खाफी - पांच सौ जात, सौ सवार.
- (४७९) - मुहम्मद हुसैन तैराही - पांच सौ जात, सौ सवार.
- (४८०) - सलाबतखांका बेटा मुहम्मद मुराद - पांच सौ जात, सौ सवार.
- (४८१) - गाज़ी बेग - पांच सौ जात, सौ सवार.
- (४८२) - मीरक़ हुसैन खाफी - पांच सौ जात, सौ सवार.

- (४८३) - इस्माईल बेग जीक - पांच सौ जात, सौ सवार.
 (४८४) - सय्यद शिहाब बारह - पांच सौ जात, सौ सवार.
 (४८५) - केसरीसिंह राठौड़ - पांच सौ जात, सौ सवार.
 (४८६) - मुहसिन सफ़ाहानी - पांच सौ जात, अस्सी सवार.
 (४८७) - मुईनुद्दीन राजगढ़ी - पांच सौ जात, अस्सी सवार.
 (४८८) - मुहम्मद स्वालिह खुश्नवीस - पांच सौ जात, साठ सवार.
 (४८९) - अहदियोंका बख्शी अस्करी - पांच सौ जात, साठ सवार.
 (४९०) - स्वाजह नूरुल्लाह - पांच सौ जात, पचास सवार.
 (४९१) - सनाईबेग शाम्लू - पांच सौ जात, पचास सवार.

शेष संग्रह नम्बर-१.

श्री रामोजेयति.

श्री गणेश प्रसादातु.

श्री ऐकलिंग प्रसादातु.

सही

१ भाई पीमराज
 धधवाडाहे दीयोजी १

॥ महाराजा धिराज महाराणा श्री जगत्सिंघजी आदेशातु गढ वी पीमराज जात धधवाड्या कस्य १ गांम ठीकरचो वडो उदक आघाट करे मयाकीधो, दुवे श्रीमुख प्रतदुवे साह अखेराज लीषतं पंचोली केसो-दास स्वदतं परदतं जे हरंत वीसंधरा षष्ट वरस से हसराणां वीस्टा अंजाईते क्रम संवत १६८५ व्रषे असाढ वदी ३ सुक्रे.

शेष संग्रह नम्बर- २.

यह प्रशस्ति बेड़वासकी सरायके पासवाली बाबड़ी में
सीढ़ी उतरते वक्त बहिनी तरफके आलेमें है.

श्री रामजी ॥ श्री गणेशायनमः ॥ श्री श्री श्री षेमजमाताजी प्रसादात् ॥ श्री सिद्धश्री
गणेशगोत्र देव्या प्रसादात् ॥ श्री कृष्णायनमः ॥ सर्व देवेभ्योनमः ॥ ब्रह्मको उपास कायस्थो
नाम धरकः तस्यवंश मध्ये कायस्थ भटनागरः कुलदेव्या षेमज. काश्यपगोत्रे.
तस्यवंश मध्ये उत्कृष्टोनामः अथ कुलवर्णनः तिणकुल मध्ये प्रथम पंचोली बड़वोजी
तस्य सुत श्री चेलोजी. तत् सुत कन्हजी तत् सुत मोल्होजी तिणे गाम मोलेला
आपरे नामे बसायो प्रासाद उद्धर्या. तत् सुत पंचोली श्री मोकलजी तत् सुत
श्री गोपीजी तत् सुत श्री लखमीदासजी तत् सुत श्री सदारंगजी. तत् सुत श्री
भागचन्दजी वंशरा भागीरथ हुआ राणेजी श्री जगत्सिंहजी प्रधान पदवी दीधी
तणी समे गाम दश दीधा ग्रामरा नाम ऊंटालो, दड़वो, देलावास, दांतों, महुड़ी,
कलड़वास, बड़ोली, सेटवाणो, थोहरयो, भीलेडो, ए गाम १०, हाथी गजराज घोड़ा
५१ एकावन तिणा मध्ये १ रूपारी सागतसू वस्त्र आभूषण सहित राजमान
घणो हुवो; जातरा २ कीधी १ श्री द्वारकाजीरी मांधाताजीरी, राणाजी श्री
जगत्सिंहजीरा हुकम थी बांसवाला ऊपरे बिदा हुआ, बड़ा बड़ा उमराव लोग साथे दिया.
जाय बांसवालो भांज्यो मास छः सुधी उठे रह्या, तदी रावल समसीजी आवे मिल्या
इतरो दंड माथे करे अणे राणाजी श्रीजगत्सिंहजीरे पावें लगाया, बांसवालारा
देशरो दाण तथा गाम दश. पंचौलीजी श्री भागचंदजी श्रीएकलिंगजी श्रीषीमज-
माताजी रो देवल उधर्यो देवल ईडो चढाव्यो तदी तुला १ रूपारी कीधी रुपिया
हजार ७२०० सात हजार दोयसे तुला सूर्यी रुपारी पोथी छोड़ावी रुपिया हजार
च्यार रो दान कीधो राणेजी श्री जगत्सिंहजी वार तीन पंचोली श्री भागचंदजीरे घरे
पधारया इतरा हाथी पाया. चंचलो १ सार धार १ जगत्सोभा १ हथणी सहेली १
उदेपुरमांहे राणेजी श्री जगत्सिंहजी नवा महेल मंडावे दीधा जीव्या पर जंत प्रधान
पदवी रही पंचोलीजी श्री भागचंदजी सुत पंचौली श्री फतहचंदजी चिरंजीवी राणेजी
श्री राजसिंहजी पंचोली श्री फतहसिंहजी हे प्रधान पदवी दी धी जिंकां ई पंचोली
श्रीभागचंदजी पाव्यो थो जितरो सघलो श्री फतहचंदजीने मयाकीधो इतरा हाथी
पाया १ रामपसाव १ नादरगज १ गजनिधान घोड़ा पहलां पाया जितरा तिणा मध्ये
घोड़ो १ तेजरूप रूपासोनारी सागत सहित राणेजी श्री राजसिंहजी पंचोली
श्रीफतहचंदजीने बांसवाला ऊपरे बिदा कीधा, इतरा उमराव साथे दीधा- १

रावत रुषमांगद १ राठौड़ दुरजणसिंहजी १ रावत रुगनाथसिंहजी १ सगतावत
 मौहकमसिंहजी १ रावत राजसिंहजी १ सीसोदिया माधवसिंहजी १ रावत मानसिंह
 सारंगदेवोत १ राठौड़ माधोसिंह १ सोलंखी दलपत १ चहुवाण उदेकरण १ सगता-
 वत गिरधरजी १ सगतावत सूरसिंहजी १ ईडरघो जोधजी १ भालो महासिंहजी
 १ सवल रिणछोड़दास तथा और ही बड़ा बड़ा उमराव तथा बड़ालोक कामदार
 वितगरा सरब साथे विदा कीधा असवार हजार पांच हाथी रणजगंसाथे विदा
 हुया सवल समर्सी सामो आवे मिल्यो इतरो कबूल कीधो रुपिया एक लाख गाम
 दस हाथी १ हथणी १ इतरी वसत कबूल करावे राणाजी श्री राजसिंहजीरे पावें
 रावल समर्सीजी आपे लगाया तठा पाछे देवल्ये विदा हुआ तदी रावत हरीसिंहजी भागेने
 श्री पातसाहजी हजूर गया देवल्यो भंज्यो कुंवर प्रतापसिंहजी आवे मिल्यो इतरो दंड
 कबूल कीधो रुपिया हजार पांच हाथणी १ उतरो उणातीराथी दंडलेने राणाजी श्री राजसिं-
 हजीरे पावें आया राणे श्री राजसिंहजी मालपुरो मारवा पधास्या तदी पंचोली श्रीफतेचं-
 दजी हे गढ तोड़ा (टोडा) ऊपरे विदा कीधा आगे बिषो हुयोथो तदी तोडारे धणी मेवाडरा
 लोगाथी बेअदबी कीधीथी तिणी खूनरे वास्ते असवार हजार तीन ३००० पंचोली श्री फतेचं-
 दजीरी साथे देने विदा कीधा तदी श्री दीवाणजीरा प्रतापथी राजा रायसिंहजी तोड़ामाहें थो
 टालो लीधो रुपिया हजार पेंतीस ऊमे दंडलेने राणाजी श्री राजसिंहजीरे पावें पाछा दिन दो
 माहें मालपुरे आवे पगेलागा-- राणोजी श्री राजसिंहजी वार तीन पंचोली श्री फतेचंदजीरे
 घरे पधास्या जात्रा ३ कीधी १ श्री द्वारकानाथजीरी १ श्री रेवाजीरी १ श्री अर्बुदाचलजीरी
 तठापछे चित्तमें इसी आवी एक वकत ठिकाणो इसो कीजे तिणथी नाम रहे गाम
 बेड़वास तीरे वावडी नाम नंदा पंथरे माथे करावी संवत १७२५ वर्षे शाके १५९०
 प्रवर्तमाने उत्तरायण गते श्री सूर्ये वसंत ऋतौ वैशाख मासे शुक्ल पक्षे ६ षष्ठी तिथी
 सौम वासरे पुष्य नक्षत्रे तदिने श्री वावडीरी प्रतिष्ठा हुई वावडी सामी सराय एक
 करावी सराय मध्ये महल कराव्या वावडी तीरे बाग १ बीघा १३ रो कराव्यो संवत्
 १७३० वर्षे चैत्र वदी ९ शुक्लेरे दिन महाराणाजी श्री राजसिंहजी उदेपुरथी तलाव
 राज समंद पधारतां वावडी आवे ऊभा रहे वावडीरो पाणी मंगावे अरोगे हुकम कीधो
 पाणी निपट अवल है श्री दुहा. भागचंदको सुत बली फतेचंद बहु जाण ॥
 चिरजीवो श्रीचंद जुत करत दान सन्मान ॥ फतेचंद कीनी नवल गाम बहडवा मांहि
 ॥ थिर व्हे रहजो वावडी बाग सरस घन छांहि ॥ २ ॥ कमठाणो इहवो कियो चिहु जुग
 चावो चंद ॥ जुग विसराम लिये जठे दिनसी राम दुणिंद ॥ ३ ॥ जिहां असमान
 धरतीयां जिहां रामरहमान ॥ जिहां लग रहसी चन्दतन कीध फता कमठाण ॥ ४ ॥

श्लोक

आरोग्य मस्तु कमलाभि मुखी सदास्तु । वलमस्तु महज्यशेसास्तु ॥ धन धान्य
पुत्रा गमसिद्धि रस्तु । वंशे सदैव भवतां हरि भक्ति रस्तु ॥ ५ ॥ दोहा ॥ एकलिंग
दश सहस धर उदियापुर रजधान ॥ त्यो कमठाणा चन्दका ठामा उग विहाण
॥ ६ ॥ क्यारो लिखमीदास कुल सदा रंग अंकूर ॥ फूल भागचंद फल फतो
दिन दिन चढतो नूर ॥ ७ ॥ देखन आये बावडी वाका खलक लिखाण ॥ पाट
भगत ज्यानो फता नीर अरोग्यो राण ॥ ८ ॥ उदियापुर व्हेजे अचल चंद वाय
दरसाय ॥ तिनकूं सिध नव निध मिले देस प्रदेशां जाय ॥ ९ ॥ जब लग
अंबर मेदनी नेह मेह मघवान ॥ जब लग वेली चंदकी राजी रहसी राण ॥ १० ॥
इति श्री भाषा प्रशस्ति संपूर्ण लिखतं सूत्रधार हम्मीरजी सुतसाइब भवानी-
शंकर संवत् १७२५ लिखतं गजधर कमलाशंकर सुत दोलो गजधर रूपो
मंडोवरा वास उदयपुररा गजधर जात गौड़

शेषसंग्रह नम्बर ३

ढैकारनाथकी प्रशस्ति.

श्री महागणपतयेनमः ॥ श्री नर्मदादेव्यै नमः ॥ श्री आंकारेश्वराय नमः ॥ जयति
श्री रघुवंशः श्रीरामो यन्न मौक्तिक प्रस्य ॥ काश्यां मुक्तौ मंत्रं यस्य सदा शंकरो
दत्ते ॥ १ ॥ तस्यान्ववाये शिवदत्तराज्यो वापाभिधानो जनि मेदपाटे ॥
संग्राम भूमौ पटुसिंह रावं लातित्यतो रावल इत्य भाणि ॥ २ ॥ राहप्यराणा भुवि
तस्य वंशे राणेति शब्दं पृथयन् पृथिव्यां ॥ राणो हि धातुः खलु शब्दवाची तं
कारयत्येपयतः पराङ्मुखान् ॥ ३ ॥ तस्मान्नर पति राणा दिनकर राणा बभू-
वाथ ॥ अजनिजसकर्ण राणा बभूव तस्मा न्नाग पालास्यः ॥ ४ ॥ श्री पूर्ण-
पाल नामा पृथ्वीमल्ल स्ततो राणा ॥ सबभूव भुवनसिंहस्तत्पुत्रो भीमसिंहो
भूत् ॥ ५ ॥ अजनि जयसिंह राणा जातस्तस्माच्चलखमसी राणा ॥ अरसीतं
तो हमीरः सजातः क्षेत्र सिंहोस्मात् ॥ ६ ॥ श्रीलक्षसिंह भूपो राणा श्री मोकल
स्तस्मात् ॥ श्रीकुंभकर्ण उद भूद्राणा श्रीराय मल्लोस्मात् ॥ ७ ॥ संग्रामसिंह राणा
जातो भूपाल मौलिमणिः ॥ श्री राणोदयसिंहः प्रतापसिंह स्ततो जातः ॥ ८ ॥
अमर समो मरसिंह स्ततो नृपः कर्णसिंहो भूत् ॥ गुण गण निधिस्ततो भूद्रा
णा श्रीमज्जगत्सिंहः ॥ ९ ॥ जगत्सिंहो मही भूपः कल्प वृक्षः कथं समः ॥ सहि
जीवन साकांक्ष स्तुतु जीवन भूमृतां ॥ १० ॥ जगत्सिंहो महाराजः चितितादधिक


प्रदः ॥ चिंतना वधि दाताहि कथं चिंता मणिः समः ॥ ११ ॥ नित्य नैक करेषुच
भूपेंद्र भुवन प्रदः ॥ एक वार बलिप्राणो वामने भुवनं ददौ ॥ १२ ॥

श्रीएकलिंग प्रसादात् ॥ जयति जगति विख्यातः सकल महिलोक पावनः सुमतः
श्रीएकलिंग दैवतं गोत्रं श्री वैज बापाङ्कः ॥ १ ॥ तस्य कुलालं करणो गुहदत्तो
न्वर्थ नामधेयो भूत् ॥ अद्यापि यस्य नाम्ना वंशोयं ख्याति मान् जगति ॥ २ ॥
श्रीमाननूप नृपति गुहिला मिधानो धर्माच्छशासवसुधां मधु जित्प्रभावः ॥
यस्मादथो गुहिल वर्णन या प्रसिद्धो गौहल्य वंश भवराज गणोत्र जातः ॥ ३ ॥
मात्रा प्रसूतः किल जांबवत्या श्रीकर्ण भूपात्मज एष राणा ॥ श्रीमज्जगत्सिंह
इवास्ति सिंहः सिंहासने पुत्रवति प्रतापी ॥ ४ ॥ धर्मात्मा धन्य शीलो धवलित
ककुभं कीर्ति सोमं प्रशास्ता शास्ता वार्ध्यं बराया श्वतुरधिकतमा शीति
कोदाधिनाथं ॥

जातो वंशोदवस्या खिल धरणि भृतां भूभृतां क्षत्रियाणां ॥ मौलिमौलींदु भक्त
स्तत मातर चल श्री जगत्सिंह राणा ॥ ८ ॥ एकदादान वर्षाय समुद्दिश्य
हरालयं ॥ दिदृक्षुः समगा तत्र मांघातार मुपा सितुम् ॥ ९ ॥ तत्र दृष्ट्वा नदीं रम्यां
रेवां चामर कंटकां ॥ तत्रोकारेश्वरं राणाप्रसन्नमनसाजगौ ॥ १० ॥ श्रीमत्
कस्यपरे परार्द्ध समये वैवस्वते चांतरे चाष्टाविंशतिमे कलौ युग वरे श्री
विक्रमार्के दिने ॥ वेद व्योम १७०४ ह्येंदु वत्सर वरे मांघातुके पत्तने वैज्वापा
यन गोत्र वंश तिलकः श्रीराण वंशोद्भवः ॥ ११ ॥ मुक्ता रत्न सुवर्ण मिश्रित
महा पूजां तुलां चा करोत् । कर्ण स्यात्मज एषवर्षशतशोजीयान्निर्गता
दशा ॥ यत् श्लाघात्र गृणंति ब्रह्म मुनयः प्रज्ञा प्रसादोद्भवा । कीर्ति वंदिज
ना रणक्षिति भवां दानोद्भवां चेतरे ॥ १२ ॥ मास्या षाढे सिते पक्षे कुव्हां मंगल
वासरे ॥ रवि पर्वणि रात्र्योद्यैः सुवर्णैश्चा करो तुलां ॥ १३ ॥ प्रशस्ति क्रियतां
चेयं तोरणे चतुलोद्भवे ॥ भान्वास्य सूत्र धारस्य मुकुंदेनच सूनुना ॥ १४ ॥
पंचोली कल्ला सुतपंचोली सुजरण जात गुधावत्

सूत्रधार मुकुंद भूधर गजधर श्रीरस्तु

श्री नर्मदा प्रसन्नोस्तु



शेष संग्रह नम्बर ४

जगन्नाथरायजीके मंदिरकी प्रशस्ति.

॥ श्रीमहागणपतयेनमः श्रीएकलिंगजी प्रसादात् श्रीजगन्नाथरायजी प्रसादात्

श्रीभवान्येनमः श्रीविश्वकर्म्मणेनमः ॥ गुणगुरुगौरीसिंहाद्यस्माद्गीता दिशां-
 करिणः ॥ तमपि व्यथयत् सरवैः कोपिकरीन्द्राननः पायात् ॥ १ ॥
 भवानी भय भृद्रभृद्भुजंगभजनाभृतः ॥ भवतो भवतो भूयाद्भव्यं २ भवे भवे
 ॥ २ ॥ अतीवतेजोद्युपतीन्द्र पूज्यं व्रतीश्वरैः सप्त शतीभिरर्च्यं ॥ रतीश जीवातु
 गतिं दधानं प्रतीत दुर्गा घिमतीवन्दे ॥ ३ ॥ राणा श्री मज्जगत्सिंह प्रशस्ति
 कृष्ण सूनुना ॥ कठौडीग्रामतैलंग लक्ष्मीनाथेन तन्यते ॥ ४ ॥ सजयति
 रघुकुलतिलकः श्रीरामः कीर्तिमुक्ताक्तः ॥ काश्यामुक्त्यै मंत्रं यस्य मुदा
 शंकरो दत्ते ॥ ५ ॥ तदंशे नृपमुकुटस्थायिपदो विजयभूपृथ्वीन्द्रः ॥ पद्मा
 दित्य स्तद्रूस्यत्का योध्यां बभूव दक्षिणगः ॥ ६ ॥ बापाभिधोथोजनि
 मेदपाटे तस्या न्ववाये शिवदत्त राज्यः ॥ संग्राम भूमौ पटुसिंह रावं लातीन्यतो
 रावल इत्यभाणि ॥ ७ ॥ वातीति यस्मात्त्रिजगत् सुनित्यं वाशब्द वाच्यः किलतेन
 वायुः ॥ तंप्राण वायुंजगतीतलेस्मिन् यत्पाति वापा इतितेन जातः
 ॥ ८ ॥ आगच्छ शब्दे किल दक्षिणस्यां राशब्द एव क्रियते जनेन ॥
 बलेति संबुध्य महाबलिष्ठं वापा नृपंतं किल दक्षिणात्यम् ॥ ९ ॥ राज्यं प्रदातुं
 पटु मेदपाटे यद्रावले त्याह्वय देकलिंगः ॥ ततः प्रभृत्यस्य नृपस्य वंश्या दधुस्त
 दास्यां भुवि रावलेति ॥ १० ॥ राहृप्प राणो जनितस्य वंशे राणेति शब्दं प्रथ
 यन् प्रथिव्यां ॥ रणोहि धातुः खलु शब्द वाची तंकारयत्येष रिपून्द्रुतार्त्तान्
 ॥ ११ ॥ वन्हेर्वाची यत्प्रसिद्धोरशब्दो धातुश्चास्तेजीवनार्थेह्यणस्तु ॥
 यज्ञै रग्ने जीविनादप्यजस्रं राणः शब्दस्तेषु भूपेषु वित्तः ॥ १२ ॥ राणा
 भवन्नरपतिः पटुनामधेयो भूभार दूर करणाय नरा वतारः ॥ यस्याभि मन्यु
 रहतोपिहतः कथंचिच्चंचत्कृपादिगुरुणाथसुयोधनेन ॥ १३ ॥ राणादिन-
 करो पूर्वः सत्संज्ञस्तेजसैवयः ॥ छायाया संगतस्यापी नमंदः कोप्य
 भूत्सुतः ॥ १४ ॥ अभूतपूर्वः कर्णोभूजसकर्णा भिधःप्रभुः ॥ परेषां कवच
 चेच्छता नराधेयोपि योभवत् ॥ १५ ॥ नागपालो भवत्पृथ्वीं विधृत्य भुजयैकया ॥
 दिग्नागशेषनागानां पालनात् सार्थकाव्हयः ॥ १६ ॥ अन्ये क्षीणस्य
 पातारः पूर्णपाल स्वभूत्प्रभुः ॥ धनाध्यक्षादिपूर्णानां पालनात्सार्थका व्हयः
 ॥ १७ ॥ यंवीक्ष्यस्तंभ सक्तं सकल मपिजगद्यत्पदाधारपीठीं नच्योन्नत्यापि
 विभृत् पृथुलमणि शिलां संगतं वैगदातैः ॥ पृथ्वीत्यंमल्लरूपा भवति
 नरपतौ यत्र यस्मान्नृपालः ॥ पृथ्वीमल्लेत्यभिख्यो नरपतिमुकुटालंकृति स्तेन
 जातः ॥ १८ ॥ यत्रैवस्थीयते तत्तुंसिंहेनान्येन रक्ष्यते ॥ अयं भुवनसिंहो भूद्र-
 क्षितुं भुवन त्रयम् ॥ १९ ॥ भीमसिंहो हरिस्पदी शिवोभूत् करजश्रिया ॥ बलि

प्रल्हाद भिल्लोके हिरण्य कशिपुक्षमः ॥ २० ॥ एकलिंग प्रभावेन जयसिंह क्षमा-
 धरः ॥ कृत्स्न गोरक्षक स्तस्या रजः संमार्जनं दधौ ॥ २१ ॥ अस्माभिर्गहने-
 गतं बहुविधः क्लेशोपि सोढः परं ॥ शत्रुश्चेन्निहतः प्लवंगनिवहैः कैश्चि दिने
 रावणः देवेनाशुनखेनसिंहवपुषा तत्रैव शत्रुर्हतस्तस्मालक्ष्मणसिंह एष
 किमभू द्विजः सरामानुजः ॥ २२ ॥ अकारवाच्यो भवतीहविष्णु स्तस्यार्चने
 यत्सुचिरं प्रवृत्तः ॥ गुणाम्बुधिर्भूमि पतीश्वरो महान् राणाततो भूदरसीति
 वित्तः ॥ २३ ॥ हकार वाच्ये किलकोप वन्हौ साम्लेच्छजातिः खलुमीर वाच्या ॥
 प्रवेश्य दग्धेतिहमीरनामा बभूव राणा जगती शिरो मणिः ॥ २४ ॥ पर-
 क्षेत्रग्रहीतापिस्वक्षेत्रनिरतः शुचिः ॥ क्षेत्रेषु क्षेत्र दातायः क्षेत्रसिंह स्ततो
 भवत् ॥ २५ ॥ म्लेच्छा म्लेच्छ पतिं तृणस्य पुरुषं कृत्वान्य भूमृन्मृगान्
 विद्राव्यक्षितिमंडलेद्विजगणान्क्षेत्राप्यभोक्तुं ददुः ज्ञात्वातान्यवनान्नि गृह्य
 कृषिकान् सक्षेत्र भूपः क्रुधा क्षेत्राणिस्ववशानि तानि दयया किंनद्विजे
 भ्यो ददौ ॥ २६ ॥ प्रत्यहं हसति सिंहवाहिनीमां विलोक्य वृषवाहनं
 हरं ॥ माधरिप्यति सदैव मूढ्न्न्ययं लक्षसिंह मितिकिं वृषं व्यधात् ॥ २७ ॥
 पुत्रवत्सु महासेनां दुर्गां दत्तै व प्रष्टतः ॥ लक्षसिंहो द्विपञ्चण्ड मुण्ड च्छेताद्भुतं
 स्वयं ॥ २८ ॥ युग्मम् मकार वाच्यो विधिरेप विष्णुस्त्वकार वाच्योथ शिवोह्यु
 कारः ॥ कलास्त्रयाणा मिहसन्ति यस्मात् तस्मादभूमोकलनाम भूपः ॥ २९ ॥
 श्री कुम्भोद्भवमेव भूमि वलये श्रीकुम्भ कर्णं नृपं गत्यां धीर गजेन्द्र मन्द गमहो
 सद्वाङ् वाग्नि मृधे ॥ भीमंच स्मृति मानयन् रिपुगणो भुक्तिं निनायक्षयं नोचित्रं
 तदि हास्ति यत् स्वयमपि प्राप्तः क्षणाद्भस्मतां ॥ ३० ॥ कांतंकुम्भंजगन्
 मूर्द्ध्वयत्सुवर्णांतरंविधिः ॥ न्यधात्तस्यांतराभूपात्किं म्लेच्छमुख दर्शनं
 ॥ ३१ ॥ दिनेदिनेदृढीभूतंशीतलाचलचेतसि ॥ स्नेहं पाकोद्भवः
 कुम्भो जडंत्यत्कानकिंदधे ॥ ३२ ॥ मेरौदेवानरक्ष्याः सुररिपुभयतः
 कुम्भमेरुसुदुर्गं कृत्वायः कुम्भराजो हरिरिवविवभावप्सरः सत्कुलेन ॥ सत्
 सन्तानं सकल्पोगम दलित मही पारिजातोत्सवाख्यं ॥ नोद्यानंनन्दनंकिंस्वय
 मिहकृत्वान्सोभिषिक्तंचकुम्भः ॥ ३३ ॥ क्षुद्रम्लेच्छांधकूपान्तर विल विल
 सजीवन ग्राहि वेगाद् भूलोके कुम्भ राजत् कुलमतुलरसं संवृषं सद्गु-
 णौघं ॥ काले स्मिन्नेक काष्ठे प्रतिपल चपलेः कुम्भ यन्त्रे निधाय क्षेत्राणि
 क्षेम वृक्षान् द्विजकुलमतुलंजीवयामासवेधाः ॥ ३४ ॥ नेत्रे मीनंच
 कूर्मपदकमलयुगेपांडुको लंक्षमायां सिंहमध्ये प्रकोष्ठे गुरुजननमने
 वामनंसंगरेन्यं ॥ स्नेहेन्यं मूर्द्ध्व कृष्णं भुविनर दयने बुद्धमन्यं शकांते

पद्मानाथावतारं जगति जयतिको राजमल्लं नृमलः ॥ ३५ ॥ सर्वेपिसंतः
 सुखिनो भवन्ति नवारिराशान् क्षपयन् क्षमातः ॥ शिष्टाननंतान् स्वयशोबुधीन्
 परान्कुम्भोद्भवोप्यद्भुतमाततान् ॥ ३६ ॥ भूत्वानंगः कृष्णपुत्रोपि सांगो राज्यं
 नापत्तेन भूपोत्र भूत्वा ॥ कृत्वावश्यंशंबरंराज्यमाप द्वर्मे मोक्षे चार्थं कामे
 रतिंच ॥ ३७ ॥ सोयंसांगमहीपतिः स्मरतनुः श्रीमांडवाख्यालसद्गुणेशंयवने
 श्वरं मुदफरं बध्वात्यजत्सत्कृपः ॥ बध्वाथो महमूदखानमतुलं म्लेच्छाधिपं शंबरं
 जित्वा दुर्जयगुर्जेश्वरमतः कीर्त्याभिषिक्तो भवत् ॥ ३८ ॥ सशूरः पश्चिमादुद्यन्
 क्रामन्नकबरः क्षितिं ॥ नकिंहीनकरो भूयात् प्राप्योदयमहीभृतं ॥ ३९ ॥ सदो दयोद्ग
 वोभास्वान् प्रतापो वारुणीं जहौ ॥ भवत्य कबरध्वांते नसंध्याक्तो नचास्तभाः ॥ ४० ॥
 कृत्वा करे खड्गलतां स्वबल्लभां प्रतापसिंहे समुपागते प्रगे ॥ साखंडिता
 मानवती द्विषच्चमूः संकोचयंती चरणं पराञ्जुखी ॥ ४१ ॥ वार्द्धिं मथित्वा
 प्यनुजेन विष्णुना समाहता श्री रिति लज्जितः किमु ॥ भूमौ समेत्ये
 त्यमरेंद्र भूमृता म्लेच्छाब्धिमामथ्य रमा करेकृता ॥ ४२ ॥ सदाक्षमापाः
 करिणो पियस्य करेण सिंचन्ति पदं मुदैव ॥ यंभूपसिंहं नरपाल गव्योप्यहो
 भजन्ते दयया वशीकृतं ॥ ४३ ॥ जातो भूपामरेंद्रान्महितगुरुकृपश्चाप
 विलक्षभेता कृष्णोद्वाही सदासौ द्विजकुल सुगवीः पालयन् स्तीर्थसेवी ॥
 जातः श्री मत्सुभद्रांगजइति वनदो वाडवा यक्षमैद्रान् जित्वास्यामर्जुना
 दप्यधिक इति पुनः किंनु कर्णोवतीर्णः ॥ ४४ ॥ राणा श्री कर्णसिंहः क्षिति
 कुल तिलकःक्षोभयन् क्षोण्णिक्रं सर्वत्र व्याप्तसैन्यं तृणमिव कलयन् म्लेच्छ
 नाथं मदोग्रं ॥ जित्वा दग्ध्वा सिरोंजाभिधनगरवरं चित्र वदिल्लि भर्तुश्चक्रे काष्ठा
 समस्ताः प्रतिरव विलस दुंदुभिध्वान पूर्णाः ॥ ४५ ॥ उग्र प्रभावांद्भुवि यत्पदांते भूमन्
 मृगा मुक्त मदा लुठन्ति ॥ कुलीन भूमृच्चमरी मृगाश्च यंभूपसिंहं चमरै रवीजयन् ॥
 ४६ ॥ जातस्तस्मान् महाराणा जगत्सिंहाभिधः प्रभुः ॥ सौम्योपि सोम भक्तो भूत्
 युधिष्ठिर इवापरः ॥ ४७ ॥ भास्वान्भीमो बलिध्वंसी जगन्माता विनायकः
 पूज्यः श्री मज्जगत्सिंहः पंचदेवमयः प्रभुः ॥ ४८ ॥ वर्षे वेदाष्टशास्त्रक्षितिगण
 नयुते माधवे शुक्लपक्षे पंचम्यां राज्यपीठं कलयति शुभदं श्री जगत्सिंह
 भूपे ॥ देवा संतुष्ट चित्ता दधति सुकवयो ग्राम रत्नाश्व नागान्यास्तान् संख्यातु
 मीष्टे दशशतरसनो नैव शेषः कुतोऽन्यः ॥ ४९ ॥ सदंशां चित्रकूटे शिरसि
 विकसित श्रीजगत्सिंह राजा मुद्गेल्लम्लेच्छ वार्द्धिं सुजनमणिभृतां मेद पाठाख्य
 नौकां ॥ वातेद्वे विष्यधर्मे स्थिर यितुमनिशं कर्णधारैकलिङ्गो नीचै रेवा क्षिपत्किं
 दृढ कमठ शिलां श्रृंखलां शेष नागं ॥ ५० ॥ आलाने चित्रकूटे सुकृत पटुगुणै

वैधनी कुंभमेरुदुर्गं कुंभस्थलं किं कलयति भुवियः शैलकायोति दानी ॥
 भास्वद्वंशोपरिस्थद्वजपटमिहिरो नेकपो मेदपाटः श्रीमानुग्र प्रभावात्तमवति
 न किमु श्रीजगत्सिंहभूपः ॥ ५१ ॥ भास्वद्वंश धरैर्नृपैः परिधृतं सत्कुंभमग्रे
 जगत्सिंहेनप्रतिभूषितं बहुयशो मुक्ताफलैर्मण्डितं ॥ सच्छायं पुरुषार्थ
 सत्पदमहो धैर्यादिभृत्यैर्वृतं मेवाडं सुखपालमाप्यसशिवः शक्रादिवाहा-
 स्पृहः ॥ ५२ ॥ सूर्यं स्वर्णवितानमेतदुपरि श्वेतं वितानं विधुं
 सद्वंशो परि सद्गुणैर्नियमयन् कीलाद्रिषूष्णे कलौ ॥ मेवाडे पटुदानशालिनि
 जगत्सिंहंनृपं स्थापयंस्त्यक्काम्लेच्छमदोत्कटोत्कटभयं रंता भवान्या भवः
 ॥ ५३ ॥ देशे वागड् नामके नरपतिः श्रीपुंजराजोजनि श्रीमडुंगरपूर्व
 कस्य नगरस्याधीश्वरो दुर्जयः केनाप्यत्रन निर्जितो बहुमतिः सत्कोश वांस्तं
 पुनर्यन्मन्त्री कृतवान् पराङ्मुखमहोदग्धपुरं चाकरोत् ॥ ५४ ॥ युधिष्ठिरोयं
 तेनैव विजयेन महात्मना ॥ दुर्निरीक्ष्यो भवद्विक्षु कुतो म्लेच्छपतिः समः ॥ ५५ ॥
 शत्रुस्त्रीभिः स्ववेण्यां ग्रहणसुसमये दृग्जलैस्तेप्रदत्तः कीर्तिग्रामोमहीयान्
 सुलिखितपठितोम्लेच्छवक्त्रेष्वपिद्राक् ॥ कल्पस्थाप्यस्य सीमां कलयितु मखिलावं
 भ्रमं स्वत्प्रतापः काष्ठास्वद्यापिनित्यं दशसु तवगुणैर्मापयन्नान्तमेति ॥ ५६ ॥
 त्वदनंत गुणान्वदिष्याति तदनंतः कथितः स्वयंभुवा ॥ विफलं तदवेक्ष्य शेष
 वक्त्रभिधां शेषइति ध्रुवंदधे ॥ ५७ ॥ भूपेद्र त्वत्प्रतापैः पृथुभिरनुदिनं
 छादिता यांत्रिलोक्या मत्यूप्मोद्भेदतो भूद्रव शिरसि हर श्रांघ्रि देशे स्रवन्ती ॥
 शेषस्याहो शिरस्सुस्फुटमणिमिपतः स्फोटकाः प्रादुरासन् भूमौत्वन्मौलिलोल
 च्चमरजपवनैस्तापशांत्याहिशांतिः ॥ ५८ ॥ स्वामिन्स्वमार्गदंभा स्तवगुण
 निकरानासुवेलं सुमेरोः संतान्य स्वर्णसूत्रावृत्तरविवलयंभ्रामयित्वायनाभ्यां ॥
 वेधाः कृत्वांचलेद्वे हिमकरकिरणै रौप्यसूत्रैश्चमध्ये प्रत्यब्दं कीर्तिवस्त्रं वयति नवनवं
 वेष्टनं वारिराशेः ॥ ५९ ॥ दिक्पालान् दशवीक्ष्यनेत्रदशकं जातं कृतार्थं मुहुः
 शेषं नेत्र युगं निरर्थकमहो विज्ञेन धात्राकृतं ॥ इत्थंचितयताचिरं नृपजगत्सिंहं पुनः
 पश्यता दृग्द्वंदंतुतदैव जन्मफलभाक् क्रौंचच्छिदा ज्ञायते ॥ ६० ॥ चक्रप्रेमार्ककृष्णा
 विवबुधभिपजौ सुश्रुताविस्मृतिस्त्वं लक्षोन्मर्दीपुसाधूइवसदसिकवीकोशपुर्ण
 प्रतिष्ठः ॥ संध्याभ्राजीरसेन द्विजपतिसचिवौ सद्विधिश्चैवयद्वद्वार्तासक्तः सुधीष्ठा
 विवजगतिं जगत्सिंहजीयाः शतायुः ॥ ६१ ॥ हुंकारेण कुरंगराजनिकरा वश्या
 दृशाद्वीपिनो भूदाराः सुरवेण तेषिकरिणो हस्तेनतेखड्गिनः ॥ सेव्योष्ठापदसंचयै
 रपिजगत्सिंहस्य तस्याधुना वृद्धस्यैक वृषस्यवश्य करणे कावास्तुतिस्तन्यतां
 ॥ ६२ ॥ मंगोरीजातिराजा तनुजविमलधीः सूत्रधारोहि भाणा तत्पुत्रः श्रीमुकुंदो

वशसकल कला भूधराख्यो द्वितीयः॥ याभ्यां ग्रामःप्रदत्तो हतरिपुनिकरः श्री जगत्सिंह
 भूपैर्दत्तो सौवर्ण रौप्यौञ्चमल इह कृपाख्यापयन्मापदंडौ ॥ १ ॥ राणा श्रीमज्जग-
 त्सिंह कारितं मंदिरं शुभं ॥ ताभ्यामेवकृतं श्रीमज्जगन्नाथाभिधप्रभो : ॥ २ ॥ ताभ्यांश्री
 मज्जगत्सिंह ० द्ग्रामो----- ॥ चित्रकूटांतिकंप्राप्तः प्रतिष्ठायां रमापतिः ॥ ३ ॥ श्री सर-
 स्वत्यैनमः १ ॥ श्री गणेशायनमः श्री एकलिंगजी प्रसादात् श्री जगन्नाथरायजी
 प्रसादात् श्री सरस्वत्यैनमः श्री विश्वकर्मणेनमः अथ राणा श्री जगत्सिंहस्य
 मांधातृतीर्थ यात्रा प्रसंगः ॥ अथैकदातीर्थ वरंसुराढ्यं रेवोपकंठे सकलार्थं दायकं ॥
 ओंकार नामप्रभुशंभुपीठं मांधातृनामव्रजितुं मनो व्यधात् ॥ ६३ ॥
 श्री रामराजेन पुरोहितेन विचार्य सदान समूहतो द्विजान् ॥ धनाधिपान्
 कर्तुं मनाःपुरा दगात् करेणु मारुह्य जगत्पतिर्मुदा ॥ ६४ ॥ ततो चलन्
 देव गजोपमागजाः पुरः पताका समलं कृताःपुरः ॥ सच्चामरालंकृतवक्र
 मंडला यांती - वर्ष्यानु वसंत सक्ताः ॥ ६५ ॥ उच्चैरादित्य हेलास्त्यजदुप
 मितयो नैव कृष्णं स्वतोन्मं मन्वाना मुक्तिहीनाः सततमवमतः स्थापनास्थाः
 श्रुतीनां ॥ प्रत्यक्षंस्थापयंतः परमिहनपरं किंपुनर्मत्तताया नात्मज्ञा बौद्ध
 बुद्धिं धरणि धरपते धारयंतिद्विपेंद्राः ॥ ६६ ॥ येमी कर्दम शायिनस्तृणगृहे
 स्त्रीणां रवैर्निष्ठुरै र्धिक्कारंगमिताश्चकूप सलिले मंक्तुंकृतोपकृमाः ॥ तेमीकां
 चन मंचिकोपरिगताःसौधे बुधा स्त्रीसखा राज्ञादत्त करींद्रं रांहितरवै रानंदिता
 स्तेप्ययुः ॥ ६७ ॥ ततोचलन् देवहयोपमाहया येषांन वेगे समतां दधुर्मृगाः ॥
 नवायवोनैव मनांसि भास्वतः कुतो हयास्तेपि भवंतितादृशाः ॥ ६८ ॥
 भास्वतःसततं मृगांक गतयः सन्मंगलाः संततं सौम्याः स्वामिमतात्सुजीव
 कविकाः पत्याज्ञयामंदगाः ॥ सिंहीजाः सितकेसरैः क्षणमपि स्थैर्यायुताः केतवः
 पृथ्वीनाथ नवग्रहा इवहयाः संपीडयंति द्विषः ॥ ६९ ॥ धारयंतः श्रुतेरुच्चैः शिष्य
 प्राया महामृगाः ॥ सद्देगस्ति मितस्वांता हरयो मुनि वद्ययुः ॥ ७० ॥ एतादृशान्
 पुरस्कृत्य तुरंगान् भूपतिर्व्रजन् ॥ नवासवं हृदानीतं कुरुतेन्यंनरं कथं ॥ ७१ ॥
 कंपंते शत्रुनाथास्तादनुतदवलाः सागरांता स्ततोब्धिः शेषः कूर्मो वराह स्तदनुच
 गिरयो दिग्गजेन्द्राः सनाथाः ॥ किंकिं जातं किमेतद्भवति जगतिहा न्योन्य
 पृष्ठास्तदोचु मींधातु स्तीर्थराजं जिगमिषु रजनि श्री जगत्सिंह भूपः ॥ ७२ ॥
 संगत्योदय सागरस्य सविधेसौधेस्वकीयेद्भुते कैलाशाधिककांतिपूर कलिते भूपो
 वसन्तद्विनं ॥ यत्रस्थं नृपतिं पयोनिधि शयं पद्मापते स्तंजना जानंतिस्म
 समान मेवसततं श्री सेवितांघ्रि द्वयं ॥ ७३ ॥ अमानानि समानानि विमानानी
 वरेजिरे ॥ शिबिराणिततस्तेषु नृपादेवा इवावसन् ॥ ७४ ॥ स्थित्वा परेद्युः सु-

दिने ब्रजन्नृप स्तीर्थ महाकालनिकेतनं गतः ॥ अवंतिकां मुक्तिददर्शनन्तां
 सेव्यां सुरेंद्रादि गिरीशबन्धां ॥ ७५ ॥ क्षिप्रांसमासाद्य सुपापहंत्रां स्नात्वाथ दत्त्वा
 बहुशो द्विजेभ्यः ॥ दृष्ट्वाप्यवंती मवमत्य तत्पतिं मार्गादगाल्लोक भयंवितन्वन् ॥ ७६ ॥
 गतोथमांधात् समीपनर्मदातटं कियद्भिः सुदिनैर्महींद्रः ॥ कोवा पृथिव्याम्
 भवतीदृशः परो मात्रुद्भवो यः पथिरोधमाचरेत् ॥ ७७ ॥ गंगांसमानीयसुपाप
 सागरं कुलं पुनातिस्म भगीरथो नृपः ॥ सेनां तथैवैष जगत्प्रभुर्नयन् पवित्र
 यामास सुपापसागरं ॥ ७८ ॥ नर्मदोत्तर रोधस्सु शिविराणि क्षमापतेः ॥ ओंकारे
 श्वर पर्यंतं कावेरी संगतो भवन् ॥ ७९ ॥ महाराणा जगत्सिंहो राजपुत्राश्च सर्वशः
 ॥ रेवाकावेरिका रंगे स्नाताः सौख्यं समागताः ॥ ८० ॥ इत्थं सर्वेपि संतुष्टा स्नात्वा
 दत्त्वा प्यनेकशः ॥ अथ राजानृपालैः स्वैर्भोजनं कर्तुमागतः ॥ ८१ ॥ अन्यासकै
 र्मुद्गुभिर्हरिभक्तै रिव तदाभक्तैः ॥ जलतापयोगपाकात्तप्तै रपिमोददान परैः ॥ ८२ ॥
 सभाजनैः सुभोजनैरनेकवस्तुभिस्तुतैः ॥ सभाजनैः सुभोजिता द्विवारमित्यहर्निशं
 ॥ ८३ ॥ अथान्येद्युस्तृतीयेस्मिन्यामे सूर्यग्रहोदये ॥ महाराणा जगत्सिंहः
 कांचनस्य तुलां व्यधात् ॥ ८४ ॥ वेदव्योममुनीद्वन्द्वेषु चो सूर्यग्रहे तुलां ॥ महाराणा
 जगत्सिंहः कांचनस्य तुलां व्यधात् ॥ ८५ ॥ ओंकारेशसमीपनर्मदतटे श्रीराण
 कर्णात्मभू राखुदं स्वतुलांहिरण्यकशिपुव्यूहं विभज्य स्वयं ॥ नैवपूर्वमकारितेन
 सुभगो भूत्वानृसिंहः पुनः प्रीत्याभूरितयापलान्यगणयन् क्षुद्रद्विजेभ्योऽप्यदात् ॥ ८६ ॥
 वेगान् मारणतो भवे दिदमहो दुःखं कुलीनस्यत द्रध्वा बालमथो हिरण्य
 कशिपुं कृत्वा - रे - स्थितं ॥ त्रैलोक्यांच गृहे गृह इतः संप्रापयन् श्रीपते
 र्वाहुस्तंभ समुद्भवो विजयते श्रीमन्नृसिंहः प्रभुः ॥ ८७ ॥ भास्वान् श्रीमज्जगत्-
 सिंह स्तुला मारुहचयद्वयधात् ॥ स्वाति वृष्टिं ततो मुक्तान् नस्युर्जन्मे च्छवः
 कथं ॥ ८८ ॥ जगत्सिंह महाराज चिंतनादधिकप्रदः ॥ चिंतना वाधि दाताहि
 क्ते चिन्ता मणिः समः ॥ ८९ ॥ राजन्नभूतपूर्वेयं धनुर्विद्या विराजते ॥
 स्वयं लक्षाणि गच्छन्ति ग्रहस्थानपि मार्गणान् ॥ ९० ॥ नहि चापलता सक्तो
 न पराङ्मुख मार्गणः ॥ कदापि न गुणच्छेदी कीदृशस्त्वं धनुर्धरः ॥ ९१ ॥ कन्या
 संपदमास्थाय तुलारोहि प्रभाकरः ॥ शुचेरमां समासाद्य जगत्सिंहमहीपतिः
 ॥ ९२ ॥ जगत्सिंह महाराज तुला स्वर्ण मिषात्तव ॥ सिंहीजभयतोभानु-
 र्मन्येत्वां शरणंगतः ॥ ९३ ॥ तपनग्रहणे जाते तपनीय तुलांनकिं ॥ अकरो
 तेजसादिक्षु जगत्सिंहः क्षमापतिः ॥ ९४ ॥ अथदृष्ट्वा तुलांवेदीं शिलास्तंभ
 द्वयोदितां ॥ देवा नागा मनुष्येन्द्राश्चक्रुस्तत्प्रेक्षणं मिथः ॥ ९५ ॥ दृष्ट्वात्वा मनु-
 रागीणीव बहुधा रामादि कीर्तिःसिता भूपत्वकृत पांडुरा तुल तुला स्तंभ द्वय

व्याजतः ॥ नीलोच्चैर्वसुधातलात्करयुगं संमेलयन्तीमियस्त्वामालिंगितुमुत्
 सुका प्रतिपलं स्त्रीभावतो जृम्भते ॥ ९६ ॥ रेवा मथ प्राप्यसु पुण्यदात्रीं
 स्नात्वा च दत्त्वा बहुशो द्विजेभ्यः ॥ इत्थंस्तुतिं भूमिपतिर्व्यतानीच्छुत्वायदे-
 तत्सकलो विपाप्मा ॥ ९७ ॥ ये दिव्यांबरधारिणः समदृशः सौम्यांगनो
 पासिता यांगंगामपहायसेवनपराः श्रीनर्मदायास्तव ॥ तान्दृष्ट्वैदिगंबरां
 स्त्रिनयनां श्रंङ्गीश्वरान्सांप्रतं रूढा मूर्धनि नृत्यति त्रिपथगा केनाद्यसा वार्यतां
 ॥ ९८ ॥ उद्भूत्या सगरस्तुरंगममनो यत्प्रापयन् मन्यवे तद्वैवा दमरे श्वरेण
 कपिलाभिख्यांतिकेप्रापितं तस्यानुश्रितपापसागरकुलं तत्रोग्रदृष्ट्याहृतं
 मातर्दक्षिणजान्हवित्वमधुना तस्यान्वयं मोचयेः ॥ ९९ ॥ स्मृत्या पातक
 माहरामि जगतां दृष्ट्वा सुरत्वं ददे स्पर्शा देव ददामिविष्णुतनुतां स्नानार्थि
 नेकिंददे ॥ इत्यालोच्य महेश्वरस्य तनया रत्नाकरस्यांगना यन्निम्नं व्रजति
 त्रपा भरवशात्तन्निम्नगा नर्मदा ॥ १०० ॥ ततः सुरेन्द्रादिसमर्चनीय मोंकार
 नामेश्वर माशुगत्वा ॥ सर्वोपचारै रचयन्महीपती रत्नैः सुवर्णै स्तुति मप्य गादीत्
 ॥ १०१ ॥ रेवाद्यावनमध्यतः परिपतन्भित्वाघसंघंगजं कीलालस्यकणान्
 मुहः परिवमन् पाथोजसत्केसरी ॥ यावद्रंधवहोह्यनंतजठरे नप्रापयेन्मां
 प्रभो सोमस्त्वं कृपयाकुरंगमपिमांतावन्नयस्वांतरे ॥ १०२ ॥ दिनांतरेष्वे
 वममुंप्रपूज्य स्नात्वापुरावत्सुमनोमहीन्द्रः ॥ दत्त्वा सुवर्णानि पुरोहिताय गावर्णनीया
 श्वसुराधिपाद्यैः ॥ १०३ ॥ देश देशोद्भवंभव्यं गजाश्ववसनादिकं ॥ विष्णुप्रीत्या-
 ददौभूप स्तत्संख्यातासहस्रदृक् ॥ १०४ ॥ इत्थं वितीर्य मनसेप्सितमर्थ
 जातं भूपोचलत्स्वदिशमेवभयाक्तशत्रुः ॥ मार्गेषु वृष्टिरतुलांतपनीयसंघै स्तन्वन्
 सुपात्रततिपुप्रमदेनसक्तः ॥ १०५ ॥ गामथो भयमुखीं पथिमध्ये यांददौ
 द्विजवराय सुवर्णैः ॥ वर्णानां कथमहो रसनैका संतनोति मनुजोहि कवीन्द्रः ॥ १०६ ॥
 इत्थं कियद्भिः सुदिनैः क्षितींद्रं सन्मालवक्षोणिपतेर्विमत्य ॥ दत्त्वापदं मूर्ध्नि
 रिपोः समागादेशंपुरं हर्म्यवरं धनाढ्यं ॥ १०७ ॥ माताप्राणमिवप्रियादृश
 मिव क्षोणीश्वरानाथव द्वेषारो यमवत्प्रजा जनकव दृष्ट्वानृपंचागतं ॥ देश
 ग्रामपुरेषु यःप्रतिग्रहं जातोमहा नुत्सवः कस्तं वर्णयितुं क्षमः सुरपते राचार्य
 तोन्यः पुमान् ॥ १०८ ॥ अथद्विजाग्यान् बहुकाशिवासिनः स्वर्णस्य वृष्ट्यैव कृतार्थ
 तांनयन् ॥ सुखात्सुराज्यं परिपालयन्सभादसक्तचितोरघुनाथवत्प्रभुः ॥ १०९ ॥
 स्फाटिक्यां वेदिकायां कलयति भुवियो मूलदेशेसुनीलं वैडूर्यं मस्तके दृक्
 तदनुगुरुगुणान्हीरकान्स्कंधकेषु ॥ मौलिस्तेशाखिकाग्रेमरकतमतुलं

वैदुमान्पल्लवौगान् मुक्तागुच्छान्नरत्नगिजहयमणिगोमत्फलः पंचशाखः
 ॥ ११० ॥ ब्रह्मा रुद्रोपि विश्नु स्तदनुरतिपतिः स्थापितायस्यनीचैः
 सोयं सत्कल्पवृक्षोपरतरुसहितः श्री जगत्सिंहहस्तात् ॥ बाणव्योमर्षि
 चंद्रैः समुदित शरादिश्वेतभाद्रे तृतीयां प्राप्यप्राप्तोद्विजानां गृहगृहमनिशं
 रम्यहर्म्याणि कुर्वन् ॥ १११ ॥ स्वदेहव्ययतोपुष्पात् द्विजान्कल्पद्रुमोद्दसौ ॥
 जगत्सिंहकरस्पर्शात् किंचिदनुगुणांदधौ ॥ ११२ ॥ भास्करभट्टजमाधव
 पुत्रश्रीरामचन्द्रोद्भूः ॥ सर्वेश्वरस्तदंगालक्ष्मीनाथः कठोडीति ॥ ११३ ॥
 श्रीराणोदयसिंहैस्तस्मै ग्रामोहि भूर वाडास्यः ॥ दत्तो मुष्मै ग्रामो होलीनामाप्य
 मरसिंह नृपैः ॥ ११४ ॥ लक्ष्मीनाथ सुतो रामचन्द्र कृष्णस्तुतत्सुतः ॥ अदात्तस्मै
 जगत्सिंहो मृगराज द्वयं हयं ॥ ११५ ॥ चतुःसहस्रीं यन्मूल्यं दत्त्वादहदृणार्णवं ॥
 महाराणा जगत्सिंहैः समोनास्तिकुतोधिकः ॥ ११६ ॥ वर्षे शास्त्रवियन्
 मुनींदु गणिते भाद्रे तृतीयातिथौ शुक्ले जन्मदिने निजे नृप जगत्सिंहः
 कृपाया निधिः ॥ दत्त्वाकांचनमेदिनींसजलधिं श्री चित्रकूटांतिके ग्रामं
 कृष्ण बुधायसद्गुणनिधिः श्रीभैसडास्यंददौ ॥ ११७ ॥ राणा श्री मज्ज-
 गत्सिंहोमधुसूदनशर्मणेप्रददावाहडग्रामेहलद्वयमितांभुवं ॥ ११८ ॥ एकांलक्ष्मीं-
 मगृह्णांतदपिसुरपतिः क्रुद्धहस्तेनभूमौभूत्वाम्लेच्छाब्धिमाथी सुगज सुरतरुन्-
 गाद्विजेभ्यः प्रदाय ॥ कीर्तींदुंकृष्णभट्टे हयमणिममलं भैसडाग्राम चिंता रत्नदत्त्वा-
 प्सरोभि र्जगतिविजयते श्रीजगत्सिंहः विश्नुः ॥ ११९ ॥ ऋषिव्योम मुनींदु-
 ब्देजगत्सिंह महीपतिः ॥ भाद्र शुक्ल तृतीयायांसप्तादत्सप्तसागरान् ॥ १२० ॥
 गजव्योममुनींदुब्दे जगत्सिंहः क्षमापतिः ॥ भाद्रशुक्लतृतीयायां विश्वचक्रं
 ददौप्रभुः ॥ १२१ ॥

श्री महागणपतयेनमः ॥ श्रीजगन्नाथरायजी प्रसादात् ॥ श्रीएकलिंगजी प्रसादात् ॥
 श्री भवान्येनमः श्री विश्वकर्मणेनमः ॥ श्री सरस्वत्येनमः ॥ अथ श्रीराणा जगत्सिंह
 कारित श्री जगन्नाथरायमंदिरादिवर्णनं ॥ श्रीकृष्णभक्त्याथजगत्सुवर्ण्यदेवालयं
 श्रीकामितुर्विधाय ॥ यंवारवारं सुरनाग मानवा विलोक्यचित्रोल्लिखिताइवाभवन् ॥ १ ॥
 यस्यापिदेवा भुवि वर्णनां मुहुः कर्तुंनशक्ता कुतएवमानवाः ॥ तस्यस्वशक्त्या वितनो
 तिवर्णनां श्रीकृष्णभट्टात्मजएषबाबुः ॥ २ ॥ गंगाकेतुयुतः कपर्दघटभाक्
 भालाक्षिरत्नाकरः कांत्यावोष्ठितकंथकः सुरवह व्याजेनवैराग्यभाक् ॥ हृद्याधायहरि
 तपस्यतिहरस्तत्किंनृपस्तैर्गुणैर्बद्धाभक्तमहाद्विषदूत यशोमंडे ननापोषयत् ॥ ३ ॥
 पुण्यंप्राप्यतदेकलिंगविषये श्रीमेदपाटस्थलं ब्रह्मा भूपमणे श्रतुर्मुख-
 लसद्देवालयव्याजतः ॥ वेदाध्यायिजनस्वनैः किमपठद्वेदान्यदेकाग्रह

तद्रूपं कमलोपभोग हृदयाकिंराजडंसा : श्रिताः ॥ ४ ॥ मत्कार्यं क्रियते नृपस्य
यशसेत्युत्पन्नवैराग्यतः कृत्वाद्रंघसहंशिलामयवपुर्देवालयव्याजतः ॥ धृत्वांतः
सहरिपठद्विजरवै मूर्ध्न्यंबुकुंभं दधात् पूर्णाभ्यासवशंस्थिरे पठतिकिं वेदान् द्विजेंद्रो
विधुः ॥ ५ ॥ क्षारान्नाति गभीर नीरधि जलादत्यस्वचित्तंचिरा द्विज्ञानैववि
मुंचतिक्षितिपतिं कृत्वामहामन्दिरं ॥ लोकानामवलोकनायकृपया तत्रोन्नते
निर्मले स्निग्धेपौरपृदाचकिं प्रतिकृतिं श्रीभर्तुरास्थापयत् ॥ ६ ॥
श्रीमहानिशिरोमणिर्नृप जगत्सिंहो महीमंडले व्याप्तंयद्यशसावभौत्रिजगती
वृंदं सुधांशुप्रभं ॥ प्रासादं जगदीश्वरस्य रचितं मत्तामुना स्वर्गताः दृष्ट्वा चेतसि
विस्मिता इवनिजं त्यक्तानिमेषंस्थिताः ॥ ७ ॥ कर्णसिंहाब्धि संभूतो जगत्-
सिंह सुधाकरः ॥ यस्य मृदुकर स्पर्शनप्रजातापवत्यभूत् ॥ ८ ॥ भूपस्यो
न्नतविश्वे सन्न कलश व्याजाद्विवस्वानसौ ज्ञातुं मार्गमहो रथस्य तरसा रूढस्त
दुच्चंपदं ॥ स्थित्वै वात्र जगत् प्रकाश मधुना कुर्या मुदेति स्थित स्तेनत्वा मरुणो
हिसा रथिरयं कोपो भवत् संश्रितः ॥ ९ ॥ स्वनामाढ्यं जगन्नाथ राय इत्य-
भिधांहरेः ॥ कल्पयन् श्रीजगत्सिंहः स्यातकीर्तिरभूद्भुवि ॥ १० ॥ पांडुच्चं
हरिमंदिरं नृपजगत्सिंहेनयत्कारितं राजद्रत्नघटंममेति किमहोभारो हिरा
चितयन् ॥ भूर्लोकै विधृते भुजेननृपते शिषच्चलत्कंचुकं वातात्केतु
मिषात् सरत्न मनयद्रूमेर्बहि स्वंशिरः ॥ ११ ॥ स्वर्वेनोभोगभूमिर्जलधिरपि
गुरुर्नागराजोतिभीमः कुत्राहंसौख्ययुक्तो हरिगणपशिवाकार्कान्वितः संवसेयं
॥ चित्तेस्यागत्य दत्तानृपमुकुटमणिकर्णसुनुंनिजाज्ञां प्रासादार्थंविधायाकृत
वसति महो श्रीजगन्नाथरायः ॥ १२ ॥ जगत्सिंहो राणः कथमिहसमागं
तुममराःसमर्थो भूयाद्वै सकलजनसा रक्षणपरः ॥ जगन्नाथ श्रेत्थं नृपहृदयभावं
विदितवानवासी दत्रैवस्वजनकरुणा नन्दजलधिः ॥ १३ ॥ धर्मोद्भूत
युधिष्ठिरं तदनुजं कीर्तिवृजं ह्यर्जुनं वीक्ष्यैकंजितधार्तराष्ट्र प्रतनं स्तद्भ्योहरि
र्विस्मयैः ॥ सजेद्वारिरथेस्वसन्नमिषतः स्थित्वाचिरंतदुणान्नाज्ञासीत्
पुरुषार्थ सार्थ तुरगान् देशे खिले चारिणः ॥ १४ ॥ सन्मुहूर्तेसुता
राक्षेसानुकुलेनवग्रहे ॥ निधिव्योममुनीद्वन्द्वे पवित्रे मासि माधवे ॥ १५ ॥
शुक्लपक्षेशुभयोगेपूर्णिमायांतथातिथौ ॥ गुरुवारेप्रतिष्ठाप्य विश्वंग्रामान् ददौ
प्रभुः ॥ १६ ॥ हिरिण्याश्वं कल्पलता गोसहस्रंचदत्तवान् ॥ तत्र प्रतिष्ठां
परमेश्वरस्य यथाविधानं विरचय्य भूपतिः ॥ स्तुतिंव्यजानी जगदीश्वरस्य
पुनः पुनः सत्पुलका कुलःसन् ॥ १७ ॥ प्रादुर्भूतचतुर्भुजंकमलदृक्पी-
तांबरंचक्रभृत्पूर्णब्रह्माविकाशिकौस्तुभमणि श्रीवत्ससंदीपितम् ॥ यन्नीलंजग-

तान्नपस्यजनकौविस्माप्यसन्प्रीतिदं तद्रूपं गिरिधारिणः कलयतु प्रायेण लोक
 प्रियं ॥ १५ ॥ पूतनाशकटकार्जुनै स्तृणावर्तकाघ वृषभादिके शिहन्
 ॥ द्वेषिकालियसमल्ल नागराट् कंससूदनहदित्वमिहस्याः ॥ १६ ॥
 इत्यादि स्तुतिमाधाय माधवस्य महामनाः ॥ दानं दत्वा गृहंप्राप्तः पश्यन् मंगल
 मुत्तमं ॥ १७ ॥ वर्षे निध्यं बरर्षिक्षिति गणनयुते माधवे पूर्णिमायां राणा श्री
 कर्ण पुत्रः सकल गुण जगत्सिंह भूपः प्रमोदात् ॥ विष्णुं संपूज्य चिन्हैः प्रकट
 तररूपं श्रीजगन्नाथ नाम्ना दानं श्री कल्प कल्पाः कनक हय मथो गो
 सहस्रं च दत्वा ॥ १८ ॥ ग्रामान्दत्वासद्गुणान्पंचभूपो वस्त्रैर्धान्यैरन्नमिश्रैर्द्विजा
 ग्यान् ॥ संतोष्यायं श्रीजगन्नाथरायं ध्यात्वा ध्यात्वा तोषमाधत्त भूपः
 ॥ १९ ॥ अथप्रतिष्ठांप्रविलोक्यकौतुकाद्रमापते स्तन्निकटे महीपतेः ॥ प्रसाद
 मालोक्य सुरासुरानरा नागाश्चकुर्वन्महतिंसुवर्णानां ॥ २० ॥ भूपत्कृत
 विश्नुसन्नमिषतोवैकुण्ठलोकोद्भयवीक्ष्यत्वत्कृतमेरुमंदिरगुणान् पूर्व श्रुतानेवहि ॥
 तद्वार्येवविमूर्च्छितः स्थिरइति प्रायेणमन्दाकिनीलोलत्केतुमिषा द्वयथाक्षितिकृते
 तंश्रोतसासिंचति ॥ २१ ॥ अथालोक्य तदासन्नांसभांमणिमयींशुभां ॥
 इत्थमुप्रेक्षणंचक्रुः सुराविस्मयिनो मुहुः ॥ २२ ॥ लोको भूपयशःसुधांशुरनिशं
 प्राकाशयत्तद्रथं त्यक्त्वाकेतुघटाक्तविश्वभवनव्याजंप्रतापोंशुमान् क्षमावेगादटातिद्विष
 द्विपमहत्सप्तीन्विमुच्यांतिकेतान्बद्धुकृतवान्गुणाकुलतुला स्तंभाननेकान्नपः ॥
 २३ ॥ श्रीराणामरसिंह कारितमिदंसौधंगुणौघैर्महद्रूपस्यास्ययशोजितोविधुरहो
 मूर्च्छामवाप्यापतत् ॥ तंद्रष्ट्वा नृपकर्णसिंहरचितं शुद्धांतहर्म्यं ब्रज व्याजात्
 सेवितु मागताः किमुडवः सप्ताधिका विंशतिः ॥ २४ ॥ सौधं मध्येतडागंहृदय
 मिवसदाराममच्छंमहद्वैविष्णोर्वासायदूरे जलधि रितिधिया यज्जगत्सिंह
 कृतं ॥ कालेधर्मादिसेवीनृपतिरयमहं नित्य निद्रः स्त्रियाक्तः कर्मत्यागीति
 लज्जोत्रवसतिनहरिः किंतु चित्तस्यलीनः ॥ २५ ॥ कृत्वा मोहन
 मंदिरंमुनिमनोमुत्कर्णसत्सागरे कैलाशाधिकमद्भुतंत्रिजगति स्यातंसकर्णात्मजः
 ॥ रुद्रंनंदपितानमामितिहरिर्वादीरुजा मूर्च्छितः शेतेद्याप्यपटोपिशेषशयने
 शीतोष्ण वर्षाहतः ॥ २६ ॥ अथैकलिंगस्यमहाप्रभोर्मुदाश्री मोकलेन्द्रेण
 कृतंचमंदिरं दृष्ट्वानकैलाश गिरिंनचेतरन्जानंति देवाः स्ममहाद्भुतस्थलं ॥ २७ ॥
 तत्रागत्यसुराः सर्वे देवदेव महेशितुः ॥ यथाशक्तिस्तुतिंचक्रुरेकलिंगमहा-
 प्रभोः ॥ २८ ॥ गिरिशगिरिप्रभुतनयांसनयांबिभ्रत्वमेकलिंगजय ॥ गिरि
 तनयास मुदीक्ष दक्षण हतः प्रजेश दक्षस्य ॥ २९ ॥ सदैकलिंगस्यपदारबिंदं
 भाजामनोयाम कदाचिदेव इत्थंविधायस्तुतिमस्य देवताः स्वर्गस्य रक्षा कृतये

त्वरा कुलाः ॥ ३० ॥ अथ श्री मज्जगत्सिंह कारितं केलि मंदिरं ॥ तदतीवाद्भुतं
 मत्वा वैजयंतनमेनिरे ॥ ३१ ॥ अथदृष्ट्वा महादेवी मत्युच्च शिखरिस्थितां ॥
 राठासेनाभिधांवंध्यां जानंतिस्मेतिदेवताः ॥ ३२ ॥ आगत्योदयसागरेक्षयजले
 मिष्टांभसि प्रायशो गंभीरे सततं वसत्वमधुनापक्षस्य रक्षाकृते ॥ राठासेन गिरींद्रजेति
 सततं मैनाकनामानुज प्रीत्याङ्गानरतानचावजगती पाया त्रिकुट स्थला ॥ ३३ ॥
 अथश्रीमज्जगत्सिंहकारितं रूपसागरं ॥ विहारस्थल मालोक्य निनिदुर्मानसंसरः
 ॥ ३४ ॥ अथदृष्ट्वाोदय सागर मग्ने विस्मापकं नृणां ॥ श्रीराणोदयसिंहकारितं
 ----- ॥ ३५ ॥ अमृताकरेप्पुदयसिंहकारिते कमलाकरेप्पुदय साग
 राभिधे ॥ कमलापतिः शयितुमुत्सुकोपिसस्तटएवविस्मितइवावतस्थिवान्
 ॥ ३६ ॥ रुद्रेणोदयसागरद्युतिमलं वीक्ष्यानिशंविस्मय स्तब्धेनस्थितमत्रनो
 गिरिभुवः सौख्यंगिरींद्रं विना ॥ तद्गौरीप्रियकाम्ययानरपतिस्तस्यैवतीरेतनोत्
 कैलाशाधिक निर्मला -- मुदा रम्यंसुहर्म्यनकिं ॥ ३७ ॥ अथजावराभिधान
 ग्रामे देवोमहाद्भुतादेवाः ॥ दृष्ट्वाविकाभिधानानेमुयस्याः प्रभावतः सततं
 ॥ ३८ ॥ मेदपाठमहींद्राणां राज्येरूप्य मयीशुभा ॥ अनिशंखन्यमानापि पूर्णैवभु
 विदृश्यते ॥ ३९ ॥ वर्षेनिध्यंवरर्षिक्षितिगणनयुते भाद्रशुक्ल द्वितीया तिथ्यां
 श्रीकर्णं सूनुस्त्रिजगति सुयशाः श्रीजगत्सिंह भूपः ॥ दत्त्वा श्रीरत्नधेनुं मणिकनक
 मर्यां कृष्णभट्टायदुः खादुद्धर्ता पापरूपादृणवरनरकान् सैषभूयाच्चिरायुः
 ॥ ४० ॥ भ्रात्रागरीवदासेन शत्रुसिंहेन चप्रभोः ॥ रामसिंहारिसिंहेति -----
 -- रामतः ॥ ४१ ॥ वर्षवर्षांतरेणाथ जगत्सिंहो थयान्तनोत् ॥ महादानानि
 सर्वाणि कल्पद्रुमइवप्रभुः ॥ ४२ ॥ जगत्सिंहो महाराज श्रितामणि रिवापरः ॥
 पुत्रैः पौत्रैः परिवृतोजीयादाचंद्रतारकं ॥ ४३ ॥ श्रीमत्कर्णमहीमृदात्मज
 जगत्सिंहः प्रभो राज्ञया प्रासादं किलमेरुजातक मिमं श्रीरत्नशीर्षाव्हयं ॥ भंगो
 रा प्रथितान्वयौः गुणनिधी भानोस्तनूजोत्तमौ शिल्पीशौसमुकुंदभूधर इतिख्या
 तौ चिरं चक्रतुः ॥ ४४ ॥ श्रीमद्भास्करपुत्रमाधवसुत श्रीरामचंद्रोद्भवः श्री
 सर्वेश्वरभट्टसूनुरभवत् पूर्वस्थलक्ष्मीपदः ॥ नाथस्तत्सुतरामचंद्रतनुज श्रीकृष्ण
 भट्टांगभूलक्ष्मीनाथकृता प्रशस्तिरतुला दद्यात्सतां मंगलं ॥ ४५ ॥
 इति श्रीमन्महाराजा धिराज महारणा श्रीजगत्सिंहजीकारिता कंठोडी ग्रामाधिप
 कृष्ण भट्ट ----- लक्ष्मी नाथा परनाम बाबू भट्ट कृता प्रशस्ति संपूर्णा अचल इव
 अचल शक्तिः कीर्त्या बुद्ध्या श्रिया द्विया शक्त्या ॥ युक्तानि जयति भक्त्या कायस्थे
 शोचलाख्यातः ॥ १ ॥ तत्कुल कमल दिवाकर तुल्यो पूर्वार्थं वृद्धि भव मुक्तिः ॥

कल्याण कृत्प्रजानां कलाभिधानः प्रमाण वचाः ॥ २ ॥ सद्विजा दिव वृक्षो कला
भिरतिवर्द्धमानबहुशाखः ॥ सत्रार्चना भिधानो --- व्योर्जुन पाड्यो.

श्री महागणपतयेनमः ॥ श्री जगन्नाथरायजी प्रसादात् ॥ श्री एकलिंगजी प्रसा-
दात् ॥ श्री भवान्यैनमः ॥ श्री विश्वकर्मणेनमः ॥ वंशोरवेरपूर्वोयं यद्भूता भूरिभूमृतः ॥
अंतक्षिप्ता रसांभोधिं ररक्षु स्तद्वि पक्षतः ॥ १ ॥ तत्रान्ववाये शिवदत्त राज्यो बापा
भिधानो जनिमेदपाटे ॥ संग्राम भूमौ पटुसिंह रावं लातीत्यतो रावल इत्यभाणि
॥ २ ॥ राहप्य राणा भुवितस्य वंशे राणेति शब्दं प्रथयन् पृथिव्यां ॥ राणोहि
धातुः खलुशब्द वाची तंकार यत्येष रिपून्द्रु तार्तान् ॥ ३ ॥ तस्मान्नरपति राणा
दिनकर राणा बभूवाथ ॥ अजनिजसकर्ण राणा बभूव तस्माच्च नागपालाख्यः
॥ ४ ॥ श्री पूर्णपाल नामा पृथ्वीमल्ल स्ततो जात ॥ उदितोथ भुवनसिंह स्तत्पुत्रो
भीमसिंहो भूत् ॥ ५ ॥ अजनि जयसिंह राणा जातस्तस्मा च्चलखमसी
राणा ॥ अरसी ततो हमीरः संजातः क्षेत्रसिंहोस्मात् ॥ ६ ॥ तस्मालाखाभिज्ञो
राणा श्री मोकलस्तस्मात् ॥ श्री कुंभकर्ण उदभूद्राणा श्री रायमल्लो स्मात् ॥ ७ ॥
संग्रामसिंह राणा जातो भूपाल मौलिमणिः ॥ श्री राणोदयसिंहः प्रतापसिंह स्ततो
जातः ॥ ८ ॥ अमरसमो ऽ मरसिंह स्ततो नृपः कर्णसिंहो भूत् ॥ गुणगण
निधि स्ततो भूद्राणा श्री मज्जगत्सिंहः ॥ ९ ॥ जगत्सिंह महीभर्तुः कथं
चिंतामणिः समः ॥ चिंतना वधिदाताय श्रितनाधिक दोनृपः ॥ १० ॥
राणा श्री राजसिंहो स्मात् प्रद्युम्न इवकृष्णतः ॥ यस्यदृष्ट्या कृतार्था भूत्
समस्त द्विज संततिः ॥ ११ ॥ श्री मान् रामप्रजायां यशसि नलनृपः सत्य
संधासु पार्थो दाने कर्णप्रतापे प्रकट दिनमणि धर्मसूनुर्दयायां ॥ राणा श्री राजसिंह
क्षितिकुल तिलकः श्री जगत्सिंह पुत्रो जीयादा चंद्रतारा गण रवि धरणी क्षीर
पाथोधि शैलं ॥ १२ ॥ वर्षेनिध्यंवरर्षि क्षिति गणनयुते फाल्गुणस्य द्वितीया
तिथ्यां कृष्णाख्य पक्षे सकलनृप मणिः श्री जगत्सिंह पुत्रः ॥ राज्य श्री चिन्ह
भूतं त्रिजगति सुखदं हेमसिंहा सनंसत् सल्लग्ने धिष्ठितोभूत् सकल रिपुकुल त्रासदो
राजसिंहः ॥ १३ ॥ वर्षेनिध्यं वरर्षि क्षितिगणन युते मार्गशीर्षेपि शुक्ले पंचम्या
मेकलिंगे कनकमणि मयीं सत्तुलां राजताख्यां ॥ राणा श्री राजसिंह क्षितिपति
मुकुटः श्री जगत्सिंह पुत्रः कृत्वातत्र द्विजाग्रया नृसपदि विहितवान् राजराजेन्द्र
तुल्यान् ॥ १४ ॥ स्वच्छलंनोभयत्रप्रभवति मुकुरे रोचना निंद्यजन्मा रक्षितं
श्रोत्रियेनो तुरग वृषभगो हस्तिनो ज्ञानहीनाः ॥ वन्हिर्ज्वाला करालो जलमय
मखिलं तीर्थजातंततोमुं राणा श्री राजसिंहं भजतभजतरे मंगलमंगलार्थे ॥ १५ ॥
लक्ष्मी चित्तस्थितंयद्विजपतिसुखदं कंटका संगशोभं फुल्लन्मित्रं समंता दसुर

मधुपे नैव सेव्यं कदापि ॥ शूरोत्ताम प्रदानं जडकुल रहितं श्री जगतसिंह पुत्र
 श्रीराणा राजसिंहाद्भुत पदकमलं राजहंसा भजध्वं ॥ १६ ॥ यौनित्यंदापयंतौ
 त्रिदशतरुफला न्युच्चकैः प्रापयित्वा वैरिभ्योऽ प्रीयमाणौ समरभुवि गलान्कंत
 यित्वा विविधून् ॥ तिष्ठद्भ्योत्रैवदत्तः स्वयमिह सुफलंयौसुहृद्भ्यस्तयोः किराणा
 श्रीराजसिंह तदतुलकरयोः कल्पवृक्षेणसाम्यं ॥ १७ ॥ नंतायोहलिनं द्विजेन्द्र
 रुचिरंनो रुक्मिणंद्वेषिणं जिज्ञौदत्तसुभद्रकोवलरतः सत्यात्मनि प्रायशः ॥ शूरोद्भूत
 सुतः सदानरपतिः श्रीमागधः प्रस्तुतः श्रीकृष्णस्तव मस्तके विजयतां श्रीराज
 सिंह प्रभो ॥ १८ ॥ राणाश्री राजसिंह तदतुलविमला दृष्टिरेषैवगंगा नोचेच्छेशाद
 वाप्ता कथमिहमनुजंपापमुक्तं विधत्ते ॥ मूर्ध्ना वाप्तामदेशं सपदि करतले
 पद्मगेहं करोति प्राप्ताचेदंध्रदेशे कलयतिसततं तंनरेशं रमेशं ॥ १९ ॥ मंथ
 न्माकिल मंदरागइहयलक्ष्मींददौमत्सुतां तस्मै श्यामजनार्दनाय तनुजं चंद्रं
 कपर्दश्रीये ॥ भूत्वाभूपकरः समुद्रइतिरुद्भूमन्मथस्तद्भुवः पद्माः स्वात्मजभृत्य
 वाडवकरंतजंयशोधोनयत् ॥ २० ॥ राणाश्रीराजसिंहस्य प्रतापोवाडवानलः
 देहंगेहंतणप्रायंजहजीवनमात्रहत् ॥ २१ ॥ राणा श्रीराजसिंहोयं
 राजतेभूमि मंडले ॥ यत्प्रतापासहः सूर्यो गमनेभूत्सहस्रपात् ॥ २२ ॥
 राणाश्रीराजसिंहेन्द्र गुणैर्वृद्धोभवान्ध्रुवं ॥ सदाननीरदोनित्यं बलिभ्राजीनतानतः
 ॥ २३ ॥ श्रीमत् जगतसिंह नवीनभानोः श्रीराजसिंह प्रतिबिंब रूपः ॥
 चित्रं जगत्प्राणवृत्तोरथलोल प्रकाश कृत्तापकरो जडांतः ॥ २४ ॥
 अष्टापदतिरस्कारि सदयं हृदयं प्रभोः ॥ राणा श्री राजसिंहस्य हरिर्वसति तत् सदा
 ॥ २५ ॥ चित्तोन्मेष वृषः सदासुमिथुनः कीर्त्या प्रतापेनसत् कर्कोनाम्रितु
 सिंह एषहितभूभृत्कन्यकः सत्तुलः ॥ सत्यालिः सुधनुर्मुखेहिमकरः सत्कुभि
 मीनेक्षणो नित्यं द्वादश राशिसंगतइतो भास्वान्नवीनो भवान् ॥ २६ ॥ वर्षे बाणां
 बरर्षिक्षिति गणनयुते माधवे शुक्लपक्षे पूर्णायां पूर्णकामः कनक मणिमयीं सत्तुलां
 शूकराख्ये ॥ क्षेत्रे गंगा तटांते द्विजगण महिते श्री जगतसिंह पुत्रः कौमारे संविधाय
 स्वजन परजना न्नाकरोत् किंधनाढयान् ॥ २७ ॥ अवतार मुनीद्वन्द्वे मार्गस्या
 सितपक्षके ॥ त्रयोदश्यामया शितीददौकन्या महाप्रभुः ॥ २८ ॥ राणा श्री राजसिंह
 त्वमिह भुविभवन् कल्पवृक्षावतारो दत्तासंख्या श्वनागौ कनकमणियुता शीति
 संख्याः सुकन्याः ॥ व्यासेनोक्तं नृकन्या गजहयमणिदः कल्पवृक्षस्तदेतत्
 मिथ्येत्युक्तिं नराणां दलपितुमभवस्त्वां मुनिस्तत्सपायात् ॥ २९ ॥ मुनिव्योम
 मुनीद्वन्द्वे तडागांते स्व मंदिरं ॥ राणा श्री राजसिंहोयं कौमारे कृतवान् प्रभुः ॥ ३० ॥
 शक्रः स्वानुज विश्नुमेत्ययदिवे चाचेत पक्षच्छिदां नूनंचक्रधरादिहापिजलधौ

पक्षस्यरक्षानतत् ॥ मैनाकः किमुसेवतेबहुतरः स्नेहायकौमारतो
 राणाश्रीयुतराजसिंहभवतः प्रासादवर्यच्छलान् ॥ ३१ ॥ ब्रह्मा
 वत्सहतौ हरेरिव गुणान् ज्ञातुं तव प्रायशः संप्राप्तश्चतुराननोपिनगुण
 प्रान्तं यदाज्ञातवान् ॥ व्रीडाजाड्ययुतस्तदास्थित इह प्रायोगवाक्षा
 ननो राणाश्रीयुतराजसिंहभवतः कौमारसौधच्छलात् ॥ ३२ ॥
 मूढायत्र वदन्तिचित्र मखिलं यच्चित्र कृच्चित्रितं तन्मन्येनकुमारमंदिरमिदं
 किलद्भुतं प्रेक्षितुं ॥ आयातै स्त्रिदिवाधिपादिकसुरैर्दृष्ट्वा मुहुर्विस्मितै श्रित्री
 भूय सदास्थितं स्थितमहो पाताल देवैरपि ॥ ३३ ॥ राणा श्री राजसिंहोयं वाटिका
 मद्भुतां व्यधात् ॥ वैजयंत मिव प्राप्तं तत्र प्रासाद मातनोत् ॥ ३४ ॥ विज्ञो
 श्चक्र मिवप्रताप दहनः श्रीमेदपाटप्रभो सोढुंदुः सह एषमानकलितैर्नघानुकं
 पीपरं ॥ इत्थं चंद्र मसा विचिंत्य सुचिरं श्री राजसिंहप्रभो रुद्याने स्वकृता चसौध
 मिषतो नूनं निवासः कृतः ॥ ३५ ॥ राणा श्रीजगदाद्यसिंह रचितं यन्मन्दिरं
 श्रीपतेः राणा श्रीधर राजसिंह विहितं तस्यैव पार्श्वेष्वितः ॥ शंभू श्रीगणपार्यमा
 चलतनूजानां सुधांशुच्छविप्रासादाच्छचतुष्टयं कविरिहोत्प्रेक्षामकाशीं दिमां
 ॥ ३६ ॥ राणा श्रीपतिराजसिंहनृपते कीर्तिर्नटीस्वैरिणी स्पृष्ट्वा मोह
 महो विधास्यतिततः सार्द्धमहाविष्णुना ॥ वत्स्यामः किलपंचभिर्भवति
 यद्युक्तं हितत्सन्मुखं द्वंद्वस्वैर्भवनैर्वसत्यपि शिवे भास्येनशैलात्मजा ॥ ३७ ॥
 दृष्टुं देहजमर्बुदं हिमवतः श्रीविष्णुसन्नच्छलात् प्राप्तस्यात्र सुपुण्यकेस्थितवतः
 श्रीमेदपाटे चिरं ॥ राणा श्रीधर राजसिंह कृतस देवालयानामिषाल्लोकेभिन्न रुचे
 हृदैव दधतस्तंतंसुरं तत्रसुताः ॥ ३८ ॥ राणा श्रीयुत राजसिंह यशसा
 व्याप्त त्रिलोकीतले मायेशोहरिरेवनीलरुचितांधत्तेनचान्येभुवि ॥ नाध्यक्षावयमे
 तदंगकसुराः स्यामोनुमेया अपि प्रायः शंभुगणेशसूर्यगिरजा ऐशानतस्तत्
 स्थितः ॥ ३९ ॥ देवासर्वे सद्गुणैर्बन्ध माप्ता गेहान् कृत्वा श्रीपतेः पार्श्वतः
 किं ॥ कृत्वा शैलीमूर्तिमेवात्रतस्थुः श्रीमान् शंभुः सद्गजास्येन चञ्च्यः ॥ ४० ॥
 राणा श्रीराजसिंहवदतुलवृषतः सद्गुणैक्येन रुद्रः पृथ्व्यां दत्ताद्रजौघात्
 सजल घन रवाहंति वक्रो गणेशः ॥ सूर्यस्तत्ते प्रतापात्तव भुज बलत श्रंडिकां
 शस्त्रदेवी कृत्वा गेहान् सलज्जा अभिहरिनिलयं पार्श्वतः किंनिलीनाः ॥ ४१ ॥
 सिंचेन्मारक शीकरैः करिमुखो मां वृष्टि कर्तारविर्मेधै रित्यमुभौ गणेश नयनौ
 किलत्प्रतापाकुलौ ॥ सिंचेन्मां विधुमौलिरेपसुधया मांचंद्र वक्राशिवा सिंचेदेव
 मुभौ हरोहिमगरेः पुत्रीव संपत्मुखौ ॥ ४२ ॥ लोकेयास्तिप्रतिष्ठाप्रतिदिन
 नुदयन् लोक यात्रा कृदेष त्रातुंतांकिंनिमज्य प्रतिरजनिजलेवारिधे साश्व-

सूतः ॥ भूयो लज्जालु रुघन्ननुदिनमवशः प्रायशो यातिवेगाद्राणाश्रीराजसिंह
क्षितिपकुलमणेः किंप्रतापोपतप्तः ॥ ४३ ॥ एकं पुत्रं समुद्रः कलयति हृदये
वाडवं जीवनैः स्वैरन्यनेत्रेमहेशस्तडितइहसुतावारिदेभ्यः प्रदत्ता ॥ तंत्रि
स्विन्नोदिगंतान् व्रजतिचजवतः प्राप्यदिग्भ्योधिसेवी राणाश्रीराजसिंह क्षितिप-
कुलमणेः सत्प्रतापोपिवृद्धः ॥ ४४ ॥ राणा श्रीराजसिंहबदतुल सुयशः
सत्प्रतापास्य भूमौ कर्तुंचंद्रान् सुवन्हीन हर इह विधयेस्वर्णवारायदत्ता ॥
अन्यैर्द्रव्यैर्नकुर्यादितिमनसि भियातत्परीक्षार्थमिंदोः खंडवन्हिचतत्सदृशमिह-
दधत्पातुवश्चंद्रचूडः ॥ ४५ ॥ राणाश्रीराजसिंहोयं पुत्रत्रयविराजितः ॥
शंभुर्नेत्रत्रयेणैवजीयादाचंद्रतारकं ॥ ४६ ॥ श्रीमद्भास्करपुत्रमाधवसुतः
श्रीरामचंद्रोद्भवः श्रीसर्वेश्वरभट्टसूनुरभवत्पूर्वस्थलक्ष्मीपदः ॥ नाथस्तत्सुतराम-
चंद्र तनुज श्रीकृष्णभट्टांगभूर्लक्ष्मीनाथकृतिः सतांमधिमुदे भूयादियंनिर्मला
॥ ४७ ॥ इति श्री मन्निखिलभूपालमौलिमाला मणिमरीचिनीराजितचरणारविंद-
महाराजाधिराजमहाराणा श्री जगत्सिंहपुत्रस्यराणा श्री राजसिंहस्य प्रशस्ति-
राणा श्री मज्जगत्सिंहैः कृपयादय याहितः ॥ प्रासादे स्मिन् महाकार्येप्यधिकारी
कृतः सुधीः ॥ १ ॥ गुघावत कुलोत्पन्नः पंचोली कमलासुतः ॥ अर्जुनो नाम
पुण्यात्मा भूयात्कार्यं करो हरेः ॥ २ ॥ भंगोराज्ञाति राजा तनुसु विमलधी
सूत्रधारोहि भाणो तत्पुत्रः श्री मुकुदो वशसकल कलो भूधरास्यो द्वितीयः ॥ याभ्यां
ग्रामः प्रदत्तो हतरिपुनिकरः श्री जगत्सिंहभूपैः दत्तौसौवर्णरौप्यौ क्रमइह
कृपया स्यापक्तौ मापदंडौ ॥ १ ॥ राणा श्री मज्जगत्सिंह कारितं मंदिरं शुभं ॥
ताभ्यामेवकृतं श्री मज्जगन्नाथाभिध प्रभोः ॥ २ ॥ ताभ्यां श्री मज्जगत्सिंह
ग्रामोदेवदहा भिधः ॥ चित्रकूटांतिकं प्राप्तः प्रतिष्ठायां रमापतिः ॥ ३ ॥ सूत्रमुकुन्दो
द्भवबाघा अस्मरी लीपि अगमत् संवत् १७०८ वर्षे द्वितीय वैशाख शुदि
पौर्णमासि १५ गुरुवासरे श्री जगन्नाथरायजी पाट पधराया कृष्णभट्टपुत्र बाबुक्तता.

जगदीशके चौकमें जहां अब पुलिसकी कचहरी होती है कहते हैं कि वह पहिले धायका मंदिर था.

शेष संग्रह नम्बर- ५.

धायके मन्दिरकी प्रशस्ति.

श्रीरामजी श्रीनवलश्यामजी श्रीगणेशगोत्रदेव्यो प्रसादात् स्वस्तिमहाराजाधिराज
महाराणा श्री जगत्सिंहजी विजयराज्ये संवत् १७०४ वर्षे वैशाखमासे शुक्लपक्षे तृती-
यायां तिथौ शुभदिने पट्ट प्रतिष्ठा ॥ श्री उदयपुर नगरे राणा श्रीजगत्सिंहजीनी धायजी

श्री माजी भाईपुराजी हेमाजी पुत्र लाधुजी धाय नोजूबाई प्रासाद कराव्यो
नवलश्यामजीने मूर्हत प्रतिष्ठा कीधी एकोतरशत कुल उधारणार्थाय ॥ शुभं भवतु श्री
लाधुजी भार्या बाई जगीसबाई राधां श्रीरस्तु शुभं भवतु.

छन्द दुर्मिला.

शिवलोक समधिय भोगन बधिय सोखिल सधिय कर्णसमें
जगतेश बिचच्छन लेनृप लच्छन व्यूह बिपच्छन जच्छनमें
कुल चारण बट्सु क्षेम अघट्सु तद्विष कट्सु स्वग्गततें
दिव दुग्गण रावत पच्छ महावत घेरन घावत मन्दमतें ॥ १ ॥
पुर पव्वय लुट्टन अब्बुव जुट्टन छैछक छुट्टन जोध जई
कलियान सु जोधहि वीर प्रबोधहि दिखिप मोदहि भेट भई
जननी नृप अङ्गन गङ्ग तरङ्गन छैदल सङ्गन ध्यान धरें
फिर दिखिय पत्तन ईश प्रमत्तन कैलल कथ्यन होश हरें ॥ २ ॥
अजमेरसु आनहि पाय प्रयानहि सो सुन रानहि भेद भयो
मुगली दल हल्लिय तोपन टल्लिय पीलु प्रपिल्लिय नीति नयो
तब साम उपायन भूपति भायन पुत्त हिपायन साह पठै
कुल चंप दहानल बल्लु महाबल खाम किये खल मोत मठै ॥ ३ ॥
जगतेश उजागर संश्रति सागर त्याग प्रजागर देश परयो
तिह दान कथा सु महानजथा तत लेख तथा कल्लु शोध करयो
सुत पुत्र अकब्बर जोजग जब्बर बानक बब्बर शाहजहां
इतिहास प्रकथ्यहि आदतसथ्यहि पुत्तन पथ्यहि गथ्यतहां ॥ ४ ॥
भल सज्जन भावन पूर प्रभावन पैत्रिक पावन जान गिरा
फतमल्ल सुशासन पाय प्रकाशन संशय नाशन थान थिरा
कविराज बिरच्चिय श्यामल सच्चिय जोमति जच्चिय जासगरै
इतिहास विचारक मोमति तारक धीसम धारक शोधकरै ॥ ५ ॥

महाराणा जगतसिंह-अव्वल.

सप्तम प्रकरण समाप्त.



आठवां प्रकरण.

महाराणा राजसिंह-अव्वल.

इन महाराणाका राज्या भिषेक विक्रमी १७०९ कार्तिक कृष्ण ४ [हिज्री १०६२ ता० १८ जिल्काद = ई० १६५२ ता० २२ ऑक्टोबर] को, और राज्या-भिषेकोत्सव फाल्गुण कृष्ण २ [हिज्री १०६३ ता० १६ रबीउल् अव्वल = ई० १६५३ ता० १४ फेब्रुअरी] को हुआ था. इनके वास्ते बादशाह शाहजहाने भी टीकेका दस्तूर शाही मन्सबदार गौड़ (नरदमन) और कल्याण भाला (जो महाराणाकी तरफसे बादशाहके पास गया था) के हाथ भेजदिया.

इन्होंने गादी बैठते ही चित्तौड़के किलेकी मरम्मत बड़ी तेजीके साथ करवानी शुरू की; इन्हीं दिनोंमें बादशाही मुलाजिमोंने सूबे मालवा व अजमेरके मन्दिरोंकी खराबी करके गोबध आदि करना शुरू किया, तब महाराणा के मुलाजिम भी कावू पाकर छेड़ छाड़ करनेलगे.

इसी वर्षमें बीकानेर के राजा कर्णसिंहके कुंवर अनोपसिंह के साथ, महाराणाने अपनी बहिनका विवाह किया, और ७१ लड़कियें अपने भाई बेटे राजपूतों की उनके साथवाले दूसरे राजपूतोंको व्याह दीं.

फिर टीका दौड़ (१) करनेका विचार बादशाही मुल्क पर किया, परन्तु कुछ

(१) टीका दौड़ से यह मत्लब है, कि रईस गादी नशीन होकर किसी दुश्मन के शहर या इलाके को लूटे, अगर कोई बड़ा दुश्मन उस वक्त न हो, तो मेवाड़ के महाराणा अपने ही देश के भील, मेर वगैरह के ग्रामों पर उस रीति को पूरा करते थे.

दिलमें खौफ था, इसलिये मौका देखते रहे. इनकी यह धूमधाम बादशाह शाहजहांके कान तक पहिले ही पहुंच चुकी थी, और वह वैकुण्ठ वासी महाराणा जगतसिंहकी बाजी बातोंसे भी नाराज था; इसके सिवाय महाबतखां देवलियाके रावत हरिसिंहका तरफदार होकर बादशाहको भड़काने लगा, तो भी शाहजहांने शाहजादगीमें उदयपुर रहनेके लिहाजसे यह सब कुछ सहा, और कभी कभी जगतसिंह भी दबकर तुहफोंके साथ जमइयत नौकरीमें भेजदेते थे. कभी ज़ियादा जोर शोर देखा तो कुंवरको भेजकर नाराजगी दूर करदी, लेकिन महाराणा राजसिंहने गादी नशीन होते ही बड़ी सख्त कारवाइयां कीं. मालूम होता है, कि शाहजहां ज़ियादा भड़का होगा, परन्तु दाराशिकोह मेवाड़का मददगार था, इससे वह टालता रहा. आखिर कार गरीबदास जो महाराणा कर्णसिंहके छोटे बेटे, जगतसिंहके भाई और महाराणा राजसिंहके चचा थे, दिल्ली गये; तब विक्रमी १७१० वैशाख शुक्ल ३ [हिज्री १०६३ ता० १ जमादियुस्सानी = ई० १६५३ ता० ३० एप्रिल] को शाहजहांने उन्हें डेढ़ हज़ारी जात व सात सौ सवार का मन्सब और जागीर दी. फिर जब बादशाहने उदयपुरकी तरफ़ फौज भेजनेका इरादा किया, तब गरीबदास बे रुखसत उदयपुर चला आया. बादशाहने नाराज होकर जागीर और मन्सब ज़ब्त किया, और महाराणा से बहुत नाराज हुआ, क्योंकि इन्होंने गरीबदासको यहां आते ही रियासती कारोबारमें मुसाहिब बना दिया.

मेवाड़पर जोर डालने व बखेड़ा बढ़जानेपर फौजी ताकत बढ़ानेके लिये आप शाहजहां विक्रमी १७११ आश्विन शुक्ल ४ [हिज्री १०६४ ता० २ जिल्हज = ई० १६५४ ता० १६ अक्टोबर] को आगरेसे स्वाजह मुईनुद्दीन चिश्तीकी ज़ियारतके बहानेसे अजमेरकी तरफ़ रवाना हुआ, और मौलवी सादुल्लाखां वजीरको तीस हज़ार सवार देकर क़िले चित्तौड़की तरफ़ भेजा. कार्तिक कृष्ण १२ [हिज्री ता० २५ जिल्हज = ई० ता० ८ नोवेम्बर] को अजमेर पहुंचकर आनासागर पर बादशाहका क़ियाम हुआ. इस मौकेपर महाराणा राजसिंहके मोतमद भी शाहजादे दाराशिकोहकी मारिफ़त आगरेके पास बादशाहकी खिद्मतमें हाज़िर होगये थे; बादशाहने मुन्शी चन्द्रभान ब्राह्मणको महाराणा राजसिंह के समझानेके लिये उदयपुरकी तरफ़ रास्ते ही में से रवाना किया, कि जिससे महाराणा ज़ियादा फ़साद न बढ़ावें; सादुल्लाखां भी विक्रमी कार्तिक कृष्ण १२ [हिज्री ता० २५ जिल्हज = ई० ता० ८ नोवेम्बर] को फौज समेत चित्तौड़ पहुंचा, और क़िला ख़ाली पाया.

महाराणा राजसिंहने चित्तौड़ पर लड़ाई करना ठीक न जानकर अपने आद-

मियोंको बुला लिया था, और सारी मेवाड़ की प्रजाको माल, अस्बाब, मवेशी, औरत व बच्चे लेकर पहाड़ोंमें चले जानेका हुक्म देदिया. विक्रमी १७११ कार्तिक कृष्ण ८ [हिजी १०६४ ता० २१ जिल्हिज = ई० १६५४ ता० ४ नोवेम्बर] को मुन्शी चन्द्रभान भी उदयपुर पहुंचा. महाराणाने काइदेके साथ खातिर की, लेकिन सादुल्लाखाने किले चित्तौड़को गिराना और बर्बाद करना शुरू कर दिया.

उदयपुर में मुन्शी चन्द्रभान से रद्द बदल होने बाद चन्द्रभानकी अर्जी और महाराणाके मोतमद लोग शाहजादे दाराशिकोहकी मारिफत बादशाही खिदमतमें पहुंचे.

उन अर्जियोंका तर्जुमा किताब 'इन्शाय ब्राह्मण' से यहां लिखाजाता है, जो कि मुन्शी चन्द्रभानने इस मुआमलेकी बाबत बादशाहकी खिदमतमें खाना की थीं. (अस्ल अर्जियोंको नोटमें देखो (१)-)

मुन्शी चन्द्रभान ब्राह्मणकी पहिली अर्जीका तर्जुमा.

ताबेदार दशहरेके दिन हुजूरसे रुखसत होकर चाहता था, कि एक हफ्तेके अन्दर मकसदके मकामपर पहुंचे, लेकिन राजाके आदमियोंकी हमराहीमें तईनाती हुई थी. सफर तै करके सोमवारके दिन इक्कीस जिल्हिज सन् २८ जुलूसको उदयपुर पहुंचा. पिछले दिनको राना पेशवाईकी मामूली जगहपर आया, और बुजुर्ग फर्मान और जड़ाऊ सरपेचसे सरबलन्द हुआ. मामूली अदबकी रस्मोंके बाद हुजूरके इस अदना ताबेदारको मोतबर जानकर दूसरे कासिदोंके बखिलाफ बगलगीरीके साथ मुलाक़ात की, और बहुत ताजीमसे पेश आया. सवारीमें बातें करता हुआ अपने घर तक साथ लेगया, और वहांसे रुखसत किया.

(१) عرضداشتے کہ منشی چندربھان بنام شاہجہان بادشاہ نگاشتہ *

مرضداشت (۱) * کمترین بندگان مقیدت نشان چندربھان بعد از ۱۵۱۷ لوازیم بندگی و عبودیت و تقدیم مراسم اخلاص و عقیدت ذرّہ و اربموقف عرض باریافتگان محفل جاہ و جلال و ایستادہاے بزم دولت و اقبال میروساند- کہ روز سہرہ از خدمت سرا سر سعادت مرخص گشتہ میخواست کہ در عرض یکہفتہ بمطلب رسد- چون برفاقت کسان زدہ را جہاے والا تبار ما موربوں ہمپاے آنہا طی مسافت نمودہ روز مبارک و شنبہ بیست و یکم شہر ذی الحجہ سنہ ۲۸ بہ ۱۷۱۷ پور رسید *

آخر روز رانہ را جہاے کہ بجهت استقبال مقرر است آمدہ بوروں منشور لامع النور و عنایت سر بیچ مرصع سرفراز و ممتاز گردید * بعد از ۱۵۱۷ مراسم آن اب کمترین بندگان را بندہ در دست امتقان صافی نہاد جناب عالیمان مابہ دستہ برخلاف دیگر فرستانہا در کنار گرفت- وہ تو واضع کہ در خور فرستانہاے آستان دولت نشان باشد- در سر سواری حرف زنان تا خانہ ہمارا خون ہونہ

از آنجا رخصت کردہ *

दूसरे दिन एकान्त में बुलाकर अपने खास लोगों के साम्हने हुजुरी हुकमों का मज़मून पूछा, और अपने कुसूरोंसे खबरदार होना चहा. ताबेदारने वे हुकम, जो हुजुरकी पाक ज़बानसे सुने थे, बहुत साफ़ और नर्म लफज़ोंमें उसके समझानेको बयान किये. रानासे कहा, कि अब होश्यारीके साथ बातें सुननेका वक्त है ज़रा जाहिरी बातिनी हवास दुरुस्त करके सुनना ज़रूर है; अपनी और अपने बापकी खताओं पर इत्तिला हासिल करनी चाहिये.

अव्वल, जो कुसूर तुम्हारी और तुम्हारे बापकी तरफसे जाहिर हुआ, वह किले चित्तौड़का बनाना है, और हकीकत में जब कि बादशाही फौजने किला फतह करके बिल्कुल बर्बाद कर दिया, और अव्वल रोज़ यह शर्त होगई-कि किला किसी तरह दुरुस्त न किया जावे. इस हुकम पर कुछ लिहाज़ न रक्खा; इस बातकी खराबीसे जो आंख ढक कर किलेकी दुरुस्ता शुरू कर दी, वह अक्लके बिल्कुल खिलाफ़ है, तुमसे और तुम्हारे बापसे बड़ा कुसूर हुआ, बादशाही दरगाहमें इक्कार के खिलाफ़ कार्रवाई करना बड़ा गुनाह है. जिस वक्त में कि बादशाही लश्कर आगरेसे दूर गया हुआ था, बहुतसे सवार, पैदल, साथ लेकर बादशाही सरहद पर आना और उसका दर्शन स्नान नाम रखना, क्या समझा जावे; बुजुर्ग बादशाहोंके आगे मुल्की खिदमतोंमें कमी करनेसे यह कुसूर ज़ियादह है.

روز دیگر دخلوت طلبیده، حضور معتمدان مدار علیه خود استفسار مضمون احکام لازم الانجام نمود و خواست که بر جرایم و تقصیرات خود مطلع گردند * بنده بنا بر مزید احتیاط آنچه از زبان معجز بیان اشرف اقدس ارفع اعلیٰ ارشاد یافته بقید قلم آورده بود آنرا در نظرداشته بزبان قریب الفهم عام فریب خاص بسند شروع در گذارن مقدّمات احکام لازم الاعلام نمود - و بهر آنکه گفت که الحال وقت شنیدن کلمات هوش افزاست لغتی حواس ظاهر و باطن خود را فراموش آورده احکام مطاعه را بگوش هوش بشنویید و بر تقصیرات خود و پدر خود مطلع شوید *

اول تقصیرے کہ از پدر شما و شما بوقوع آمد ساختن قلعه چتورا است - و در واقع قلعه را کہ با دشاہ آفاق ستان بضر ب شمشیر عالم گیر مفتوح ساخته خراب مطلق گردانیده بخاک براب ساخته باشند و روز اول این شرط بمیان آمده باشد - کہ اصلاح جای دران قلعه نسازند و تعمیر نکنند و مرمت نکنند - پاس این حکم نداشته این عهد موکد را فراموش گردانیده چشم بصیرت پوشیده و از قیام این افعال نه اندیشیده شروع در ساختن جاها نمودہ بمرور ایام کار تا باینجا رسانیده باشند - دخل چه حساب و شایسته کد ام عقل دور بین است - و این تقصیر عظیم است کہ از پدر شما و شما کہ ہم در زندگی پدر شریک این مصلحت بودید و ہم بعد پدر است درین کار نداشته اید بظهور آمده - و در درگاه سلاطین بناہ هیچ تقصیر عظیم تر ازین نیست کہ اندیشه خلاف عهد بخاطر کسی بگذرد - و در حین کہ ریایات جاہ و جلال از مستقر الخلافت اکبر آبان بعزم مهمی بسرحد دور دست تشریف بردہ باشند -

दूसरे, दुनूयाके सब लोगोंपर जाहिर है, कि यह सल्तनत सारी दुनूयाके बादशाहोंकी जाय पनाह है. इराक, खुरासान, मावराउन्नहर, बल्ख, बदरुशां, काशगर वगैरह के अमीर, सर्दार, बादशाही खिदमतमें हाजिर रहते हैं, और मन्सब व दरजे पाते हैं; दक्षिण वालोंकी क्या हकीकत है, जो इस बादशाहतके हरतरह ताबेदार हैं. हर महीने हर वर्ष हर जगहके आदमी यहां इज्जत पाते हैं. दूसरा जाबिता यहांका यह है, कि जिसको कहीं पनाह न मिले, उसका ठिकाना यहां है; जो यहां आया, वह कहीं नहीं जाता; और वगैर रुखसत कोई नौकर दूसरी जगह नहीं जासक्ता; यह बड़े बादशाहों का दस्तूर है, उनके भागेहुए नालायक नौकरको दूसरा अपने पास नहीं रखसक्ता. बड़ी आर्जूके साथ बाजे लोगोंको मन्सब इनायत किये गये, और वावजूद सर्कारी वाकियातके वह जिहालतसे तुम्हारे यहां आकर बैठरहे; तुमने और तुम्हारे बापने उनको अपना मोतबर बनालिया, और कुछ पर्वाह न की; यह कौनसी अक्लमन्दी की बात है. जिस वक्त कि कंधारकी मुहिम पेश आई, और ताबेदारोंके इम्तिहानका वक्त था, इतनी थोड़ी जमइयत भेजी, कि जो किसी गिन्तीके लायक न थी. दक्षिणमें जो एक हजार सवार रखनेका इक्कार था, उसमें भी कमी रही; इन बातोंसे खैरखाहीका दावा विल्कुल बेजा है, ज़बर्दस्त बादशाहोंके खूबरू जरूरतके वक्त नौकरीसे वचना, बड़ा कुसूर है.

ازاودے پورباجمعیت بسیار سوار و پیاده بر آمدن - و در آمدن به ملک بادشاهی آنرا زیارت و غسل نامیدن - حمل بر چه توان نمود * پیش بادشاهان عظیم الشان به نسبت کوتاهی خدمت در معاملات ملکی این تقصیر کلان است *

دیگر آنکه بر عالم و عالمیان ظاهر است که این دولت خدای آن مرجع و مآب بادشاهان هفت اقلیم است - و امر و زخان و مرزبان عراق و خراسان و ماوراءالنهر و بلخ و بدخشان و کاشغر و غیر آن در رکاب ظفر و تنساب کمتر خدمت بسته حاضرند - تا بدنیاد آن در کهن که حلقه بندگی در گوش و غاشبه عبودیت بر دوش این درگاه سلاطین پناه اند چه رسد - و در هر ماه و هر سال طبقه طبقه از هر قسم و هر قوم از اطراف و جوانب در درگاه معلی آمده بمناصب و مراتب سرفرازی مییابند - و بیکه از لوازم این دولت اند بیوند آنکه هر کس که در جای دیگر نباشد جائز اینجا است - هر که این جا آمد بجای دیگر نمیتوان رفت - و این ضابطه مخصوص بادشاهان عظیم الشان است - بدیگر نمیتواند که اگر بنده ازین درگاه آسمان جاه از بی سعادت بی برمد - در پیش خود نگاهدارد * هرگاه قاعده چنین باشد - چمنی که بد از روی تمام ندگی این درگاه و الا اختیار نمود مناصب و جاگیری یافته در سلك بندها منتظم گشته باشند و بر ذمه بعضی از آن طالب مطالبه سرکار اعلیٰ بوده باشد - محض از روی جهالت بے اجازت حضور راه پیش گیرد - بدر شما و شما آنهارا پیش خود جای ندهد مد ارعلیم خود سازند - و از باز پرس این معنی جدا نکنند - داخل کدام عقل صواب اندیش است *

जब यह बातें तुमसे ज़ाहिर हुई, तो इस लिये हज़त शहनशाह अजमेर तश्रीफ़ लाये, और ज़बर्दस्त फौजें चित्तौड़की तरफ़ खानह की; जिससे यह मालब था, कि राना खिदमतमें हाज़िर हो, या अपने कियेका एवज़ पावे. इस अर्सेमें तुम्हारे वकीलोंने हाज़िर होकर कुसूरोंकी मुआफ़ी चाही, हज़तने ज़ाती रहमादिलीसे तुम्हारे पुराने खानदान को, जो बिगड़ता जाता है, तरस खाकर कायम रक्खा. और यही बात काफ़ी समझी, कि फौज भेजकर किलेकी मरम्मत बिगाड़ दी जावे, और तुम्हारा वलीअहद बेटा अजमेरमें हाज़िर होकर रुख़सत पावे, और हमेशा मामूली जमइत पूरी तादादमें किसी भाई बन्धुके साथ दक्षिणमें मौजूद रहे, और आगेको कोई बात हुक्मके खिलाफ़ ज़ाहिर न हो. अजमेरके पास वाले परगनोंकी बाबत हुज़ूरकी मर्जी के मुवाफ़िक़ कार्रवाई होगी; तुम्हें इन मिहर्बानियों की कद्र अच्छी तरह जाननी चाहिये, और इसका शुक्र अदा करना मुनासिब है. अपने वलीअहद बेटेको बहुत जल्द भेजना लाज़िम है, इसमें देर लगाना ठीक नहीं है.

जब ताबेदारने यह सच्ची, तेज़ और नर्म बातें बादशाही वकीलोंके दरजेकी मुवाफ़िक़ साफ़ साफ़ बयान करदीं, राणा जिसके कानों तक ऐसा हाल कभी न पहुंचा था, इनके

دیگر آنکه در وقتی که مهم قندھار در میان آمدہ ہنگام امتحان عیار جوہر اخلاص بندہ ماے عقیدت کیش بود - جمعہ را کہ عدم وجود آنها مساوی نداشتہ فرستادند - و در کہن کہ قرار داد ہزار سوار بود قلیلے نگاہداشتند - این چہ دعویٰ اخلاص است * پیش بادشاہان ممالک ستان کوتاہی خدمت خصوص در ہنگام ضرورت تصصیر کلان است *

چون این قسم تصصیرات از جانب شما بظہور پیوستہ را بنیوقت کہ خاطر ملکوت ناظر اشرف اقدس اعلیٰ از ہیچ طرف نگرانی نداشت و بجهت پادشاه این جرایم عساکر ظفر طراز از اندازہ حساب افزون و بیرون طلبہ شد متوجہ اجمیر گردیدند - و افواج قاہرہ منصورہ برچترور تعین فرمودند - و خاصہ جزم مقدّس آنکہ یاران اہملازمت سرا سر سعادت اشرف اقدس اعلیٰ مستسعہ گردن - یا ہر چہ ببند از خون ببند * درین اثنا فرستادہ ماے شمار رسیدند - و بوسیلہ بار یافتگان محفل بہشت آئین استعفاے تصصیرات شما نمودند - و بندگان اشرف اقدس اعلیٰ بمتضای فتوے ذاتی و مروّات جبلی خان مان آبان ان چندین سالہ شمار کہ نزدیک بزوال و اختلال رسیدہ بود بحال نداشتند - و اکتفا بہمین فرمودند کہ افواج قاہرہ منصورہ بر قلعہ چترور رفتہ جاہارا کہ ساختہ و مرمت کردہ باشند مسمار نمودہ برگردن - و پسر تیکہ در اجمیر اہملازمت اشرف اقدس رسیدہ سعادت ابدی حاصل نماید و رخصت شود - و جمعیت مقرری اہم موجودی نہ کاغذی ہمیشہ با بران شما تعینات نہ کہن باشد - و رأیندہ امریے خلاف حکم مقدّس از شما سرزنند - و در باب عنایت پرگنات نواحی اجمیر نہ آنچہ رضای مقدّس باشد بعمل خواہد آمد * قدر این عنایت را بواقع باید نہست و شکر این نعمت را بجا مے باید آورد و پسر تیکہ خود را زود روانہ باید نمود - تاخیر درین کار جایز نباید نہاشت *

چون فقیر اینمقدّمات درست و راست و تلخ و شیرین را بشرح و بسط بزبانے و آئینے کہ در خور

सुन्नेसे बहुत हैरान और पशेमान हुआ. सिवाय मुआफ़ीके कोई इलाज नज़र नहीं आया; इतना कहा, कि अक्सर बातें मेरे बापके वक्तमें हुईं, लेकिन मैं सबको अपने ऊपर लेताहूँ, और इनकी मुआफ़ी चाहता हूँ; आगेको बादशाही मर्ज़ीके खिलाफ़ कोई काम न होगा, और अपने बड़ोंसे ज़ियादह मैं खैरखाही करूँगा. राणाके मुसाहिब, जो सलाहमें शरीक थे, उनमें से किसीने कुछ जवाब नहीं दिया, सब चुप रहे; यह ताबेदार सर्कारी नौकर बेग़रज सच कहने वाला है, और ये लोग भी शुरूसे एतिबार करते हैं, इस लिये बे खौफ़ सब बातें उम्दह तौरपर कहडालीं.

दूसरे दिन राणाने अपने घर मश्वरा करके अपने फ़ायदेके वास्ते यह बात ठहराई, कि अपने वलीअहद बेटेको ताबेदारके साथ हुजूर में भेजदे. दूसरी बात बहुत सलाहके बाद यह बयान की, कि सब शहर और गांवके आदमी फ़ौज के आनेसे घबरा गये हैं, जब लश्कर किले चित्तौड़को ख़राब करके लौटेगा, उसी रोज़ लड़केको तुम्हारे साथ अजमेर भेजूंगा. ताबेदारने कहा— यह वहम बेफ़ायदह है. उसने जवाब दिया, कि— मैं बेफ़िक्रीसे बेटेका भेजना अपनी इज़त समझता हूँ, लेकिन इस इलाकेके लोग जंगली हैं; बड़ा वहम करते हैं, लश्करके चित्तौड़से लौटते ही तामील होगी. बहुत फ़िक्र और मुश्किलके बाद इस मुआमलेकी अर्ज़ी लिखकर बलूके हाथ, जो

فرستادهاے این دولت پایدار باشد۔ ان نمود * و راناکه هرگز درینمدت گوش او آشناے این کلمات نشده بود بی باین تقصیرات بود بمجرّد استماع این سخنان بهوش آمد۔ آثار حیوت و ندامت از ناصیه او مشاهده افتاد۔ و دانست که در رگه والا این تقصیرات عظیم بود است * بعد از آن که یقین او شد که جوائے غیر از ندامت و عذرخواهی ندارد عذر را این تقصیرات خواست۔ و همین قدر گفت که این جرایم اکثر نسبت به پدر من دارد و کمتر به من۔ اما من همه را بخود گرفته قبول دارم عذر مستحوا هم و امید عفو دارم و بعد از این اصلاح امرے که خلاف مرضی طبع مقدّس باشد از من بظهور نخواهد آمد۔ و بوجاه بندگی زیاده از اسلاف خود ثابت قدم خواهم بود * و معتمدان مدار علیدراناکه درین خلوت بودند هیچکس را جواب نیامد۔ پیش سخنان معقول ساکت ماندند * و فقیر چون بنده راست و درست اعتقاد سرکار فیض آثار است۔ و اصلاح غراض نفسانی مطمح نظر ندارد پیش این قوم نیز از آغاز آفرینش یک گونه اعتباری دارند۔ مطالب را بے حجابانه و بے باکانه از روی معقولیت ان نمود *

روز دیگر راناکه در خانه مشورت نمود راه به بهبود خود بود قرار داد۔ که پسر تیکه خود را همراه فقیر روانه درگاه و لائماید * سخن که بعد از کنکایش بسیار بزبان آورد اینست که چون مردم درون و بیرون از رسیدن افواج قاهره منصوره متوهم و مضطرب شده اند۔ همین که لشکر نصرت اثر قلعه چتور را خراب ساخته برگردد پسر را همان روز برفاقت کمترین بندگان روانه اجمیر سازد * فقیر باو گفت که در فرستادن پسر و همه بیجا است * اظهار کرد که خاطر من بالکل جمع شد که فرستادن پسر اسعادت میداند۔ اما چون اصل این دیار وحشی نهادند ملاحظه کلی دارند۔ بمجرّد روانه شدن لشکر از چتور پسر را بلا توقف در همان روز روانه میسازم * چون راناکه هاش بعد از زرد و بدل

दूसरी अर्जी.

राणाने तमाम हिदायत और हुकमकी बातें अच्छी तरह सुनी हैं, तामील के लिये अपना फ़ायदह समझकर दिलसे तय्यार है, खैरख्वाह लोगोंकी कोशिशसे, जिनकी तफ़्सील हुजूरमें अर्ज की जायगी, कुंवर को सात घड़ी गुज़रनेपर शनैश्वरकी रातमें रुख़सत करके उदयपुरके बाहर एक खेमे (डेरे) में ठहरा दिया है; अब उसके साथियों का सामान करता है. राणा और उसके मुसाहिब उम्मेद करते हैं, कि फ़तहमन्द लश्कर चित्तौड़ को उजाड़ कर लौट जावे तो हम अच्छी तरह उदयपुर में रहसकें और कुंवरको बे फ़िक़्रीसे अजमेर भेजदिया जावे; ताबेदारोंकी तरफ़से कोशिश में कुछ कमी नहीं रखी गई, राणाको ऊंची नीची बातोंसे खूब कायल करदिया है, और सच सच बग़ैर घटाव बढ़ावके जो बातें इन लोगोंसे सुनीं, अर्ज कर दी गई. हुजूर की बादशाहत और नसीबे का सूरज हमेशा चमकता रहे.

तीसरी अर्जी.

हुजूर के बुजुर्ग रौशन फ़र्मान से, जो अजमेर मक़ाम से जारी हुआ था, इज़त और सरबलन्दी हासिल की. राणा को जो हुजूरकी मिहर्बानीका उम्मेदवार

* २ - عرضداشت دوم

کترین بندہاے عقیدت کیش زمیں خدمت بلب ادب بوسیدہ ذرّہ آسا بموقف
عروض والا میرساند - کہ وانا جمیع ابواب ارشاد و ہدایت را بگوش ہوش شنیدہ نظر
بر اتقان احکام لازم الانجام اشرف اقدس ارفع اعلیٰ وبہبود حال و مال خود دانستہ -
بسعری بندہاے عقیدت کیش کہ تفصیل آن در حضور بعرض خواہد رسید - کتور را بعد از
انقضائے مفت گہری از شب شبہ رخصت نمودہ - در اواجی اور پیور خیمہ ایستانہ کردہ
فرود آورد * الحال سامان مہراہیان او میکند - و رانا و معتمدان او التجا ہمی دارند -
کہ لشکر ظہرائر چتور را خراب ساختہ زود برگردن - کہ تا بخاطر جمع در اور پیور تو انیم یوں -
و کنور بجمعیّت خاطر باجمیر تو اندرفت * در کوشش از جانب بندہاے تقصیر نرفتہ - و بسختان عقلی
و نقلی بست و بلند را آثارا معقول ساختہ شد * اما چون وقت درست نوشتن و راست گفتن
است - انچہ ازین جماعہ شنیدہ میشوند - بے کم و کاست معروض داشتن لازم است * آفتاب
عالم تاب دولت و اقبال تابان و درخشان باد *

* ۳ - عرضداشت سوم

کترین بندہاے عقیدت نشان بعد از ۱۵۱ - لوازم بندگی ذرّہ وار بموقف عرض باریافتگان
مہفل بہشت آئین میرساند - کہ از ظغراے غراے بہت و جلال کہ از اربالبرکت اجمیر

था, फ़र्मानके मज़्मूनसे ख़बरदार कर दिया, कुंवरकी ख़ानगीमें बहुत ज़ियादह ताकीद की गई है. राणा अर्गर्चि फ़र्मानके देखने और हम लोगों के पहुंचने से बेफ़िक़्रीके साथ कुंवर के ख़ाना करने में राजी था, लेकिन निहायत डर के साथ फ़तहमन्द लश्कर की वापसी का इन्तिज़ार रखता था.

अब हुज़ूर के ताज़ा हुक्मसे, जो उसको बतादिया गया, बहुत तसल्ली होगई है. राणाने अपने फ़ायदेको सोच कर मुसाहिब और पुरोहित एकट्टे किये हैं; शुक्र के दिन शनैश्वर की रात में से सात घड़ी गुज़रने पर मुहर्रम महीने में अपने बेटे की ख़ानगीके लिये नेक घड़ी तज्वीज़ की है. मुहूर्तका कागज़, जो राणाके पुरोहितोंने लिखा है, उसके साम्हने बन्द करके बजिन्स हुज़ूर में भेजाजाता है.

राणा अर्ज करता है, कि मैं ने साफ़ दिलीके साथ हुज़ूरी हुक्मोंकी तामील की है, उम्मेद है, कि मेरे मुल्क और मालपर कुछ नुक़सान न पहुंचाया जायगा, और मैं अपने बुजुर्गोंसे ज़ियादह रिआयत, और बराबरी वालोंसे ज़ियादह इज़त पाऊंगा, और मेरा बेटा जल्दी लौटा दिया जायगा. जंगली लोगोंमें ज़िद और वहम ज़ियादह होता है, हुज़ूरके ताबेदारोंने हर तरह तसल्ली करदी है. यह मुल्क बिल्कुल ख़राब होरहा है, सब आदमी पहिलेसे शहर छोड़ कर पहाड़ोंमें चलेगये हैं, बाज़ार

شرف نفاذ و عزّ و ورود یافت - آداب بندگی و استقبال بتقدیم رسانیده سعادت کونین حاصل نمود * و رانارا که منتظر و مترصد نوید عنایت و الایوں بر مضمون عنایت مشهون آن مطلع گردانیده بیشتر از بیشتر تاکید در روانه ساختن کنور نمود * رانا اگر چه بعد از مشاهده منشور لامع النور و رسیدن بندهاے عقیدت کیش مطمئن خاطر گذشته در صدد روانه ساختن پسر بود - اما از غایت هیبت و هراس نظر بر مراجعت لشکر فیروزیه اثر داشت * الحال که بتازگی بر مضمون امر لازم الاتباع که درین وقت معض از روی کشف صادر شده بود مطلع گردیده - تقویت ظاهر و باطن حاصل نمود * رانا بے بهبود و سود خود برون معتمدان و پروهتان را جمع ساخته - بعد از انقضاے روز جمعه پس از گذشتن هفت گھڑی از شب شنبه شهر محرم ساعت روانه ساختن پسر اختیار نمود - چنانچه کاغذ ساعت بخط پروهتان و معتمدان رانا بجهت احتیاط در حضور رانا گرفته بجنس ارسال داشته شد * و رانا اظهار مینمود که چون من سعادت خود انسته اطاعت حکم مقبوس بجا آورده ام - یقین که بهیچ وجه من الوجوه نتورے و آسیبی بملک و مال من نخواهد رسید - و زیاده از اسلاف خود رعایت خواهم یافت و بین الاقربان سر بلندی حاصل خواهم نمود - پسر من زود بمن خواهد رسید * چون ضد قلوب و وحشی نهان را لازم است - بندهاے درگاه لاسا نمود * خاطر او را مطمئن میگرداند * تزلزل و تفرقه تمام بحال اینملک را یافته - پیش از رسیدن بندها شهر او دیپور اخالیه ساخته مال و متاع را بکوه فرستاده اند - بازارها و خانها خالی افتاده -

और मकान खाली पड़े हैं, सिर्फ़ राणा और उसके नौकर बाकी रहगये हैं; यहांके आदमी कहते हैं, कि अगर यह मुआमला तै न पाता, तो राणा अबतक पहाड़ोंमें चला जाता. ताबेदारोंके तसल्ली दिलानेसे उसके होश हवास कायम रहे हैं. यहां एक सत्तर वर्षकी उम्रका फ़कीर नज़र आया, जो चालीस वर्षसे शहरके बाहर अलहदा एक गुफामें आज़ादीसे रहता है, इस वक्त शहरकी वीरानीसे वह भी घबरा गया था. ताबेदारोंके पहुंचनेसे कुछ अन्न हुआ है, लेकिन अभी लोगोंको आपसमें खुशी और त्योहार मनानेकी गुंजाइश नहीं है, सब लोग मुआमलेके तै होनेपर नज़र रखते हैं. कल्याणदास राजपूत वगैरह मौकेपर पहुंचे, उनकी खिदमत कद्रके लायक है. हुज़ूरकी बादशाहत और दौलत हमेशा रहे.

चौथी अर्जी.

ताबेदारने राणाके बेटेकी खानगीकी कैफ़ियत शनैश्वरकी रात चौथी मुहर्रम को उदयपुर शहरसे भेजी है, कि शहरके बाहर एक कोसपर डेरा जमा दिया गया है, और राणा लश्करके लौटनेका इन्तिज़ार रखता है, हुज़ूरमें पेश हुई होगी. इन दिनोंमें इज़तदार सदार शैख़ अब्दुल्करीम मिहर्बानीके फ़र्मान समेत यहां पहुंचे; जिनसे राणाको लश्करकी वापसीकी ख़बर सुनकर बहुत तसल्ली हुई; उसने

همین نوکران رانا اند که در شهر می باشند - و مردم اینجا میگویند که اگر اصلاح این معامله نمیرموندند - تا حال رانا در جیل بود * بتقویت و دلایسای بندها استقلال و بحال مانده * درویش هفتاد ساله گوشه گزینے درین ملک بنظر افتاد - چهل سال است که کنج خمول گرفته وقت را خوش میگذرانند - درینولا که شهر ویران شده تفرقه بجمعیت او نیز راه یافته * و از رسیدن بندها فی الجمله امنه بهم رشیده - اما بالفعل کس را دماغ دیدن و صحبت داشتن بدیگر نیست و همه کس را نظر بر اصلاح معامله است * و کلیانداس را چوت بوقت رسیدند - مجرای خدمت آنها شود * ایام دولت و اقبال مستدام باد *

عرضه داشت چهارم - ۴ *

کمترین بندگان عقیدت نشان پس از انجام لوازم بندگی و اخلاص ذرّه انسا بذروه عرض نا صیه سایان آستان ملایک نشان میروساند - که حقیقت برآمدن پسر رانا شب شنبه چهارم محرم الحرام از شهر او دیپور و فروه آمدن بخیمه که در یک گروهی شهر نصب نموده بودند و داشتن رانا چشم انتظار بر معاودت لشکر فیروزی اثر قبل ازین عرضه داشت نموده بود - امید که بسمع و الار سیده باشد * درین اثنا مشیخت و وزارت پناه شیخ عبدالکریم با فرمان مرحمت حواص رسید - و مزده صدور حکم مراجعت لشکر نصرت اثر بگوش رانا که غیر ازین مانع در روانه ساختن پسر نداشت رسانیده * رانا که بر همه احکام سابق مطلع گشته پسر را یک هفته پیشتر از شهر بر آورده بود - بتازگی رهین منت و احسان عنایت و مرحمت گردید *

बेटेको एक हफतह पहिले शहरके बाहर ठहरा रक्खा था, अब दुबारा बहुत इहसान्मन्द होगया है. इज्जतदार सर्दार शैख और ताबेदार और राणाका बेटा इतवारकी सुबह तारीख १२ मुहर्रम सन् २८ जुलूसको हुजूरकी खिद्मतमें खाना होते हैं. इस कार्रवाईमें ताबेदारोंने बहुत दिलसे कोशिश की है, ऐसे वक्तमें कि राणा निहायत बे करारीसे चलदेनेको था, और उसके बेटेको पहाड़ोंसे बुलाकर शहरके बाहर डेरेमें ठहराया, हुजूरके दिलपर भी, जो दुन्याका आईना है, रौशन होगा. हुजूरकी सल्तनत और दौलत हमेशा रहे.

महाराणा राजसिंहने चन्द्रभानके उदयपुर पहुंचने से पहिले सुलह के पैगाम लेकर वजीर सादुल्लाखां के पास मधुसूदन भट्ट व रायसिंह भाला को भेज दिया था. इन्होंने वजीर को बहुत कुछ समझाया, लेकिन वजीर का गुस्सा ठंडा न हुआ, और उसने महाराणाके कई कुसूर बतलाये; सबसे बड़ा ताजा कुसूर यह बयान किया, कि गरीबदास रुस्तत बगैर किस तरह चलागया ? तब मधुसूदन भट्ट वजीरसे बोला, कि उदयपुरके राजपूतों को दिल्ली और उदयपुर दोनों ठहरनेकी जगह हैं, जिस तरह कि राबत मेघसिंह व शक्तिसिंह बादशाह अकबर व जहांगीरके पास चलेगये थे, और बुलाने पर महाराणा अमरसिंह व प्रतापसिंह के पास पीछे चलेआये. उदयपुर और दिल्लीका बर्ताव पहिले ही से ऐसा होता रहा है.

यह बात सुनकर वजीर और भी भड़का, और कहा कि क्या उदयपुर को दिल्लीके दूसरे दर्जे पर समझने लगे ? (यह जिक्र राज समुद्र की प्रशस्तिमें छठे सर्गके ग्यारहवें श्लोकसे छब्बीस श्लोक तक खुदा हुआ है).

फिर भाला रायसिंह और मधुसूदन भट्टसे वजीरने कहा, कि राणाके पास कितने सवार हैं ? उसने जवाब दिया छब्बीस हजार. वजीर बोला कि बादशाह के पास अभी एक लाख सवार मौजूद हैं; तुम कैसे मुकाबला करसक्ते हो ? तब मधुसूदन भट्टने कहा—कि छब्बीस हजार ही लड़ाई करनेके लिये काफी हैं.

شیخ مشائریہ و بندماے درگاہ بایسر رانا صبح یکشنبہ کو از دم معلوم سنہ ۲۸ روایت
ملازمت سرا سر سعادت گردید * خدمتے از رسیدن بندما بوقتے کہ رانا از غایت اضطراب پاے
در رگاب و صنان در دست داشت و نگاہداشتن او بلطائف عقلی و نقلی و سخنان پست و بلند و
طلبیدن بسرا و از جبل و براوردن از شهر او دیور و قوون آوردن در زبوحیمہ — از بندماے
با اخلص بظہور آمد * امید کہ برائیتہ ضمیر نور کہ جام جہان نما عبارت از ان است بر تو
انداخته باشد * ایام دولت و اقبال مستدام باد *

ऐसी बातोंने वजीरसे तो मेल न होने दिया, परन्तु चन्द्रभान मुन्शीकी मारिफ़त शाहज़ादे दाराशिकोहने अपने दीवान शैख़ अब्दुल् करीमको महाराणाके बड़े कुंवर सुल्तानसिंहके लेनेके लिये भेजदिया था.

महाराणाने भी इस मौकेपर नमी इस्तिथार की, और बेदलाके राव रामचन्द चहुवान वगैरह आठ बड़े सर्दारोंको कुंवर सुल्तानसिंहके साथ बादशाहके पास रवाना किया; उस समय कुंवरकी उम्र पांच या ६ वर्षकी थी.

मुन्शी चन्द्रभान व दीवान शैख़ अब्दुल् करीमके साथ कुंवर सुल्तानसिंह मालपुरे में विक्रमी १७११ मार्गशीर्ष कृष्ण ७ [हिज्री १०६५ ता० २१ मुहर्रम = ई० १६५४ ता० २ डिसेम्बर] को बादशाह शाहजहांके पास पहुंचे. इस वक्त तक महाराणाके कुंवरका नाम मुकर्रर नहीं हुआ था; इस लिये बादशाहने सुहागसिंह (१) नाम रक्खा, और मोतियोंका सरपेच, जड़ाऊ तुरा, मोतियोंका बालाबन्द, जड़ाऊ उर्बसी दी; और उसके साथियों में से राव रामचन्द चहुवान वगैरह आठ आदमियों को घोड़ा और खिलअत बख़्शा.

दूसरे दिन अर्थात् इसी संवत् के मार्गशीर्ष कृष्ण ८ [हि० ता० २२ मुहर्रम = ई० ता० ३ डिसेम्बर] को सादुल्लाखां फ़ौज समेत चित्तौड़से बादशाही खिलअतमें हाज़िर हुआ; और मार्गशीर्ष कृष्ण १२ [हि० ता० २६ मुहर्रम = ई० ता० ७ डिसेम्बर] के दिन कुंवर को बादशाहने घोड़ा और हाथी देकर उदयपुरकी रुस्तत दी.

कुंवर उदयपुर आये और बादशाह आगरे पहुंचे, इस मौके पर दबना ही ठीक जानकर महाराणा राजसिंह चुप हो रहे.

विक्रमी १७१३ ज्येष्ठ कृष्ण १० [हि० १०६६ ता० २४ रजब = ई० १६५६ ता० १९ मई] को ख़्वासण सुन्दरकी अर्ज पर महाराणा राजसिंहने गंधर्व ब्राह्मण मोहनको रंगीली ग्राम रामार्पण दिया— (शेष संग्रह नम्बर १)

चित्तौड़ में इमारतका नुक़सान और मुल्क वीरान होनेके सबब प्रजाको भी बहुत दुःख पहुंचा, इस सबब से महाराणाको ज़ियादा गुस्सा आया, और बखेड़ा करना विचार कर जंगी फ़ौज तय्यार करनेका इरादा किया. शाहजहां बाद-

(१) सुहागसिंहका मत्लब मालिकका शुभचिन्तक अर्थात् बादशाही भक्त है, जैसे कि सुहागवती स्त्री, यह बात महाराणा राजसिंहको नापसन्द हुई, और पीछे अपने बेटेका नाम सुल्तानसिंह रक्खा; ज़ाहिरमें तो यह बात कि सुल्तानका किया हुआ सिंह, लेकिन इसका दूसरा मत्लब यह था, कि सुल्तान पर सिंहकी मुवाफ़िक़ ज़बरदस्त

शाहने जो पुर, मांडल, खैराबाद, मांडलगढ़, जहाजपुर, सावर, फूलिया, बनेडा, हुरडा, बदनौर वगैरह परगने मेवाड़से निकालकर सूबे अजमेरमें मिला लिये, वे पहिले वक्तोंसे मेवाड़के शामिल रहे हैं, परन्तु विक्रमी १६२४ [हिज्री ९७५ = ई० १५६७] से बादशाह अकबरकी चढ़ाईके बाद मुग़लोंकी बादशाहत के आखिर तक कभी ज़ब्त और कभी छूटते रहे हैं; यानी कभी मेवाड़के महाराणाओं ने अपने तहतमें करलिये, और कभी बादशाही फौजने कब्ज़ा करलिया. और कभी बादशाहोंने खुशीसे बस्त्र दिये, ऐसा ही बर्ताव होता रहा.

महाराणा राजसिंहने मांडलगढ़ पर फौज भेजी, कृष्णगढ़के राजा रूपसिंहको बादशाह शाहजहानने यह क़िला देदिया था, उनकी तरफसे राघवदास महाजन वहां का क़िलेदार मुकाबलेसे पेश आया, लेकिन एक दो दिन ठहरकर भाग गया.

विक्रमी १७१४ आश्विन शुक्ल १० [हिज्री १०६८ ता० ९ मुहर्रम = ई० १६५७ ता० १८ अक्टोबर] को दशहरा पूजनेके बाद महाराणा राजसिंहने टीका दौड़की रस्म पूरी करनेको फौज तय्यार की, और बादशाही मुल्क लूटने पर कसर बांधी. विक्रमी कार्तिक [हि० सफ़र = ई० नोवेम्बर] में उदयपुरसे कूच किया, और चित्तौड़की तलहटी तथा मालवेके लोगोंको मिलाकर विक्रमी १७१५ वैशाख शुक्ल १० [हिज्री १०६८ ता० ९ शअबान = ई० १६५८ ता० १२ मई] को चित्तौड़से कूच हुआ, और खैराबादको लूटकर पुर, मांडल व दरीबा को आघेरा. वहां बादशाही थानेके कुछ लोग थे, उनमें से कितने ही तो भागगये, और बहुतसे मारे गये, जिनका सारा सामान महाराणाकी फौजने लूटलिया, और मांडल, पुर व दरीबाके ज़मींदारोंसे बाईस हज़ार रुपये दण्डके लेकर अपने थाने बिठादिये.

इसी तरह बनेड़ेके ज़मींदारोंको मातहत करके छब्बीस हज़ार रुपये दण्डके लिये. शाहपुरेके अधिकारी सुजानसिंह, जो महाराणाके चचा थे, और चित्तौड़पर फौज कशीके वक्त सादुल्लाखां वज़ीरके साथ थे; इसी रंजके सबब महाराणाने शाहपुरेपर घेरा डाला, और बाईस हज़ार रुपया जुर्माना लिया, परन्तु इन दिनों सुजानसिंह शाहजहां बादशाहकी भेजी हुई फौजमें उजैनकी तरफ था. महाराणा इसी तरह सावर, जहाजपुर, केकड़ी वगैरहसे दण्ड लेते हुए मालपुरे पहुंचे. उन दिनों मालपुरेकी प्रजा मालदार थी. महाराणा नौ दिन तक वहां ठहरे, और शहरको अच्छी तरह लूटा. इस शहरकी लूटका हाल लोग कई तरहपर बयान करते हैं— कोई कहता है कि एक करोड़का माल लूटा, किसीका बयान है कि पचास लाखका माल मेवाड़की फौजने लिया.

टोडेके राजा रायसिंह, महाराणा अमरसिंहके पोते भीमसिंहके बेटे भी सादुल्लाखांकी फौजके साथ क़िले चित्तौड़के गिरानेमें शामिल थे. इस कारण महाराणाने

अपने प्रधान कायस्थ फ़तहचन्दको तीन हजार सवार देकर टोडेपर भेजा. वहां राजा रायसिंहकी माने साठ हजार रुपये जुर्माना देकर इलाकेको बचाया. उस समय राजा रायसिंह शाहजहांके हुक्मसे बादशाही फौजमें मालवेकी तरफ़ गये थे; बर्सात आजानेके सबब महाराणा तो उदयपुर चले आये, और इस धूम धामकी ख़बर बादशाहके कान तक पहुंची.

कर्नेल् टॉड अपनी किताबमें लिखते हैं, कि इन ख़बरोंको सुनकर बादशाहने कहा, कि मेरा भतीजा (महाराणा कर्णसिंहका पगड़ी बदल भाई होनेसे) लड़कपन से ऐसी बातें करता है, मैं इन बातोंपर ध्यान नहीं देता. हमारी राय कर्नेल् टॉडसे नहीं मिलती, क्यों कि शाहजहांको उदयपुरमें रहनेके इहसान का खयाल होता तो देवलियाके रावत हरिसिंहको उदयपुरकी मातहतीसे अलग नहीं करता.

दूसरे- पुर, मांडल, मांडलगढ़, जहाज़पुर, भणाय, हुरड़ा, वगैरह परगने मेवाड़ से छीनकर सूबे अजमेरमें नहीं मिलाता.

तीसरे- अपने वज़ीर सादुल्लाखांको तीस हजार सवारके साथ क़िले चित्तौड़ को गिरानेके लिये कभी नहीं भेजता.

इन बातोंसे मालूम होता है, कि वह पुराने इहसानको तस्त्पर बैठनेके बाद भूलगया, और महाराणा राजसिंहकी धूमधामको सुनकर जुरूर दिलमें जला होगा. परन्तु एक तो बीमारी दूसरे चारों शाहज़ादोंके आपसमें फ़सादके सबब, जिससे कि अपनी बड़ी भारी सल्तनत (हिन्दुस्तान) के उलट पुलट होनेका डर था, बादशाहने मालपुरेकी लूटका खयाल नहीं किया होगा. इन्हीं दिनोंमें महाराणा राजसिंहने शाहज़ादे औरंगजेबसे मेल करनेके इरादेसे चिट्ठियां भेजीं, और औरंगजेबने उनके जवाबमें महाराणाको अपना मददगार बनाने के लिये लिखा. उन कागज़ोंका तर्जुमा जिनकी नक़ल फ़ार्सी नोटमें की गई है, यहां लिखा जाता है-

औरंगजेबका पहिला निशान.

उस नेक इरादह खैरस्वाहने अर्ज किया था, कि उदयकर्ण (१) चहुवान और शंकर भट्टको मए उनके साथवालोंके रखसत दीजावे, और इन दिनोंमें हमारे साम्हने अर्ज हुआ, कि बाकी जमइयत जो माधवसिंह सीसोदिया के साथ रहेगी,

(१) इन्हीं उदयकर्ण चहुवानकी सन्तान इस वक्त तक कोठारियाके जागीरदार सोलह उमरावों मेंसे है.

वह भी फ़तहमन्द लश्करमें आगई; इस लिये उस उम्दा सर्दारकी अर्ज कुबूल कीगई. इस वक्त में कि फ़तहमन्द लश्कर बीजापुरकी मुहिम पर रुजूअ होने वाला है, और बाकी उस खैरखाह साफ़ तबीअतकी सब जमइयत अगली और अबकी हमारी खिद्यत में रहेगी. इस लिये उदयकर्ण और शंकरभट्टको कुछ साथियों समेत हमने रुखसत दी, कि अपने घर जावें.

इन्द्रभट्ट, जो हमारी नामदार सर्कारका पुराना एतिवारी नौकर है, उसको भी हमराह भेज दिया गया है, कि उस खैरखाहको खास इनायत और मिहर्बानियोंसे, जो ज़बानी कह दीगई हैं, खबरदार करे.

इस वक्त उम्दा खिलअत और जड़ाऊ उर्वसी उसकेवास्ते इनायत फ़र्माई गई, कि सर्फ़राज करके उस बे शुबह खैरखाह सर्दारकी तन्दुरुस्तीकी खबर लावे, और बादशाही मिहर्बानी व बख़्शिशोंको अपनी बाबत रोज़ बरोज़ ज़ियादह समझे, और खैरखाही व साफ़ दिलीका तरीका हाथसे न देकर पुराने दस्तूर बर्तावपर कायम रहे. कम दरजेके खैरखाह ज़ियाउद्दीन हुसैनके रिसाले में जारी हुआ.

نشان بمر محمد اورنگ زیب بهادر که در زمان شاهزادگی - بنام رانا راج سنگه نوشته - بتاریخ نوزدهم ۱۹ - شهر ربیع الاول سنه ۳۰ جلوس میمنت مانوس *

خلاصه مخلصان وافی عقیدت نتیجه دود وافر الارادات عمدة الاشباه والامیان رانا راج سنگه - بعنایت بے غایت پیشگاه سلطنت مفخر و مباهمی گشته بداند - که چون آن خلاصه مخلصان وافی عقیدت التماس نموده بود - که او یکرن چوهان و شکر بهت را باهمراهان آنها دستوری دهیم - و در نیولا بموقف عرض والا رسید که بقیه جمعیت که با ما دھو سنگه سیسویہ خواہد بود نیز بوکاب ظفر انتساب آمده - نابیران ملتس آن عمدة الاشباه والامیان را مبذول داشته - درینوقت کہ موکب نصرت قرین متوجه مهم بیجاپور است و ما بقیہ تمامی جمعیت آن نتیجہ دولتخواہان صافی طویت از سابق و لاحق در خدمت والے ما باشد مومی الیہمارا باهمسران رخصت فرمودیم کہ بوطن مالوف خود روند *

واندرجی بہت ملازم سرکار نامدار را کہ بندہ معتمد قدیم الخدمت این درگاہ است نیز باتفاق آنها فرستادیم - کہ آن خلاصه مخلصان بے اشتباہ را بر بعض مراتب عنایات و توجہات خاص کہ بتقریر او محوّل است آگہی بخشد * بالفعل از خلعت فاخرہ و اربسی مرصع کہ با و مرحمت فرمودہ ایم سرفراز گردانیدہ خبر صحت و عافیت آن عمدة الاشباه والامیان را بیاورد * اعطاف و الطاف پیشگاه سلطنت را در بارہ خویش زوز افزون شناسد - و سررشتہ عقیدت و اخلاص را از دست نداده بہمان و تیرہ برجادہ قویم مستقیم باشد *

برسالہ کمترین فدویان ضیا الدین حسین *

औरंगजेबका दूसरा निशान.

उम्दा सर्दार, बराबरी वालोंसे बिहतर, वफादार खैरखाहोंका बुजुर्ग, बलन्द इरादह बहादुरोंका पेशवा राणा राजसिंह— बेहद मिहरबानी और खास तवजुहसे खुश होकर जाने, कि कदीमी मुहब्बत पर नज़र रखकर इन्द्रभट्टको जो एतिवारकी लाइक है, हमने उस बुजुर्ग सर्दारके पास भेजा है, कि जो बातें उससे कही गई हैं, जाहिर करे, और जवाब जल्दी लावे—

यकीन है कि बिहतरकी उम्मेद और बेफिक्रीके साथ साफ़ और दुरुस्त जवाब जाहिर करके अपने इक्रारोंके मुवाफिक़ बर्ताव रखे, और इसे तीन दिनसे सिवाय न ठहरावे, हुजूरमें रुख़सत करे.

खिलअत खासा, एक हीरेकी अंगूठी उसके हाथ भेजी है; व खासा हाथी सामान समेत फ़िदवी स्वाजह मन्ज़ूरके हवाले किया गया है, जो भेज देगा.

—*—

نشان والا شان که بدستخط خاص محمد اورنگ زیب بهادر زیب ترقیم یافته *

—*—

ممدۃ الامیان مفخر الاقران خلاصۃ دولتخواهان وفاکیش زبده متهوران جلالت اندیش
را تاراج سنگه — بعنایت ے نہایت وتوجہ خاص الخاص بیغایت خوشوقت گشته معلوم نماید —
کہ نظر بر اخلاص درست قدیم آن ممدۃ دولتخواهان کردہ اندر بہتہ را کہ محل اعتماد است
نزد آن مفخر الامیان فرستادیم تا مقدماتی کہ باو گفته ایم ظاہر نمودہ جواب آن را بزودی
بیاورد۔

باید کہ بامید واری تمام جمعیت خاطر مالاکلام باظہار جواب صدق و یکرنگی
براختہ بموجب اقرار عمل نمودہ زیادہ برسہ ۳ روز نگاہ ندارد — و رخصت حضور پر نور
کند *

خلعت خاصہ با انگشتری الماس مصحوب و عنایت نمودیم — فیل خاصہ با تالیپ حوالہ
قدوی خواجہ منظور فرمودہ ایم — خواہد فرستان *

—***—

शाहजादे औरंगजेबके खास दस्तखती और
पंजेवाले तीसरे निशानका तर्जुमा.



उम्दा वफ़ादार, बुजुर्ग सदाँर, बराबरी वालोंसे विहतर, खैरखाहोंका पेशवा बहुत मिहर्बानियोंके लायक, साफ़दिल दोस्त, नेकनियत खैरखाह, बड़े राजाओंका बुजुर्ग, (राणा राजसिंह) शाही मिहर्बानियोंसे खुशख़बरी हासिल करके जाने; जिन आदमियोंको कि हमारी फ़ौजके बहादुर हरावल अफ़सरने उस हिन्दुस्तानके राजाओंके बुजुर्गके पास भेजा था, उन्होंने इन्तिज़ारके वक्त हुजूरमें पहुंचकर खैरखाही और साफ़दिलीकी बातें, जो नेकइरादा लोगोंका एतिबार बढ़ानेवाली हैं, तफ़्सीलवार अर्ज़ कीं; जिससे उस वफ़ादारपर हजारों शाही मिहर्बानियें लाज़िम आईं. यह ज़ाहिर है, कि ज़बरदस्त बुजुर्ग नामदार बादशाहोंकी ज़ात खुदाकी नक़ल और उसका साया समझीजाती है, और इस बुजुर्ग तबीअत गिरोहकी बलन्द

हिम्मत, जो खुदाई कारखानेके थंभे हैं, इस बात पर रुजूअ रहती है, कि मुस्तलिफ़ कौम और हर मजहबके आदमी अमन और आरामके साथ बे फ़िक्रीसे अपनी जिन्दगी

نشان شاهزاده محمد اورنگ زیب بہادر کہ بدستخط خاص و نقش پنجه مبارک

زینت تحریر یافتہ *



هو اللہ مستعان

مددہ اخلاص کیشان د ولتخواہ زبده الامیان والاشیاء خلاصتہ الامائل والاقربان تقاوتہ انظایر
والاخوان سلالہ فدویت منشان سزاوار الطاف و احسان مخلص با اختصاص فدوی درست
اخلاص راجہ راجہاے عالیقدر مستوجب احسانات بی شمار (راناراج سنگہ) بشمول توجہات شاہی
مستظہرو مستبشر ہونہ بداند - کسانے را کہ شہامت دستگاہ مقدمتہ العیش نزد آن سرمد راجہاے
مند فرستادہ ہونہ آنہا رعین انتظار بحضور پر نور رسیدہ مراتب عقیدت و اخلاص کہ جبہ افروز
مراد یکرنگان خیر سگال است یکیک بعرض عالی متعالی رساندند * آن اخلاص کیش مورد
مزاران مزار منایت و لطف خسرو نہ گردید * از آنجا کہ ذوات نعمت آیات سلاطین نامدار و
ہاں شامان والاقدر عالیقدر ظل ظلیل آفریدگار و سایہ بلند پایہ نعمت پروردگار واقع شدہ -

पूरी करें, और कोई किसीपर जियादती न करसके. जिस किसीने इस बुजुर्ग गिरोह में से तअस्सुब और हठ धर्मीके साथ लड़ाई भगड़े और उस खल्कतकी तकलीफ़, जो अस्ल में खुदाई दर्गाहकी एक अमानत है, इस्तिथारकी, उसने खुदाई कार-वाई और उसकी बुन्यादोंके उखाड़ने में कोशिश की, जो इस गिरोहके लिये खराब आदत और नाकिस हालत कही जासक्ती है. अगर खुदाने चाहा तो उसके पीछे कि हक़ अपनी जगह पर ठहरजावे, और मुरादकी सूरत एकदिल खैरस्वाहों की स्वाहिशके मुवाफ़िक़ नज़र आवे, तो हमारे बुजुर्ग बाप दादोंके काइदे और जाबिते, जो सब लोगोंको बहुत पसन्द हैं, जारी होकर तमाम दुन्याकी रौनक बढ़ावेंगे.

उस नेक आदत वफ़ादारने परगने मांडल वगैरह चार जागीरोंकी बाबत, जिनकी तन्स्वाह एक करोड़ तीस लाख दाम होती है, अर्ज किया, ये जागीरें परगने ईडर समेत उन इक़ारोंके पूरा होने बाद, जो आपसमें करार पाये हैं, बख़्शे जानेके लिये मन्ज़ूर की गई. मुनासिब है, कि हरतरहसे खातिर जमा और मिहर्बानियोंका उम्मेदवार होकर उस बड़े कामके लिये, जिसका हमने इरादह कर लिया है, कमर बांधे; और एक उम्दा फ़ौज किसी नज़्दीक रिश्तेदारके साथ खाना करदे, कि बुधके रोज़ इस महीनेकी तीसवीं तारीख़ हमारे हरावल लश्करके अप्सरके पास आकर शामिल होजावे. बुजुर्ग खुदाकी मिहर्बानीसे यकीन है, कि बहुत जल्द

همت والانهمت این طبقه علیا که اساطین بارگاه جبروتند مصروف برآنست که کافه مختلف المشارب و متلوان المذاهب درمهاد امن و امان بوده بفراع بال بگذرانند - واحدے متعرض احوال دیگرے نگرند - و هر کدام ازین گروه آسانی شکوه را تعصب درپیش گرفته بے سبر مجادلہ و مخاصمہ و ایذا بے جمہورا نام کہ درواقع و ادایع بدایع درگاه صمدیت اند گردید - در معنی درتخریب معمورات یزدانی و ہدم بنیان ربانی کہ از صفات مردودہ و اوضاع مطرودہ این طایفہ و الاست کوشیدہ * انشاء اللہ تعالیٰ بعد از آن کہ حق بمرکز قرار گرفت و نقش مراد بحسب خواہش مخلصان یکدل صورت بست - فوائد مراسم آباء کرام و ضوابط اجداد عظام انار اللہ براہینہم کہ مرغوب طبائع عباد است - رونق افزاے معمورات ربع مسکون خواہد گشت *

آن اخلاص کیش وفادار از مرحمت کردن پرگنہ مانندل وغیرہ چہار محال کہ تنخواہ آن بیک کروروسی لکھ نام میرسد التماس نمودہ - بایرگنہ ایدر بعد ایفاے عہود و موافیق کہ بمیان آمدہ بدرجہ اجابت مقرون شد * باید کہ من جمیع الوجوہ خاطر جمع داشتہ وامیدوار منایات والاگشتہ کمر ہمت بتقدیم امرے کہ پیش نہاد خاطر معلے است بستہ - فوجی شایستہ کہ بمرکز گئی یکی از اقربا قرار یافتہ منظور نظر معلے گردیدہ روانہ نماید - کہ چہار شنبہ کہ سیم ماہ حال باشد آمدہ بلشکر خان مزبور ملحق شود * رجا بفضل فیاض مطلق وائق است

हम कोशिशका दर्या तैरकर मुरादके किनारेपर पहुंचेंगे. यह एक पुराना ज़ाबिता है, कि राणाईकी तलवार उसके बुजुर्गोंको हिन्दुस्तानके बादशाहोंकी तरफसे मिलती है, इस लिये हमने तलवार खास खिलअत समेत, जो हमारे पहननेकी चीजोंमेंसे है, तुहफेके तौर उस नेक इरादह सर्दारके लिये इनायत फर्माई. जैसा कि हमने उसको दूसरी दुन्याके सफ़र करने वाले (महाराणा जगतसिंह) की जगह समझा है, वह भी हमको हक़दार बादशाह और मुल्कका मालिक जानकर रियासत और राणाईकी तलवार फर्माबदारीके साथ कमरपर बांधे, और खास खुराकके खरबूजे, जो इनायत हुए, इसको नेक शकुन खयाल करे.

रघुनाथके हाथ भेजीहुई अर्जी नज़रसे गुज़रकर पसन्द हुई, रघुनाथ को फौजके साथ रुस्त करे, इस क़द्र वक्त नहीं रहा, कि आज कलमें काम टाले जावें, देरका हर्गिज़ मौका नहीं है, सुस्तीमें हर तरहके नुक़सान होना मशहूर बात है. हम शौकके साथ ऐसे इन्तिज़ार में हैं, कि अगर वह जल्द आवे तो भी देर समझी जावे. उम्दा वक्तपर यह कागज़ लिखा गया.

औरंगजेबका चौथा निशान.

इन्द्रभट्ट सर्कारी नौकर और ब्रजनाथ अपने नौकरके साथ जो अर्जी भेजी थी, नज़रसे

که منقریب ساحل مراد میرسم * چون ضابطہ قدیم آن بود کہ مطاع شمشیر رانائی بہ نیاکان
اواز مراحم گریی نومان روایان ممالک هندوستان است — بنا بر آن شمشیر باخلعت خاصہ
از ملبوسات خاص بصیغہ تہنیت بہ آن عقیدت سرشت مرحمت فرمودیم — باید کہ چنانچہ
ما اورا بجائے آن سفر گزین اقلیم آخرت (راناجکت سنگہ) دانستہ ایم — او نیز مارا خلیفہ بحق و
سرپر آراے مملکت دانستہ شمشیر ریاست و رانائی بر کمراخلاص و اطاعت بر بندہ — واللّٰہ خاصہ
خریزہ کہ مرحمت شدہ این را شگون یغشی تصور نماید *

عرضداشت مرسل یافتہ مصحوب رگہناتہ رسید — ار نظر فیض اثر گذشت مستحسن افتاد *
رگہناتہ را ہمراہ فوج رخصت کند — وقت آن قدر نماندہ کہ با مروز نردا بگذرد — فرصت را
اصلا محل نیست "فی التا خیر آفات" از اقوال مشہورہ است *

— شعر —

..... آنچنان منتظرم دررہ شوق * کہ اگرزود بیاید دیراست *
در ساعت مسعود و منگام محمود زینت نگارش یافت *

م نشان مالیشان اورنگ زیب بہادر

مددۃ الاشباہ والاقربان زبدۃ الامثال والامیان خلاصۃ دولتیخوامان تمام اخلاص اسوۃ

गुजरी और तमाम बातें जो कि उसके साथ कहलाई थीं, अर्ज मुबारकमें पहुंचीं, और मिहर्बानियोंकी उम्मेदका हाल जाहिर हुआ.

अगर खुदाने चाहा, तो उन कारगुजारियोंके पीछे, जिनके लिये वह उम्दह सदा मुकर्रर हुआ है, जैसा कि इक्कार किया, अपने बेटेको अच्छी जमइयतके साथ बुजुर्ग दर्गाहमें भेजे, और दोस्तोंकी मर्जीके मुवाफिक काम हो, तो जैसा कि उसने अर्ज किया, राणा सांगासे भी जियादह हमारी तरफसे इनायात होकर कोई दरजा हिमायत और रिआयतका उस खैरखाहके वास्ते न छोड़ा जायगा; और निशान जो खास खतसे लिखा गया और पंजे मुबारकसे रौनकदार होकर कौलके तौरपर भेजा गया है, खुदाकी मिहर्बानीसे इसमें जरा भी फर्क न पड़ेगा. बे फिक्रीके साथ बन्दगीके रास्तेपर साबित कदम रहकर अपने बेटेको अच्छी जमइयतके समेत हुजूरमें भेजे, कि नर्मदासे लइकर उतरनेके बाद खिद्मतमें हाजिर हो, और आप उस खिद्मतपर, कि जिसका इक्कार किया, तय्यार हो. पर्वरिशके तरीकेसे एक जड़ाऊ तुरा उस उम्दा सदाके लिये इनायत किया गया. हमारी खास इनायतको अपनी बाबत रोज बरोज जियादह समझे.

معتقدان وافرالاختصاص رانا راج سنگه — بعنايات و توجهات خاصه سر فراز بونه بداند — عرض داشته که مصحوب اندر بهت ملازم سرکار دولتمدار و برجنا ته نوکر خود ارسال داشته بود از نظر مقدس گذشت — و جمع ملتزمات او که حواله بتقریر آنها کرده بود بعرض مبارک رسید — و آرزوی مکرمت و مرحمت مایحتاج مقرون اجابت گردید * انشاء الله تعالی بعد از اینکه آنعمده الاعیان مصدر خدمت که مامور گردیده و چنانچه تعهد نموده پسر خود را با جمعیت خوب بدرگاه و الا جاء بفرستد وجهان بکام دولتخواهان گردان — چنانچه التماس نموده زیاده بر آنچه که رانا سانگا داشت از پیشگاه سلطنت مرحمت شده دقیقه از دقائق حمایت و رعایت نسبت به آنعمده دولتخواهان فرو گذاشت نخواهد شد — و آن نشان عالیشان که بخط خاص زینت تحریر یافته و به پنجه مبارک مزین گردیده و بمنزله قولست انشاء الله تعالی آن عزیز هرگز خلل یزیر نخواهد بود * و ثوق تمام حاصل نموده بر جان و اخلاص و بندگی ثابت و مستقیم بوده پسر خود را با جمعیت خوب بحضور اقدس بفرستد — که بعد عبور رایات عالیات از نریده آمده بملازمت اشرف مشرف شون — و خود بخدمت که تعهد نموده متوجه شون * از رو بنده نوازی طره مرصع به آن زبده الاشباة عنایت نموده شد — عنایات خاصه ما را نسبت بخود روز افزون داند *

इन ऊपर लिखे हुए कागज़ोंसे साफ़ ज़ाहिर होता है, कि औरंगजेब दिलसे हिन्दुस्तानकी सल्तनतका मालिक बनना चाहता था, और उसको यह भी खयाल होगा, कि उदयपुरका राणा हमारा रास्ता न रोके, इस लिये यह निशान लिख कर तरफ़दार बनाना चाहा.

महाराणा राजसिंह तो शाहजहांसे बिगड़ ही रहे थे, इस शाहज़ादेकी हिमायतसे उन्होंने मांडलगढ़ वगैरह परगनोंपर कब्ज़ा करके मालपुरेकी लूटसे टीकादौड़की रस्म पूरी की. जब शाहज़ादे औरंगजेबने शाहज़ादे मुराद समेत नर्मदा उतर कर महाराजा जशवन्तसिंह पर भारी लड़ाई के बाद फ़तह पाई, तो उसके बाद महाराणा राजसिंहके नाम यह कागज़ लिखा.

नर्मदाकी फ़तहका निशान.

नर्मदासे लश्कर पार उतरने बाद उजैनसे छःकोसके फ़ासिले पर पहुंचनेके वक्त खानहज़ादपर्वरी और क़द्रदानीसे राजा जशवन्तसिंहको हमने कहला भेजा, कि हम आला हज़रत (शाहजहां) की मुलाज़मतके इरादे पर अक़बराबाद (आगरा) की तरफ़ जाते हैं, उसको चाहिये कि सूबे मालवासे, जो उसके नाम मुक़र्रर हुआ, ख़बरदार होकर लड़ाई और भगड़ेका खयाल, जिसकी वह ताक़त नहीं रखता, हर्गिज़ न करे; लेकिन उसने कम लियाक़तीसे ख़राब इरादे पर हैसियतसे ज़ियादह क़दम बढ़ाया, और फ़ौज तय्यार करके लड़ाईको साम्हने आया; इस लिये हम भी अपने प्यारे नामवर भाईके इत्तिफ़ाक़से जो गुजरातसे हमारी मुलाक़ातको आये थे, राजाके गुरूर की सज़ा और अदब देनेके लिये फ़तह मन्द लश्करको दुरुस्त करके उसका फ़साद दूर करनेके लिये तय्यार हुए.

ه-عمدة الاشياء والاعيان زبدة الامثال و الاقران خلاصة دولته و امان وافر اخلاص اسوة متخصصان تمام اختصاص رانا راج سنگه بعنايت بيغاييت سرفراز و ممتاز بوده بد اند - که چون بعد از عبور آيات عالیات نصرت آيات از دریاے نوبده و رسیدن به شش کوهی اجین هر چند از روه خانه زان پروری و قدر انی بر اجه جسونت سنگه گفته فرستادیم که ما بارانہ ملازمت اعلى حضرت متوجه دارالخلافته اکبر آبادیم - باید که از صوبه مالوه که بعهدہ او مقرر گردیده خبر دار بوده اندیشه مجادلہ و معاربه که نه یارای امثال اوست نکند - اصلا توفیق قبول آن نیافتہ بارانہ فاسد قدم از اندازه خود فراتر گذاشته افواج آراسته بقصد جنگ پیش آمد - نابوان مانیز با اتفاق برادر بجان برابر اعز ارشد کامگار نامدار عالیقدر که از گجرات برائے ملاقات ما آمده بودند بجهت تشبیه و تادیب و سزای غرور او لشکر ظفر اثر فتح رهبر انزوک نموده متوجه دفع شر او شدیم - و بکرم الهی لشکر آنطرف را که زیاده بر بست هزار سوار بانوبخانه بسیار بود در عرض دوپهر شکست فاحش دادیم -

چنانچه اکثر سرناران آن لشکر با شش هفت هزار سوار در میدان جنگ کشته شدند -

खुदाकी बुजुर्गीसे उस तरफके लश्करको, जो बड़े तोपखानेके सिवाय बीस हजार सवारसे जियादह था, दो पहरके अर्सेमें साफ़ शिकस्त दी, और उस लश्कर के अक्सर सर्दार छः सात हजार सवारों समेत लड़ाईके मैदानमें मारेगये, और राजा मज्कूरने सरत जस्म खाकर भागनेकी बदनामी इस्तिथार की; जिससे तमाम सामान तोपखानह, खजानह, हाथी वगैरह बर्बाद हुए. इस बड़ी फ़तहका शुक्र, जो हमको हासिल हुई, किसी तरह हमसे अदा नहीं हो सक्ता. यकीन है, कि वह उम्दा खैरस्वाह इस नेक खबरसे खुशी हासिल करेगा, और अपने बेटेको एक अच्छी जमइयतके साथ इक्रारके मुवाफ़िक़ जल्दी हुजूरमें रवाना करेगा, और आप उदयपुरसे कहीं नहीं जायगा. अब मिहर्बानीके तरीकेसे जो परगने कि उसके इलाके में से निकालकर जागीरदारोंको तनस्वाहमें देदिये गये थे, उस उम्दा खैरस्वाहको इनायत कियेगये; उनपर जल्दी कब्ज़ा करले.

जिस वक्त उसका बेटा मुनासिब जमइयतके साथ हमारी खिदमतमें पहुंचेगा, और जमाना दोस्तोंके मल्लबके मुवाफ़िक़ हो, तो उन मिहर्बानियोंसे जिनका कि उसकी अर्जके मुवाफ़िक़ पहिले इक्रार कियागया है, सर्वलन्दी दीजावेगी.

इस मुआमलेमें पूरी ताकीद जानकर हुकमके मुवाफ़िक़ अमल रखवे, और किसी तरह देर और बहाना न करे.

इसके बाद दाराशिकोह पर आगरेके पास समूनगर में शाहज़ादे औरंगजेब और मुरादने फ़तह पाकर दाराका पीछा किया. विक्रमी १७१५ अषाढ़ शुद्ध १ [हि० १०६८ आखिर रमज़ान = ई० १६५८ ता० १ जुलाई] को सलीमपुर मक़ामपर महाराणाके कुंवर सुल्तानसिंह अपने चचा अरिसिंह समेत गये, और इस फ़तहकी मुबारकबाद दी.

و راجه مذکور زخمهای کاری برداشته عار فرار اختیار ننوده تمام سامان و توپخانه و خزانه و فیلخانه را برباد داد * شکراین فتح عظیم و نصرت جسم که روزی روزگار فرخنده آثار ماگودیده بچه طریق اداتوان نمود - یقین که آن دمه و ولتخواهان تمام اخلاص ازین خبر بهجت اثر ابواب شادمانی و مسرت بر روزگار خویش مفتوح خواهد داشت و بسر خود را باجمعیت شایسته موافق تعهدی که نموده بزودی روانه حضور پر نور نموده خود از او دیپور حرکت نخواهد کرد * بالفعل از روی تفضل پرگناتے که از ولایت متعلقه او که درینولا به تنخواه جاگیر داران داده شده بود به آن زبده منحصان مرحمت فرمودیم - بزودی متصرف شوند - که هرگاه بسراو باجمعیت لایق درین سفر خیر اثر بملازمت اقدس برسد - و جهان بکام و ولتخواهان گردد - بعنایاتے که قبل ازین حسب التماس او وعده شده سو فر از خواهد شد * درین باب تاکید تمام دانسته بموجب حکم و الاصل تاخیر و تعلل نکند *

शाहजादे औरंगजेबने खिलअत, मोतियोंकी कंठी, सर्पेच, जड़ाऊ छोगा दिया, और महाराणा राजसिंहको देनेके लिये बड़ी कीमतका जड़ाऊ सर्पेच भेजा. फिर औरंगजेबके साथ यह मथुरा आये; वहां भी कुंवर सुल्तानसिंहको सर्पेच और जड़ाऊ तुरी दिया गया, और महाराणाके भाई अरिसिंहको जड़ाऊ धुकधुकी देकर कुंवरको विदा किया. इसके बाद शाहजादे मुरादको कैद करके औरंगजेबने लाहौर तक दाराका पीछा किया.

जब औरंगजेब बादशाह बनाहुआ लाहौरकी तरफ़ बढ़ रहा था, महाराणाके कुंवर सुल्तानसिंहको मथुरासे रुस्सत देदी, और अरिसिंह साथ रहे, जिनको राय-रायांकी सरायसे विक्रमी १७१५ भाद्रपद कृष्ण ३ [हि० १०६८ ता० १७ ज़ीकाद = ई० १६५८ ता० १६ ऑगस्ट] को खिलअत, जड़ाऊ जम्धर, मोतियोंकी कंठी, घोड़ा मए सामानके देकर रुस्सत किया, और महाराणा राजसिंहके नाम फ़र्मान व उम्दा खिलअत, एक हाथी और हथनी भेजी. फ़र्मानकी नक़ल फ़ार्सी नोटमें और तर्जमा यहां लिखाजाता है.

महाराणा राजसिंहके नाम औरंगजेब बादशाहके फ़र्मानका तर्जमा.

बिस्मिल्ला हिरहमा निरहीम.

(मुहरकी नक़ल)

अल्लाहु अकबर
मुहम्मद औरंगजेब
शाहबहादुर गाज़ी, इन
साहिब किराने सानी.
१०६८

(तुंगराकी नक़ल)

मन्गूर लामे उन्नर, मुह-
म्मद औरंगजेब बहादुर
बादशाह गाज़ी.

मामूली अल्काब व आदाबके पीछे मालूम हो- इन दिनोंमें जो अर्जी साफ़ खैरस्वाही और उम्दा ताबेदारीसे हमारी ज़बर्दस्त दर्गाहमें भेजी थी, बुजुर्ग नज़र से गुज़र कर हमारी मिहर्बानीके बढ़नेका सबब हुई. उस में बाज़ी जागीरोंके मिलने की उम्मेद कीगई है, जो पहिले दिनों में उस खैरस्वाहके बाप, राणा जगत्सिंह के इलाके में थीं, निहायत मिहर्बानी और बहुतसी खुशीके साथ, जो हमको उस उम्दा नेक खैरस्वाहपर है, उसका पहिला मन्सब जो पांच हज़ारी जात और पांच हज़ार सवार था, छः हज़ारी जात व छः हज़ार सवार और एक हज़ार सवार दो अस्पा सिह अस्पा मुक़रर किया गया; और इसके सिवाय पांच लाख

रुपये इन्आमके तौरपर इस मिहर्बानी में जियादा कियेगये- परगने बदनोंर और मांडलगढ़, जो एक मुदतसे उस उम्दह खैरखाह ताबेदारसे उतार लियेगये थे, उन में से पहिला उम्दा राजा, बलन्द खानदान, बहादुर आदत, मिहर्बानीके लायक महाराजा जशवन्तसिंहसे और दूसरा रूपसिंहसे उतार कर शुरू सियाली (खरीफ ईत ईल) से और परगने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बसावर, गयासपुर, जो मुदत

بسم الله الرحمن الرحيم

منشور لامع النور
محمد اورنگ زیب بہادر
بادشاہ غازی *

(نقل طغرا)

الله اکبر
ابن صاحب قرآن ثانی
زیب
محمد اورنگ شاہ
۱۰۶۸ بہادرغاز

(نقل مہر)

زبدۂ نیکخواہان عقیدت
کیش خلاصۂ ہواخواہان
خیر اندیش - نتیجۂ دودمان
وفاخوئی - نقیۂ خاندان
رضاجوئی - سلالۂ فدویت
منشان - سزاوار الطاف و
احسان - مطیع الا سلام
رانا راج سنگہ - بعنایات

ہواغواہان *

انعمۂ دوتخواہان تمام
اخلاص - بنوید این الطاف نمایان
وصراحم بیکران استظہار واستبشار
فراوان اندوخذہ بہواسم شکر
گذاری و خد متکاری قیام نمایند -
و توجہات و الارشاد مل حال و
کامل آمال خود دانند * چون
متواتر عرض ایض آن زبدۂ الایمان
مشمول بر التماس رخصت ارسی
ہو ادراوا از نظر انور گذشت - از
رہے عنایت اورا مرخص ساختیم
و خلعت فاخرہ باقیل خاصہ و
مادہ فیل مصحوب او بہ آن خلاصۂ
مخلصان مرحمت فرمودیم *

بے نہایت شاہانہ مستظہر ہونے بداند - عرضداشتے کہ درینولا از رہے خلوص ارادت و رسوخ
عقیدت بیارگاہ جہان پناہ فرستادہ ہوں از نظر اشرف اعلیٰ گذشت - وباعث مزید مرحمت
والا گشت * و آنچه درباب عطائے بعضے محال کہ درسوالف ایام باقطاع رانا جگت سنگہ پدر
آنمورد مراحم تعلق داشت معروض واقفان سدۂ سنیہ گردانیدہ ہوں بیبرایۂ معلومیت معلی
یافت - از راہ نہایت عنایت و غایت مرحمتی کہ نسبت بہ آنخلاصۂ صلاح اندیشان عبودیت
کیش داریم - منصب اورا کہ پنجہزاری ذات وینچ ہزار سوار ہوں - شش ہزاری ذات و
شش ہزار سوار - یکہزار سوار دواسیہ و سہاسیہ مقرر فرمودیم - و دوکروہ نام دیگر بطریق انعام ضمیمہ

से राणा जगतसिंहकी हुकूमतसे अलहदा होगये थे, गिर्धर पूजा और हरिसिंह देव-
लिया वगैरहसे इसी फ़स्लसे उतारकर मन्सबकी ज़ियादह तन्स्वाह और इन्आममें
नीचे लिखे मुवाफ़िक हमने इनायत किये. अब मुनासिब है, कि हमारी बुजुर्ग मिह-
बानियों और बलन्द बख़्शिशों को अपने हाल और उम्मेदके मुवाफ़िक जानकर इस
बड़ी मिहबानीका शुक्र अदा करे, और लिखी हुई जागीरोंपर कब्ज़ा करके हमेशा
ताबेदारी और खैरस्वाही और खिदमत गुज़ारीके तरीकेपर अपने कदमको मज़बूत
रख्खे, और हमारे पाक हुकमोंकी तामीलको बलन्द मिहबानियोंके ज़ियादा होनेका
सबब समझे. लाला कुंवर उस उम्दा खैरस्वाहका बेटा, और असी उसका भाई
हमारी बादशाही दर्गाहमें पहुंचे; जिन्होंने सलाम और हाज़िरीकी बुजुर्गी हासिल
करके बादशाही मिहबानियोंका मौका पाया. उस उम्दा सदांरकी अर्ज़के मुवाफ़िक
उसके भाईको बहुतसी बुजुर्ग मिहबानियोंके साथ इज़त देकर जल्द वापस जानेकी
रुख़सत बख़्शी जावेगी- तारीख १७ ज़ीकाद सन् १०६८ हिज़ी.

این عاطفت گرانیدیم- و پرگنه بدمنور و پرگنه ماندل گده که از مدتی از انعمده نیک خواهان
فدویت اندیش تغیر یافته بود - نخستین از تغیر عمده را جهاے والاتبار زبده متهوران شہامت
شعار ہزار عنایات بے پایاں مہاراجہ جسونت سنگہ - و دومین از انتقال روپسنگہ از سراغ
فصل خریف ایت نیل - و پرگنه توگر پور و بانسوالہ و بساور و غیبات پور را کہ از دیر یا از تصرف
رانا جگت سنگہ برآمدہ بود - از تغیر گردہ ہر یونجا و ہری سنگہ دیولہ و غیرہ - از ابتدا فصل مزبور در
طلب اضافہ منصب و انعام بموجب مفصلہ ضمن با و مرحمت کردیم * می باید کہ الطاف و اعطاف
اشرف ارفع را شامل حال و کامل آمل خود انستہ شکر این عطیہ عظمی و موہبت کبری بجای آوردہ
و معال مزبور را متصرف گردیدہ - ہموارہ برمسلك اطاعت و فرمان برداری و منہج عبودیت و
خدمتگذاری را سخ دم و ثابت قدم باشد - امتثال قدسی احکام را موجب زیادتی عواطف و
عوارف معلی اند * دیگر لالہ کنور پسر و ارسی برادر آن زبده ہوا خواهان عقیدت کیش بجناب
سلطنت رسیدہ دولت بار کورنش اقدس یافتہ مشمول مرحمت شاہانہ گردیدند - حسب الاتماس
انعمدہ الامیان برادر اورا عنقریب بگونگون مرحمت و الاسرافراز ساختہ دستوری معاودت
خواہیم بخشید * بتاریخ ہفتدہم شہر ذی قعدہ سنہ ۱۰۶۸ ہزار و شصت و ہشت ہجری تحریر
یافت *

بر سالہ نواب قدسی القاب - نوباوہ بوستان خلافت - گزین
امر شجرہ عظمت - چراغ دودمان بہت - فروغ خاندان
شوکت - قرۃ باصرہ دولت و اقبال - قرۃ ناصیہ حشمت و اجلال -
گرا می نسب سمی المکان - المدوح بلسان العبد و العبر
شاہزادہ نامدار کامگار بختیار محمد سلطان بہادر * فقط

۱۰۶۸ غاز
گزیب شاہ بہادر
بہادر ابن محمد اور
محمد
سلطان

पेशानीकी खास लिखावट (जो शायद बादशाहके हाथसे लिखीगई).

वह उम्दा साफ़ खैरखाह हमारी बहुतसी मिहर्बानियोंसे निहायत मजबूती और खुशी हासिल करके शुक्रगुजारी और खिन्नत गारीके तरीके पर कायम रहे, और हमारी बलन्द मिहर्बानियों को अपने हाल और उम्मेदोंके मुवाफ़िक़ जाने; इस सबबसे कि उस उम्दा सदांरकी कई अर्जियां बराबर उसके भाई असीको रुख़सत मिलनेके वास्ते नज़रसे गुज़रीं; मिहर्बानीसे उस को रुख़सत दीगई, और उम्दा खिलअत और खासा हाथी व हथनी इसके साथ उस उम्दा खैरखाहके वास्ते इनायत फ़र्माई गई.

पीठकी लिखावट.

नव्वाब बादशाही बाग़के नये दरख़्त, बुजुर्ग़ीके दरख़्तके फल, बुजुर्ग़ खानदानके चराग़, इज़त और नसीब की आंखकी पुतली, बड़े दरजेके नामदार मक्सदवर बख़्त-यार, शाहज़ादह मुहम्मद सुल्तानके रिसाले में जारी हुआ.

सुल्तान मुहम्मद
बहादुर, इब्न मुहम्मद
औरंगजेब शाह बहादुर
गाज़ी १०६८.

मुक़रर तफ़्सील

छः हज़ारी

छः हज़ार सवार.

दो अस्पा सिंह अस्पा— दूसरे—

एक हज़ार सवार. पांच हज़ार सवार.

मुक़रर तनखाह मए इन्आम—

८८०००००० आठ क़िरोड़, अस्सी

लाख दाम.

مقررہ ضمن

شہزاری

۶۰۰۰— سوار

۱۰۰۰— سوار سپہ بر اور کی

۵۰۰۰— سوار

مقررہ طلب مع انعام

۸۰۰۰۰۰۰— کروز

۸۰۰۰۰۰۰— لاکھ

۱۰

موافق منصب

شہزاری

۶۰۰۰— سوار

मुवाफ़िक़ मन्सब-

छः हज़ारी,

छः हज़ार सवार.

दो अस्पा सिंह अस्पा- दूसरे-

एक हज़ार सवार. पांच हज़ार सवार.

मुकर्रर तन्व्वाह-

६८००००००

छः क़िरोड़ अस्सी लाख दाम.

आगेकी मुवाफ़िक़- इन दिनोंकी तरक्की-

पांच हज़ारी, एक हज़ारी जात,

पांच हज़ार सवार. एक हज़ार सवार

मुकर्रर तन्व्वाह- दो अस्पा सिंह अस्पा.

५०००००००० मुकर्रर तन्व्वाह-

पांच क़िरोड़ दाम. १८०००००००

एक क़िरोड़ अस्सी लाख दाम.

ن و اسپه سه اسپه بر آوری

۱۰۰۰ - سوار ۵۰۰۰ - سوار

مقررہ طلب

۶۰۰۰۰۰۰ - کروڑ

۸۰۰۰۰۰۰ - لاکھ

۱۵م

درینولا اضافہ

یکہزاری ذات

۱۰۰۰ - سوار دو اسپه سه اسپه

مقررہ طلب

۱۰۰۰۰۰۰ - کروڑ

۸۰۰۰۰۰۰ - لاکھ

۱۵م

بدستور سابق

پنجہزاری

۵۰۰۰ - سوار

مقررہ طلب

۵۰۰۰۰۰۰ - کروڑ

۱۵م

بصیغہ انعام

ن و کروڑ ۱۵م

۳۰۰۰۰۰۰ - کروڑ

۳۰۰۰۰۰۰ - لاکھ

از پرگنہ اودیپور وغیرہ بدستور سابق

۱۵م

इन्आमके तौर

२००००००० दो किरोड़ दाम.

४४०००००० चार किरोड़ चालीस लाख दाम,

परगने उदयपुर वगैरह से साबिक दस्तूर—

४४०००००० चार किरोड़

चालीस लाख दाम.

मन्सबकी तरफ़ी और इन्आम—

३७०००००० दाम.

मन्सबकी तरफ़ी— इन्आम—

१८००००००

१९००००००

दाम.

दाम.

परगने कोटगीर इलाके

तिलंगानाके एवज—

२१०००००० दाम.

पहिले परगने चित्तौड़से—

७०००००० दाम.

मुकर्रर तन्ववाह गुरू फ़स्ल ख़रीफ़ ईत ईलसे देख भालकर इनायत कीगई—

४४०००००० दाम.

परगना बदनौर वगैरह ज़िले

डूंगरपुर वगैरह—

चित्तौड़ सूबे अजमेरसे—

२६००००००

१८००००००, दाम.

بنابر عيوض پرگنه کوت گیر	بنابر اضافه منصب انعام
از صوبه تلنگانه	۳۰۰۰۰۰۰۰ - کرور
سابق پرگنه حویلی چنور	۷۰۰۰۰۰۰۰ - لاکهه
۷۰۰۰۰۰۰۰ - لاکهه	۵۰۰۰۰۰۰۰ - دام
۵۰۰۰۰۰۰۰ - لاکهه	بنابر اضافه
۵۰۰۰۰۰۰۰ - لاکهه	بصیغه انعام
۵۰۰۰۰۰۰۰ - لاکهه	۱۰۰۰۰۰۰۰ - کرور
۵۰۰۰۰۰۰۰ - لاکهه	۸۰۰۰۰۰۰۰ - لاکهه
۵۰۰۰۰۰۰۰ - لاکهه	۵۰۰۰۰۰۰۰ - دام
۵۰۰۰۰۰۰۰ - لاکهه	مقررہ تنخواہ از ابتداء فصل خریف ٹیل مرحمت شد طلب اضافه دیدہ و دانستہ
۵۰۰۰۰۰۰۰ - لاکهه	۴۰۰۰۰۰۰۰ - کرور
۵۰۰۰۰۰۰۰ - لاکهه	۴۰۰۰۰۰۰۰ - لاکهه
۵۰۰۰۰۰۰۰ - لاکهه	۵۰۰۰۰۰۰۰ - دام
پرگنه توگربور وغیرہ	پرگنه بدمنور وغیرہ از سرکار چنور صوبہ اجمیر
۲۰۰۰۰۰۰۰ - ۵۰ کرور	۱۰۰۰۰۰۰۰ - کرور
۶۰۰۰۰۰۰۰ - لاکهه	۸۰۰۰۰۰۰۰ - لاکهه

बदनौर महाराजा
जगन्तसिंह से
उतार कर-
१०००००००,
एक क़िरोड़
दाम.

परगना मांडलगढ़
रूपसिंह राठौड़से
उतार कर-
८००००००,
अस्सी लाख
दाम.

डूंगरपुर वगैरह
ज़िले चित्तौड़
सूबे अजमेरसे-
२४०००००००,
दो क़िरोड़ चालीस लाख
दाम.

परगना बसावर वगैरह
ज़िले मन्वसौर सूबा
मालवा देवलिया के
हरिसिंह से उतारकर-
३०००००००, तीस
लाख दाम.
इन दिनोंमें १०००००००,
दामकी कमीसे २०००००००
दाम.

डूंगरपुर गिर्धर
पूजासे उतार
कर-
१६०००००००,
दाम.

बांसवाड़ा
रावल स-
मरसी से
उतार कर
८००००००
दाम.

परगना
बसावर
२०००००००
दाम-
इन दिनों
६००००००
दामकी कमी
से-
१४००००००
दाम.

परगना
गुयासपुर
१०००००००
दाम-
इन दिनोंमें
४०००००००
दामकी कमी
से-
६०००००००
दाम.

*

परगने बसावर वगैरह
सर्कार मन्वसौर
उतार कर-
३००००००००
लाख
म
१००००००००
लाख
म
२००००००००
लाख
म

परगने टोङ्गपुर
वगैरह
उतार कर-
२००००००००
लाख
म
४००००००००
लाख
म

परगने मन्डल
गुवासे
उतार कर-
८००००००००
लाख
म

परगने बदनौर
वगैरह
उतार कर-
१०००००००००
लाख
म

परगने बसावर
उतार कर-
१०००००००००
लाख
म
२०००००००००
लाख
म

परगने टोङ्गपुर
उतार कर-
२०००००००००
लाख
म
४०००००००००
लाख
म

परगने मन्डल
उतार कर-
८०००००००००
लाख
म
१०००००००००
लाख
म


परगने बदनौर
उतार कर-
१००००००००००
लाख
म
२००००००००००
लाख
म

औरंगजेबने पंजाबसे बंगालमें पहुंच कर शाहजादे शुजाअको मुकाबले में शिकस्त दी. इस लड़ाईमें महाराणा राजसिंहके छोटे कुंवर सर्दारसिंह भी मौजूद थे, जो पेशतर औरंगजेबके पास पहुंच गये थे; इनको बादशाहने मोतियोंकी एक कंठी, जड़ाऊ सर्पेच और छोगा दिया.

औरंगजेब इलाहाबाद (प्रयाग) की तरफसे लौटा, और शाहजादह दाराशिकोह पंजाबसे सिन्ध व कच्छकी तरफ होता हुआ गुजरात पहुंचा; वहांसे औरंगजेबका मुकाबला करनेको विक्रमी १७१५ फाल्गुण शुक्र २ [हि० १०६९ ता० १ जमादियुल्आखर = ई० १६५९ ता० २३ फेब्रुअरी] को खानह होकर सिरोहीमें आया, और वहांसे एक निशान महाराणा राजसिंहके नाम लिखा, जिसका तर्जुमा यह है- (अरब फ़ारसी नोटमें देखो)

शाहजादे दाराशिकोहके निशानका तर्जुमा—

मुहरकी नकल



तुग्राकी नकल

मुहम्मद दाराशिकोह
इब्न शाहजहां बाद
शाह.

मामूली अल्काबके बाद मालूम हो, हम लश्कर समेत सिरोही आगये हैं, और

هو الغالب

शाह جهان باد شاه
محمد ن اشكوه ابن

نقل طغرا



نقل مهر

صده راجهاے بلند مکان- قدوة رایان عالیشان- امارت و ایالت پناه شوکت و حشمت
دستگاه- سزاوار توجهات گوناگون شایسته الطاف روز افزون- رانا راج سبگه - بوفور عنایات

जल्द अजमेर पहुंचेंगे; हमने अपनी शर्म सब राजपूतों पर छोड़ी है, और अस्लमें हम सब राजपूतोंके मिहमान होकर आये हैं; महाराजा जश्वन्तसिंह भी इस बातपर तय्यार होगया है कि हाजिरी दे, और वह (महाराणा) हर किस्मकी मिहर्बानियोंके लायक तमाम राजपूतोंका सर्दार है.

इन दिनोंमें अर्ज हुआ कि उस राजाओंके सर्दारका बेटा उस (औरंगजेब) के पाससे चला आया है, इस सूरतमें उस उम्दा राजासे हमको यह उम्मेद है, कि तमाम राजपूतोंको साथ लेकर हमारे पास आजावे, कि आपसमें एका करके आला हज़तको छुड़ावें. यह नेकनामी उस उम्दह राजाके खान्दानमें वर्षों और युगों तक यादगार रहेगी, अगर आनेमें मुश्किल हो, तो अपने किसी रिश्तेदारको दो हजार अच्छे सवारों समेत हमारी खिन्नतमें भेजदे, कि मेड़तेमें जल्द पहुंच जावें. हमारी मिहर्बानी अपने हालपर बहुत ज़ियादा समझे.

ता० २० जमादियुल्अव्वल सन् ३२ जुलूस हि० १०६८.

—***—

شاهی مسرور و مباہمی بودہ بداند- کہ مابدولت و اقبال بالشکر فیروزی اثر بسروہی رسیدیم-
 و درین نزدیکی باجمیر میوسم- شرم رابر جمیع رجبوتیہ انداختیم- و درمعنی مہمان ہمہ رجبوتان
 شدہ آمدہ ایم- و زبدهٔ راجہاے زمان مہاراجہ جسوت سنگہ نیز مستعد و طیار شدہ کہ آمدہ
 حصول سعادت ملازمت نماید- و آن سزاوار عنایات گوناگون سُرور ہمہ رجبوتان اند- و
 درنیولا بعرض رسیدہ کہ پسران زبدهٔ راجہا نیز از آنجا برخاستہ آمدہ- درینصورت توقع ازان
 عمدۂ راجہا این ۱۱۱- کہ خود تمام رجبوتہ ربا خون گرفته آمدہ دریافت دولت ملازمت
 و الانماید- کہ باتفاق یکدیگر رفتہ حضرت اعلیٰ را خلاص سازیم- کہ این نیکنامی قاسالہا و
 قرنہا در قبیلۂ آن شایستہ توجہات روز افزون یادگار خواہد ماند * و اگر بدانند کہ آمدن زبدهٔ
 رایان بلند مکان نمیشود- یکے از خویشان خود ربا جمعیت ۵ و ہزار سوار کار آمدنی بخدمت
 و الا بفرستند- کہ زود آمدہ در میرتہ بملازمت و الا برسد * عنایات شاہانہ را نسبت بحال خون
 بمرتبۂ اعلیٰ تصور نمایند * تحریر فی تاریخ ۲۰ شہر جمادی الاولیٰ سنہ ۳۲ جلوس فقط *

—o—

महाराणा राजसिंह तो दोनों तरफ़का तमाशा देखना चाहते थे, जो उनको मुनासिब था, क्योंकि वे फ़ायदह अपनी ताक़त घटाना ठीक न था. जो बादशाह बनता उसीसे दबना पड़ता; परन्तु महाराजा जश्वन्तसिंहको जरूर था, कि दाराशिकोहका साथ देते; क्योंकि शाहजहां जश्वन्तसिंहको अपना तरफ़दार जानता था, और दाराशिकोहका भी उसपर पूरा इत्मीनान था. इसके सिवाय महाराजा जश्वन्तसिंहके लिखने हीसे दाराशिकोह गुजरातसे आगे बढ़ा था. परन्तु महाराजा जश्वन्तसिंह महाराजा जयसिंहके बहकानेमें आकर अपनी जगहसे न हिले, औरंगजेब दाराके मुकाबलेको अजमेरकी तरफ़ आरहा था, फ़तहपुरके मक़ामपर महाराणा राजसिंहकी तरफ़से दो तलवार जड़ाऊ सामान समेत और जड़ाऊ बर्छा मीनाकारीके कामका पेश हुआ; और महाराणाके कुंवर सर्दारसिंह, जो शुजाअकी ही लड़ाईके वक्तसे औरंगजेबके साथ थे, उनको खिलअत, मोतियोंकी सुमर्णी, जड़ाऊ छोगा और हाथी, जर्दोज़की झूल सहित देकर उदयपुरकी रुस्तत दी.

महाराणा राजसिंहको गदीनशीन होते ही दिल्लीके बादशाहके बख़िलाफ़ कार्रवाई करना मन्ज़ूर था, और बादशाह शाहजहांसे पहिले ही कुछ बिगाड़ हो चुका था, परन्तु इस कुसूरका एवज़ आगरेके क़िलेमें बादशाहके साथ ही कैद होगया; और यह आलमगीरके शुरूसे ही तरफ़दार थे, लेकिन हमेशहसे यह काइदह चला आता है, कि बलन्द हिम्मत आदमी किसीके काबूमें नहीं रहना चाहता, और ज़बरदस्त हाकिम ताक़तवर आदमीका हमेशह बल घटाना चाहता है.

मांडलगढ़ व बदनौरके परगनों पर महाराणा राजसिंहने विक्रमी १७१५ ज्येष्ठ, [हि० १०६८ रमज़ान = ई० १६५८ जून] में ही कब्ज़ा करलिया था. दारासे लड़ाई जीतने व शाहजहां को कैद करनेके बाद आलमगीरने इन परगनोंके सिवाय डूंगरपुर, बांसवाला, ग़यासपुर, बसावर वगैरह परगनोंका भी फ़र्मान बहुतसे इन्आम समेत महाराणा राजसिंहके खुश करनेके लिये इसी विक्रमीके भाद्रपद [हि० जिल्हिज = ई० सेप्टेम्बर] में लिखभेजा, परन्तु डूंगरपुरके रावल गिर्धरदास, बांसवालाके रावल समरसी और देवलियाके रावत हरिसिंहने उस फ़र्मानके मुताबिक़ ताबेदारी कुबूल नहीं की; इस लिये महाराणाने विक्रमी १७१६ वैशाख कृष्ण ९ [हि० १०६९ ता० २३ रजब = ई० १६५९ ता० १६ एप्रिल] मंगलवारको अपने प्रधान फ़तहचन्द कायस्थ को नीचे लिखे सर्दार और पांच हजार फ़ौज समेत बांसवाले भेजा.

सर्दारोंके नाम— कोठारियेका रावत रुकमाङ्गद, घानेरावका राठौड़ दुर्जनसिंह, सलूबरका रावत रघुनाथसिंह, भींडरका महाराज मुहकमसिंह शक्तावत, बेगमका रावत

राजसिंह चूडावत, माधवसिंह सीसोदिया, कान्हौड़का रावत मानसिंह सारंगदेवोत, देसूरीका सोलंखी दलपत, कोठारियेका कुंवर उदयकर्ण चहुवान, शक्तावत गिर्धर, शक्तावत सूरसिंह, ईडरिया राठौड़ जोधसिंह, भाला महासिंह, रावल रणछोड़दास; और सर्दारोंके सिवाय रणजंग हाथी, जो लड़ाईके कामका था, साथ दिया.

बांसवालेसे रावल समरसीने फौजके साम्हने आकर सुलह की, और एक लाख रुपया फौज खर्च व दस ग्राम तथा देश दाण (साइर), एक हाथी और एक हथनी महाराणाके लिये नज़ देकर ताबेदारी कुबूल की.

प्रधान फ़तहचन्द कुछ दिनों तक तो बांसवाले ठहरा, फिर रावल समरसी को साथ लेकर उदयपुर आया. महाराणा राजसिंहने उसे अपना मातहत समझ कर खुशीके साथ देश दाण और दस ग्राम छोड़दिये, और बीस हजार रुपये खिलअतके इनायत किये. फिर प्रधान फ़तहचन्द उसी फौजके साथ देवलियाके रावत हरिसिंहसे लड़नेको गया. रावत हरिसिंह दिल्लीकी तरफ़ भाग गया, और फ़तहचन्द प्रधानने उनके ठिकानेको लूटकर बर्बाद किया. रावत हरिसिंहकी मा अपने पोते प्रतापसिंहको लेकर फ़तहचन्दके साथ उदयपुर आई, और पांच हजार रुपये सहित एक हथनी महाराणा राजसिंहको नज़ की.

राजसमुद्रकी प्रशस्तिके आठवें सर्गके २३ वें श्लोकमें बीस हजार रुपया नज़ करना लिखा है, जो रणछोड़भट्टने ग़लतीसे लिखदिया होगा, क्योंकि फ़तहचन्द प्रधान ने अपनी बनवाई हुई ग्राम बैड़वासकी बावड़ीकी प्रशस्तिमें, जो उसी वक्तकी है, पांच हजार रुपये लिखे हैं, और राजसमुद्रकी प्रशस्ति इस मुआमलेके अठारह वर्ष पीछे तय्यार हुई, इस सबबसे फ़तहचन्दकी बावड़ीकी प्रशस्तिका लेख सच और माननेके लायक़ मालूम होता है- (देखो पृ० ३८१).

इसके बाद डूंगरपुरके रावल गिर्धरने आपसे ही ताबेदारी मन्जूर करली, और महाराणाने भी उसको इन्आम देकर तसल्लीके साथ मातहत बना लिया.

इसी विक्रमीके श्रावण [हि० ज़िकाद = ई० जुलाई] में महाराणा पहाड़ी दौरा करनेके खयालसे पहिले बहुतसी फौज लेकर बांसवालेकी तरफ़ गये. रावल समरसीने दिलसे खातिर तवाजो की, जैसा कि मातहतोंको लाज़िम है.

रावत हरिसिंह, प्रधान फ़तहचन्दके खौफ़से भागकर बादशाह आलमगीरके पास गया, परन्तु वह पूरा मल्लवी था, कब ऐसे वक्तपर, जब कि वह लड़ाइयोंमें फंसा हुआ था, महाराणा राजसिंहको रन्जीदा करता. वहां सुनवाई न होनेके कारण हरिसिंह लाचार देवलियाको आया, और महाराणा राजसिंह बांसवाले रवाना हुए. इनके देवलियापर चढ़ाई करनेकी ख़बर सुनकर रावत हरिसिंह

बहुत घबराया, और सादड़ी राज सुल्तानसिंह व बेदले राव सबलसिंह, सलूबरके रावत रघुनाथसिंह, भींडर महाराज मुहकमसिंह, चारों सर्दारोंकी मारिफत बात चीत करके रावत हरिसिंह महाराणाके पास हाज़िर हुआ, और गयासपुर बसावर बगैरह परगनोंका दावा छोड़कर ताबेदारी इस्तिथार की. रावत हरिसिंह फतहचन्द प्रधानके साथ ही हाज़िर होजाता, क्योंकि महाराणा राजसिंह व आलमगीरके बर्तावसे तो वाकिफ़ ही था, और यह भी निश्चय होगा कि आलमगीर ऐसे वक्तमें महाराणाको नाराज़ नहीं करेगा, लेकिन इसको अपनी जानका खौफ़ होगा— जैसे कि इसके बाप रावत जश्वन्तसिंहको महाराणा जगतसिंहने विश्वास देकर बुलाया, और चम्पाबागमें घेरकर मरवाडाला. कहावत मशहूर है— कि “दूधका जला छाछको भी फूंक फूंक कर पीता है”. राजा व बादशाहों को अपनी ज़बानका विश्वास खोदेनेसे बड़े बड़े नुकसान उठाने पड़ते हैं.

महाराणा राजसिंह उदयपुर आये, और आलमगीरको राजी रखनेके लिये एक हाथी और हथनी चांदीके सामान समेत तथा उम्दा जवाहिरात देकर उदयकर्ण चहुवान को दिल्लीकी तरफ़ रवाना किया. विक्रमी १७१६ आश्विन कृष्ण ८ [हि० १०६९ ता० २२ ज़िलहिज = ई० १६५९ ता० ९ सेप्टेम्बर] को यह सारा सामान दिल्लीमें बादशाहके नज़र हुआ. इसके बाद इसी विक्रमीके पौष कृष्ण ८ [हि० १०७० ता० २२ रबीउलअव्वल = ई० १६५९ ता० ६ डिसेम्बर] के दिन बादशाहने उदयकर्ण चहुवानको एक घोड़ा और महाराणा राजसिंहके लिये जाड़ेके मौसमका खिलअत देकर रवाना किया; और इसी दिन कृष्णगढ़के राजा रूपसिंहके बेटे राजा मानसिंहको जड़ाऊ जम्धर और मोतियोंकी कंठी देकर घर जानेकी रुख़सत दी.

महाराणा राजसिंह बाण विद्या (निशानाबाज़ी) में भी पूरे थे, जिन्होंने इसी संवत् में सन्तूके मगरमें एक सांभर पर तीर मारा, और वह एक ही तीरमें मर गया, जिसकी यादगारके लिये उस जगह पर एक स्तम्भ बनाया गया, और उस पर प्रशस्ति खुदवाई गई; जो अब तक मौजूद है— (शेष संग्रह नम्बर २).

इन महाराणाके वक्त में ख़्वासण सुन्दरने विक्रमी १७१७ [हि० १०७० = ई० १६६०] में उदयपुरसे २॥ मील ईशान कोणको ग्राम पारड़ाके पास सुन्दर बाव नामकी बावड़ी बनवाई, और उसकी प्रतिष्ठा में महाराणाने व्यास गोविन्दराम, व्यास बल्भद्रको भवाणा ग्राम में ७५ बीघा ज़मीन दी. इस ज़मीन पर गोविन्दरामकी माने बावड़ी कराई, और उसीने लालीकी सराय बनवाई— (शेष संग्रह नम्बर ३).

विक्रमी १७१७ [हि० १०७० = ई० १६६०] में जिस तरह महाराणा राजसिंह और बादशाह आलमगीरके बिगाड़ हुआ, वह लिखाजाता है—

कृष्णगढ़ व रूपनगरके राजा रूपसिंहकी बेटी चारुमती बहुत खूबसूरत थी, इसलिये बादशाह आलमगीरने उसकी तारीफ़ सुनकर राजा रूपसिंहके बेटे मानसिंहको हुकम दिया, कि तुम्हारी बहिनसे हम शादी करेंगे. मानसिंहने इस बातको मन्जूर किया, क्यों कि जहांगीर बादशाहने यह रीति निकाली थी, कि बादशाही हुकमके बगैर राजा या रईस कोई भी आपसमें विवाह न करे; इससे जाहिरा मल्लब यह होगा, कि आपसकी रिश्तेदारीसे एका करके सल्तनतमें खलल न डालें, परन्तु अन्दरूनी मन्शा यही होगा, कि स्वरूपवती लड़कियें बादशाही हरमखानेमें दाखिल की जावें.

फ़ार्सी तवारीखोंमें यही बात इस तरह लिखी है, कि फ़लाने राजाने अर्ज की, कि मेरी बेटी खूबसूरत है, सो कुबूल होकर बादशाही हरमखानेमें दाखिल हो; लेकिन यह बात माननेमें नहीं आती, क्योंकि उस समय भी राजपूत लोग अपनी बेटियां मुसल्मान बादशाहोंको देनेमें अपनी कम इज़्ज़ती समझते थे; जैसे कि जयपुरके राजा भारमल्ल और भगवानदासकी बेटियां अकबर और जहांगीरको व्याहनेके सबब मानसिंह और महाराणा प्रतापसिंहमें विक्रमी १६३० प्रथम आपाढ़ [हि० ९८१ सफ़र = ई० १५७३ जून] को उदयसागर तालाबकी पालपर इसी तानेके सबब खाना खानेसे इन्कार और बड़ी जिद हुई, जिसका हाल महाराणा प्रतापसिंहके जिक्रमें पूरे तौरपर लिखागया है.

दूसरे, रीवांके बघेलोंने बादशाहको प्रसन्न करके बचन लेलिया, कि हम बादशाहोंको बेटियां न दें; और इसी तरह बूंदीके राजाओंने मेवाड़से अलग होते समय बादशाह अकबरसे इक्रार करलिया था, कि हम बादशाहोंको बेटी न देंगे; अगर बेटी देनेमें बे इज़्ज़ती न जानते, तो ऐसे इक्रार न करते.

तीसरे, जोधपुरके महाराजा अजीतसिंह और जयपुरके राजा सवाई जयसिंहको विक्रमी १७६५ [हि० ११२० = ई० १७०८] में महाराणा अमरसिंहने अपनी बहिन और बेटी व्याही, तो उन दोनों राजाओंने यह इक्रार लिखदिया, कि अब हम तुर्कोंको हर्गिज बेटियां न देंगे. इन बातोंके लिखे हुए अस्ल कागज़ मेवाड़के कारखानेमें मौजूद हैं, और वे इस किताबमें भी मौकैपर दर्ज कियेजावेंगे.

इन्हीं बातोंसे हरएक शख्स खयाल कर सकता है, कि मुसल्मान बादशाहोंको राजा लोग अपनी बेटियां खुशीसे नहीं देते थे. अकबर बादशाहने राजनीतिसे यह रस्म जारी करदी, इसी कारण बादशाहोंके मांगने पर लाचारीसे राजा लोग बेटियां

देते होंगे; अगर वे लोग खुशीसे बादशाहोंको अपनी लड़कियां ब्याह देनेकी आर्जु करते, तो दूसरे मुसल्मान सर्दारोंके साथ और और राजपूत भी इसी तरह बरतते, और एक आम रिवाज होजाता; परन्तु सिवाय बादशाहोंके आम मुसल्मानोंके साथ यह रिवाज बिल्कुल नहीं पायागया, सिवाय इसके कि गुजरातके सूबेदारोंने बाज जमींदारोंसे हाकिमाना तौरपर बेटियां लीं.

मानसिंहने अपने घर आकर जिक्र किया, कि बाई चारुमतीकी सगाई बादशाह आलमगीरसे करनेकी पक्की बात चीत होगई है.

राजपूतानह में तो यह भी मशहूर है कि आलमगीरने अहदी और नाजिर लोगोंको रूपसिंहकी बेटीका डोला लेआनेके लिये रूपनगर भेजदिया था. रूपसिंहकी बेटी चारुमती बाईने भी सुना कि मैं मुसल्मान बादशाहके साथ ब्याही जाऊंगी; उनके घरानेमें बल्लभीय संप्रदायका मत नाथद्वारेकी उपासनाके साथ पहिले ही से था. रूपसिंहको इस मत और श्रीनाथजीकी मूर्तिपर ऐसा विश्वास था, कि दारा और औरंगजेबकी समूनगरकी लड़ाई में जब वह घायल होकर जमीन पर गिरपड़ा, उस आखिरी वक्तमें एक ब्राह्मणसे जो वहां मौजूद था यह कहा, कि मेरे गलेमें जो हीरोंका जड़ाऊ बेश कीमती कंठा है, उसे तू खोलकर लेजा, और श्रीनाथजी की भेट करना; इसके एवजमें गुसाईंजी पांच हजार रुपया तुझे इन्आम देंगे. वह ब्राह्मण कंठा लेकर मथुरा पहुंचा, जहां उन दिनों श्रीनाथजीका मशहूर मन्दिर था; वह कंठा खूनमें भरा देखकर गुसाईंजीने साफ करनेके लिये किसी सुनारको दिया. गुसाईं लोग व उनके मानने वाले वैश्रव बहुतसी करामाती बातें उस कंठेके विषयमें कहते हैं, जिनका यहां लिखना फुजूल है, परन्तु उनमेंकी एक यह बात यहां लिखी जाती है, कि राजा रूपसिंह श्रीनाथजीका ऐसा सच्चा भक्त था, कि जिसका भेजा हुआ खूनसे भराहुआ कंठा आधी रातके वक्त सुनारके घरसे लाकर श्रीनाथजीने धारण करलिया. इस बातके लिखनेसे हमारा मल्लव यह है, कि अक्सर मत वाले (मज्दबी) लोग दूसरे लोगोंको अपने मतमें मिलानेके लिये ऐसी बातें बना लिया करते हैं.

राजा रूपसिंहका इन गुसाईं लोगोंपर बहुत यकीन था. ये गुसाईं लोग दूसरे मतवालोंसे बड़ा बचाव रखते हैं, यहां तक कि जिस शहर या आदमीके नाम में कोई फ़ार्सी या अरबी शब्द हो, तो उसका नाम मन्दिरमें कभी नहीं लेते, और उसके एवज समझोतीके लिये संस्कृत नाम रखलेते हैं. इसी जिदसे राजा रूपसिंहकी बेटी चारुमती बाईने अपनी मा और भाईसे कहा, कि अगर मेरा विवाह मुसल्मान बादशाहसे करोगे, तो अन्न जल छोड़कर या जहर खाकर जान खो-

दूंगी. यह सुनकर घर में और भी रंज हुआ; परन्तु आलमगीरसे ज़ियादा ऐसा कौन राजा था, कि जो इस कन्यासे विवाह करे. फिर कुटम्बके सब लोगोंने एकट्ठा होकर यह सलाह की, कि हम लोग तो बादशाहके फ़र्माबदार बने रहें, और यह लड़की खुद अपनी अर्जी महाराणा राजसिंहके पास भेजे, और वे आकर ज़बर्दस्ती विवाह लेजावें, तो इसके प्राण बचें, और हमारी ख़राबी न हो; वरना और दूसरी कोई तदबीर नहीं नज़र आती. सबकी सलाहसे चारुमती बाईने एक अर्जी अपने हाथसे लिखकर किसी ब्राह्मणके हाथ महाराणा राजसिंहके पास भेजी, जिसमें यह लिखा था, कि जिस तरह भीष्म राजाकी बेटी रुक्मणीके ब्याहनेको दुष्ट राजा शिशुपाल चढ़ाया, और रुक्मणीकी अर्जी जानेपर श्रीकृष्णचन्द्र द्वारिकासे चढ़े, और शिशुपालको हराकर रुक्मणीको लेआये, उसी तरह मुसल्मान बादशाह आलमगीरके पंजेसे मुझको छुड़ाइये, और मेरा धर्म और प्राण रखकर विवाह लेजाइये, यदि आप देर करेंगे तो मैं विष खाकर मरूंगी, और यह गुनाह आपके सिर रहेगा.

इस अर्जीके आते ही महाराणा राजसिंहने बहुतसी फ़ौजके साथ कृष्णगढ़की तरफ़ कूच किया, वहां पहुंचकर राजा मानसिंहको तो नामके लिये एक महलमें कैद किया, और उनके लोगोंका आनाजाना बन्द करके शादी करनेके बाद सबको छोड़कर वहांसे रवाना हुए, और राणी राठौड़को लेकर उदयपुर चले आये. कृष्णगढ़वाले यह भी कहते हैं, कि मांडलगढ़का क़िला जो बादशाही तरफ़से मिला था, इसी शादीके दहेजमें महाराणाको महाराजा मानसिंहने दिया; परन्तु राजसमुद्रकी प्रशस्तिमें इस विवाहसे दो वर्ष पहिले इस क़िलेको लेना लिखा है.

इस बातकी चर्चा फैली, और लोगोंको यह अन्देशा हुआ, कि आलमगीर नाराज़ होकर महाराणा पर ज़ुरूर फ़ौज भेजेगा. देवलियाका रावत हरिसिंह तो ऐसा मौका देख ही रहा था, दौड़कर आलमगीरके पास पहुंचा, और इस बातकी ख़बर दी. यह सुनकर बादशाह नाराज़ तो हुआ, लेकिन ज़ाहिरा इस बातको टाल दिया. क्यों कि ज़ाहिरा इसपर गुस्सा करनेसे ज़ियादह फ़ज़ीहत होती, कि बादशाहकी मगनी कीहुई लड़की राजसिंह विवाह लेगये. परन्तु दिलसे तो नाराज़ हुआ, और इसीसे गयासपुर व बसावर देवलियाके रावत हरिसिंहको पीछा देकर महाराणा राजसिंहके नाम फ़र्मान लिख भेजा, जिसका ज़िक्र आगे आता है.

जब बादशाह आलमगीरने गयासपुर और बसावर उदयपुरसे अलग करके रावत हरिसिंहको देदिये, और महाराणाने सुना तो बर्दाश्त न हुई, बल्कि देवलिया पर फ़ौज भेजनेका इरादह किया; परन्तु मन्त्रियोंकी सलाह और सब मुलाजिमांकी एक माति होनेके सबब बादशाहके नाम एक अर्जी लिखी, जिसकी नक़्क़ उसी वक़्तकी हमारे पास मौजूद है; उसका तर्जमा फ़ार्सी नोट समेत नीचे लिखाजाता है.

अर्जीका तर्जमा.

आदाब व अल्काबके बाद अर्ज है- कि सुबह शाम, बल्कि हमेशा आपकी उम्र, दौलत और बादशाहतकी खैरियत मुद्दत तक बरकरार रहनेकी दुआ ईश्वरसे करता रहता हूँ, कि वह हरतरहसे आपका मर्तबा बलन्द करे.

दूसरे अर्ज है, कि जो बुजुर्गीका फ़र्मान बहुत मिहर्वानीसे मेरे पास आया, उसका ताजीमके साथ इस्तिक्बाल करके तस्लीम और ताजीमके साथ दोनों जहानकी बुजुर्गी (बड़प्पन) हासिल की. उसमें लिखा था, कि बादशाही हुकम के बगैर शादीके वास्ते कृष्णगढ़ गया, जो ज़ाती बन्दगीसे दूर दिखलाई दिया; सो किवले दीन और दुन्याके सलामत, राजपूतोंका रिश्ता सदासे राजपूतोंहीके साथ होता आया है, और इस सूरतमें कोई मनाई भी जानने में नहीं आई; पहिले राणा भी पुंवारोंके घर अजमेरके पास ब्याहे थे, इसी सबबसे मैंने भी हुकमकी दरखास्त नहीं की, और न कोई बादशाही मुल्कमें फ़साद पैदा हुआ, कि अर्ज करे.

मैंने आपकी शाहज़ादगीके मुबारक वक्तसे ही अपनी साफ़ नीयतीके साथ जहान में खास इनायतों और दौलतसे तरक़ी पानेकी गरज़से बुजुर्गी पानेकी उम्मेद रक्खी है.

हوالغالب

اشرف اقدس ارفع اعلیٰ
عرضداشت کہ بدرگاہ جهان پناه ارسال داشته * بندہ درگاہ خیر خواہ بلا اشتباہ را نا
راج سنگہ - مراسم آداب بندگی و لوازم عبودیت و پرستندگی بجا آورده بموقف عرض بوسیله
ایستان مائے پایہ سریر سلطنت سلیمانی میرساند کہ صبح و شام بلکہ علی الدوام ذروظایف
دعاگوئی دولت و خلافت بدطراز اشغال داشته بدرگاہ کارساز حقیقی استدعا مینماید کہ الہی
سایہ بلند پایہ بفرق جمیع خیر خواہان تا بد الدعمر ممدود و مخلصان - آمین - ثانیاً التماس
میدارد کہ قبلہ جهان و جہانیاں سلامت - فرمان عالیشان کہ از روئے عنایات بیغایات بنام
بندہ درگاہ شرف صدور یافته بود - بخدم اطاعت استقبال آن نمودہ لوازم تعظیمات و تسلیمات
بجا آورده سراسر انرا کونین گردید - مزین بود کہ بے صدور حکم جهان مطاع آفتاب شعاع کہ جهت
کتبخدا شدن بکشن گدہ رفتہ بود - از آداب ذاتی بعید نمود * قبلہ دین و دنیا سلامت - پیوند
راجپوتان براجپوتان شدہ آمدہ است - درینصورت هیچ منامی ندانستہ - و سابق رانایان نیز
بخانہ پنواران متصل دارالخیر اجمیر کتبخدا شدہ ہوںند - ازین جهت بندہ درگاہ استدعا حکم
نمودہ - ہیچگونہ در ملک بادشاهی فتور واقع نگشتہ کہ بعرض برساند *
و بندہ درگاہ از ایام مبارک شاہزادگی بعقیدہ خاص دست بدامن دولت ابد پیوند

और यह भी लिखा था कि हरिसिंह, बेकुसूर था, इस वास्ते उसको बसा-वरका परगना और गयासपुर हमने इनायत फर्माया है. क़िब्ले ज़मीन और ज़मानेके सलामत-अक्बर और जहांगीरके समयसे देवलिया हुकमके मुवाफ़िक मेरे बाप दादेकी हुकूमतमें था; शाहजहाँके वक्तमें दूसरी तरह हुआ, वह भी अर्जमें पहुंचा होगा. और परगनों मजकूरके इनायत होनेके वक्त भी भाई अर्सीने तीन चार बार अर्ज किया कि हुकमसे कुछ चारा नहीं, पर आखिरको उसे इनायत फर्मावेंगे; फिर हुकम सादिर हुआ कि हुकम बादशाहोंका सिकन्दरकी दीवारके मानिन्द मज़बूत है, हर्गिज़ नहीं बदलेगा, खातिर जमासे कब्ज़ा करे. इसी तरह इसी मज़मूनकी दो तीन बार अर्जी भेजकर फर्मान हासिल किया; उसमें लिखा है, कि जिस तरह जाने अमल करे, कि इहतियातन् आखिरको सनद हो; काका जयसिंहके साथ वैसे ही बुजुर्ग हुकम जारी हुआ. जहानके इन्तिज़ामकी जड़ खास मज़बूत हुकमपर है.

زده-که از عنایات خاص الخاص در میان عالمیان باضافه و ترقی دولت سرانرازی خواهد یافت- و نیز مزین بود "که چون هریسنگه بے تقصیریوں- بنا بر آن برگنه بساورو غیاث پور بازبا و مرحمت فرمودیم" *

کعبه زمین و زمان سلامت- اولاً هریسنگه مذکور از عهد حضرت عرش آشیانی و حضرت جنت مکانی بموجب احکام متعلق خدمت آبا و اجداد بنده درگاه بود- چندگاه در عهد حضرت صاحب قرآن ثانی بنوع دیگر شده- آن نیز بعرض رسیده باشد * و در وقت عنایات برگنه مذکور برادرارسی سه چهار مرتبه بعرض رسانیده- که از حکم هیچ چاره نیست- اما ثانی الحال با و مرحمت خوانند فرمود- حکم صادر شد "که حکم بادشاهان چون سد سکندر است- هرگز تبدیل نخواهد شد- بخاطر جمع بگیری" * همین آئین مشتمل بر همین مضمون دوسه کورت عرضه داشت ارسال داشته فرمان عالیشان حاصل نمود- در آن چنین مزین است که "بهر وجهی که بدانند عمل نماید" * باز بجهت احتیاط که ثانی الحال دست آویز باشد بمصحوب عمومی چه سگه بعرض رسانیده- آن چنان حکم شرف نفاذ یافت- مطابق چندین حکم جهان مطاع عالم مطیع که مدار انضباط عالم خاص بر حکم محکم است متصدیان خود را با چندے راجپوتان به آن برگنه فرستاده- هریسنگه مذکور از روی ناعاقبت اندیشی و بدطینتی خلاف حکم نموده رعایای برگنه مذکور را بدراسه ساخته- حیلہ آموزی در پیش آورد- بعد از چند روز مرد و برگنه را مطلقاً برهم نموده برخاسته رفت- و کسان خود را در پے گذاشته که اصلاً این چاره آبادان شدن ندهید * بالضرور بموجب احکام مقدّس جمعیت را به آن ضلع فرستاده * آن ناعاقبت اندیشان مواضع رازده زده در کوهستان در آمده میگشتند- فصل خریف را این قسم خوردند و فصل ربیع را نیز بتر نموده رعایا را قرار داده مرد و فصل را همچین نمودند- چنانچه یکدانه محصول برگنه مذکور بدست بنده درگاه نیامده- و تصرف جمعیت و پریشانی به واقفان درگاه سلاطین مسجدگاه روشن است که در خلی تصرفات افتاد- و الحال از بے طاعی چنین حکم شرف نفاذ یافته *

बहुतसे बादशाही हुकमोंके मुवाफिक अपने मुत्सदियोंको कितनेएक राजपूतों समेत उन परगनोंमें भेजा, जिसपर हरिसिंहने हुकमके बखिलाफ बेसोचे बदजातीसे परगनोंकी रअग्र्यतको गुमराह करके हीला किया, थोड़े दिनोंके बाद उन परगनोंको बिल्कुल ऊजड़ करके आप भी उठगया, और अपने आदमियोंको वहां छोड़ गया कि इस जगहको हर्गिज आबाद न होनेदेवें. तब जुरूरतसे बुजुर्ग हुकमोंके मुवाफिक एक जमइयत उस जगह भेजी; वह बेवकूफ रअग्र्यतको उजाड़कर पहाड़ोंमें फिरता था. सियालीको तो इस तरह खोया, और उन्हालीको भी खराब करके रअग्र्यतको परेशान किया- दोनों फ़स्लोंको ऐसा खोया कि एक दाम भी परगनों मजकूरका मेरे हाथ नहीं आया. जमइयतका खर्च और परेशानी आपको रौशन है, कि बहुत ज़रवार हुआ, अब वे नसीबीसे ऐसा हुकम हुआ; उस शरस्की अजब नेक बस्ती है, कि जो हुकमसे खिलाफ़ करे, उसको ऐसा हुकम हो; और वह शरस्, जो कि दौलत स्वाहीमें कुर्बान हुआ हो, उसको ऐसा हुकम हो! इस सूरतमें कुछ इलाज नहीं, इन्साफ़ हुजूरके हाथ है. बाकी हकीकत उदयकर्ण चहुवानके रवाना करनेके पीछे हरिसिंहको परगनोंके इनायत होनेकी जाहिर हुई. इसवास्ते अब पीछेसे अर्ज करके उम्मेदवार है कि जो कुछ चहुवान मजकूर अर्ज करे, कुबूल फ़र्माया जावे.

यह अर्जी लेकर कोठारियेका उदयकर्ण चहुवान आलमगीर बादशाहके पास दिल्ली पहुंचा. वहां जाकर इन परगनोंके मिलने और रावत हरिसिंहको मातहत करनेकी बहुत कोशिश की, लेकिन सब बे फ़ायदह गई.

विक्रमी १७१८ पौष शुक्र १० [हि० १०७२ ता० ८ जमादियुलअव्वल = ई० १६६१ ता० ३१ डिसेम्बर] को तसल्लीका फ़र्मान और खास खिलअत

ز ه سعادت شخصے کہ چنبن خلاف حکمی نموده آنرا چنان حکم شد- و آن کسے کہ در را دولتخواهی فدا شده است آنرا همچنین حکم صادر گشت * درینصورت هیچ چاره نیست- انصاف و عدل بدست واقفان حضور پر نور است * و بعد از روانه نمودن اودیکرن چوهان از واقعه در بار عالم مدار حقیقت پرگنات کہ به هریسنگه مرحمت شده ظاهر گردیده - بنابر آن از عقب مرصه داشت نموده امیدوار است - آنچه کہ عرض چوهان مذکور نماید- مقرون اجابت گردن * آنتاب اقبال از مشارق اجلال ساطع و لامع باد- آمین *

देकर उदयकर्ण चहुवानको किसी बादशाही इज़तदार मुलाजिमके साथ उदयपुर भेजा. उस शाही मुलाजिमने जबानी बातोंसे महाराणाको हिम्मत दिलाई, परन्तु कहावत मशहूर है, कि- “दामोंका लोभी बातोंसे राजी नहीं होता” - दिन दिन नाइतिफ़ाकी बढ़ती जाती थी.

कृष्णगढ़वाले राजा मानसिंहने भी अपनी कम उम्मी, नाताकृती और महाराणा राजसिंहकी ज़बर्दस्ती जतलाकर अपनी बहिनके विवाह लेजानेका जिक्र आलमगीर से किया, और यह भी कहा कि मैं तो हर तरह ताबेदार हूँ, मेरी दूसरी बहिन हाजिर है. तब आलमगीर बादशाहने विक्रमी १७१८ माघ शुक्ल ६ [हि० १०७२ ता० ४ जमादि युस्सानी = ई० १६६२ ता० २६ जैन्वूअरी] को महाराजा मानसिंहकी दूसरी बहिनसे बड़े शाहज़ादे मुअज़्ज़मकी शादी करदी, जिस वक्त कि शाहज़ादेकी उम्र १७ वर्षकी थी.

महाराणा राजसिंहको इमारतका बहुत शौक था. इन्होंने महाराणा जगत्सिंहके सामने अपने कुंवर पनेमें “सर्व ऋतु विलास” बाग़ और उसमें महल, हौज़, फ़व्वारे तथा बावड़ी, महाराणा कर्णसिंहकी बनवाई हुई कर्णबाव नामकी बावड़ीके पास बनवाई, और उसी ज़मानेमें इन महाराणा (राजसिंह) का पहिला विवाह बूंदीके राव शत्रुशालकी बेटीके साथ हुआ था. उन्हीं दिनोंमें राव शत्रुशालकी दूसरी बेटीके व्याहनेके लिये जोधपुरके महाराजा जश्वन्तसिंह भी आये थे, और तोरण बांधने पर कुंवर राजसिंहसे तक्रार भी होगई थी, क्योंकि जश्वन्तसिंहने कहा कि हम क़दीमी राजा और जयचन्दकी औलादमें हैं, जिनको कि हिन्दुस्तानके सब राजा बड़ा मानते थे. महाराज कुमार राजसिंहने कहा कि हम ‘हिन्दवा सूर्य’ और चित्तौड़के राजा हैं, तुम्हारे बाप दादोंने हमारे बाप दादोंकी नौकरी की है; इस लिये पहिले तोरण बांधना हमारा हक़ है.

ऐसी बातोंपर ज़िद बढ़कर दोनों तरफ़से लड़नेको फौजें तय्यार होगईं, तब राव शत्रुशालने महाराजा जश्वन्तसिंह और उनके साथियोंको समझाया, कि उदयपुर के राणा क़दीमसे हिन्दवासूर्य कहाते हैं, और मुसल्मान बादशाहोंके समयमें भी इन्हींके सबब हमारा धर्म रहा, वना सबको बादशाह मुसल्मान करडालते. इस तरह समझाकर जश्वन्तसिंहको खामोश किया, और कुंवर राजसिंहने पहिले तोरण बांधा. राव शत्रुशालने दोनोंमें मिलाप करवा दिया, परन्तु इस बखेड़ेके सबब दोनोंकी ज़िन्दगी तक दिलसे रंजका दाग़ न मिटा.

जश्वन्तसिंहने महाराणा जगत्सिंहके समयमें उनका बधनौरका परगना शाहजहां बादशाहसे अपनी जागीरमें लिखवा लिया था, सो इन महाराणा

(राजसिंह) ने मौका देखकर जश्वन्तसिंहसे पीछा छीन लिया; इसी तरह बिगाड़ होता रहा.

विक्रमी १६९८ [हि० १०५१ = ई० १६४१] में महाराणा राजसिंह का दूसरा विवाह जैसलमेर हुआ. विवाहसे वापस आते समय गौमती नदी को देखकर वहीं एक सुन्दर तालाब बनवानेकी मर्जी हुई थी, वह उस वक्त तो न बना और विक्रमी १७१८ मार्गशीर्ष [हि० १०७२ रबीउस्सानी = ई० १६६१ नोवेम्बर] में जब रूपनारायणके दर्शनके लिये महाराणा राजसिंह उधर गये, तब पहिले मन्सूबेके मुवाफिक फर्माया, कि हम यहां एक तालाब बनवाना चाहते हैं. पुरोहित गरीबदासने अर्ज किया, कि यह तो होसक्ता है, परन्तु इसमें तीन बातोंका बन्दोबस्त होना चाहिये—अव्वल तो रुपयेके खर्चकी तरफ खयाल न रक्खाजाय; दूसरे कामके अन्जाम तक ऐसी ही तवज्जुह रहे; तीसरे मुसल्मान बादशाहोंसे भगड़ा न हो; वरना वे इसको पूरा न होने देंगे.

महाराणाने तीनों बातों का इक्कार किया, और विक्रमी १७१८ माघ कृष्ण ७ बुधवार [हि० १०७२ ता० २१ जमादियुल् अव्वल = ई० १६६२ ता० १२ जैन्युअरी] को राज समुद्र तालाबकी नीवका खातमुहूर्त किया गया. इस तालाबके बनवानेके कई सबब लोग बयान करते हैं—कोई कहता है, कि जब महाराणा जैसलमेरसे शादी करके वापस आते थे, तो बारिशकी जियादतीसे गौमती नदीका बहाव बढ़गया, इससे दो तीन दिन ठहरना पड़ा, तब महाराणाने विचारा कि इस नदीको रोकना जरूर है. किसीका कहना है कि महाराणाने अपने एक पुत्र, एक बारहठ, एक पुरोहित व महाराणीको मारडाला था, इस लिये वह हत्या उतारनेके वास्ते यह तालाब बनवाया, जिसका जिक्र इस तरहपर है—

महाराणाके पास कोई बादशाही मुलाजिम (१) दिल्लीसे आया, तब इन्होंने शाहाना दर्बार किया, और हुक्म देदिया कि कोई ताजीमी सर्दार दर्बारमें पीछेसे न आवे, अगर आवेगा तो हम ताजीम न देंगे. बारहठ उदयभाणने कहा कि आजके दिन बादशाही एल्चीके साम्हने ताजीम न हो तो फिर इज्जतके लिये और कौनसा दिन होगा. महाराणा दर्बार किये हुए विराजे थे, कि बारहठ उदयभाण मना करने

(१) विक्रमी १७११ [हि० १०६४ = ई० १६५४] में जो शाहजहां बादशाहकी तरफसे एल्ची बनकर मुत्ती चन्द्रभाण आया था, तो शाबद बही हो.

पर भी आया और मामूलके मुवाफ़िक़ आशीर्वाद दिया, लेकिन महाराणा नहीं उठे; तब बारहठने नाराज़ होकर मारवाड़ी भाषामें निशाणी छन्द कहा, जिसके आखिरी मित्रे ये हैं-

गयाराणा जगत्सिंह जगका उजवाला ॥

रही चिरम्मी बप्पड़ी कीधांमुंह काला ॥

इन दोनों मित्रोंका यह अर्थ है- कि जगत्को रौशन करनेवाले महाराणा जगत्सिंह संसारसे उठगये, और उस जगहपर काले मुंहकी चिरमिटी (घूंघची) रह गई है.

महाराणा इस शाइरीको न सुन सके, और गुस्सेमें आकर एक लोहेका गुर्ज, जो पास रक्खा था, बारहठके सिरपर मारा, जिससे वह वहीं मरगया. कोई इस बात को इस तरह भी कहता है, कि उदयभाणको कैद किया, और वह कैदमें ही अपने हाथसे फांसी लगाकर मरगया.

इन्हीं महाराणाकी राणीने (१) अपने बेटे सर्दारसिंहको युवराज बनानेके लिये बड़े कुंवर सुल्तानसिंहकी तरफसे महाराणाको शक दिलाकर उनका चित्त कुंवर की तरफसे हटाया, और महाराणाने नाराज़ होकर उसी गुर्जसे कुंवर सुल्तानसिंह का काम तमाम किया. थोड़े दिन पीछे अपने पुरोहितको उसी राणीने एक पत्र लिखा, कि मैंने सुल्तानसिंहको तो इस फ़रेबसे मरवाडाला, अब दर्बारको भी ज़हर देदेना चाहिये, जिससे कि मेरा बेटा राज्यका मालिक बने. पुरोहितने उस कागज़ को अपनी कटारीके खीसेमें रखदिया. पुरोहितके पास एक महाजन दयाल नामी नौकरी करता था, उसकी शादी किसी महाजनके यहां ग्राम दिवाली में हुई थी, जो कि उदयपुरसे दो मीलके फ़ासिलेपर है. एक दिन त्योहारपर प्रहर रातगये दयाल अपने मालिक पुरोहितसे छुट्टी लेकर ससुराल जानेको था, रात होनेके सबब पुरोहितसे एक शस्त्र मांगा, पुरोहितने अपनी कटारी देदी. वह रातको अपनी ससुराल गया, और वहां एक घरमें ठहरा, वह कटारीका खीसा खोलकर उस कागज़को बांचने लगा, बांचतेही वह वहांसे दौड़ा और उदयपुर आया; आधी रातके समय महाराणाको ज़रूरी

(१) बड़वा भाटोंकी पोथियोंमें महाराणी भटियाणीके गर्भसे सुल्तानसिंह, सर्दारसिंह बगैरह कुंवरोंका होना लिखा है, परन्तु इस हालके सुननेसे मालूम होता है, कि सुल्तानसिंह किसी दूसरी महाराणीके पेटसे थे.

कामकी अर्जके बहानेसे बाहर बुलवाया, और कागज़ नज़ किया. महाराणाने भीतर जाकर गुर्जसे उस राणीका भी काम तमाम किया, और पुरोहित (१) को बुलाकर उसी गुर्जसे मारडाला. कुंवर सर्दारसिंह, जो इन बातोंसे बिल्कुल बे खबर थे, कुंवरपदेके महलोंमें ही ज़हर खाकर मरगये, और मरते समय यह दोहा लिखकर अपने सिरके पास रखदिया—

दोहा.

पाणी पिंड तणाह पिंड जातां पाणी रहै ॥

चींतारसी घणाह सुपना ज्युं सर्दार सी ॥ १ ॥

इसका यह अर्थ है, कि— 'इज़्जत बदनकी है, परन्तु बदन जाय और इज़्जत रहे, तो उसे आदमी स्वाबकी तरह याद करेंगे'.

कुंवर सर्दारसिंहकी पूजा शम्भूनिवासके पास कुंवरपदेके महलकी छत्रीमें अब तक होती है, और लोग अबतक उनकी बहुतसी करामाती बातोंके खयालसे उनको देवताके समान मानते हैं.

महाराणाने इन ऊपर लिखी बातोंके पापसे छुटकारा पानेके उपाय ब्राम्हणों से पूछे, तब ब्राम्हणोंने धर्म रीतिसे तीन तदवीरें बतलाईं— पहिली यह कि सूखे हुए पीपलके पेड़में बैठकर आगमें जलमरना चाहिये— दूसरी, कोई एक बड़ा तालाब बनवाना— तीसरी, लड़ाईमें माराजाना. महाराणाने पिछली दो बातें मन्ज़ूर कीं; और इसी कारण यह राजसमुद्र तालाब बनवाया, और उस दयाल महाजन का बहुत दरजा बढ़ाकर अपना प्रधान बनाया.

बाजे लोगोंका बयान है, कि विक्रमी १७१८ [हि० १०७२ = ई० १६६१] में बड़ा भारी अकाल पड़ा, और चार पांच वर्ष तक वर्षाकी कमी रही, इस कारण महाराणाने गरीबोंकी पर्वरिशके लिहाजसे यह तालाब बनवाना शुरू किया.

ये ऊपर लिखी हुई बातें लोगोंमें मशहूर हैं, लेकिन नहीं मालूम कहां तक सच हैं या ग़लत हैं, अल्बत्ता अकाल पड़ना तो राजसमुद्रकी प्रशस्तिमें भी लिखा है— (शेष संग्रह नम्बर ४).

विक्रमी १७१९ [हि० १०७३ = ई० १६६२] में मेवल ज़िलेके पहाड़ी भीलोंने सिर उठाया, जिन पर महाराणा राजसिंहने अपने प्रधान फ़तहचन्द

(१) पाटवी पुरोहित इन दिनोंमें गरीबदास था, परन्तु उसका माराजाना नहीं पाया जाता, शायद यह कोई उसके भाई बन्धुमेंसे होगा.

के साथ उमराव सर्दारोंकी फौजके सिवाय अपनी भी फौज भेजी. इस फौज ने बारापाल, नठारा, पडूना, बीलक, सगतडी, सराडा, धनकावाडा वगैरह पालोंको तबाह करके माल अस्बाब, गाय भैंस वगैरह सब लूट लिया; भीलों के सिर काट काट कर पेड़ोंमें लटकाये गये, और महुवा तथा आमके सब दररुत कटवादिये गये, क्यों कि यही इनकी बड़ी आमदनीके जरीए थे.

उसके बाद गमेती (ग्रामके मुखिया भील) मुसाहिबोंके पैरों पड़े, तब दुबारा बसाये गये, और थोड़े दिनोंके बाद महाराणाने इस मुल्कको अपने उमराव सर्दारोंकी जागीरमें इस मन्शासे बांट दिया, कि लुटेरी जातको हमेशह दबाये रहें.

विक्रमी १७२० [हि० १०७४ = ई० १६६३] में सिरोहीके राव अक्षयराज के कुंवर उदयसिंहने मौका पाकर अपने बापको कैद किया, और आप सिरोहीका राज्य करने लगा. यह खबर महाराणाके पास पहुंची, तब कई बार उसको नसीहतें लिख भेजीं, परन्तु कुछ असर न हुआ; निदान महाराणाने रामसिंह राणावतको फौज देकर सिरोही भेजा, इसके पहुंचते ही कुंवर उदयसिंह पहाड़ोंमें भागगया. रामसिंहने राव अक्षयराजको पीछा गादीपर बिठाया, तब अक्षयराजने रामसिंहकी मारिफत महाराणाका शुक्रिया अदा किया.

विक्रमी १७२१ [हि० १०७५ = ई० १६६४] में बांधूके बघेला राजा अनोपसिंहके कुंवर भावसिंहके साथ महाराणा राजसिंहने अपनी बेटी अजबकुंवर बाईका विवाह किया. बघेले लोग खाने पीनेमें बहुत पर्हेज रखते हैं, लेकिन उदयपुरमें राजपूतानाके रिवाजके मुवाफिक इतना खयाल नहीं है, आखिरकार खानेके वक्त भावसिंहने अर्ज की कि आपके साथ भोजन करनेमें हमारी इज्जत है, बल्कि हम उसको जग्दीशका प्रसाद समझते हैं. इस तरह यह विवाह बड़े स्नेहके साथ हुआ. अजबकुंवर बाईके साथ अठानवे लड़कियां अपने भाई बेटोंकी दूसरे अच्छे राजपूतोंको विवाहीगई. इसी संवत्में शहरके पश्चिमोत्तर कोणमें तालाबकी तीरपर अम्बा माताका मन्दिर बनवाकर प्रतिष्ठा कीगई— (शेष संग्रह नम्बर ५).

विक्रमी १७२१ फाल्गुण कृष्ण १२ [हि० १०७५ ता० २६ रजब = ई० १६६५ ता० १२ फेब्रुअरी] को आगरमें पेशाब बन्द होजानेकी बीमारीसे बादशाह शाहजहांका देहान्त होना सुना.

महाराणा राजसिंह ने इसी संवत् के माघ शुक्ल १५ [हि० ता० १४]

राजब = ई० ता० ३१ जैन्वूअरी] के दिन चन्द्रग्रहण होनेके सबब दो हजार मुहर और बहुतसे सामान समेत कामधेनु गऊ का दान किया. विक्रमी १७२१ मार्गशीर्ष कृष्ण १० [हि० १०७५ ता० २४ रबीउस्सानी = ई० १६६४ ता० १५ नोवेम्बर] को इन महाराणाने अपनी माता राठौड़ राजसिंह मेड़तिया की बेटी और महाराणा जगतसिंहकी राणी जनादे बाईजी राजके नामसे तालाब बनानेका मुहूर्त बड़ी नाम ग्राम में किया, और विक्रमी १७२५ माघ शुक्ल १० [हि० १०७९ ता० ८ रमज़ान = ई० १६६९ ता० ११ फेब्रुअरी] को प्रतिष्ठा करके उसका नाम 'जना सागर' रक्खा - (शेषसंग्रह नम्बर ६).

इस तालाबके बनानेमें २६१००० दो लाख इकसठ हजार रुपया खर्च पड़ा, और प्रतिष्ठाके समय दो ग्राम गलूंड और देवपुरा पुरोहित गरीबदासको दिये. यह तालाब उदयपुरसे वायव्य (उत्तरी पश्चिमी) कोणमें छः मीलके फ़ासिले पर है (१). इस तालाबकी प्रतिष्ठाके वक्त महाराणा राजसिंहकी माताका देहान्त होगया.

इन्हीं दिनोंमें महाराणाके कुंवर जयसिंहने पीछोला तालाबके उत्तर अम्बाव-गढ़के नीचे उदयपुरके पास रंगसागर नामका एक तालाब बनवाया, और उसकी प्रतिष्ठाके समय भी बहुतसा दान पुण्य किया.

राजसमुद्रकी पालपर मिट्टी विक्रमी १७१८ माघ कृष्ण ७ [हि० १०७२ ता० २१ जमादियुल् अब्बल = ई० १६६२ ता० १२ जैन्वूअरी] में पड़नी शुरू होगई थी, जिसमें हजारों आदमी काम करते थे.

विक्रमी १७२२ वैशाख शुक्ल १३ सोमवार [हि० १०७५ ता० ११ शवाल = ई० १६६५ ता० ८ मई] के दिन गौमती नदीको बांधनेके लिये दोनों पहाड़ों के बीच पालकी पक्की बुन्याद डालनेका मुहूर्त हुआ, और विक्रमी १७२८ आश्विन कृष्ण ४ [हि० १०८२ ता० १८ जमादियुल् अब्बल = ई० १६७१ ता० २६ सेप्टेम्बर] को राजसमुद्र तालाबमें नावका मुहूर्त एक गड्ढेमें पानी भरवाकर किया, क्योंकि फिर सिंह राशिपर वृहस्पति आता था, और इसमें भले काम करनेकी ज्योतिषके मतसे मनाई है.

इस राजसमुद्र तालाबमें - सिवली, भीगावदा, भाणा, लुहाणा, बांसोल

(१) वि० १९३२ [हि० १२९२ = ई० १८७५] की अति वृष्टिसे पालकी बहुतसी मिट्टी बहगई थी, जिसका बयान महाराणा सज्जनसिंहके हालमें लिखा जायगा.

और गुड़ली ग्राम आये; और मोरचणा, पसूंध, खेड़ी, छपरखेड़ी, तासोल और मंडावरकी सीमा इस तालाबके पेटेमें आई.

इस राजसमुद्रमें गौमती, ताली और केलवाकी नदीका पानी आता है. इस तालाबकी पुस्ता पाल (बन्द) छः हजार चार सौ तेरह गजकी है. इसमें पानीके तीन मुख्य निकास हैं, और चौथा अधिक भरजानेके समय गौघाटकी चटानों परसे बहता है.

विक्रमी १७३१ श्रावण शुक्ल ५ [हि० १०८५ ता० ३ जमादियुल् अब्बल् = ई० १६७४ ता० ८ अगस्त] को इस पानीसे भरे हुए तालाबमें एक नाव छोड़ी; और विक्रमी १७३२ माघ शुक्ल ७ [हि० १०८६ ता० ५ जिल्काद = ई० १६७६ ता० २३ जैनुअरी] को कृष्णगढ़के राजा रूपसिंहकी बेटी चारुमती महाराणी राठौड़ने राजनगर ग्रामके पश्चिम तरफ सफ़ेद पत्थरकी बावड़ी बनवाई, जिसमें तीस हजार रुपये खर्च पड़े. महाराणा राजसिंहने माघ शुक्ल ९ [हि० ता० ७ जिल्काद = ई० ता० २५ जैनुअरी] को राजसमुद्रकी प्रतिष्ठा की, और शास्त्रानुसार लाखों रुपयेका दान ब्राम्हणोंको दिया, और जप होमके बाद राजसमुद्रकी परिक्रमा करनेके लिये राणियों समेत पैदल चले - नौचौकियोंसे पश्चिमकी तरफ़ होकर मोरचणा, पसूंध, तासोल, भाणा और कांकरौली होते हुए १४ कोसके घेरेको पूरा किया.

विक्रमी १७३२ माघ शुक्ल १५ [हि० १०८६ ता० १४ जिल्काद = ई० १६७६ ता० १ फ़ेब्रुअरी] के दिन इसकी प्रतिष्ठा पूरी हुई. चारण तथा ब्राम्हणोंको लाखों रुपयेका दान दिया, और अपने पुरोहित गरीबदासको बारह ग्राम बख़्शे. सबसे ज़ियादा धन ब्राम्हणोंके हिस्सेमें, दूसरे चारण और तीसरे दरजेमें सर्दार पासवान मुत्सदियोंने पाया.

महाराणाने अपनी पाटवी राणी और कुंवर समेत सुवर्णकी तुला की; और पुरोहित गरीबदासने सोनेकी और उसके बेटे रणछेड़रायने चांदीकी तुला की. टोडेके राजा रायसिंहकी माता, व सलूबरके राव चहुवान केसरीसिंह, और बारहठ चारण केसरीसिंहने चांदीकी तुला की. इसी जल्सेमें तालाबका नाम 'राजसमुद्र' पहाड़ परके महलका नाम 'राजमन्दिर' और शहरका नाम 'राजनगर' रक्खा गया. इस तालाबके बड़े भारी जल्सेमें छ्यालीस हजार ब्राम्हण एकट्ठे हुए थे; इनके सिवाय रिश्तेदार और राजपूत वगैरह बहुतसे लोग थे, और जो राजा लोग

इस जलसेपर किसी खास कारणसे नहीं आये थे, महाराणाने उनके लिये नीचे लिखे अनुसार तुहफे भेजे:-

जोधपुरके राजा जश्वन्तसिंहके लिये ९००० रुपये, परमेश्वर प्रसाद हाथी, नरतन, फते और कनक कलश नामके तीन घोड़े और तीन दुशाले रणछोड़ भट्टके साथ भेजे.

आंबेरके राजा रामसिंह कछवाहेके वास्ते १०२५० दस हजार दो सौ पचास रुपये, सुन्दरगज हाथी, और सुन्दर व हद्व नामके दो घोड़े और छः दुशाले पुरोहित रामचन्द्रके हाथ भेजे.

बीकानेरके राजा अनूपसिंहके लिये ७५०० साढ़े सात हजार रुपये, मदन मूर्ति हाथी, शाहशृंगार व तेजनिधान दो घोड़े और ११ दुशाले माधव जोषी (ज्योतिषी) के हाथ भेजे.

बूंदीके राव भावसिंह हाड़ाके लिये होनहार हाथी, नरतन, सर्वशोभा और सिरताज नामके तीन घोड़े तथा कई दुशाले देकर भास्कर भट्टको भेजा.

रामपुरके राव मुहम्मदसिंह चन्द्रावतके वास्ते फतह दौलत हाथी, मोहन और एक दूसरा, दो घोड़े द्वारिकानाथ ब्राह्मणकी मारिफत भेजे.

जैसलमेरके रावल अमरसिंह भाटीके वास्ते प्रतापशृंगार हाथी, हयमुकुट तथा रतिमुकुट नामके दो घोड़े और दुशाले देवनन्द जोषी (ज्योतिषी) के संग पहुंचाये.

डूंगरपुरके रावल जश्वन्तसिंहके लिये सारधार हाथी, जहतारंग व कनक नामके दो घोड़े हरजीके साथ भेजे.

अपने प्रधानको प्रतापशृंगार हाथी, और राणावत रामसिंहको सिंहनाद हाथी दिया.

राजसमुद्र तालाबके जुदे जुदे दारोगोंको ६० घोड़े वस्त्र और जेवर समेत दिये. दो सौ छः घोड़े चारण भाट और कवियोंको, और बांधूगढ़के राजा भावसिंह बघेलाको अनूप हाथी, विनयसुन्दर व एक दूसरा, दो घोड़े तथा दुशाले गहना लाडू महासहाणीके साथ भेजे; और बहुतसे घोड़े उन लोगोंको, जो राजाओंके बुलानेको गये थे, दिये. टोडेके राजा रायसिंहके बेटोंके लिये सहेली नामकी हथनी उनकी माके साथ भेजी, और महाराणा जगतसिंह, कर्णसिंह, अमरसिंह, प्रतापसिंह व महाराणा हमीरसिंह और रावल समरसी तकके भी दिये हुए सासणीक चारण व भाटों को जुदे जुदे घोड़े दिये. इसके सिवाय दूसरे पंडित तथा चारणोंको एक लाख बाईस हजार दो सौ अड़सठ रुपयेके खरीदे हुए ५५२

घोड़े और एक लाख दो हजार एक सौ दस रुपये में मोल लिये हुए १३ हाथी व हथनी सिरोपाव गहने वगैरह समेत बांटे.

इस राजसमुद्र तालाबके बनवाने तथा जल्से आदिमें १०५४७५८४ एक किरोड़ पांच लाख सैंतालीस हजार पांच सौ चौरासी रुपये खर्च पड़े (१). विक्रमी १७१८ माघ कृष्ण ७ [हि० १०७२ ता० २१ जमादियुलअव्वल् = ई० १६६२ ता० १२ जैन्वूअरी] के दिन यह काम शुरू हुआ, और विक्रमी १७३२ आषाढ़ [हि० १०८६ रबीउस्सानी = ई० १६७५ जून] तक बराबर खर्च होता रहा, जिसकी तफ्सील यह है— राणावत रामसिंहके द्वारा २७३६४९७॥ सत्ताईस लाख छत्तीस हजार चार सौ सत्तानवे रुपया आठ आना खर्च पड़ा; महाराणाके काका की मातहतीमें ५०४८८०॥ पांच लाख चार हजार आठ सौ अस्सी रुपये चार आने उठे; कुंवर मुहकमसिंहके अधिकारसे २१२५३८ दो लाख बारह हजार पांच सौ अड़तीस, और कायस्थ श्यामलदासके हस्ते ४७८१०७ चार लाख अठत्तर हजार एक सौ सात रुपये खर्च हुए; और चौकड़ियोंकी खुदाईमें ३२६०१॥ बत्तीस हजार छःसौ एक चार आने खर्च पड़े.

इन सबका जोड़ रु० ३९६४६२३॥ जिसमेंसे रु० ३२००२८८०॥ तो मिट्टीसे पाल की भरवाई और चूनेकी चुनाईके काममें खर्च हुए, और रु० ७६१७४३॥ पत्थर की खुदाई, पुराई आदि में लगे (२); कुल १०५४७५८४ एक किरोड़ पांच लाख सैंतालीस हजार पांच सौ चौरासी रुपये खर्च हुए, जिनमें से रु० ३९६४६२३॥ तो केवल तालाब के काममें खर्च हुए, बाकी रु० ६५८२९६०॥ इन्आम, खैरात और जल्से वगैरह में उठे.

इस तालाबके शुरू से खत्म होने, तक जो जो और बातें हुईं, वे नीचे लिखी जाती हैं:—

विक्रमी १७१७ भाद्रपद शुक्ल ९ [हि० १०७१ ता० ७ मुहर्रम = ई० १६६०]

(१) राजसमुद्रकी प्रशस्तिके २१ वें सर्गके १६ वें श्लोकमें लिखा है कि एक पक्षमें ऊपर लिखे हुए यानी ३९६४६२३॥ और उसी सर्गके २२ वें श्लोकमें लिखा है कि १०५०७५८४ रु० दूसरे पक्षमें लगे, इससे यदि यह मानाजाय कि ऊपरकी रकम तो तालाबके कार्यमें लगी और दूसरी दूसरे कामोंमें; तब तो सब मिलाकर १४४७२२०७॥ होते हैं, लेकिन हमने इन श्लोकों का अर्थ इस तरह पर समझा है कि एक पक्षमें तो पहली रकम जो तालाबके काममें लगी वह लिखीगई है, और दूसरे पक्षमें विशेष खर्चको मिलाकर सब जोड़ लिख दिया है, अगर १४४७२२०७॥ भी खर्च पड़गये हों तो तअज्जुब नहीं है.

(२) अस्ल प्रशस्तिके २१ वें सर्गके १४ वें श्लोकमें ७६०७४४॥ लिखे हैं, परन्तु ऊपरकी जोड़ से ९९९ का फर्क पड़ता है.

ता० १४ सेप्टेम्बर] को महाराणा राजसिंहकी तरफसे सूरसिंह आलमगीरके पास गया था, जिसको बादशाहने घोड़ा और खिल्अत देकर विदा किया.

श्री नाथजीकी मूर्तिका ब्रजसे मेवाड़में पधारना.

नाथद्वारेके गोसाईं लोगोंने तो इन सब इतिहासी बातोंको अपनी पुस्तकोंमें करामाती ढंगसे लिखा है, और जाबिता यह रक्खा है कि अपने चेलोंके सिवाय और किसीको अपने मतकी पुस्तकें न दीजावें, बल्कि चेलोंको भी पुस्तक देते वक्त हिदायत करते हैं कि इसमेंका एक शब्द भी किसी दूसरेके सामने न कहा जावे, क्योंकि दूसरोंको कहदेनेसे पुस्तक भ्रष्ट समझी जाती है, और कहने वाला पापी ठहरता है. अक्सर इसी सबबसे इन गोसाईं लोगोंके अस्ली हाल गैर लोगोंको कम मिलते हैं— गोसाईंजी और सातों स्वरूपका बयान किसी और मौकेपर लिखा जायगा, यहां केवल गिरिराजसे श्री नाथजीके पधारने और सिहाड़ ग्राममें विराजनेका हाल लिखा जाता है.

पहिले मथुराके पास गिरिराज पर्वत पर श्री नाथजीका मन्दिर था, आलमगीरने गोसाईं लोगोंके पास एक आदमी भेजकर कहलाया, कि तुम लोग मथुराके फकीर हो तो कुछ करामात दिखलाओ, वना निकाले जाओगे. इससे गोसाईं विठ्ठलदासजी के पुत्र गिरिधारीजीके बेटे दामोदरजी घबराये, और श्री नाथजीकी मूर्तिको एक रथमें बिठाकर अपने काका गोविन्दजी, बालकृष्णजी, वल्लभजी और गंगाबाईके साथ मथुरासे विक्रमी १७२६ आश्विन शुक्ल १५ [हि० १०८० ता० १४ जमादियुल् अब्बल = ई० १६६९ ता० १० अक्टोबर] को घड़ीभर दिन बाकी रहे निकले, और आगरे पहुंचे; १६ दिन तक वहीं छिपे रहे. फिर कार्तिक शुक्ल २ [हि० ता० १ जमादियुस्सानी = ई० ता० २६ अक्टोबर] को आगरेसे चलकर बूंदीके राव राजा अनिरुद्धसिंहके पास आये, बर्सातका मौसम कोटेके जिले कृष्णाविलास में काटा; वहांसे पुष्कर होकर कृष्णगढ़ पधारे, तब कृष्णगढ़के राजा मानसिंहने कहा, कि आपको छिपकर रहना मन्जूर हो तो यहां रहिये, क्योंकि मैं जाहिरा नहीं रख सकता. निदान बसन्त और किसी कद्र गर्मी कृष्णगढ़में ही पूरी की; उसके बाद मारवाड़ की तरफ गये. जोधपुरके महाराज जगन्तसिंह अपनी ननिहालमें थे. गोसाईं जीने जोधपुरसे तीन कोस की दूरीपर चांपासेणी ग्राममें श्री नाथजीको पधराया, और बर्सातके आखिर तक वहीं रहे. मथुरासे निकलनेके बाद पहिला बर्सातका मौसम संजेतीधारके पास कृष्णपुर में, दूसरा कोटेके पास कृष्ण विलास और तीसरा चांपासेणी में बिताया.

ये गोसाईं लोग बादशाह आलमगीरके डरसे सारे रजवाड़ोंमें फिरे, परन्तु बादशाही नाराजगीको भेलनेकी ताकत किसीमें न पाई; लखार मारवाड़में महाराजा जशवन्तसिंहके पास गये, लेकिन जब उनके मुलाजिमोंकी भी ताकत न देखी, तब टीकेत गोसाईं दामोदरजीके काका गोविन्दजी महाराणा राजसिंहके पास आये, और श्री नाथजीके बारेमें जो अपनी स्वाहिश थी जाहिर की. महाराणाने खुशीके साथ मन्जूर किया, और कहा कि, "जब मेरे एक लाख राजपूतोंके सिर कट जावेंगे, उसके बाद आलमगीर इस मूर्तिको हाथ लगा सकेगा". गोविन्दजी बड़े प्रसन्न होतेहुए चांपासेणी गये, और वहांसे विक्रमी १७२८ कार्तिक शुक्ल १५ [हि० १०८२ ता० १४ रजब = ई० १६७१ ता० १७ नोवेम्बर] को चले, और उदयपुरसे १२ कोस उत्तरकी तरफ बनास नदीके तीर सिहाड़ ग्रामके पास मन्दिर बनवाकर श्री नाथजी को विक्रमी १७२८ फाल्गुण कृष्ण ७ [हि० १०८२ ता० २१ शव्वाल = ई० १६७२ ता० २० फेब्रुअरी] शनिवारके दिन पाट बिठाया.

श्री नाथजी जब मेवाड़की सीमामें आये, तो महाराणा वहींसे पेड़वाई करके उनको लाये थे, और श्रद्धासे उत्सव में शामिल थे. इसका हाल यहां पर बिल्कुल कमीके साथ लिखागया है.

सलूबरका रावत रघुनाथसिंह चूंडावत कृष्णावत, जो महाराणा जगतसिंहके समय ही से मुसाहिबी करता था, महाराणा राजसिंहके वक्तमें भी पास रहता था; जब बादशाह शाहजहांका भेजाहुआ चन्द्रभान मुन्शी उदयपुर आया, तो उसने शाहजहांकी खिदमतमें रावत रघुनाथसिंहकी तारीफ़ लिखी थी. शायद उसने इसी सबबसे घमंडमें आकर महाराणाको नाराज किया होगा, या आपसकी फूटसे लोगोंने महाराणाको उससे नाराज किया हो. निदान महाराणाने और सब पद्यों समेत सलूबर, रावत रघुनाथसिंहसे छीनकर चहुवान रामचन्द्रके छोटे बेटे केसरीसिंहको रावका खिताब देकर जागीरमें लिखदिया.

बेदलाका राव बल्लू जिसको महाराणा अमरसिंहने गंगारका पट्टा दिया था, उसका बेटा राव रामचन्द्र और इसका बड़ा पुत्र राव सबलसिंह बेदलाकी जागीर पर कायम रहा, और छोटे पुत्र केसरीसिंहको पारसौलीका पट्टा व रावका खिताब मिला.

केसरीसिंहसे यह महाराणा बहुत प्रसन्न थे, इसी सबब रावत रघुनाथसिंह पर नाराज होने बाद सलूबर भी इसीको लिख दिया. चहुवान और चूंडावतोंमें लड़ाई पहिले ही से चली आती थी, क्योंकि महाराणा अमरसिंहने जब बेगमका पट्टा राव बल्लूको दिया था तब सलूबरके रावत कृष्णादासका भतीजा रावत मेघसिंह महाराणासे बिगड़कर दिल्लीमें बादशाह जहांगीरके पास चला गयाथा— कुछ दिनोंके

बाद फिर महाराणाने उसको बुलाकर बेगमका पट्टा पीछा लिखदिया, और राव बल्लूको उसके बदलेमें गंगार और बेदला दिया. इस समय चहुवानोंका पेच चला, तो सलुंबर, जो सब चूंडावतोंका पाटवी ठिकाना है, ले लिया. आखिरकार रावत रघुनाथसिंह इस बातसे नाराज होकर बादशाह आलमगीरके पास विक्रमी १७२६ ज्येष्ठ शुक्ल १४ [हि० १०८० ता० १३ मुहर्रम = ई० १६६९ ता० १३ जून] को लाहौर पहुंचा, जिस वक्त कि हयात बागमें बादशाहके डेरे थे; बादशाहसे महाराणा की नाराजगी तथा बीती हुई सारी कैफियत कह सुनाई. आलमगीरने उसको एक हजारी जात व तीन सौ सवारका मन्सब और एक हजार रुपयेकी कीमतका जम्हर इनायत किया.

इन्हीं दिनोंमें टोडेके राजा रायसिंह भीमसिंहोतका देहान्त हुआ; इनके बेटे १ मानसिंह, २ महासिंह, और ३ अनोपसिंह विक्रमी १७३० वैशाख शुक्ल पक्ष [हि० १०८४ मुहर्रम = ई० १६७३ एप्रिल] में बादशाह आलमगीरके पास हाजिर हुए; बादशाहने तीनों को तसल्लीके साथ खिलअत दिये.

महाराणाने विक्रमी १७३१ श्रावण शुक्ल ५ [हि० १०८५ ता० ३ जमादियुल्-अव्वल = ई० १६७४ ता० ८ अगस्त] को दैवारी दर्वाजे पर किवाड़ चढ़वाये, जिसकी प्रशस्ति उसके बाईं तरफ लिखी है— (शेष संग्रह नम्बर ७).

महाराणा राजसिंहके लिये आलमगीर बादशाहने विक्रमी १७३१ पौष शुक्ल २ [हि० १०८५ ता० १ शव्वाल = ई० १६७४ ता० ३० डिसेम्बर] को अपने अठारहवें जुलूस पर खासा खिलअत, जड़ाऊ जम्हर और फर्मान भेजा.

विक्रमी १७३२ [हि० १०८६ = ई० १६७५] में महाराणी रामरसदे ने त्रिमुखी बावड़ी बनवाई— (शेष संग्रह नम्बर ८). इस जमानेमें आलमगीर बादशाहने अपने मतके पक्षसे अथवा मुसल्मानोंको प्रसन्न रखनेके विचारसे दूसरे मज्हब वालों को तकलीफ पहुंचाना, मन्दिरोंको तुड़वाना और दूसरे मतकी धर्म पुस्तकें न पढ़ने देना वगैरह शुरू किया; इससे सारी प्रजाका नाकमें दम आगया. अकबर बादशाहने अपनी फौजके तीन हिस्से इसी मज्हबसे रखे थे, और वह १ शीआ, २ सुन्नी और ३ राजपूतोंका गिरोह था; अगर एक दल बदलजाय, तो दो उसको सजा देनेके लिये तय्यार रहते; परन्तु आलमगीरने अकबरके बखिलाफ कार्रवाई की, कि सुन्नियोंको राजी रखनेके लिये शीआ (अलीको बड़ा मानने वाले मुसल्मान) और राजपूतोंका दिल तोड़दिया, जिससे एक न एक भगड़ा अक्सर बना रहता था.

महाराणा राजसिंहकी हर एक कार्रवाई बादशाहके मन्शाके बखिलाफ

होती थी, दिन दिन नये मन्दिरोंका बनना, मथुराके गोसाईं, जो श्री नाथजीकी मूर्तिको लेकर आये, उन्हें अपनी पनाहमें रखना, संस्कृत विद्याकी शिक्षाका जारी करना, जोधपुरके राठौड़ोंको मदद पहुंचाना वगैरह बहुतसी बातोंसे आलमगीर बादशाहने मौका देखकर विचार किया होगा कि, महाराजा जशवन्तसिंह तो इन दिनों काबुलकी तरफ़ भेजेही गये हैं, अगर इस मौकेपर उदयपुरके महाराणाको दबादे तो सारे राजपूत दबजावेंगे, और फिर कोई सिर न उठावेगा.

यह इरादह करके विक्रमी १७३५ माघ शुक्ल ८ [हि० १०८९ ता० ६ जिल्हज = ई० १६७९ ता० २० जैन्वूअरी] को स्वाजह मुईनुद्दीन चिश्तीकी जियारत (दर्शन) के बहानेसे बादशाह अजमेरकी तरफ़ आया, और विक्रमी १७३५ फाल्गुण शुक्ल १४ [हि० १०९० ता० १३ मुहर्रम = ई० १६७९ ता० २४ फ़ेब्रुअरी] को रास्तेहीमें आंबेर के राजा रामसिंह का पोता विष्णुसिंह उसके पास हाज़िर हुआ; चैत्र कृष्ण ४ [हि० ता० १८ मुहर्रम = ई० ता० १ मार्च] के दिन बादशाह अजमेर पहुंचा; महाराणाने उसका मन्शा पहचानकर अपने वकील उसके पास भेजदिये, और जो हुक्म हुआ मन्जूर किया.

विक्रमी १७३६ चैत्र शुक्ल ११ [हि० १०९० ता० ९ सफ़र = ई० १६७९ ता० २३ मार्च] के दिन कुंवर जयसिंहके डेरे बाहर खड़े करवाये. आलमगीरने शाहज़ादे कामूबख़्शकी सरकारके बख़्शी मुहम्मद नईमको महाराणाकी दरवास्त पर कुंवरके लेनेके लिये उदयपुर भेजा, जिसकी बाबत यहां अस्ल फ़र्मानका तर्जमा और उस की नक़ल फ़ार्सी नोटमें लिखीजाती है:-

बादशाही फ़र्मानका तर्जमा.
बिस्मिल्लाहि र्हमानि र्हीम.

तुगरामें कुरआनकी
आयत.

अतीउल्लाहः व अतीउर्रसूलः
व उलिल् अघे मिन कुम.

अर्थ.
आदमियोंको खुदा और पैग़म्बर
की और जो उनमें हाकिम हो
उसकी इताअत करनी चाहिये.

मुहरकी नक़ल



वफ़ादार ख़ैरस्वाह- नेक सर्दारोंका बुजुर्ग- बराबरी वालोंसे बिहतर- फ़र्मा बर्दारोंका सरताज बहुतसी मिहर्बानियोंके लायक़ राणा राजसिंह बादशाही मिहर्बानियोंसे इज़्ज़त-दार और ख़बर्दार होकर जानें, जो अर्जी कि साफ़ दिली और सच्ची ख़ैरस्वाहीसे केसरीसिंह और नसिंहदास अपने नौकरोंके हाथ बादशाहोंकी पनाहवाली दर्गाहमें भेजी थी, बुजुर्ग सल्तनतके हाज़िर रहनेवालोंकी मारिफ़त पाक साफ़ नज़रसे गुज़री. उस उम्दह सर्दारकी बाज़ दरूवास्तें बुजुर्ग वज़ीर बड़े दरजेके सर्दार जुम्दतुल्मुल्क असदखां, और बुजुर्ग ख़ान्दान बहादुरीके निशान बहुत मिहर्बानियोंके लायक़ बख़्शियुल्मुल्क सर्वलन्दखांके ज़रीएसे मालूम हुई.


बुजुर्ग दर्गाह में अर्ज हुआ कि वह अपने बेटेको बादशाही दर्गाहमें हाज़िरीसे बुजुर्गी हासिल करनेको भेजना चाहता है, और उम्मेद रखता है, कि एक सर्कारी आदमी उसके लानेको हुज़ूरसे मुक़रर किया जावे; इसलिये सबके माननेके लायक़ बुजुर्ग हुक़म जारी होता है, कि हम उसको पुराने मजबूत इरादह वफ़ादार कारगुज़ारोंमें से जानते हैं- ख़ान्दानी बहादुर मुहम्मद नईमको, जो नेक-बस्त नाम्दार, बादशाही आंखकी पुतली, सल्तनतके बाग़के ताज़ा फूल, आली ख़ान्दान, जहानवालोंकी ताज़ीमके लायक़, बादशाहज़ादह मुहम्मद काम्बरुशकी सर्कारका बरूशी है, इनायतके तरीक़ेसे उस उम्दह सर्दारके बेटेको लाने

के लिये उस तरफ़ रुख़सत फ़र्माया है. लाज़िम है कि तबीअत को बादशाही मिहर्बानियोंसे जमा रखकर उसको जिक्र कियेहुए आदमीके हमराह बुजुर्ग दर्गाह में भेजदे, कि सलामसे बुजुर्गी हासिल करने बाद बहुतसी मिहर्बानियोंके साथ वापसीकी इजाज़त पावेगा-तारीख़ २५ मुहर्रम साल २२ जुलूस = १०९० हिजी को लिखा गया.

* * * * *
 * بسم الله الرحمن الرحيم *
 * * * * *

* اطيعوا الله واطيعوا الرسول *
 * واولى الامر منكم *

نقل طغرا



نقل مهر

صده اخلاص کیشان و لتخواه زبده الامیان و الاشباة خلاصه الامائل
 و الاقوان نقاوة النظایر و الاخوان سلاله فدویت منشان سزاوار لطف
 و احسان مطیع الاسلام رانا راج سنگه بعنایت بان شاهی مفتخر و مباهمی گشته بداند - مرضه داشته
 که از روی صدق اخلاص و خلوص بندگی مصحوب کیسری سنگه و نرسنگد اس نوکران خون بدرگاه
 خواجین پناه ارسال داشته بون - بتوسط ایستان هائے پایه سریر خلافت مصیر ارفع اعلی از نظر انور

पीठकी इबारत और मुहर.

*
* १९ *
मुहम्मद मुअज़्ज़म
शाह अलम, इब्न अलम-
गीर बादशाह गाजी
* १०८७ *

नव्वाब बुजुर्ग अल्काब जहानवालों की पनाह, बलन्द दरजे वाले, दीन दुन्याकी रौनक, बुजुर्गी और नसीबहके बागके दरस्त, बुजुर्गी और बड़ाईके दरस्तके फल, नसीबहवर, बलन्द खानदान, खुदाई कारखानेके पसन्दीदह, बादशाही ताजके मोती, खुदाई रहमतोंके नमूने, बुजुर्ग कद्र, बादशाहजादह नामदार, मुहम्मद मुअज़्ज़मके रिसाले में,
अदना दरजेके वफादार असदखांकी मारिफत (जारीहुआ) .

اطهرگذشت - و بعض ملتسمات آن عمده الاعیان بوساطت عمده وزراء رفیع الشان زبده خوانین بلند مکان خان شجاعت نشان جمده الملك مدارالمهام اسدخان و شرافت و نجابت پناه شجاعت و شہامت دستگاہ مورہ مرحوم بیکران بخششی الملك سر بلند خان بموقف عرض مقدس معلی رسید * و معروض پیشگاہ سلطنت عظمی گردید کہ میخواستہ پسر خود را بجهت احراز دولت آستانبوس والا بفرستد - امیدوارست کہ بیکے از بندہ ماے پادشاهی برآے آوردن او از حضور لامع النور تعیین شود * حکم جہانمطاع واجب الاتباع شرف نفاذ مے یابد کہ چون او را از بندگان قدیم برجادہ ادگی مستقیم میدانم سیادت و شجاعت انتساب محمد نعیم بخششی سرکار فرزند سعادت مند برخوردار نامدار قرہ باصرہ دولت غرہ ناصیہ سلطنت نوباوہ نہال - حشمت تازہ گل بوستان خلافت والا گوهر عالی نسب پادشاهزادہ عالم و عالمیان محمد کام بخش را از راه عنایت جہت آوردن پسر آنزیدہ الاشباہ رخصت آنطرف فرمودیم - باید کہ خاطر از مراحم پادشاهانہ جمع داشته اورا برفاقت مشارا الیہ روانہ بارگاہ سلطنت گرداند - کہ بعد استلام عتبہ رفیع مرتبہ خلافت مشمول نوازش گردیدہ اجازت انصراف خواهد یافت * بیست و بنجم شہر محرم الحرام سال بیست و دوم از جلوس والا نوشته شد ۵

بوسالہ نواب قدسی القاب عالم مات رفیع جناب
قرہ ناصیہ دین و دولت قرہ باصرہ ملک و ملت
بہین دوحہ حدیقہ اہت و اقبال - گزین ثمرہ شجرہ
عظمت و جلال - شاهزادہ نامدار کامگار عالی نسب
والاتبار - منظور نظر حضرت آفریدگار - درہ التاج
سلطنت عظمی - واسطہ العقد خلافت کبرے - مہبط
انظار عنایت الہی - مطلع انوار مرحمت ظل الہی
جلیل القدر منبع الشان - عظیم المنزلت سموا لکان
فروغ دون مان مجدد و کرم - پادشاهزادہ محمد
معظم شاه عالم ۵

* فاز *
بن عالم گیوبان شاہ
محمد
معظم شاه عالم
سنہ ۱۰۸۷

مہر شاهزادہ

بمعرفت کمتربین فدویان

* اسد خان *

बादशाह विक्रमी चैत्र शुक्ल ९ [हि० ता० ७ सफ़र = ई० ता० २१ मार्च] को अजमेरसे दिल्लीकी तरफ़ रवाना हुआ; जब दिल्ली दो कोस रहगई तो कुंवर जयसिंह, चन्द्रसेन भाला और गरीबदास पुरोहित सहित बादशाहके दरबारमें विक्रमी वैशाख कृष्ण ३० [हि० ता० २९ सफ़र = ई० ता० ११ एप्रिल] को दाखिल हुए. शाही डेरोंकी ज्यौड़ी तक नागौरका राव इन्द्रसिंह पेशवाई करके अन्दर लेगया. कुंवरके पहुंचने पर बादशाहने खासा खिलअत, पन्ने और मोतियों की कंठी, उर्बसी, जड़ाऊ पहुंची, तथा हथनी दी.

विक्रमी ज्येष्ठ कृष्ण ४ [हि० ता० १८ रबीउलअव्वल = ई० ता० ३० एप्रिल] के दिन कुंवर जयसिंहको खिलअत, मोतियोंका सर्पेच, कानोंके लालके बाले, जड़ाऊ तुरा, अरबी घोड़ा सुनहरी सामान समेत और हाथी देकर घर जानेकी रुख़सत दी; इनके साथ महाराणाके लिये खिलअत, जड़ाऊ सर्पेच, बीस हजार रुपया नक़द और फ़र्मान भेजा. कुंवर जयसिंह मथुरा बन्दाबनकी तरफ़ तीर्थ करते हुए विक्रमी प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल १५ [हि० ता० १४ रबीउस्सानी = ई० ता० २६ मई] के दिन महाराणाके पास आये.

इस वक्त तो मेल करना ही मुनासिब जानकर रज़ामन्दीके साथ बादशाहको अजमेरसे वापस लौटाया; परन्तु भगवानकी इच्छा हजारों आदमियोंका खून ज़मीन पर बहानेकी थी— एक नया भगड़ा बादशाहने आम मुसल्मानोंको खुश करनेके लिये उठाया; वह यह था, कि एक लागत (टैक्स) जिज्यह नामी दूसरे मत वालों पर जारी की.

जिज्यहके लगानेसे कुल हिन्दू नाराज़ थे, लाखों आदमी बादशाहके पास फ़र्यादी गये, यहां तक कि एक दिन बादशाह जामिअ मस्जिदको जाते थे, फ़र्यादी हिन्दू लोगोंके हुजूमसे रास्ता नहीं मिला, गुर्ज बर्दारोंने बहुतसे आदमियोंके हाथ पैर तोड़डाले, आखिर कार एक हाथी सवारीके आगे कियागया, जिसकी टक्करसे बहुतसे आदमियोंको नुक़सान पहुंचा; लेकिन आलमगीने जिज्यह मुअफ़ करनेका हुक्म नहीं दिया. यह जिज्यहकी लागत शुरूमें हज़रत मुहम्मद पैग़म्बरने जारी नहीं की थी, उनके पीछे दूसरे खलीफ़ा उमरने खर्चकी तंगीसे इस तरह पर जारी की, कि अब्बल दरजेके मालदार आदमीसे सालानह ४८ दिरम, और मंभले दरजेके आदमीसे २४ दिरम, और तीसरे दरजेके आदमीसे १२ दिरम लियाजावे. शहन्शाह अकबरके हुक्मके मुवाफ़िक़ अबुल् फ़ज़लने आईन अकबरीकी पहिली जिल्दके सफ़ह २३६ में लिखा है, कि हर मुल्कमें इस तरहके इरादे फ़साद पैदा करते हैं, और लोगोंको तकलीफ़ पहुंचाते हैं, इस वास्ते शहन्शाह अकबरने जिज्यहकी बुरी रस्मको मौकूफ़ करदिया, और इस

को एक तरहका जुल्म खयाल किया. आलमगीरने तो अकबरको अपनी दानिस्तमें बेसमझ ठहराया होगा. आलमगीरने हिन्दुओंको ही तकलीफ नहीं दी, बल्कि मुसलमानोंसे भी रु० २॥ सैकड़ा सालानह जकातके नामसे जब्रन् वसूल करनेका हुक्म जारी किया— यह जकात मुहम्मदी मजहबमें ईमानदार आदमियोंको खैरात करनेके लिये मुकर्रर हुई है, और बादशाहोंको जब्रन् वसूल करनेकी इजाजत नहीं है. इन बातोंसे कुल हिन्दुस्तानमें बेदिली फैलरही थी.

इसके सुन्ते ही महाराणा राजसिंहको बहुत रंज हुआ, और यह सोचा कि हिन्दुओंको बेदीन जानकर यह कर लगाया है, यह विचारकर एक अर्जी आलमगीर बादशाहके नाम भेजी, जिसका तरजमा कर्नेल् टॉडकी किताबसे नीचे लिखा जाता है—

अर्जीका तरजमा.

आदाब अल्काबके बाद — जाहिर हो कि मैं आपका खैरखाह अगर्चि आप की हुजूरसे दूर हूं, परन्तु फिर भी ताबेदारी और नमकहलालीके कामोंमें तय्यार हूं. मैं हिन्दुस्तानके बादशाहों, अमीरों, मिर्जाओं, राजाओं, रावों और ईरान, तूरान, रूम, शामके सर्दारों, सातों विलायतोंके रहनेवालों तथा खुश्की और दर्याके मुसाफिरोकी खैरखाही में मशगूल हूं; यह मेरा कहना बहुत साफ़ तरह पर है, इस बातको सब जानते हैं, और मुझे भरोसा है कि इसमें आपको भी कोई शक न होगा. मैं अपनी पहिली चाकरी और आपकी मिहर्बानी पर नज़र करके हुजूरसे यह अर्ज रखता हूं, कि उन बातोंकी तरफ़ कि जिनमें आपकी और दुन्यावालोंकी बिहतरी है, और जो नीचे लिखी जाती हैं, ध्यान देंगे—

मैंने सुना है कि आपने बहुतसा रुपया मुझ खैरखाहकी खराबीकी तदबीरों में खर्च किया है, और हुजूरने अपना खज़ानह भरनेके लिये जिज्यहका महसूल लगाया है. हुजूर पर रौशन है कि मुहम्मद जलालुद्दीन अकबर ने, जो आपके बाप दादाओंमें से थे, बादशाही कामोंको ५२ वर्ष तक बड़े इन्साफ़के साथ पूरा करके हर एक कौमको आराम पहुंचाया. ईसाई, मूसई, दाऊदी, मुसल्मान और ब्राह्मण तथा दिहरिये, जो दुन्याको आपसे आप पैदा होनेके कइल हैं, उनकी निगाहमें बराबर थे; और सब पर एकसी मिहर्बानीकी नज़र जारी रहती थी, उनका इन्साफ़ और रहम इस कद्र जियादह था कि प्रजाने उनका लक़ब जगत् गुरु रक्खा था. नूरुद्दीन मुहम्मद जहांगीरने भी २२ वर्ष तक अपनी प्रजाकी हुक्मत और हिफ़ाजत की, और कभी अपनी

कार्रवाईमें सुस्ती नहीं की, उन्होंने अपने नेक इरादोंके सबब हर एक जगह कामयाबी हासिल की. मझूर शाहजहाने भी ३२ वर्ष तक अच्छे इन्साफ़के साथ बादशाहत चलाई, और ऐसा नाम पैदा किया कि हमेशाह दुनयाके पर्देपर कायम रहेगा; यह नतीजा उनको रहम दिली और नेकीके तुफ़ैल मिला था. आपके बाप दादोंकी रूवाहिश दिलसे भलाईकी तरफ़ थी, जैसा कि ऊपर लिखा गया.

वह सखावत और रहमदिलीकी बातों पर अमल करते थे, इससे जिधर को क़दम उठाते थे, फ़तह उनके साथ चलती थी, और साफ़ नियत होनेके सबब बहुतसे किले फ़तह, और अक्सर मुल्क ताबे होगये थे; आपके अह्दमें बहुतसे ज़िले बादशाहतसे निकल गये हैं, बहुतसी नई ज़ियादती होनेसे और भी इलाक़े हाथसे जाते रहेंगे. आपकी प्रजा कंगाली और तकलीफ़में फंसी हुई है, ख़राबी फैलती जाती है, कई मुश्किलें बढ़ती जाती हैं. जब ग़रीबीने बादशाहों और शाहज़ादोंके घरमें क़दम रक्खा हो तो अमीर और रअध्यतका तो ईश्वर ही मालिक है; सिपाही शिकायत करते हैं, सौदागर फ़र्यादी हैं, मुसल्मान नाराज़ हैं, हिन्दू और दूसरे लोग ज़ुरूरतोंसे इस क़द्र तंग होगये हैं कि शामको खाना भी नहीं मिलता, और सारे दिन दुःखसे बेचैन रहते हैं.

यह कब हो सक्ता है, कि जो बादशाह अपनी कंगाल प्रजापर सस्त २ महसूल डालता है, कायम रहे. पूर्वसे पश्चिम तक यह अफ़वाह फैली हुई है, कि हिन्दुस्तानका बादशाह हिन्दू पुजारियोंसे जलनके कारण सब ब्राह्मणों, जोगियों, सन्यासियों, वैरागियोंसे ज़बर्दस्ती महसूल लेना चाहता है, वह तीमूरी ख़ान्दानकी इज़तकी तरफ़ ख़याल न करके, लाचार कोनेमें बैठने वाले पुजारियों पर जोर दिखाना चाहता है. अगर आप उस किताब पर विश्वास रखते हैं, जिसको कलामि इलाही समझा जाता है, तो उसमें साफ़ लिखा है कि “खुदा सिर्फ़ मुसल्मानों ही का मालिक नहीं है, बल्कि सारे जगत्का पालने वाला है” (अल् हम्दो लिह्लाहे रब्बिल आलमीन - الحمد لله رب العالمين) हिन्दू और मुसल्मान उसकी नज़रमें एकसे हैं, रंग और सूरतका फ़र्क़ ईश्वरकी कुद्रतसे है, और वही सबका पैदा करने वाला है; मुसल्मानोंके इबादत ख़ानों में भी उसीका नाम लिया जाता है, और मन्दिरोंमें भी मूर्तिके साम्हने, जहां घंटे बजते हैं, उसीकी तारीफ़ और पूजा होती है. दूसरी कौमोंके मज़हबों और रीतोंको दूर करना ईश्वरकी मरज़ीके खिलाफ़ है; जब हम किसी तस्वीरका मुंह बिगाड़ते हैं, तो उसके बनाने वालेको नाराज़ करते हैं.

किसी शाइरने यह बात बहुत ठीक लिखी है कि- “खुदाई कारख़ानेमें

एतिराज न करो"— मल्लब यह है कि हिन्दुओंपर, जो जिज्यहका महसूल लगाया है, इन्साफ़से दूर है, और मुल्की इन्तिजामसे भी दुरुस्त नहीं है; उससे मुल्क गरीब और तबाह होजावेगा. इसके सिवाय वह एक नई घडन्त है, और हिन्दुस्तानके पुराने दस्तूरोंके खिलाफ़ है, यदि अपने मज़्हबी खयालोंकी पैरवीसे यह बात पसन्द की है तो इन्साफ़ यह चाहता है, कि अब्बल जिज्यहका महसूल रामसिंह (जयपुर वाले) से जो हिन्दुओंका सरगिरोह है, और फिर मुभ खैरस्वाहसे मांगना चाहिये, जहांसे कि महसूल वसूल करनेमें आपको जियादह दिक्कतें न उठानी पड़ेंगी; परन्तु चेंटी और मक्खियोंको तछीफ़ देना बेजा है, और हिम्मतवर तथा बहादुरोंके लायक़ नहीं है. तअज़ुब है कि बादशाही वज़ीरोंने इज़त और रास्तीकी बाबत सलाह नहीं दी.

कनेल् टॉडने चिट्ठीकी बाबत जो नोट दिया है उसका तर्जमा भी यहां लिखाजाता है—

“यूरोप वालोंको इस चिट्ठीका हाल औरम साहिबकी लिखावटसे पहिली बार जाहिर हुआ. औरम साहिबका यह बयान कि जशवन्तसिंह मारवाड़ वालेने यह चिट्ठी लिखी थी ग़लत है, क्योंकि जिज्यहका हुकम जारी होनेके पहिले वह मरचुका था. जशवन्तसिंहकी मौतका हाल रामसिंहके नाम की लिखावटसे साफ़ जाहिर है. जयसिंह रामसिंहका बाप जशवन्तसिंहके वक्त में था, वह उसके मरनेके बाद एक वर्ष तक हुकूमत करता रहा, मेरा मुन्शी उदयपुरसे अस्ल चिट्ठीकी नक़्क़ करलाया, इससे मालूम होता है कि वह राणाकी लिखीहुई थी; उस चिट्ठीका मज़मून सर डब्ल्यू० बी० रोज़ने उम्दह इब़ारतमें लिखा है, इस सबबसे अस्ल चिट्ठीका तर्जमा करना फ़ुज़ूल समझा.

अब इस नोट पर हमारी यह राय है कि इस अर्जीके लिखनेमें यह शक़ करना कि दूसरे राजाओंने लिखी है, बेजा है; क्योंकि कनेल् टॉडके लिखनेके मुवाफ़िक़ ही महाराजा जशवन्तसिंह तो पहिले मर चुके थे, और आंबेरके राजा रामसिंह का इसी अर्जी में हवाला है, इससे आपही साबित है कि इसका लिखनेवाला कोई और है, सोचनेकी जगह है कि हिन्दुस्तान में उदयपुरके सिवाय और कौन ऐसा ज़बर्दस्त राजा था, जिसने इस जोर शोरके साथ आलमगीरको चिट्ठी लिखी.

कनेल् टॉडने महाराजा जशवन्तसिंह का हमअसर आंबेर के राजा जयसिंह कलवाहेको बताकर यह लिख दिया है, कि उसके एक वर्ष बाद जीतारहा;

अगर इससे अघिरके राजा जयसिंह खयाल कियेजावें, तो वे जशवन्तसिंहसे दस वर्ष पहिले मरचुके थे, और रामसिंह खयाल किये जाय, तो जशवन्तसिंह की मौत के दस वर्ष बाद मरे थे; इस सबबसे टॉड साहिब का पिछला बयान गलत है.

आलमगीर इस चिट्ठीको देखते ही आग होगया, और फौरन् उदयपुरकी तरफ़ फौजकशी करनेका हुकम दिया; इसी आगमें ईंधन डालने का सामान दूसरा यह हुआ कि महाराजा जशवन्तसिंह का बेटा अजीतसिंह, जो दिल्ली से छिपकर भागआया था, उसे महाराणाने अपने पास मेवाड़में रखलिया.

वह इस तरह पर है- कि दुर्गदास वगैरह राठौड़ोंने सोचा कि अकेले हम लोगोंसे आलमगीरकी फौजका मुकाबला होना कठिन है. इसीसे महाराजा अजीतसिंहको लेकर उदयपुर चलेआये. महाराणा राजसिंहने अजीतसिंह और उसके खटलेके ठहरनेको कैलवा ग्राम सुपुर्द किया, और दुर्गदास वगैरह राठौड़ों को तसल्ली देकर कहा कि एक लाख सीसोदिया और राठौड़ोंकी फौजको आलमगीर आसानीसे नहीं दबासकेगा, तुम बेफिक्र रहो. बादशाह महाराणा पर तो जिज़्यहकी चिट्ठीसे चिड़ ही रहा था, अब अजीतसिंहको यहां रखलेनेसे और भी बिगड़ा, और विक्रमी १७३६ भाद्रपद शुक्ल ९ [हि० १०९० ता० ७ शअबान = ई० १६७९ ता० १५ सेप्टेम्बर] को जंगी फौजके साथ दिल्लीसे उदयपुरकी तरफ़ चला, और उसी दिन बालम कस्बेसे शाहजादे मुहम्मद अक्बर को आगे रवाना किया, कि अजमेर में ठहरे. आश्विन शुक्ल १ [हि० ता० २९ शअबान = ई० ता० ७ अक्टोबर] को बादशाहने अजमेर पहुंचकर स्वाजह मुईनुद्दीन चिश्ती की जियारत करने बाद जहांगीरके बनवायेहुए महलोंमें आनासागरकी पालपर कियाम किया.

विक्रमी कार्तिक शुक्ल ३ [हि० ता० १ शव्वाल = ई० ता० ७ नोवेम्बर] के दिन तहवुरखांको खिलअत, हाथी और तीर कमान इनायत करके मांडल वगैरह परगनोंकी जब्तीके लिये भेजा, और नागौरके राव इन्द्रसिंहको नीमच, रघुनाथसिंहको सियाना वगैरह, मुहकमसिंह मेड़तियाको पुरकी थानेदारी पर फौजके साथ रवाना किया; और एक फर्मान दक्षिणमें शाहजादे मुअज़्जमके नाम लिखा, कि फौरन् हुकमके मुवाफिक उजैनमें आकर कार्रवाई करे. दूसरा फर्मान बंगालमें शाहजादे आजमके पास भेजा, कि जिस तरह होसके, बहुत जल्दी हमारे पास हाजिर हो. इस तरह कार्रवाई करके बादशाह ने विक्रमी १७३६

मार्गशीर्ष शुक्ल ९ [हि० १०९० ता० ७ जिल्काद = ई० १६७९ ता०

१३ डिसेम्बर [को अजमेरसे उदयपुरकी तरफ कूच किया, और उसी दिन मेड़तेकी तरफसे शाहजादह मुहम्मद अकबर हाजिर हुआ.

जब बादशाही लश्कर मेवाड़के इलाकेमें पहुंचा, उसी वक्त विक्रमी मार्गशीर्ष शुक्ल १५ [हि० ता० १४ जिल्काद = ई० ता० १९ डिसेम्बर] को शाहजादह आजम भी बादशाहकी खिदमत में हाजिर होगया; कुछ दिनों तक मांडल में ठहरनेके बाद विक्रमी माघ कृष्ण १ [हि० ता० १५ जिल्हिज = ई० १६८० ता० १८ जैन्वूअरी] को उदयपुरकी तरफ चढ़ाईका हुक्म हुआ.

महाराणाने सर्दार, उमराव और कामदार वगैरहको एकट्ठा करके सलाह की. उस समय महाराणाके छोटे भाई अरिसिंह, फतहसिंह और गुमानसिंह अपने तीनों कुंवरो सहित और महाराजकुमार जयसिंह तथा छोटे कुंवर भीमसिंह, रावल जशकर्ण, राणावत भावसिंह, महाराज मनोहरसिंह, महाराज दलसिंह, बेदलेका चहुवान राव सबलसिंह, सादड़ीका भाला राज चन्द्रसेन, बान्सीके रावत केसरीसिंहका कुंवर गंगादास, देलवाड़ेका भाला राज जैतसिंह, बीजोल्यांका पुंवार राव बैरीशाल, बेगमका रावत महासिंह चूड़ावत, रावत रत्नसिंह चूड़ावत कृष्णावत रघुनाथसिंहोत, बदनोरका राठौड़ ठाकुर सांवलदास, आमेटका रावत मानसिंह चूड़ावत जग्गावत, चहुवान राव केसरीसिंह बान्सीका, भींडरका शक्तावत महाराज मुहकमसिंह, गांव समदड़ी इलाके मारवाड़का राठौड़ दुर्गदास, सोनगरा सामन्तसिंह, देसूरी रूपनगरका सोलंखी विक्रमादित्य, कोठारिये रावत रुक्माङ्गद चहुवान, गोगुंदेका राज जशवन्तसिंह भाला, घाणेरवाका मेड़तिया ठाकुर गोपीनाथ राठौड़, पुरोहित गरीबदास बड़ा पल्लीवाल ब्राह्मण, नीमड़ीका महेचा राठौड़ अमरसिंह, खीची रत्नसिंह, प्रधान साह दयालदास ओसवाल वगैरहने अपनी अपनी बुद्धिके अनुसार अर्ज की. किसीने कहा कि अजमेरसे निकलते ही शाही लश्कर पर छापा मारें, किसीने सलाह दी कि मेवाड़में आते वक्त लड़ाई कीजाय, किसीने बयान किया कि चित्तौड़ गढ़में रहकर लड़ाई करना चाहिये. इसी तरह सबकी तरफसे बयान होनेके बाद पुरोहित गरीबदासने अर्ज किया, कि राजपूतोंका यही हक है कि अपने बलसे बढ़कर जवाब दें, क्योंकि जिसे मरनेकी फिक्र नहीं होती, वह नफे नुकसानको नहीं विचारता; परन्तु मेरी समझमें बादशाहसे बराबरीके तौर पर मुकाबला करना ठीक नहीं है, क्यों कि पहिले भी जब बादशाह अकबरसे काम पड़ा था, तब महाराणा प्रतापसिंह और महाराणा उदयसिंहने चित्तौड़ और उदयपुर छोड़ा, और पहाड़ों में चलेगये, दिन या रातको जिस वक्त मौका पाते, छापा मारते, और बादशाही मुल्क बर्बाद करते; और जब कठिन पहाड़ोंमें फौज आती, तब घाटियोंमें मौकेसे सामना करते,

जहांपर बादशाही तोपखाने, हाथी और घोड़े बिल्कुल बेकाबू रहते थे. इन्हीं कारणोंसे बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहाने तंग होकर सुलह को ही गनीमत समझा था; इस लिये आपको भी चाहिये, कि उदयपुर छोड़कर कठिन पहाड़ोंमें पधारें, और अपने बहादुर राजपूतोंको चारों तरफसे सामना व धावा करने और बादशाही देश लूटनेका हुक्म दें. पालवी भील व ग्रासियों (भील जमींदार) को बादशाही लश्करकी रसद लूटने पर तय्यार रहनेकी ताकीद करें.

महाराणा राजसिंहको यह सलाह पसन्द आई, और उसी वक्त उन्होंने शहरकी रअग्र्यत समेत अपने कुंवर व जनानेको उदयपुरसे रवाना कराके पहिला मकाम देवी माताके पहाड़ोंमें, जो उदयपुरसे दक्षिणकी तरफ ४ कोसपर है, किया; दूसरा भोमट के जिलेमें कठिन पहाड़ोंके बीच नेणवारे गांवमें हुआ, और इसी जगह मेवाड़ व मारवाड़के राजपूतोंके बालबच्चे और दोनों देशकी प्रजा रही. इन सबकी हिफाजतका भार महाराणा ही पर था. बड़े कुंवर जयसिंह चारों तरफकी फौजोंकी मददके लिये तेरह हजार सवारों समेत मुकर्रर हुए.

बदनौरके ठाकुर सांवलदास राठौड़, देसूरीके विक्रमादित्य सोलंखी और घाणेरावके मेड़तिया ठाकुर गोपीनाथको देसूरी, घाणेराव और बदनौर तक के पहाड़ी जिलोंकी तरफ तईनात किया; प्रधान साह दयालदास मालवेकी फौजोंके हम्ले सेकने को तय्यार रहा; दूसरे कुंवर भीमसिंहको एक फौजका हाकिम बनाकर गुजरातकी तरफ भेजा; और औरंगना, पानड़वा, जवास, मादड़ी वगैरह के भील सर्दारोंको हुक्म दिया कि अपने जिलेके भीलों समेत तीर कमान लेकर घाटों और नाकोंका बन्दोबस्त करें, और रसद लूट लूटकर हमारे पास पहुंचावें.

मेवाड़ में तो इस तरह पर लड़ाई का बन्दोबस्त हुआ, और बादशाह ने जब मांडलसे कूच किया, उसी वक्त दैबारी के घाटेसे आदमियोंके उठजाने और महाराणाके उदयपुर छोड़कर पहाड़ों में चलेजाने की खबर मिली, फिर अमीनखाने अर्ज किया, कि मेरे नौकर पहाड़ोंपर चढ़कर देखआये हैं, उदयपुरके आसपास कोई आदमी नजर नहीं आता.

इस बारेमें खफीखाने लिखा है कि उदयपुरके राणाने उदयपुरको मण्गिर्द नवाहके खुद वीरान करदिया. निदान बादशाह बहुतसी फौजके साथ विक्रमी माघ कृष्ण ८ [हि० ता० २२ जिल्हिज = ई० ता० २५ जैन्वूअरी] को दैबारीके बाहर आपहुंचा, और शाहजादह आजम व खानेजहां बहादुर को देखनेके लिये उदयपुर भेजा.

यका ताजखां और रूहुल्लाखांको मन्दिरों और मूर्तियोंके तोड़नेके लिये हुक्म

मिला. जब ये लोग उदयपुर पहुंचे, तो अक्बर बारहठ नरू मारागया, जिसका हाल इस तरह पर है- कि महाराणा राजसिंहके पहाड़ोंमें जाने बाद सर्दार लोग अपने अपने बाल बच्चोंको लेकर उदयपुरसे रवाना होतेजाते थे, उस समय महाराणाके बारहठ (१) नरूको किसी आदमीने ताना दिया कि, “जिस दर्वाजे पर नरूजीने बहुतसे दस्तूर (नेग) लिये हैं, उसको लड़ाईके वक्त कैसे छोड़ेंगे”. नरूने उससे तो कुछ भी न कहा, लेकिन आप अपने बालबच्चोंको महाराणाके पास भेजकर चुनेहुए बीस आदमियों समेत उदयपुरमें महलोंके दर्वाजेके साम्हने श्री जगन्नाथरायजीके मन्दिरमें जा बैठा. जब यक्का ताजखां और रूहुल्लाखां फौज समेत मन्दिरके पास आये, तो जगन्नाथरायजीके मन्दिरकी उत्तरीय खिड़कीसे एक एक आदमी निकलने और मरने मारने लगा. इसी प्रकार जब बीसों आदमी मुकाबला करके मरचुके, तब नरू बाहर आया, और बड़ी बहादुरीसे लड़कर मारागया, जिसका चबूतरा मन्दिरके पास बड़के पेड़के नीचे अब तक मौजूद है. इस मुआमलेका मारवाड़ी भाषामें एक गीत छन्द (२) मशहूर है.

बादशाहने शाहजादह मुहम्मद अकबरको चालीस हजारकी कीमतका सर्पेच देकर विक्रमी माघ कृष्ण १० [हि० ता० २४ जिल्हज = ई० ता० २७ जैन्वूअरी] को उदयपुरकी तरफ भेजा, और हसन अलीखांको बहुत बड़ी फौज देकर महाराणा का पीछा करनेके लिये पहाड़ोंकी तरफ रवाना किया.

(१) “बारहठ” उन चारणों को कहते हैं जिनको, कि राजपूत लोग अपनी पौल का नेग देते हैं, यानी दुलहा ब्याहनेको आवे तो दुलहनके बापका चारण दर्वाजे पर खड़ा रहता है, और दुलहा हाथी या घोड़े पर चढ़कर तोरण बांधता है, उस हाथी वा घोड़ेका हक उसी चारणका होता है. “बार” दर्वाजेको कहते हैं, और दर्वाजे पर हठ करके अपना नेग लेनेसे “बारहठ”का पद चारणों में अक्सर होता है, और बच्चोंकी पैदाइशके वक्त भी ये लोग नेग लेते हैं.

(२) कहियो नरपाल आविया कटकां । धूण छड़ाल धरापै धौल ॥
 पौल बड़ा गज बाज पामतो । पड़तै भार न छोड़ूं पौल ॥ १ ॥
 राजड़ कियो राण छल रूड़ो । कानों दे नीसरुं कठै ॥
 अर घोड़ो फेरण किम आवे । तोरण घोड़ो लियो तठै ॥ २ ॥
 आरवा पीला करे ऊजला । सौ दो रोदां कलह सन्न ॥
 करग मांडिया नेग कारणै । कलम खांडिया नेग कज ॥ ३ ॥
 उदयपुर सौदे अजरायल । कलमां हूं भारत कियो ॥
 हत लेतो आवे दरवाजे । देबल जावे मरण दियो ॥ ४ ॥

मीर बख्शी सर्बलन्दखां बीमार होकर मरगया, उसकी जगह रूहुल्ला-
खां मीर बख्शी बनायागया, और रूहुल्लाखांकी जगह तोपखानहका दारोगा सलाबतखां
मुकर्रर हुआ; तहवुरखांको “बादशाह कुलीखां” का खिताब मिला.

विक्रमी १७३६ माघ शुक्ल ४ [हि० १०९१ ता० २ मुहर्रम = ई० १६८०
ता० ५ फेब्रुअरी] को बादशाह उदयसागर की पालपर आये, और महाराणा
उदयसिंह के बनवाये हुए तीन मन्दिरोंको गिरवादिया. यहां ही मालूम हुआ,
कि महाराणाकी फौजपर हसन अलीखांने विक्रमी माघ शुक्ल १ [हि०
ता० २९ जिल्हज = ई० ता० २ फेब्रुअरी] के दिन हम्ला किया, जिससे डरे
और अनाज वगैरह बहुतसा सामान हसन अलीखांके हाथ आया. फिर विक्रमी
माघ शुक्ल ९ [हि० ता० ७ मुहर्रम = ई० ता० १० फेब्रुअरी] को हसन अलीखां
महाराणाकी फौजसे छीनेहुए सामानके बीस ऊंट लदवाकर बादशाह के पास
हाजिर हुआ. इसके बाद अर्ज कीगई कि उदयपुरमें बड़े मन्दिरोंके सिवाय १७२
मन्दिर तोड़ेगये; इस पर खुश होकर हसन अलीखां को “हसन अलीखां बहादुर
अलमगीर शाही” का खिताब दिया. विक्रमी माघ शुक्ल १० [हि० ता० ८
मुहर्रम = ई० ता० ११ फेब्रुअरी] को खानेजहां बहादुरको खिलअत,
जड़ाऊ खंजर और सोनेके सामान समेत घोड़ा देकर मन्दसौरकी तरफ भेजा.

विक्रमी फाल्गुण शुक्ल ३ [हि० ता० १ सफ़र = ई० ता० ५ मार्च]
को बादशाहने चित्तौड़की तरफ कूच किया, और वहां पहुंचकर ६३ मन्दिर
तुड़वा डाले. विक्रमी फाल्गुण शुक्ल ७ [हि० ता० ५ सफ़र = ई० ता० ९ मार्च]
को खानेजहां बहादुर चित्तौड़ आया, जिसे विक्रमी फाल्गुण शुक्ल ११ [हि० ता०
९ सफ़र = ई० ता० १३ मार्च] को दक्षिणकी सूबेदारी मिली. इसके पीछे
हाफिज़ मुहम्मद अमीनखांको खिलअत और हाथी देकर अहमदाबादकी तरफ
रवाना किया. विक्रमी फाल्गुण शुक्ल १४ [हि० ता० १३ सफ़र = ई० ता० १६
मार्च] को शाहज़ादह मुहम्मद अक्बरको बहुतसी फौज समेत चित्तौड़के किले
पर रहनेका हुक्म दिया, और हसन अलीखां व रजियुद्दीनखां वगैरह सर्दारोंको भी
शाहज़ादहके मातहत किया. इसके बाद विक्रमी फाल्गुण शुक्ल १५ [हि० ता० १४
सफ़र = ई० ता० १७ मार्च] को बादशाह चित्तौड़से अजमेरको चला, और
मुकर्ररखांको बदनौरका फसाद दूर करनेके लिये भेजा.

विक्रमी १७३७ चैत्र शुक्ल ३ [हि० १०९१ ता० १ रबीउलअव्वल
= ई० १६८० ता० २ एप्रिल] को बादशाह अजमेर पहुंचा, उस वक्त
तोपखानहका दारोगा सलाबतखां किसी कुसूरके सबब मन्सबसे बर तरफ हुआ,

और हामिदखां, सोजत व जैतारणकी तरफके फसाद दूर करनेको भेजा गया. विक्रमी आषाढ़ कृष्ण १२ [हि० ता० २६ जमादियुल्अव्वल = ई० ता० २५ जून] को मुहम्मद अक्बरकी जगह शाहजादह मुहम्मद आजमको चित्तौड़ भेजा, जो विक्रमी आषाढ़ शुक्ल ९ [हि० ता० ७ जमादियुल्अखिर = ई० ता० ७ जुलाई] को चित्तौड़ पहुंचा, और शाहजादह मुहम्मद अक्बर इस बेजा तब्दीलीके सबबसे नाराज होकर सवारीमें ही बड़े भाईसे मिलनेके बाद सोजत व जैतारणकी तरफ चला गया. आंबेरमें ६६ मन्दिरोंको तोड़कर विक्रमी भाद्रपद कृष्ण १० [हि० ता० २४ रजब = ई० ता० २१ ऑगस्ट] को अबतुराब, अजमेरमें बादशाहके पास आया. इसके बाद बादशाहने खिदमतगुजारखांको चित्तौड़की बस्ती-गरी और वाकिआ नवीसी दी, फिर गजनफरखां और मुहम्मद शरीफको बहुतसे बन्दूकची व ४०० सवारोंके साथ राजसमुद्र तकके मकाम (१) मुकर्रर करनेको भेजा.

विक्रमी मार्गशीर्ष कृष्ण १२ [हि० ता० २६ शव्वाल = ई० ता० २० नोवेम्बर] को हामिदखां मेड़तेकी बगावत मिटानेको रवाना हुआ.

रूहुल्लाखां विक्रमी मार्गशीर्ष शुक्ल ३ [हि० ता० १ जिल्काद = ई० ता० २६ नोवेम्बर] को शाहजादह मुहम्मद अक्बरके पास सोजतकी तरफ भेजा गया, और इसी दिन मुगलखांको सांभर और डीडवाणेकी हिफाजतके लिये भेजा. विक्रमी पौष कृष्ण ४ [हि० ता० १८ जिल्काद = ई० ता० ११ डिसेम्बर] को मुहम्मद नईम शाहजादह कामबस्तीका बस्ती भी अपनी जमइयतके साथ शाहजादह मुहम्मद अक्बर के पास गया. इसी दिन भदौरिया उद्योतसिंहको चित्तौड़की किलेदारी मिली. विक्रमी पौष शुक्ल ८ [हि० ता० ६ जिल्हिज = ई० ता० ३० डिसेम्बर] को राठौड़ राजसिंह और पृथ्वीसिंहको बादशाहने दो दो हजार रुपया इनआम दिया.

यह ऊपर लिखा हुआ बयान 'मआसिरे आलमगीरी' से लिया है, परन्तु 'मुन्त-खबुल्लुबाब' में खफीखां इस तरह पर लिखता है—

बादशाह आलमगीर उदयसागर तालाब पर थे, और शाहजादह आजमकी फौज राठौड़ोंको मारने और कैद करनेमें मशगूल थी, गल्लेको मेवाड़में जानेसे रोकती, और खेती बर्बाद करती थी. महाराणा राजसिंहकी मददके लिये महाराजा जशवन्तसिंहके पच्चीस हजार सवार एकट्टे होगये. उन्होंने तेजीके साथ बादशाही फौजसे मुकाबला किया, कई बार शाही फौजकी रसद लूटी; एक बार दो ढाई हजार शाही फौजके सवारोंको धोखा देकर पहाड़ोंमें

(१) इन मकामोंके मुकर्रर करनेसे मालूम होता है कि फिर आलमगीरका इरादह अजमेरसे उदयपुरकी तरफ जानेका था, या शाहजादहको सुलहके लिये भेजनेका.

ले गये, जहां खूब लड़ाई हुई, और शाही मुलाजिम मारे गये; बहुतों का तो पता तक नहीं मिला; इस पर बादशाही सदर्कोंको बहुत गुस्सा पैदा हुआ, और एक दम लड़ाई करनेका विचार किया. राजपूतोंने भी रसद लूटनी बन्द करके पहाड़ और घाटियोंको रोककर रात बिरात बेखबर पाकर छापा मारना शुरू किया. बादशाही मुलाजिम तहवुरखाने राजपूतोंकी बस्तियोंको उजाड़कर मकानोंको गिराया, दरस्तों व बागोंको काटडाला, और बाल बच्चे, स्त्री, वगैरह, जो पाये, कैद किये; ऐसे ही अहमदाबादके सूबेदार मुहम्मद अमीनखाने भी अक्सर राजपूतोंको मार कर हटादिया.

इस जमानेका अब व्योरेवार ठीक ठीक हाल मिलना कठिन है, अगर्चि फ़ार्सी तवारीखोंसे सिलसिलेवार हाल मिलता है, परन्तु खुशामदसे भरा हुआ है, जैसे कि 'मिराते अहमदी' की पहिली जिल्दके ४६२ पृष्ठमें लिखा है—कि, “जिस वर्ष बादशाही ज़बर्दस्त फ़ौज राजपूतानह के सदर्कों और खास कर राणाके धम्काने व पीछा करने पर मुकर्र थी, राजपूत लोग घरोंको छोड़ कर पारेकी तरह उछलते, और एक जगह नहीं ठहर सक्ते थे. दूसरे—हजरत बादशाह थोड़े दिनोंके लिये चित्तौड़में ठहरे थे, उस वक्त भीमसिंह राणाका छोटा बेटा बादशाही फ़ौजके डरसे एक फ़ौजकी टुकड़ीके साथ तंग पहाड़ोंसे निकल कर गुजरातके इलाके को भागा, और वहां जाकर कमअच्छीसे बड़नगर वगैरह कस्बे और गांवोंको लूटने बाद फिर पहाड़ोंमें चलागया”.

अब सोचना चाहिये कि यदि महाराणाके छोटे कुंवर भीमसिंह डरे होते, तो पहाड़ों को छोड़कर साफ़ मुल्क गुजरातमें क्यों जाते, फिर डरके मारे तो उधर गये, और वहां जाकर गांव और कस्बा लूटा. तीसरे—जिन पहाड़ोंसे डरकर भागे थे, गांव वगैरह लूटकर फिर उन्हींमें आघुसे. सिर्फ़ इस लिखावटसे ही 'मिराते-अहमदी' वालेकी तरफ़दारी और खुशामद लोगोंके ध्यानमें आजायगी.

अब जो राजपूतानह के बड़वा भाटों अथवा स्यात व शाइरोंकी पुस्तकों पर तबज़ुह कीजाय, तो वे भी घमंड और शैखीसे खाली नहीं हैं. इसके सिवाय फ़ार्सी तवारीखों ही से काम लें तो उनमें मुसल्मानोंकी शिकस्त और राजपूतोंकी कारगुजारी का जिक्र नहीं मिलता. निदान यही सोच विचार कर राजपूत लोगोंका बाकी हाल राजसमुद्रकी प्रशस्तियों, पत्रों और पुस्तकोंसे, जो उसी वक्तकी हैं, छांट छांटकर लिखा जाता है.

यह एक बात इस देशके लोगोंकी ज़बानी सुनीगई है, कि महाराणा राजसिंह

ने राजसमुद्र तालाबकी पाल तोड़नेके इरादेपर आलमगीरकी अवाई सुनकर उसी जगह लड़ाईका इरादह किया था, इसपर कुल सर्दारोंने मुनासिब समझकर महाराणाको तो मना किया, और आप सब लोग लड़नेके लिये पालपर जा जमे, लेकिन सीसोदिया गरीबदास कर्णसिंहोतके बेटे श्यामसिंहने, जो बादशाही फौजमें था, अर्जी लिख भेजी, कि बादशाह तालाबको उम्दह बना हुआ देखकर उसकी पालको हर्गिज नहीं तुड़ावेगा, और अपने राजपूत सर्दारोंके नाहक मारे जानेसे आगेको तकलीफ उठानी पड़ेगी, इसलिये दरबारके पालपर रहनेके वक्त जैसी होती है, वैसी तय्यारी करादीजावे, और सर्दारोंको बुला लिया जावे. यह सलाह पकी होनेपर सर्दारोंके नाम बुलावेका कागज़ लिखा गया, उसमें सब सर्दारों के नाम, जो पालपर मौजूद थे, लिखे, लेकिन बणौलके ठाकुर सांवलदास (१) के भाई राठौड़ अनन्दसिंहका नाम भूलसे रहगया.

यह पत्र आने पर सब लोग महाराणाके पास चलेगये, और राठौड़ अनन्दसिंह अपने कितने एक साथियों समेत बादशाही फौजसे लड़कर पालपर ही मारा गया, जिसकी छत्री महाराणाने बनवाई, जो अबतक मौजूद है.

बादशाहने तालाब और पालकी खूबसूरती और तय्यारी देखकर उसका कुछ भी बिगाड़ न किया.

जब आलमगीर बादशाह मांडलसे रवाना होकर उदयसागरके पास पहुंचा, तो पहिले रास्तेमें राजसमुद्र तालाबके पास मंगरोप महाराज सबलसिंह पूरावत, भींडरके महाराज मुद्कमसिंह शक्तावत और कई चूंडावत सर्दारोंने शाही फौजपर छापा मारा; इससे बीस नामी राजपूत कई बादशाही मुलाजिमों को मारकर मारे गये.

चीरवेके घाटेके पास, जहां शाहजादह अकबर और तहवुरखां ठहरे हुए थे, भाला प्रतापसिंहने छापा मारा, और शाहजादहकी फौजसे दो हाथी लेजाकर महाराणाको नज़ किये. इसी तरह भदेसरके जागीरदार बल्ला राजपूतोंने भी कई बार छापा मारा.

बादशाह आलमगीरने नीचे लिखे हुए मकामों पर थाने बिठाये—

चित्तौड़, पुर, मांडल, मांडलगढ़, बैराठ, भैंसरोड़, नीमच, चलदू, सतखंडा, जीरण, ऊंटाला, कपासण, राजनगर और उदयपुर.

(१) इस सांवलदासके बेटे कृष्णदासको महाराणा जगत्सिंहने कैलवा जागीरमें दिया था, जो

अबतक उसकी औलादके कब्जेमें है.

कुंवर उदयभान और अमरसिंह चहुवानने २५ सवारोंके साथ उदयपुरके शाही थानेपर छापा मारा; और सहीह सलामतीसे निकलकर माल अस्बाब, जो हाथ आया, महाराणाको नज़ किया— इन्हें महाराणाने खुश होकर १२ ग्राम इनायत किये.

घाणोराबके ठाकुर मेड़तिया राठौड़ गोपीनाथ और देसूरीके ठाकुर सोलंखी विक्रमादित्यने बड़ी बहादुरीके साथ इस्लामखां रूमीको, जो १२ हजार फौज लिये आता था, रोका, और घाटेमें नहीं घुसने दिया, खूब लड़ाई हुई, आखिर इस्लामखां रूमी शिकस्त खाकर हटगया. महाराणाने चार हजार फौजके साथ कुंवर भीमसिंहको गुजरातकी तरफ भेजा, इन्होंने बड़नगरके जिलेको लूटा, और तीन सौ छोटी मस्जिदें तुड़वा डालीं, फिर बड़नगरके निवासियोंसे फौज खर्चके चालीस हजार रुपये लेकर पहाड़ोंमें चले आये; हसनअलीखां जंगी फौज लेकर पहाड़ोंमें घुस आया, और ऊंदरी, पेई, कोटड़ा और गोरणाकी नालमें होताहुआ भाड़ौल पहुंचा.

महाराणाने रावत रत्नसिंह चूंडावत कृष्णावत रघुनाथसिंहोत, सलूंबर व पारसौलीके चहुवान राव केसरीसिंह, चूंडावत रावत महासिंह मेघावत राजसिंहोत और डोडिया ठाकुर नवलसिंह, चारोंको एक फौजके साथ लड़नेके लिये भेजा. इन्होंने रातमें दुश्मनकी फौज पर छापा मारा.

राजसमुद्रकी प्रशस्तिमें हसनअलीखांके साथ दूसरे सर्दार अब्दुल्लाखांका नाम लिखा है, परन्तु फ़ार्सी तवारीखोंमें इसका नाम कहीं नहीं है. अल्बत्ता यक्का ताजखां, जिसे कि आलमगीरने उदयपुरके मन्दिर तोड़नेपर मुकर्रर किया था, उसके तीन बेटोंमेंसे एक का नाम अब्दुल्लाखां था, शायद वही हसनअलीखांके साथ हो.

इस लड़ाईसे शाही फौजका ज़ियादह नुक़सान हुआ, और हसनअलीखां जान लेकर बादशाहके पास पहुंचा. डोडिया ठाकुर नवलसिंह अपने बेटे मुहकमसिंह और कृष्णसिंह समेत इस लड़ाईमें बड़ी बहादुरीके साथ काम आया. महाराणाने नाही, व कोटड़े ग्राममें आकर अपने सब सर्दारोंको हुक्म दिया, कि मेवाड़में, जो मुसलमानोंने थाने बिठाये हैं, एक दम सब उठा दो.

बादशाह अपनी फौजका नुक़सान सुनकर उदयपुरसे चित्तौड़की तरफ़ रवाना होगया.

बान्सीके रावत केसरीसिंहके बेटे गंगादास शक्तावतको महाराणाने शाही फौज के पीछे भेजा; उसने जाते ही हाथियोंके गिरोहपर छापा मारा, नौ हाथी छिन लाया,

और महाराणाको नज़र किये (१). आलमगीर तीसरे शाहजादह अकबरको अपनी जगह छोड़कर चित्तौड़से अजमेरको चल दिया.

महाराणाने बदनौरके ठाकुर सांवलदास राठौड़को कुछ फौज देकर बदनौरकी तरफ भेजा, जिसने रूहुल्लाखां पर फतह पाई, महाराणाने बड़े कुंवर जयसिंहको तेरह हजार सवार और छब्बीस हजार पैदल देकर चित्तौड़की तरफ शाहजादह अकबरसे लड़नेको भेजा. कुंवरने विक्रमी १७३७ आषाढ़ [हि० १०९१ जमादियुस्सानी = ई० १६८० जुलाई] को सादड़ीके भाला चन्द्रसेन, बेदलाके राव सबलसिंह चहुवान, रावत रत्नसिंह चूंडावत, बान्सीके कुंवर गंगादास शक्तावत, बीजोल्याके पुंवार वैरीशाल, बान्सीके रावत केसरीसिंह, भींडरके महाराज मुहकमसिंह शक्तावत, सलूंवर व पारसौलीके राव केसरीसिंह चहुवान, महाराज भगवन्तसिंह, कोठारियाके रावत रुक्माङ्गद चहुवान, राव रत्नसिंह खीची, आमेटके चूंडावत रावत मानसिंह, शक्तावत रावत मुहकमसिंह, चूंडावत रावत केसरीसिंह, चूंडावत माधवसिंह, शक्तावत कान्हजी, बगैरह सर्दारोंको दस हजार सवार और दस हजार पैदल देकर चित्तौड़की तलहटीमें शाहजादहकी फौजपर हंम्ला करनेको भेजा. उस वक्त अंधेरी रात और पानीकी बूंदें गिरती थीं; राजपूत लोग एक दम टूट पड़े, किसीने सामना किया, कोई यों ही भागा, बहुतसे आदमी आपस हीमें लड़ मरे. राजपूतोंने खूब दिल खोलकर तलवार, कटार, और बछोंसे सवाल जवाब किये. फिर हाथी, घोड़ा, डेरा, अस्बाब, नक़ारा निशान, जो हाथ आया, लूट लिया; और सूर्य निकलनेसे पहिले कुंवर जयसिंहके पास चलेआये.

(१) इस लड़ाईके बारेमें कर्नेल् टॉड लिखता है, कि बादशाह आलमगीरकी सर्केशियन बेगमको महाराणा राजसिंहने गिरिफ्तार किया, और उसको बहिन बनाकर वापस बादशाहके पास भेजदिया. इसके सिवाय नाथद्वारेके गोसाइयों की 'प्रागट्य' नाम पुस्तकमें भी लिखा है, कि आलमगीरकी रंगी चंगी बेगमको महाराणाने गिरिफ्तार किया था, लेकिन हमको इन लेखोंके सिवाय और कोई पुस्तक सुबूत नहीं मिला है. नाथद्वारेकी पुस्तकमें औरंगजेबकी बेगम औरंगाबादीको बिगाड़ कर रंगी चंगी लिखा हो तो वह बेगम बादशाहके उदयपुरसे अजमेर पहुंचनेके बाद आगरेसे अजमेरमें विक्रमी १७३७ ज्येष्ठ कृष्ण २ [हि० १०९१ ता० १६ रबीउस्सानी = ई० १६८० ता० १७ मई] को आई थी— शायद बादशाहके आते जाते वक्त कोई दूसरी बेगम पर यह हाल गुजरा हो तो मालूम नहीं, क्योंकि निर्मूल बातकी ज़ियादत प्रसिद्धि नहीं होती, और यह बात बहुत मद्धूर है, और फ़ार्सी तवारीखोंका इस बातसे एतिबार नहीं है कि उन्होंने मुसल्मानोंकी शिकायतें बिल्कुल छोड़ दीं.

कुंवरने इन लोगोंकी तारीफ़ करके हिम्मत दिलाई, और इज़त बढ़ा बढ़ा कर जागीरें दीं; लूटे हुए सामानमें से, जो रखनेके लायक़ था, लिया; बाकी इन्हीं लोगोंको बांट दिया.

इसके बाद कुंवर जयसिंह अपने साथी सर्दारों समेत पूर्वी पहाड़ोंमें ठहरकर यहांसे मालवा वगैरह बादशाही मुल्कोंको नुक़सान पहुंचाते रहे, परन्तु बर्सातका मौसम आजानेके सबब लड़ाईपर ज़ियादत ज़ोर नहीं दिया, और बादशाही तरफ़से भी हमला न हुआ. कुंवर जयसिंहकी इस हमला आवरीका हाल फ़ार्सी तारीख़ वालोंने बिल्कुल छोड़दिया, शाहज़ादह अकबरके एवज़ आजमको चित्तौड़ भेजना, और अकबरका नाराज़ होकर मारवाड़की तरफ़ जाना, इस लड़ाईके हालको ज़ाहिर करता है; क्योंकि आलमगीरने नाराज़ होकर अकबरकी बदली की होगी. इस बड़ी लड़ाईके सिवाय इन महाराणाका और कोई हाल जिसके ख़त्म होनेसे पहिले वह गुज़रगये, लिखनेके लायक़ नहीं मिलता.

विक्रमी १७३७ कार्तिक शुक्ल १० [हि० १०९१ ता० ८ शव्वाल = ई० १६८० ता० ३ नोवेम्बर] को महाराणा राजसिंहने कुंभलगढ़ परगने नलाके ग्राम ओड़ा में इन्तिकाल किया. इनके देहान्तकी बाबत अक्सर लोगोंका खयाल है, कि उनको ज़हर दियागया.

रईस, आदमी बीमार होकर मरे तो जादूसे जान देनेका शुब्ह, और एकदम किसी बीमारीसे प्राण निकल जाय तो ज़हर देनेकी फ़र्याद होती है, परन्तु किसी वक्त बेशक बे ईमान लोग ज़हर देकर भी अपने मालिकको मार डालते हैं. बहुतसे लोग इनको विष देनेके बारेमें यह कारण बताते हैं. पहिला- तेज़ मिज़ाज़ीके सबब सब लोगोंकी नाराज़गी; दूसरे- महाराणाका यह विचार था कि राणी, कुंवर, पुरोहित, और बारहठके मार डालनेका पाप दूर करनेके लिये लड़ाईमें माराजाना, चाहिये; इससे लोगोंकी यह राय थी, कि इन्हें तो आप पाप उतारना है, लेकिन दूसरे हजारों आदमियोंकी जान देकर देशको क्यों बर्बाद करते हैं.

तीसरे- आलमगीर और उसके बेटोंके मुवाफ़िक़ इन महाराणाके कुंवर भी उनके स्वभावसे कांपते थे, कि हमारी जान भी कभी ख़तरेमें न आजावे, क्योंकि कुंवर सुल्तानसिंहको महाराणाने मारडाला था, और कुंवर सर्दारसिंह भी ज़हर खाकर मरगये थे. अगर इन ऊपर लिखी हुई बातोंसे महाराणाको विष दियागया हो तो तअज़ुब नहीं है, और दूसरी यह बात भी ज़हर देनेकी ताईद करती है कि महाराणाने हुक्म दिया कि कोठारियासे पूर्व चौगान (मैदान) में तलवार, बर्छे और

कटासे लड़ मरना उचित है- यही सोचकर शाहजादह आजमको लिख भेजा, उसने भी खुशीसे कुबूल करके लड़ाईकी तय्यारी की, क्योंकि इसे महाराणापर फतह पानेकी बहुत आर्जू थी. आखिरकार बादशाही फौज रुक्मगढ़के पास आपहुंची, परन्तु महाराणाको सब मुसाहिबोंने रोका और कहा, कि अपनी सब फौज पहिले एकट्ठी कर ली जावे, फिर लड़ना चाहिये. इसपर महाराणाने कहा, कि मुसल्मानोंको मैं बुलवा चुका हूं, उनसे झूठा पडूंगा; जिसपर कोठारियाके रावत रुक्माङ्गदने कहा, कि आपके एवज बादशाही फौजसे मैं लडूंगा, और यह बहादुर सदाँर उसी प्रकार अपने राज-पूतों समेत लड़नेको जा पडूँगा; बड़ी बहादुरीके साथ लड़ाई की (१). इसके बाद महाराणा नेणवारा ग्रामसे निकलकर कुंभलमेर जाते थे, सुबहके वक्त ओड़ा नाम ग्राममें पडूँचे, वहां खिचड़ी तय्यार करवाई, और दधिवाड़िया चारण खेमराजके बेटे आशकरणको, जिसे महाराणा भाई कहकर पुकारते थे, साथ लेकर भोजनको बैठे, थोड़ी देरके बाद दोनोंका देहान्त होगया.

इसी बातपर एक कविका मारवाड़ी भाषामें बनायाहुआ दोहा इस तरह मशहूर है:-

दोहा.

ओड़ै रतन संघारिया । राजड़ आश करन्न ॥

ऊ हिंदवाणी पातशा । ऊ पातशा बरन्न ॥ १ ॥

इनका जन्म विक्रमी १६८८ कार्तिक कृष्ण २ [हि० १०४१ ता० १६ रबीउलअव्वल = ई० १६३१ ता० १२ अक्टोबर] को मेड़तिया राठौड़ राजसिंहकी बेटी जनादे बाईसे हुआ था.

इन महाराणाका छोटा कद, बड़ी आंखें, चौड़ी पेशानी और गेहुआंरंग था; मिजाज तेज व सख्त, लेकिन किसी किसी मौकेपर रहम भी करते थे, ऐश आराम व फय्याजी जियादह पसन्द थी; दूसरेकी सलाहपर कम चलने वाले और खुद बहादुर थे. इनके समयमें प्रजा प्रसन्न और खजाना भरपूर था, धर्मके पक्के और आक़िबत (परलोक) का पूरा विचार रखते थे.

इन्होंने ब्राह्मणोंको बहुतसा दान दिया, और लाखों रुपया चारण आदि

(१) कोठारिया वालोंके बयानसे रुक्माङ्गदका इसी लड़ाईमें माराजाना जाहिर होता है, परन्तु महाराणा जयसिंहकी जब आलमगीरसे सुलह हुई, तब उसका उस वक्तके कागज़ोंसे जिन्दा होना साबित है, इससे मालूम होता है, कि ज़रूमी होकर बचा, या छाप मारकर चला आया होगा.

कवियोंको इनायत किया था. (१) इनके खौफसे मुलाजिम हमेशाह डरे हुए रहते थे, तो भी राजपूत लोग सच्चे खैरस्वाह और बहादुर थे.

इन महाराणाके महाराणियां नीचे लिखे अनुसार थीं:-

- १ बूंदीके राव शत्रुशालकी बेटी महाराणी हाड़ी कुंवरंबाई.
- २ राव मनोहरदासकी बेटी महाराणी भटियाणी कृष्णकुंवर.
- ३ राठौड़ राव कल्याणदासकी बेटी महाराणी राठौड़ आनन्द कुंवर.
- ४ भाला बिजयराजकी बेटी महाराणी भाली केसर कुंवर.
- ५ बीभोल्यांके पुंवार राव इन्द्रभाणकी बेटी महाराणी पुंवार सदा कुंवर.
- ६ भाला बिजयराजकी बेटी महाराणी भाली रूपकुंवर.
- ७ बीरपुरा जशवन्तसिंहकी बेटी महाराणी बीरपुरी दुर्गावतां.
- ८ बेदलाके पूर्विया चहुवान राव रामचन्द्रकी बेटी महाराणी चहुवान जगीस कुंवर जिनके पुत्र राजा भीम हुए.
- ९ पुंवार जुभारसिंहकी बेटी महाराणी पुंवार बदन कुंवर.
- १० चहुवान राव पृथ्वीराजकी बेटी महाराणी चहुवान रत्नकुंवर.
- ११ भाला कर्णसिंहकी बेटी महाराणी भाली पैप कुंवर.
- १२ सादड़ीके भाला रायसिंहकी बेटी भाली रत्नकुंवर.
- १३ पुंवार दयालदासकी बेटी महाराणी पुंवार आसकुंवर.
- १४ खीची राव मानसिंहकी बेटी महाराणी खीचण सूरजकुंवर.
- १५ राठौड़ जोधसिंहकी बेटी महाराणी राठौड़ हरकुंवर.

(१) यह महाराणा आप भी कविता करते थे, जिन्होंने एक छप्पय अपना कहा हुआ राज समुद्र तालाबकी पालपर महलके गोखड़ेकी पूर्वी फेटमें खुदाया था, महाराणा श्री सज्जनसिंहके समयमें जब कि मरम्मत की गई, तो कारीगरोंने भूलसे उन अक्षरोंपर कलई फेर दी, जिससे वह अब साफ नहीं पढ़े जा सके.

छप्पय,

कहां राम कहां लखण ।	नाम रहिया रामायण ।
कहां कृष्ण बलदेव ।	प्रगट भागोत पुरायण ॥
बालमीक सुक व्यास ।	कथा कविता न करंता ।
कृष्ण सरूप सेवता ।	ध्यान मन कवण धरंता ॥
जग अमर नाम चाहो जिके ।	सुणो सजीवण आखरां ।
राजसी कहै जग राणरो ।	पूजो पांव कवीसरां ॥ १ ॥

१६ कृष्णगढ़के राजा रूपसिंहकी बेटी महाराणी राठौड़ चारुमती बाई.

१७ पुंवार जुभारसिंहकी बेटी महाराणी पुंवार रामरसदेकुंवर, जिनके पुत्र महाराणा जयसिंह हुए.

१८ जैसलमेरके भाटी राबल सबलसिंहकी बेटी महाराणी भटियाणी चन्द्रमती बाई, जिनके पुत्र इन्द्रसिंह, गजसिंह, सुल्तानसिंह, सर्दारसिंह, बहादुरसिंह, और कन्या अजबकुंवर बाई थी.

ये १८ महाराणियां और आठ कुंवर थे, जिनमें से कुंवर सूरतसिंहकी माता का नाम मालूम नहीं कि कौनसी महाराणीसे थे.

महाराणी राठौड़ चारुमती बाई कृष्णगढ़के राजा रूपसिंहकी बेटीने एक बावड़ी राजनगरमें पश्चिमकी तरफ बनवाई, और उसकी प्रतिष्ठा विक्रमी १७३२ [हि० १०८६ = ई० १६७५] में हुई थी, देवारीके भीतर भरणाकी सरायके पास त्रिमुखी बावड़ी महाराणी पुंवार रामरसदे बाईने बनवाई थी, जिसकी विक्रमी १७३३ [हि० १०८७ = ई० १६७६] में प्रतिष्ठा हुई, चौबीस हजार रुपये इस बावड़ीके बनवानेमें लगे थे- (शेषसंग्रह नम्बर ९).

महाराणा राजसिंहने कुंवरपदेमें "सर्वश्रुतु विलास" बाग, और महल बनवाया, और फिर देवारी (देवड़ावारी- देववारी मझूर) के घाटेका कोट, दर्वाजा, बावड़ी और छोटा तालाब बनवाया.

इस घाटेका कोट और छोटा दर्वाजा पहिले महाराणा उदयसिंहका बनवाया हुआ, विक्रमी १६७१ [हि० १०२३ = ई० १६१४] में शाहजादह खुर्रमने गिरवा दिया था, उसी छोटे घाटेका नाम "देववारी" इस तरह पड़ा होगा, कि या तो वहां किसी देवताका मन्दिर बनाया हो, या देवड़ा लोगोंके नामसे रक्खा गया हो.

इन महाराणाके छोटे भाई अरिसिंहकी धायने जगन्नाथरायजीके मन्दिरसे उत्तरी तरफ बाजारमें एक मन्दिर बनवाया था, जिसकी प्रतिष्ठा विक्रमी १७०० माघ शुक्ल १२ [हि० १०५३ ता० १० जिल्काद = ई० १६४४ ता० २१ जैनुअरी] को हुई- (शेषसंग्रह नम्बर १०).

बीकानेरका इतिहास.

जुग्राफिय :

[महाराणा राजसिंहने गद्दीपर बैठतेही अपनी बहिनका विवाह बीकानेरके महाराजा कर्णसिंहके कुंवर अनूपसिंहके साथ किया था, इस लिये वहांका तारीखी हाल यहां लिखाजाता है.]

बीकानेरका राज्य २७ अंश १२ कला और ३० अंश १२ कला दक्षिणोत्तर, और ७२ अंश १५ कला और ७५ अंश ५० कला पश्चिम पूर्व है; रकबा २२३४० मील मुरब्बा है. सालाना आमदनी राजपूताना गजेटियर में दस लाख पांच हजार रुपये लिखी है, जिसमें जमीनी महसूलके चार लाख पचासी हजार नौ सौ सत्तानवे रुपये हैं, बाकी दाण दण्ड वगैरहसे लिया जाता है; आबादी ५०९०२१ आदमीकी है. मुल्कमें पानी बहुत कम और रेत कस्त्रतसे है.

३५० वा ४०० फुटतक खोदनेसे कुओंमें पानी निकलता है, लेकिन किसी २ कुएका पानी ऐसा जहरीला होता है, कि आदमी या जानवर पेट भरके पीवे, तो मर जावे, इसको वहां वाले "बिराहिया" पानी बोलते हैं. बाजे मालदार आदमी पक्के हौज बनवाकर बर्साती पानी भररखते हैं. इस मुल्कमें कोई नदी नहीं है, एक छोटासा नाला शैखावाटीकी तरफसे आकर रेतमें गायब होजाता है.

यहांपर खेजड़ी, कैर, फोग, और बेरके पेड़ अक्सर होते हैं. गल्ला जियादहतर बाजरी और मौठ होता है, इसके सिवाय तिल, मूंग भी पैदा होते हैं, और नमककी एक भील सुजानगढ़की तरफ छः मील लंबी और दो मील चौड़ी है, पर थोड़े दिनोंमें ही सूख जाती है; दूसरी बीकानेरसे ४० मील पूर्वोत्तरको है, लेकिन इन दोनों भीलोंका नमक खराब होता है, जिसको गरीब लोग ही काममें लाते हैं.

यहांकी आब हवा देसियोंके लिये किसी कद्र अच्छी, और यूरोपियन वगैरह लोगोंके लिये खराब है. मौसम गर्म और सर्द दोनों सस्त्र होते हैं, यानी सर्दके दिनोंमें पालेसे दरस्त्र जलजाते हैं, और गर्मीमें लूसे अक्सर आदमी मरजाते हैं, बर्सात बहुत कम होती है, यहांतक कि एक मेह पड़नेको कम दरजा, और दो होनेको मामूली बात, और तीन मेह पड़जानेको बहुत अच्छा समय मानते हैं.

इस मुल्कका उम्दह मेवा तबूज है, मवेशी सब किस्मके होते हैं, परन्तु ऊंट और बकरी इस मुल्कके निहायत उम्दह होते हैं.

आदमी मिहनती होते हैं, उनका खाना और पहना थोड़े खर्चमें होसक्ता है, पानीकी कमीसे गिलाजत इस दरजेपर है, कि नहाना तो दर किनार बल्कि हाथ मुंह धोनेमें भी किफायत कीजाती है.

तवारीख.

जोधपुरके राव रणमल्लके बेटे राव जोधाका छोटा बेटा बीका, जिसका जन्म विक्रमी १४९५ श्रावण शुक्ल १५ (१) [हि० ८४२ ता० १४ सफ़र = ई० १४३८ ता० ७ जुलाई] को हुआ था, विक्रमी १५२२ आश्विन शुक्ल १० [हि० ८७० ता० ८ सफ़र = ई० १४६५ ता० १ अक्टोबर] को अपने पिता जोधासे विदा होकर नई जमीनपर कब्जा करनेके लिये जांगलूकी तरफ़ रवाना हुआ; उस वक्त उसके हमराह नीचे लिखे हुए आदमी थे—

काका कांधल, काका रूपा, काका मांडण, काका मंडला, काका नाथू, भाई जोगायत, भाई बीदा, सांखला नापा, परिहार बेला साहणी; और कामदारोंमें से वैद्य लाला, लाखणसी, कोठारी चौथमल्ल, बछावत बरसिंह, पुरोहित विक्रमसी, साहूकार राठी साला वगैरह १०० सवार और ५०० पैदलकी भीड़भाड़ थी.

जब बीका देष्णोकमें पहुंचा, तो वहां उसको चारण खान्दानकी करणी नामी एक स्त्री, जिसे कि चारण लोग अपनी कुल देवीका अवतार मानते हैं, मिली; और बीकाको वरदान दिया कि तुम्हारा राज्य इस देशमें बहुत बढ़ेगा.

फिर बीका श्री करणी देवीकी इजाजतसे तीन वर्षतक चूंडासरमें, छः वर्ष तक देष्णोक में, इसके बाद तीन वर्ष कोड़मदेशरमें, और दस वर्ष जांगलूमें रहा. फिर भाटियों वगैरह वहांके रहने वालोंसे लड़ाइयां कीं; एक लड़ाईमें भाटी कलकर्ण तीन सौ भाटी राजपूतों समेत मारागया, और पूंगलके भाटी शैखाने श्री करणीदेवीके समझानेसे अपनी बेटी बीकाको ब्याहदी. इसके बाद बीकाको अपनी राजधानी और किला बनानेकी फ़िक्र हुई, तब सांखला नापा वगैरह राजपूतोंकी सलाहसे विक्रमी १५४२ [हि० ८९० = ई० १४८५] में

(१) हमको एक जन्मपत्री राव बीकाकी मिली, जिसमें विक्रमी १४९७ प्रथम श्रावण शुक्ल १५ [हि० ८४४ ता० १४ सफ़र = ई० १४४० ता० १६ जुलाई] लिखा है, लेकिन बीकानेरकी तवारीखमें विक्रमी १४९५ है, इस लिये मूलमें वही लिखा गया.

राती घाटीपर किला बनानेकी नीव डाली, और विक्रमी १५४५ वैशाख शुक्ल २ [हि० ८९३ ता० १ जमादियुल्अव्वल = ई० १४८८ ता० १५ एप्रिल] शनिवारको वहां शहर बसाकर उसका नाम बीकानेर रक्खा, और उसे अपनी राजधानी बनाया; उस वक्तका एक दोहा मारवाड़ी भाषामें बनाहुआ इस तरहपर है—
दोहा.

पनरै सै पेंतालवै । सुद वैशाख सुमेर ॥
थावर बीज थरप्पियौ । बीके बीकानेर ॥ १ ॥

इस देशपर शुरूमें जाट लोग हुकूमत करते थे, राव बीकाने उन्हें दबाकर अपने मातहत बनाया.

बीकानेरका हिन्दी इतिहास, जो कर्नेल् पाउलेट् साहिव रेजिडेण्ट मारवाड़की मारिफ़्त हमारे पास आया है, उसमें राव बीकाका तीन हजार ग्रामोंपर कब्ज़ा करना लिखा है; और कर्नेल् टॉड दो हजार छः सौ सत्तर गांवोंपर इस्तिहार होना बयान करते हैं. बीकाने भाटी, बिल्लोच और जाटोंसे छिनकर इस देशको अपने कब्ज़ेमें किया; रावको उसी चारण वंशकी श्री करणीदेवीपर जियादह विश्वास था, जिससे सारे काम उसीकी हिदायतसे करते थे.

बीकाका काका कांधल तिहत्तर वर्ष की उम्र में हिसारके सूबेदार सारंगखां (शायद इसका सहीह नाम शाहरुख होगा) से लड़कर मारागया, जिसके बदलेमें बीकाने चढ़ाई करके उस मुसल्मानको मारा.

इसी तरह अजमेरके सूबेदार मलिकखानने मेड़ताके मालिक राव जोधाके बेटे बरसिंहको अजमेरमें कैद कर दिया था, उसके भाई दूदाको बीकाने मदद पहुंचाकर बरसिंहको छुड़ाया. बीकानेर वाले मलिकखानको मांडूके बादशाहका सूबेदार बतलाते हैं, लेकिन यह लौहानी खान्दानका पठान था, और गुजरात राजस्थानमें इसका नाम मलिक यूसुफ़ लिखा है, जो पश्चिमी अफ़ग़ानोंमेंसे हिन्दुस्तानमें आया था.

जब विक्रमी १५४५ [हि० ८९३ = ई० १४८८] में राव जोधाका देहान्त हुआ, और राव सांतल मारवाड़की गद्दीपर बैठा. विक्रमी १५४८ [हि० ८९६ = ई० १४९१] में यह भी मुसल्मानोंसे लड़कर मारागया; जिसपर उसका भाई सूजा जोधपुरका मालिक बना, इस वक्त राव बीकाने जंगी फौजके साथ जोधपुरपर चढ़ाई की, क्योंकि सांतलके बाद जोधाके बेटोंमें यही सबसे बड़ा था, इसलिये जोधपुरको दबाना चाहा. वहां तो सांतलकी गद्दीपर सूजा बैठ चुका था; उसने जोधपुरके

किलेको मजदूत किया. बीकाने शहर और किलेपर घेरा डाला, आखिर इस शर्तपर फैसला हुआ, कि जो चीजें इज्जत और करामातकी समझी जाती थीं, और जो नीचे लिखी हैं, राव बीकाने लेलीं, और जोधपुरका राज मारवाड़ समेत सूजाके कब्जेमें रहा.

राव जोधाकी ढाल, तलवार, तख्त, छत्र, चंवर, और सांखला हरवूकी दीहुई ढाल, तलवार, कटार, लक्ष्मी नारायण हिरण्यगर्भ और नागणेची कुलदेवीकी मूर्ति, करंडभंवर ढोल, वैरीशाल नक्कारा, दलशृंगार घोड़ा, वगैरह. यह चीजें लेने बाद राव बीका देणोकमें श्री करणी देवीका दर्शन करके बीकानेर आया. जोधपुरके इतिहासमें इस हालको बहुत कम लिखा है.

राव बीकाने अपने काका और भाइयोंको नीचे लिखी जागीरें दीं—

कांधलका बड़ा बेटा बाघ तो लड़ाइयोंमें मारागया था, दूसरे राजसिंहको राजासर, और वनीर बाघावतको चाचाबाद और गांधूकी जागीर मिली. अरडकमल्ल कांधलोतको साहिबा जीविकामें मिला, और रूपसिंहको चाखूका परगना दियागया. काका मंडलाको सारूंडा मिला, नाथूने चानी जागीरमें पाया.

विक्रमी १५६१ आश्विन शुक्ल ३ [हि० ११० ता० १ रबीउस्सानी = ई० १५०४ ता० १४ सेप्टेम्बर] में बीकाका परलोक वास हुआ. उनके दस पुत्र थे— नरा, लूणकर्ण, घड़सी, राजसी, मेघराज, केलण, देवसी, विजयसिंह, अमरसिंह, और बीसा.

२ नराका गद्दीपर बैठना.

बड़ा कुंवर नरा गद्दीपर बैठा, जिसका जन्म विक्रमी १५२५ कार्तिक कृष्ण ४ [हि० ८७३ ता० १८ रबीउल्अव्वल = ई० १४६८ ता० ७ अक्टोबर] को हुआ था, इनका देहान्त गद्दीपर बैठनेके चार महीने बाद विक्रमी १५६१ माघ शुक्ल ८ [हि० ११० ता० ६ शरबान = ई० १५०५ ता० १५ जैनुअरी] को हुआ.

३ लूणकर्ण.

नराके कोई बेटा न होनेके कारण उनका दूसरा भाई लूणकर्ण गद्दीपर बैठा, जिसका जन्म विक्रमी १५२६ माघ शुक्ल १० [हि० ८७४ ता० ८ रजब = ई० १४७० ता० १३ जैनुअरी] को हुआ था.

विक्रमी १५६१ फाल्गुण कृष्ण ४ [हि० ११० ता० १८ शरबान = ई० १५०५ ता० २४ जैनुअरी] को गद्दी उत्सव हुआ. विक्रमी १५६६ [हि० ११५ = ई० १५०९] में ददरेवाके चहुवान बदल गये थे, जिनपर यह फौज लेकर गये. ददरेवाका मानसिंह चहुवान तीन सौ आदमियोंके साथ मारा गया; और राव लूणकर्णके एक सौ सैंतीस आदमी काम आये. ददरेवा कब्जे करके राव बीकानेर आये, और विक्रमी १५६९ [हि० ११८ = ई० १५१२] में फतहपुरके कायमखानी दौलतखांपर फतह पाकर १२० ग्राम फौज खर्चमें लिये. विक्रमी १५७० फाल्गुण कृष्ण ३ [हि० ११९ ता० १७ जिल्हिज = ई० १५१४ ता० १२ फेब्रुअरी] को महाराणा रायमल्लकी बेटी (१) से विवाह करनेको राव लूणकर्ण चित्तौड़ आये, इस शादीमें लूणकर्णने इनआम इकराममें बहुत धन लुटाया.

फिर जैसलमेरके रावल देवीदास चाचावतसे विक्रमी १५८३ [हि० १३२ = ई० १५२६] में राव लूणकर्णने लड़ाई की, देवीदास कैद हुआ, लूणकर्णने जैसलमेरके किलेको घेर लिया. इसके बाद सुलह करके राव लूणकर्ण बीकानेरको आता था, कि जैसलमेरकी मददके लिये सिंधका नवाब (२) आपहुंचा, लड़ाईके वक्त बीकानेरके भाटी और बीदावत राजपूत भाग निकले, जिससे राव लूणकर्ण विक्रमी १५८३ श्रावण कृष्ण ४ [हि० १३२ ता० १८ रमजान = ई० १५२६ ता० २९ जून] को अपने बेटे प्रतापसिंह, नेतसी, बैरसी, और पुरोहित देवीदास समेत मारे गये; इनके साथ तीन राणियां सती हुईं.

राव लूणकर्णके १२ बेटे थे १ जैतसी जो गद्दीपर बैठा, २ प्रतापसी से प्रतापसिंह-होत बीका कहलाये, ३ बैरसीके बेटे नारायणसी से नारायणोत बीका कहलाये, चौथे रत्नसीकी औलाद महाजनके ठाकुर रत्नसिंहोत बीका हैं, ५ तेजसीके तेजसिंहोत बीका, ६ नेतसी, ७ कर्मसी, ८ कृष्णसी, ९ सूरजमल्ल, १० रामसी, ११ कुशलसिंह, और बारहवां रूपसिंह था.

इनमेंसे कर्मसीने नीचे लिखेहुए दोहेपर सिरौहीके चारण बारहठ आसाको

(१) इस शादी में रायमल्लका जिन्दा होना पाउलेट साहिबके गजेटियर और बीकानेरकी तवारीखसे साबित होता है, और उन्होंने लिखा है कि महाराणा रायमल्लका कुंवर सांगा पेगु-वाईको आया; परन्तु ऐसा नहीं है, रायमल्लका देहान्त तो विक्रमी १५६५ में होगया था; यह विवाह महाराणा सांगाने अपनी बहिनका लूणकर्णके साथ किया होगा.

(२) इस नवाबका नाम बीकानेरकी तवारीख व पाउलेट साहिबके गजेटियरमें भी कुछ नहीं लिखा.

एक किरोड़का दान दिया बतलाते हैं, लेकिन किरोड़ रुपये पास नहीं थे; इसलिये अपने बेटे कीर्तिसिंहको रुपयोंके एवजमें दे दिया, जिनकी औलादके सिरोहीमें कर्मसिंहोत बीका कहलाते हैं.

दोहा.

सह दूजो संसार । माटी सूं घड़ियो महण ॥
तो घड़ियो करतार । काया हूंता कर्मसी ॥-१ ॥

४ राव जैतसी.

राव लूणकर्णकी गद्दीपर राव जैतसिंह बैठे; इनका जन्म विक्रमी १५४६ कार्तिक शुक्ल ८ [हि० ८९४ ता० ६ जिल्हज = ई० १४८९ ता० २ नोवेंबर] को हुआ था. जब राव लूणकर्ण मारेगये, तो बीदावत उदयकर्ण द्रोणपुरका ठाकुर बीकानेर लेनेके इरादहपर आया, परन्तु जैतसिंहने उसे शहरमें न आने दिया, और गादीपर बैठनेके बाद द्रोणपुर छीन लिया.

विक्रमी १५८५ [हि० ९३५ = ई० १५२८] में जोधपुरके राव गांगा बाघावत और उनके काका शैखा सूजावतके लड़ाई हुई. इस लड़ाईमें नागौरका खान दौलतखां शैखाकी मददपर था, और राव जैतसी राव गांगाकी मददपर बीकानेरस गया; इस लड़ाईमें शैखा मारागया. नागौरका खान भागगया, और राव गांगाकी फतह हुई, राव जैतसी देणोकमें करणी देवीका दर्शन करके बीकानेर आया, इसके बाद विक्रमी १५९५ चैत्र शुक्ल ९ [हि० ९४४ ता० ७ शबवाल = ई० १५३८ ता० ९ मार्च] को करणीजीका देहान्त हुआ. यह देवी जैसलमेरके रावल जैतसीको अच्छा करने गई थी, जब कि उनका बदन खूनकी खराबीसे बिगड़गया था; जैसलमेर से लौटते वक्त गड़ियाला ग्राममें खराबा तालाबपर इस देवीका देहान्त हुआ. लोग बयान करते हैं कि उन्होंने शरीरसे अग्नि उत्पन्न करके योगशास्त्रकी रीतिसे अपनी देह को भस्म किया था. इनका मन्दिर देणोकमें बनवायागया, जिसको अबतक बीकानेरकी रियासतमें बहुत बड़ा मानते हैं; जैसे उदयपुरमें श्री एकलिङ्गजीका मन्दिर है, वैसे ही बीकानेरमें करणी देवीका स्थान मानाजाता है. राजपूतानहमें भी कई जगह इस देवीके मन्दिर बनेहुए हैं. पहिले उदयपुरमें करणीजीका मन्दिर नहीं था, इसलिये श्री वैकुण्ठवासी महाराणा सज्जनसिंहने एक मन्दिर हाथी पौल दर्वाजहके बाहर मेरे (कविराज श्यामलदासके) बागमें, और दूसरा चित्तौड़ गढ़की तलहटीमें मेरी (उक्त अविशजकी) बावड़ीके पास रेलकी सड़कपर बनवाया.

विक्रमी १५९५ [हि० १४५ = ई० १५३८] में बाबर बादशाहका बेटा और हुमायूँका भाई कामरां जंगी फौजके साथ बीकानेरपर चढ़ा, परन्तु राव जैतसीसे हारकर भागा. इस फ़तहका होना भी करणी देवीकी करामातसे बयान किया जाता है; उस वक्तके मारवाड़ी भाषामें कहे हुए ये दोहे हैं—

दोहा.

कांटा करना देवरा कांटां ऊपर बढ ॥
 राव हकारै जैतसी भागै काबुल थढ ॥ १ ॥
 करनादे आछी करी राखी बीकानेर ॥
 काढ खजाना गैवका फौजां दीधी फेर ॥ २ ॥

इसमें काबुलका थढ (गिरोह) इस वास्ते कहा है कि इन दिनों कामरां काबुलका जागीरदार था.

फिर जोधपुरके राव मालदेवने बीकानेरपर चढ़ाई की, और राव जैतसी भी बीकानेरसे चढ़कर सोवा ग्राममें पहुंचा, लेकिन रातके वक्त राव जैतसी किसी जरूरी कामके लिये छिपकर बीकानेर चला आया. यह हाल देखकर फौजके राजपूतोंने जाना कि राव भागगये, जिससे फौजके सर्दार भी निकल भागे, प्रातः कालके समय राव जैतसी पीछे आये, तो मालदेवकी फौजने उनको घेरलिया, इसमें राव जैतसी बड़ी बहादुरीके साथ विक्रमी १५९८ चैत्र कृष्ण ११ [हि० १४८ ता० २५ जिल्काद = ई० १५४२ ता० १२ मार्च] को लड़कर मारेगये, जिनके साथ नीचे लिखेहुए आदमी काम आये—

सोनगरा सारंगदेव जयमलोत, साहणीराम बेलासरका, दर्वारी माधव जैतमालोत, पुरोहित लक्ष्मीदास देवीदासका.

इसके बाद राव मालदेवने बीकानेर आ घेरा, जैतसीकी राणी और बेटा तो निकलकर सरसामें चलीगई, और बीकानेरका किलेदार रूपावत भोजराज व सांखला महेशदास अच्छी तरह लड़कर १५०० आदमियों समेत मारेगये, बीकानेर मालदेवके कब्जेमें आगया.

राव जैतसीके १३ बेटे थे— कल्याणसिंह, भीमराज, ठाकुरसी, मालदे, कान्ह, शृंग, सुर्जन, कर्मसेन, पूर्णमल्ल, अचलदास, मान, भोजराज, और तिलोकसी.

५ कल्याणसिंह.

इनका जन्म विक्रमी १५७५ माघ शुक्ल ६ [हि० १२५ ता० ४ मुहर्रम = ई० १५१९ ता० ७ जैनुअरी] को हुआ था; इन्होंने सरसा ग्राममें गादी बैठनेका दस्तूर अदा किया, क्योंकि बीकानेर राव मालदेवके कब्जेमें था. थोड़ासा इलाका इनके पास रहा, जिससे गुजारा करते थे, लेकिन उसी अर्सेमें शेरशाह सूर दिल्लीका बादशाह होगया, इससे कल्याणसिंहने अपने छोटे भाई भीमराज को दिल्ली भेजदिया. इधर मेड़तियोंसे भी मालदेवने मेड़ता छीन लिया, जिससे वे लोग भी शेरशाहके पास पहुंचे, तब शेरशाह मालदेव पर चढ़ा, जिसका हाल जोधपुरके इतिहासमें लिखाजायगा.

मालदेव तो शेरशाहसे लड़नेकी फ़िक्रमें लगे, और बीकावतोंने राव कल्याणसिंह को कुछ फ़ौज देकर शेरशाहके पास भेजदिया. बाकी राजपूत एकट्ठे होकर हम्ला करने लगे, जिनमें राव लूणकर्णके बेटे कृष्णसिंहने, जो उनमें मुखिया था, जोधपुरके कुल थाने उठादिये, जहां सामना हुआ वहां बहुतसे आदमी मारेगये. कृष्णसिंहने बीकानेरको आघेरा, तब राव मालदेवने कूपा महाराजोतको लिखभेजा कि बीकानेर छोड़कर चले आओ, उसने वैसा ही किया.

कल्याणसिंहके राजपूतोंने विक्रमी १६०१ पौष शुक्ल १५ [हि० १५१ ता० १४ शव्वाल = ई० १५४४ ता० २९ डिसेम्बर] को बीकानेर छीन लिया; और शेरशाहसे विदा होकर राव कल्याणसिंह भी बीकानेर आया. कुछ दिनोंके बाद बरिमदेवके पुत्र जयमल्लपर राव मालदेवने चढ़ाई की. यह खबर सुनकर बीकानेरसे राव कल्याणसिंहने मददके लिये फ़ौज भेजी. राव मालदेव जयमल्लके मुकाबलेसे भागकर जोधपुर गये. यह लड़ाई विक्रमी १६१० [हि० १६० = ई० १५५३] में हुई थी.

विक्रमी १६१३ [हि० १६४ = ई० १५५६] में दिल्लीके अगले बादशाह शेरशाह सूरका पठान सर्दार हाजीखां बादशाह अक्बरकी फ़ौजसे खौफ़ खाकर अजमेर आया, और राव मालदेवने उसका माल अस्बाव छीनना चाहा, तब महाराणा उदयसिंहने मदद करके हाजीखां को बचाया; और महाराणा उदयसिंह व हाजीखांसे विगाड़ होनेपर राव मालदेव हाजीखांके मददगार बनगये, और महाराणा के शामिल बीकानेरके राव कल्याणसिंह थे- (इसका मुफ़स्सल हाल महाराणा उदयसिंहके बयान पृष्ठ ७१ में दर्ज है).

अकबर नामहमें लिखा है, कि—“ अकबर बादशाह अजमेर होताहुआ विक्रमी १६२७ मार्गशीर्ष कृष्ण २ [हि० १७८ ता० १६ जमादियुल् आखर = ई० १५७० ता० १५ नोवेम्बर] को नागौर पहुंचा, वहांके हाकिम खानेकलां वगैरह ने पेशवाई की; और थोड़े अर्से बाद गिर्द व नवाहके जागीरदार व सर्दार बादशाही खिद्यतमें हाजिर हुए. इनमें एक राव मालदेवका बेटा चन्द्रसेन था, जो हिन्दुस्तान के बड़े जागीरदारोंमें से है; दूसरा राव कल्याणमल्ल बीकानेरका अपने बेटे रायसिंह समेत हाजरीसे सर्वलन्द हुआ, बादशाही मिहर्बानीसे उसने इज्जत पाई. उसने हुजुरी मुसाहिवोंकी मारिफत अपने भाई कान्हकी बेटीके वास्ते अर्ज किया कि बादशाही महलमें दाखिल कीजावे. हजरत बादशाहने उसकी दरुवास्त अरवामकी तसल्लीकी नजरसे मन्जूर फर्माई; और पाक दामन लड़की महलकी पर्दहदारोंमें दाखिल हुई” (१).

बीकानेर वाले लिखते हैं कि हाजीखांकी लड़ाईमें राव कल्याणसिंह भी महाराणाके शामिल था.

विक्रमी १६२८ वैशाख कृष्ण ५ [हि० १७८ ता० १९ जिल्काद = ई० १५७१ ता० १४ एप्रिल] को राव कल्याणसिंहका परलोकवास हुआ. इन के दस बेटे - रायसिंह, रामसिंह, पृथ्वीराज, अमरसिंह, भाण, सुतान, सारंगदे, भाखरसी, गोपालसिंह, और राघवदास थे.

६ राव रायसिंह.

राव रायसिंहका जन्म विक्रमी १५९८ श्रावण कृष्ण १२ [हि० १४८ ता० २६ रबीउल्अव्वल = ई० १५४१ ता० २० जुलाई] को हुआ था. इन की शादी चित्तौड़के महाराणा उदयसिंहकी बेटी जसमांदेके साथ हुई थी. बीकानेरकी तवारीखमें लिखा है, कि इस शादीमें रायसिंहने दस लाख रुपये त्यागके और ५० हाथी व ५०० घोड़े दिये थे; उनमें से जिन कवि लोगोंको बहुतसा माल और हाथी दिये, उनके नाम तवारीखी यादके वास्ते यहां लिखेजाते हैं— १ दूदा

(१) अकबर बादशाहको राजाओंकी बेटियोंके साथ शादी करनेकी कमाल आर्जू थी, और वह इस स्वाहिशको पूरा करनेके लिये विवागत, नसीहत और बख्शिश वगैरह बड़ी बड़ी कोशिशें करता था. मूलमें जो अकबरनामहका तरजमा लिखागया वह खुशामदी लफ्जोंसे भराहुआ है.

आसिया, २ देवराज रत्नू, ३ बारहठ लक्खा, ४ मैपा संडायच, ५ सांइयां झूला, ६ भाट खेतसी वगैरह- लिखा है कि यह विवाह बड़ी धूम धामसे हुआ.

इन्होंने राजपर बैठते ही कर्मचन्द बछावतको अपना प्रधान बनाया. फिर उसकी सलाहसे जब विक्रमी १६३३ [हि० १८४ = ई० १५७६] में अकबर बादशाह अजमेर और उदयपुरकी तरफ आया, तब राव रायसिंह बादशाही हुकमसे अजमेरमें हाज़िर होगये. अकबरनामहमें लिखा है, कि- इनका बाप पहिले ही से इताअत कुबूल करचुका था, और यह भी उसके साथ हाज़िर हुए थे; कुछ दिनके बाद जब पंजाबकी तरफ पठानोंने सिर उठाया, तब उनपर बादशाहने आंबेरके कुंवर मानसिंह और राव रायसिंहको भेजा. इन्होंने फ़सादियोंको सज़ा देकर बादशाहको खुश किया. बादशाह अकबरने राव रायसिंहको राजाका खिताब (१) और चार हज़ारी जात व सवारका मन्सब दिया.

विक्रमी १६३७ [हि० १८८ = ई० १५८०] में जब कि बादशाह अकबरकी गुजरातपर चढ़ाई हुई, उस वक्त राव रायसिंह भी उस फौजमें शामिल थे, जिसमें इन्होंने बड़ी बहादुरी दिखलाई, और इनके बहुतसे राजपूत काम आये, इससे बादशाह इनपर बहुत राजी हुआ. जब राव रायसिंह गिरनार और अहमदाबाद की तरफ जा रहे थे, उस वक्त राव सुल्तानने अपना आधा राज सिरोहीका बादशाहको देना कुबूल किया, और रायसिंहको अपना मददगार बनाया. बादशाहने सिरोहीका आधा राज उदयपुर वाले महाराणा उदयसिंहके बेटे जगमालको दिया, लेकिन जगमाल सुल्तानसे लड़कर मारा गया. यह बयान पूरे तौरपर महाराणा प्रतापसिंहके हालमें लिखा गया है. लेकिन बीकानेरकी तारीखमें यह सिवाय लिखा है कि, "जगमालके सिरोहीमें मारेजानेके कुसूरपर अकबर बादशाहने राव रायसिंहको फौज देकर सिरोही भेजा. उन्होंने चार दिन तक लड़ाई की, और पांचवें दिन सिरोहीके रावको पकड़लिया, जिसपर सिरोहीके रावके चारण दूदा आसियाने राव रायसिंहको शाइरी सुनाकर खुश किया, तब रायसिंहने उससे शाइरीके इनआममें राव सुल्तानको बादशाह से सिरोही दिलानेका वादा किया, और बादशाहके पास पहुंचकर इस इक्रारको पूरा किया". इस विषयकी कविता भी बीकानेरकी तवारीखमें लिखी है.

(१) फ़ार्सी तारीखोंसे बीकानेरवालोंको शाहजहांके अहद तक राजाका खिताब मिलना साबित नहीं होता, लेकिन यह बीकानेरकी तवारीखसे लिखा गया है.

(१) राव रायसिंहने जोधपुर मालदेवके बेटे राव चन्द्रसेनसे छीन लिया; फिर चन्द्रसेनके भाई उदयसिंहको बादशाहसे वापस दिलादिया, परन्तु जोधपुरका इतिहास जो तिथि वार लिखा हुआ हमारे पास है, उसमें इन बातोंका कुछ जिक्र नहीं मिलता; न मालूम ये बातें ग़लत हैं या सहीह हैं.

विक्रमी १६४५ [हि० १९६ = ई० १५८८] में एक नया क़िला राजधानीमें बनवाना शुरू किया, जो विक्रमी १६५० [हि० १००१ = ई० १५९३] में बनकर तय्यार होगया. रायसिंह तो बादशाही नौकरीपर दक्षिणकी तरफ़ गये थे, और उनके हुक्मसे प्रधान महता कर्मचन्द बछावतने तय्यार करवाया, जिसकी पूर्वी दीवार ४०१ गज़, दक्षिणी ४०३ गज़, पश्चिमी ४०७ गज़, और उत्तरी दीवार ४०६ गज़ की है; दीवारकी उंचाई १९ गज़ और पड़कोटेके बाहर खन्दककी चौड़ाई २० गज़की है.

विक्रमी १६५२ [हि० १००३ = ई० १५९५] में राव रायसिंहको दगासे मारकर उनके कुंवर दलपतको गद्दीपर बिठा देनेका विचार नीचे लिखे आदमियोंने किया:-

प्रधान महता कर्मचन्द बछावत सांगाका बेटा, खुड़िया ग्रामका बारहठ चौथदान, तोलीसर ग्रामका पुरोहित मान महेश, सूजा नगराजोत, राजासरका जाट भरथा सारण, और ईसर वगैरह कई सर्दार इस सलाहमें शामिल थे.

इस भेदकी ख़बर रायसिंहको होगई, जिसपर उन्होंने कर्मचन्दको मरवाडालना चाहा, लेकिन वह भागकर बादशाह अक्बरके पास चलागया, और बादशाही मुलाजिम होकर राव रायसिंहकी शिकायतें पेश करने लगा. जिससे बादशाहने भरथनेर वगैरह परगने खालिसे करके उन (रायसिंह) के कुंवर दलपतको जागीर में दिये. इस वक्तसे बाप बेटोंमें बराबर फ़साद बना रहा. दलपतने गुज़रके लायक़ बादशाहसे जागीर न पाई, इस कारण बीकानेरके कई परगनोंमें अपना इस्तिथार जमा लिया. बादशाह भी कर्मचन्दकी शिकायतोंके सबब राव रायसिंहसे नाराज़ होगया था. जब राव रायसिंह दिल्ली गये, और विक्रमी १६६४ [हि० १०१६ = ई० १६०७] में महता कर्मचन्द बीमार होकर मरने लगा, तो राव रायसिंह उसका आराम पूछनेको गये,

(१) फ़ारसी तवारीखोंमें लिखा है—कि जोधपुर हुसैनकुलीखां वगैरहने फ़तह किया था, जो अक्बर बादशाहने राजा उदयसिंहको उनकी कारगुज़ारीसे खुश होकर वापस दिया.

और जाहिरा बहुत रंज किया और आंखोंमें आंसू भर लाये. रायसिंहके चले जाने बाद कर्मचन्दने अपने बेटोंसे कहा, कि महाराजाके आंसू आनेका सबब मेरी तफ्तीफ नहीं है, बल्कि यह सबब है कि मैं उनके हाथसे सजा न पासका; तुम लोग उनके धोखेमें आकर बीकानेर मत जाना. यह कहकर कर्मचन्दने ६८ वर्षकी उम्रमें देह त्याग किया.

इसके बाद रायसिंहने कर्मचन्दके बेटोंकी बहुत खातिर की. अकबरके बाद बादशाह जहांगीर राव रायसिंहसे बिल्कुल नाराज होगया, इसलिये यह दिल्लीसे बीकानेर चलेआये. थोड़े ही दिनोंके बाद बादशाहने इन्हें दक्षिण की तरफ भेजदिया. यह बुर्हानपुरमें रहते थे, वहां बीमारी बढ़गई, तब उन्होंने अपने छोटे बेटे सूरसिंहसे कहा कि कर्मचन्द तो मरगया, परन्तु उसके बेटोंको मारकर तोलेश्वरके पुरोहित और खुड़ियाके बारहठ वगैरहको सजा देना, क्योंकि वे लोग मुझे मारकर दलपतको राज्य दिलाना चाहते थे. इसपर सूरसिंहने अर्ज किया कि अगर मुझे इस्तिनयार मिला तो आपके हुक्मके मुवाफिक उन लोगोंको जरूर सजा दूंगा.

विक्रमी १६६८ [हि० १०२० = ई० १६११] में राव रायसिंहका देहान्त होगया.



७ दलपतसिंह.

दलपतसिंहको राज्य मिलने की बाबत जहांगीर बादशाह तुजक जहांगीरीमें लिखता है, कि—

“दलीप दक्षिणसे हाजिर हुआ, उसका बाप रायसिंह मरगया था, इसलिये मैंने उसको रावका खिताब देकर खिलअत पहनवाया. रायसिंहके एक दूसरा बेटा सूरजसिंह भी था, जिसकी माके साथ जियादह मुहब्बत होनेके सबब बड़े दलीप के एवज वह उसका गद्दीनशीन होना चाहता था. जिस वक्त कि रायसिंहकी मौतका हाल मेरे साम्हने बयान किया जाता था, सूरजसिंह कम अकली और कम उम्रसे अर्ज करनेलगा, कि बापने मुझको वलीअहद बनाकर टीका दिया है. यह बात मुझको पसन्द न आई, और फर्माया कि अगर बापने तुझको टीका दिया है, तो हम दलीपको सर्वलन्द करके देते हैं. मैंने अपने हाथसे उसके टीका लगाकर उसके बापकी जागीर वगैरह इनायत की.”

लेकिन बीकानेरकी तवारीखमें दलपतका बीकानेरमें और सूरसिंहका रायसिंहके पास होना लिखा है.

दलपत गादीपर बैठा, और सूरसिंहको फलौदीका पट्टा मिला. प्रधान महता राजसी वैद्य और पुरोहित मानमहेश दलपतके मुसाहिब बने. जब पुरोहित मानमहेशकी अर्जसे दलपतने फलौदीके पट्टेके सारे ग्राम जब्त किये, तो सूरसिंह के पास सिर्फ फलौदी रहगई, तब वह नीचे लिखे आदमियोंको साथ लेकर बीकानेर आया—

कृष्णसिंह मनोहरदासोत श्रंगोत, कर्मसेन मनोहरदासोत श्रंगसरके जिनकी औलाद भूकरकेमें है, जयमल्लसरकी भायपके भाटी, पुरोहित लक्ष्मीदास हरदासोत, गाडणचोला, संडायच कृष्ण, राठी कल्याणदास केसरीदासोत, कोचर ओसवाल ऊजा, पौखरणा व्यास जीवराज विट्ठलदासोत वगैरह.

इन सबकी सलाहसे सूरसिंहने पुरोहित मानमहेशको बहुत कुछ कहा, परन्तु फायदा न हुआ, फिर किसी बहानेसे दिल्ली जानेकी निश्चय ठहराई, और इसी सलाहके मुवाफिक सूरसिंह अपनी माताको गंगा स्नान करानेका बहाना करके सोरम घाट जापहुंचा, और वहींसे दिल्ली जाठहरा. राजा दलपत गादीपर बैठनेके बाद एकही बार बादशाहके पास गये थे, और वहांसे आनेके पीछे बादशाही तलबीके फर्मान आनेपर टाला टूली करके नहीं गये. जब दलपत बादशाहके बुलानेपर नहीं गया, तब वह नाराज हुआ, और अपने मुलाजिम जियाउद्दीनखांके साथ फौज देकर सूरसिंहको बीकानेरका मालिक बनानेके लिये दलपतपर भेजदिया. जब बीकानेरकी सरहदपर शाही फौज पहुंची, तब दलपत भी तय्यार होकर सामना करनेको आ मौजूद हुआ. पहिले तो बादशाही फौजने शिकस्त पाई, फिर सूरसिंह और जियाउद्दीनने अपने मुसाहिबोंसे सलाह करके दलपतके सर्दारोंको अपनेमें मिलालेनेका विचार किया, और नीचे लिखे राजपूतोंको मिला लिया—

महाजनके ठाकुर देवीदास जशवन्तोतका भाई तेजसी, ठाकुर कृष्णसिंह रायसिंहोत, जिसकी सन्तानके कब्जेमें सांखूका ठिकाना है, ददरेवाका ठाकुर सुन्दरसेन पृथ्वीराजोत, भूकरकाके ठाकुर मनोहरदास भगवानदासोत, हरदेसरका ठाकुर कृष्णसिंह अमरसिंहोत, गारबदेसरका ठाकुर कृष्णसिंह रायसिंहोत, बाणूदेका ठाकुर बीका केशवदास साहुलोत, सासरका ठाकुर राजसिंह गोवर्धनसिंहोत, बीदासरका ठाकुर बीरमदेव बलभद्रोत नारायणोत, गोपालपुरका ठाकुर तेजसिंह गोपालदासोत, फोगां का ठाकुर बीकासावन्तसी गोपालोत, घड़सीसरका ठाकुर भाण अमरसिंहोत, स्वारवेका ठाकुर मथुरादास सुरताणोत, रावतसरका ठाकुर उदयसिंह, जैतपुरका ठाकुर गोपीनाथ

उदयसिंहोत, साहिबाका ठाकुर जयमल्ल साईदासोत, चूरूका ठाकुर भीमसिंह बलभद्रोत, मगरासरका ठाकुर भोपत नारायणोत, सारूंडेका ठाकुर महेश इन्द्रभाणोत, सिरकालीका ठाकुर लखधीर भारमल्लोत मांडणोत, तिहांणदेसरका ठाकुर सांवलदास जयमल्लोत, जैतासरका बीका ठाकुर लाखणसी रायमल्लोत जैतसोत, सांडवेका ठाकुर जशवन्तसिंह गोपालोत, हरासरका ठाकुर पृथ्वीराज जशवन्तोत, सोभागदेसरका ठाकुर गिर्धर मानसिंहोत बीदावत, पूंगलके भाटी आसकरण कान्हावत, जयमल्लसरका ठाकुर साहुल अमरसिंहोत, बीठिणोकका भाटी सिरंग खेतसीयोत.

इन सबको मिलाकर खारवाके ठाकुर तेजमालसे भी कहलाया, तो उसने कहा, कि मेरी बेटीसे सूरसिंह शादी करे तो मुझे विश्वास हो; तब उसकी स्वाहिशके मुवाफिक सूरसिंहने डोला मंगाकर उसी दिन शादी करली. यह भाटी ५०० राजपूतोंका मालिक था; इसके बाद महता ठाकरसी वैद्य को भी कहलाया, परन्तु उसने इन्कार करके कहा, कि बीकानेरकी गद्दीपर जो बैठेगा उसीका मैं नौकर हूं. आखिरकार दूसरे दिन दोनों फौजें लड़ाईके लिये तय्यार हुईं. दलपत भी अपनी फौजको दुरुस्त करके हाथीपर चढ़ा, खवासीमें चूरूका ठाकुर भीमसिंह था, और दोनों फौजोंके लोग हुक्मके मुन्तज़िर थे, पर इशारा होते ही खवासीसे चूरूके ठाकुर भीमसिंहने पीछेसे दलपतके दोनों हाथ बांधलिये, और लोगोंने सूरसिंहसे जाकर सलाम किया; दलपतको घोड़ेपर चढ़ा कर ५० पचास सवारोंके साथ हिसारके किलेके सूबहदारके पास भेजदिया, और सूबहदारने पैरोंमें बेड़ी, हाथोंमें हथकड़ी डालकर बादशाहकी खिदमतमें अजमेर भेजदिया.

८ राव सूरसिंह.

इन दिनोंमें बादशाह जहांगीर उदयपुरकी चढ़ाईके लिये अजमेरमें ठहरा हुआ था, दलपतको एक जगह कैद करके उसके चारों तरफ़ सिपाहियोंके पहरे खड़े करवादिये. इन्हीं दिनोंमें हाथीसिंह चांपावत गोपालदासोत अपनी औरत को साथ लिये ससुराल जाता हुआ अजमेरकी तरफ़ आनिकला, और दलपत को सलाम कहलाया; दलपतने कहा मुझसे मिलते जाओ, तब हाथीसिंह मिलने को गया; बादशाही सिपाहियोंके रोकनेपर उन्हें मारकर भीतर जाघुसा, और दलपतकी बेड़ियां वगैरह काटदीं. इसपर अजमेरके सूबहदारने चार हजार सिपाही हाथीसिंहको सजा देनेके लिये भेजे, जिन्होंने इसे घेरलिया. हाथीसिंह अपनी

औरतोंको मारकर बादशाही सिपाहियोंसे लड़ मरा, और दलपत भी अपने दो सौ राजपूतों (१) समेत लड़कर मारा गया. यह बात बीकानेरकी तवारीखसे लिखी है, और इसका यह सुबूत है, कि बीकानेरमें चांपावत राठौड़ घोड़े सवार हाथी-पौल तक चढ़ा जासक्ता है, औरोंको वहां सवारीपर नहीं जानेदेते; चांपावत राठौड़ोंकी यह इज्जत हाथीसिंहके मारेजानेसे बढ़ाई गई, परन्तु बादशाह जहांगीर अपनी तुजक जहांगीरी किताबमें थोड़ेसे लफ्जोंमें इस बातको इस तरह लिखता है कि—

“हि० १०२२ ता० ११ रजब [विक्रमी १६७० भाद्रपद शुक्ल १३ = ई० १६१३ ता० २९ ऑगस्ट] को खबर मिली कि रायसिंहका बेटा दलीप जो बड़ा फसादी और बागी है, अपने छोटे भाई राव सूरजसिंहसे, जो उसपर तईनात किया गया था, बड़ी शिकस्त खाकर जिले हिसारके किसी इलाकेमें कैद है, इसके साथ ही हाशिम खोस्ती फौजदार और दूसरे उस तरफके जागीरदारोंने दलीपको कैद करके हुजूरमें भेज दिया, उससे बहुतसे कुसूर जुहूरमें आये थे, इस लिये क़त्ल किया गया”.

ऊपर लिखेहुए बयान और बादशाही तहरीरसे इतना फर्क नज़र आता है, कि उसने सज़ामें किसी जल्लादसे क़त्ल करवा दिया हो, या बादशाहके लिखने का यह मतलब हो कि मैंने उसके क़त्ल करनेका हुकम दे दिया; परन्तु मुर्दोंके कौलसे कोई शुब्ह तहकीक़ करना बड़ी मुश्किल बात है, क्यों कि उनकी तबीअतका हाल मालूम नहीं होसक्ता.

जब दलपतके मारेजानेकी खबर भटनेर में राणियोंके पास पहुंची, तो नीचे लिखी हुई राणियां आगमें जलकर सतीहोगईं—

भटियाणी जादमदे, भटियाणी नौरंगदे, सोनगरी सन्तोपदे, भटियाणी कनकदे, भटियाणी सदाकुंवर, निरवाण मदनकुंवर.

सूरसिंह इसी वर्षमें गादीनशीन होकर अजमेरमें बादशाह जहांगीरके पास आये; बादशाहने पहिले मन्सबके सिवाय पांच सौ जात और दो सौ सवार बढ़ाये. जब सूरसिंह बादशाह जहांगीरसे रुख्सत होने लगा, तब कर्मचन्दके दोनों बेटों लक्ष्मीचन्द और भागचन्दको अपने पास बुलाकर पूरी तसल्ली दी; वे दोनों भी सूरसिंह के दममें आकर बीकानेर चलनेको तय्यार हुए, और दिल्लीसे अपने बालबच्चों व औरतोंको लेकर बीकानेर पहुंचे. सूरसिंह भी बादशाहसे विदा होकर बीकानेर

(१) यह बात खयाल तो नहीं कीजासक्ती, कि कैदकी हालतमें भी उसके पास दो सौ राजपूत हों, लेकिन शायद कि यह लोग अजमेर शहरमें किसी जगह मौकेके मुन्तज़िर रहे हों,

आये. लक्ष्मीचन्द और भागचन्द दोनों शहरके पास अपने पुराने मकानमें रहने लगे, सूरसिंहने महता राजसी वैद्यसे दीवानीका काम छीनकर उन दोनोंको दिया; और दो महीने तक ऐसी मिहबानी रखी, कि ये लोग पुरानी दुश्मनीको भूलकर बिल्कुल गाफिल होगये. लेकिन पांच सौ अच्छे राजपूत हमेशाह इनके पास हाजिर रहते थे, आखिर एक दिन सूरसिंहने चार हजार राजपूतोंको रातके वक्त लक्ष्मीचन्द, भागचन्द पर भेजदिया (१). इन्होंने भी सूरसिंह की दगाबाजीको पहचानलिया, और जीनेसे नाउम्मेद होकर फौरन् अपने बालबच्चों व औरतोंको मारनेके बाद ५०० राजपूतों समेत बड़ी दिलेरीके साथ लड़कर क़त्ल हुए; और राव सूरसिंहके भी बहुतसे राजपूत इनके मुकाबलेपर मारेगये. बाकी रहे सहे उनके बालबच्चोंको सूरसिंहने क़त्ल करवाडाला, एक अकेली कर्मचन्दकी दूसरी औरत भामाशाहकी बेटी जगीसा बची, जिसके पेटका एक लड़का भाणा (२) उदयपुरमें बाकी रहा, जिसकी औलादमें बछावत महताओंकी हवेलियां उदयपुर में अबतक मौजूद हैं.

इसके बाद राव सूरसिंहने पुरोहित मानमहेश और बारहठ चौथदानकी जागीरें ज़ब्त कीं, जिसपर यह लोग धरणा और जौहर करके मरे, लेकिन उसी दिनसे तोलियासरके पुरोहितोंसे पुरोहिताई और बारहठोंसे बारहठपन निकलगया. फिर सारण भरथा जाटको भी गोपालदास सांगावतके हाथसे मरवाडाला, इस तरह सूरसिंहने अपने बापकी हिदायतको पूरा किया.

विक्रमी १६७२ [हि० १०२४ = ई० १६१५] में चारण चोला गाडणने एक "बेल" नामी ग्रन्थ सूरसिंहकी तारीफमें कहा, जिसके इनअममें उसको लाख पसाव मिला, और बारहठपनके नेगचार चांदासरके बारहठ भादरेसा दीतावतने पाये. सूरसिंह उस वक्त जब कि बागी शाहज़ादह खुरम और उसके भाई पर्वेजका मुकाबला नर्मदा नदीपर हुआ, बादशाही फौजमें था. फिर शाहजहानी फौजके साथ विक्रमी १६८६ चैत्र कृष्ण ६ [हि० १०३९ ता० २० रजव = ई० १६३०


(१) उदयपुरमें जो कर्मचन्द बछावतके वंशके बछावत महता हैं, उनकी तवारीखमें कर्मचन्दका एक ही बेटा भोजराज लिखा है, और बीकानेरकी तवारीखमें लक्ष्मीचन्द, भागचन्द दो हैं; इससे मालूम होता है, कि कर्मचन्दके तीन बेटे होंगे. भोजराज, लक्ष्मीचन्द और भागचन्द. शायद एक भोजराजकी औलाद बाकी रही होगी.

(२) उदयपुरके महताओंकी तवारीखमें भोजराजका बेटा भाणा लिखा है.

ता० ४ मार्च] को सूरसिंह दक्षिणकी लड़ाइयोंमें चार हज़ारी जात व तीन हज़ार सवारका मन्सब पाकर भेजागया; जिसके मरनेकी बाबत बादशाह नामहमें इस तरह लिखा है-

“हिजी १०४१ (१) ता० ५ रबीउल्अव्वल [वि० १६८८ आश्विन शुक्ल ७ = ई० १६३१ ता० ३ अक्टोबर] को अर्ज हुआ- कि राव सूरकी जिन्दगीके दिन पूरे हुए, इस लिये उसके बेटे कर्णको दो हज़ारी जात, डेढ़ हज़ार सवारका मन्सब और रावका खिताब इनायत करके उसका वतन बीकानेर जागीर में बहाल रक्खा. राव सूरके दूसरे बेटे शत्रुशालको पांच सौ जात और दो सौ सवारके मन्सब पर इज़त बख़शी”.

राव सूरसिंहके साथ चार स्त्रियां (भटियाणी प्राणकुंवर खारवाके ठाकुर तेजमालकी बेटी, भटियाणी रानादे, रंगरेखा पातर, और बडारण (२) गुणकली) सती हुईं.



९ राव कर्णसिंह.

सूरसिंहके बाद उनके बड़े कुंवर कर्णसिंह विक्रमी १६८८ कार्तिक कृष्ण १३ [हि० १०४१ ता० २७ रबीउल्अव्वल = ई० १६३१ ता० २४ अक्टोबर] को गादीपर बैठे. इनका जन्म विक्रमी १६७३ श्रावण शुक्ल ६ [हि० १०२५ ता० ४ रजब = ई० १६१६ ता० २१ जुलाई] को हुआ था.

इन्होंने अपने शुरू वक्तमें खारवेके फ़सादी ठाकुर तेजमाल कृष्णावतको उसके बेटे खंगार समेत मरवाडाला, और पीछे बादशाह शाहजहांके पास दिल्ली गये, जहांपर इनको अपने बाप सूरसिंहकी बराबर मन्सब हासिल हुआ, यह बादशाही फ़ौजके साथ दक्षिणकी लड़ाइयोंपर भेजदियेगये, जिसका हाल इस

(१) सूरसिंहके इन्तिकालकी ठीक तारीख़ किसी जगह नहीं मिली, बीकानेरकी तवारीख़में सिर्फ़ वि० १६८८ ही लिखा है. शाहजहांके साम्हने अर्ज होनेसे महीना बीस दिन पहिले उनका इन्तिकाल समझना चाहिये.

(२) लौंडीको बडारण कहते हैं.

तरहपर है- कि वजीरखांको पांच हजारी जातका मन्सब देकर उसके साथ अजमेर का राजा विठ्ठलदास गौड़, माधवसिंह, जानिसारखां बीकानेरके राव कर्णसिंह और पृथ्वीराज राठौड़ वगैरहको घोड़े, खिलअत देदेकर दक्षिणकी तरफ दौलताबाद भेजा. इन लोगोंने वहां जाकर फौजके हरावल अफसर खानेजमांकी मातहती की, और राव कर्णसिंह, राव शत्रुशाल और तिलोकचन्द वगैरहने बीजापुरकी लड़ाइयोंमें बड़ी बड़ी कारगुजारियां दिखलाई.

बीकानेरकी तवारीखमें जवारीका परगना कर्णसिंहकी बहादुरीसे फतह होना लिखा है; राजा कर्णसिंह बहुत वर्षों तक दक्षिणकी लड़ाइयोंमें नौकरी देते रहे. विक्रमी १६९२ फाल्गुन शुक्ल १० [हि० १०४५ ता० ८ शव्वाल = ई० १६३६ ता० १७ मार्च] को आदिलखां बीजापुरीकी फौज और दक्षिणी मरहटे साहूने मिलकर बादशाही अर्थात् शाहजहां बादशाहकी अमल्दारीमें फसाद करना शुरू किया, जिनको दबानेके लिये सय्यद खानेजहां, सिपहदारखां, शाहनवाजखां सफवी, सफशिकनखां रजवी, बीकानेरका राजा कर्णसिंह, तोपखानहका अफसर हरीसिंह राठौड़, राजा रोजअफजूका बेटा राजा बिहरोज, राजा अनूपसिंहका बेटा जयराम, इन्द्रशाल हाड़ा बूंदीके राव रत्नका पोता वगैरह, दस हजार आदमियोंकी फौज मुकर्रर की गई.

जब विक्रमी १६९३ चैत्र शुक्ल १ [हि० १०४५ आखिर शव्वाल = ई० १६३६ ता० ६ एप्रिल] को शाहगढ़की तरफसे धारोर पहुंचे, और वहां सब अस्बाब व खटला छोड़कर सय्यद खानेजहां सिपहसालार हुआ, तो हरावलका अफसर शाहनवाजखां सफवीको बनाया, उसके साथ बीकानेरके राजा कर्णसिंह, मुरादखां, राठौड़ हरीसिंह, किलेदारखां, राजा अनूपसिंहके बेटे जयराम वगैरह भेजेगये, और मुर्तजाखांको फौजके एक हिस्सेका अफसर बनाकर राजा रामदास व राजा देवीसिंहको साथ दिया. फिर ये लोग बीजापुरकी तरफसे सराधौनमें पहुंचे, जहां अंबर हबशी निगहबानीके लिये आमके बागमें बैठा था. इन लोगोंको देखकर किलेकी तरफ भागा, उसके कुछ आदमी मारेगये, और बाकी जख्मियों समेत किलेमें जाघुसा. बादशाही फौजने तीन दिनके मुहासरेमें किला जीतलिया. सय्यद खानेजहां वहांका माल अस्बाब अपने कब्जेमें लाकर फौज समेत धारासेवनकी तरफ खाना हुआ, और अंबर हबशी, जो गिरिफ्तार हुआ था, उसको मरहटोंका साथ न देनेका इक्रार लेकर छोड़दिया, और सराधौनके किलेको कृष्णाजी शिर्जा रावकी हिफाजतमें छोड़ा.

आगे बढ़ने बाद तेवल, रैहान, और शोलापुरके परगनोंको लूटकर बर्बाद और वहाँके लोगोंको माल अस्बाब समेत गिरिफ्तार किया. फिर धारासेवनमें पहुँचकर माल अस्बाब नाज वगैरह जो हाथ लगा सब लूट लिया, और अब्दुल्लाखाँ बहादुर फ़ीरोजजंगके भतीजे अबुलबकाको धारासेवनका थानेदार मए जमइयतके बनाया. इसके बाद कान्तिके क़िले और क़स्बेको जा घेरा, जो शोलापुरसे छः कोसपर है; वहाँके क़िले वालोंने लड़ाई की, लेकिन् आखिरमें बादशाही फ़ौजने फ़तह पाई. क़िलेके लोगोंको क़त्ल करके गोला बारूद वगैरह सामान जो पाया उसे अपने तहतमें किया. वहाँसे चलकर इसी तरह देव गांव को लूटता हुआ साहुरा क़स्बेकी तरफ़ रवाना हुआ. इस मौकेपर आदिलखाँकी फ़ौज उसके फ़ौजी अफ़सर रन्दौला हवशीके मातहत मुकाबलेको आई, परन्तु बीजापुरी फ़ौजवाले मुकाबला होनेके थोड़ी देर बाद भागगये.

विक्रमी चैत्र शुक्ल ७ [हि० ता० ५ ज़िल्काद = ई० ता० १२ एप्रिल] को बीजापुरी फ़ौजने आकर बादशाही फ़ौजपर हम्ला किया, दो कोसतक लड़ाई हुई, इसमें रन्दौला हवशी घायल होकर घोड़ेसे गिरा; लेकिन् अपने दोस्तोंकी मददसे दुश्मनोंके काबूसे निकलगया, दोनों तरफ़के बहुतसे लोग मारेगये, और बीजापुरी फ़ौज थककर वहीं ठहरी, और बादशाही फ़ौजने धारासेवनमें आकर विक्रमी चैत्र शुक्ल १४ [हि० ता० १३ ज़िल्काद = ई० ता० १९ एप्रिल] तक आराम लिया. विक्रमी चैत्र शुक्ल १५ [हि० ता० १४ ज़िल्काद = ई० ता० २० एप्रिल] को बीजापुरी फ़ौजका आना सुनकर ये लोग भी मुकाबले को तय्यार हुए, सात कोसपर तुलजापुरके परगनेमें दोनों फ़ौजोंका मुकाबला हुआ. अगर्चि रन्दौला हवशी घायल हुआ था, फिर भी खानेजहाँ और उसके बाद सिपहदारखाँसे ख़ूब मुकाबला करतारहा. सिपहदारखाने बड़ी बहादुरी के साथ एक कोसतक बीजापुरी फ़ौजको पीछे हटाया, पहर दिन चढ़ेसे दो पहरतक ख़ूब लड़ाई हुई, आखिरमें बीजापुरी फ़ौज भागनिकली, दोनों तरफ़के बहुतसे आदमी काम आये.

सय्यद खानेजहाँने सराधौनमें आकर खटला व अस्बाब वहीं छोड़ा, और फ़ौज समेत ओसा और नलदरक (नलदुर्ग) की तरफ़ गुलबर्गेको जानेका इरादह किया.

विक्रमी वैशाख कृष्ण ८ [हि० ता० २२ ज़िल्काद = ई० ता० २८ एप्रिल] को रवाना होकर रास्तेके गांवोंको बर्बाद करताहुआ चला, तो विक्रमी वैशाख शुक्ल ३ [हि० ता० १ ज़िल्हिज = ई० ता० ८ मई] को ओसासे तीन कोसपर बीजापुरी

लड़करने एक पहर रात बाकी रहे हम्ला किया, लेकिन बादशाही फौजके मुकाबला करनेसे वे लोग भागकर छिपगये; दूसरे दिन शाहजहानी फौजका कूच हुआ, तब फिर बीजापुरी फौजने सिपहदारखां और राजा देवीसिंहसे टकर ली. उस समय अपने मातहत अफसरोंकी मददके लिये सय्यद खानेजहाने भी एक फौज भेजी, और खलीलुल्लाखां दूसरी तरफसे सिपहदारखांके पास जापहुंचा, दो कोसतक दोनों फौजोंने खूब मुकाबला किया. आखिरमें बीजापुरी फौजभाग निकली- फिर बर्सातका मौसम आजानेसे सय्यद खानेजहां अपनी फौज लेकर काम्बेरकी तरफ चला, जब यह फौज सराधौनसे आठ कोसपर पहुंची, तब विक्रमी वैशाख शुक्ल १३ [हि० ता० ११ जिल्हज = ई० ता० १८ मई] को फिर बीजापुरी फौज हम्ला करनेको आजमी. इस समय भी दोनों तरफके बहुतसे आदमी काम आये, परन्तु बीजापुरी फौज तो वहीं ठहरी, और सय्यद खानेजहांकी शाही फौज सराधौनमें आई, वहां से धारोर पहुंची.

इस लड़ाईका हाल बीकानेरकी तवारीखमें कर्णसिंहके नामपर कियासी तौरसे लिखा है; और हमने यह पूरा हाल बादशाहनामह शाहजहानी तवारीखसे लिखा है. अर्गर्चि इस तवारीखमें भी बादशाही फौजकी बड़ाई और सारा हाल तारीफके साथ लिखा है, परन्तु बीकानेरकी तवारीखसे बादशाहनामहका यह हाल ठीक मालूम होता है.

अपने मालिकोंकी गैर मौजूदगीमें नागौरके राव अमरसिंह और बीकानेरके राजा कर्णसिंहके राजपूत फौजें लेकर लाखाणिया ग्रामपर लड़ बैठे, अमरसिंह इस सरहद्दी तक्रारके रंजसे आगरे में सलाबतखांको मारकर मारागया, जिसका पूरा जिक्र जोधपुरके हाल में लिखा जायगा.

इसके बाद कर्णसिंह दक्षिणी लड़ाइयोंसे फुर्सतके साथ रुखसत लेकर बीकानेर आये, और उन्हीं दिनोंमें पुंगलके भाटियोंने फसाद उठाया. भाटी राव सुन्दरसेनने बीकानेरके मुल्कको बर्बाद करनेपर कमर बांधी, तब कर्णसिंहने फौज लेकर पुंगलको जा घेरा; एक महीनेतक लड़ाई रही, आखिर सुन्दरसेन किलेसे निकलकर भागगया. कर्णसिंहने पुंगलके गढ़को गिरवादिया, और परिहार लूणा, कोठारी जीवनदासको वहांका थानेदार मुक़रर किया. सुन्दरसेन भागता हुआ लखवेरे पहुंचा, कर्णसिंह भी पीछा करता चला गया, वहांपर जोइया राजपूत, जो वहांके जागीरदार थे, हाजिर हुए, और कुछ नज़राना देकर मिलाप करलिया; वहां हासिलपुरके पास राजा कर्णसिंहका टीबा अबतक मशहूर है. इसके

बाद कर्णसिंह बीकानेर लौट आये, और पुंगलके ५६१ ग्राम भाटी राजपूतोंको बांटदिये.

पहिले विक्रमी ९१५ [हि० २४४ = ई० ८५८]में जब कि पंवारोंसे पुंगल भाटी देवराज विजयराजोतने ली थी, उस वक्त पुंगलके दो सौ ग्राम थे, फिर भाटी हमीर, और उसका बेटा जैतसी, इसका राणकदे और इसका बेटा सादा था, जिसको जोधपुरके राव चूंडाके भाई गोगादेवने मारा था, जिसका बयान इस तरहपर है कि- लखबेराके जोइया राजपूत मुसल्मान होकर दिल्लीमें चाकरी करते थे. जब दल्ला जोइयाने मौका पाया, तो चार लाख मुहर, और एक मशहूर 'समाध' नामी घोड़ी लेकर वहांसे चलादिया. मारवाड़के इलाके महेवामें राठौड़ मल्लीनाथ तथा उसके भाई बीरमदे राज करते थे, दल्लाने उनके पास आकर पनाह ली. मल्लीनाथके बड़े बेटे जगमालकी तक्रारसे दल्लाको लेकर बीरमदे लखबेरे चलाआया, वहां बहुत दिन रहनेके बाद जोइयोंसे फ़साद हुआ, जिसमें बीरमदे मारागया. बीरमदे के बड़े बेटे चूंडाने तो मंडोवरमें राज्य जमाया, और गोगादेव ननिहालमें था, वहांसे जवान उग्रमें अपने बाप बीरमदेका बैर लेनेको लखबेरे गया, और रातके वक्त दल्ला जोइयाको मारडाला, परन्तु प्रभात होते ही खूब लड़ाई हुई, जिसमें पुंगलका राणकदे और सादा भाटी बहुतसे जोइये राजपूतों समेत मारागया, और गोगादेवको भी जोइयोंने मार लिया (१).

जब राणकदे अपने बेटे सादा समेत मारागया, तब केहर केलणने पुंगलपर कब्ज़ा किया, और तीन पुस्ततक यही लोग इसके मालिक रहे. इसके बाद बीरमदेके बेटे राव चूंडा हुए, जिनके राव रडमाल, इनके राव जोधा इनके राव बीका थे, जिनकी ताबेदारी पुंगलके भाटियोंने इस्तिथार की थी; राव शैखा भाटी पुंगल का राव बीकाकी ताबेदारीमें आया. इस शैखाके तीन बेटे थे- हरिसिंह जिसको पुंगल मिला, इससे छोटा खेमसी जिसे बीकमपुर जागीरमें मिला, और बरसलपुर भी इसीके कब्जेमें रहा. यह दोनों ठिकाने अबतक खेमसीकी औलाद के कब्जेमें हैं, तीसरा बेटा बाघा जिसके रायमल्ल वाली है; इन चारों ठिकानोंके पुंगलिया शैखावत भाटी कहलाते हैं, और इन चारों ठिकाने वालोंको राजा कर्णसिंहने राव बीकाके अहदके मुवाफ़िक गांव बंटवादिये. २५२ गांव तो पुंगलके साथ और १८४ गांव रायमल्ल वालीके साथ, तथा ४१ गांव बरसलपुरके साथ, और ८४ गांव बीकमपुरके साथ तक़सीम करदिये; इसके बाद भाटियोंने फ़साद मचाना छोड़दिया.

(१) इस लड़ाईका हाल सविस्तर चारण पहाड़खानने "गोगादेवका रूपक" नामी ग्रन्थमें लिखा है, जो मारवाड़ी भाषाकी कवितामें है.

राजा कर्णसिंहके बड़े बेटे अनोपसिंह रुक्माङ्गद चन्द्रावतकी बेटी राणी कमलादे से पैदा हुए. दूसरे केसरीसिंह खंडेलाके राजा द्वारिकादासकी बेटी राणी करणादेसे, तीसरे पद्मसिंह हाड़ा वैरीशालकी बेटी राणी स्वरूपदेसे, और चौथे कुंवर मोहनसिंह श्रीनगरके राजाकी बेटी राणी अजबकुंवरसे पैदा हुए; इनके सिवाय एक बनमालीदास पासवान औरतसे था.

जब बादशाह शाहजहांकी बीमारीके सबब उसके चारों बेटे आपसमें लड़नेको तय्यार हुए, उस वक्त महाराजा कर्णसिंह औरंगाबादमें औरंगजेबके पास मौजूद थे, जब औरंगजेब आगरेकी तरफ रवाना हुआ, तब बहुतसे मन्सबदार उक्त शाहजादहको छोड़कर बादशाही हुक्मके मुवाफिक आगरे चलेगये, लेकिन महाराजा कर्णसिंह न तो आगरे गये और न औरंगजेबके पास रहे. शाहजादहके पास अपने कुंवर केसरीसिंह व पद्मसिंहको छोड़कर आप बीकानेर चले आये. इसी सबबसे आलमगीर बादशाह की कर्णसिंहपर नाराजगी रही, जिसके सबब बीकानेरपर फौजका जाना मन्सासिरे आलमगीरी वगैरह किताबोंमें लिखा है, लेकिन बीकानेरकी मुल्की तवारीखमें आलमगीरकी नाराजगीका कारण यह लिखा है, कि-

“आलमगीरने सब हिन्दू राजाओंको मुसल्मान करना चाहा, तब सब राजा लोगोंने एक होकर, इन्कार किया, जिन्में कर्णसिंह सबसे अक्वल थे.” यह बात भी आलमगीरके ढंगसे मिलती हुई है.

फिर कर्णसिंहकी पासवानके बेटे बनमालीदासने मुसल्मानी मज्हबमें आना इस शर्तपर कुबूल किया कि, बीकानेरका राज्य उसे मिले, लेकिन सब राजाओंकी एक सलाह देखकर औरंगजेबने महाराजा कर्णसिंहको तो औरंगाबाद भेजा, और बीकानेरका राज्य और मन्सब इनके बड़े बेटे अनोपसिंहको लिखदिया. महाराज कर्णसिंहने औरंगाबादमें अपने नामसे कर्णपुरा महल्ला बसाया, और उसमें श्री करणी माताजीका मन्दिर बनवाया. इन महाराजाका एक विवाह महाराणा जगतसिंहकी बहिनके साथ हुआ था- (पृष्ठ ३२१ देखो).

विक्रमी १७२६ आषाढ शुक्ल ४ [हि० १०८० ता० २ सफर = ई० १६६९ ता० २ जुलाई] को महाराजा कर्णसिंहका देहान्त हुआ. और उनके साथ ९ राणियां और ११ ख्वासें सती हुईं. इनके बड़े कुंवर अनोपसिंह, दूसरे केसरीसिंह थे, जिनमेंसे पिछलेका जन्म विक्रमी १६९८ [हि० १०५१ = ई० १६४१] को, तीसरे कुंवर पद्मसिंहका जन्म विक्रमी १७०२ वैशाख शुक्ल ८ [हि० १०५५ ता० ६ रबीउल्अक्वल = ई० १६४५ ता० ४ मई] को,

चौथे कुंवर मोहनसिंहका जन्म विक्रमी १७०६ चैत्र शुक्ल १४ [हि० १०५९
ता० १३ रबीउलअव्वल = ई० १६४९ ता० २७ मार्च] को हुआ था.

१० महाराजा अनोपसिंह.

इनका जन्म विक्रमी १६९५ चैत्र शुक्ल ६ [हि० १०४७ ता० ४ जिल्काद
= ई० १६३८ ता० २१ मार्च] को हुआ था. यह महाराजा दक्षिणकी लड़ाइयोंमें
बादशाही फौजोंके साथ पहिलेसे मुक़रर कियेगये थे, इन्होंने आलमगीरके
दक्षिणमें जाने बाद भी बीजापुर व गोलकुंडेकी लड़ाइयोंमें बड़ी दिलेरी दिखाई.
विक्रमी १७३५ [हि० १०८९ = ई० १६७८] में महाराजा अनोपसिंहने
अनोपगढ़का क़िला भाटी राजपूतोंको ज़ेर करनेके लिये बनवाया.

इनको अपने जागीरदारोंसे नाइतिफ़ाकी और बे एतिबारी होगई थी,
जिससे इन्होंने ग़ैर इलाक़ेसे तनख़्वाहदार आदमी नौकर रखे. बनमालीदास
को बादशाह आलमगीरने बीकानेरका आधा राज और मन्सब देकर बादशाही
फौज समेत बीकानेरपर भेजदिया. महाराजा अनोपसिंहने बादशाहके डरसे बन
मालीदासको धोखा देकर आधा राज बांटदेनेका इक़ार किया. बनमालीने चंगोई
में क़िला तय्यार करके राजधानी बनाना चाहा, लेकिन महाराजा अनोपसिंहने अपने
श्वशुर सोनगरा लक्ष्मीदासको अपनेसे बख़िलाफ़ जताकर धोखा देनेके लिये निकाल
दिया. सोनगराने अपनी बेटीके बहानेसे किसी लौंडीको बनमालीसे ब्याहकर
उसी रातको शराबमें ज़हर देदिया, जिससे वह मरगया. बादशाही अफ़सरको,
जो बनमालीदासके साथ था, एक लाख रुपया रिश्वत देकर अपने साथ
मिला लिया.

महाराजा अनोपसिंहका पहिला विवाह विक्रमी १७०९ [हि० १०६२
= ई० १६५२] को कुंवर पदेकी हालतमें महाराणा राजसिंहकी बहिनके
साथ हुआ था (देखो पृष्ठ ४०१). इसके बाद विक्रमी १७५५ [हि० १११० =
ई० १६९८] में महाराजा अनोपसिंहका देहान्त हुआ, इनके साथ राणी व ख़वास
वग़ैरह १८ औरतें सती हुईं. इनके चार बेटे स्वरूपसिंह, सुजानसिंह, रुद्रसिंह और
आनन्दसिंह थे.

अनोपसिंहके छोटे भाई मोहनसिंहका एक हरिन बादशाही कोतवालने पकड़
लिया था, जिसपर बादशाही दरबारमें तक्रार होकर मोहनसिंह मारागया, और कोत-
वाल व उसके सालेको पद्मसिंहने उसी जगह क़त्ल किया. पद्मसिंह बड़ा नाम-

वर और उदार था, जिसके कई बनावटी किस्से और कहानियां मशहूर हैं. यह विक्रमी १७३९ [हि० १०९३ = ई० १६८२] में ताप्ती नदीके कनारे जादूराय दक्षिणीसे लड़कर बड़ी बहादुरीके साथ मारा गया, और दूसरा भाई केसरीसिंह भी विक्रमी १७२७ [हि० १०८१ = ई० १६७०] को किसी लड़ाईमें काम आया था.

११ महाराजा स्वरूपसिंह.

इनका जन्म विक्रमी १७४६ भाद्रपद कृष्ण १ [हि० ११०० ता० १५ शव्वाल = ई० १६८९ ता० २ अगस्त] में देवलिया प्रतापगढ़के सीसोदिया रावत हरीसिंहकी बेटीसे हुआ. यह बचपनसे आलमगीर बादशाहके पास दक्षिणमें रहते थे, इनकी मा महाराणी सीसोदणी बीकानेरमें रियासती काम करती थी; उन्होंने नाजिर ललित और सर्दारोंके बहकानेसे अपने चार मुसाहिबोंको गिरफ्तार कराकर मरवा डाला, इससे रियासती आदमियोंमें नाराजगी फैली, और स्वरूपसिंहके छोटे भाई सुजानसिंहको कई सर्दार आलमगीरके पास लेजानेको तय्यार हुए, लेकिन शीतलाके निकलनेसे स्वरूपसिंहका दक्षिणमें विक्रमी १७५७ [हि० ११११ = ई० १७००] को देहान्त होनेके सबब बीकानेरमें पीछे लेआये, और सुजानसिंह गद्दीपर बिठाये गये.

१२ महाराजा सुजानसिंह.

सुजानसिंहका जन्म विक्रमी १७४७ श्रावण शुक्ल ३ [हि० ११०१ ता० १ जिल्काद = ई० १६९० ता० ९ अगस्त] को हुआ था. इनके गद्दी बैठने बाद आलमगीर गुजर चुका था, जिसपर महाराजा अजीतसिंहने जोधपुर लेनेके बाद बीकानेर भी लेनेका इरादह किया, लेकिन पूरा न हुआ. फिर सुजानसिंह विक्रमी १७७६ आषाढ कृष्ण ८ [हि० ११३१ ता० २२ रजब = ई० १७१९ ता० १० जून] को डूंगरपुर के रावल रामसिंह शिवसिंहोतकी बेटीसे शादी करने गये, और लौटते वक्त सलूबर होतेहुए उदयपुर आये. महाराणा संग्रामसिंहने इनको एक महीनेतक बहुत अच्छी तरह मिहमान रक्खा, फिर नाथद्वारे होकर बीकानेर पहुंचे. विक्रमी १७९० भाद्रपद [हि० ११४६ रबीउस्सानी = ई० १७३३ सेप्टेम्बर] में जोधपुरके महाराजा अभयसिंहने अपने भाई बख्तसिंहको फौज देकर बीकानेरपर भेजदिया, जो वि० आश्विन शुक्ल ११ [हि० ता० ९ जमादियुलअव्वल = ई० ता० २० अक्टोबर] को बीकानेर

पहुंचे, और नाजिरसर तालाबपर लड़ाई हुई, इसमें बख्तसिंहकी फौजने शिकस्त खाई, तब विक्रमी आश्विन [हि० जमादियुलअव्वल = ई० अक्टोबर] में महाराजा अभयसिंह फौज लेकर अपने भाईकी मददको पहुंचे, लेकिन बीकानेरके महाराजा सुजानसिंहके कुंवर जोरावरसिंह नोरसे फौज समेत पहले ही आपहुंचे थे, किलेकी लड़ाई जोधपुरकी फौजसे होनेलगी. महाराजा अभयसिंहके इशारेसे उदयपुरके महाराणा संग्रामसिंहने चूडावत जगतसिंह, मोहीके भाटी सुरतानसिंह और पंचोली कान्हको समझानेके लिये भेजा, क्योंकि महाराजा अभयसिंह पानी और रसदके न मिलनेसे घबरागये थे.

उदयपुरके मोतमदोंने बीच बिचाव करके बीकानेर वालोंको पीछा करनेसे मना किया; महाराजा अभयसिंह फौज लेकर नागौर पहुंचे. इस बारेमें मारवाड़ी भाषाकी शाइरीका मिस्रा मशहूर है कि—“होलिका कोस पैंतीस हाली”— यानी जोधपुरकी फौजने जो होलीका डांडा बीकानेरमें गाड़ा था, वह नागौरमें पैंतीस कोसपर लेजाकर जलाया, फिर उदयपुरके मोतमद वापस चलेगये.

इसके बाद महाराजा सुजानसिंह और उनके बेटे जोरावरसिंहमें नाइतिफाकी हुई, परन्तु महाराजाने इस भगड़ेको दूर करके सब रियासती काम अपने बेटे जोरावरसिंहके सुपुर्द करदिये. उन्हीं दिनोंमें जोधपुरके महाराजा अभयसिंहके भाई बख्तसिंह, जो नागौरके मालिक थे, बीकानेर लेनेकी कोशिशमें लगे, और बीकानेरके किलेदार सांखला दौलतसिंह और जयमलसरके भाटी उदयसिंह वगैरह कई आदमियोंको लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया, लेकिन यह बात महाराजा सुजानसिंहके कानतक पहुंच गई, जिससे फौरन् बन्दोबस्त हुआ. सांखला दौलतसिंह मारा गया, और किलेदारी धायभाईको मिली. महाराज बख्तसिंहके आदमी नागौरकी तरफ भागगये.

विक्रमी १७९२ पौष शुक्ल १३ [हि० ११४८ ता० ११ शरबान = ई० १७३५ ता० २८ डिसेम्बर] को रायसिंहपुरेमें महाराजा सुजानसिंहका देहान्त हुआ. पांच पातर (खवास) जो इनके साथ थीं सती हुईं, और बीकानेर खबर आनेपर पांच राणियां महाराजाकी पगड़ीके साथ सती हुईं. इनके दो कुंवर बड़े जोरावरसिंह और छोटे अभयसिंह थे, जिनमेंसे पिछलेका जन्म विक्रमी १७७३ [हि० ११२८ = ई० १७१६] में हुआ.

१३ महाराजा जोरावरसिंह.

महाराजा जोरावरसिंहका जन्म विक्रमी १७६९ माघ कृष्ण १४ [हि० ११२४ ता० २८ जिल्हज = ई० १७१३ ता० २६ जैन्वुअरी] को हुआ था. इन्होंने गद्दीपर बैठते ही अपने इलाकेसे जोधपुरके थाने उठादिये, जो महाराजा अभयसिंहने बीकानेरके दक्षिणी हिस्सेमें बिठाये थे. विक्रमी १७९६ [हि० ११५२ = ई० १७३९] में महाराजा अभयसिंहने बीकानेरपर चढ़ाई की, लेकिन नागौरके महाराज बरतसिंह और बीकानेरके महाराजा जोरावरसिंहके एक होजानेसे महाराजा अभयसिंहने अपनी फौजको लौटाकर उन दोनोंसे पीछा छुड़ाया. फिर महाराजा अभयसिंह इस बातकी शर्मिन्दगीसे बड़ी फौज लेकर विक्रमी १७९६ वैशाख [हि० ११५२ मुहर्रम = ई० १७३९ एप्रिल] में बीकानेरकी तरफ़ खाना हुए, और विक्रमी वैशाख कृष्ण ११ [हि० ता० २५ मुहर्रम = ई० ता० ४ मई] को देणोकमें आकर श्री करणी मातासे दुआ और मदद मांगी, लेकिन वहांके चारणोंने इस चढ़ाईका होना देवीकी मर्जीके बखिलाफ़ बतलाया. तब अभयसिंहने कुछ पर्वा न करके अपनी ताकतके भरोसेपर बीकानेरको घेरलिया; बीकानेरके उमराव, भादुराके ठाकुर लालसिंह, चूरूके ठाकुर संग्रामसिंह और महाजनके ठाकुर भीमसिंह-तीनों महाराजा अभयसिंहकी फौजमें जामिले, किलेपर लड़ाई होती रही. महाराजा जोरावरसिंह व नागौरके महाराज बरतसिंहने लिखावटके जरीएसे मिलाप किया, और महता आनन्दरूपको भेजकर जयपुरके महाराजा सवाई जयसिंहसे मदद चाही. महाराजा जयसिंहने अपना कागज़ इस मज्मूनसे भेजदिया, कि मजबूत रहना चाहिये. नागौरके महाराज बरतसिंहने मेड़तापर कब्ज़ा करलिया, और जयपुरके महाराजा जयसिंहने अपने दीवान राजामल्ल खत्रीको मए बीस हजार फौजके जोधपुरकी तरफ़ खाना किया. उस वक्त महाराजा जयसिंहने हँसीके तौरपर बीकानेरके महता आनन्दरूपसे कहा, कि इस वक्त तुम्हारी मददगार करणी देवी कहां गई? उसने जवाब दिया, कि आपके दिलपर बैठी मदद कर रही है; तब महाराजा खुश हुए, और जोधपुरकी तरफ़ कूचकी तय्यारी की. उस वक्त कूभाणी राजावत मुहारके ठाकुरने कहा, कि महाराजा अजीतसिंहसे आपकी दोस्ती थी, और अभयसिंह आपके जमाई हैं, फिर बीकानेरके वास्ते जोधपुरसे बिगाड़ करना अच्छा नहीं. तब नाथावत मोहनसिंह और शैखावत शिवसिंहने कहा, कि रिश्तेदारी तो बीकानेर और जोधपुर दोनों जगहसे होती रही है, लेकिन बीकानेर

लेकर महाराजा अभयसिंह आपको भी आराम न लेने देगा. इस बातको महाराजाने पसंद किया, और बड़ी जरूरत फौजके साथ जोधपुरकी तरफ़ रवाना हुए. यह सुनकर महाराजा अभयसिंहने बीकानेरसे जोधपुरकी तरफ़ कूच किया, और बीकानेरके राजपूतोंने पीछा करके उनकी फौजका माल अस्बाब लूट लिया, और महाराजा अभयसिंहने भागकर जोधपुरके किलेमें पनाह ली.

मेड़तेसे महाराज बरतसिंह, और राजामल्ल खत्री भी महाराजा जयसिंहके शामिल होगये, और बीकानेरसे महाराजा जोरावरसिंह भी बड़ी फौजके साथ रवाना हुए, जयसिंहने किले जोधपुरको घेरलिया—महाराजा जयसिंहके शामिल इस मुहिममें नीचे लिखे सदाँर अपनी २ जमइयत समेत थे:—

नागौरके महाराज बरतसिंह, करौलीके राजा गोपालपाल, वूंदीके राव राजा दलेलसिंह, शाहपुरेके राजा उम्मेदसिंह, कृष्णगढ़के महाराजा राजसिंहके दूसरे बेटे बहादुरसिंह, उदयपुरकी तरफ़से सलूबरके रावत केसरीसिंह, शिवपुरके राजा इन्द्रसिंह गौड़, भरतपुरका राजा सूरजमल्ल जाट. इन सबसे एक दरबारमें सलाह करके महाराजा जयसिंहने महाराजा अभयसिंहसे इक्कीस लाख रुपया फौज खर्चका लेकर कूच किया, बनार ग्राममें महाराजा जोरावरसिंह भी आमिले, और इस इहसानको दिलसे माना. कुछ दिनों बाद जयपुरसे जोरावरसिंह रुखसत लेकर बीकानेरकी तरफ़ लौटे. रास्तेमें सानूके मक़ाम पर चूरूके ठाकुर संग्रामसिंह, और उनके भाई भूपालसिंहको बुलाकर विक्रमी १७९८ आषाढ़ कृष्ण ४ [हि० ११५४ ता० १८ रबीउल्अव्वल = ई० १७४१ ता० ३ जून] को दगासे मरवा डाला.

महाराजा जोरावरसिंह हिसारकी तरफ़ गये थे, वापस आते हुए विक्रमी १८०२ ज्येष्ठ शुक्ल ६ [हि० ११५८ ता० ४ जमादियुल्अव्वल = ई० १७४५ ता० ७ जून] को ग्राम अनूपपुरे पहुंचकर परलोक सिधारे, इनको कामदारोंने जहर दिया बतलाते हैं— इन महाराजाके साथ दो राणी और चौबीस ख़वास, पातर तथा दासियां सती हुईं.

इन महाराजाके लावलद मरनेपर भूकरकाके ठाकुर कुशलसिंहने रियासतका बन्दोबस्त किया, महाराजा अनूपसिंहके छोटे बेटे आनन्दसिंहके चार बेटे थे, अमरसिंह, गजसिंह, तारासिंह, गूदड़सिंह; इनमेंसे अमरसिंह गद्दीका हक़दार था, लेकिन कुशलसिंहने गजसिंहको गद्दीपर बिठादिया.

११ महाराजा गजसिंह.

महाराजा गजसिंहका जन्म विक्रमी १७८० चैत्र शुक्ल ४ शुक्रवार [हि० ११३५ ता० २ रजब = ई० १७२३ ता० ९ एप्रिल] को हुआ था.

जब गजसिंह गादी बैठगये, तो उनके भाई अमरसिंह अजमेरके मकामपर जोधपुरके महाराजा अभयसिंहके पास पहुंचे, और महाजनका ठाकुर भीमसिंह, व भादराका ठाकुर लालसिंह उनका मददगार बना, महाराजा अभयसिंहको थोड़ासा मुल्क देना कुबूल करके मददके लिये फौज लेने बाद बीकानेरकी तरफ चले; कुछ दिनोंतक जोधपुरकी फौजने लड़ाइयां कीं. फिर महाराजा गजसिंह फौज तय्यार करके बीकानेरसे आगे बढ़े, और सुजानदेसर नामी कुएके पास लड़ाई हुई— जोधपुरकी फौजका मुसाहिब भंडारी रत्नचन्द मारागया, और तीन सौ आदमी बीकानेर के और पांच सौ जोधपुरके बड़ी बहादुरीके साथ काम आये. विक्रमी १८०४ [हि० ११६० = ई० १७४७] में नागौरके महाराज बख्तसिंह अपने भाई महाराजा अभयसिंहसे नाराज होकर दिल्लीमें अहमदशाह बादशाहके पास गये, और वहांसे फौजी मदद लेकर मारवाड़में आये— महाराज बख्तसिंहकी मददपर महाराजा गजसिंह भी पहुंचे.

महाराजा अभयसिंहने मल्हार राव हुल्करको मददपर बुलाया, और आप भी जोधपुरसे तय्यार हुए. हुल्करने दोनों भाइयोंको समझाकर आपसमें मिला-दिया; अभयसिंह जोधपुर, बख्तसिंह नागौर, और गजसिंह बीकानेरको लौटआये.

विक्रमी १८०५ फाल्गुण शुक्ल १३ [हि० ११६२ ता० ११ रबीउलअव्वल = ई० १७४९ ता० १ मार्च] को महाराजा गजसिंहके पिता आनन्दसिंहका इन्तिकाल हुआ.

जब विक्रमी १८०७ [हि० ११६३ = ई० १७५०] में दूदासर तालाबपर महाराज बख्तसिंह और जोधपुरके महाराजा रामसिंहकी लड़ाई हुई, उस वक्त महाराजा गजसिंह भी बख्तसिंहके मददगार थे, इस लड़ाईमें कुशलसिंह चांपावत आउवेका, और शेरसिंह मेड़तिया रियांका वगैरह बहुतसे राजपूत बहादुरीके साथ मारेगये, जिनका हाल तफ्सीलवार जोधपुरकी तवारीखमें लिखा जायगा.

महाराजा बख्तसिंह और गजसिंह दोनों फतहयाब होकर मारवाड़में फिरते हुए सर्दारोंको अपना तरफदार करते जाते थे. आखिरमें दो तीन जगह रामसिंह से लड़ाइयां हुई; और विक्रमी १८०८ आषाढ़ [हि० ११६४ शरबान = ई०

१७५१ जून] में महाराजा बरूतसिंहने जोधपुरका क़िला छीन लिया. रामसिंह जयपुर, और मरहटोंके पास मददकी उम्मेदपर फिरता रहा.

इस कार्रवाईके बाद महाराजा गजसिंह बीकानेरको लौट आये. इसी संवत्के माघ [हि० ११६५ रबीउल्अव्वल = ई० १७५२ जैनुअरी] में महाराजा गजसिंहने जैसलमेर जाकर रावल अक्षयसिंहकी बेटीके साथ विवाह किया; इस बरातमें जोधपुर के महाराजा बरूतसिंहके कुंवर विजयसिंह भी शामिल थे.

विक्रमी १८०९ [हि० ११६५ = ई० १७५२] में मरहटोंकी मदद लेकर महाराजा रामसिंह मारवाड़पर चढ़ आये; तब महाराजा गजसिंह भी बरूतसिंहकी मददके लिये चला, दोनों शामिल होकर पुष्करराज और अजमेरतक पहुंचे; जब मरहटे लौटगये, तो गजसिंह भी रुखसत होकर बीकानेर आये.

इसी संवत्में महाराजा बरूतसिंहका इन्तिकाल होगया, और उनके बेटे विजयसिंह जोधपुरकी गादीपर बैठे.

विक्रमी १८१० [हि० ११६६ = ई० १७५३] में दिल्लीके बादशाह अहमदशाहने हिसारका परगना और सात हज़ारी मन्सब महाराजा गजसिंहके लिये लिख भेजा, क्यों कि महाराजाने ज़रूरतके वक़्त एक बड़ी फ़ौज महता अभयराम और कई सदाँरोंके साथ शाही मददके लिये भेज दीथी. इसी संवत्में जोधपुरके माजूल राजा रामसिंहकी, जोधपुरके महाराजा विजयसिंहपर मरहटोंकी मदद लेकर, चढ़ आनेकी ख़बर मिली; तब महाराजा गजसिंह भी विजयसिंहकी मददके लिये मेड़तेके मक़ामपर जा शामिल हुए.

विक्रमी १८११ आश्विन [हि० ११६७ जिल्हज = ई० १७५४ सेप्टेम्बर] में मरहटोंसे राठौड़ोंकी बड़ी भारी लड़ाई हुई. इस लड़ाईमें महाराजा विजयसिंह, महाराजा गजसिंह और कृष्णगढ़के महाराजा बहादुरसिंह मेंसे शिकस्त खाकर पहिले दो तो नागौर पहुंचे, और तीसरे कृष्णगढ़को चलेगये, फिर महाराजा गजसिंहको भी नागौरसे बीकानेर आना पड़ा. दक्षिणियोंने विजयसिंहको नागौरमें घेर लिया, लेकिन मारवाड़के एक मोकल नामी खोखर राजपूतने एक दूसरे राजपूतको साथ लेकर मरहटोंके सदाँर जयाआपा सेंधियाको दगासे मारडाला, जिसमें सलूबर रावत जैतसिंह, चहुवान राजसिंह, गोसाईं विजय भारती-तीनों मरहटी फ़ौजसे लड़कर बहादुरीके साथ मारेगये. ये लोग रामसिंह, और विजयसिंहके बीच बिचाव करानेको महाराणा राजसिंह दूसरेकी तरफ़ से गये थे, जिनपर मरहटोंने सेंधियाके मरवानेवाले ख़याल करके हल्ला करदिया; फिर

भी दक्षिणियोंका घेरा नहीं उठा. तब महाराजा विजयसिंह नागौरका क़िला अपने सदर्दारोंके भरोसे छोड़कर आप बीकानेरको चलेगये, वहांसे दोनों महाराजा रवाना होकर जयपुर गये, कि वहांके महाराजा माधवसिंहको अपना मददगार बनावें; परन्तु महाराजा माधवसिंह तो महाराजा रामसिंहके मददगार थे. उन्होंने विजयसिंहको दगासे गिरिफ्तार करना चाहा, लेकिन वह दावमें न आये, और गजसिंह व विजयसिंह जयपुरसे चलकर रिणी ग्रामके मक़ामपर पहुंचे थे, वहां ख़बर आई, कि बीस लाख रुपया लेकर दक्षिणियोंने घेरा उठालिया. तब महाराजा विजयसिंह तो जोधपुरको गये, और महाराजा गजसिंहने जयपुरमें वापस आकर विक्रमी १८१२ [हि० ११६९ = ई० १७५६] को महाराजा सवाई जयसिंहकी बेटीसे, और विक्रमी १८१३ ज्येष्ठ [हि० ११६९ रमज़ान = ई० १७५६ मई] में भलायके ठाकुर रायसिंहकी बहिनके साथ विवाह किये, और बीकानेरको चलेगये.

महाराजा विजयसिंहने जोधपुरसे जोधा सदर्दारसिंह और सिंगवी श्रीचन्दको भेजकर मदद करनेके लिये कहलाया, तब महाराजा गजसिंहने पचास हजार रुपये भेजदिये. फिर बीकानेरके मुल्क में कई बार सदर्दारोंके बखेड़े पैदा हुए, परन्तु महाराजाने खुद जाकर उनको अपनी होश्यारी या फौजी ताक़तसे मिटादिया; सरहदी मुसल्मान जोड़या अथवा दाऊद पोत्रोंने भी कईबार फ़साद किया, परन्तु उनको भी पीछे हटाया, और विक्रमी १८२४ [हि० ११८१ = ई० १७६७] में जब जयपुरके महाराजा माधवसिंहकी भरतपुरके जाट जवाहिरमल्लसे लड़ाई हुई, तब महाराजा गजसिंहने भी पेशतर अपनी फौज जयपुरकी मददके लिये भेजदी, और खुदने भी कूच किया, लेकिन लड़ाईका खातिमा सुनकर पीछे बीकानेरको लौटआये. विक्रमी १८२७ चैत्र कृष्ण ४ [हि० ११८४ ता० १८ जिल्काद = ई० १७७१ ता० ६ मार्च] के लग्नपर जयपुरके महाराजा पृथ्वीसिंहके साथ महाराजा गजसिंहकी पोती और कुंवर राजसिंहकी बेटीका विवाह बड़ी धूमधामके साथ हुआ; दोनों तरफ़से सरबराह और त्याग में (१) लाखों रुपये खर्च हुए.

विक्रमी १८२८ माघ [हि० ११८५ जिल्काद = ई० १७७२ फ़ेब्रुअरी] में मेवाड़का बखेड़ा मिटानेके लिये महाराणा अरिसिंहने गजसिंहको बुलाया, लेकिन महाराजा विजयसिंहको भी जिले गोड़वाड़का लोभ था, इसलिये गजसिंहको कहलाया,

(१) जयपुरकी तवारीखमें तो त्याग जयपुरकी तरफ़से बांटाजाना लिखा है, और बीकानेरवाले अपनी तवारीखमें लिखते हैं, कि जयपुरवालोंने तीस हजार रुपये त्यागके दिये, परन्तु महाराजा गजसिंहने एक लाख अपनी तरफ़से बांटे.

कि दोनों साथ चलकर श्री नाथद्वारेके दर्शन और महाराणा अरिसिंहसे मिलकर बातचीत करेंगे. ये दोनों शामिल होकर नाथद्वारे आये, और चार महीनेतक वहीं रहे, फिर महाराणा अरिसिंह भी उदयपुरसे नाथद्वारे पहुंचे. कृष्णगढ़के महाराज बहादुरसिंह भी इस बातचीतमें शामिल हुए, लेकिन महाराजा विजयसिंह दिलसे मेवाड़का बखेड़ा मिटना नहीं चाहते थे, क्यों कि जिला गोड़वाड़ चन्द शर्तोंसे हिक्मत अमलीके तौरपर महाराणा अरिसिंहने उनको दिया था, अगर बखेड़ा मिटजाता तो वह परगना भी मारवाड़के शामिल रहना मुश्किल होता.

महाराणा अरिसिंह तो उदयपुर चलेआये, और ये तीनों राजा अपनी अपनी राजधानियोंको चलेगये.

विक्रमी १८३२ [हि० ११८९ = ई० १७७५] में महाराजा गजसिंह और उनके कुंवर राजसिंहमें नाइतिफाकी पैदा हुई, कुंवरको बीकानेरसे निकालकर कई आदमी शामिल होगये, फिर कुंवर देष्णोकमें जा रहा, जो करणी माताका शरणार्थी स्थान है. विक्रमी १८३८ [हि० ११९५ = ई० १७८१] में वहांसे निकलकर जोधपुरके महाराजा विजयसिंहके पास पहुंचा, और उनकी जमानतसे विक्रमी १८४२ [हि० ११९९ = ई० १७८५] में पीछा बीकानेर अपने बापके पास आया. महाराजाने कुंवरको नजर कैद किया. विक्रमी १८४४ चैत्र शुक्ल ६ [हि० १२०१ ता० ४ जमादियुस्सानी = ई० १७८७ ता० २५ मार्च] को महाराजा गजसिंह का इन्तिकाल होगया, और कुंवर राजसिंह गादी बैठे. महाराजा गजसिंहके कुंवर १ राजसिंह, २ सूरतसिंह, ३ छत्रसिंह, ४ श्यामसिंह, ५ अजबसिंह, ६ मुहकमसिंह, ७ रामसिंह, ८ गुमानसिंह, ९ सबलसिंह, १० भोपालसिंह, ११ जगतसिंह, १२ खुमाणसिंह, १३ मूणसिंह, १४ उदयसिंह, १५ जालिमसिंह, १६ सुल्तानसिंह, १७ देवीसिंह, १८ खुशहालसिंह; और ख्वासके १ दौलतराम, २ पृथ्वीराज, ३ धीरतसिंह, ४ जैतसिंह, ५ चन्द्रभाण, ६ सवाईसिंह, ७ तिलोकसिंह, और ८ उदयकरण थे.

१५ महाराजा राजसिंह.

महाराजा राजसिंहका जन्म विक्रमी १८०१ कार्तिक कृष्ण २ [हि० ११५७ ता० १६ रमजान = ई० १७४४ ता० २५ अक्टोबर] को हुआ, और विक्रमी १८४४ वैशाख कृष्ण २ [हि० १२०१ ता० १६ जमादियुस्सानी =

ई० १७८७ ता० ५ एप्रिल] को गादी बैठे, लेकिन थोड़े दिनों बाद इसी संवत्के वैशाख शुक्ल ८ [हि० ता० ६ रजब = ई० ता० २६ एप्रिल] को क्षयी (सिल) की बीमारीसे इन्तिकाल होगया; तब इनके छोटे भाई सूरतसिंह गादी बैठे.

१६ महाराजा सूरतसिंह.

इन महाराजाका जन्म विक्रमी १८२२ पौष शुक्ल ६ [हि० ११७९ ता० ४ रजब = ई० १७६५ ता० १८ डिसेम्बर] को हुआ था, इन्होंने गादीपर बैठनेके बाद देशी जागीरदारोंका भगड़ा विक्रमी १८४७ [हि० १२०४ = ई० १७९०] में खुद जाकर मिटाया.

विक्रमी १८५६ [हि० १२१४ = ई० १७९९] में सोढल ग्रामकी जगह सूरतगढ़ बसाया. विक्रमी १८६३ और ६४ (१) [हि० १२२१ तथा २२ = ई० १८०६ तथा ७] में उदयपुरके महाराणा भीमसिंहकी बाई कृष्णकुंवर के संबन्धकी बाबत जयपुर और जोधपुरके राजाओंमें जो बखेड़ा उठा, तो उस वक्त महाराजा सूरतसिंह जयपुरके महाराजा जगतसिंहके शामिल थे; लड़ाईके वक्त जोधपुरके सदाँर जयपुरवालोंसे मिलगये, तब महाराजा मानसिंहने भागकर जोधपुरके किलेमें पनाह ली, और महाराजा जगतसिंह व सूरतसिंहने किलेको घेरलिया.

इसके बाद महाराजा सूरतसिंह तो मोतीजुराकी बीमारीके सबब बीकानेर चलेआये, और नव्वाब मीरखां कई हजार फौजके साथ महाराजा मानसिंहकी मिलावटसे जयपुरकी तरफ़ खाना हुआ. तब महाराजा जगतसिंह भी भागकर जयपुर पहुंचे, और मीरखांकी कोशिशसे बेगुनाह कृष्णकुंवर बाई जहरसे कत्ल कीगई. इसी अदावतसे महाराजा मानसिंहने बड़ी फौज देकर विक्रमी १८६५ [हि० १२२३ = ई० १८०८] में सिंगवी इन्द्रराजको बीकानेरपर भेजा, और दूसरी तरफ़ दाऊद पोत्रा व जोइया वगैरह सिन्धके मुसल्मानोंने भी चढ़ाई की, तब महाराजा सूरतसिंहने फलौदीका परगना व तीन लाख रुपया देकर जोधपुरकी फौजको लौटाया, और पहिले फतह किये हुए छः किले देकर सिन्धके मुसल्मानों (२) से पीछा छुड़ाया.

(१) यह मारिका संवत् १८६३ में शुरू हुआ और १८६४ तक जारी रहा— इस लिये दोनों संवत् लिखे गये हैं.

(२) सिन्धके मुसल्मान, नव्वाब बहावलपुरकी फौजसे मुराद है, क्योंकि वही दाऊद पोत्रे कहलाते हैं, और उन्होंनेही बीकानेर और जैसलमेरका इलाका दबाकर अपनी रियासत कायम की है.

विक्रमी १८७० [हि० १२२८ = ई० १८१३] में महाराजा मानसिंहके गुरु आयस देवनाथने बीचमें पड़कर बीकानेर और जोधपुरके महाराजोंकी सफाई करवादी, और महाराजा सूरतसिंहने जोधपुर जाकर मुलाकात की. महाराजा मानसिंहने बड़े स्नेहके साथ मान सन्मान किया, और महाराजा सूरतसिंह पीछे बीकानेर आये. विक्रमी १८७१ [हि० १२२९ = ई० १८१४] में चूरूका ठाकुर बदलगया, जिसपर फौज समेत अमरचन्द कामदारको भेजकर चूरू खालिसेमें किया, और महाराजाने अमरचन्दको रावका खिताब देकर बहुतसा इनआम दिया, परन्तु थोड़े दिनों बाद लोगोंके बहकानेसे उसे मरवा डाला. विक्रमी १८७२ [हि० १२३१ = ई० १८१६] में जागीरदारोंने बहुत फसाद मचाया, और मीरखां व जमशेदखां भी लूटनेके लिये गइत करते रहे. विक्रमी १८७३ [हि० १२३१ = ई० १८१६] में चूरूके ठाकुरने अपना किला लेलिया, जिसमें महाराजाका थानेदार महता मेघराज मारा गया.


विक्रमी १८७४ [हि० १२३३ = ई० १८१८] में बहुतसे मुल्की फसाद होनेके सबब ओम्हा काशीनाथको दिल्ली भेजकर सरकार अंग्रेजीसे पहिला अहदनामह किया. विक्रमी १८७५ [हि० १२३४ = ई० १८१९] में नीचे लिखेहुए गढ़, और इलाके अंग्रेजी फौजकी मददके साथ सर्दारोंसे छुड़ाये:-

- (१) चूरूका गढ़, पृथ्वीसिंह शिवसिंहोतसे.
- (२) सिद्धमुख, पृथ्वीसिंह शृंगोतसे.
- (३) सिरसलाकी गढ़ी, रणजीतसिंह बणीरोतसे.
- (४) नीवांकी और सुलखनियांकी गढ़ी दोनों, शेरसिंह कृष्णसिंहोतसे.
- (५) ददरेवेका गढ़, बीका सूरजमल्ल कुंभकर्णोतसे.
- (६) देपालसरकी गढ़ी, बणीरोत रौड़सिंह अमरसिंहोतसे.
- (७) जाहरियाकी गढ़ी, बणीरोत मानसिंह हरीसिंहोतसे.
- (८) गंधेलीकी गढ़ी, शृंगोत अनूपसिंह संग्रामसिंहोतसे.
- (९) विरकालीकी गढ़ी, शृंगोत दलपतसिंह कृष्णसिंहोतसे.
- (१०) भादराका गढ़, जो प्रतापसिंह पहाड़सिंहोतसे सिक्खोंने लिया था, वह अंग्रेजोंने सिक्खोंसे लेकर महाराजाको दिया.

विक्रमी १८७७ आषाढ़ कृष्ण ८ [हि० १२३५ ता० २२ रमजान = ई० १८२० ता० ४ जुलाई] के लग्नपर महाराजाके बड़े कुंवर रत्नसिंह उदयपुर आये, और महाराजा भीमसिंहकी राजकन्या अजबकुंवरके साथ विवाह किया, जो

महाराणी बाघेलीके गर्भसे पैदा हुई थी; और छोटे कुंवर मोतीसिंहका विवाह बागौर के महाराज शिवदानसिंहकी बेटीके साथ हुआ. इसी लग्नपर महाराणाकी कन्या रूपकुंवरका विवाह जैसलमेरके रावल गजसिंहसे, और महाराणाकी पोती कीका-बाईकी शादी कृष्णगढ़ महाराजाके कुंवर मुहकमसिंहके साथ हुई. इन विवाहोंका पूरा हाल महाराणा भीमसिंहके बयानमें लिखाजायगा.

शादीके बाद कुंवर रत्नसिंह बीकानेर आये. विक्रमी १८८५ चैत्र शुक्ल ९ [हि० १२४३ ता० ७ रमजान = ई० १८२८ ता० २४ मार्च] को महाराजा सूरतसिंहका इन्तिकाल हुआ. इनके तीन बेटे- रत्नसिंह, मोतीसिंह और लखमसिंह थे, जिनमेंसे मोतीसिंहका देहान्त तो विक्रमी १८८२ [हि० १२४१ = ई० १८२५] में बापके सामने ही होगया था, जिनके साथ बागौरके महाराज शिवदानसिंहकी बेटी दीपकुंवर सती हुई.



१७ महाराजा रत्नसिंह.

इनका जन्म विक्रमी १८४७ पौष कृष्ण ९ [हि० १२०५ ता० २३ रबीउस्सानी = ई० १७९० ता० ३० डिसेम्बर] को हुआ. इन महाराजाके गादी बैठते ही जैसलमेरके भाटियोंने सरहदपर फसाद किया, जिसपर बीकानेरसे फौज भेजी गई, लेकिन उसने शिकस्त पाई, और भाटियोंने एक नक्कारा छीनलिया, इसलिये जॉर्ज हार्क साहिबने मौकेपर जाकर फ़ैसला करदिया. बीकानेरकी तरफसे हिन्दूमल्ल और हुकमीचन्द मोतमद थे.

इसी वर्षमें महाजन गांवको फौज भेजकर खालिसेमें दाखिल किया, और ठाकुर वैरीशाल भागा, व इसका बेटा अमरसिंह कैदी बनकर बीकानेर आया. फिर वैरीशाल भी साठ हजार रुपया पेशकश देकर हाजिर होगया, और देष्णोक श्री करणी देवीके मन्दिरमें महाराजाने इक्रार किया, कि हमारी तरफसे कुछ दगाबाजी न होगी, वैरीशाल भी अपने नौकर अमरावतोंसे दगा न करे. लेकिन वैरीशालने विक्रमी १८८६ [हि० १२४५ = ई० १८२९] में दगासे २४ अमरावतों को मारडाला, तब महाराजाने फौज भेजकर महाजनको अपने कब्जेमें लिया. इसपर ठाकुर वैरीशालने जैसलमेर और पुंगलके भाटियोंसे मदद लेकर फसाद उठाया. सरकार अंग्रेजीने नसीराबादसे फौज भेजना चाहा, लेकिन वह इस सबबसे रुकगई, कि महाराजाने आप जाकर हम्ला किया, जिससे वैरीशाल भागगया, पुंगलका ज़िला भाटी शार्दूलसिंहको देदिया. विक्रमी १८८८ [हि० १२४७]

= ई० १८३१] में दिल्लीके बादशाहकी तरफसे एक खिलअत, हाथी, घोड़े, नक़ारा और नरेन्द्र सवाईका खिताब फ़र्मानके साथ महाराजा रत्नसिंहके लिये आया, जिसको महाराजाने अदबके साथ लिया. फिर महाराजाने अपने वकील हिन्दूमल्लको महारावका खिताब दिया.

इसी संवत्में महाजन, बीदासर और चारवासके ठाकुर हाज़िर हुए, महाराजाने उनकी जागीरें बहाल कीं, लेकिन महाजनवालोंने साठ हजार, बीदासरवालोंने पचास हजार, और चारवासवालोंने चालीस हजार रुपये पेशकशीके दिये. इन्हीं दिनोंमें महाराजा हरिद्वारका तीर्थ करने गये; लौटते वक्त हिसारके किलेसे भाद्राके ठाकुर प्रतापसिंह को छुड़ाया, जोकि डकैतीके कुसूरमें कैद हुआ था; परन्तु प्रतापसिंहने फिर फ़साद करके छाणी ग्राममें कब्ज़ा करलिया. इसपर महाराजाने छाणी छीनलिया, और प्रतापसिंह देष्णोकमें श्री करणी देवीके शरणे जा बैठा. विक्रमी १८९१ [हि० १२५० = ई० १८३४] में डकैती बन्द करनेके लिये महाराजाने रत्नगढ़में एजेन्ट गवर्नर जेनरल कर्नेल् आल्जसे मुलाकात करके एक फ़ौज भरती करनेका इक़ार किया, उसमें सौ बीदावत राजपूत भी शामिल कियेगये; इस फ़ौज खर्चके लिये महाराजाने बाईस हजार रुपया देना मंज़ूर किया. फिर महाराजा विक्रमी १८९३ [हि० १२५२ = ई० १८३६] में गयाश्राद्ध करनेको छः हजार फ़ौज साथ लेकर गये, और लौटतेहुए अपने कुंवर सर्दारसिंहकी शादी रीवां कराकर बीकानेर आये.

विक्रमी १८९६ [हि० १२५५ = ई० १८३९] में पुष्कर तीर्थकी यात्राको गये, और वहांसे महाराणा सर्दारसिंहके बुलानेपर उदयपुर पहुंचे; और विक्रमी पौष शुक्ल १२ [हि० ता० १० जिल्काद = ई० १८४० ता० १७ जैनुअरी] को महाराजाके कुंवर सर्दारसिंहका विवाह महाराणाकी राजकन्या महतावकुंवरके साथ हुआ, इसके बाद बीकानेर चलेआये.

उदयपुरके महाराणा सर्दारसिंह, जो तीर्थ यात्राके लिये गये थे, लौटते वक्त बीकानेर आये, और महाराजाकी कन्याके साथ विक्रमी १८९७ आश्विन शुक्ल ९ [हि० १२५६ ता० ७ शरबान = ई० १८४० ता० ७ अक्टोबर] को शादी की.

विक्रमी १८९९ [हि० १२५८ = ई० १८४२] में महाराजा गवर्नर जेनरलकी मुलाकातके लिये दिल्ली गये. विक्रमी १९०२ [हि० १२६१ = ई० १८४५] में बीकानेरके महाराजाको दो तोपें सर्कार अंग्रेज़ीने दीं; फिर विक्रमी १९०८

श्रावण शुक्ल ११ [हि० १२६७ ता० ९ शव्वाल = ई० १८५१ ता० ९ अगस्त] को महाराजा रत्नसिंहका देहान्त हुआ, और कुंवर सर्दारसिंह गद्दीपर बैठे.

१८ महाराजा सर्दारसिंह.

इनका जन्म विक्रमी १८७५ भाद्रपद शुक्ल १४ [हि० १२३३ ता० १३ जिल्काद = ई० १८१८ ता० १४ सेप्टेम्बर] को हुआ था, इनके राज्यमें बीस प्रधान बदले गये— गुमानसिंह वैद्य और लच्छीराम रखेचा एक वर्ष, फिर अकेला लच्छीराम एक वर्ष, गुमानसिंह एक वर्ष, दाजी अनन्त पंडित ग्वालियरी एक वर्ष, रामलाल द्वारिकानी सात वर्ष, फिर गुमानसिंह वैद्य एक वर्ष, रामलाल एक वर्ष, लच्छीरामका बेटा मानमल्ल रखेचा नौ महीने, शिवलाल नायटा तीन महीने, फ़तहचन्द सूराणा १५ दिन, पुरोहित गंगाराम खेतड़ीका साढ़े तीन महीने, शाहमल्ल कोचर आठ महीने, मानमल्ल आठ महीने, शिवलाल महता १५ दिन, लक्ष्मीचन्द नायटा आठ महीने, इसके बाद मुन्शी विलायत हुसैन एक सालके करीब, और पण्डित मन्फूल सी, एस, आई, कुछ मुद्दततक रहे; इन लोगोंकी अदलाबदली कर्नेल् पाउलेटने दण्डका एक दूसरेसे ज़ियादह रुपया देनेके सबब लिखी है.

इनमेंसे प्रधान रामलालकी तारीफ़ राज्यके लोग ज़ियादह करते हैं. विक्रमी १९२५ [हि० १२८५ = ई० १८६८] में एक अंग्रेज़ी अफ़सर असिस्टेंट गवर्नर जेनरलके नामसे सर्कार अंग्रेज़ीकी तरफ़से डकैती रोकनेके लिये सुजानगढ़में रक्खागया, जिसको पोलिटिकल एजेण्ट बीकानेरका भी इस्तिथार हासिल था. इस उद्देशपर पहिले आने वाले अफ़सर कप्तान पाउलेट थे, जो कि अब कर्नेल् और मुल्क मारवाड़के रेजिडेण्ट हैं.

महाराजा सर्दारसिंह विक्रमी १९२९ वैशाख शुक्ल ८ [हि० १२८९ ता० ६ रवीउलअव्वल = ई० १८७२ ता० १६ मई] में इस दुनियाको छोड़गये; इनके कोई औलाद नहीं थी, इस लिये डूंगरसिंह गोद लिये जाकर गद्दीपर बिठायेगये, जो ठाकुर लालसिंहके कुंवर और महाराजा गजसिंहसे सातवीं पीढ़ीमें हैं.

१९ महाराजा डूंगरसिंह.

इनके गद्दी बैठनेकी बावत रियासतके सर्दारों, राणियों और अहलकारोंमें, जो कि अपने मत्लबके लिये रियासतके फ़ायदोंपर कुछ खयाल नहीं करते, बहुत झगड़ा फैला.

कुछ लोग खडूसिंहके तरफदार और अक्सर डूंगरसिंहके मददगार थे, एक हफतेतक कोई मुआमला तै न पाया. कप्तान ब्राडफोर्ड असिस्टेंट एजेण्ट गवर्नर जेनरल सुजानगढ़से गर्म मौसममें बहुत तछीफ उठाकर बीकानेर पहुंचे, और राज्यके लोगोंके बेजा मन्शाओंको दूर करके पाट राणी वगैरहकी सलाहसे डूंगरसिंहके राजा होनेकी मनादी कराई.

विक्रमी १९२९ माघ कृष्ण ९ [हि० १२८९ ता० २३ जिल्काद = ई० १८७३ ता० २२ जैनुअरी] को कर्नेल् पेली साहिब एजेण्ट गवर्नर जेनरल राजपूतानहने सर्कार अंग्रेजीकी तरफसे महाराजा डूंगरसिंहको बीकानेर जाकर खिलअत, रियासती मुहरें और मुल्की इस्तिथार, जो थोड़े दिनोंसे पोलिटिकल असिस्टेंटके सुपर्द था, दिया. इस्तिथार मिलनेके एक वर्ष बाद ठाकुरों और रअध्यतकी अर्जियां खराब इन्तिजामकी बाबत अंग्रेजी सर्कारमें पहुंचीं, जिसपर एजेण्ट गवर्नर जेनरलने खरीतेके जरीएसे महाराजाको रियासती कामपर तवज्जुह दिलाई, और पोलिटिकल असिस्टेंटको खानगी बातोंमें जियादह दस्ल देनेसे मना किया.

विक्रमी १९३१ आश्विन कृष्ण ८ [हि० १२९१ ता० २२ शअ्रवान = ई० १८७४ ता० ५ ऑक्टोबर] को महाराजाने कर्नेल् सर लेविस पेली साहिब एजेण्ट गवर्नर जेनरलसे सांभर मकामपर मुलाकात की; इसके बाद मुल्की दौरेका इरादह था, लेकिन इतिफाकसे उन दिनोंमें महाराणा साहिब उदयपुरके गुजरने से, जो महाराजाके भानजे होते थे, और महाराव राजा अलवरके इन्तिकालसे, जो रिश्तेमें मामूं थे, बीकानेरको लौटना पड़ा; तमाम रियासतके अन्दर शादी और त्यौहारोंकी रस्में एक महीना तक बन्द और गोश्त व शराबके खाने पीनेकी एक वर्ष तक बिल्कुल मनाई रही.

विक्रमी १९३२ माघ कृष्ण १३ [हि० १२९२ ता० २७ जिल्हिज = ई० १८७६ ता० २५ जैनुअरी] को महाराजा साहिब आगरा मकामपर इंग्लिस्तान व हिन्दुस्तानके वलीअहद शाहजादह साहिब वेलजकी पेशवाई और मुलाकातमें दूसरे रईसोंकी तरह शरीक हुए. इसके बाद महाराव राजा बूंदी और महाराजा कृष्णगढ़से मुलाकात करके बीकानेरको वापस आये. इस सफरमें सर्कारी कारखाने देखनेसे महाराजाको बहुत खुशी हासिल हुई, और उनको अपने इलाकेके बखिलाफ, जो जियादह गैर आबाद और रेगिस्तान है, सर्कारी मुल्ककी सर्सब्जी और रौनकपर निहायत तअज्जुब हुआ.

विक्रमी १९३३ फाल्गुण कृष्ण ३ [हि० १२९४ ता० १७ मुहर्रम = ई० १८७७ ता० २ फेब्रुअरी] को महाराजाने मकाम भुज राजधानी कच्छमें

पहुँचकर वहाँके राव साहिबकी बेटीसे शादी की. इस सफ़रमें महाराजा किशतीके ज़रीएसे द्वारिकाको गये, जहाँ कि बहुत मुदत पहिले विक्रमी १६५० [हि० १००१ = ई० १५९३] में बादशाही मन्सब्दार और उनके बुजुर्ग राव राय-सिंहके सिवाय बीकानेरसे कोई नहीं गया था.

विक्रमी १९४१ [हि० १३०१ = ई० १८८४] में बीकानेरके सर्दारोंने महाराजाके लालच और उनके मुसाहिब अहल्कारोंकी कार्रवाईसे नाराज़ होकर बगावत की, जिससे रिआया और मुल्ककी तबाहीका अन्देशा था, रियासतमें फ़साद दूर करने और संभलनेकी बिल्कुल ताकत न थी; इस लिये कर्नेल् सर एडवर्ड ब्राडफ़ोर्ड एजेण्ट गवर्नर जेनरल राजपूतानह, जिनको इस मुल्ककी ख़राबियोंका बहुत तजरिबा है, सर्कारी फ़ौज लेकर बीकानेर गये; उन्होंने कई फ़सादी ठाकुरोंको नज़र बन्द किया, और रियासतकी निगरानी और वहाँके कामकी दुरुस्तीपर एक सर्कारी अफ़सर पोलिटिकल एजेण्ट और सुपेरिन्टेन्डेंटको रखदिया.

तरजमा.

पहिला अहदनामह नम्बर ८३.

अहदनामह जो अंग्रेज़ी ईस्टइण्डिया कम्पनी और बीकानेरके महाराजा सूरत-सिंहके दर्मियान मिस्टर चार्ल्स थियोफ़िलस मेटकाफ़ साहिब (गवर्नर जेनरलके दिये हुए इस्तियारोंके मुवाफ़िक़) और ओम्ना काशीनाथकी मारिफ़त (राज राजेश्वर महाराजा सूरतसिंह बहादुरके दिये हुए इस्तियारके मुवाफ़िक़) हुआ.

(१) शर्त- दोस्ती और ऐकता और ख़ैरख़्वाही, इज़्जतदार कम्पनी और महाराजा सूरतसिंह व उनके वारिसों और जानशीनोंके आपसमें होगी, और एक सर्कारके दोस्त और दुश्मन दूसरी सर्कारके भी दोस्त और दुश्मन समझे जावेंगे.

(२) शर्त- गवर्मेण्ट अंग्रेज़ी ख़ास राजस्थान और इलाके बीकानेरकी हिफ़ाज़त करनेका वादा करती है.

(३) शर्त- महाराजा सूरतसिंह और उनके जानशीन सर्कार अंग्रेज़ीकी ताबे-दारी करेंगे, और उसको बड़ा समझेंगे, और किसी रईस या दूसरे सर्दारसे वास्ता नहीं रखेंगे.

(४) शर्त- महाराजा और उनके वारिस और जानशीन किसी रईस या

सर्दारसे सुलहके पैगाम गवर्मेण्ट अंग्रेजीकी इत्तिला और मंजूरीके बगैर नहीं करेंगे, परन्तु मामूली दोस्तानह तहरीर अपने दोस्तों और रिश्तेदारोंके साथ जारी रखेंगे.

(५) शर्त- महाराजा और उनके वारिस या जानशीन किसीपर जियादती नहीं करेंगे, और शायद किसी से तक्रार होजायगी, तो उसका फैसला गवर्मेण्ट अंग्रेजीकी मारिफत कियाजायगा.

(६) शर्त- जो कि बीकानेरके बाजे रहने वालोंने चोरी धाड़ा बगैरह करना इस्तिथार किया है, और अक्सर लोगोंका माल लूटा है, इससे दोनों सरकारकी ताबेदार रअध्यतका बहुत नुकसान हुआ है, इस वास्ते महाराजा वादा करते हैं, कि आजतक अंग्रेजी रअध्यतका, जो अस्बाब लूटागया होगा, वह महाराजा वापस दिलावेंगे; और आगेको चोर धाड़ेतियोंको अपनी रियासतमें कैद और गारत करदेंगे; और अगर इस कामका बन्दोबस्त महाराजासे न होसकेगा, तो उनके मांगनेपर सरकार अंग्रेजी इस कामके वास्ते फौजी मदद देगी; उस मददके फौज खर्च देनेका इक्कार महाराजा करते हैं; और फौज खर्च नहीं देसकेंगे, तो उसके एवज कुछ इलाका अपना सरकार अंग्रेजीके सुपुर्द करदेंगे, जो सरकारी रुपया अदा होने बाद महाराजाको वापस मिलजायगा.

(७) शर्त- सरकार अंग्रेजी महाराजाकी दरखास्तके मुवाफिक ठाकुरों और दूसरे बाशिन्दोंको, जो सर्कश हैं, महाराजाका ताबेदार करदेगी, लेकिन इस सूरतमें भी महाराजा कुल फौज खर्च देंगे, और अगर नहीं दे सकेंगे, तो कुछ इलाका सरकार अंग्रेजीके सुपुर्द करदेंगे, जो रुपया जमा होने पीछे वापस महाराजाको मिल जावेगा.

(८) शर्त- महाराजा बीकानेर सरकार अंग्रेजीको मांगनेके वक्त अपने मकदूरके मुवाफिक फौज देंगे.

(९) शर्त- महाराजा और उनके वारिस और जानशीन अपने कुल मुल्कके मालिक और हाकिम हैं, इस रियासतमें अंग्रेजी हुकूमत नहीं होगी.

(१०) शर्त- सरकार अंग्रेजीकी यह तज्वीज है कि बीकानेर और भटनेरके रास्तों में अन्न व आराम रहे, और वह काबुल व खुरासान जानेवाले सौदागरोंके लायक दुरुस्त हों; इस वास्ते महाराजा इक्कार करते हैं कि उन रास्तोंका ऐसा बन्दोबस्त करदेंगे कि मुसाफिर लोग आरामके साथ उनके इलाकेसे गुजरें- और मामूली राहदारीके सिवाय किसी तरहकी रोक टोक नहीं कीजावेगी.

(११) शर्त- यह ग्यारह शर्तोंका अह्दनामह तय्यार होकर उसपर मिस्टर चार्ल्स थियोफिलस मेटकाफ और ओभा काशीनाथकी मुहर और दस्तखत हुए. इसकी नक़्के गवर्नर जेनरल और राजराजेश्वर महाराजा सूरतसिंह बहादुरकी तस्दीक कीहुई बीस दिन पीछे नीचे लिखी तारीखको आपसमें एक दूसरेको दी जावेंगी.
तारीख ९ मार्च सन् १८१८ ईसवी मक़ाम दिहली.

दस्तखत सी० टी० मेटकाफ, मुहर

दस्तखत ओभा काशीनाथ, मुहर

गवर्नर जेनरलकी

छोटी मुहर.

दस्तखत हेस्टिंगज़,

इस अह्दनामहको गवर्नर जेनरल बहादुरने कैम्पमें घाघरा नदीके किनारे पतरस घाटके पास २१ मार्च सन् १८१८ को तस्दीक किया.

दस्तखत जे. गेडम, सेक्रेटरी गवर्नर जेनरल.

नम्बर ८४.

उस सनदका तरजमा, जिसके मुवाफ़िक बाज़े गांव महाराजा सर्दारसिंह बहादुर राजा बीकानेरको मिले.

मुवरखे ता० ११ एप्रिल सन् १८६१ ई०.

जो कि साहिब एजेण्ट गवर्नर जेनरल बहादुर राजस्थानकी रिपोर्टसे मालूम हुआ कि ग़द्रके दिनोंमें महाराजा सर्दारसिंह बहादुर राजा बीकानेरने सर्कार अंग्रेज़ीकी खैरखाही और ताबेदारीके खयालसे आप हाज़िर रहकर और बहुत रुपया खर्च करके बाज़े यूरोपियन लोगोंकी जान बचाई, और दूसरी खिन्नतें भी गवर्मेण्ट अंग्रेज़ीकी पसन्दके लायक कीं; इस लिये उन खिन्नतोंसे सर्कार अंग्रेज़ीने खुश होकर महाराजाको खुशीका खरीता और कीमती खिल्अत (सरोपाव) बख़शा. सर्कारने खुशीके साथ एक अलहदा फ़िहरिस्तके मुवाफ़िक ज़िले सिरसामेंसे चौदह हजार दो सौ इकानवे रुपये की आमदनीके गांव महाराजा को हमेशहके लिये निकालदिये, इस लिये ये गांव इस सनदके ज़रीएसे उनके क़दीमी इलाक़ेके शामिल किये गये; और तारीख १ मई सन् १८६१ ईसवीसे उन्हीं शर्तोंपर, जिनपर कि उनको क़दीम इलाक़ाह मिला है, इस सनदका भी अमल दरामद होगा.

उन गांवोंके नाम मए सालाना जमाबन्दीके, जो महाराजा बीकानेरको
खैरखाहीके एवज सरकार अंग्रेजीसे मिले, एचिसनके
अहदनामोंकी किताबकी तीसरी जिल्दके पृष्ठ
२३२ से नीचे लिखेजाते हैं:-

नम्बर	नाम ग्राम.	सालाना जमा, सन् १८६१-६२ ई०	कैफियत.
१	साबोरा	३०० रु०	इस गांवकी जमा तरकी पर है, सन् १८६५-६६ में ५९० रुपयेतक पहुंचेगी. २३५ रु०
२	नानकपट्टी	१७७ रु०	
३	खाराकुवा	४९० रु०	
४	गोदयाखार	४०६ रु०	
५	कामपुरा	१३७ रु०	
६	सोलावाली	२३४ रु०	
७	मलरखारा	४५१ रु०	
८	बासेहर	५०० रु०	
९	गलवाला	४१० रु०	
१०	सहारन	३५० रु०	
११	कुलचन्द्र	२५० रु०	
१२	सुरावली	९४८ रु०	
१३	चंदरूवाली	२०० रु०	
१४	नीरकामरया	७४० रु०	
१५	पन्नीवाली उर्फ चगरानी	२०७ रु०	
१६	कनाली	४५१ रु०	
१७	गलरावती	५३४ रु०	
१८	मसानी	३४६ रु०	
१९	पट्टी बरजीका	८८९ रु०	
२०	रता खारा	१९९ रु०	

२१	रतीखारा	१६ रु०	२३५ रु०
२२	किशनपुरा	१२० रु०	सन् १८७०-७१ में ३०० रु०
२३	सलीमगढ़	१७ रु०	१३० रु०
२४	घारी	२१० रु०	सन् १८६५-६६ में ३४० रु०
२५	सलवाला खुर्द	१९४ रु०	२६६ रु०
२६	बेरवाला कलां	२८० रु०	
२७	सलवाला कलां	२४१ रु०	३६६ रु०
२८	तलवाड़ा कलां	७५७ रु०	
२९	जलालाबाद	१७६ रु०	२७६ रु०
३०	मुहारवाला	४८२ रु०	५५४ रु०
३१	सीतावाली	२२३ रु०	२६१ रु०
३२	रामसर	२५८ रु०	३०८ रु०
३३	देहली खुर्द	३९४ रु०	४५४ रु०
३४	रामनगर	२०० रु०	
३५	देहली कलां	७३० रु०	७८० रु०
३६	मरजावाई	३६१ रु०	४२३ रु०
३७	जाववाली	३१० रु०	३६० रु०
३८	भोरांपुरा	१७४ रु०	२२५ रु०
३९	खैरावाली	१८१ रु०	२३१ रु०
४०	शरवांपुरा	४७३ रु०	
४१	कंदाहा	२८५ रु०	

१४२९१ रुपया.

अहदनामह नम्बर ८५.

सर्कार अंग्रेजी और श्रीमान् सर्दारसिंह महाराजा बीकानेर व उनके वारिसों और जानशीनोंके बीचका अहदनामह, जो एक तरफ़ लेफ्टिनेंट कर्नेल् रिचर्ड हार्ट किटिंग सी० एस० आई० राजपूतानहके एजेण्ट गवर्नर जेनरलने श्रीमान् राइट आनरेबल सर जॉन लेयर्ड मेअर लॉरेन्स बैरोनेट वाइसराय और गवर्नर जेनरल हिन्दुस्तानसे पूरा इस्तिथार पाकर खुद महाराजा सर्दारसिंहके साथ किया.

पहिली शर्त- कोई आदमी अंग्रेजी या दूसरे राज्यका बाशिन्दह अगर अंग्रेजी इलाकेमें बड़ा जुर्म करे, और बीकानेरकी राज्यसीमामें पनाह लेना चाहे, तो बीकानेर की सरकार उसको गिरिफ्तार करेगी, और दस्तूरके मुताबिक उसके मांगेजाने पर सरकार अंग्रेजीको सुपुर्द करदेगी.

दूसरी शर्त- कोई आदमी बीकानेरके राज्यका बाशिन्दह वहांके राज्यकी सीमामें कोई बड़ा जुर्म करे, और अंग्रेजी मुल्कमें जाकर आश्रय लेवे, तो सरकार अंग्रेजी वह मुज्जिम बीकानेरके राज्यको काइदहके मुवाफिक सुपुर्द कर देवेगी.

तीसरी शर्त- कोई आदमी, जो बीकानेरके राज्यकी रअध्यत न हो, और बीकानेरके राज्यकी सीमामें कोई बड़ा जुर्म करके फिर अंग्रेजी सीमामें आश्रय लेवे, तो सरकार अंग्रेजी उसको गिरिफ्तार करेगी, और उसके मुकदमेकी रूबकारी सरकार अंग्रेजीकी बतलाई हुई अदालतमें होगी. अक्सर काइदह यह है कि ऐसे मुकदमोंका फैसला उस पोलिटिकल अफसरके इजलासमें होता है, जिसके तहतमें वारिदात होनेके चक्रपर बीकानेर की मुल्की निगहबानी रहे.

चौथी शर्त- किसी हालमें कोई सरकार किसी आदमी को, जो बड़ा मुज्जिम ठहरा हो, दे देनेके लिये पाबन्द नहीं है, जबतक कि दस्तूरके मुताबिक खुद वह सरकार या उसके हुक्मसे कोई अफसर उस आदमीको न मांगे, जिसके इलाकेमें कि जुर्म हुआ हो, और जुर्मकी ऐसी गवाहीपर जैसा कि उस इलाकेके कानूनके मुताबिक सहीह समझी जावे, जिसमें कि मुज्जिम पाया जावे, उसका गिरिफ्तार करना दुरुस्त ठहरेगा, और वह मुज्जिम करार दिया जायगा, गोया कि जुर्म वहींपर हुआ है.

पांचवीं शर्त- नीचे लिखेहुए काम बड़े जुर्म समझे जावेंगे.

१ खून- २ खून करनेकी कोशिश- ३ वहशियाना कल्ल- ४ ठगी- ५ जहरदेना- ६ सरतगीरी (जबरदस्ती व्यभिचार)- ७ जियादह जस्मी करना- ८ लड़कावाला चुरा लेजाना- ९ औरतोंका बेचना- १० डकैती- ११ लूट- १२ सेंध (नकब) लगाना- १३ चौपाये चुराना- १४ मकान जलादेना- १५ जालसाजी करना- १६ झूठा सिक्का चलाना- १७ धोखा देकर जुर्म करना- १८ माल अस्बाब चुरालेना- १९ ऊपर लिखे हुए जुर्मोंमें मदद देना या वर्गलाना (बहकाना).

छठी शर्त- ऊपर लिखी हुई शर्तोंके मुताबिक मुज्जिमको गिरिफ्तार करने, रोक रखने, या सुपुर्द करनेमें, जो खर्च लगे, वह उसी सरकारको देनापड़ेगा, जिसके कहनेके मुताबिक वे बातें कीजावें.

सातवीं शर्त- ऊपर लिखा हुआ अहदनामह उस चक्रतक बरकरार रहेगा, जब

तक कि अहदनामह करनेवाली दोनों सरकारोंमेंसे कोई उसके तब्दील करनेकी स्वाहिश दूसरेको जाहिर न करे.

आठवीं शर्त- इस अहदनामहकी शर्तोंका असर किसी दूसरे अहदनामहपर, जो कि दोनों सरकारोंके बीच पहिलेसे है, कुछ न होगा, सिवाय ऐसे अहदनामहके, जो कि इस अहदनामहकी शर्तोंके बखिलाफ़ हो.

मक़ाम बीकानेर ता० ३ फ़ेब्रुअरी सन् १८६९ ईसवी.

दस्तख़त परसी, डब्ल्यू० पाउलेट,
नायव एजेंट गवर्नर जेनरल.

दस्तख़त और मुहर महाराजा
बीकानेर की.

दस्तख़त आर० एच० कीटिंग,
दस्तख़त मेअ्रो.

इस अहदनामहकी तस्दीक़ श्रीमान् वाइसराय गवर्नर जेनरल हिन्दने मक़ाम शिमलेपर ता० १५ जून सन् १८६९ ई० को की.

दस्तख़त डब्ल्यू० एस० सेटनकार.
सर्कार हिन्दकी फ़ॉरेन् डिपार्ट-
मेन्टका सेक्रेटरी.

कृष्णागढ़की तवारीख़.

जुग्राफ़ियः

इस राज्यके वायव्य कोण और उत्तरमें जोधपुर; पूर्वमें जयपुर और अजमेर का अंग्रेजी ज़िला; दक्षिण, नैऋत्य कोण व पश्चिममें अजमेर है. इस राज्यकी खास हदें कायम करना मुश्किल है, क्योंकि यह ज़ियादहतर ज़िले अजमेर और जयपुरके गावोंसे खिचड़ीकी तरह मिलाहुआ है. इसकी लम्बाई दक्षिणसे उत्तर

को २६ अंश और १७ कलासे २६ अंश और ५९ कलातक, और चौड़ाई पूर्वसे पश्चिमको ७४ अंश और ४३ कलासे ७५ अंश और १३ कलातक है; इसका रकबा ७२४ मील मुरब्बा, और आबादी ११२६३३ है; रियासतकी आमदनी किताब विकाया राजपूतानहमें २२५००० रुपया लिखी है, लेकिन इस वक्त इससे ज़ियादह मालूम होती है. इस रियासतके दक्षिणसे बायव्य कोणको पहाड़ है, और इसमें ४ किले व कस्बे मशहूर हैं—

१ राजधानी कृष्णगढ़, जो अजमेर व आगरेकी रेलवे सड़कपर बाकै है; किलेके उत्तरी तरफ़ गूंदोला नामी एक झील है, जिसका नाम बादशाहनामह वगैरह फ़ार्सी तवारीखोंमें जोगी तालाब लिखा है; इसके बीच टापूमें महाराजा मुहकमसिंहने अपने नामपर 'मुहकमबिलास' नामका एक महल तय्यार करवाया; जब तालाब भरजाता है तो किशतीमें बैठकर उस महलमें जाना पड़ता है, और तालाबके दक्षिणी किनारेपर किलेसे मिलाहुआ महाराजा पृथ्वीसिंहने फूल महल नामी एक मकान अंग्रेजी और हिन्दुस्तानी तर्जपर बनवाया है. किलेके गिर्दकी खन्दक हमेशह पानीसे भरी रहती है, मज़बूत दीवार के अन्दर महाराजाके महल और घोड़ोंकी पायगाह वगैरह रियासती कारखाने हैं; इस किलेमें एक किलेदार, जो भीतर दर्वाजेपर रहता है उसका बड़ा इस्तिथार है. महाराजा बहादुरसिंहका तज्वीज़ कियाहुआ बन्दोबस्त अबतक जारी है, जिससे किले खर्चके लिये जागीर मुकर्रर है; उसमेंसे नाज, बारूद, सीसा वगैरह सामान हमेशह दुरुस्त और मौजूद रहता है; जब कभी राज्यमें काम पड़े, तो किलेदार सूद लेकर रुपया देता है, और इक्कारपर उस खज़ानहमें जमा करालेता है. किलेके अलावह शहरके गिर्द भी शहरपनाह बनीहुई है. इस शहरमें ८००० आदमियोंकी आबादी समझी जाती है.

२ दूसरा रूपनगरका किला, जो महाराजा रूपसिंहने बनवाया था, इसको दुबारा महाराजा बहादुरसिंहने मज़बूत किया था, वह बहुत अच्छा लड़ाईके काम का है; और इस किलेमें भी किलेदारके तअल्लुक कृष्णगढ़के मुवाफ़िक़ इन्तिज़ाम कियागया है.

३ तीसरा किला सरवाड़, इस किलेका मैदानमें सिलसिलेवार इहातेके अन्दर इहाता बनाहुआ है, इस तरहपर तेहरी दीवार और खन्दकोंसे आगरा किलेकी तरह मज़बूत कियागया है; यहां भी किलेदारके मातहत कृष्णगढ़के मुवाफ़िक़ सब सामान दुरुस्त रहता है, और किलेदारकी इजाज़तके वगैर भीतर कोई आदमी नहीं जासक्ता

हे, और इजाजत भी मुश्किलसे मिलती है; किलेके पास शहरपनाह भी मजबूत बनी हुई है, लेकिन किलेके अन्दर कोई इमारत रहनेके लायक नहीं है, महाराजा पृथ्वीसिंहने एक छोटासा मकान बनवा दिया है, जिसमें चन्द आदमी एक दो रोज गुजरान करसके हैं.

४ चौथा फतहगढ़, जो महाराजा बहादुरसिंहने अपने छोटे बेटे बाघसिंहको जागीरमें दिया था, और वह अबतक उसकी औलादके कब्जेमें है, इसका जिक्र आगे लिखा जावेगा.

तवारीख.

इनका पहिला हाल जोधपुरकी तवारीखके शामिल समझना चाहिये, क्यों कि ये उसी खानदानमें से निकले हैं; अलहदा रियासत कायम होनेका हाल इस तरहपर है कि जोधपुरके राव मालदेवके बेटे उदयसिंहको बादशाह अकबरने राजाका खिताब और जोधपुर मण्डलाकहके जागीरमें दिया. विक्रमी १६४९ [हि० १००० = ई० १५९२] में राजा उदयसिंहकी बेटी मानमतीकी शादी शाहजादह सलीमके साथ हुई. उदयसिंहका इन्तिकाल होनेके बाद उनकी मर्जीके मुवाफिक सूरसिंहको तो जोधपुरकी गद्दी मिली, और किशनसिंह (कृष्णसिंह) को शाहजादह सलीमके पास रक्खा; जब अकबर बादशाहका इन्तिकाल होगया, और जहांगीर तरुतपर बैठा, तो उसने १ कृष्णसिंहका मन्सब बढ़ाकर सेठोलाव, जो जोगी तालाबके करीब था, जागीर में दिया, जिसके खंडहर वगैरहके निशानात अबतक कृष्णगढ़के करीब पश्चिमकी तरफ बाकी हैं.

कृष्णसिंहने जागीरपाने बाद सेठोलावके एवज विक्रमी १६६६ (१) [हि० १०१८ = ई० १६०९] में अपने नामपर कृष्णगढ़ बसाया. आखिरकार बादशाहने कृष्णसिंहको तीन हजारी जात और डेढ़ हजार सवारका मन्सब इनायत किया था, जब विक्रमी १६७० या ७१ [हि० १०२३ = ई० १६१४] में बादशाह जहांगीर मेवाड़की मुहिमके लिये अजमेर आया, तब महाराजा कृष्णसिंह भी शाहजादह खुर्रमके साथ मेवाड़की लड़ाइयोंमें शामिल थे; और उन्होंने बड़ी २ बहादुरियां दिखलाई. कहते हैं कि कृष्णसिंहने मेवाड़ी राजपूतोंके हाथसे एक पैर में बल्लेकी चोट भी खाई थी, आखिरकार मेवाड़की लड़ाई खत्म होने बाद ईश्वरकी कुद्रतसे इस राजाका इन्तिकाल आपसकी लड़ाईमें विक्रमी १६७२ ज्येष्ठ कृष्ण ८ [हि० १०२४ ता० २२ रबीउस्सानी = ई० १६१५

(१) महाराजा रूपसिंहकी वार्तामें वृन्द कविने विक्रमी १६६८ लिखा है, और मारवाड़की तवारीखमें विक्रमी १६६६ है.

ता० २१ मई] को हुआ. इस मारिकेका हाल जोधपुर और कृष्णगढ़की तवारीखमें जुदे २ तौरसे लिखा है, लेकिन हम खास जहांगीर बादशाहकी तुजक जहांगीरी किताबसे उसे नक़्क़ करते हैं.

तुजक जहांगीरीके पृष्ठ १३७ में हिजी १०२४ [विक्रमी १६७२ = ई० १६१५] में बादशाह लिखता है कि—

“१५ खुरदाद (१) जुम्एकी रातको एक अजीब मुआमला जाहिर हुआ; मैं इस रातको इतिफ़ाकसे पुष्करमें था; मुरतसर बात यह है, कि किशनसिंह, राजा सूरजसिंह (२) का सगा भाई, राजाके वकील गोविन्ददाससे अपने एक भतीजे गोपालदास नामके मारे जानेके बाइस, जो कुछ मुदत पहिले जवानीमें गोविन्ददासके हाथसे क़ल्ल हुआ था, सरत रंजीदा था. इस भगड़ेके तूल तवील सबब हैं. गरज कि कृष्णसिंहको यह उम्मेद थी, कि गोपालदास अस्लमें राजा (सूरसिंह) का भी भतीजा था, इस लिये वह उसके एवजमें गोविन्ददासको मारडालेगा. राजाने गोविन्ददासकी कारगुजारी और होश्यारीके सबब भतीजेके खूनका एवज लेनेसे दरगुजर करके गफ़लत बरती. किशनसिंह ने जब इस किस्मकी बेपरवाई राजाकी तरफसे देखी, तो अपने दिलमें इरादह किया, कि मैं भतीजेका एवज जरूर लूंगा, और इस कारवाईपर कभी कमी न करूंगा. वह यह बात मुदतसे अपने दिलमें ठाने हुए था, यहांतक कि जिक्र की हुई रातमें अपने भाइयों, मददगारों और नौकरोंको जमा करके यह बात जतलाने लगा, कि आजकी रात मैं गोविन्ददासके मारनेको चलता हूं, चाहे जो कुछ होजावे; उसकी तबीअतमें यह खयाल नथा, कि राजाको कुछ नुकसान पहुंचे. राजा भी खुद इस मुआमलेसे बेखबर था. किशनसिंह सुबह होनेके करीब अपने भतीजे कर्ण और दूसरे हमराहियों समेत रवाना हुआ. जब राजाकी हवेलीके दर्वाजेपर पहुंचा, तो अपने कई कारगुजार आदमियोंको पियादह करके गोविन्ददासके घरपर, जो राजाकी हवेलीसे मिला हुआ था, भेजा; और आप सवारीकी हालतमें दर्वाजेपर ठहर गया. पैदल लोगोंने गोविन्ददासके घरमें बड़कर उसके कई आदमियोंको, जो हिफ़ाजत और पहरेके तौरपर होश्यार थे, तलवारसे तमाम किया. इस मार पीटकी फ़र्यादमें गोविन्ददास जागगया, और घबराहटसे अपनी तलवार लेकर घरके एक कोनेसे होकर निकलने लगा, ता कि अपने बाहरवाले चौकीदारोंके पास पहुंचजावे.

(१) खुरदाद तुर्की महीनेका नाम है.

(२) सूरसिंह जोधपुरका राजा था.

किशनसिंहके पैदल चौकीदारोंको मारचुके थे, और गोविन्ददासकी फिक्रमें बढ़ते आते थे. इस मौकेपर गोविन्ददास उनके साम्हने पड़कर मारा गया. इससे पहिले कि गोविन्ददासके मारेजाने की खबर किशनसिंहको तहकीक हो, वह बेसब्रीके साथ घोड़ेसे उतरकर हवेलीमें जाने लगा, उसके आदमियोंने बहुतसा इन्कार और तक्रार की, कि पैदल होना मुनासिब नहीं है, लेकिन उसने किसी बातपर ध्यान न दिया. अगर वह थोड़ी देर ठहरकर अपने गनीमके तबाह होनेकी खबर पालेता, तो यकीन था कि अपना मल्लब पूरा करनेपर सहीह व सलामत लौट आता; लेकिन तक्दीरी हुकम दूसरी तरहपर जारी होचुका था. किशनसिंहके पियादह होने और मकानमें कदम रखनेके वक्त राजा, जो अपनी हवेलीमें बे खबर सोरहा था, आदमियोंके शोर व फ़साद मचानेसे जाग गया; और अपने दर्वाजेपर नंगी तलवार हाथमें लेकर आखड़ा हुआ. उसके आदमी यह हाल देखकर दौड़ पड़े, और उन लोगोंपर, जो पैदल होकर गोविन्ददासके घरमें बड़गये थे, रुजूअ हुए. पियादोंकी क्या हकीकत थी ? राजाके आदमी बेशुमार थे, किशनसिंहके एक आदमीके वास्ते दस आदमी मुकाबलेपर पहुंच गये. आखिरमें किशनसिंह और उसका भतीजा कर्ण जब राजाके मकानकी तरफ़ आये, तो राजाके आदमियोंने हम्ला करके दोनोंको मार डाला. किशनसिंहके ७ और कर्णके ९ ज़रूम लगे. इस लड़ाईमें राजाकी तरफ़से ३० और किशनसिंहकी तरफ़से ३६ याने कुल ६६ आदमी क़त्ल हुए. जब सूरज निकलनेपर रौशनी फैली, तो सब हाल जाहिर हुआ. राजाने भाई, भतीजे और ऐसे नौकरको, कि जो जानसे ज़ियादह अज़ीज़ था, मरा हुआ पाया; बाकी आदमी अलहदा अलहदा बिखर गये. यह खबर पुष्करमें मुभको मिली, मैंने हुकम दिया कि मरेहुओंको, जिस तरहपर उनका दस्तूर है, जलादिया जावे, और इस भगड़ेका सबब अच्छी तरह तहकीक किया जावे. आखिरमें जाहिर हुआ, कि हकीकत वही थी, जो लिखी गई, और किसी एवज़के लायक नहीं है."

मन्त्रासिरुल् उमरामें इतना ज़ियादह लिखा है कि- "कृष्णसिंह और उसके भतीजेके मारेजाने बाद उनके आदमी निकल गये, जिनके पीछे सूरसिंहके आदमी लगे, बादशाही भरोखेके साम्हने इनका मुकाबला हुआ. इनकी तलवारें ऐसी चलीं कि जिसके सिरमें लगी कमरतक उतर गई, और जो कमरमें लगी, उसके दो टुकड़े करदिये. कहते हैं कि उस दिनसे सिरोहीकी तलवारकी इज़त बढ़ गई, और लोग उसे चाहने लगे. बादशाहने कृष्णसिंहका मन्सब उसके बेटोंमें तक़्सीम करदिया".

मन्त्रासिरुल् उमरामें इस मारिकेमें तर्फेनके ६८ आदमी मारे जाने लिखे हैं, और मारवाड़की तवारीखमें, जो लोग मारेगये, उनके नाम नीचे लिखे हैं:-

महाराजा सूरसिंहके आदमियोंकी तफ्सील-

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| १ केशवदास. | ९ भोपत कलावत. |
| २ हुल पत्ता भदावत. | १० सोनगरा केशवदास. |
| ३ चहुवान नरहर. | ११ धायभाई सामा. |
| ४ भाटी पृथ्वीराज. | १२ चहुवान साजण. |
| ५ भाटी रायसिंह. | १३ भाटी सूजा. |
| ६ भाटी भादा. | १४ भाटी कल्ला. |
| ७ भाटी गोविन्द. | १५ भाटी कूपा. |
| ८ भाटी मनोहरदास गोविन्ददासोत. | १६ पंवार केशवदास. |

सिवाय ऊपर लिखेहुए आदमियोंके और भी कई लोग मारेगये.

महाराजा कृष्णसिंहकी तरफके, जो आदमी मारेगये, उनकी तफ्सील यह है-

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| १ राव कर्णसिंह शक्तिसिंहोत. | १५ कर्मसोत रुद्र चन्द्रावत. |
| २ राठौड़ खेतसी गोपालदासोत चांपावत. | १६ भग्गा. |
| ३ राठौड़ बाघा खेतसिंहोत. | १७ राठौड़ प्रयागदास सुरताणोत. |
| ४ भाटी जोधा. | १८ गहलोत राधा. |
| ५ चाकर कान्हा. | १९ हींगोला सेखा. |
| ६ राव किशोरदास कल्याणदासोत. | २० धीरा. |
| ७ राठौड़ सांवलदास सूरावत. | २१ गाम बेड़वासियाके ऊदावत ३. |
| ८ माला लखमणोत. | २२ मकवाणा कृष्णा. |
| ९ मेड़तिया माधव रामदासोत. | २३ कछवाहा भोपत ३. |
| १० गोपालदास भगवतोत जैतावत. | २४ हुल ३ आदमी. |
| ११ भाटी धन्ना. | २५ दहिया नापा. |
| १२ मानसिंह कल्याणदासोत. | २६ महेश. |
| १३ सीसोदिया भारमल्ल. | २७ कछवाहा दूदा. |
| १४ सूर कर्मसोत नारायणोत. | २८ लाड खानी. |

इन आदमियोंकी तादादमें इस्तिलाफ है, लेकिन् मालूम होता है कि बादशाह जहांगीरका लिखना दुरुस्त होगा.

महाराजा कृष्णसिंहके चार बेटे थे— सहसमल्ल, जगमाल, भारमल्ल और हरीसिंह. महाराजा रूपसिंहकी "वचनिका" में इस तरह लिखा है, कि कृष्णसिंहके मारेजानेपर उसका बड़ा बेटा (१) सहसमल्ल गद्दीपर बैठा. वह जहांगीर बादशाह की खिद्यतमें रहा, और विक्रमी १६८५ ज्येष्ठ [हि० १०३७ शव्वाल = ई० १६२८ जून] में मरगया; तब इसका छोटा भाई (२) जगमाल गद्दीपर बैठा. यह जगमाल बड़ा बहादुर और अपने छोटे भाई भारमल्लके साथ बहुत मुहब्बतसे रहता था; पहिले जब शाहजादह खुर्रम और पर्वेजकी टोस नदीपर लड़ाई हुई, उस वक्त ये दोनों भाई खुर्रमकी फौजमें थे, और जोताजोत हाथीपर इन दोनोंने हम्ला किया था, उस वक्त राजा भीम सीसोदिया तो मारागया, और ये दोनों जिन्दा बाकी रहगये थे.

जगमाल अपने भाईकी गद्दीपर बैठनेके बाद थोड़े ही असेतक कृष्णगढ़का राजा कहलाया, याने विक्रमी १६८५ माघ शुक्ल १२ [हि० १०३८ ता० १० जमादियुस्सानी = ई० १६२९ ता० ६ फेब्रुअरी] को महाबतखांके बेटे अमानुल्लाखां ने किसी एक राजपूतको मारडालना चाहा, तब जगमाल और भारमल्ल दोनों भाई उस राजपूतके मददगार बनकर बड़ी बहादुरीके साथ मारेगये. वृन्द कविने इस लड़ाईका होना जाफराबादमें लिखा है. इसके बाद शाहजहां बादशाहने कृष्णसिंहके चौथे बेटे (४) हरीसिंहको जगमालका मन्सब देकर कृष्णगढ़का राजा बनाया.

हरीसिंह शाहजहांकी खिद्यतमें रहता था, विक्रमी १७०० वैशाख शुक्ल ८ [हि० १०५३ ता० ६ सफर = ई० १६४३ ता० २६ एप्रिल] को उसका इन्तिकाल होगया, तब शाहजहां बादशाहने इसी वर्षके ज्येष्ठ शुक्ल ५ [हि० ता० ३ रबीउल्अव्वल = ई० ता० २३ मई] को भारमल्लके बेटे (५) रूपसिंहको हरीसिंहकी जगह कृष्णगढ़का राजा बनाया.

५ रूपसिंह.

रूपसिंहका जन्म विक्रमी १६८५ वैशाख शुक्ल ११ [हि० १०३७ ता० ९ रमजान = ई० १६२८ ता० १५ मई] को हुआ था, इस राजाका हाल वृन्द कविने "रूपसिंहकी वार्ता" नामी ग्रन्थमें कविताके ढंगपर बहुत बढावेके साथ लिखा है, लेकिन अस्ल मल्लब वही है, जो उस जमानेकी फ़ार्सी तवारीखोंमें दर्ज है, इस वास्ते हम मआसिरुल् उमराका तरजमा लिखते हैं, जिसमें शाहजहांके जमानेकी किताबोंसे चुना हुआ हाल दर्ज है.

“रूपसिंह राठौड़, जोधपुरके राजा सूरजसिंहके छोटे भाई कृष्णसिंहका पोता.

हरीसिंह बे औलाद मरगया, तो बादशाहने उसके भतीजे रूपसिंहको खिलअत और मन्सबकी तरकी व चांदीके जिन समेत घोड़ा देकर कृष्णगढ़ उसकी जागीरमें बहाल रक्खा. विक्रमी १७०१ मार्गशीर्ष शुक्ल ७ [हि० १०५४ ता० ५ शव्वाल = ई० १६४४ ता० ८ नोवेम्बर] को जब शाहजहांकी बेटी बेगम साहिबा नाम, जो चरागकी लपटसे जलगई थी, उसके अच्छे होनेपर बादशाहने खुशीका जल्सा किया, तो उस मौकेपर बादशाहने रूपसिंहका अस्ल मन्सब इजाफे सहित एक हज़ारी जात व सात सौ सवार किया. फिर विक्रमी १७०२ पौष क० ४ [हि० १०५५ ता० १८ शव्वाल = ई० १६४५ ता० ७ डिसेम्बर] को इन्हें एक हज़ारी जात और एक हज़ार सवारका मन्सब मिला.

विक्रमी १७०२ [हि० १०५५ = ई० १६४५] में शाहज़ादह मुराद-बख्शके साथ बल्ख, बदख्शांकी मुहिमपर तईनात हुआ, जब बल्ख पहुंचे, तो वहां का मालिक नज़र मुहम्मद खां शाहज़ादहसे बगैर मुकाबलेके भागगया. फिर बहादुरखां और असालतखां शाहज़ादहके हुकमसे नज़र मुहम्मदखांके पीछे लगे, और यह राजा शाहज़ादहके बिना हुकम अपनी मर्दानगीसे उनके साथ हो लिया, और गनीमसे बहुत लड़ा, जिसके एवज उसने विक्रमी १७०३ प्रथम श्रावण शुक्ल १० [हि० १०५६ ता० ८ जमादियुस्सानी = ई० १६४६ ता० २४ जुलाई] में डेढ़ हज़ारी जात और एक हज़ार सवारका मन्सब पाया, जिसके बाद विक्रमी भाद्रपद शुक्ल ११ [हि० ता० ९ शरबान = ई० ता० २२ सेप्टेम्बर] को बल्खकी कारगुज़ारीसे दो हज़ारी जात व एक हज़ार सवारका मन्सब मिला, और विक्रमी १७०४ वैशाख कृष्ण ७ [हि० १०५७ ता० २१ रबीउलअव्वल = ई० १६४७ ता० २९ एप्रिल] को उसके वास्ते बल्खमें घोड़ा भेजागया, उसके दूसरे वर्ष निशान हासिल हुआ; और विक्रमी १७०५ [हि० १०५८ = ई० १६४८] में अस्ल व इजाफा मिलके ढाई हज़ारी जात और बारह सौ सवारका मन्सब पाकर शाहज़ादह औरंगज़ेबके साथ कन्धारकी मुहिमपर भेजागया, वहां रुस्तमखांके साथ ईरानियोंके मुकाबलेपर बहुत अच्छा काम दिया. विक्रमी १७०६ [हि० १०५९ = ई० १६४९] में तीन हज़ारी जात डेढ़ हज़ार सवारका मन्सब मिला, और विक्रमी १७०८ [हि० १०६१ = ई० १६५१] में एक हज़ारी जात व पांच सौ सवारका इजाफा हुआ, और नकारा पाकर उसी शाहज़ादहके साथ दुबारा कन्धारपर भेजागया.

विक्रमी १७१० [हि० १०६३ = ई० १६५३] में तीसरी दफ़ा शाहजादहके साथ उसी मुहिमपर तईनात हुआ, और अस्ल व इजाफ़ा समेत चार हज़ारी जात और ढाई हज़ार सवारका मन्सब पाया.

विक्रमी १७११ [हि० १०६४ = ई० १६५४] में सादुल्लाखां वजीरके साथ किले बित्तौड़के गिरानेको तईनात हुआ, और अस्ल व इजाफ़ा समेत चार हज़ारी जात व तीन हज़ार सवारका मन्सब पाया; और मांडलगढ़का क़िला मेवाड़के इलाक़ेका महाराणासे अलहदा करके बादशाहने इसकी तन्स्वाहमें अस्सी लाख दाम (दो लाख रुपये) की जमापर देदिया.

विक्रमी १७१५ ज्येष्ठ [हि० १०६८ रमज़ान = ई० १६५८ जून] को रूपसिंह समूनगरकी लड़ाईमें शाहजादह दाराशिकोहकी तरफ़से हरावल फ़ौजमें तईनात हुआ, और वहांपर निहायत बहादुरीके साथ आलमगीरके तोपखानह और हरावल वगैरह फ़ौजसे बढ़गया, और खास आलमगीरके हाथीके साम्हने हम्ला करने लगा; आख़िरकार आलमगीरकी खास सवारीके हाथीके पास जाकर पियादह होना चाहता था, कि अम्मारीकी रस्सी काटडाले. यह जुरअत उसकी आलमगीर ने देखकर अपने आदमियोंको ताकीद की, कि यह मारा न जावे, जिन्दह पकड़ लियाजावे, लेकिन उस हंगामहमें कौन सुनता था, फ़ौरन् मारडालागया."

रूपसिंहके मारेजानेका हाल, शाहजादोंकी लड़ाई, और आलमगीरकी कामयाबीकी तफ़्सीलके साथ आलमगीरनामह वगैरहसे लिखा है- (३४९ पृष्ठ से ३५७ तक देखो).

६ महाराजा मानसिंह.

जब महाराजा रूपसिंह विक्रमी १७१५ ज्येष्ठ शुक्ल ८ [हि० १०६८ ता० ६ रमज़ान = ई० १६५८ ता० ९ जून] को समूनगरकी लड़ाईमें दाराशिकोहकी तरफ़से बड़ी बहादुरीके साथ मारागया, तब यह ख़बर कृष्णगढ़ पहुंची. रूपसिंहका बेटा मानसिंह, जो बिल्कुल बालक रहगया था, इसी वर्षके आषाढ़ कृष्ण १० [हि० ता० २४ रमज़ान = ई० ता २६ जून] को कृष्णगढ़में गद्दीपर बिठायागया. इनका जन्म विक्रमी १७१२ भाद्रपद शुक्ल ३ [हि० १०६५ ता० १ जिल्काद = ई० १६५५ ता० ४ सेप्टेम्बर] को हुआ था. मांडलगढ़का क़िला, जो मेवाड़से अलहदा करके शाहजहाने महाराजा रूपसिंहको दिया था, वह समूनगरकी लड़ाई भगड़ोंके मौक़ेपर महाराणा राजसिंहने मेवाड़में मिलालिया था, जिसका हाल पृष्ठ ४१४ में लिखागया है.

आलमगीरने तस्त नशीन होकर महाराजा रूपसिंहकी बड़ी बेटी चारुमतीके साथ शादी करना चाहा, परन्तु उस राजकुमारीने मज्दबी तअस्सुबके सबब मुसल्मान बादशाहकी स्त्री बनना न चाहा, और महाराणा राजसिंहके पास एक अर्जी लिखभेजी; जिसपर महाराणा इस राजकुमारीको विवाहकर लेगये, जिसका मुफ़स्सल हाल पहिले लिखागया है- (देखो पृष्ठ ४३७ -३९ तक).

जब बादशाह आलमगीरने नाराजगी जाहिर की, तब राजा मानसिंहने अपनी दूसरी बहिनकी शादी आलमगीरके शाहजादह मुअज़्जमके साथ करदी. आलमगीरने मानसिंहका मन्सब तीन हजारी तक बढ़ादिया था. विक्रमी १७४८ ज्येष्ठ शुक्ल ११ [हि० ११०२ ता० ९ रमजान = ई० १६९१ ता० ८ जून] को जब शाहजादह काम-बरूश जंजीका किला लेनेको गया, तो यह राजा भी उसके साथ था, और इसने दक्षिणकी और भी लड़ाइयोंमें अच्छे अच्छे काम दिये. आखिरकार विक्रमी १७६३ कार्तिक कृष्ण १० [हि० १११८ ता० २२ रजब = ई० १७०६ ता० १ नोवेम्बर] को पाटणमें इनका इन्तिकाल होगया. उन दिनों आलमगीर बादशाह दक्षिणमें बहुत बीमार था, और मानसिंहके पुत्र राजसिंह, जो अपने बापके पास मौजूद थे, राजा हुए. उसी अर्सेमें आलमगीरका भी इन्तिकाल होगया. शाहजादोंकी लड़ाइयां खत्म होनेपर शाहआलम बहादुरशाहने तस्त पाकर राजसिंहको तीन हजारी जात व सवारका मन्सब देकर कृष्णगढ़का राजा बनाया.

७ राजसिंह.

राजसिंहका जन्म विक्रमी १७३१ कार्तिक शुक्ल ११ [हि० १०८५ ता० ९ शअ्वान = ई० १६७४ ता० १० नोवेम्बर] को हुआ था: राजसिंह सल्तनत हिन्दकी खराबीके दिनोंमें सय्यद अब्दुल्लाखां और हुसैनअलीकी हिमायतमें रहे थे, और मुहम्मदशाहके वक्तमें भी कई बार हाजिर हुए, लेकिन फरूखसियरके मारेजानेका इल्जाम, जिसतरह दूसरे राजाओंपर था, इनपर भी लगायागया, क्योंकि यह भी महाराजा अजीतसिंहके शरीक और सय्यदोंके तरफदार थे; इसलिये इनका दिल्ली जाना कम होगया. मुहम्मदशाहने जब अहमदशाह अब्दालीके मुकाबलेपर शाहजादह अहमदको पानीपतकी तरफ रवाना किया, उस वक्त राजा लोग भी बुलायेगये थे, तब जयपुरके महाराजा ईश्वरीसिंह तो शाहजादहके साथ भेजेगये, और नागौरके महाराज बरतसिंह और कृष्णगढ़के महाराजा राजसिंहके बेटे सामन्तसिंह मए अपने बेटे सर्दारसिंहके पीछेसे पहुंचे, तब मुहम्मद शाहने इनको दिल्लीमें ही अपने पास रखलिया. ईश्वरकी कुद्वतसे अहमदशाह अब्दालीकी शिकस्त हुई.

लेकिन मुहम्मदशाह बादशाह इसी असेमें मरगया, और अहमदशाह दिल्लीमें आगया; महाराजा राजसिंहका देहान्त रूपनगरमें विक्रमी १८०५ वैशाख कृष्ण [हि० ११६१ ता० २१ रबीउस्सानी = ई० १७४८ ता० २० एप्रिल] ७ को होगया. राजसिंहके पांच पुत्र थे- बड़े सुखसिंह, २ फ़तहसिंह, ३ सामन्तसिंह, ४ बहादुरसिंह, ५ वीरसिंह; जिनमेंसे सुखसिंह और फ़तहसिंह तो महाराजा राजसिंहके साम्हने ही फ़ौत होगये थे, महाराजाके इन्तिकालकी ख़बर सुनकर सामन्तसिंह दिल्लीमें गद्दीके वारिस मानेगये.

८ सामन्तसिंह.

अहमदशाहने इनकी बहुत तसल्ली की, लेकिन उस वक्त बादशाहोंका खौफ़ घटगया था, बहादुरसिंहने कृष्णगढ़ और रूपनगरपर कब्ज़ा करलिया, सामन्तसिंह यह ख़बर सुनकर घबराये. बहादुरसिंह बड़े बहादुर और बुद्धिमान थे, जिन्होंने महाराजा अभयसिंहको चारण कविया करणीदानकी मारिफ़त अपना मददगार बनालिया था. इससे बहादुरसिंहकी ताक़त बढ़गई, लेकिन अहमदशाहने सूबहदार अजमेरको सामन्तसिंहका मददगार बनाकर भेजदिया, और महाराजा बरूतसिंह भी इनके तरफ़दार थे; लेकिन अपने अपने मल्लबकी सबको फ़िक्र थी, क्यों कि महाराजा अभयसिंह गुजरगये थे, और उनकी जगह रामसिंह, जो बहुत कम अक़ माने जाते थे, जोधपुरकी गद्दीपर बैठे, और बरूतसिंहको तंग करने लगे. तब बरूतसिंह ने भी सूबहदारको अपना मददगार बनाकर साम्हना किया. इधर सामन्तसिंह ने अपनी ताक़तसे रूपनगर और कृष्णगढ़के ज़िलेमें थाने बिठादिये. बहादुरसिंहके राजपूतोंसे बहुतसी लड़ाइयां हुईं, यहांतक कि सामन्तसिंहने रूपनगर जाघेरा, लेकिन कुछ कामयाबी न हुई. महाराजा रामसिंहकी मददपर सामन्तसिंहने अपने कुंवर सर्दारसिंहको भेजदिया, जबकि वह बरूतसिंहके बख़िलाफ़ लड़ रहा था. इस बातसे बरूतसिंह भी सामन्तसिंहसे नाराज़ होगये, और रामसिंहको निकालकर बरूतसिंह जोधपुरके राजा बनगये, तब लाचार सामन्तसिंह मए अपने बेटे सर्दारसिंहके कमांडकी तरफ़ चलेगये, और वहांसे मथुरा वृन्दावन आये, कुछ दिन वहां रहकर अपना नाम नागरीदास रक्खा, और उनके पुत्र सर्दारसिंह मल्हार राव हुल्करके पास पहुंचे. हुल्करने जया आपा सेंधियाको उसका मददगार बनाकर सर्दारसिंह के साथ भेजा; इन दिनोंमें महाराजा बरूतसिंहका भी इन्तिकाल होगया, और महाराजा रामसिंहका मददगार बनकर जया आपा मारवाड़पर चला, और

महाराजा विजयसिंहकी फौजसे मुकाबला हुआ. बहादुरसिंह भी विजयसिंहके मदद-गार होकर मरहटोंसे लड़े, और शिकस्त होनेपर भागकर कृष्णगढ़ चलेआये, विजयसिंह शिकस्त खाकर नागौरमें जा छिपे, जया आपाने भी उस किलेको घेरलिया, और कुंवर सर्दारसिंहसे यह इक्कार किया कि नागौर फ़तह करने बाद तुमको रूपनगर व कृष्णगढ़ दिलादिया जावेगा.

ईश्वरकी कुदरतसे जया आपा मारवाड़ी राजपूतोंके हाथसे मारागया, और उसका बेटा जनकू महाराजा विजयसिंहसे कुछ फौज खर्च लेकर अजमेर चला आया, तब कुंवर सर्दारसिंहने रूपनगर लेनेको कहा, तो जनकूने जवाब दिया कि मारवाड़की लड़ाइयोंमें हमारी फौज टूट गई है, और इस मज़बूत किलेके लेनेमें ज़ियादह ताक़त चाहिये, लेकिन कुंवर सर्दारसिंहने उसको कहा कि आप हिम्मत न हारिये, थोड़ी-सी फौज भेज दीजिये, हम किला फ़तह करलेंगे; इस कहनेपर जनकूने कुछ फौज भेजकर किले रूपनगरपर घेरा डाला, और महाराजा बहादुरसिंहके राजपूत भी खूब लड़े, आखिरकार बहादुरसिंह और सर्दारसिंहने सुलह करली. मरहटोंने कृष्णगढ़ भी घेरलिया था, सो यह लोग तो कुछ फौज खर्च लेकर चले गये, रूपनगर सर्दारसिंहको दिया, और कृष्णगढ़ बहादुरसिंहने रक्खा; वीरसिंहको करकेड़ी मिली.

९ सर्दारसिंह.

सर्दारसिंहका जन्म विक्रमी १७८७ प्रथम भाद्रपद शुक्ल २ [हि० ११४३ ता० १ सफ़र = ई० १७३० ता० १५ अगस्त] को हुआ था.

सामन्तसिंह विक्रमी १८२१ भाद्रपद शुक्ल ३ [हि० ११७८ ता० १ रबीउल्-अव्वल = ई० १७६४ ता० ३० अगस्त] को वृन्दावनमें गुज़र गया. रूपनगर में राज तो सर्दारसिंह ही करते थे, परन्तु इतने दिन कुंवर कहलाते थे, अब राजा बने; यह राजापन बहुत दिनोंतक नहीं रहा. विक्रमी १८२३ वैशाख कृष्ण ३० [हि० ११७९ ता० २८ जिल्काद = ई० १७६६ ता० १० एप्रिल] को रूपनगर में इनका देहान्त होगया.

१० बहादुरसिंह.

सर्दारसिंहके कोई औलाद न थी, इसलिये बहादुरसिंहने पहिले तो अपने बड़े कुंवर विड़दसिंहको इनके गोद रक्खा, फिर कुछ अर्से बाद कृष्णगढ़ और रूपनगरकी हुकूमतको शामिल करलिया- इस खयालसे कि दो टुकड़े होने

से रियासत कमज़ोर होजावेगी; राजसिंहके पांचवें पुत्र वीरसिंहको करकेड़ी जागीरमें मिली थी, जिनकी औलाद रलावता व अजमेरमें है, उनका बयान है कि सर्दारसिंहने वीरसिंहके बेटे अमरसिंहको गोद रखनेका इरादह किया था, जिसका हाल आगे लिखाजायगा. महाराजा राजसिंहसे लेकर सर्दारसिंह तकका हाल "सर्दार-सुजस" नाम ग्रन्थमें लाल कविने तफ्सीलवार लिखा है, लेकिन हमने फैलावके सबब उसका खुलासा दर्ज किया है.

महाराजा बहादुरसिंह, महाराजा विजयसिंहके बड़े दोस्त होगये थे, क्यों कि सर्दारसिंह महाराजा रामसिंहका मददगार बनकर मरहटोंकी फौजके शामिल जोधपुर और नागौरसे लड़ा, और बहादुरसिंह विजयसिंहके शरीक थे; इस बातसे बहादुरसिंह जोधपुरके खैरखाह रहे. इधर उदयपुर और जयपुरके भी हर एक मुआमलेमें शरीक होजाते; इस सबबसे महाराजा बहादुरसिंहने बड़ा नाम पाया. खुद तो दूसरी रियासतोंके मुआमलों में मशगूल रहते, और अपनी रियासतका इन्तिजाम बड़े कुंवर बिड़दसिंहके सपुर्द करदिया था, जो अपने इस्ति-यारसे काम करते थे. महाराजाके छोटे कुंवर बाघसिंहको रियासतसे दसवां हिस्सह जायदाद देकर महाराजा बहादुरसिंहने फ़तहगढ़का जागीरदार बनाया; यह हाल आगे लिखाजायगा.

विक्रमी १८३८ फाल्गुन शुक्ल ३ [हि० ११९६ ता० १ रबीउल्अव्वल = ई० १७८२ ता० १५ फ़ेब्रुअरी] को महाराजा बहादुरसिंहका इन्तिकाल हुआ. यह बड़े बुद्धिमान और बहादुर राजा थे, लेकिन अपनी रियासत बढ़ानेके लिये इनको मौका न मिला, क्यों कि जोधपुर और जयपुर दोनों बड़ी रियासतोंका पड़ोस इनके लिये एक दीवार होगया था. तो भी अपनी रियासतपर उन्होंने अपनी जिन्दगी में ज़वाल न आनेदिया, और रियासतमें कई तरीके ऐसे बनाये, जो अबतक जारी हैं. कृष्णगढ़, रूपनगर और सनवाड़में अच्छे मज़बूत क़िले बनवाये, और इन क़िलोंमें सामानका तरीका ऐसा उम्दह किया, कि अचानक लड़ाईका काम आपड़े, तो क़िले, सामान और लड़नेवाले आदमियोंसे ख़ाली न मिलेंगे— और जागीरका तरीका, और उन जागीरदारोंकी नौकरीका प्रबन्ध उम्दह तरहसे बांधदिया, जागीरदारोंके छोटे लड़के क़िलेमें उम्मेदवारोंके नामसे भरती कियेजाते हैं, और उनके गुज़ारेके लिये हमेशहका भत्ता (खुराक) और जन्म, मरण व शादीके लिये एक रक़म मुक़रर करदी है, जिससे उन लोगोंको किसी ज़रूरी कामकी फ़िक्र न रहे. रियासतके बर्ताव और अदब आदाबका तरीका ऐसा उम्दह बांधा कि कोई दूसरी

रियासतका आदमी जाकर देखे, तो उसको बड़ा ही तअज़ुब मालूम हो- कि ऐसी थोड़ी आमदनीसे इस तरहके शाहाना तरीके किस तरह चलसक्ते हैं? लेकिन महाराजा बहादुरसिंहने क़िफ़ायतके साथ ऐसा तरीका बांधा है कि छोटेसे बड़े आदमीतक हरएक शख्स बहुत थोड़ी आमदनीमें अपना गुज़र करसक्ता है; और अपनी २ हैसियतके मुताबिक़ छोटे बड़े सब मालदार भी हैं, इस समय भी रियासती तरीकोंके देखनेसे महाराजा बहादुरसिंहकी अक्लमन्दी ज़ाहिर होती है.

११ महाराजा बिड़दसिंह.

महाराजा बिड़दसिंहका जन्म विक्रमी १७९६ फाल्गुण शुक्ल ८ [हि० ११५२ ता० ६ ज़िल्हज = ई० १७४० ता० ६ मार्च] को हुआ. यह अपने बापके साम्हने भी कुल राजके मुरतार थे, इनको मज़्हबी खयाल ज़ियादह था- यह खयाल इन्हींको नहीं था, बल्कि इस रियासतमें महाराजा रूपसिंहसे लेकर वर्तमान महाराजा शार्दूलसिंहतक 'पुष्टिमार्ग' याने श्रीनाथजीकी उपासनाका बड़ा खयाल चला आता है. महाराजा बिड़दसिंह बड़े फ़य्याज़, और विद्वानोंके क़द्रदान व बहादुर थे; इनको अपने बापके मरने बाद रियासतकी तरफ़से नफ़रत रही. आखिरकार विक्रमी १८४५ कार्तिक कृष्ण १० [हि० १२०३ ता० २४ मुहर्रम = ई० १७८८ ता० २६ अक्टोबर] को वृन्दावनमें देहान्त हुआ, तब इनके पुत्र प्रतापसिंह गद्दी बैठे.

१२ महाराजा प्रतापसिंह.

इनका जन्म विक्रमी १८१९ भाद्रपद शुक्ल ११ [हि० ११७६ ता० ९ सफ़र = ई० १७६२ ता० २१ अगस्त] को हुआ था. यह महाराजा भी बड़े फ़य्याज़, बहादुर व दिलेर थे, न जाने किस कारणसे इनके दिलमें जोधपुरके बख़िलाफ़ कार्रवाई करनेकी बात जम गई थी. हमारे खयालसे इसका यह सबब मालूम होता है कि करकेड़ीका अमरसिंह महाराजा विजयसिंहके पास जा रहा था, जिसकी तरकी उनको नागवार थी, इसलिये प्रतापसिंहने नाराज़ होकर मरहटोंसे मिलावट करली. जब जयपुर और जोधपुरके दोनों महाराजा मरहटोंको राजपूतानहसे निकाल देना चाहते थे, महाराजा प्रतापसिंहने मरहटोंका मददगार बनकर चाहा कि मारवाड़पर हमला करें, लेकिन अजमेरके इलाकेमें जोधपुरकी फौजसे मरहटोंने शिकस्त खाई, और मरहटे सदाँ आंबाजी ऐंगलियाने

जस्मी होकर सनवाड़के किल्लेमें पनाह ली. इस बातसे नाराज होकर जोधपुरके महाराजा विजयसिंहने फौज भेजकर रूपनगर व कृष्णगढ़पर घेरा डाला, सात महीने तक लड़ाई रही, आखिरकार रूपनगर तो अमरसिंहको दिलाया, और महाराजा प्रतापसिंहने ३००००० तीन लाख रुपया दण्डका देना कुबूल किया; जिसमेंसे डेढ़ लाख तो नकद, पचास हजारका भरणा (१) और एक लाख रुपया दो किस्त में देना करार पाया, और महाराजा प्रतापसिंहको लाचार होकर जोधपुर जाना पड़ा. वहांसे बहुत कुछ लाचारी करके (२) पीछे आये; यह मुआमला विक्रमी १८४६ [हि० १२०३ = ई० १७८८] में हुआ. फिर कुछ असें बाद प्रतापसिंहने अमरसिंहसे रूपनगर छीन लिया, उसने जोधपुरसे मदद चाही, लेकिन उन दिनों महाराजा विजयसिंह भी अपने सर्दारों व सरहटोंसे तंग हो रहे थे, इसलिये कुछ मदद न करसके.

विक्रमी १८५४ फाल्गुन कृष्ण ४ [हि० १२१२ ता० १८ शरद्वान = ई० १७९८ ता० ५ फेब्रुअरी] को महाराजा प्रतापसिंहका इन्तिकाल होगया, और उनके बालक बेटे कल्याणसिंह गद्दीपर बिठायेगये.

१३ महाराजा कल्याणसिंह.

इनका जन्म विक्रमी १८५१ कार्तिक कृष्ण १२ [हि० १२०९ ता० २६ रबीउलअव्वल = ई० १७९४ ता० २१ अक्टोबर] को हुआ था. इस समय महाराजा के कम उम्र होनेसे रियासत में नुकसान पहुंचनेका अन्देश था, परन्तु महाराजा बहादुरसिंहके बनाये हुए आदमी अच्छे २ मौजूद थे, जिससे ऐसे बगावतके वक्तमें भी बालक राजा होनेपर रियासत में नुकसान न आसका.

विक्रमी १८७० भाद्रपद शुक्ल ८ [हि० १२२८ ता० ६ रमजान = ई० १८१३ ता० ४ सेप्टेम्बर] को जोधपुरके महाराजा मानसिंहने रूपनगरमें ठहरकर जयपुरके गांव मरवामें महाराजा जगतसिंहके यहां विवाह किया, और महाराजा जगतसिंहने मरवासे रूपनगरमें आकर शादी की. इन दोनों राजाओंके बीचमें उदयपुरके संबन्धकी बाबत पहिले, जो नाइतिफाकी हुई थी, वह मिटाईगई; इस मुआमलेमें महाराजा कल्याणसिंह भी शरीक थे, और जो बात चीत सलाहकी इन्होंने

(१) भरणा— याने हाथी घोड़ा वगैरह दूसरी चीजें मिलाकर पूरा करना.

(२) महाराजाने यह नविशत भी लिखदी थी, कि हम मारवाड़ी सर्दारोंके सारिश्तेके मुवाफिक जोधपुरमें हवेली बनवाकर नौकरी करेंगे, यह नविशत कृष्णगढ़के मूणोत महता हमीरसिंहने महाराजा विजयसिंहसे वापस ली. हमीरसिंह बड़ा मुतसद्दी और हिम्मतवाला आदमी था.

कही, वह दोनों राजाओंको पसन्द आई. इसी तारीफ़के नशेसे महाराजा कृष्णागढ़को जुनून होगया.

विक्रमी १८७४ [हि० १२३२ = ई० १८७७] में कृष्णागढ़का अहूदनामह गवर्मेण्ट अंग्रेजीसे हुआ; और खिराज वगैरह कुछ नहीं देना पड़ा; इस बातसे उनका जुनून ज़ियादह हो गया, कि यह सब मेरी बुद्धिमानीका नतीजा है. जुनूनको तरकी देनेवाली तीसरी बात यह हुई, कि गोध्याणाके बारहठ रामदान की तन्दिही और कोशिशसे महाराणा भीमसिंहकी पोती और कुंवर अमरसिंहकी बेटी कीकाबाईका विवाह कृष्णागढ़के कुंवर मुहकमसिंहके साथ विक्रमी १८७७ आषाढ़ कृष्ण ८ [हि० १२३५ ता० २२ रमजान = ई० १८२० ता० ५ जुलाई] को हुआ, जिससे महाराजाको यह खयाल होगया- कि जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, और कृष्णागढ़ चारों रियासतें हिन्दुस्तानमें अब्बल दरजेकी हैं; क्यों कि विक्रमी १७६५ [हि० ११२० = ई० १७०८] में जयपुर और जोधपुरके महाराजाओंने उदयपुरसे संबन्ध होनेके लिये कितनी कोशिशें की थीं, तब संबन्ध हुआ था; वही मौका कृष्णागढ़को भी मिलगया. इस विवाहका बाकी हाल महाराणा भीमसिंहके बयानमें लिखा जायगा. महाराजा कल्याणसिंह अपनी रियासतके अलावा कुल हिन्दुस्तानका प्रबन्ध करनेमें खयाली पुलाव पकाने लगे, पास रहने वाले खुशामदी लोगोंने उनके बेहूदा जुनूनको ज़ियादह तरकी दी.

अब हम यहांसे एचिसन साहिबके अहूदनामहकी किताब चौथी जिल्दके उर्दू तर्जमेसे बाकी हाल लिखते हैं-

“ महाराजा कल्याणसिंह, जो दीवानह मशहूर था, पहिले सर्दारोंके फ़सादमें फंसा, और अस्ल वजह भगड़ेकी यह थी, कि उसने ठाकुर फ़तहगढ़को तबाह करना चाहा, क्यों कि फ़तहगढ़ वालोंने कृष्णागढ़ वालोंकी ताबेदारीसे निकलनेका दावा पेश किया था. गवर्मेण्ट अंग्रेजीने वह दावा खारिज करके उसको कृष्णागढ़के मातहत रक्खा, दूसरी वजह यह थी, कि जमइयत सवार वगैरह, जो और मातहत सर्दारोंकी तरह यह देते रहे, उसके एवज़ कुछ रुपया मुकर्रर होजाय.

महाराजा कल्याणसिंह दिल्ली चलागया, और वहां बादशाहके हुज़ूरसे नज़ानह और दूसरा खर्च जमा करानेपर यह हुक्म लिया, कि वह जुराब पहनकर बादशाहके हुज़ूरमें हाज़िर हुआकरे, इस असेमें कृष्णागढ़में ज़ियादह फ़साद उठा, और फ़सादियोंने कोटेसे और महाराजाने बूंदीसे मदद चाही, इस तक्रारमें कई दफ़ा अंग्रेजी इलाकोंमें दोनों फ़रीकोंसे भगड़ा पैदा हुआ, इसलिये गवर्मेण्ट अंग्रेजीसे

यह लिखावट हुई, कि आपसकी तक्रार मौकूफ होकर मुकद्दमह फैसलेके लिये गवर्मेण्ट अंग्रेजीके सुपुर्द कियाजाय, और महाराजाको लिखागया कि, जो वह बहुत जल्दी कृष्णगढ़में आकर राज्यके कामोंको न संभालेगा, तो उसके साथ जो अहदनामह हुआ है, वह रद्द समझा जायगा, और कृष्णगढ़के ठाकुरों (सर्दारों) के साथ मुआमला कियाजावेगा. इस तंबीहसे महाराजा कृष्णगढ़में लौट आये, परन्तु उनसे मुल्कका इन्तिजाम न होसका. तब उन्होंने दरखास्त की, कि कृष्णगढ़की ठेकेदारी (यानी माली मुल्की इन्तिजाम) गवर्मेण्ट अंग्रेजी मंजूर करे, और वह दिहली चलाजायगा. गवर्मेण्टने ठेका मंजूर नहीं किया; लेकिन यह बात मंजूर हुई कि महाराजा दिहली जाकर जबतक कृष्णगढ़में वापस न आवे, तबतक कृष्णगढ़में एजेन्टी रहेगी. महाराजा और ठाकुरोंके आपसमें सुलह भी होगई, परन्तु जो शर्तें पेश हुई थीं, वे मंजूर न हुईं. महाराजाने अजमेर रहना मंजूर किया, और सर्दारोंने उसके पास जाकर इक्रार किया कि उनका फैसला जोधपुरके महाराजा करदें— इस शर्तपर कि उस फैसलेको गवर्मेण्ट अंग्रेजी भी मंजूर करले. गवर्मेण्टने यह बात मंजूर नहीं की; तब सर्दारोंने कुंवर मुहकमसिंहको राजा बनाकर कृष्णगढ़पर चढ़ाई की, कृष्णगढ़ फतह होनेवाला था, कि महाराजाने यह बात मंजूर करली, कि साहिब पोलिटिकल एजेन्ट, जो फैसला करदेंगे, वह कुबूल और मंजूर होगा. सर्दारोंके साथ, जो यह सुलह हुई, कायम न रही; इसके बाद कल्याणसिंह अपने बेटे मुहकमसिंहको राज्य देकर कृष्णगढ़से चलागया, और अपने खर्चके लिये छत्तीस हजार रुपया सालियाना कृष्णगढ़से लेनेका बन्दोबस्त करलिया.”

विक्रमी १८८९ [हि० १२४८ = ई० १८३२] में महाराजा का वलीअहद मुहकमसिंह कुल रियासतका मुख्तार होगया; और महाराजा दिल्लीसे लौटकर फिर न आये; विक्रमी १८९५ ज्येष्ठ शुक्र १० [हि० १२५४ ता० ८ रबीउलअव्वल = ई० १८३८ ता० ३ जून] को दिल्लीमें गुजर गये. महाराजा मुहकमसिंह कृष्णगढ़में गद्दीपर बैठे.

१४ महाराजा मुहकमसिंह.

मुहकमसिंहका जन्म विक्रमी १८७३ भाद्रपद शुक्र ५ [हि० १२३१ ता० ३ शव्वाल = ई० १८१६ ता० २९ अगस्त] को हुआ था. यह कुछ मुदत तक राज्य करके विक्रमी १८९७ ज्येष्ठ कृष्ण १२ [हि० १२५६ ता० २६ रबीउलअव्वल

= ई० १८४० ता० ३० मई] को इन्तिकाल करगये. इनके जवान उम्रमें गुजर जानेसे रियासतमें बड़ा भारी रंज फैला, लेकिन् रियासतका काम पोलिटिकल एजेन्ट व माजीकी सलाहसे होने लगा, और गद्दीपर बिठायेजानेकी बाबत खूब विचार हुआ, आखिरकार यह सलाह ठहरी, कि फ़तहगढ़के महाराज बाघसिंहके तीसरे बेटे भीमसिंह जागीरदार कचौलियाके छोटे बेटे पृथ्वीसिंहको लाकर गद्दीपर बिठाया जावे, और इसी तरह अमलमें आया.

१५ महाराजा पृथ्वीसिंह.

यह महाराजा विक्रमी १८९८ वैशाख कृष्ण १३ [हि० १२५७ ता० २७ सफ़र = ई० १८४१ ता० १९ एप्रिल] को गद्दी नशीन हुए. इनका जन्म विक्रमी १८९४ वैशाख कृष्ण ५ [हि० १२५३ ता० १९ मुहर्रम = ई० १८३७ ता० २५ एप्रिल] को हुआ था. रियासतका काम काज कुल माजी और मुसाहिबोंके इस्तिथारमें रहा. मुसाहिबोंमें महाराजा प्रतापसिंहके ख़वासका बेटा अभयसिंह जीइस्तिथार था. दीवानीका काम पहिले तो ख़राब रहा, परन्तु विक्रमी १९०३ भाद्रपद [हि० १२६२ रमज़ान = ई० १८४६ अगस्त] में महता कृष्णसिंहको दिया, लेकिन् रियासतके चन्द मुसाहिबोंने विक्रमी १९०६ पौष कृष्ण ६ [हि० १२६६ ता० २० मुहर्रम = ई० १८४९ ता० ६ डिसेम्बर] को इस ख़ैरखाह दीवानसे काम छीन लिया; लेकिन् विक्रमी १९०८ माघ शुक्ल ५ [हि० १२६८ ता० ३ रबीउस्सानी = ई० १८५२ ता० २७ जैनुअरी] को दीवानीका काम फिर इसीको मिला; एक दूसरा मुसाहिब राठौड़ गोपालसिंह था, जो महाराजाको कस्रत वगैरह करानेके लिये मुक़रर हुआ था, और महाराजा उसको उस्ताद कहते थे. इन दोनों आदमियोंके ज़रीएसे महाराजा पृथ्वीसिंहने बड़ा नाम हासिल किया. यह बात सच है कि रियासतके अंग (हाथ पैर वगैरह) मुसाहिब होते हैं, जब मुसाहिब अच्छे हों, तो राजाकी नामवरी, और बुरे हों, तो बदनामी होती है; लेकिन् राजाकी बुद्धिमानी यही समझीजाती है कि अच्छे आदमियोंको ढूँढकर अपने ख़ास कामोंपर नियत करे, और मल्लबी लोगोंके चुग़ली करनेपर उनको नुक़सान न पहुंचावे.

राठौड़ गोपालसिंहने बड़े बड़े ३० तालाब इस छोटीसी रियासतमें नये बनवाये, और दीवानने मुल्की व माली इन्तिज़ाम बहुत उम्दह किया; इन दोनों आदमियोंने रियासती नफ़े नुक़सानको अपना घरू ख़याल करलिया था, और महाराजा भी बड़े बुद्धिमान, पढ़े लिखे, नेक तबीअत और दूर अन्देश थे. कृष्णसिंह

और गोपालसिंह दोनों मुसाहिब भी उनको अच्छे मिले, महाराजाने भी मुसाहिबोंको खैरस्वाहीका एवज़ अच्छी तरह दे दिया.

हम यहां महता कृष्णसिंहका तवारीखी हाल, जो उनके बेटे सौभाग्यसिंहने हमारे पास भेजा है, लिखते हैं-

महता कृष्णसिंहका तारीखी हाल.

कृष्णसिंहका बुजुर्ग जग्गा नामी बीकानेरसे आया था, उसकी औलादमें महता चन्द्रभान हुआ, जो महाराजा राजसिंहके कारगुज़ार नौकरोंमें था, और महाराजाके बेटोंकी खानगी लड़ाइयोंमें महाराजा बहादुरसिंहकी नौकरीमें रहा; इसका बेटा सवाईसिंह, जिसका बेटा बरतसिंह, जिसके तीन बेटे- १ हिन्दूसिंह, २ दलेलसिंह, ३ नाहरसिंह थे. दलेलसिंहका बेटा भगवन्तसिंह जो उदयपुरमें महाराणा स्वरूपसिंहके पास चलाआया था, उसको महाराणाने एक गांव जागीरमें देकर खातिरीसे रक्खा, जिसका बेटा बलवन्तसिंह और उसका बेटा मनोहरसिंह, जो अब उदयपुरमें मौजूद है. बरतसिंहके तीसरे बेटे नाहरसिंहके दो बेटे हुए, बड़ा कृष्णसिंह और छोटा केसरीसिंह. कृष्णसिंहने महाराजा पृथ्वीसिंहके वक्तमें जो जो काम किये, उनकी तफ़्सील नीचे लिखी जाती है- कृष्णसिंह महाराजा मुहकमसिंहके वक्तमें सनवाड़का हाकिम रहा, जब महाराजा पृथ्वीसिंह गद्दी बैठे, तो माजी राणावतजीने कृष्णसिंहको सनवाड़से बुलाकर अपना खानगी कामदार बनाया, और विक्रमी १९०३ [हि० १२६२ = ई० १८४६] में रियासतका दीवान किया, और राखी बांधकर अपना भाई बनाया.

विक्रमी १९०६ [हि० १२६६ = ई० १८४९] में यह दीवानीके कामसे अलहदा हुआ, लेकिन महाराजा पृथ्वीसिंहने विक्रमी १९०८ [हि० १२६८ = ई० १८५२] में दुबारा उसे दीवानीका काम दिया; तब इस खैरस्वाह दीवानने तन्स्वाहदारोंकी चढ़ीहुई दो वर्षकी तन्स्वाह व राजका कर्ज़ चुकादिया; और महाराजाकी शादी शाहपुरमें बड़ी धूमधामसे हुई, लेकिन वह खर्च उसने अपनी होश्यारीसे वसूल करलिया, और रियासतको ज़ेरबारीसे बचाया.

विक्रमी १९११ [हि० १२७० = ई० १८५४] में जोधपुरके महाराजा तरतसिंह मण ज़नानेके तीर्थ यात्राको गये थे, लौटतेहुए कृष्णगढ़ आये, और आठ दिन यहां रहे; इनकी मिहमानी भी अच्छी तरह हुई.

विक्रमी १९१४ [हि० १२७३ = ई० १८५७] में गवमेंण्टके बख़िलाफ़ ग़दर हुआ, तो महाराजा पृथ्वीसिंह और उनके मुसाहिबोंने बड़ी तन्दिहीके साथ

गवर्मेण्ट अंग्रेजीकी खैरखाही व रियासतका इन्तिजाम अच्छा किया. विक्रमी १९१६ [हि० १२७६ = ई० १८५९] में महाराजा प्रतापसिंहकी पासवानके बेटे जोरावरसिंहके बेटे मोतीसिंहने चन्द सर्दारोंसे मिलकर बगावत की. महाराजा और इस खैरखाह दीवानने बड़ी अकृमन्दीके साथ उमराव सर्दारोंकी जागीरें ज़ब्त करके उनको निकाल दिया, और ठाकुर नराणा बगैरहके किले गिरवादिये, और कुछ अर्से बाद फिर उनकी जागीरें बहाल करके मोतीसिंहको रियासतसे निकाल दिया. यह कार्रवाई ऐसी उम्दह हुई, कि महाराजा कल्याणसिंहके ज़मानेसे, जो सर्दार उमरावोंपर रोब बिल्कुल न रहा था, अब खूब जमगया.

विक्रमी १९१९ श्रावण कृष्ण ११ [हि० १२७९ ता० २५ मुहर्रम = ई० १८६२ ता० २३ जुलाई] को दीवान कृष्णसिंहका इन्तिकाल होगया, लेकिन महाराजाने अपनी क़द्रदानी और दीवानकी खैरखाहीसे उसके बेटे सौभाग्यसिंहको अपना दीवान बनाया, और जिस तरह अपनी औलादको होशियार करनेका तरीका है, उसी तरह सौभाग्यसिंहसे दीवानीका काम लिया. यह दीवान भी अपने बापकी तरह होशियार, खैरखाह व नेक दिल है; इसने अपने बापके तरीकेपर चलकर महाराजाको खुश रक्खा.

विक्रमी १९२० [हि० १२८० = ई० १८६३] में महाराजा नाथद्वारे दर्शनको मण ज़नानेके तशरीफ़ लाये, और इसी सालमें जयपुरके महाराजा रामसिंह, जोधपुर शादी करके लौटतेहुए कृष्णगढ़में एक दिन ठहरे, जिनकी मिहमानीका इन्तिजाम महाराजाने अपने दीवानके ज़रीएसे अच्छा किया.

विक्रमी १९२१ [हि० १२८१ = ई० १८६४] में जोधपुरके महाराजा तरुतसिंह रीवां विवाह करके लौटे, तब कृष्णगढ़में आठ दिन रहे. विक्रमी १९२३ [हि० १८६६ = ई० १२८३] में लॉर्ड लॉरेन्सने आगरेमें दर्बार किया, तब महाराजा पृथ्वीसिंह वहां गये, और विक्रमी १९२५—२६ [हि० १२८५ या ८६ = ई० १८६८ या ६९] के क़हत में महाराजाने अपने दीवान सौभाग्यसिंहकी कारगुजारीके ज़रीएसे बहुत अच्छा इन्तिजाम किया, और रियासतमें किसी तरहका खलल न आने दिया.

विक्रमी १९२७ [हि० १२८७ = ई० १८७०] को अजमेरमें लॉर्ड मेयोने एक बड़ा दर्बार किया, जिसमें राजपूतानहके अक्सर मशहूर रईस एकट्टे हुए, तब यह महाराजा भी वहां मौजूद थे. विक्रमी १९३० [हि० १२९० = ई० १८७३] में लॉर्ड नार्थब्रुकने आगरेमें दर्बार किया, तब भी यह महाराजा वहां गये थे;

फिर प्रयाग वगैरह तीर्थ यात्रा करके वापस कृष्णगढ़ आये, और इसी वर्षमें महाराजाकी बुद्धिमानी व दीवानकी कारगुजारीसे बहुत बड़ा काम यह हुआ, कि फतहगढ़का जागीरदार, जो महाराजा प्रतापसिंहके जमानेसे अपनेको खुद मुस्तार खयाल करता था, और जिसने महाराजा कल्याणसिंहकी सख्तियोंसे भी सिर न झुकाया, महाराजा पृथ्वीसिंहने उसको ताबेदार बनालिया. फतहगढ़का जागीरदार महाराजाको नज़ करने बाद गद्दीके नीचे बिठाया गया— इसी हतकके सन्नेसे रणजीतसिंह बीमार होकर चन्द महीने बाद मरगया, क्योंकि महाराजा बाघसिंह, चांदसिंह और भोपालसिंह कृष्णगढ़की गद्दीके नीचे नहीं बैठे थे, जहांपर इसे बैठना पड़ा. फिर विक्रमी १९३२ [हि० १२९२ = ई० १८७६] में शाहजादह प्रिन्स ऑव वेल्सकी मुलाकातको आगरे गये. विक्रमी १९३३ [हि० १२९३ = ई० १८७६] में महाराजाने बड़ी राजकुमारीका विवाह उदयपुरके महाराणा सज्जनसिंहसे बड़ी धूम धामके साथ किया; फिर लॉर्ड लिटनने दिल्लीमें जब कैसरी दरबार किया, तब यह महाराजा भी वहां गये. उन पन्द्रह तोपोंके सिवाय, जो रियासतकी अस्ली सलामी है, महाराजाकी दो तोपें सलामी हीन हयात बढ़ाई गई, और एक निशान भी मिला.

इसी साल में महाराजाने अपनी दूसरी राजकुमारीका विवाह अलवरके महाराज राजा मंगलसिंहके साथ किया. विक्रमी १९३६ मृगशिर शुक्ल १२ [हि० १२९७ ता० १० मुहर्रम = ई० १८७९ ता० २६ डिसेम्बर] को इन महाराजाका इन्तिकाल होगया. उदयपुरसे महाराणा सज्जनसिंह भी कृष्णगढ़ जानेके लिये नसीराबाद पहुंचे, वहांसे महाराजाकी तबीअत जियादह अलील सुनकर सिहत पुर्सीके लिये रेलपर सवार होकर कृष्णगढ़ गये, लेकिन थोड़ी देर पहिले महाराजाका इन्तिकाल होगया था. महाराणा उनकी दग्ध क्रियामें शामिल हुए, उस समय यह तवारीख लिखनेवाला (कविराज श्यामलदास) भी मौजूद था.

महाराजा पृथ्वीसिंह बड़े मिलनसार, नेक तबीअत, खुशमिजाज और मिहनती थे. वह गेहुवां रंग, मंभोला कद, बड़ी आंख होनेके सिवाय खूबसूरत भी थे; लेकिन अफसोस है कि ऐसे नेक राजाके मरजानेका रंज रियासती आदमियोंके चिहरेपर नहीं दीखा, सिवाय उनके फर्जन्द और एक दो खैरस्वाह नौकरोंके और सब बड़ी लंबी चौड़ी बातें बनारहे थे. महाराणा साहिबको भी इस बातके कारण उन लोगों से बड़ी नफूरत हुई. इन महाराजाके तीन पुत्रोंमें से बड़े शार्दूलसिंहका जन्म विक्रमी १९१४ पौष कृष्ण ९ [हि० १२७४ ता० २३ रबीउस्सानी = ई० १८५७ ता० १० डिसेम्बर] को हुआ. दूसरे जवानसिंहका जन्म विक्रमी १९१५ चैत्र शुक्ल ४ [हि० १२७४ ता० २ शअ्वान = ई० १८५८]

ता० १९ मार्च] का है, और तीसरे रघुनाथसिंह, जिनका जन्म विक्रमी १९२९ पौष कृष्ण पक्ष [हि० १२८९ शव्वाल = ई० १८७२ डिसेम्बर] में हुआ है.

१६ महाराजा शार्दूलसिंह.

इनका राज्याभिषेक विक्रमी १९३६ पौष कृष्ण ९ [हि० १२९७ ता० २३ मुहर्रम = ई० १८८० ता० ६ जैनुअरी] को हुआ. विक्रमी १९३७ आषाढ़ कृष्ण ९ [हि० १२९७ ता० २३ रजब = ई० १८८० ता० २ जुलाई] को महाराजा शार्दूलसिंहकी तीसरी बहिनका विवाह जयपुरके महाराज दूसरे सवाई माधवसिंहसे हुआ. यह शादी बड़ी धूमधामसे की गई; मिहमानी वगैरहका बन्दोबस्त महाराजाके हुकमसे महता सौभाग्यसिंहने अच्छी तरह किया. (१)

विक्रमी १९३८ [हि० १२९८ = ई० १८८१] में महाराजा अपने पिताका गयाश्राद्ध करने और तीर्थ यात्राके लिये काशी, प्रयाग, वगैरह होतेहुए जगन्नाथजीकी तरफ गये. विक्रमी १९३९ [हि० १३०० = ई० १८८३] में महाराजा शार्दूलसिंह जोधपुरके महाराजा जशवन्तसिंहकी बहिनकी शादीमें जोधपुर गये. विक्रमी १९४१ चैत्र शुक्ल पक्ष [हि० १३०१ जमादियुस्सानी = ई० १८८४ मार्च] में कृष्णगढ़से नीबाहेडे तक रेलमें और वहांसे डाकके जरीए उदयपुर गये, जब कि महाराजा जोधपुर भी वहां मौजूद थे. महाराजाके साथ इन दोनों राजाओंकी बे तकल्लुफ़ीसे मुलाकातें हुई, और विक्रमी चैत्र शुक्ल १४ [हि० ता० १३ जमादियुस्सानी = ई० ता० ११ एप्रिल] को इस लिखने वाले (कविराज श्यामलदास) ने अपने बागीचे में तीनों राजाओंकी मिहमानी की; शामके वक्त महाराजा सज्जनसिंह व महाराजा जशवन्तसिंह गए अपने भाई महाराज प्रतापसिंह और महाराजा शार्दूलसिंहके बग्गी सवार होकर श्यामलबागमें तशरीफ़ लाये, और राग रंग, व खाना वगैरह, जो प्रीतिके साथ अर्पण किया गया, तीनों राजाओंको उनकी कद्रदानी और मिहर्बानीसे अंगीकार हुआ.

वैशाख शुक्ल ७ [हि० ता० ५ रजब = ई० ता० ४ मई] को दीवान महता सौभाग्यसिंहको महाराजा साहिबने पैरमें सोनेके तोड़े, बैठक और जीकारा इनायत किया. फिर महाराजा नाथद्वारे और कांकड़ौली होतेहुए कृष्णगढ़ पहुंचे. विक्रमी १९४१ कार्तिक शुक्ल १४ [हि० १३०२ ता० १३]

(१) महाराजाकी चौथी बहिन झालरापाटनके महाराज राणा जालिमसिंहको विक्रमी १९४३ [हि० १३०४ = ई० १८८७] में व्याही गई.

मुहर्रम = ई० १८८४ ता० ४ नोवेम्बर] को महाराजाके पुत्रका जन्म हुआ, जिस का बहुत अच्छा जल्सा किया गया.

अब महाराजा पृथ्वीसिंहके दूसरे मुसाहिब राठौड़ गोपालसिंहकी तवारीखी हालत लिखीजाती है, जो उनके पुत्र भारथसिंहने हमारे पास भेजी है-

जोधपुरके महाराजा उदयसिंहके छोटे पुत्र शक्तिसिंहके, जिनको सोजत वगैरह जागीर मिली, छः पुत्र थे- १ कर्णसिंह, २ प्रतापसिंह, ३ गिरिधरदास, ४ हरीसिंह, ५ कान्हसिंह और ६ मानसिंह. कर्णसिंह विक्रमी १६७१ [हि० १०२३ = ई० १६१४] में महाराजा कृष्णसिंहके साथ गोइन्ददास भाटीकी लड़ाई में अजमेर मकामपर मारा गया, और उसकी औलादमें खरवाके जागीरदार हैं. छोटे मानसिंहको पीपाड़ जागीरमें मिला; जिसके चार बेटे हुए- १ रेवतसिंह, २ बहादुरसिंह, ३ सामन्तसिंह, और ४ रणछोड़दास. रणछोड़दास महाराजा रूपसिंहके साथ औरंगजेब की फौजसे लड़कर समूनगरमें मारा गया, इसके दो बेटे- १ जोरावरसिंह और २ सबलसिंह थे. जोरावरसिंहके चार बेटे हुए- १ अनोपसिंह, २ उदयनाथ, ३ बीजनाथ और ४ कृष्णसिंह.

कृष्णसिंहको जोधपुरसे भैरोंदा जागीरमें मिला था, लेकिन छिन गया. इसका बेटा प्रतापसिंह, जिसको महाराजा बहादुरसिंहने एक घोड़ेकी जागीर (एक घोड़ेकी तन्ख्वाहके लायक) दी. प्रतापसिंहके तीन बेटे थे- १ सूरसिंह, २ भैरोंसिंह, और ३ फौजसिंह. सूरसिंहके दो बेटे- बड़ा मंगलसिंह, दूसरा गोपालसिंह. गोपालसिंहको महाराजा मुहकमसिंहने आधे घोड़ेकी जागीर दी, और आधेकी पहिलेसे उसे हासिल थी, जुम्ला एक घोड़ेकी जागीर हुई. इसके बाद महाराजा पृथ्वीसिंहने उसको एक घोड़ेकी जागीर और देकर दो घोड़ोंकी जागीरमें विक्रमी १९०९ [हि० १२६८ = ई० १८५२] को परगने रूपनगरका गांव रघुनाथपुरा लिखदिया, और अपना मुसाहिब बनाया; जिन खिदमतोंमें ऊपर महता कृष्णसिंहका जिक्र लिखा गया है, उनमें गोपालसिंह को भी शरीक जानना चाहिये; और सौभाग्यसिंहकी दीवानीके जमानेमें महाराजा पृथ्वीसिंहने गोपालसिंहके बेटे भारथसिंहको मुसाहिब बनाया. इन दोनों खैरख्वाह मुसाहिबोंके बेटे उसी तरह काममें शरीक रहे, और अबतक खैरख्वाहीसे नौकरी देते हैं. भारथसिंहकी जागीरमें ३५००, रुपया सालानाकी रेख सात घोड़ेकी जागीर रघुनाथपुरा मौजूद है, और महाराजाने अपने आठ अब्बल दरजेके सर्दारोंके बराबर भारथसिंहका भी दरजा बढ़ाया, बल्कि उदयपुर, जयपुर, जोधपुर वगैरहसे भी महाराजाने ताजीम दिलाकर भारथसिंहकी इज्जत बढ़ादी. अब महाराजाके भाई

बेटोंका कुछ हाल लिखाजाता है- महाराजा राजसिंहके पांच बेटे थे, जिनमेंसे चारका बयान तो ऊपर होचुका, और पांचवें वीरसिंहकी औलाद रलावता व अजमेरमें है, उन्होंने अपनी तवारीख हमारे पास भेजी, जिसका मुस्तसर हाल नीचे लिखाजाता है:-

महाराजा राजसिंहके पांचवां पुत्र, वीरसिंह था, जिसको करकेड़ी जागीरमें मिली, उसके दो बेटे बड़ा अमरसिंह और छोटा सूरजसिंह था. अमरसिंहके दलपतसिंह, सूरजसिंहके तीन बेटे- १ जशवन्तसिंह, २ अर्जुनसिंह, ३ शेरसिंह, हुए. जशवन्तसिंह का दुर्जनशाल, दुर्जनशालके सर्दारसिंह और समर्थसिंह हुए जिनमेंसे पहिला तो अपने बापके साम्हने ही गुजरगया, और दूसरा रलावतेका जागीरदार मौजूद है, जिसके दो बेटे नवनीतसिंह और दूसरा बालक है.

सूरजसिंहका दूसरा बेटा अर्जुनसिंह, इसका जैतसिंह व बलवन्तसिंह; जैतसिंह का जोरावरसिंह, जिसका शिवसिंह; और बलवन्तसिंहका विजयसिंह. सूरजसिंहका तीसरा बेटा शेरसिंह उसका शार्दूलसिंह, उसका शिवनाथसिंह जिसके बेटे सामन्तसिंह व गुलाबसिंह; शार्दूलसिंहके दूसरे बेटे बरुतावरसिंह, जिनके जयसिंह, फत्हसिंह, और तीसरा बालक है. शार्दूलसिंहके तीसरे बेटे गुमानसिंह, जिनके रघुनाथसिंह; शार्दूलसिंह के चौथे बेटे अमानसिंह उनके रघुनाथसिंह; शार्दूलसिंहके तीन बेटियां थीं, जिनमेंसे एक तो बावलास के महाराज गोपालसिंहको व्याही, और दोकी शादी बागौरके महाराज शक्तिसिंह से हुई, जिनमें से एकके गर्भसे महाराणा सज्जनसिंह पैदा हुए.

इनका हाल अजमेर वाले इस तरह बयान करते हैं, कि वीरसिंहके बाद अमरसिंह करकेड़ीका जागीरदार जोधपुरके महाराजा विजयसिंहके पास रहता था; जब विक्रमी १८२३ [हि० ११७९ = ई० १७६६] में महाराजा सर्दारसिंहका रूपनगरमें देहान्त होगया, और महाराजा बहादुरसिंहने अपने बेटे बिड़दसिंहको उनकी जगह बिठाकर रूपनगर और कृष्णगढ़को एक करलिया, इन लोगोंका बयान है कि सर्दारसिंहने अमरसिंहको गोद लेनेके लिये कहलाया, लेकिन बहादुरसिंहने दगा और मल्लबसे उनके कौलको पूरा न किया; इस बातसे नाराज होकर अमरसिंह जोधपुरके महाराजा विजयसिंहके पास जा रहा; लेकिन महाराजा बहादुरसिंहकी जिन्दगीतक तो कुछ न हुआ, और बिड़दसिंहने भी थोड़ीसी हुकूमत की, लेकिन जोधपुरसे मिलावट रखता था; इसके बाद महाराजा प्रतापसिंह कृष्णगढ़की गद्दीपर बैठे, तब यह महाराजा जवानीके नशमें अमरसिंहके जोधपुर रहनेसे नाराज होकर मरहटोंके मददगार बनगये, और मारवाड़को बर्बाद करना चाहा.

विक्रमी १८४५ [हि० १२०२ = ई० १७८८] में मारवाड़की फौजसे अजमेरके इलाकहमें लड़ाई हुई, जिसमें मरहटा और कृष्णगढ़की फौजने शिकस्त खाई, और महाराजा विजयसिंहने फौज भेजकर कृष्णगढ़को घेरलिया, रूपनगर छीनकर अमरसिंहको दिलादिया; महाराजा प्रतापसिंह तीन लाख रुपये फौज खर्चके देकर बचे, लेकिन थोड़े ही अर्सेके बाद अमरसिंहसे रूपनगर छीनलिया. उस वक्त महाराजा विजयसिंहने चश्मपोशी करली, क्योंकि मारवाड़में सर्दारोंकी बगावत होरही थी; तब अमरसिंह मरहटोंके पास गये, उन्होंने अजमेरके जिलेमें गगवाणा, ऊंटड़ा, मगरा, मगरी, अरड़का, सिराणा वगैरह गांव गुजारेके लिये जागीर में निकालदिये, लेकिन खर्चके लायक आमदनी न हुई, तब अमरसिंह जयपुरके महाराजा जगतसिंहके पास चलेगये, और उन्होंने चोड़का, मलारणा वगैरह जागीर देकर बहुत खातिर की, जब महाराजा जगतसिंहने जोधपुरके महाराजा मानसिंहपर चढ़ाई की, उस वक्त पोहकरणके ठाकुर सवाईसिंहसे अमरसिंहकी नाइतिफाकी होगई. उसने महाराजाके दिलमें शक डालदिया, कि अमरसिंह जोधपुरसे मिला हुआ है. यह शुब्हा बढ़ाकर अमरसिंहको मरवाडाला; और इसी अर्सेमें अमरसिंहके बेटे दलपतसिंहको भी जहर देकर मारडालना बयान करते हैं. सूरजसिंहके बेटोंने बहुतसी लूट खसोट की, परन्तु कुछ पेश न गई, और जो गांव कब्जेमें थे, वे ही बहाल रहे; यानी कृष्णगढ़के इलाकहमें रलावता व गूंदली, और अजमेरके इलाकहमें गगवाणा, ऊंटड़ा व मगरा बाकी रहे. इसी अर्सेमें अंग्रेजी अमल्दारी होगई, जिससे, जो जायदाद थी, उसीपर काबिज रहना पड़ा.

फतहगढ़का हाल.

महाराजा बहादुरसिंहके दो बेटोंमेंसे बड़े बिड़दसिंह तो कृष्णगढ़ और रूपनगरके राजा रहे, और छोटे बाघसिंह थे, जिनको जागीरमें फतहगढ़ मिला. फतहगढ़ वालोंने अपनी तवारीख हमारे पास भेजी, जिसका खुलासा नीचे लिखा जाता है—

महाराजा बहादुरसिंहने अपने बड़े बेटे बिड़दसिंहको रूपनगरमें सर्दारसिंहकी गोद रखदिया, लेकिन पीछे रियासत कम ताकत होनेके सबब दोनों ठिकाने एक करलिये; इसमें बाघसिंहका हक मारागया, क्योंकि बिड़दसिंह रूपनगर गोद चलेगये, तो कृष्णगढ़के राजपर बहादुरसिंहके बाद बाघसिंहका हक था. महाराजा बहादुरसिंह ने अपनी औलादका फसाद मिटानेको दसवां हिस्सा रियासतकी जायदादसे निकालकर बारह गांव समेत फतहगढ़ बाघसिंहको दिया. यह फतहगढ़ पहिले गौड़

राजपूतोंके कब्जेमें था, जो महाराजा राजसिंहके बेटे फ़तहसिंहने उनसे छीना था; इस बारेमें मारवाड़ी भाषाका एक दोहा मशहूर है-

दोहा.

गौड़ां सूं धरती गई गया धरा सूं गौड़ ॥

फ़तो फ़तेगढ़ आवियो राजकुंवर राठौड़ ॥ १ ॥

इस फ़तहगढ़में क़िला बनाकर महाराजा बहादुरसिंहने विक्रमी १८३० [हि० ११८७ = ई० १७७३] में अपने छोटे बेटे बाघसिंहको वहां रखदिया. बाघसिंहका जन्म विक्रमी १८१८ माघ कृष्ण ११ [हि० ११७५ ता० २५ जमादियुस्सानी = ई० १७६२ ता० २२ जैनुअरी] को हुआ था. फ़तहगढ़ वालोंका बयान है कि कृष्णगढ़ और फ़तहगढ़ दोनोंका महाराजा बहादुरसिंहने इज़त वगैरहमें बराबर काइदह रक्खा था, और सर्दार, अहल्कार व जायदाद वगैरहमें से रियासतका दसवां हिस्सा उनको दिया. जब महाराज फ़तहगढ़ कृष्णगढ़ जाते, तो गद्दीपर बैठना वगैरह सब तरह से बराबरीका बर्ताव होता. और कृष्णगढ़ वालोंका बयान है कि, महाराज बाघसिंह का बर्ताव हकीकतमें बराबर बरता गया था, लेकिन वह रिश्तेदारीकी बुजुर्गीसे कियागया, दावेदारीसे नहीं था.

महाराजा बिड़दसिंह और प्रतापसिंहके अहदमें तो बाघसिंहसे अच्छी तरह इत्तिफ़ाक़ रहा, परन्तु महाराजा कल्याणसिंहसे कुछ नाइत्तिफ़ाकी होगई थी. विक्रमी १८६९ [हि० १२२७ = ई० १८१२] में बाघसिंहका इन्तिक़ाल हो- गया. इनके चार बेटे थे- पहिला चांदसिंह जिसका जन्म विक्रमी १८३६ [हि० ११९३ = ई० १७८९] का है; दूसरा बलदेवसिंह, जिसको ग्रास में गांव ढोस व सदापुरकी भौम मिली; तीसरा किशोरसिंह, जिसको गांव जोरावरपुरा व चांदोलाईकी भौम दीगई. और चौथा भीमसिंह, जिसको गांव कचौलिया जागीरमें मिला.

महाराज बाघसिंहके बाद चांदसिंह गद्दीपर बैठा; इसने ठिकानेका कर्जा चुकाया, और क़िलेमें मेगज़िन व कुछ खज़ानह भी एकट्ठा किया, उसके शुरू अहदमें महाराजा कल्याणसिंहने पहिले मरहटा बंकटराव और दूसरी दफ़ा अमीरखांका हम्ला फ़तहगढ़पर करवाया; लेकिन चांदसिंह और उसके आदमियोंकी अक़मन्दीसे कल्याणसिंहकी स्वाहिश पूरी न होसकी. अंग्रेज़ी अमल्दारी होनेके बाद भी कल्याणसिंहने फ़तहगढ़को मातहत करनेका इरादह

न छोड़ा. जोरावरपुरेका किशोरसिंह, जो बाघसिंहका तीसरा बेटा था, बे औलाद मरगया, इसलिये चांदसिंहने उसकी जागीरका मालिक अपने बेटे गोपालसिंहको बनादिया, तब बलदेवसिंह और भीमसिंहने बहुत फसाद किया, लेकिन् कोटाके दीवान भाला जालिमसिंहने इन दोनों भाइयोंको कुछ जागीर कोटासे देकर समभादिया; मगर बलदेवसिंहकी बद चलनी और भीमसिंहकी सुस्तीसे वह जागीर कुछ अर्से बाद जाती रही. महाराजा कल्याणसिंहने फतहगढ़को मातहत करनेके लिये जोर डाला, और कुछ परदेसी सिपाहियोंको नौकर रखकर हम्ला किया, परन्तु कृष्णगढ़के कुल जागीरदार एक होकर बागी होगये, जिससे महाराजाकी स्वाहिश पूरी न हुई; आखिरकार गवर्मेण्ट अंग्रेजीको फैसला करना पड़ा. फतहगढ़का आजाद होना, जो अहदनामहके बखिलाफ था, अंग्रेजी अफसरोंने मंजूर नहीं किया, लेकिन् कतई फैसला होकर तामील नहीं करवाई गई.

विक्रमी १८९७ [हि० १२५६ = ई० १८४०] में महाराज चांदसिंहका इन्तिकाल होगया. उसका बड़ा बेटा भोपालसिंह था, जिसका जन्म विक्रमी १८५६ [हि० १२१४ = ई० १७९९] का था; दूसरा गोपालसिंह, और तीसरा इन्द्रसिंह. महाराज भोपालसिंह फतहगढ़का रईस हुआ, इसके समयमें भी कृष्णगढ़की अदावत बनीरही. विक्रमी १९०४ [हि० १२६३ = ई० १८४७] में इसका इन्तिकाल होगया, और उसका पुत्र महाराज रणजीतसिंह गद्दीपर बैठा, जो बहुत लायक और बुद्धिमान था. इसने ठिकानेको जमीनकी आबादी, तालाब, इमारत वगैरहसे खूब दुरुस्त किया, कृष्णगढ़का खरखशा तै नहीं हुआ, आखिरकार गवर्मेण्ट अंग्रेजीने फैसला तै करके महाराज रणजीतसिंहको कृष्णगढ़में तलब करनेके बाद अपने अफसरोंके साम्हने महाराजा पृथ्वीसिंहकी गद्दीके नीचे बिठाकर नज़र करवादी, और वलीअहद रियासतकी इज़तके मुवाफिक इनके साथ बर्ताव रहना करार पाया. लेकिन् इस शर्मिन्दगीके सन्नेसे चार महीने बाद, याने विक्रमी १९३० [हि० १२९० = ई० १८७३] में महाराज रणजीतसिंहका इन्तिकाल होगया, जिसके बाद उसका पुत्र गोवर्धनसिंह फतहगढ़का मुस्तार बना, जिसका जन्म विक्रमी १९१४ [हि० १२७३ = ई० १८५७] में हुआ था, शुरू अहदसे इसकी स्वाहिश शराब पीनेपर बढ़तीजाती थी; कृष्णगढ़की तरफसे इसे बहुतसी सख्तियां भेलनी पड़ीं, आखिरकार विक्रमी १९३८ श्रावण कृष्ण ३० [हि० १२९८ ता० २९ शअबान = ई० १८८१ ता० २६ जुलाई] को इसका इन्तिकाल होगया; तब

इन्द्रसिंहके पोते और रायसिंहके बेटे मानसिंहको उदयपुरसे बुलाकर गद्दीपर बिठाया, क्योंकि गोवर्धनसिंहके कोई औलाद न थी.

अब यहांपर बाघसिंहकी औलादका कुर्सी नामह लिखाजाता है- पाटवी चांदसिंह, जिसके तीन बेटे- बड़ा भोपालसिंह, दूसरा गोपालसिंह, और तीसरा इन्द्रसिंह. भोपालसिंहका रणजीतसिंह, उसका गोवर्धनसिंह, और उसके मानसिंह, जो फतहगढ़के वर्तमान जागीरदार हैं. चांदसिंहका दूसरा बेटा गोपालसिंह, जिसको बाघसिंहके तीसरे बेटे किशोरसिंहके गोद रक्खा, और चांदसिंहका तीसरा बेटा इन्द्रसिंह, जिसका रायसिंह (१), जिसके मानसिंह जो फतहगढ़वाले गोवर्धनसिंहके गोद गये.

बाघसिंहका दूसरा बेटा बलदेवसिंह ढोसका जागीरदार जिसका बेटा भौमसिंह, भौमसिंहके तीन बेटे- बड़ा हिम्मतसिंह, दूसरा जालिमसिंह, और तीसरा धनपतसिंह. विक्रमी १९३० [हि० १२९० = ई० १८७३] में हिम्मतसिंहके हाथसे जालिमसिंह मारागया, और ढोसकी जागीर धनपतसिंहको मिली; उसका बेटा तेजसिंह, जो अब मौजूद है. बाघसिंहका तीसरा बेटा किशोरसिंह, जोरावरपुराका जागीरदार, जिसका गोपालसिंह, इसका वैरीशाल, जिसके तीन बेटे- बड़ा केसरीसिंह, दूसरा रामसिंह, और तीसरा श्यामसिंह.

बाघसिंहका चौथा पुत्र भीमसिंह कचौलियाका जागीरदार जिसके छः पुत्र हुए- १ छत्रसिंह, २ मंगलसिंह, ३ विजयसिंह, ४ फौजसिंह, ५ पृथ्वीसिंह, जो कृष्णगढ़के महाराजा हुए, और ६ फतहसिंह. बड़े छत्रसिंहका बेटा हरनाथसिंह.

नम्बर ३३

कृष्णगढ़का अह्दनामह.

अह्दनामह ऑनरेबल अंग्रेजी ईस्ट इन्डिया कम्पनी और कृष्णगढ़के महाराजा कल्याणसिंह बहादुरके दर्मियान, जो मारिफत मिस्टर चार्ल्स थियोफिलस मेटकाफकी

(१) इनका मुफ़्तल हाल उदयपुरके सदरोंके साथ लिखाजावेगा.

(मोस्ट नोबल मार्कुइस आफ़ हेस्टिंगज़, के. जी. गवर्नर जेनरलके दियेहुए पूरे इस्तिथारसे) और मारिफ़त काज़ी फ़तहमुहम्मदखांकी (महाराजा कल्याणसिंह बहादुरके दियेहुए पूरे इस्तिथारसे) हुआ.

पहली शर्त- दोस्ती और इत्तिफ़ाक़ और खैरखाही अॉनरेवल कम्पनी और महाराजा कल्याणसिंह और उनके वारिसों और जानशीनोंके दर्मियान हमेशह वरती जायगी, और एक फ़रीक़के दोस्त व दुश्मन दूसरे फ़रीक़के दोस्त और दुश्मन समभे जायेंगे.

दूसरी शर्त- गवर्मेण्ट अंग्रेज़ी वादा करती है कि वह कृष्णगढ़की रियासत और मुल्ककी हिफ़ाज़त करेगी.

तीसरी शर्त- महाराजा कल्याणसिंह और उसके वारिस और जानशीन, गवर्मेण्ट अंग्रेज़ीकी ताबेदारी करेंगे, और उसकी बुजुर्गीका इक्रार करेंगे, और किसी दूसरे रईससे इत्तिफ़ाक़ और मिलावट नहीं करेंगे.

चौथी शर्त- महाराजा कल्याणसिंह और उसके वारिस और जानशीन किसी गैर रईसके साथ सुलह और इत्तिफ़ाक़का पैग़ाम गवर्मेण्ट अंग्रेज़ीकी इत्तिला और मन्ज़ूरीके बगैर नहीं करेंगे, परन्तु मामूली दोस्ताना ख़त किताबत अपने दोस्त और रिश्तेदारोंके साथ जारी रखेंगे.

पांचवीं शर्त- महाराजा और उसके वारिस और जानशीन किसीपर ज़ियादती नहीं करेंगे, और अगर इत्तिफ़ाक़न् आपसमें किसीसे तक्रार पैदा होगी, तो वह सफ़ाईके लिये गवर्मेण्ट अंग्रेज़ीके सुपर्द कीजायगी कि वह उसका फ़ैसला करदे.

छठी शर्त- महाराजा कृष्णगढ़ गवर्मेण्ट अंग्रेज़ीको मांगनेपर अपनी हैसियतके मुवाफ़िक़ फ़ौज देंगे.

सातवीं शर्त- महाराजा और उसके वारिस और जानशीन अपने मुल्कके हर तरह हाकिम रहेंगे, और अंग्रेज़ी हुकूमत उस रियासतमें दाख़िल न होगी.

आठवीं शर्त- यह अहदनामह आठ शर्तोंका तै होकर उसपर मुहर और दस्त-ख़त मिस्टर चार्ल्स थियोफ़िलस मेटकाफ़ और काज़ी फ़तहमुहम्मदखांके हुए, और नक़ उसकी हिज़ एक्सलेन्सी मोस्ट नोबल गवर्नर जेनरल और महाराजा कल्याणसिंह बहादुरकी तस्दीक़ कीहुई इस तारीख़से २० दिन पीछे आपसमें तक्सीम होजायगी.

मक़ाम दिहली, ता० २६ मार्च, सन् १८१८ ई०

दस्तख़त सी. टी. मेटकाफ़.

मुहर

मुहर

कल्याणसिंह बहादुर.

मुहर

फ़तह मुहम्मद खां.

मुहर गवर्नरजेनरल

दस्तख़त हेस्टिंगज़.

इस अहदनामहको हिज़ एक्सेलेन्सी गवर्नर जेनरल बहादुरने कैम्प बांसबरेली में ता० ७ एप्रिल सन् १८१८ ई० को तस्दीक़ किया.

दस्तख़त जे. ऐडम, सेक्रेटरी, गवर्नर जेनरल.

नम्बर ३४.

सर्कार अंग्रेज़ी और श्रीमान पृथ्वीसिंह महाराजा कृष्णगढ़ व उनके वारिसों और जानशीनोंके बीचका अहदनामह, जो एक तरफ़ लेफ़्टिनेण्ट कर्नेल् रिचर्ड हार्ट कीटिंग, एजेण्ट गवर्नर जेनरल राजपूतानहने हुकमके मुताबिक़ किया, जिनको पूरा इस्तिथार हिज़ एक्सेलेन्सी सर जॉन लेयर्ड मेअर लॉरेन्स, वाइसराय, गवर्नर जेनरल हिन्दुस्तानसे मिला था, और दूसरी तरफ़ खुद महाराजा पृथ्वीसिंह थे—

पहिली शर्त— कोई आदमी अंग्रेज़ी या दूसरे राज्यका बाशिन्दह अगर अंग्रेज़ी राज्यमें कोई बड़ा जुर्म करे, और कृष्णगढ़की राज्य सीमामें पनाह लेना चाहे, तो कृष्णगढ़की सर्कार उसको गिरिफ़्तार करेगी, और दस्तूरके मुताबिक़ उसके मांगेजानेपर सर्कार अंग्रेज़ीको सुपुर्द करदेगी.

दूसरी शर्त— कोई आदमी कृष्णगढ़के राज्यका बाशिन्दह वहांके राज्यकी सीमा में कोई बड़ा जुर्म करे, और अंग्रेज़ी इलाक़हमें जाकर आश्रय लेवे, तो सर्कार अंग्रेज़ी वह मुज्रिम कृष्णगढ़के राज्यको काइदहके मुवाफ़िक़ सुपुर्द करदेवेगी.

तीसरी शर्त— कोई आदमी, जो कृष्णगढ़के राज्यकी रअग्र्यत न हो, और कृष्णगढ़के राज्यकी सीमामें कोई बड़ा जुर्म करके फिर अंग्रेज़ी सीमामें पनाह लेवे, तो सर्कार अंग्रेज़ी उसको गिरिफ़्तार करेगी, और उसके मुक़दमेकी रूबकारी सर्कार अंग्रेज़ीकी बतलाई हुई अदालतमें होगी. अक्सर काइदह यह है कि ऐसे मुक़दमोंका फैसला उस पोलिटिकल अफ़सरके इजलासमें होता है, जिसके तहतमें वारदात होनेके वक़्तपर कृष्णगढ़की मुल्की निगहबानी रहे.

चौथी शर्त- किसी हालतमें कोई सकार किसी आदमीको, जो बड़ा मुज्जिम ठहरा हो, दे देनेके लिये पाबन्द नहीं है, जबतक कि दस्तूरके मुताबिक खुद वह सकार या उसके हुकमसे कोई अफसर उस आदमीको न मांगे, जिसके इलाकहमें कि जुर्म हुआ हो, और जुर्मकी ऐसी गवाहीपर, जैसा कि उस इलाकहके कानूनके मुताबिक सहीह समझी जावे, जिसमें कि मुज्जिम पायाजावे, उसका गिरफ्तार करना दुरुस्त ठहरेगा, और वह मुज्जिम करार दियाजावेगा, गोया जुर्म वहींपर हुआ है.

पांचवीं शर्त- नीचे लिखे हुए काम बड़े जुर्म समझे जावेंगे- १ खून- २ खून करनेकी कोशिश- ३ वहशियाना क़त्ल- ४ ठगी- ५ जहर देना- ६ सस्तगीरी- ७ ज़ियादह ज़स्मी करना- ८ लड़का बाला चुरालेजाना- ९ औरतोंका बेचना- १० डकैती- ११ लूट- १२ सेंध (नक़ब) लगाना- १३ चौपाये चुराना- १४ मकान जलादेना- १५ जालसाज़ी करना- १६ झूठा सिक्का चलाना- १७ धोखा देकर जुर्म करना- १८ माल अस्बाब चुरालेना- १९ ऊपर लिखेहुए जुर्मोंमें मदद देना या वरग़लाना (बहकाना).

छठी शर्त- ऊपर लिखी हुई शर्तोंके मुताबिक मुज्जिमको गिरफ्तार करने, रोक रखने, या सुपुर्द करने में, जो खर्च लगे, वह उसी सकारको देना पड़ेगा, जिसके कहनेके मुताबिक यह बातें कीजावें.

सातवीं शर्त- ऊपर लिखा हुआ अहदनामह उस वक़्तक बरकरार रहेगा. जबतक कि अहदनामह करनेवाली दोनों सकारोंमेंसे कोई उसके तब्दील करने की स्वाहिश एक दूसरेको ज़ाहिर न करे.

आठवीं शर्त- इस अहदनामहकी शर्तोंका असर किसी दूसरे अहदनामहपर, जो कि दोनों सकारोंके बीच पहिलेसे है, कुछ न होगा; सिवाय ऐसे अहदनामहके, जो कि इस अहदनामहकी शर्तोंके बखिलाफ़ हो.

मक़ाम अजमेर, ता० २७ नोवेम्बर सन् १८६८ ईसवी.

दस्तख़त महाराजा कृष्णागढ़ (हिन्दी हफ़ोंमें).

दस्तख़त आर. एच. कीटिंग, एजेण्ट गवर्नर जेनरल.

दस्तख़त जॉन लॉरेन्स, वाइसरॉय, गवर्नर जेनरल हिन्द.

इस अहदनामहको मक़ाम फ़ोर्ट विलिअममें गवर्नर जेनरलने ता० १२ डिसेम्बर सन् १८६८ ई० को तस्दीक़ किया.

दस्तख़त डब्ल्यू. एस. सेटन कार, सेक्रेटरी, गवर्मेण्ट इन्डिया, फ़ॉरेन डिपार्टमेण्ट.

नम्बर ३५.

कृष्णागढ़ महाराजाकी तरफसे एजेण्ट गवर्नर जेनरल बहादुर राजपूतानहके नाम,
जो खरीता ता० ८ जुलाई सन १८६७ ई० को लिखागया, उसका खुलासा-

गुजरेहुए महीनेकी २६ ता० को आपके खरीतेके आनेसे मेरी इज़त हुई, जिसमें यह मल्लब है कि गवर्मेंट इन्डिया मुझे बीस हजार रुपया सालाना उस नुकसान के बदलेमें देनेको राजी है, जोकि मेरी रियासतकी आमदनीमें मेरे इलाक़हमें रेल्वेके गुजरनेसे होगा, और बतलब जवाब जल्द.

इसका मतलब मैंने अच्छी तरह समझ लिया, और मैं स्वाहिश रखता हूं कि श्री मान वाइसरॉय गवर्नर जेनरल को मेरा इहसानमन्दीके साथ शुक्रिया मेरे और मेरी रियासत की तरफ़ इस मिहर्बानी के लिहाज़के वास्ते अदा कियाजावे.

मैं शुक्रगुजारीके साथ इस नुकसानके बदले को, जो सरकार देनेको राजी है, याने बीस हजार रुपया सालाना मंजूर करता हूं, और आपसे अर्ज करता हूं कि गवर्मेंटको इसकी इतिला देवें; उसीके साथ यह भी अर्ज है कि श्री मान वाइसराय को मेरा शुक्रिया और यह उम्मेद जाहिर करें कि वह मेरी रियासतपर मिहर्बानी की निगाह रखते रहें.

मुझे उम्मेद है कि जबतक मैं आपसे रूबरू मिलनेकी खुशी हासिल न करूं, तबतक कभी कभी आपकी चिट्ठियों से इज़त पाता रहूंगा.

रीवां (बांधूगढ़) की तवारीख.

महाराणा राजसिंहके वृत्तान्तमें लिखागया है, कि महाराणाकी कन्या अजब-कुंवर बाईका विवाह बांधूगढ़के राजा अनूपसिंह बाघेलाके साथ हुआ था, इस तअल्लुकके सबब बांधूगढ़ अर्थात् रीवांका तारीखी हाल यहां लिखते हैं.

बयान है, कि त्रेता युगमें जब परशुरामने क्षत्रियोंका नाश किया, तब वे खौफ़ होकर म्लेच्छ (जंगली लोग) ब्राह्मणोंके आचार विचार और यज्ञादिकमें नुकसान पहुंचाने लगे, इसपर मुनियोंने आबू पहाड़ (अर्बुदाचल) पर चार जातिके क्षत्री

अग्नि कुण्डसे निकाले- प्रमार, परिहार, और चहुवानके सिवाय एक पानी सींचनेके लिये चौथा चुलुक्य, जिसको चालुक्य अथवा सोलंखी भी कहते हैं, पैदा किया; और पांचवां शस्स केलेके डोडे (फूल) से पैदा किया, जिससे डोडिया क्षत्री हुए.

हमारे विचारसे ब्राह्मणोंने इन पांचों क्षत्रियोंको प्रायश्चित्त करवाकर शुद्ध किया होगा, तबसे सूर्य चन्द्र वंशियोंके सिवाय अग्निवंशी क्षत्री जुदे कहलाये. यदि चालुक्यसे लेकर वर्तमान समयतक वंशावलीको सिल्सिलेवार मिलाया जावे, तो पुरानी वंशावलीके गलत होनेमें कुछ शक नहीं, क्योंकि बड़वा और भाटोंने अपनी पुस्तकोंका सिल्सिला मिलानेके लिये अक्सर बनावटी नाम रख लिये हैं. हमने एशियाटिक सोसाइटी बंगाल, तथा बम्बई ब्रेंच रॉयल एशियाटिक सोसाइटी और इंडियन ऐन्टीक्वेरी व फ़ॉर्ब्स साहिबकी रासमाला गुजरात हिस्टरी के द्वारा शिला लेख, ताम्रपत्र, सिके, बड़वा भाटोंकी पुस्तकों, रत्नमाला, कुमारपाल चरित्र, द्वाश्रय वगैरहके आशयको देखा, और खान बहादुर मौलवी हकीम रहमानअलीकी तहरीरसे, जो रीवांका इज़तदार अहल्कार है, और रीवांका इतिहास लिखता है, और जिसकी किताबका पहिला भाग राजवंश वर्णन क़लमी लिखा हुआ एक मित्र द्वारा हमारे पास आया है; उसमें जो साल संवत् लिखे हैं, वे हमारी नज़र में तो शुद्ध हैं ही नहीं, बल्कि उक्त मौलवीको भी उनके सहीह होनेमें शक है. इस लिये हम पुराने संवत् वही लिखेंगे, जो कि ताम्र पत्र वा पाषाण लेखोंसे शुद्ध होचुके हैं, और बीचके संवत्, जो अशुद्ध मालूम होते हैं; उन्हें छोड़कर पिछले वहांसे शुरू करेंगे, जहांसे कि कम फ़र्क मालूम पड़ता है.

वंशावलीके नामोंमें चालुक्यसे कल्याणीके राजा भुवनदेव तकका हमें विश्वास नहीं है, अर्गचि ऐन्टीक्वेरी और सोसाइटियोंके जर्नलोंमें दक्षिणी, पूर्वी व पश्चिमी चालुक्य राजाओंके नाम प्रशस्तियों और ताम्रपत्रोंसे लिखे गये हैं, लेकिन यह तहकीक़ नहीं होता कि यह भुवनदेवसे पहिले, चालुक्य वंशी राजा थे, इस लिये भुवनदेवसे वंशावली शुरू की जाती है:-

चालुक्य भुवनादित्यके तीन पुत्र हुए- १ राज, २ बीज, ३ दंडक; अनहिल-वाड़ा पट्टनके राजा सामन्तदेव चावड़ाकी बहिन लीलादेवीका विवाह १ राजके साथ हुआ था, जिसके गर्भसे मूलराज पैदा हुआ. राजा सामन्तदेव चावड़ाने अपनी बहिनके पुत्र मूलराजको गोद लिया, और वह सामन्तदेव चावड़ाके मरने बाद विक्रमी ९९८ [हि० ३३० = ई० ९४२] में अनहिलवाड़ा पट्टनकी गद्दीपर बैठा. यह राजा गुजरात (सौराष्ट्र) में सोलंखियोंका बड़ा राज कायम करनेवाला हुआ.

इसने चहुवान, प्रमार, जाड़ेचा, चूड़ाप्पा इत्यादि वंशके अनेक राजाओंपर फ़तह पाई, और विक्रमी १०५३ [हि० ३८७ = ई० ९९७] तक ५५ वर्ष राज्य किया.

इसके बाद २ चामुंडराज गद्दीपर बैठा, और १३ वर्षतक, यानी विक्रमी १०६७ [हि० ४०० = ई० १०१०] तक राज्य करके परलोकको सिधारा.

इसके तीन बेटे हुए— बल्लभराज, दुर्लभराज और नागराज; इनमें से बड़ा पुत्र बल्लभराज तो चामुंडराजके सामने ही मरगया, जिसपर चामुंडराजने अपने दूसरे पुत्र ३ दुर्लभराजको राज देकर आप तपस्या करनेकी मर्जीसे नर्मदा किनारे निवास किया.

दुर्लभराजके छोटे भाई नागराजके पुत्र ४ भीमको विक्रमी १०७९ [हि० ४१३ = ई० १०२२] में दोनों भाई राज्य देकर तपस्या करनेको काशी चलेगये, और वहीं मरे. इसी भीमदेवको विक्रमी १०८१ [हि० ४१५ = ई० १०२४] में महमूद गज़नीने शिकस्त देकर सोमनाथ महादेवके लिङ्ग और मन्दिरको तोड़ा था. फिर महमूद तो गज़नीको चलागया, और भीमदेवने अपनी ताकतसे गुजरातका राज्य अपने कब्जेमें करके सिन्धु और चंदेरीके राजासे भी दंड लिया. इसीके वक्तमें उज्जैन और धारमें मालवा देशका प्रसिद्ध राजा भोज हुआ, जिससे भीमदेवकी बड़ी मुवाफ़क़त थी. भीमदेवके क्षेमराज, मूलराज और कर्ण तीन पुत्र थे.

भीमदेवने ५ क्षेमराजको अनहिलवाड़ेका राज्य देकर तपस्या करनेका विचार किया, लेकिन क्षेमराजने हुकूमतसे अपने पिताकी सेवा ही ठीक जानकर छोटे भाई ६ कर्णको विक्रमी ११२९ [हि० ४६४ = ई० १०७२] में राज्य देने बाद तीर्थ वास किया, और वह इसी हालतमें गुजरगया.

कर्ण राजाका देहान्त विक्रमी ११५१ [हि० ४८७ = ई० १०९४] में हुआ. इसकी गद्दीपर सिद्धराज जयसिंहदेव कम उम्रमें गादी बैठा था; इस हालतमें राज्यका काम सिद्धराजकी मा मैनालदेवी चलाती थी. सिद्धराज गुजरातके सोलंखी राजाओंमें बड़ा नामी हुआ, लेकिन इसके पीछेके साल संवत् और पीढ़ियोंमें बहुत ग़लती है.

ऊपर लिखे हुए संवत् और राजाओंके नाम तहकीक़ करके लिखे हैं, परन्तु सिद्धराजके बेटोंसे बाघेलोंके वंशका जुदा होना बड़वा भाटोंकी पोथियों और रीवां के मैजिस्ट्रेट हकीम रहमानअलीखांकी तहकीक़ातसे अथवा एक तवारीखकी हिन्दी किताबसे, जो महाराणा भीमसिंहके कुंवर जवानसिंहकी पहिली शादी राजा जयसिंहदेवकी बेटी और बाबू विश्वनाथसिंहकी बहिन सुभद्रकुमारीके साथ होनेके सबब रीवांके राज्यकी तरफ़से विक्रमी १८८० [हि० १२३९ = ई० १८२३]

में उदयपुरके दरबारमें आई थी, शक होता है. उक्त हकीम तो अपनी तहकीकातमें चालुक्यसे लेकर हालतक कुल ११२१ पीढ़ियां लिखते हैं; और सोलंखियोंका बढ़वा देवीदान चालुक्यसे मूलराजके पिता राज तक ९०० पीढ़ी होना बयान करता है; इसमें तअजुब यह है, कि मूलराजसे सिद्धराजतककी पीढ़ियोंके नामोंमें भी बहुत फर्क है, लेकिन ऊपरकी पीढ़ियां और साल संवत् हम तहकीक करके लिख चुके हैं. तवारीखमें यह अंधेर भाटोंका किया हुआ ही मालूम होता है.

पृथ्वीराजरासाके लेखसे दूसरे भीमदेवका मेवाड़में बनास नदीपर राजा पृथ्वीराज चहुवान और रावल समर्सीसे लड़कर माराजाना प्रसिद्ध है. भीमदेवका ताम्रपत्र विक्रमी १२५६ [हि० ५९५ = ई० ११९९] का मिला है, और राजा पृथ्वीराज चहुवान विक्रमी १२४९ [हि० ५८९ = ई० ११९३] में शिहाबुद्दीनसे लड़कर मारागया था; चित्तौड़के रावल समर्सीके समयके जो पाषाण लेख मिले हैं, उनसे समर्सीका संवत् विक्रमी १३३१ [हि० ६७२ = ई० १२७४] से विक्रमी १३४४ [हि० ६८६ = ई० १२८७] तक चित्तौड़में राज्य करना जाहिर है. अब ऐसी गलतियोंमेंसे अस्ली हाल निकालना कठिन है.

फॉर्ब्स साहिबकी 'रासमाला' और ऊपर लिखी हुई सोसाइटियों व किताबोंके लेखसे तो सिद्धराजका दूसरा बेटा अर्णोराज था, जिसको उसके बड़े भाई कर्णराजने बाघेला ग्राम जागीरमें दिया था, जो अनहिलवाड़ा पट्टनके पास अबतक मशहूर है, और उसमें पुरानी इमारतें भी अबतक मिलती हैं. इसी बाघेला ग्रामके नामसे अर्णोराजकी सन्तान बाघेला कहलाई.

अर्णोराजका पुत्र कर्णराज, इसका वीसलदेव, जिसके बेटे अर्जुनदेवके वक्त तक गुजरात देशमें बाघेलोंका राज्य करना फॉर्ब्स साहिबकी रासमालासे पतेवार मिलता है, लेकिन कुर्सीनामहको आगे बढ़ानेके लिये कोई सुबूत नहीं नजर आता. इस कारण रीवांके मैजिस्ट्रेट हकीम रहमानअलीखंके तहकीकाती कुर्सीनामह और तवारीखसे यहां लिखाजाता है, जो नहीं मालूम किस जगहसे कहांतक गलत, और कबसे सहीह है- यही खयाल उक्त हकीमको भी है.

७ वें राजा सिद्धराज (जयसिंहदेव) के पुत्र ८ सिंहराज, इनके ९ नागराज, इनके १० कर्णदेव, इनके ११ वीरध्वज (शायद शुद्धनाम वीसलदेव होगा), इनके १२ व्याघदेव, इनसे बाघेला सोलंखी कहलाये; इन्होंने पूर्वमें जाकर बघेलखंडका राज्य जमाया. इनके पांच पुत्र हुए, जिनमेंसे १३ कर्णदेव अपने बापकी जगह बघेलखंडके जिले मंडफामें गादी बैठे; दूसरा कन्धरदेव, इसका लकब 'राव' हुआ,

और कसोटा जागीरमें पाया. तीसरा कीर्तिदेव (१) जिसकी औलाद पेथापुरमें राज करती है. चौथा सूरतदेव, जो गुजरातमें चला गया, और जिसकी औलाद पालनपुर एजेन्सीकी हुकूमतके ताबे ठाकरां इलाक़ह नहराब, मोरवाड़ा और देवदा ग्रामोंमें है.

पांचवां श्यामदेव पूर्व देशको चला गया, जिसकी औलादमें शायद बनारस, भदोई, और फरुखाबाद जिले के बघेले हैं.

१३ कर्णदेवका विवाह हयहय वंशी क्षत्री राजा सोमदत्तकी बेटीसे हुआ, और दहेजमें बांधूगढ़ मिला जो आजतक रीवांके तअल्लुकमें है, इन्होंने बांधूगढ़में कर्णबनेवा दर्वाजा बनवाया, जो अबतक मौजूद है.

(१) गुजरात राजस्थानके पृष्ठ १२३ में पेथापुरकी तवारीख इस तरह पर लिखी है-

विक्रमी १३०१ [हि० ६४२ = ई० १२४४] से विक्रमी १३६१ [हि० ७०४ = ई० १३०४] तक अनहिलवाड़ा पट्टनकी गद्दीपर बाघेला राजपूतोंने राज्य किया; पिछले राजा कर्ण बाघेलाके वक्तमें दिल्लीके बादशाह सुल्तान अलाउद्दीन खिल्जीने इस राज्यको बर्बाद किया. कर्ण बाघेलाके वारिस जैता और बरसिंह दो भाई थे, जिन्होंने गुजरात देशसे बाहर निकलकर लूट मार शुरू की. थोड़े दिनोंके बाद फिर बादशाहने खुश होकर इन्हें ५०० ग्राम दिये.

जागीर के दो हिस्से होकर जैताको कलोल ग्रामके साथ २५० गांव, और बरसिंहकी पांतीमें साणंदके साथ २५० गांव आये. जैताके वंशमें कलोलका राजा आनन्ददेव हुआ, इसके कुंवर राणकदेवकी जागीरमें रूपाल गांव था; इसके देहान्तके बाद दूसरी या तीसरी पीढ़ीमें सामन्तसिंह हुए, जिनके कुंवरोंने रूपालके हिस्से करलिये.

इनमें पाटवी विजयकर्ण था, इसलिये खास रूपाल इसीके कब्जेमें रही; और छोटे कुंवर सोमेश्वरको कोलवाड़ा वगैरह १४ गांव मिले. सोमेश्वरके पुत्र चांदा और हिमाला हुए, इस वक्त पेथू गोहिलके कब्जेमें सावरमती नदीके पास सोखड़ा ग्राम था, यह हिमाला के मामा थे. हिमाला किसी कद्र राजपूतोंको लेकर सोखड़ा गया, और अपने मामाको मारकर राज्य छीन लिया, पेथूकी राणी सती हुई; इस राणीके हुक्मके मुवाफ़िक़ 'पेथापुर' बसाया गया, जहांका राज्य आजतक उन्हींके वंशमें है.

पेथापुरका तअल्लुका मिलाने वाला जैतासे दसवीं पीढ़ीमें हिमाला लिखा है. हालके ठाकुर गंभीरसिंह बाघेला राजपूत महीकांठाके इलाक़हमें चौथे दरजेके सर्दार हैं. इनको फ़ौजदारीमें एक वर्ष कैद, और ५०० रुपये तक जुर्माना, और दीवानीमें २५०० रु० तकका दावा सुननेका इस्तिहार है.

पेथापुर- महीकांठाके इलाक़ह और सावर कांठाके ज़िलेमें सावरमती नदीके किनारेपर आबाद है, जिसका रकबा ४ मीलमुरब्बा है; इसमें तीन गांव, और ७००० आदमियोंकी आबादी है. इसकी सालाना आमदनी १५००० रुपयेके करीब है.

कर्णदेवके पुत्र १४ सुहागदेव, इनके १५ सारंगदेव, जिनका बसायाहुआ सारंगपुर प्रयाग (इलाहाबाद) के पास अबतक आबाद है. इनके १६ बिलासदेव थे, जिन्होंने बिलासपुर आबाद किया. इनके १७ भमलदेव, इनके १८ आनकदेव, इनके १९ दलगीरदेव, इनके २० मलगीरदेव, इनके २१ ब्रियारदेव, इनके २२ बुलारदेव, इनके २३ सिंहदेव, जो अपने बेटे २४ भैरवदेवको राज्य सौंपकर गंगा किनारे चलेगये, और वहीं समाधि ली (जिन्दा दफन हुए).

भैरवदेवके पुत्र २५ नरहरदेव, इनके २६ भेददेव, इनके २७ शालिवाहन, जिनके बारेमें कहाजाता है कि यह चित्तौड़के महाराणा लाखाकी बेटीसे पैदा हुए थे; इनके २८ त्रिसिंहदेव, इनके २९ वीरभानुदेव, और दूसरे जयमनभानु हुए. बड़े बेटे वीरभानुदेव गद्दीपर बैठे, और छोटेको मेहड़ और सुहागपुर जागीरमें मिला.

हकीम रहमानअलीखां लिखते हैं कि वीरभानुदेवसे संवत् सहीह मिलते हैं, लेकिन हमारा खयाल है कि शायद इनमें भी ग़लती हो. वह लिखते हैं कि-

वीरभानुदेवका जन्म विक्रमी १५३९ [हि० ८८७ = ई० १४८२] को, राज्याभिषेक विक्रमी १५५८ [हि० ९०७ = ई० १५०१] को और देहान्त विक्रमी १६२१ [हि० ९७२ = ई० १५६४] में हुआ.

यह भी लिखते हैं, कि दिल्लीका हुमायूं बादशाह जब शेरखां अफ़ग़ानसे शिकस्त खाकर भागा, और शेरशाह दिल्लीके तख्तपर बैठगया, तो हुमायूं तकलीफ़की हालतमें भागता फिरता था; उसी वक्तमें हुमायूंकी हमीदा बानू बेगमको वीरभानुदेव ने कुछ असेंतक बांधूगढ़में रखकर हिफ़ाज़तके साथ हुमायूंके पास मारवाड़में पहुंचाया था; और इसी बेगमके गर्भसे अमरकोटमें अकबरका जन्म हुआ, इसी सबब अकबर बादशाह बांधूगढ़के बघेलोंपर ज़ियादत मिहर्बान था. (लेकिन अकबर नामह में इसका कुछ पता नहीं, बल्कि उसकी फ़ौजने बांधूगढ़ छीन लिया लिखा है).

वीरभानुदेवका पुत्र ३० रामदेव विक्रमी १५८५ [हि० ९३४ = ई० १५२८] में जन्मा, जिसका राज्याभिषेक विक्रमी १६२१ [हि० ९७२ = ई० १५६४] में, और देहान्त विक्रमी १६७५ [हि० १०२७ = ई० १६१८] में हुआ. रीवांवाले लिखते हैं कि इन्हीं महाराजा रामदेवको अकबर बादशाहने "भैया" का पद दिया था; और अपनी मा हमीदाबानूकी चाकरीके बदले बादशाह इनसे बहुत खुश रहा; यह भी मशहूर है कि बांधूगढ़के राजाओंने कभी दिल्लीके बादशाहों

को बेटी नहीं दी. इनके ३१ वीरभद्र हुआ, जिसका जन्म विक्रमी १६०४ [हि० १५४४ = ई० १५४७] में, राज्याभिषेक विक्रमी १६५४ [हि० १००६ = ई० १५९७] में, और देहान्त परोधा गांवमें विक्रमी १६७५ [हि० १०२७ = ई० १६१८] में हुआ; इनकी छत्री वहां मौजूद है. इनके विषयमें एक भूतकी (१) कहानी मशहूर है. इनके पुत्र ३२ विक्रमादित्य हुए, इनका जन्म विक्रमी १६२१ [हि० १७२ = ई० १५६४] में, राज्याभिषेक विक्रमी १६७५ [हि० १०२७ = ई० १६१८] में और देहान्त विक्रमी १६८७ [हि० १०४० = ई० १६३०] में हुआ था. इस राजाने विछिया और बेहड़ नदीके संगमपर रीवां शहर बसाकर उसे अपनी राजधानी ठहराया, जहांपर उसकी औलाद अबतक हुकूमत करती है.

विक्रमादित्यके तीन पुत्र हुए, ३३ बड़ा अमरसिंह, दूसरा इन्द्रसिंह, जिसकी औलाद पथरहट, कछीयाटोला और परदाढ़ा वगैरह में मौजूद है; और तीसरा स्वरूपसिंह, जिसकी सन्तान पनालसीमें है. महाराजा अमरसिंहका जन्म विक्रमी १६४१ [हि० १९२ = ई० १५८४] में, राज्याभिषेक विक्रमी १६८७ [हि० १०४० = ई० १६३०] में और परलोकवास विक्रमी १७०० [हि० १०५३ = ई० १६४३] में हुआ. इसके दो पुत्र हुए- ३४ अनूपसिंह और दूसरा फतहसिंह, जिसकी औलादके कब्जेमें सुहावलका ठिकाना है. अनूपसिंहका जन्म विक्रमी १६६० [हि० १०१२ = ई० १६०३] में, राज्यगद्दी विक्रमी १७०० [हि० १०५३ = ई० १६४३] में, और मृत्यु विक्रमी १७१७ [हि० १०७० = ई० १६६०] में हुआ. इनके ३५ भावसिंह, दूसरा वसुमतसिंह, जिसके वंशमें गुढ़ाके जागीरदार हैं; तीसरा जुभारसिंह, इसकी औलादमें रामनगरके हिस्सेदार हैं.

भावसिंहका जन्म विक्रमी १६८१ [हि० १०३३ = ई० १६२४] में, और राज्याभिषेक विक्रमी १७१७ [हि० १०७० = ई० १६६०] में, और मृत्यु विक्रमी १७६१ [हि० १११६ = ई० १७०४] में हुआ. इनको महाराणा राजसिंहकी बेटी अजब-कुंवर वाई व्याही गई थी, जो उनके मरनेपर सती हुई.

(१) वीरभद्रदेवने एक ब्राह्मण (रघुपत दुब्बे) की एक लकड़ी उससे बिना मंगि मंगवाकर किसी मकानमें लगवादी थी, इस बातपर ब्राह्मणने खुद कुशी करली; और मरनेके बाद ब्रह्मराक्षस (भूत) होकर अपने एक मित्र दुलई नाम ब्राह्मणकी मददसे, जो ओरछेके राजापर खुद कुशी करके ब्रह्मराक्षस (भूत) होचुका था, राजाको बहुत तंग किया; राजाने उसके दुःखसे बांधूगढ़ छोड़कर परोधा में रहना तज्वीज किया, परन्तु वहां भी उन भूतोंने पीछा न छोड़ा, यहां तक कि राजाको दली ग्राममें जानसे मारडाला.

भावसिंहके कोई पुत्र नहीं था, इसलिये गिरासियोंमेंसे गढ़ीके जागीरदार वसुमतसिंह के छोटे बेटे ३६ अनिरुद्धसिंहको गोद लिया; जिसका जन्म विक्रमी १७१८ [हि० १०७२ = ई० १६६१] में, राज्याभिषेक विक्रमी १७६१ [हि० १११६ = ई० १७०४] में; और देहान्त विक्रमी १७६६ [हि० ११२१ = ई० १७०९] में (१) हुआ. इसी संवत्में इनके एक पुत्र ३७ अवधूतसिंह पैदा हुआ, जो छः महीनेकी उम्रमें गादीपर विठायगया. इसके लड़कपनके सबब पन्नालाके राजा हरदेईशाह बुंदेलाने मौका पाकर रीवांपर चढ़ाई की, बघेलोंने उसका अच्छा मुकाबला किया, लेकिन् आखिरमें वे हार गये, और उनके सदांर काम आये; जिससे अवधूतसिंहको लेकर उनकी मा अपने पीहर प्रतापगढ़ चली आई; वहांसे वकील भेजकर बादशाह मुहम्मद मुअज़्ज़म बहादुर शाहसे हकीकत अर्ज कराई. बादशाहने अर्जके मुवाफ़िक़ फ़ौज रवाना की, जिसके डरसे बुंदेले लोग रीवां छोड़कर चलेगये, और महाराणी व अवधूतसिंहका दुबारा कब्ज़ा होगया. इनका देहान्त विक्रमी १८१५ [हि० ११७२ = ई० १७५८] में हुआ.

इनके पुत्र ३८ अजीतसिंह विक्रमी १७८८ [हि० ११४४ = ई० १७३१] में जन्मे; विक्रमी १८१५ [हि० ११७२ = ई० १७५८] में राज्यगद्दी पाई; और विक्रमी १८६५ [हि० १२२३ = ई० १८०८] में देहान्त हुआ. इनके वक्तमें शाहज़ादह आली गौहर (शाहआलम सानी) बनारससे रीवां आया; महाराजाने मगवान मक़ामतक पेशवाई की, फिर शाहआलम अपनी गर्भवती बेगम लालवाईको छोड़कर आप बक्सरको चलागया, और महाराजा अजीतसिंहने बेगमको बड़े मान सन्मानके साथ मुकुन्दपुरके क़िलेमें रक्खा, जहांपर विक्रमी १८१७ वैशाख शुक्ल ९ [हि० ११७३ ता० ७ रमज़ान = ई० १७६० ता० २६ एप्रिल] को शाहज़ादह मुहम्मद अकबर सानी पैदा हुआ. जब शाहआलम बक्सरसे लौटकर प्रयागराज (इलाहाबाद) पहुंचा, तब वहां महाराजा अजीतसिंह बेगम व शाहज़ादहको लेकर हाज़िर हुए, जिसपर शाहआलमने खुश होकर महाराजाको इलाक़ह चौखंडी बारह पर्गनों समेत जागीरमें लिख दिया; परन्तु उनमें महाराजाका कब्ज़ा न होने पाया. जब प्रयागतक अंग्रेजोंका राज्य जमगया, तब इन्होंने चौखंडीका दावा पेश किया, जो मंज़ूर नहीं हुआ.

(१) यह रघुनाथसिंह सेंगर ज़मींदारकी बन्दूकसे मरे थे, उसके बाद यह आप राणीके पास चले आये, राणीने सब कुसूर मुआफ़ करके मगवानकी ज़मींदारीके दो हिस्से ज़ुलत करलिये, और एक हिस्सा उनके कब्ज़ेमें रहने दिया.

विक्रमी १८५२ मार्गशीर्ष कृष्ण ९ [हि० १२१० ता० २३ जमादियुल-
अव्वल = ई० १७९५ ता० ६ डिसेम्बर] को बाजीराव पेशवाकी मुसल्मानी
खवासके बेटे शम्शेर बहादुरके बेटे अलीबहादुरकी फौजसे बड़ी भारी
लड़ाई हुई, जिसमें सैकड़ों बघेले सर्दार व अली बहादुरकी फौजका फौजी
अफसर नानक मारागया, और आखिरमें बघेले जीतगये. तीसरी बार विक्रमी
१८५९ [हि० १२१७ = ई० १८०२] में मांडाके राजासे लड़ाई करनी पड़ी.
इन लड़ाइयोंमें बघेले और कर्चलोंने बड़ी दिलेरी दिखाई थी. महाराजा अजीतसिंह
बड़े अय्याश थे, जिससे मुल्क बिल्कुल अन्तर हालतको पहुंचा.

इनके पुत्र ३९ जयसिंहदेव हुए, जिनका जन्म विक्रमी १८२१ [हि० ११७८
= ई० १७६४] में, राज्याभिषेक विक्रमी १८६५ [हि० १२२३ = ई० १८०८]
में, और देहान्त विक्रमी १८९१ [हि० १२५० = ई० १८३४] में हुआ.

इनके राज्यमें विक्रमी १८६९ [हि० १२२७ = ई० १८१२] में पहिला
अहदनामह ११ शतीका अंग्रेजी सरकारसे मारिफत मिस्टर जॉन रिचर्डसन साहिबके
करार पाया, और दूसरा मिस्टर जॉन वाचोप साहिबके जरीएसे विक्रमी १८७०
[हि० १२२८ = ई० १८१३] में दस शतीका हुआ. तीसरा विक्रमी १८७१
[हि० १२२९ = ई० १८१४] में इसी साहिबकी मारिफत लिखागया.

विक्रमी १८६९ [हि० १२२७ = ई० १८१२] में विश्वनाथसिंहको राज्यका
कुल इस्तिथार मिला. इन्होंने भौंदूलालको अपना दीवान बनाया, इस ईमानदार
दीवानने रियासतको सरसब्ज किया.

विक्रमी १८७३ [हि० १२३१ = ई० १८१६] में रामनगरपर
कब्जा करके दलगंजनसिंहको गुजरके लिये कई गावों समेत अटेवा देदिया.

विक्रमी १८७४ [हि० १२३२ = ई० १८१७] में जयसिंहदेवके
दूसरे कुंवर बलभद्रसिंहको अमरपाटनका इलाकह गढ़ी समेत मिला.

विक्रमी १८७८ [हि० १२३६ = ई० १८२१] में खरीता गवमेंण्ट
ईस्ट इण्डिया कम्पनीकी तरफसे इस शर्तका मिला, कि रीवांके इलाकहके
सर्दारोंकी नालिश अपने तौरपर न सुनी जावेगी.

विक्रमी १८८० कार्तिक कृष्ण ४ [हि० १२३९ ता० १८ सफर = ई०
१८२३ ता० २३ सेप्टेम्बर] वृहस्पतिवारके दिन कुंवर विश्वनाथसिंहके पुत्र
रघुराजसिंहका जन्म हुआ. इस खुशीमें महाराज जयसिंहदेवने बहुतसा सामान
और धन इनआम इक्राममें लुटाया. इसी वक्तमें विश्वनाथसिंहकी छोटी बहिन

सुभद्रकुमारीका विवाह महाराणा भीमसिंहके कुंवर जवानसिंहके साथ हुआ.

विक्रमी १८८४ [हि० १२४३ = ई० १८२७] में एक धर्मसभा कायम हुई, जिसका नाम "मिताक्षरा कचहरी" रक्खा गया; इस कचहरीका पहिला हाकिम पांडे रामनाथ हुआ, थोड़े दिन बाद जगन्नाथ शास्त्री मुकर्रर किया गया, जिसने बहुत अच्छा प्रबन्ध किया, यहांतक कि किसीके नालिश करनेपर खुद बाबू विश्वनाथसिंहको मुद्दाअलैहकी तरह समामें बुलाकर इज्हार लिया था.

इसी वर्षमें भौंदूलालका देहान्त हुआ, और उसके बाद उसका बेटा अजोध्याप्रसाद प्रधान बनाया गया, परन्तु दो वर्षके बाद यह भी मर गया; तब दीवानीका काम भौंदूलालके छोटे भाई शिवलालको सौंपा गया.

पहिले महाराजा अजीतसिंहने अपनी खासके बेटे भवानीसिंहको १५० ग्राम जागीरमें देदिये थे. बाबू विश्वनाथसिंहने ७५ गांव जब्त करके ७५ उनके तहतमें रखने बाद चौथ लेना शुरू किया. विक्रमी १८८८ [हि० १२४७ = ई० १८३१] में ऊमरीके इलाकह के १० ग्राम छोड़कर सालाना मालगुजारी के बदलेमें सब जब्त करलिये. विक्रमी १८८९ [हि० १२४८ = ई० १८३२] में ईस्ट इन्डिया कम्पनीकी तरफसे बर्दह फ़रोशी (दास विक्रय) की मनाईका खरीता आया; और विक्रमी १८९० [हि० १२४९ = ई० १८३३] में विश्वनाथसिंहके छोटे भाई लक्ष्मणसिंहकी बेटी ऐश्वर्यकुंवरका विवाह उदयपुरके महाराणा जवानसिंहके साथ हुआ, जो महाराणाके साथ सती हुई.

इसी वर्षमें प्रधान शिवलालके मरनेपर उसका बेटा पांडे रामनाथ दीवान किया गया. इन्हीं दिनोंमें अंगदराय नामी एक आदमी महाराजा जयसिंहदेवका कर्तबी फ़र्जन्द बनकर बांधूगढ़में कब्ज़ा करबैठा. तब महाराजा और बाबू विश्वनाथसिंहने उसे गिरफ़्तार करके देशसे निकाल दिया, और दूसरे क़िछेदारोंको भी सज़ा दी. विक्रमी १८९१ आश्विन शुक्ल १४ [हि० १२५० ता० १३ जमादियुस्सानी = ई० १८३४ ता० १८ अक्टोबर] को प्रयागराजमें (१) महाराजा जयसिंहदेवका देहान्त हुआ. इनका पहिला विवाह मांडाके राजा उद्योत्सिंह गहरवारकी बेटी शंभूकुंवरीके साथ हुआ था, जिसके पेटसे विश्वनाथसिंह, लक्ष्मणसिंह, बलभद्रसिंह, तीन पुत्र और सुभद्रकुंवरी बेटी (जिसका हाल ऊपर लिखआये हैं) पैदा हुई.

(१) धर्मके काइवहसे महाराजा जयसिंहको हुक्मके मुवाफ़िक़ मरनेके वक्त प्रयागसज्र लगेये थे.

४० विश्वनाथसिंहका जन्म विक्रमी १८४६ [हि० १२०३ = ई० १७८९] में, राज्याभिषेक विक्रमी १८९१ फाल्गुन शुक्ल २ [हि० १२५० ता० १ जिल्काद = ई० १८३५ ता० १ मार्च] को, और देहान्त विक्रमी १९११ [हि० १२७० = ई० १८५४] में हुआ. विक्रमी १८९२ [हि० १२५१ = ई० १८३५] में प्रधान रामनाथ मरगया, और उसके छोटे भाई वंशीधर पांडेको दीवान किया. लॉर्ड बेन्टिंकने महाराजा साहिबकी दरखास्तके मूजिब पंडित नवकृष्ण भट्टाचार्य को युवराज बाबू रघुराजसिंहके पढ़ानेके लिये भेजा, जिससे बाबू साहिब अंग्रेजी पढ़े. इन्हीं दिनोंमें वंशीधर प्रधानसे बाबू रघुराजसिंहको मत्लबी लोगोंने नाराज करवाया, और महाराजा साहिबसे भी युवराजको लड़ाकर बखेड़ा उठाना चाहा, जिसका हाल इस तरहपर है-

भगवन्तराय कर्चले रायपुर वालका एक रुक्का ७०००० का रियासती भंडारमें था; जिसके लेनेकी भगवन्तरायने बहुतसी तर्कीरें कीं, परन्तु महाराजाने नहीं दिया; तब कर्चले सदांरने बाबू रघुराजसिंहको बहकाकर महाराजासे सिफारिश करवाई. महाराजा इस बातको टालकर विन्ध्याचल पहाड़की तरफ चलेगये, पीछेसे बाबू साहिबको बहकाकर दीवान वंशीधरसे नाराजगीके साथ वह रुक्का भगवन्तरायको दिलवा दिया. तब दीवानने भगवन्तरायसे कहा कि अपनी जागीरको चला जा; परन्तु वह तो बाबू रघुराजसिंहको अपने काबूमें लाकर कुछ और ही घात सोचता था, इस लिये न गया. यह सब हाल वंशीधरने महाराजाको लिखा; महाराजाने भगवन्तरायको वंशीधरके मन्शाके मुवाफिक अपनी जागीरमें चले जानेको लिखा, तब उसने बाबू साहिबको जियादह बहकाया. उधर महाराजाने विन्ध्याचल से आकर गोंडामें मकाम किया, वहांपर बाबू साहिब मिलने गये, जिनको साथ लेकर जगन्नाथकी यात्राको रवाना हुए. बरखोड़ीके मकामसे बाबू साहिब शिकारका बहाना करके रीवां चले आये, और खजानह दबाकर वंशीधरको कैद करनेका इरादह किया. मत्लबी लोगोंकी बहकावटसे हिमायत करनेकी हालतमें महाराजासे भी मुकाबला करना चाहा, परन्तु प्रधान होशियार था, उसने अपने घर व खजानहका बन्दोबस्त करके महाराजाको खबर दी. इसके सुन्ते ही महाराजा रीवां चले आये, और महन्त गोविन्ददासको खबर देकर बाबू साहिबको मन्दिरमें बुलवाया, और आप भी वहां चले गये; फिर रघुराजसिंहको अपने पास हाथीपर बिठाकर महलोंमें ले आये, और खुदमत्लबी लोगों के गिरोहको बखेर दिया.

४१ महाराजा रघुराजसिंहका विवाह विक्रमी १९०८ बैशाख कृष्ण १२ [हि० १२६७ ता० २६ जमादियुस्सानी = ई० १८५१ ता० २८ एप्रिल] को महाराणा सर्दार-सिंहकी कन्या सौभाग्यकुंवर बाईके साथ हुआ था. इनका जन्म विक्रमी १८८० कार्तिक कृष्ण ४ [हि० १२३९ ता० १८ सफ़र = ई० १८२३ ता० २४ सेप्टेम्बर] को, राज्याभिषेक विक्रमी १९११ [हि० १२७० = ई० १८५४] में और देहान्त विक्रमी १९३६ माघ कृष्ण ९ [हि० १२९७ ता० २३ सफ़र = ई० १८८० ता० ५ फ़ेब्रुअरी] को होनेपर इनके पुत्र ४२ बंकटरमन प्रसादसिंह गद्दीपर बिठाये गये, जो अब विद्यमान हैं, जिनका जन्म विक्रमी १९३३ श्रावण कृष्ण ३ [हि० १२९३ ता० १७ जमादियुस्सानी = ई० १८७६ ता० ११ जुलाई] को हुआ.

हालमें कई मेम्बरोंकी एक कौन्सिल पोलिटिकल एजेण्टकी सलाहसे सब काम अंजाम देती है. जवान होनेपर इनको रियासतके पूरे इस्तिवार मिलेंगे.

इस राज्यका क्षेत्रफल १३००० मीलमुरब्बा, आबादी २०३५००० मनुष्य और आमदनी २५००००० रु० सालाना है. फौजमें कुल ९०० सवार, १२६०० पैदल, ५६ तोप और १०० गोलन्दाज़ हैं. अंग्रेजी इलाक़हमें इस रियासतके राजा को १७ तोपकी सलामी मिलती है.

अहदनामह राज्य रीवां.

नम्बर १२३.

अहदनामह जो सर्कार अंग्रेजी और रीवां व मुकुन्दपुरके राजा जयसिंहदेवके दर्मियान हुआ.

पहिली शर्त- गवर्नर जेनरल कौन्सिलमें राजा जयसिंहदेवको काबिज़ हक्दार हाल मुल्क रीवांका, जो उनके पास है और उनके बुजुर्गोंके कब्जेमें मुद्दतसे और पुश्तहा पुश्तसे चलाआता है, मंजूर करते हैं, और हस्ब दख्वास्त राजाके और राजाकी तसल्लीके लिये भी इन्साफ़के तरीके और सर्कार अंग्रेजीकी नेकनियतीसे इत्मीनान करते हैं, कि जबतक राजा और उनके वारिस व जानशीन खिदमत व वफ़ादारीके तरीकेको हस्ब मन्शा अहदनामहके अदा करेंगे, सर्कार अंग्रेजी हर्गिज़ कोई काम बख़िलाफ़ी या दुश्मनीका राजाके मुक़ाबलेपर नहीं करेगी, और न उनके किसी मुल्की हिस्सहपर कब्ज़ा या किसी तौरसे दस्तअन्दाज़ी करेगी;

बल्कि बरअक्स उसके सर्कार अंग्रेजी वादा करती है कि वह हिफाजत उनके मुल्ककी, जो अब उनके कब्जेमें है, ब मुकाबले जबरदस्ती व जियादती किसी रईस गैरके, उसी तरह करेगी, जिस तरह इलाकह ऑनरेबल् कम्पनीकी हिफाजत होती है-

दूसरी शर्त- सर्कार अंग्रेजीने जो ऊपर लिखी शर्तके मुवाफिक वादा किया है, कि वह हिफाजत मुल्ककी, जो अब राजा रीवांके कब्जेमें है, ब मुकाबले जियादती किसी रईस गैरके करेगी, इसवास्ते यह इक्रार अलग अलग दोनों तरफसे होता है- कि जब कभी राजा रीवांको अन्देशह हम्लाआवरीका किसी गैर रईसकी निस्वत होगा, तो वह कैफियत उसकी सर्कार अंग्रेजीमें खाना करेंगे, और सर्कार हुजत और कोशिश उसके दूर करनेमें करेगी; अगर यह कोशिश उनकी कारआमद न होगी, तो सर्कार अंग्रेजी हस्ब दस्वास्त राजाके अपनी फौज भेजनेको वास्ते हिफाजत मुल्क रीवांके मुस्तइद होगी, इस हालतमें फौजका खर्च उस रोजसे जिस रोज कि वह मुल्क रीवांमें दाखिल होगी, और जिस रोजतक वह वापस मुल्क मजकूरसे बाहर जायगी, राजाको अदा करना होगा, और अगर यह अन्देशह किसी दावे या भगड़े के सबबसे दोनों तरफ राजा और किसी गैर रईसको होगा, तो राजा उसकी कैफियत मुफस्सल सर्कार अंग्रेजीको जाहिर करेंगे, और सर्कार अंग्रेजी दर्मियानमें आकर फैसला उसका करदेगी, और राजा सर्कार अंग्रेजीके इन्साफ करने और सच्चा होनेके एतिबारसे इक्रार करते हैं कि ऐसे मौकेपर जो फैसला सर्कार अंग्रेजी करदेगी, उसको वे मंजूर करेंगे, अगर फैसलेको बावजूद राजाके मंजूर करनेके फरीक सानी दुश्मनीकी कार्रवाईसे बाज न रहेगा, तो सर्कार अंग्रेजी मदद देनेको ऊपर लिखे मुवाफिक तय्यार होगी, और अगर किसी मौकेपर राजाकी फौजकी जरूरत मुल्क अंग्रेजीमें होगी, तो राजा इक्रार करते हैं, कि वह फौजसे मदद देंगे. और इस हालतमें फौजका खर्च बीस रुपये फी सवार और छः रुपये फी पियादह सिपाहीके हिसाबसे, जो राजा देते हैं, सर्कार अंग्रेजी उस तारीखसे देगी, जिस तारीखसे फौज मजकूर इलाकह अंग्रेजीमें दाखिल होगी, और उस तारीखतक देगी, जबतक वह वापस होकर इलाकह अंग्रेजीसे बाहर न जायगी, और जब फौज राजाकी और फौज अंग्रेजी इत्तिफाकके साथ किसी काममें मस्रूफ होगी तो राजाकी फौजका हाकिम मुवाफिक सलाह और हिदायत फौजी अपसर अंग्रेजीके कार्रवाई करेगा.

तीसरी शर्त- जोकि राजा रीवांकी हुकूमत कुल उनके इलाकहमें मन्जूर होचुकी है, इसलिये सर्कार अंग्रेजी अपने तई नालिशें सुन्नेका मुस्तार, जो उसके

रुबरू कोई रिश्तेदार, रिआया या मुलाजिम राजाका पेश करे, खयाल नहीं करेगी, और राजा सरकारसे अपनी हुकूमत काइम करनेको अपने इलाकहके अन्दर फौजी मदद पानेके हकदार नहीं होंगे.

चौथी शर्त- अगर राजा रीवांका कोई दावा या नालिशकी वजह निस्वत किसी राजा या रईस, दोस्त या मातहत सरकार अंग्रेजीके होगी, तो राजा इकार करते हैं, कि वह दावे मजकूरको सरपंची व फैसलेके लिये सरकारके सुपुर्द करेंगे, और जो फैसला सरकार करदेगी, उसको मन्जूर करेंगे, और किसी तरहकी वह खुद जियादती निस्वत फरीक मुकाबिलके न करेंगे, और न बजरीए अपनी फौजके बदला दावेका या एवज नालिशका, जो उनको दाइर करनी है, लेंगे; और सरकारअंग्रेजी अपनी तरफसे वादह करती है कि वह अपने दोस्त और मातहतको मना करेगी, कि वह राजा रीवांपर जियादती न करे, और मुजिमको सजादेगी, और राजा रीवांपर किसीका कुछ दावा वाजबी होगा तो उसका फैसला इन्साफकी रू से सरपंच बनकर करेगी, और राजा वादह करते हैं कि वह उस फैसलेको मन्जूर करेंगे, जो सरकार ऐसे मौकेपर करदेगी.

पांचवीं शर्त- राजा रीवां इकार करते हैं, कि वे अपने मुल्कमें सरकार अंग्रेजीके किसी दुश्मनको या फसाद उठाने वालेको पनाह न देंगे, बल्कि उसके बखिलाफ उन लोगोंको गिरिफ्तार करनेके लिये पूरी कोशिश करेंगे, और अगर वे गिरिफ्तार होजावेंगे, तो उनको सरकार अंग्रेजीके अफसरोंको सौंप देंगे; और राजा यह भी वादह करते हैं कि वे ऐसे लोगोंके बाल बच्चोंको भी अपने मुल्कमें न रहने देंगे, और अगर राजाका कोई दुश्मन, या राजाकी हुकूमतका सर्कश, अंग्रेजी इलाकहमें पनाह लेगा, तो राजासे इतिला पानेपर सरकार अंग्रेजी पूरी २ तहकीकात करनेके बाद उसकी निस्वत वे तरीके जारी रखेगी, जो इन्साफ और बेतरफदारीके मुताबिक होंगे, और यह भी तबीर अमलमें लावेगी कि वे आगेको कोई बुरा काम मुल्क और राजाकी हुकूमतकी निस्वत न करें.

छठी शर्त- जो कि लुटेरे लोग अक्सर राजा रीवांके मुल्कसे जाकर अंग्रेजी इलाकोंमें चोरी वगैरह करते हैं, इसलिये राजा इकार करते हैं कि अगर गवर्मेण्ट अंग्रेजीका कोई अफसर उनके पास इतिलाई तहरीर भेजेगा, तो वे ऐसे मुजिमोंके गिरिफ्तार करनेमें कोशिश करेंगे, और जब गिरिफ्तार होंगे, तो उनको उक्त सरकारी अफसरके सुपुर्द करदेंगे.

सातवीं शर्त- अगर रीवांके राजाका कोई भाई या नौकर गवर्मेण्ट अंग्रेजीके साम्हने राजाकी बुराई करेगा, या उनपर तुहमत या इल्जाम लगावेगा, तो

गवर्मेण्ट बगैर तहकीकात और सुबूतके ऐसे शस्सके बयानका एतिबार न करेगी.

आठवीं शर्त- राजा रीवांकी इज्जत और रुतबे और शानका सर्कार अंग्रेजी वैसा ही लिहाज रखेगी, जैसा कि हिन्दुस्तानके बादशाह रखते थे.

नवीं शर्त- जब कभी सर्कार अंग्रेजी राजा रीवांके मुल्कमें फौजके भेजनेकी जरूरत या उक्त राजाके इलाकहके किसी मकाममें मुल्ककी हिफाजतके लिये अपनी फौजकी छावनी, किसी दुश्मनके हम्ला करनेसे या किसी दुश्मनके रास्ता रोकनेकी जरूरतसे या पिंडारोंकी या दूसरी लुटेरी कौमोंकी वापसीके वक्त, डालना मुनासिब समझे, तो वह ऐसी फौजके भेजनेका इस्तियार रखती है, और रीवांके राजा इस वारेमें रजामन्दी जाहिर करेंगे, और ऐसे मौकेपर गवर्मेण्ट अंग्रेजीके अप्सरोंकी सलाहके मुवाफिक मकाम चन्दिया घाटा, कोरिया और दूसरे घाटोंके लिये, जो अंग्रेजी कमान्डिंग अप्सर बतायेंगे, मुकर्रर करेंगे, जो अंग्रेजी कमान्डिंग अप्सर इस तरह राजाके मुल्कमें रहेगा, वह राजाकी हुकूमतके बन्दोबस्तमें किसी तरह दरुल न देगा. जो कुछ अस्बाब या रसद बगैरह अंग्रेजी छावनी या अंग्रेजी फौजके वास्ते, जबतक कि वह राजाके मुल्कमें रहे दर्कार होगी, फौरन् राजाके अहल्कार और रअग्र्यत मौजूद करदेंगे, और उनकी कीमत बाजारके भावके मुवाफिक अदा होगी; अगर कोई चीज बहुत जरूरी हो, और बाजारमें खरीदनेपर नहीं मिलती हो, तो जरूर होगा कि वह राजाके इलाकहमें जहां मिले वहांसे लीजायगी, और उसकी कीमत मुवाफिक तज्बीज पंचोंके जो सर्कार अंग्रेजी और उक्त राजाकी तरफसे मुकर्रर होंगे, दीजायगी.

दसवीं शर्त- रीवांके राजा, अब सर्कार अंग्रेजीके दोस्तोंमें गिनेगये हैं, इस लिये इक्कार करते हैं, कि जो सलाह और काम मुल्कके फायदों और बिहतरीके मुतअल्लक सर्कार अंग्रेजी कहेगी, उसकी तामील करेंगे, और जहांतक होसकेगा, सर्कार अंग्रेजीकी दोस्ती और एकताके तरीकोंके पूरा करनेमें कोशिश करेंगे.

ग्यारहवीं शर्त- यह अह्दनामह, जिसमें ग्यारह शर्तें दर्ज हैं, आजकी तारीख सर्कार अंग्रेजी और रीवांके राजा जयसिंहदेवके दर्मियान एक तरफ मिस्टर जॉन रिचर्डसन साहिबकी मारिफत राइट ऑनरेबल् लार्ड मिन्टो गवर्नर जनरलके दियेहुए इस्तियारोंसे, और दूसरी तरफ उक्त राजाके वकील बरूशी भगवानदत्तकी मारिफत करार पाया; और मिस्टर रिचर्डसन साहिबने एक नकल इस अह्दनामहकी अंग्रेजी, फ़ार्सी, और हिन्दीमें अपनी मुहर और दस्तखत करके वकील मज़कूरको दी, और उक्त वकीलने मिस्टर रिचर्डसन साहिबको

एक नकल राजाकी तस्दीक कीहुई दी. मिस्टर रिचर्डसन साहिबने वादा किया, कि ३० तीस रोजके अर्सेमें एक नकल कम्पनीकी मुहर और गवर्नर जेनरल इन कौन्सिलके दस्तखत कीहुई मंगादेंगे, उस वक्त यह नकल, जो रिचर्डसन साहिबने अपनी दस्तखती दी है, वापस होगी, और अहदनामह उस वक्तसे जाइज (दुरुस्त) और पूरा समझा जावेगा.

यह अहदनामह दस्तखत और मुहर होकर मकाम बांदा में तारीख ५ माह अक्टोबर सन् १८१२ ई० को आपसमें तकसीम हुआ.

नम्बर १२४.

अहदनामह, जो दर्मियान सरकार अंग्रेजी और राजा जयसिंहदेवके करार पाया.

जोकि तारीख ५ माह अक्टोबर सन् १८१२ ई० मुताबिक आश्विन कृष्ण ९९ संवत् १८६९ को एक अहदनामह आपसकी दोस्ती और एकताका दर्मियान सरकार अंग्रेजी और राजा रीवांके करार पाया था, और चूंकि राजा रीवांने उन शर्तोंके पूरा करनेमें, जो अहदनामह मजकूरके रूसे उनके ऊपर फर्ज थीं, कमी की, इसलिये सरकार अंग्रेजीको लाजिम आया कि अपने हक और इज्जतका बदला ले; इसवास्ते रीवांमें फौज भेजीगई, कि उन शर्तोंकी तामील उनसे करावे; और आगेके वास्ते तामील करनेका इत्मीनान करे. और चूंकि अब राजा होशमें आया, तो समझा कि उसको सरकार अंग्रेजीके निस्बत क्या करना था, गुजश्तहकी मुआफ़ी मांगी, उसने नीचे लिखीहुई शर्तोंको अपनी तरफसे और अपने वारिसों और जानशीनकी तरफसे मन्जूर किया:-

पहिली शर्त- तमाम शर्तें उस अहदनामहकी जो ५ माह अक्टोबर सन् १८१२ ई० मुताबिक आश्विन कृष्ण ९९ संवत् १८६९ को करार पाया था, इस तहरीरके जरीएसे जाइज (दुरुस्त) और तामीलके लायक समझी जावेंगी, जिस कद्र इस अहदनामहकी शर्तोंके रूसे तब्दील न हुई होगी, या घटी बढ़ी न होगी.

दूसरी शर्त- राजा रीवां अहद करते हैं, कि वह मुल्की मुआमलातमें किसी गैर राजा या रईससे गवर्मेंट अंग्रेजी या उनके साहिब एजेण्टकी इत्तिला और रजा-मन्दीके बगैर, जो बुंदेलखण्डमें मुक़ीम हो, खत किताबत नहीं करेंगे.

तीसरी शर्त- राजा वादा करते हैं, कि अपने रहनेके मकाममें एक अख्बार-नवीस या एजेण्टको गवर्मेण्ट अंग्रेजी या बुंदेलखण्डके साहिब एजेण्टकी तरफसे रहनेदेंगे, और एक अपना वकील या मुख्तार साहिब एजेण्ट या अंग्रेजी फौजके कमान्डिंग अफसरके साथ, जो उनके मुल्कमें रहेगा, दोस्तीकी रस्में कायम रखने, रसद पहुंचाने और कमान्डिंग अफसर मजकूरके वाजबी हुकमोंकी तामील करनेके वास्ते रखेंगे.

चौथी शर्त- राजा रीवां इक्कार करते हैं कि वह अपने मुल्कमें सर्कारी डाक, जहां गवर्मेण्ट अंग्रेजीके अफसर जरूरी और मुनासिब समझेंगे, कायम करवादेंगे, और अपने मातहत रईसोंको भी ऐसा ही करने की इजाजत देंगे; अगर कोई ऐसा न करेगा, तो उसको सजा देंगे, और मातहत रईसोंके ऐसे इन्कारकी बाबत राजा मंजूर करते हैं कि गवर्मेण्ट अंग्रेजी उनको राजाका काबू न होनेकी सूरतमें हक सजा देनेका रखेगी.

पांचवीं शर्त- चौरहटके जागीरदार लालजबर्दस्तसिंहने बहुत बुरी तरह और गुस्ताखीसे इन्कार किया, कि ऑनरेबल् कम्पनीकी डाक उसकी जागीरमें कायम न हो, इस सबबसे उसकी निस्वत सख्त सजा जरूर हुई; इसलिये गवर्मेण्ट अंग्रेजीका इरादह है कि उसको सख्त सजा दे. और राजा रीवांने उसका सिर्फ सजा देनेका हक ही मंजूर नहीं किया, बल्कि इक्कार किया, कि वह जागीरदार मजकूरके सजा देनेमें उस (सर्कार अंग्रेजी) को मदद देंगे, और शामिल रहेंगे.

राजा यह भी वादा करते हैं, कि अगर गवर्मेण्ट अंग्रेजीकी सलाह होगी, तो वह खुद लालजबर्दस्तसिंहके सजादेनेकी तज्वीजमें कोशिश करेंगे.

छठी शर्त- अक्सर वार्दात चोरी और दूसरे जुर्मोंकी अंग्रेजी इलाकोंमें हुई हैं, और मुजिमोंने मुल्क रीवांसे निकलकर यह जुर्म किये हैं, और उन्होंने मुल्क रीवांमें पनाह ली है, जिसके सबब वे सिर्फ सजासे ही नहीं बचे रहते, बल्कि हमेशह ऑनरेबल् कम्पनीके पासवाले मुल्कमें लूट मार करते हैं, और सजासे बचेरहते हैं, और बाशिन्दोंको हमेशह डराये रखते हैं; इसका बन्दोबस्त होनेकी नजरसे राजा वादा करते हैं कि वह सर्कार अंग्रेजीकी फौज और उसकी पुलिसके अफसरोंको इजाजत देंगे कि वे मुल्क रीवांमें होकर तलाश करके उनको गिरिफ्तार करें, और खुद भी इस काममें मदद देंगे, और अपने अहल्कारों और जागीरदारोंको हुकम देंगे, कि मदद करके ऐसे मुजिमोंका, जिनकी तलाशमें वे आये हों, पता लगाकर उनको गिरिफ्तार करादें.

सातवीं शर्त- राजा रीवां वादा करते हैं, कि वे उन जागीरदारों वगैरहको, और दूसरे लोगोंको जो उनके मुल्कमें रहते हैं, और जो ऐसे मौकेपर सर्कार अंग्रेजीके खैरस्वाह रहे हैं, अपना दोस्त समझेंगे, और उनसे इस खैरस्वाहीकी बाबत बाज़पुर्स न करेंगे; और सर्कार अंग्रेजीके दोस्त, उनके भी दोस्त, और सर्कारके दुश्मन, उनके भी दुश्मन समझे जावेंगे.

आठवीं शर्त- तारीख २ माह मई सन् १८१३ ई० मुताबिक वैशाख शुक्ल २ संवत् १८७० को एक अहदनामह राजा रीवांकी तरफसे लाला प्रतापसिंह और फौज अंग्रेजीके कमान्डिंग कर्नेल् मार्टिन्डल् साहिबके दर्मियान इस मज्मूनका करार पाया था, कि आइन्दहको कोई हरकत मुखालफतकी दोनों तरफसे न होगी; परन्तु सिपाहियोंके एक गिरोहपर, जो लड़ाईके सामानके छकड़ेके साथ, सिंगरौनाके रास्ते होकर जानेवाली फौजके मुतअल्लक था, तारीख ७ मई सन् १८१३ ई० मुताबिक वैशाख शुक्ल ७ संवत् १८७० को अहदनामहके खिलाफ और फरेबके साथ सवारों और पैदलोंके एक बड़े गिरोहने गांव सतनीके पास हम्ला किया, और अक्सर सिपाहियोंको क़त्ल और ज़ख्मी करके सामान लूट लिया. राजा रीवां इस बातसे बहुत इन्कार करते हैं, और कसम खाकर अपनी ना वाकिफियत जाहिर करते हैं, और अपनी शामिलत और वाकिफ़ीसे पूरा इन्कार करके वादा करते और मन्ज़ूर करते हैं, कि सर्कार अंग्रेजीको इस्तिथार है, कि इस जुर्मके करनेवालोंको, जिस तरह चाहे, और जब मन्ज़ूर हो, सख्त सज़ा देवे; और राजा यह भी वादा करते हैं, कि वह इस कामकी सज़ा देनेमें, जिस तरह और जिस तौरपर, सर्कार अंग्रेजीको मन्ज़ूर होगा, हर तरहकी मदद देंगे, और शरीक रहेंगे.

नवीं शर्त- यह अघ मुनासिब और दुरुस्त मालूम होता है, कि राजा रीवां सर्कार अंग्रेजीको उस फौजके खर्चकी बाबत, जो रीवांमें राजाके अहदनामह के खिलाफ़ कार्रवाई करनेके सबब तय्यार होकर आई थी, बदला और एवज़ देवें, और कमसे कम तख्मीनहसे इस खर्चका ३३८०८ रुपया माहवारी होता है, और सामान इस मुहिमका पहिली एप्रिल सन् १८१३ ई० मुताबिक चैत्र कृष्ण ११ संवत् १८७० से शुरू हुआ था, सो उस तारीखसे हिसाब होना चाहिये. इसलिये राजा रीवां अपनेको इस माहवारी खर्चके अदा करनेका जिम्महवार, जो पहिली एप्रिल सन् १८१३ ई० मुताबिक चैत्र कृष्ण ११ संवत् १८७० से मुहिमके खत्म होने तक हुआ, मन्ज़ूर करते हैं. इस नज़रसे कि राजाने बदला

देनेके हुकमोंकी ताबेदारी करके खुद कर्नेल् मार्टिन्डल् साहिबके मक़ाममें आकर सरकारी फ़र्माबदारी कुबूल की, और इस लिहाज़से कि राजाको मुकर्रर वक्तपर कोई उज़र रुपया मज़कूर अदा करनेमें न हो, सरकार अंग्रेज़ी रज़ामन्दी जाहिर करती है, कि जिस रोजसे उक्त राजा कर्नेल् साहिबके मक़ाममें आये, याने तारीख १० माह मई सन् १८१३ ई० मुताबिक वैशाख शुक्ल १० संवत् १८७० तक, हिसाब खत्म हुआ; इस हिसाबसे राजाको ४५१७३ रुपये देने चाहियें. और राजा मन्जूर करके वादा करते हैं कि ये रुपये नीचे लिखी हुई किस्तोंके मुवाफ़िक जमा करावेंगे, और अगर इसमें फ़र्क होगा, तो उनपर वादा पूरा न करनेका इल्ज़ाम लगेगा-

तारीख ८ जून सन् १८१३ ई० मुताबिक ज्येष्ठ शुक्ल १०	
वि० १८७० को	५००० रुपया.
तारीख १० ऑगस्ट सन् १८१३ ई० मुताबिक श्रावण कृष्ण ११	
वि० १८७० को	१३४०० रुपया.
तारीख ६ डिसेम्बर सन् १८१३ ई० मुताबिक मार्गशीर्ष कृष्ण ११	
वि० १८७० को	१३४०० रुपया.
तारीख २३ जून सन् १८१४ ई० मुताबिक ज्येष्ठ कृष्ण ३	
वि० १८७१ को	१३३७३ रुपया.

मीज़ान- ४५१७३ रुपया.

दसवीं शर्त- यह अह्दनामह, जिसमें दस शर्तें दर्ज हैं, आजकी तारीखको सरकार अंग्रेज़ी और रीवांके राजा जयसिंहदेवके दर्मियान, एक तरफ़ मारिफ़त मिस्टर जॉन वाचोप साहिबके, राइट ऑनरेबल् लॉर्ड मिन्टो, गवर्नर जेनरल इन् कौन्सिलके दियेहुए इख्तियारोंसे, और दूसरी तरफ़ खुद राजाके करार पाकर मिस्टर वाचोप साहिबने राजाको एक नक़ल इस अह्दनामहकी अंग्रेज़ी, फ़ार्सी और हिन्दीमें अपने मुहर और दस्तख़त करके दी, और राजाने मिस्टर वाचोप साहिब को एक नक़ल अपने मुहर और दस्तख़त कीहुई दी; और वाचोप साहिबने वादा किया, कि वह राजाके मोतबर वकीलको तीस दिनके असेमें एक नक़ल गवर्नर जेनरल बहादुरके मुहर और दस्तख़त कीहुई मंगादेंगे, और जब वह नक़ल उनको दीजायगी, तो अह्दनामहकी वह नक़ल, जो साहिबने उनको अपने मुहर और दस्तख़तकी दी है, वापस कीजायगी, और उस वक्तसे अह्दनामह दुरुस्त और तामीलके काबिल समझा जावेगा.

दस्तखत और मुहर होकर उसकी नकलें टोंस नदीके किनारेपर मकाम बदीरामें २ जून सन् १८१३ ई० मुताबिक ज्येष्ठ शुक्ल ४ संवत् १८७० को आपसमें तक्सीम हुई.

उस अह्दनामहकी शर्तोंका ततिम्मह (बाकी हिस्सह) जो दूसरी जून १८१३ ई० मुताबिक ज्येष्ठ शुक्ल ४ संवत् १८७० को दर्मियान ऑनरेबल् ईस्ट इन्डिया कम्पनी और रीवांके राजा जयसिंहदेवके हुआ था.

जो कि तारीख २ जून सन् १८१३ ई० मुताबिक ज्येष्ठ शुक्ल ४ संवत् १८७० को ऑनरेबल् कम्पनी और राजा रीवांके दर्मियान करार पायेहुए अह्दनामहकी तीसरी शर्तके रूसे राजा रीवांने वादा किया है, कि वह एक अख्बार नवीसको सर्कार अंग्रेजीकी तरफसे या बुन्देलखण्डके एजेन्टकी तरफसे अपने दर्बारमें रहनेकी इजाजत देंगे, और जो कि राजाने उक्त अह्दनामहकी चौथी शर्तके मुताबिक यह वादा किया है, कि वह अपने इलाकहमें सर्कारी डाक, जिस तरफ और जहां, अंग्रेजी अप्सरोंकी मर्जी होगी, कायम करेंगे; इस वास्ते राजा उक्त शर्तोंके मन्शाके मुताबिक वादा करते हैं, कि वह सर्कार अंग्रेजी या बुन्देलखण्डके साहिब एजेन्टके अख्बारनवीस या वकीलकी हर तरहसे इज्जत और ताजीम अपनी शानके मुवाफिक करेंगे; और अपने इलाकहमें हर्कारों और कासिदों वगैरहको, जिस वक्त और जिस मौकेपर, अंग्रेजी अप्सर उनको रवाना करना मुनासिब और जरूरी समझेंगे, बगैर रोक टोकके इलाकहमेंसे गुजरने देंगे; और अपने मातहत रईसोंको भी इसी तरहकी कार्रवाई का हुकम देंगे, और उनको हिदायत करदेंगे कि अगर कोई ऐसा न करेगा, तो वह उस सजाके लायक होगा, जो कि डाकके हुकमोंकी हुकम उदूलीके बाबत मुकर्रर कीगई है. और राजा यह भी वादा करते हैं कि वह हर वक्त ऐसे काम करते रहेंगे, जो दोस्तीके लायक होंगे, और जो हमेशह दोनों रियासतोंमें दोस्तीके चाहनेवाले रहें, और वह काम भी, जो उक्त अह्दनामहकी शर्तोंके पूरा करनेके लिये जरूरी हों, अमलमें आयेंगे.

दस्तखत मिन्टो.

दस्तखत-एन. बी. एडमन्स्टन्.

दस्तखत- ए. सेटन्.

मकाम फ़ोर्ट विलिअम् वाकै बंगालामें तारीख २५ जून सन् १८१३ ई० को लिखागया.

दस्तखत जे. मौंकटन्,
फ़ार्सी सेक्रेटरी गवर्मेण्ट.

नम्बर १२५.

चौरहटके जागीरदार लालजबर्दस्तसिंहका
इक्रारनामह.

जो कि मैंने ऑनरेबल् कम्पनीकी डाक अपनी जागीरके इलाकहमें मुक़रर किये जानेकी बाबत बख़िलाफ़ी की थी, इस सबबसे तारीख २ जून सन् १८१३ ई० को सर्कार अंग्रेजी और सर्कार रीवांके दर्मियान करार पाये हुए दूसरे अहदनामहकी पांचवीं शर्तके मुवाफ़िक़ यह शर्त हुई कि सर्कार अंग्रेजीको इस्तिथार है, कि मुझे पूरी पूरी सज़ा देवे; और जो कि अंग्रेजी मक़ाममें, सर्कार अंग्रेजीकी फ़र्माबदारी करनेकी नियतसे, मेरे हाज़िर होनेके सबब, और साहिब पोलिटिकल सुपरिण्टेण्डेन्ट बहादुरकी ख़िदमतमें एक इक्रारनामह दाख़िल करनेके सबब, कि जब कभी सर्कार अंग्रेजीको मन्ज़ूर हो, मेरा इलाकह और क़िला हाज़िर है, सर्कार अंग्रेजीने रहम करके मेरे कुसूरोंको मुआफ़ फ़र्माया, और मुझको अपने इलाकहमें दुबारा इस हुकमसे काइम किया, कि जो दोस्तीके तरीक़े सर्कार अंग्रेजी और सर्कार रीवांके दर्मियान करार पाये हैं, उनके पूरा करनेमें जहांतक होसके कोशिश करूंगा, इस वास्ते मैं इस तहरीरके ज़रीएसे इक्रार करता हूं, कि मैं पिंडारों और दूसरी लुटेरी कौमोंको, जो मेरे इलाकहमेंसे होकर गुज़रेंगी, रोकूंगा, और सब हुकमोंकी तामील बग़ैर तअम्मुलके किया करूंगा, जो अंग्रेजी अफ़सर लुटेरोंके गिरोहका, या डाकका बन्दोबस्त करनेकी बाबत, या छावनी तय्यार करानेका सामान एकट्ठा करने, या अंग्रेजी फ़ौजकी रसद बग़ैरहके, या हर किस्मके हक़ारों, कासिदों और ख़बर पहुंचानेवालोंकी निस्बत, या मुज्जिमोंके गिरिफ़्तार और सुपुर्द करनेके बारेमें हुकम जारी करेंगे; चाहे वे हुकम मेरे नाम या राजा रीवांकी मारिफ़त जारी हों.

दस्तखत जे. वाचोप,
पोलिटिकल सुपरिण्टेण्डेन्ट.
मुतअल्लक़ बुंदेलखण्ड.

नम्बर १२६.

तीसरा अहदनामह, जो सरकार अंग्रेजी और
सरकार रीवांके दर्मियान करार पाया.

जो कि सरकार अंग्रेजी और सरकार रीवांके दर्मियान २ जून सन् १८१३ ई० मुताबिक ज्येष्ठ शुक्ल ४ संवत् १८७० को करार पाये हुए दूसरे अहदनामह की पांचवीं और आठवीं शर्तोंके रूसे सरकार अंग्रेजीको चौरहटके जागीरदार लाल-जबर्दस्तसिंह और जिले सिंगरौनाके दूसरे जमींदारोंको उन बाजे जुर्मोंकी बाबत, जो उनसे सरकार अंग्रेजीके खिलाफ़ हुए हैं, सजा देनेका हक़ हासिल हुआ; और जरूरी नतीजा इस हक़का यह हुआ, कि सरकार अंग्रेजीको उन लोगोंको उनके इलाकोंसे खारिज करने और उनकी जमींदारीके हक़ दूसरे शरूस्को देनेका इस्तिथार हासिल हुआ (उन इलाकोंकी पूरी मिलिकयतके हक़ पहिलेके मुवाफ़िक़ बगैर मुजाहमत सरकार रीवांके रहेंगे); यानी सरकार अंग्रेजीको, उन लोगोंके हक़, जिनके हक़ उक्त अहदनामहकी पांचवीं और आठवीं शर्तोंके रूसे ज़ब्त होने काबिल हैं, छीनकर उन लोगोंको, जिनको वह पसन्द करे, इस शर्तपर देनेका हासिल हुआ है, कि हालके कब्ज़ा रखनेवाले सरकार रीवांकी निस्वत दोस्तीके वे तरीके जारी रखें, जो अब्बलके खारिज किये हुए जमींदार रखते थे; और जो कि सरकार रीवांको अपना पूरा हक़ उन ज़ब्त किये हुए इलाकोंका, ऊपर लिखे हुए शरूसोंपर हासिल है रखें, और यह स्वाहिश सरकार अंग्रेजीकी बगैर खुदगरजीके है, कि उन लोगोंके फ़ाइदहकी तरकी रहे, जिन्होंने अंग्रेजी फ़ौजके साथ, जब कि वह रीवांकी मुहिममें मश्रूफ़ थी, दोस्ती और एकता जाहिर की है; इसलिये नीचे लिखी हुई तज्वीज़ दोनों तरफ़की रज़ामन्दीसे सरकारोंके आरामके वास्ते मन्ज़ूर हुई—

पहिली शर्त— अहदनामों और इकरारनामोंकी तमाम शर्तें, जो अबतक सरकार अंग्रेजी और सरकार रीवांके दर्मियान करार पाई हैं, इस तहरीरके रूसे काइम और बहाल रहेंगी, जहां तक कि उनमें कोई तब्दीली इस अहदनामहकी शर्तोंके रूसे न हुई होगी.

दूसरी शर्त— सरकार अंग्रेजी इस तहरीरके रूसे आजकी तारीखसे जिले सिंगरौनाके तमाम मालिकाना हक़, जो उनको तारीख २ जून सन् १८१३ ई० मुताबिक ज्येष्ठ शुक्ल ४ संवत् १८७० के करार पायेहुए दूसरे अहदनामहकी आठवीं

शर्तकी कार्रवाईके रूसे हासिल हुए हैं, इस अम्रके सिवाय बख्शती है, कि महाराजा रीवां रछपालसिंहको सतनीके इलाकहमें, जो उसके पास पहिले था, दुबारा काइम न करेंगे, और यह भी कि सर्कार रीवां उन लोगोंकी नेक चलनीकी जिम्महदार रहेगी, जो अब ज़ब्त कियेहुए इलाकोंमें काइम होंगे.

तीसरी शर्त- ता० २ जून सन् १८१३ ई० मुताबिक संवत् १८७० ज्येष्ठ शुक्ल ४ के अह्दनामहकी नवीं शर्तके मुताबिक जो जुर्मानह सर्कार रीवांने समेरियाके जागीरदार लालजगमोहनसिंहपर किया था उसका कोई हिस्सह वसूल करनेका बिल्कुल हक इस तहरीरके ज़रीएसे सर्कार रीवां छोड़देती है.

चौथी शर्त- सर्कार अंग्रेजी यह चाहती है कि समेरिया वाला लालजगमोहनसिंह अपनी हालकी जागीरपर बहाल रहे; इस वास्ते सर्कार रीवां इस तहरीरके ज़रीएसे वादा करती है, कि लालजगमोहनसिंह अपने इलाकहमें, जो अब उसके पास है, बगैर मुजाहमतके बहाल और बरकरार रहेगा, परन्तु जो बर्ताव उसकी निस्वत सर्कार रीवांके हैं वे बदस्तूर रहेंगे.

पांचवीं शर्त- दूसरे अह्दनामहकी सातवीं शर्तके रूसे सर्कार रीवांने वादा किया है कि वह किसी जागीरदार या किसी और से, जो रीवांका रहनेवाला होगा, और जिसने सर्कार अंग्रेजीकी खैरख्वाही की होगी, मुजाहिम न होंगे. वे लोग, जिन्होंने आदमियतके तरीकेसे उन अंग्रेजी सिपाहियोंकी रिआयत की है, जो संवत् १८७० के वैशाख महीने में सतनी मक़ामपर ज़रूमी हुए थे, और वे लोग जिन्होंने उन लोगोंकी इत्तिला दी थी, जो इस फ़सादमें शामिल थे, या जो दूसरे रोज़ उस सिपाहीके क़त्ल करनेमें शरीक हुए थे, जो शहर रायपुरकी हिफ़ाज़तके वास्ते मुकर्रर था, उन लोगोंके नज़दीक मुज्जिम समभेगये थे, जो किसी तरह इस फ़सादमें शामिल थे; इस वास्ते सर्कार रीवां इस तहरीरके ज़रीएसे पक्का वादा करती है कि वह उन लोगोंकी हिफ़ाज़त करेंगे, व उनकी निस्वत किसी तरहकी तकलीफ़ या मुजाहमत ज़िक्र कोहुई मददकी बावत, जो सर्कार अंग्रेजीके काममें उन्होंने जाहिर की है, न होने देंगे.

छठी शर्त- चौरहटका जागीरदार लालजबर्दस्तसिंह, जो खुशीसे हाज़िर हुआ, और उसने बगैर शर्तके सर्कार अंग्रेजीकी ताबेदारी मन्ज़ूर की, इस लिये गवर्मेण्ट अंग्रेजीने खुश होकर उसके अगले कुसूर मुआफ़ फ़र्माये, और उसको दुबारा उसके इलाकहपर, जो अगली बद् चलनीके सबब ज़ब्त होगया था, इस शर्तपर

काइम किया कि, वह इक्रारनामह दाखिल करे कि दुबारा कुसूर किसी नाजाइज कामका सर्कार अंग्रेजीके निस्बत न होगा; और इस इक्रारनामहकी तस्दीक की हुई नक़्क़ सर्कार रीवांको दीगई. जो कि इस इक्रारनामहमें कोई बात हकोंके खिलाफ़ दर्ज नहीं है, जो सर्कार अंग्रेजीको रीवांके अहदनामोंके मुताबिक़ हासिल हुई है; इसलिये सर्कार रीवां सर्कार अंग्रेजीसे उसी तरह जिम्महदार होती है कि इस इक्रारनामहकी शर्तें पूरी कीजावेंगी, जिस तरह कि वह करार पाये हुए अहदनामों और अपने मातहतों और दोस्तोंकी निस्बत हुए हैं.

सातवीं शर्त- यह अहदनामह, जिसमें सात शर्तें दर्ज हैं, आजके रोज़ सर्कार अंग्रेजी और सर्कार रीवांके दर्मियान, एक तरफ़ मिस्टर जॉन वाचोप साहिबकी मारिफ़त राइट ऑनरेबल अर्ल ऑव मिंटो, गवर्नर जेनरलके दियेहुए इस्तिथारोंसे, और दूसरी तरफ़ रीवां व मुकुन्दपुरके राजा जयसिंहदेव और उनके बड़े बेटे बाबू विश्वनाथसिंहके जो मुल्क रीवांके इन्तिजाममें उनके शरीक हैं, करार पाया; और मिस्टर वाचोप साहिबने इस अहदनामहकी एक नक़्क़ अंग्रेजी, फ़ार्सी और हिन्दीमें अपनी मुहर और दस्तख़त करके उक्त राजा और बाबूको दी; और राजा व बाबूने एक नक़्क़ अपनी मुहर व दस्तख़तसे मिस्टर वाचोप साहिबको दी; और साहिब मौसूफ़ने वादा किया, कि एक नक़्क़ तस्दीक कीहुई, कम्पनीकी मुहर और गवर्नर जेनरल इन्कौन्सिलके दस्तख़तोंसे, सर्कार रीवांके मुख्तार मोतबरको तीस दिनके अर्सेमें मंगादेंगे, उस नक़्क़के आने बाद मिस्टर वाचोप साहिबकी दीहुई नक़्क़ वापस होगी, और उस रोज़से अहदनामह दुरुस्त और तामीलके लायक़ समझा जावेगा.

इस अहदनामहकी नक़्क़ें दस्तख़त और मुहर होकर तारीख़ ११ मार्च सन् १८१४ ई० मुताबिक़ ५ माह चैत्र सन् १२२१ फ़स्लीको मक़ाम करवाईपर आपसमें तक़सीम हुई.

मुहर

नम्बर १२७.

रीवांकी महाराजा रघुराजसिंहके नाम
गोद लेनेकी सनद.

जनाब मलिका मुअज़्ज़महकी यह स्वाहिश है कि हिन्दुस्तानके अक्सर राजाओं और रईसोंकी हुकूमत, जो अब अपने अपने मुल्कमें राज्य करते हैं, हमेशा रहे, और उनके खान्दानकी शान व शौकत कायम रहे; इसलिये मैं इस तहरीरके जरीएसे उस शहन्शाही स्वाहिशको जाहिर करता हूं, और तुमको दुबारा इत्मीनान देता हूं, जो मैंने एक मर्तबह मक़ाम कानपुरके दरबारमें माह नोवेम्बर सन् १८५९ ई० को दिया था, कि अगर तुम्हारा कोई वारिस अस्ली न होगा, तो जिसको तुम या तुम्हारे बाद तुम्हारे मुल्कके हाकिम खान्दानी रिवाजके मुवाफ़िक़ गोद रखेंगे, वह सरकारको मन्जूर और कुबूल होगा.

इत्मीनान रखो, कि इस वादहमें, जो तुमसे कियाजाता है, कोई फ़र्क़ न आवेगा, उस वक़्तक़ जबतक़ कि तुम्हारा खान्दान बादशाही ताजका नमक हलाल रहेगा, और जबतक़ अहदनामों, बख़्शिशनानामों, और इक्रारनामोंकी तामील, जिनकी रिआयत सरकार अंग्रेज़ी अपने ऊपर फ़र्ज़ समझती है, होगी.

दस्तख़त केनिंग.

ता० ११ मार्च सन् १८६२ ई०

नम्बर १२८.

उस ख़रीतेका तर्जमा, जो महाराजा रीवाने दूसरे पोलिटिकल
असिस्टेण्ट बुंदेलखंडके नाम संवत् १९२० द्वितीय
श्रावण शु० १ को लिखा.

(ता० ३१ जुलाई सन् १८६३ ई० के ख़रीतेकी रसीद लिखकर).

आपके लिखनेके मुताबिक़ ज़रूरी शर्तें इक्रारनामहमें दर्ज कीजाती हैं :-


पहिली शर्त- जो कुछ ज़मीन कि सरकारको रेलके कारख़ानहके वास्ते दर्कार हो,

वह मए पूरे इस्तियारातके हमेशाहके वास्ते दीजाती है.

रेलवेकी हदमें, जो लोग रहते हैं, स्वाह देशी रईसों या सर्कार अंग्रेजकी रिआया होवे रेलवेके अफसरों और सर्कारी हाकिमोंके मातहत समझे जायेंगे.

दूसरी शर्त— रेलवेके अफसरों व मुहाफिजों और रेलवेकी हदके बाहरकी देशी रियासतोंकी रअग्रयतके दर्मियानके भगडोंका फैसला पोलिटिकल अफसर करेंगे.

इस रियासतके मुजिमोंके मुकदमे जो रेलवेकी हदके भीतर चलेजावें, उन काइदोंके मुताबिक़ फैसल कियेजावेंगे, जो कि एजेण्टीके हाकिमोंकी तरफसे मुदतसे जारी हैं.



नम्बर १२९.

महाराजा रीवाने अपने मुख्य प्रधान लालरणदमनसिंहके साथ ता० ३०
जैनुअरी सन् १८७५ ई० को गवर्नर जनरलके एजेण्ट व पोलिटिकल
एजेण्टसे रीवामें मुलाकातके वक्त यह बातें कहीं :-



मेरे ठिकानेका बन्दोबस्त मुझे बहुत दिनोंसे मुश्किल मालूम होता है. सर्कार हिन्दने मेरी अर्जके मुताबिक़ मेरी मददके लिये एक पोलिटिकल एजेण्ट मुकर्रर किया, और दस लाख १००००००० रुपया कर्ज दिया. मैंने खयाल किया था कि पोलिटिकल एजेण्टकी सलाहसे मैं अच्छा प्रबन्ध जारी करने व आमदनी पहिलेके मुताबिक़ करलेनेके लायक़ हूंगा, जो बहुत दिनोंसे घट रही है, लेकिन मेरी उम्मेद के मुताबिक़ नतीजा न हुआ.

वह खिराज जो कि रिआयासे लियाजाता है, मेरे खजानहमें नहीं पहुंचता, इस लिये मुलाजिमोंकी तन्स्वाह चुकाने व दस लाखका कर्ज अदा करनेके बारेमें सर्कारकी शर्तें पूरी करनेके लिये रुपया नहीं है.

पहिली शर्त— श्री मान् वाइसरोंयकी मन्जूरीसे कर्ज अदा होने व अच्छा प्रबन्ध जारी करदियेजाने तकके लिये अपनी रियासत पोलिटिकल एजेण्टकी सुपुर्दगीमें रखनेकी स्वाहिश करता हूं.

दूसरी शर्त— पोलिटिकल एजेण्ट साहिब मेरे खास प्रधान रणदमनसिंहके चाल चलनसे वाकिफ़ और उसके जरीएसे मुझे सब तौर मदद पहुंचानेको राजी हूं.

तीसरी शर्त— जबसे पोलिटिकल एजेण्ट प्रबन्ध अपने हाथमें लेंगे, तबसे मैं हर तौर दखल देनेसे बाज रहूंगा.

चौथी शर्त— रियासती मुआमलातमें कोई हुकम जारी नहीं करूंगा.

पांचवीं शर्त- पोलिटिकल एजेण्टको रियासती अहलकार मुकर्रर और बर्खास्त करनेका इस्तिथार रहेगा, और मैं उनके इस्तिथारको मदद पहुंचानेमें हत्तल-मकदूर कोशिश करूंगा.

छठी शर्त- मुझे आराम और अपने रुतबेके मुताबिक गुजर करलेनेके लायक मुकर्रर वक्तपर खर्च मिलजाया करेगा.

सातवीं शर्त- मैं गोविन्दगढ़, रीवां और सत्तनामें रहूंगा जैसे, कि रहताआया हूं.

दस्तखत- महाराजा बहादुर रघुराजसिंह,
रीवां वाले (जी. सी. एस. आई.).

मकाम महल गोविन्दगढ़ तारीख १ फेब्रुअरी सन् १८७५ ई०




शेषसंग्रह नम्बर १.

(रंगीली ग्रामका ताम्र पत्र.)

श्री रामोजयति

श्री गणेश प्रसादातु

श्री एकलिंग प्रसादातु



सही

महाराजा धिराज महाराणा श्री राजसिंहजी आदेशातु गंधुव मोहण कस्य, ग्राम १ रंगीली भरख तीरली उदक आघाट करे श्री रामाअर्पण कीधी, खड़ लाकड़ गाम टको मया केर छोड़्यो, दुऐ श्री मुख प्रत दुऐ षवासण सुंदर. लीषतं पंचोली राघोदास गोरावत स्वदतां परदतां वाजेहरंति वसुंधरा षष्ट वर्ष सहस्राणि विष्टायां जायते क्रमी संवत १७१३ वरषे जेठ वदी १० सोमे.



शेष संग्रह नम्बर २.

सन्तूके मगरेमें राणा देवली मकामपर यह प्रशस्ति
सांभरके शिकारकी यादगारमें है.

सिध श्री महाराजाधराज महाराणा श्री राजसिंहजी आदेसातु, संवत १७१६
वर्षे वेसाष सुदी १० भोमे सीकार पदारथा था, सो सामरी अठार्थी हात ५० उपर
बेठी थी, सो अठार्थी सर लागो हातरो, सो इणी जायगा थंभ रोप्यो; दीन घड़ी १
चढ़्या पाला उबा थका.

शेष संग्रह नम्बर ३.

एकलिङ्गीकी सड़कके पूर्वी किनारेपर भवाणा ग्रामसे
दक्षिण दिशा वाली बावड़ीपरकी प्रशस्ति.

स्वस्ति श्री मन्महाराजाधिराज महाराणाजी श्री राजसिंहजी गाम पारडारी
सुंदरबावड़ी करावी त्यारे भुवाणा मांह धरती बीगा ७५ पचोतर नागर विसलनगरा
व्यास गोविन्दराम व्यास बलभद्र गोपाल सुतजी संवत् १७१७ श्री रामार्पण
कीधी, वारे मां बावड़ी करावी श्री लालीरी सराय पण करावी राजा श्री जगत्सिंहात्मज
राजसिंहजी.

शेष संग्रह नम्बर ४.

राजसमुद्र तालाबकी प्रशस्ति नौ चौकियां ऊपरकी.

॥ उँनमः ॥ श्रीगणेशायनमः ॥ यशोहेतुंसेतुंसुकृतिकृतिसेतुंजल - - सुबद्धं
यश्चक्रे धरणिधरचक्रेण रुचिरं ॥ रुचा कामः कामं जनकतनया वामनयना सुविश्रामः
कामं कलयतु सरामः कृतजयः ॥ १ ॥ स्मित ज्योत्स्ना लेपोज्वल ललित कण्ठः कच
चय शिखिस्फुर्जल्पद्वेक्षणगलितनागो विभसितः ॥ मुदेचेलादोलांशुगत इति
भूषाप्रतिकृते धृतैर्गौर्याः शम्भुः स्फटिक रुचि देहेऽतिरुचिरः ॥ २ ॥ पुरा
राणेन्द्रस्त्वच्चरणशरणः सेतुविलसत् प्रबन्धं कृत्वाऽब्धिन्नवमिहतडागं रचितवान् ॥
प्रतिष्ठा मस्याद्वा तव विवर राज्ये भगवति प्रभावो निर्विघ्नं सगिरि

वरमात र्जय जय ॥ ३ ॥ वरा भीत्यो दात्रीं पृथुतमकुचां कामवशगां महा
 कालोरःस्थां ससुख मजचक्रीन्द्रविनुतां ॥ प्रसन्नाक्षीं श्यामां स्मितमङ्गमुखीं
 दक्षिणतमां स्तुवन्कालीं विद्यां क्षितिसुतधनानीह लभते ॥ ४ ॥ चतुर्भिः
 कैलास स्फुरितकरिभिर्हैम ससुधै र्घटैः शुण्डोक्षितैः स्मरति सुखसिकां कनक
 भाम् ॥ वराम्भोजद्वन्द्वाभययुतकरां त्वां ऽबुजगतां रमे श्रीमते यो मुखमपि
 समतेभधनवान् ॥ ५ ॥ रुचैन्दव्याभासत्स्फटिक हिम कुन्दाब्ज जयकृ दधाना
 वासो वा मुकुररुचिपद्मासनगता ॥ नवीनावीणाभृद्विधिहरिहरेन्द्रादिकनुता
 सरस्वत्या स्तान्नः सुमतिकृतये जाड्यहतये ॥ ६ ॥ मृदुं वाणीं लज्जां श्रियमपि
 दधानां मणिलस क्किरीटेन्दुद्योतां मणिघटलसत्सव्यचरणाम् ॥ त्रिनेत्रां
 स्मेरास्यां समणिचषकाब्जोद्यतकरां जपा रक्तां भक्ता भजत भुवनेशीं पृथुकु-
 चाम् ॥ ७ ॥ रुचैंगालः खड्गो ललित कमलोद्गीमयमुखः क एष द्रागीदृक्
 लघुकलितशक्ति र्हसकरः ॥ हलांसो हल्लेखी धृतसकलमायोऽनलवधू स्तुतिर्मंत्रं
 जप्त्वा जयति धरणीशो मनु रिव ॥ ८ ॥ कपोलप्रोल्लोलत्कनकविलसत्कुण्डल
 युगां मुखेदुं विभ्राणां कनकविकसच्चंपकरुचिं ॥ गदादीर्णारातिं करगरिपु
 जिब्हां च बगलामुखीं ध्याये द्यस्तद्विमुखमुखसंस्तम्भनविधिम् ॥ ९ ॥ शतायुः
 सिद्धिं वा सदसि बहुबुद्धिं विदधतीं प्रसिद्धिं लोके वा सततमृणवृद्धिं च विगतां ॥
 गुणानामृद्धिं वा सुभगसुतवृद्धिं धनगिरां समृद्धिं भक्तानां सपदि हरसिद्धिं भज
 मनः ॥ १० ॥ शिवे राजन्यानां जयसि समरादौ जयकरी शतायुष्यं राणं कलय
 जयसिंहं सतनयम् ॥ स्थिरं राणाराज्यं जगति रचया चन्द्रतपनं प्रशस्तेः स्थैर्यं
 त्वं मम सुतगिरायुर्धनसुखम् ॥ ११ ॥ चतुर्वारं तेन्तर्जनकलकलालंकृततनुं गिरिं
 श्रुत्वा लोके तव विवरराज्यं तनुमितम् ॥ ध्रुवं निःसन्देहं रचय नृपदेहं मम
 वपुः स्थिरं गेहं स्नेहं तनयमपि तेह त्रिजजनः ॥ १२ ॥ इदं स्तोत्रं
 स्तुत्य म्पठति मनुजो मंगलकरं सुकार्यादौ यस्तद्भवति सफलं विघ्नरहितं ॥
 प्रपूर्णं वातूर्णं जननि रणछोडेन रचितं पठित्वा श्रुत्वादौ जगदखिलमास्तां
 सुखमयम् ॥ १३ ॥ इति भवान्स्तोत्रम् ॥ सरोलंवेस्तंवेरममुखसदं-
 वेक्षितमुखे सुहेरंवेत्वंवेदवति गुणलंवे त्रयिविभो ॥ समालंवे कंवे रितवति
 भृशं वेदित विपत्कदंबेऽ नालंवे सुकविनिकुरंवे कुरुकृपां ॥ १४ ॥ नद्यः
 क्षुद्राः समुद्राः सलवणसलिलं कूपवाप्योथ भद्रा दारिद्र्यं वीक्ष्यवारां किल-
 सुरसरितो वारिग्रह्णाति लग्नं ॥ शैवालंकेशपंक्तिं शिरसिचशकुलं चंद्रकं
 रत्नसेतोः सिंदूरं बालुकौघं दधदिति गुणिभिः पातुगीतो गणेशः ॥ १५ ॥

कर्णो शूर्पद्वयंवा प्यलिवलयमिषा च्चालनीदंतदर्वी चद्ररौप्यं कटाहं विधुकर
 निकरं पिष्टकं स्निग्धकुंभौ ॥ दानंमिष्टं जलं यत्पवतिदधदलं धूमकेतुंच सर्वैर्लड
 कालिं तदुक्तो ह्यसुरसुरनरालंबलंबोदरोव्यात् ॥ १६ ॥ शुंडादंडं प्रचंडं मदल
 सदसितं रंध्रवद्वन्दिशस्त्रं विभ्राणो धूमकेतुं मधुकरगुटिकादंतमुहंडदंडं ॥
 तन्नूनं वन्दिशस्त्रीदितिजहतिकृते स्थापितं शंभुनासौ भ्रांत्या लोकैर्गजास्यः
 कथित इति मुदे श्रीगणेशः सुवेषः ॥ १७ ॥ पूज्यो भूद्वक्रतुंडः सुरदितिजनरैः
 सर्वकार्येषु कस्मात्तन्मन्येक्रीडनेयं जलनिधि मधिकं शुंडया पीतवान्वै ॥ लंकास्थं
 द्वारकास्थाऽ सुरसुरमनुजाहींद्रलक्ष्मीस्वयंभूविशुस्तोत्रैस्तु मुंचन्सकल मिदमतः
 सर्वबंधो मुदेसः ॥ १८ ॥ प्रातर्भानुं रसालोत्तमफलततितो निर्मलो घत्सिता-
 भिर्भ्राजल्लडूकबुद्ध्या निशि मधुरविधुं चंडया शुंडयायत् ॥ धृत्वास्वास्ये
 दधेतद्ग्रहण मिति जनैः स्नायिभिः श्रांतमस्मात् पार्वत्या मोचितौतौ सहसित
 मवतात्क्लेशहर्ता गणेशः ॥ १९ ॥ भ्रातः किंवाहनस्य प्रगटयसि नवा लालनं
 स्कंदवाक्या देवंप्रोहंडशुंडामुखकलितमहामूषकस्पर्शलेशः ॥ भोक्तुं भोगी
 किमित्थं द्रवति कृतमतौ मूषके स्मादकस्मा त्स्कंधात्तस्य स्वलन्तस्वलितमति
 वचश्चारुदद्याद्गणेशः ॥ २० ॥ सत्कुंभौ दुंदुभीद्वौ भुजगसुखकरं वाद्यमुहंड
 शुंडा तालौवा कर्णतालौ त्रिपुरहरमहातांडवाडंबरेयत् ॥ चंडाद्या वादयंति
 द्विपवदनविभो रेपतुष्टो विशिष्ट स्वाविष्टंसाष्टनृत्यं प्रविदधदधिकं पातुमामिष्टशिष्टं
 ॥ २१ ॥ श्रीवक्रतुंडस्तवएषतुंडस्थितः सतां मंडितसूक्तिकुंडः ॥ उहंडवेतंड
 घटाप्रचंडं विद्यामणीकुंडलदः सदास्यात् ॥ २२ ॥ इति गणेशस्तोत्रं ॥
 स्वनामस्त्रजंगायतः स्त्रस्त्ररोगानजस्त्रं जनान्दस्त्रवद्वै वितन्वन् ॥ जय-
 न्त्रस्त्रपान्भूषयन् घस्त्रमुच्चैः सहस्त्रद्युतिस्तं मुदेस्ता दुदुस्तः ॥ २३ ॥ सत्पीतं
 चामरं किंकलयति तपनो धार्यमाणं दिगीशैः सूताभावाह भाभिः कृतपटघट
 नायापि सूचीसहस्त्रं ॥ वेहुंतद्वातदंतावलसवलवलं स्वर्णबाणव्रजंवा तर्क्यते
 तर्क्यलोकै रितिरविकिरणा येत्रते पुत्रदाःस्युः ॥ २४ ॥ जातेयस्योदये
 सावुदयगिरिवरः सूर्यवाहारुणाभा रूपैः शुद्धैर्हिरण्यैर्मरकतमणिभिः पद्मरागैः
 कृतद्राक् ॥ शृंगस्तोमेसमस्ते रचयति निचयं भूषणानांयथेच्छं यादृग्यत्रोपयुक्तं
 सभवतु भगवान् भूतये भानुमाली ॥ २५ ॥ प्राच्यां मूर्द्धनाधृतोसौ मरकतकनको
 द्वासितोत्तंसउच्चैर्वृत्तोद्यत्स्वर्णपत्रं हरिदरुणपटं छत्रकं मूर्द्धिनमेरोः ॥ वर्षाशं
 स्यद्भुतंवा हरिधनुरधुना कुंडलीभूत मित्थं सूतस्वाश्वप्रभाभृत्सुमुनिभिरुदितं
 मंडलं पातुपूष्णः ॥ २६ ॥ मुक्तागुच्छं विवस्वद्वपुररुणमणिं विद्रुमं सूतरूपं

छत्रं सत्पुष्परागं हरिहरितमणीन्दीर्घवैदूर्यदंडान् ॥ विभ्रद्वजस्य चक्रं
 लसितमणिधुरं धन्यगो मंदमंचं श्रीभानोस्यंदनस्ते मनसि खलुधृतो हंतुसर्व
 ग्रहार्ति ॥ २७ ॥ विश्रामच्छन्ननाये लघु गमनकरा मूर्द्धनिमेरो दर्धुनद्याः
 कल्लोलोल्लासितेस्मि न्मयुवरयुवतीसंचये चंचलाक्षाः ॥ हेपासंकेतशब्दैर्विदधति
 भृशमासक्ति मन्हां गुरुत्वं ग्रीष्मे कुर्वतियुक्तं हरिहरय इतस्ते श्रियंतेदिशंतु ॥ २८ ॥
 चक्राग्रं शक्रसम्यक्धुरियमसमतामक्षमाधेहि रक्षस्त्ववीतीन्वीतिहोत्रा रुणमिह
 वरुण स्थापयत्वं रथेशं ॥ वायोवा ऽऽ योजयत्वं रथमथ धनदाराधनत्वं हरीणां
 शंभोत्वं भोप्रियंमे वदति तदरुणो दिक्पती न्शास्ति सोव्यात् ॥ २९ ॥ आश्लेषे
 पश्चिमाशा कुचयुग विलसत्कुंकुमा लेपसक्तः ॥ किंवावालैः प्रवालैर्जलनिधि
 जठरे स्पर्शनैर्घर्षणैश्च ॥ प्रेम्णा चच्छादितः किं हरिहरिदवला पाणिना सत्कु-
 सुंभा रक्ते नैवां बरेणा - - - - - ॥ ३० ॥

॥ श्रीगणेशायनमः ॥ मुनिनृपमनुजेभ्यो दर्शनं संप्रदातुं परमकरुणयैवा
 गत्य कैलासशैलात् ॥ तटभुवि कुटिलाया एकलिङ्गस्त्रिकूटे स्थितइह विवरेद्वौ
 राजसिंहेशमव्यात् ॥ १ ॥ तुहिन किरणहीरक्षीरकर्पूरगौरं वपुरपि जलदामं
 कालिकापांगवल्याः ॥ प्रतिकृति घटनाभिर्विभ्रदध्नांतभक्तः कलयतु तव राजन्
 मंगला न्येकलिङ्गः ॥ २ ॥ चतुर्मितपुमर्थसद्वितरणाय सद्भ्यः सदा चतुर्भुजधरो
 मुदा किल चतुर्युगोद्यद्यशाः ॥ चतुर्भुज हरिश्चिरं निज चतुर्भुजाभिः शुभं चतुः
 श्रुति समीरितं दिशतु राजसिंह प्रभो ॥ ३ ॥ जगदखिलजनानां पालना
 दस्तिया वा निगमवचसि या वालांबिकांबाकिलोक्ता ॥ सुखयतु सहितंत्वां पुत्र
 पौत्रप्रपौत्रै रवतु तवतुगोत्रं सांबिका राजसिंह ॥ ४ ॥ ऐंदिरं विभवं दद्यात्
 शौंहींतांत्रे दधत्पदं ॥ बुधेप्रसन्नासौः स्फूर्जद्बालाभूप्रवालभाः ॥ ५ ॥
 दधदतुलकरेद्राड्मोदकं यस्यभक्तः कलयति सफलार्थं मोदकं राजसिंह ॥
 नृपवर सतुविघ्नं विघ्नराजो विनिघ्नन् रचयतु तनयस्ते मंगलं मंगलायाः ॥ ६ ॥
 प्रथमनृपमनौ यः सिद्धिदाता विवस्वानपरमनुमिवत्वां वीक्ष्य सिद्धिं प्रदातुं ॥
 दशशतकरयुक्तो युक्तमेवेत्यहोत्वा मवतु सतु नितान्तं भूपते राजसिंह ॥ ७ ॥
 धीरः कविः स्फुट पुराण वरो नुशास्ता धाता स्फुरद्गुणगणस्य तमः सपत्नः ॥
 आदित्य वर्ण इहमां मधुसूदनो व्यात् कार्येति दुस्तरतरे प्रविशंतमद्वा ॥ ८ ॥ इति
 मंगलाष्टकं ॥ यस्या सीन्मधुसूदनस्तु जनको जातः कठोण्डीकुले तैलंगः कविपंडितः
 सुजननी वेणी च गोस्वामिजा ॥ कुर्वे राजसमुद्रनामकजलाधारप्रशस्ति

त्वहं सोदर्यं रणछोड़ एष भरथाद्यंलक्ष्मणं शिक्षयत् ॥ ९ ॥ पूर्णे सप्तदशे
 शते समतनो त्वष्टादशास्ये व्दके माघे श्यामलपक्षके नरपतिः सत्सप्तमी
 वासरे ॥ घोघुंदावसति जलाशयमहारंभं च तस्याज्ञया प्रारंभं रणछोड़
 एष कृतवां स्तस्य प्रशस्ते स्तथा ॥ १० ॥ वर्यं त्ववर्यं मपि वे तिनवालकोवा
 दृष्टार्थसंकथक एव गलद्भयश्च ॥ सोहं तथैव गुणवृद्धसभोपविष्टः किंचिद्-
 दामि ममधार्ष्टमिदं क्षमध्वं ॥ ११ ॥ जिह्वासु सत्फाणिपति लिखनेषु कार्त
 वीर्यार्जुनो वचसि वाक्यति रेव वाहं ॥ ज्ञातुंगुणां स्तव तदा निपुणो भवामि
 कांश्चित्ततो नृप वदाम्यतिसाहसेन ॥ १२ ॥ पुण्या जनार्दनहरेस्तु कथास्ति
 पुण्यश्लोकस्य वा नलनृपस्य युधिष्ठिरस्य ॥ तादृक्कथा जयति वाष्पनृपस्य
 वक्ष्ये श्रीराजसिंहनृपते रपि सत्कथा तत् ॥ १३ ॥ रामायणे भारते ऽस्ति
 प्रोक्तानां भूभुजां यशः ॥ यथा राज्ञामिहोक्तानां स्या तथा ऽऽ चन्द्रतारकम्
 ॥ १४ ॥ खण्डप्रशस्ति भुवने रामचन्द्रस्य शोभते ॥ श्री अखण्डप्रशस्ति स्ते
 राजसिंह विराजते ॥ १५ ॥ मर्त्यायुष्यै स्तुल्यमायु स्तु भाषाग्रन्थानां
 स्याद्देववाक्भारतादेः ॥ देवायुष्यै स्तुल्यमायु स्ततो ऽहं ग्रन्थं कुर्वे राणगीर्वाण
 वाण्या ॥ १६ ॥ व्यासवाल्मीकिवद्बन्धो वाणश्रीहर्षवन्नृपैः ॥ सत्संस्कृतं
 कवीराज्ञां यशोगस्थापक श्विरम् ॥ १७ ॥ श्री राणाराजसिंहस्य
 वर्णनं कर्तुमुद्यतः ॥ भूपान्वाप्पा दिकान् वक्तुं वक्ष्ये ऽहं मुनिसम्मतिम्
 ॥ १८ ॥ वक्ष्येवायुपुराणस्य मेदपाटीयखण्डके ॥ पष्ठेध्यायैत्वेकलिंगमहात्म्ये
 वाक्यमीरितं ॥ १९ ॥ अथ शैलात्मजा ब्रह्मन् शोकव्याकुललोचना ॥
 नंदिनं प्रथमं वाष्पंसृजंतीतमुवाचह ॥ २० ॥ यस्माद्वाष्पंसृजाम्यद्य वियो
 गाच्छंकरस्य च ॥ पूर्वदत्ताच्चमच्छापा द्वाप्पोराजा भविष्यसि ॥ २१ ॥ आराध्य तं
 जगन्नाथं तीर्थे नागह्रदे शुभे ॥ राज्यं शक्रइव प्राप्य पुनः स्वर्ग
 मवाप्स्यसि ॥ २२ ॥ पुनश्चंडगणं प्राह पार्वती व्याकुलेक्षणा ॥ मर्यादां
 हतवानद्य द्वाररक्षे ऽप्यरक्षणात् ॥ २३ ॥ हारीत इति नाम्नात्वं मेदपाटे
 मुनिर्भव ॥ तत्रा राध्य शिवंदेवं ततः स्वर्गं मवाप्स्यसि ॥ २४ ॥ इतिवायु
 पुराणस्य समतिस्तत्रविस्तरः ॥ द्रष्टव्या वाष्पवंशे स्मिन् कार्यः शिष्टैस्तदा
 दरः ॥ २५ ॥ नमेविज्ञानतरणी राजसिंहगुणांबुधेः ॥ पाराप्स्यै वक्रमुडुप
 मस्याज्ञा करमाश्रये ॥ २६ ॥ सालंकारमणिः सूक्तिमौक्तिकः सद्रसामृतः ॥
 राजप्रशस्तिग्रंथोस्ति समुद्रोन्यसुवर्णभूः ॥ २७ ॥ सेतिहासो भारत
 वत्प्रोक्तः सूर्यान्वयः समः ॥ रामायणेन पठनाद्रंथ स्तादृक् फलाय नः ॥ २८ ॥
 श्रीराणा राजसिंहस्य महावीरस्य वर्णने ॥ वाष्पःसूर्यान्वयीसर्गे सूर्यवंशं

बदे प्रिये ॥ २९ ॥ आसी झास्करतस्तु माधवबुधो स्माद्रामचंद्र स्ततः
सत्सर्वेश्वरकः कठोडिकुलजो लक्ष्म्यादिनाथ स्सुतः ॥ तैलंगोस्यतु रामचंद्र
इतिवा कृष्णोस्य सन्माधवः पुत्रोभून्मधुसूदन स्वय इमे ब्रह्मेशविश्व
पमाः ॥ ३० ॥ यस्यासी न्मधुसूदनस्तु जनको वेणीच गोस्वामिजा मातावा
रणछोड़ एष कृतवान् राजप्रशस्त्या व्हयं ॥ काव्यं सान्वय राजसिंह नृपति
श्रीवर्णनाढ्यं महद्वीराकं प्रथमोत्र पूर्ति मगम त्सर्गोथ वर्गोत्तमः ॥ ३१ ॥
इति श्रीमधुसूदनभट्टपुत्ररणछोड़कृते श्री राजप्रशस्तिमहाकाव्ये प्रथमः
सर्गः ॥

श्रीगणेशायनमः ॥ गुंजापुंजाभरणनिचयं चंद्रकालीकिरीटं गोत्रं वेत्रं
करकमलयोः पूजितं चित्रवस्त्रं ॥ मध्ये पीतं वसन मपरं किंकिणीं वक्रवेणीं नासा-
मुक्तां दधदतिमुदे तेस्तु गोवर्द्धनेंद्रः ॥ १ ॥ आदौ जलमयं विश्वंतत्र नारायण-
स्थितः ॥ हिरण्यहारीतन्नाभौ पद्मकोष इहाभवत् ॥ २ ॥ ब्रह्मा चतुर्मुखस्तस्य
मरीचिः कश्यपोस्यतु ॥ सुतोविवस्वां स्तस्यासी न्मनुरिक्ष्वाकु रस्यसः ॥ ३ ॥
विकुक्षिः सशशादा न्यनामा तस्य पुरंजयः ॥ ककुत्स्था परनामाय मस्याने
नास्ततः पृथुः ॥ ४ ॥ ततोभूद्विश्वरंधिस्तु ततश्चंद्र स्ततोभवत् ॥ युवना-
श्वोस्य शावस्तो वृहदश्वोस्य चात्मजः ॥ ५ ॥ ततः कुवल्याश्वोभूद्बुधुमारा
पराभिधः ॥ दृढाश्वो स्यास्य हर्यश्वो निकुंभ स्तस्यवाततः ॥ ६ ॥ वर्हणाश्वः
कृशाश्वोस्य सेनजित्तस्यवाततः ॥ युवनाश्वोस्य मांधाता तस्यदस्युपराभिधः ॥ ७ ॥
चक्रवर्त्यस्यतनयः पुरुकुत्सोस्यवासुतः ॥ त्रसदस्युर्द्वितीयो स्मादनरण्यस्ततो
भवत् ॥ ८ ॥ हर्यश्वो स्यारुणस्तस्य त्रिबंधन नृपस्ततः ॥ सत्यव्रत त्रिशंकुस्तु
तस्यनामांतरं ततः ॥ ९ ॥ हरिश्चन्द्रो रोहितोस्य तस्य वा हरितस्ततः ॥ चंपस्तस्य
सुदेवोस्मा द्विजयो भरुकोस्यवा ॥ १० ॥ तस्माद्दृको बाहुकोस्य तत्पुत्रः सगरः सच ॥
चक्रवर्ती सुमत्यांतु पत्न्यांतस्या भवन्सुताः ॥ ११ ॥ श्रेष्ठाः पष्टि सहस्रोद्य त्संख्याः
सागरकारकाः ॥ सगरस्यान्य पत्न्यांतु केशिन्या मसमंजसाः ॥ १२ ॥ ततोशुमा
न्दिलीपोस्मा त्रमाजातो भगीरथः ॥ ततः श्रुतस्ततोनाभः सिंधुद्वीपोस्य तत्सुतः
॥ १३ ॥ अयुतायु स्तस्य जात ऋतुपर्णस्तु तत्सुतः ॥ सर्वकाम सुदासोद्य तस्मान्मित्र
सहन्मतिः ॥ १४ ॥ पादपंत्या सकल्माष पादान्याख्यो स्य चाश्मकः ॥
मूलकोस्मा दशरथ स्ततण्डविडस्ततः ॥ १५ ॥ जातोविश्वसह स्तस्मा त्खट्वांग
श्चक्रवर्त्यतः ॥ दीर्घबाहु दिलीपोस्य रघुरस्याज इत्यतः ॥ १६ ॥ जातो दशरथ-
स्तस्य कौशल्यायां सुतो भवत् ॥ श्रीरामचन्द्रः कैकेय्यां भरतो रामभक्तिमान्
॥ १७ ॥ सुमित्रायां लक्ष्मणश्च शत्रुघ्नश्चेति नामतः ॥ श्रीसीतायां कुशो जातो

लवभ्येति कुशादभूत् ॥ १८ ॥ कुमुद्वत्यामतिथिको निषधोस्य ततो नलः ॥ नभोथ
 पुण्डरीकोस्य क्षेमधन्वा ततो भवत् ॥ १९ ॥ देवानीक स्ततो हीनः
 पारियात्रोस्य तत्सुतः ॥ बल स्तस्य स्थल स्तस्मा द्वजनाभ स्ततो भवत्
 ॥ २० ॥ सगण स्तस्य विधृतिः पुत्र स्तस्य सुतो भवत् ॥ हिरण्यनाभः पुष्यो
 स्माद् ध्रुवसिद्धि स्ततो भवत् ॥ २१ ॥ सुदर्शनो स्याग्निवर्ण स्तस्य शीघ्र
 स्ततो मरुत् ॥ ततः प्रसुश्रुत स्तस्मात् संधि स्तस्यतु मर्षणः ॥ २२ ॥ ततो
 महस्वां तस्या भू द्विश्वसाहः प्रसेनजित् ॥ तत स्तत स्तक्षकोस्माद् वृह
 द्बल इति त्वयम् ॥ २३ ॥ महाभारतसंग्रामे निहतस्त्वभिमन्युना ॥ एतेत्वतीता
 व्यासेनसंप्रोक्ता भारते नृपाः ॥ २४ ॥ अनागतान्जगादैवं व्यासस्तत्र
 वदामि तान् ॥ वृहद्वला बृहद्रण स्तस्यो रुक्रिय इत्यतः ॥ २५ ॥ वत्सवृद्धः
 प्रति व्योम स्तस्या स्माद्भानुरस्यवा ॥ दिव्यकस्तस्य पदवी वाहिनी
 पतिरित्यभूत् ॥ २६ ॥ तस्यासीत् सहदेवोस्य वृहदश्व स्ततोभवत् ॥ भानुमान्
 वाप्रतीकाश्वोस्य तस्मात्सु प्रतिकिकः ॥ २७ ॥ ततोभून्मरुदेवोस्मात्सु नक्षत्रोस्य
 पुष्करः ॥ ततो तरिक्षः सुतपास्तस्मान्मित्रजिदस्यतु ॥ २८ ॥ वृहद्वाजस्ततो
 बर्हिस्तस्मात्तस्य कृतंजयः ॥ तस्माद्रणंजयस्तस्य संजयः शाक्यइत्यतः ॥ २९ ॥
 शुद्धोदोस्माच्छांगलोस्य प्रसेनजिदथतत्वतः ॥ क्षुद्रकस्तस्य रुणकस्तस्या सीत्
 सुरथस्ततः ॥ ३० ॥ सुमित्रस्तु सुमित्रांत इक्ष्वाको रन्वयो भवत् ॥ उक्ता
 भागवते स्कंधे नवमे ते मयोदिताः ॥ ३१ ॥ द्वाविंशत्यग्रशतक मेषां संख्या
 कृतावदे ॥ प्रसिद्धा त्सूर्यवंशस्था द्वजनाभो भवत्ततः ॥ ३२ ॥ महारथीति
 राजेंद्र स्तस्मादतिरथीनृपः ॥ तस्मादचलसेनस्तु सेनास्यत्वचलारणे ॥ ३३ ॥
 तस्मात्कनकसेनोस्य नहसीनोंगरत्यतः ॥ तस्माद्विजयसेनोस्या जयसेन
 स्ततोभवत् ॥ ३४ ॥ अभंगसेनस्तस्मात्सु मद्रसेनस्ततोऽ भवत् ॥ भूपः सिंहस्थस्वेते
 अयोध्या वासिनो नृपाः ॥ ३५ ॥ तस्माद्विजय भूपोयं मुक्त्वाऽयोध्यांरणागतान् ॥
 जित्वानृपान्दक्षिणस्था नवसदक्षिणक्षितौ ॥ ३६ ॥ तत्रास्याकाशवाण्यासी
 न्मुक्त्वा राजाभिधामथ ॥ आदित्यारव्यातुधर्तव्या भवताभवदन्वये ॥ ३७ ॥
 जाताविजयभूपांता राजानोमनुपूर्वकाः ॥ वीराः संख्येरितातेषां पंचत्रिंशद्युतंशतं ॥
 ३८ ॥ आसीदित्यादि ॥ द्वितीयः सर्गः संवत् १७१८ वर्षे माघ मासे कृष्णपक्षे
 सप्तम्यां तिथौ राजसमुद्र मुहूर्त राणे राजसिंहजी किधो ॥ संवत् १७३२ वर्षे
 माघ मासे शुक्लपक्षे १५ तिथौ राजसमुद्र प्रतिष्ठा कीधी गजधर मुकुंद,
 गजधर कल्याण ॥

श्रीगणेशायनमः ॥ उल्लोलीभवदुन्नताच्छसुरभी पुच्छच्छटा चामरः ॥

सद्गोवर्द्धन धन्यगोत्र विलसच्छत्रोजितेंद्रोबली ॥ गोपालैः कलितश्वगोपतनया
सक्तोनिजप्रेमवा न्यायाद्गोधन भक्त रक्षणपरः सच्चक्रवर्ती हरिः ॥ १ ॥
ततोविजयभूपस्य पद्मादित्यो भवत् सुतः ॥ शिवादित्योस्यपुत्रोभूद्धरदत्तोस्यवा
सुतः ॥ २ ॥ सुजसादित्यनामा स्मात् सुमुखादित्यकस्ततः ॥ सोमदत्तस्तस्य
पुत्रः शिलादित्योस्य चात्मजः ॥ ३ ॥ केशवादित्य एतस्मा न्नागादित्योस्य चात्मजः
॥ भोगादित्योस्य पुत्रोभू द्वेवादित्यस्ततो भवत् ॥ ४ ॥ आशादित्यः कालभोजा
दित्यो स्मात्तनयोस्य तु ॥ ग्रहादित्य इहादित्याश्चतुर्दश मितास्ततः ॥ ५ ॥ ग्रहा
दित्यसुताः सर्वे गहिलोताभिधायुताः ॥ जाता युक्तं तेषु पुत्रो ज्येष्ठो वाष्पाभिधो
भवत् ॥ ६ ॥ यं दृष्ट्वा नंदिनं गौरी दृशो र्वाष्पं पुरा ऽ सृजत् ॥ नंदीगणो सौ वाष्पोरि
प्रियादृक् वाष्पदो ऽ भवत् ॥ ७ ॥ हारीतराशिः सुमुनि श्रंडः शंभो र्गणो भवत् ॥
तस्यशिष्यो भवद्वाष्पस्तस्याज्ञातः प्रसादतः ॥ ८ ॥ नागहृदे पुरे तिष्ठन्नेकलिंगशिव
प्रभोः ॥ चक्रे वाष्पो ऽ र्चनं चास्मै वरान्बुद्धो ददौ ततः ॥ ९ ॥ चित्रकूटपतिस्त्वं स्यास्व
द्वंश्यचरणा ध्रुवं ॥ मागच्छताच्चित्रकूटः संततिः स्यादखंडिता ॥ १० ॥ प्राप्येत्यादि
वरान्वाष्प एकस्मिन् शतके गते ॥ एकाग्रनवतिस्वब्दे माघे पक्षे वलक्षके ॥ ११ ॥
सप्तमीदिवसे वाष्पः सपंचदशवत्सरः ॥ एकलिंगेशहारीतप्रसादाद्वाग्यवान्भूत् ॥
१२ ॥ नागहृदास्थे नगरे विराजी नरेश्वरः खड्गधरेषु धन्यः ॥ बलेन देहेन च
भोजनेन भीमो रणे भीमतमो रिपूणां ॥ १३ ॥ पंचाधिकत्रिंशदमंदहस्त
प्रमाणयुक्पट्टपटं दधानः ॥ बभौ निचोलं किलशोडषोद्यत्करप्रमाणं
विमलं वसानः ॥ १४ ॥ श्रीएकलिंगेन मुदा प्रदत्तंहारीतनाम्ने मुनये
थ तेन ॥ दत्तं दधानः कटकं च हैमं पंचाशदुद्यत्पलमान्मास्ते ॥ १५ ॥
द्वात्रिंशदुद्यत्तमं ढव्बुकाद्यैः प्रस्थाभिधैः शेरवरैः कृतस्य ॥ मणस्य चैकस्य
भरं हि चत्वारिंशन्मितैर्विभ्रदसिं दधानः ॥ १६ ॥ एकप्रहारा न्महिषौ महासे-
र्दुर्गार्चनायां जवतो विनिघ्नन् ॥ भुंजन्महाच्छागचतुष्टयं स अगस्त्यशस्त्यः
प्रबभूव वाष्पः ॥ १७ ॥ ततः स निर्जित्य नृपं तु मोरीजातीयभूपं मनुराजसंज्ञं ॥
ग्रहीतवांश्चित्रकूटं चक्रे त्रराज्यं नृपचक्रवर्ती ॥ १८ ॥ राज्यातिपूर्णात्
वरत्नलक्ष्मीमयत्वशब्दादिमवर्णयुक्तां ॥ तां रावलाख्यां पदवीं दधानो वाष्पाभिधानः
स रराज राजा ॥ १९ ॥ ततः खुमानाभिधरावलो स्माद्गोविंदनामा थ महेन्द्रनामा ॥
आलूनृपो स्मादथसिंहवर्मा तस्यात्मजः शक्तिकुमारनामा ॥ २० ॥ जातस्ततो रावल
शालिवाहनस्तस्यात्मजो भून्नरवाहनस्ततः ॥ अंबाप्रसादोस्य च कीर्तिवर्मक
स्तत्पुत्र आसीन्नरवर्मनामकः ॥ २१ ॥ ततो नृपालो नरपत्यभिरस्य स्वथोत्तमो
स्मान्नृपभैरवो स्मात् ॥ श्रीपुंजराजो भवदस्यकर्णादित्यः सुतो स्यापि च भावसिंहः

॥ २२ ॥ श्री गोत्रसिंहो थ स हंस राजसुतो स्य सूनुः शुभ योगराजः ॥ सर्वैरडाख्यो थ
 सर्वैरिसिंह स्ततो स्य वा रावल तेजसिंहः ॥ २३ ॥ ततः समरसिंहाख्यः पृथ्वी
 राजस्य भूपतेः ॥ पृथाख्याया भगिन्या स्तु पति रित्यतिहार्दतः ॥ २४ ॥ गोरी
 साहिबदीनेन गजनीशेन संगरं ॥ कुर्वतो ऽ खर्वगर्वस्य महासामन्तशोभिनः
 ॥ २५ ॥ दिल्लीश्वरस्य चोहाननाथस्या स्य सहायकृत् ॥ स द्वादश सहस्रैः स्ववीराणां
 सहितो रणे ॥ २६ ॥ बध्वा गोरीपतिं देवात्स्वर्यातः सूर्य बिंबमित् ॥
 भाषारासापुस्तके स्य युद्धस्योक्तो स्ति विस्तरः ॥ २७ ॥ तस्यात्मजोभू नृप-
 कर्णरावलः प्रोक्तास्तुषड्विंशति रावला इमे ॥ कर्णात्मजो माहपरावलो भव
 त्सङ्गराद्ये तु पुरे नृपो बभौ ॥ २८ ॥ कर्णस्य जात स्तनयो द्वितीयः श्री राहपः
 कर्णनृपाज्ञयोग्रः ॥ वाक्येन वा शाकुनिकस्य गत्वा मंडोवरे मोकलसीं स जिवा
 ॥ २९ ॥ तातांतिके त्वा नयति स्म बद्धं कर्णोस्य राणाविरुदं गृहीत्वा ॥ मुमो
 च तं चारु ददौ तदीयं रानाभिधानं प्रियराहपाय ॥ ३० ॥ भव्याशिषा ब्राह्मण
 पल्लिवालज्ञातीय विद्वच्छर शल्यनाम्नः ॥ श्री चित्रकूटे वलभच्चराज्यं चक्रे ततो
 राहप एष वीरः ॥ ३१ ॥ ततो बभौ चित्रकूटे राहपावाहपोपकः ॥ पूर्व
 सीसोदनगरे वासा त्सीसोदिया स्मृतः ॥ ३२ ॥ रानाविरुदलाभेन राने
 त्युक्तो खिलैर्बभौ ॥ वंशस्याग्रे भविष्यंति रानाविरुदिनो नृपाः ॥ ३३ ॥ राजेंद्र
 राजीपूज्योयं नारायणपरायणः ॥ विशेषणादिवर्णाढ्यां वीरो रानाभिधां दधौ ॥ ३४ ॥
 आसीद्भास्करत स्तु माधवबुधो ऽ स्माद्रामचंद्र स्ततः सत्सर्वेश्वरकः कठोडि
 कुलजो लक्ष्म्यादिनाथ स्ततः ॥ तैलिंगो स्य तु रामचंद्र इति वा कृष्णोस्य
 वा माधवः पुत्रो भून्मधुसूदन स्रय इमे ब्रह्मेशविश्वनूपमाः ॥ ३५ ॥ यस्यासी
 न्मधुसूदन स्तु जनको वेणी च गोस्वामिजा ऽ भून्माता रणछोड़ एष कृतवान् राज
 प्रशस्त्याव्हयं ॥ काव्यं सान्वयराजसिंहसुगुणश्रीवर्णनाढ्यं महद्बीराकं समभू
 तृतीय इह सत्सर्गः सुसर्गः स्फुटं ॥ ३६ ॥ इति श्रीतैलंगज्ञातीय कठोडिकवि
 पण्डितोपनाममधुसूदनभट्ट पुत्ररणछोड़कृते राजप्रशस्त्याव्हये महाकाव्ये तृतीयः
 सर्गः सम्बत् १७३२ वर्षे माघी १५ राजसमुद्र प्रतिष्ठा.

श्रीगणेशायनमः ॥ कलितहलिनिचोलो नीललोलोतिकेसौ तरुरिति धृत-
 वस्त्रा वेगतो यत्र गोप्यः ॥ विदधति जलकेली यंच सिंचति सोस्मान्मुखयतु
 यमुनाया स्तीरवतीं तमालः ॥ १ ॥ तस्य पुत्रो नरपती रानास्य जसकर्णकः ॥
 तत्सुतो नागपालोस्य पुण्यपालः सुतोस्यतु ॥ २ ॥ पृथ्वीमल्लः सुतस्तस्य पुत्रो
 भुवनसिंहकः ॥ तस्य पुत्रो भीमसिंहो जयसिंहो स्य तत्सुतः ॥ ३ ॥ लक्ष्मसिंह
 स्वेष गढमंडलीकाभिधो स्य तु ॥ कनिष्ठो रत्नसी भ्राता पद्मिनी तत्प्रिया भवत्

॥ ४ ॥ तल्लते छावदीनेन रुद्धे श्रीचित्रकूटके ॥ लक्ष्मसिंहो द्वादशस्वभ्रातृभिः
सप्तभिः सुतैः ॥ ५ ॥ सहितः शस्त्रपूतोसौ दिवं यातो ऽ स्यचात्मजः ॥ एक-
उर्वरितो जेसी राज्यं चक्रे ततोरसी ॥ ६ ॥ जेष्टः सुतः पितुः संगे योहतो
तत्सुतोदधे ॥ राज्यंहमीरोदानीद्रो मुर्द्धगंगाप्रदर्शकः ॥ ७ ॥ विग्रहे विंद्रसरसि
श्रीमूर्तिं स्फाटिकीं धृतां ॥ नप्राप्तां सुस्थसमये एकलिंगस्य तद्वधात् ॥ ८ ॥
मूर्तिं चतुर्मुखीमेतां श्यामां श्यामायुतां ततः ॥ क्षेत्रसिंहस्ततोलाखा लक्षदो
मोकलस्ततः ॥ ९ ॥ भ्रातरावतबाघस्या ऽ नपत्यस्य फलाप्तये ॥ वाघेलाख्यं
तडागं तन्नाम्ना नागहृदे करोत् ॥ १० ॥ त्रिद्वारं स्फटिकाभाश्म जुष्टं कैलासवन्नृपः ॥
प्राकारमुत्तमाकार मेकलिंगप्रभोर्व्यधात् ॥ ११ ॥ कृत्वायं द्वारिकायात्रां शंखोद्वारं
गतस्ततः ॥ सिद्ध एकोस्य पत्न्यास्तु गर्भे राज्याप्तये विशत् ॥ १२ ॥ सकुंभकर्णो
भूत्पुत्रो मोकलस्या स्य मस्तकात् ॥ स्रवतिस्म जलं गांगं प्रसिद्धमिति निश्यभूत्
॥ १३ ॥ कुंभकर्णोथभूपोभूद् दुर्गकुंभलमेरुकृत् ॥ स शोडशतस्त्रीयुक् रायमल्लोथ
राज्यकृत् ॥ १४ ॥ संग्रामसिंहस्तत्पुत्रः सद्विलक्षमितैर्भटैः ॥ युक्तो वावरदिल्लीशदेशे
फतेपुरावधिः ॥ १५ ॥ गत्वात्रपीलियाखाल परिधिं पर्यकल्पयत् ॥ स्वदेशसीमानमयं
रत्नसिंहो थ राज्यकृत् ॥ १६ ॥ तद्भाता विक्रमादित्यो भूपो भूतस्य सोदरः ॥ राना
उदयसिंहोथ स दिव्योदयसागरं ॥ १७ ॥ तथोदयपुरं चक्रे तडागोत्सर्गकर्मणि ॥
छिन्नभद्राय सोदर्यलक्ष्मीनाथयुताय च ॥ १८ ॥ भूरवाडाग्राममदाद्यधादानं तुलादिकं ॥
चित्रकूटे थयोद्वास्य राठोडो जैमलो रणं ॥ १९ ॥ पत्तासीसोदिया चक्रे दिल्लीशेन महा-
यशाः ॥ अकब्बरेण भटयुग्वीर ईश्वरदासकः ॥ २० ॥ कुलकं ॥ प्रतापसिंहो थ नृपः
कच्छवाहेन मानिना ॥ मानसिंहेन तस्यासी द्वैमनस्यं भुजे विधौ ॥ २१ ॥ अकब्बरप्रभोः
पाश्वे मानसिंहस्तोगतः ॥ गृहीत्वा तद्वलं ग्रामे खंभनोरे समागमः ॥ २२ ॥ तयोर्युद्ध
मभूद्घोरं लोहकोष्ठगतस्य सः ॥ मानसिंहस्य कुंभीद्रकुंभेशुंभपराक्रमः ॥ २३ ॥ ज्येष्ठः
प्रतापसिंहस्य अमरेशाभिधः सुतः ॥ कुंतं शकुंतवेगोयं मुमोचा रुणलोचनः ॥ २४ ॥
राणाप्रतापसिंहो थ मानसिंहस्य हस्तिनः ॥ कुंभे कुंतं मुमोचा शु पश्चादंती पलायितः
॥ २५ ॥ समये त्र प्रतापेशं शक्तसिंहो स्य सोदरः ॥ मानसिंहस्य संगस्थो दृष्ट्वैवं स्नेहतो
वदत् ॥ २६ ॥ नीलाश्वस्याश्ववारंत्वं पश्चात्पश्य प्रभो ततः ॥ प्रतापसिंहो ददृशे श्वमे-
कमथनिर्ययौ ॥ २७ ॥ ततोद्वौमुगलौ वीरौ मानसिंहेनवेगतः ॥ प्रेपितौ शक्तिसिंहो पि
गृहीत्वाज्ञां महाबलः ॥ २८ ॥ मानसिंहस्यमुगलौ प्रतापेंद्रेणसंगरं ॥ चक्रतुः श्रीप्रता-
पेन शक्तिसिंहेनतौ ततः ॥ २९ ॥ निहतौ हितकारीति शक्तिसिंहः सहोदरः ॥ राणेनोक्तं
शक्तिसिंह वंश्यास्तद्राणवल्लभाः ॥ ३७ ॥ अकब्बर इहायात स्तत श्वक्रे स संगरं

प्रतापसिंहं वलिनं मत्वा शेरबुनामकम् ॥ ३१ ॥ संस्थाप्यात्र सुतं ज्येष्ठ मागरां
 प्रति निर्ययौ ॥ अमरेशः खानखाना दाराणां हरणं व्यधात् ॥ ३२ ॥ सुवासिनीव त्सं
 तोष्य प्रेषयामास ताः पुनः ॥ खानखानस्या द्रुतं तज्जातं शेखूमनस्यपि ॥ ३३ ॥
 ततः शेखूजहांगीर नामा दिल्लीश्वरो भवत् ॥ पुनरत्रागतो युद्धं कृत्वा खुरमनामकं
 ॥ ३४ ॥ संस्थाप्यात्र सुतं स्वयं रुद्धं कृत्वा प्रतापिनं ॥ प्रतापसिंहं चतुरा
 शीतिसैन्यै र्वृतंगतः ॥ ३५ ॥ दिल्लीं प्रति प्रतापेशो घटे देवेरनामके ॥ सुल-
 तानं सेरिमाख्यं च कुंताख्यं गजस्थितं ॥ ३६ ॥ दिल्ली शस्य पितृव्यं तं वीक्ष्या-
 भू त्संमुख स्ततः ॥ सोलंकिभृत्य इच्छेद गजाधिं पडिहारकः ॥ ३७ ॥
 प्रतापसिंहो राणेंद्रो रणेरवणविक्रमः ॥ शकुंतवेगः कुंतेन कुंभिकुंभं बभञ्ज सः
 ॥ ३८ ॥ पपात कुंभी तुरग मारुरोहाथ सेरिमा ॥ अमरेशः स्वकुंतेन न्यहन-
 त्सेरिमाभिधं ॥ ३९ ॥ स कुंतः सशिरस्त्राणवर्माश्वं त मखंडयत् ॥ अमरेश
 कराकृष्टः स कुंतो न विनिःसृतः ॥ ४० ॥ तदा प्रतापेंद्राज्ञातो दत्त्वा लतां पदे-
 न सः ॥ कुंतं चकर्षा मर्षेण कुंतापत्या हर्षमादधे ॥ ४१ ॥ दर्शनीयः स येनाहं
 निहतः सेरिमा वदत् ॥ प्रतापसिंह स्तच्छ्रुत्वा ऽ प्रेपय त्कंचिदुद्भटं ॥ ४२ ॥
 भटं तं वीक्ष्य तेनोक्तं नायं प्रेष्यः सएव तु ॥ राणेंद्रः प्रेषयामास अमरेशं रणो-
 त्कटं ॥ ४३ ॥ तं दृष्ट्वा सेरिमोवाच सोयमस्ति मयेक्षितः ॥ युद्धकाले नभोभूमि
 व्यापिशीर्ष शरीरवान् ॥ ४४ ॥ दैवेन नहतोहं हि यास्ये स्थानं शुभं ततः ॥
 कोसीथलाद्येषुचतुरशीति प्रमितागताः ॥ ४५ ॥ स्थानपालाः प्रतापेंद्रो
 महोदयपुरे वसत् ॥ दानं ददौ कोपि भाटः प्राप्यो ण्णीपादिकं धनं ॥ ४६ ॥
 प्रतापसिंहा दिल्लीशं द्रष्टुं यात स्तदंतिके ॥ यदाप्राप्त स्तदावद्धं तदुष्णीषं करे-
 दधत् ॥ ४७ ॥ गत्वा सलामं कृतवान् दिल्लीशेन तदेरितः ॥ किमिदं सो वद-
 द्राणा प्रतापोष्णीपमित्यतः ॥ ४८ ॥ नधृतं मूर्ध्नि दिल्लीश स्तुतोप ज्ञापिता-
 शयः ॥ तदा समस्ते जगति सर्वे हिंदू तुरुष्ककैः ॥ ४९ ॥ अनघः श्री प्रता-
 पेंद्रो वीर इत्थं ददाविति ॥ इतिराणाप्रतापस्य प्रतापः कथितो मया ॥ ५० ॥
 इति श्री राजप्रशस्त्या द्वये महाकाव्ये वीराके चतुर्थः सर्गः

श्री गणेशायनमः ॥ राना अमरसिंहाख्यो ऽकरोद्राज्यं ततः परं ॥ मानसिंहस्य
 संग्रामे खानखानावधू हते ॥ १ ॥ सेरिमा सुलतानस्य बधे प्रोक्तो स्य विक्रमः ॥
 जहांगीरस्थापितेन खुरमेणाथयुद्धकृत् ॥ २ ॥ अबदुल्लहखानेन वक्र इचक्रे रणं ततः ॥
 चतुर्विंशति संख्यै स्तै रुद्धः स्थानेश्वरै रलं ॥ ३ ॥ दिल्लीपते भृत्यवरं जघ्ने कायम
 खानकं ॥ उंटालायां मालपुरभंगं चक्रे त्र दंडकृत् ॥ ४ ॥ पुत्रोस्य कर्णसिंहाख्यः
 सिरोजं मालवाभुवं ॥ घंधेराख्यं बभञ्जा त्रदंडं चक्रे तिलुंतनं ॥ ५ ॥ ततो जहांगीरा

ज्ञातः खुरमोमिलनंव्यधात् ॥ गोघून्दायांसमायातः अमरेशोनिजस्थलात् ॥ ६ ॥
महोदयपुरात्त्र खुरमोपि समागतः ॥ श्लाघ्यरीत्यासादरंतौ सस्नेहोमिलितौततः
॥ ७ ॥ राना अमरसिंहेंद्रो महोदयपुरे ऽवसत् ॥ महादानानि विदधे चक्रे राज्यं
सुखान्वितं ॥ ८ ॥ लक्ष्मीनाथाख्य भट्टाय गुरवेमंत्रदायिने ॥ राना अमरसिंहेंद्रो
होलीग्रामं ददौमुदा ॥ ९ ॥ अथरानाकर्णसिंह इचक्रे राज्यपुराकरोत् ॥ सत्कौमार
पदेगंगातीररूप्य तुलांददौ ॥ १० ॥ शूकरक्षेत्रविप्रेभ्यो ग्रामपूर्वतुविद्वरे ॥ धंधेरा
मालवा देश सिरोजपुर भंगकृत् ॥ ११ ॥ अखेराजं सिरोहीशं चक्रे शत्रुजितं
बलात् ॥ पद्मलक्ष्माधिकमलः कर्णदानपराक्रमः ॥ १२ ॥ दिल्लीश्वराजहां-
गीरा तस्य खुरमनामकं ॥ पुत्रं विमुखतांप्राप्तं स्थापयित्वा निजक्षितौ ॥ १३ ॥
जहांगीरेदिवंयाते संगेभ्रातरमर्जुनं ॥ दत्त्वादिल्लीश्वरंचक्रे सोभूत्साहिजहांभिधः
॥ १४ ॥ युग्मं ॥ शतेषोडशकेतीते चतुः षष्ठ्यभिधेदके ॥ भाद्रशुक्लद्वितीयायां
कर्णसिंहनृपादभूत् ॥ १५ ॥ जगत्सिंहोमहेचाख्या राठोडजसवंतजा ॥ श्री मजांबु-
वतीतस्याः कुक्षेर्जातोबलीमहान् ॥ १६ ॥ शतेषोडशकेतीते पंचाशीत्यभिधेदके ॥
राधशुक्लद्वितीयायां राज्यंप्राप जगत्पतिः ॥ १७ ॥ जगत्सिंहाज्ञायामंत्री अखे-
राजोबलान्वितः ॥ सडूंगरपुरंप्राप्तः पुंजानामाथरावलः ॥ १८ ॥ पलायितः
पातितंत च्चंदनस्यगवाक्षकं ॥ लुंटनडूंगरपुरे कृतंलोकैरलंततः ॥ १९ ॥ जगत्सिंहा
ज्ञायायातो राठोडोरामसिंहकः ॥ प्रतिदेवलियां सेनायुक्तोरावतमुद्रटं ॥ २० ॥ जसवंतं
मानसिंह पुत्रयुक्तंजघानसः ॥ पुर्यादेवलियायांच लुंटनरचितंजनैः ॥ २१ ॥ शते
षोडशकेतीते षडशीत्यभिधेदके ॥ ऊर्जे कृष्णद्वितीयायां जगत्सिंहमहीपतेः ॥ २२ ॥
पुत्रः श्री राजसिंहोभू द्वर्षांतेअरसीतथा ॥ मेडताधिपराठोड राजसिंहमहीभूतः ॥ २३ ॥
पुत्रीजनादेनाम्नीत कुक्षिजाताविमौसुतौ ॥ अभून्मोहनदासारख्यो ऽ पारिणीता
प्रियाभवः ॥ २४ ॥ अखेराजंसिरोहीशं वश्यंचक्रे ऽ ग्रहीद्भुवं ॥ तोगाख्यबालीसा
भूपा दखेराजेनखंडितात् ॥ २५ ॥ प्रासादंस्वग्रहेचक्रे मेरुमंदिरनामकं ॥ पीछो-
लाख्य तटाकस्य तटे मोहनमंदिरं ॥ २६ ॥ जगत्सिंहनृपाज्ञातो बांसवालापुरेगतः ॥
प्रधानोभागचंदाख्यो रावलः सावलोगिरौ ॥ २७ ॥ गतः समरसीनामा
ततोलक्षद्वयंददौ ॥ दंडंरजतमुद्राणां भृत्यभावंसदादधे ॥ २८ ॥ बुंदीश
शत्रुशल्यस्य भावसिंहाख्यसूनवे ॥ स्वकन्यांविधिनाभूपो दत्त्वात्रैवददौपुनः
॥ २९ ॥ सप्तविंशतिसंख्यास्तु राजन्येभ्योन्यकन्यकाः ॥ एकलिंगालयेचक्रे हेम
कुंमध्वजादिकान् ॥ ३० ॥ वत्सरेष्टनवत्याख्ये शतेषोडशकेगते ॥ दीपावल्यु
त्सवेबाई राजजांबुवतीव्यधात् ॥ ३१ ॥ द्वारिकातीर्थयात्रां श्री रणछोडस्यसेवनं ॥
तथारूप्यतुलांचक्रे दानान्यन्यानिसादरं ॥ ३२ ॥ गोस्वामिधन्ययदुनाथ सुता

सुवेण्यै भूमिहलद्वयमितांपुरआहडाख्ये ॥ तद्भर्तृधीरमधुसूदनभट्टनाम्ना पत्रं
विधायचददौ जगतीशमाता ॥ ३३ ॥ राज्यप्राप्तेःसमारभ्य तुलारूप्यमयीं
व्यधात् ॥ प्रतिवर्षजगत्सिंहो दानान्यन्यानिचातनोत् ॥ ३४ ॥ शतेसप्तदशे
पूर्णे चतुराख्येब्दकेशुचौ ॥ सर्वग्रहेजगत्सिंहः संपूज्यामरकंटके ॥ ३५ ॥
ज्योतिर्लिङ्गंतुमांधात् सेव्यमोंकारमीश्वरं ॥ सुवर्णस्यतुलांचक्रे अथप्रत्यब्दमात
नोत् ॥ ३६ ॥ स्वजन्मदिवसेमोदा न्महादानंपुराव्यधात् ॥ कल्पवृक्षंस्वर्ण
पृथ्वीसप्तसागरनामकं ॥ ३७ ॥ विश्वचक्रं क्रमादस्मिन्वर्षेमाता जगत्पतेः ॥
श्रीमजांबुवतीबाई प्रतस्थेतीर्थदृष्टये ॥ ३८ ॥ कार्तिकेमथुरायात्रां चक्रेगोकुल
दर्शनं ॥ श्रीगोवर्द्धननाथस्य दीपावल्यन्नकूटयोः ॥ ३९ ॥ अपश्यदुत्सवंतूर्ज
पौर्णमास्यांतुशौकरे ॥ क्षेत्रेगंगातटेचक्रे तुलारूप्यस्यचातनोत् ॥ ४० ॥ वीकानेरेश
कर्णस्य सुतारामपुराप्रभोः ॥ हठीसिंहस्यसत्पत्नी उदारानंदकुंवरिः ॥ ४१ ॥
मातामह्याजांबुवत्याः संगेरूप्यांतुलांव्यधात् ॥ पूर्ववर्षेजांबुवत्या आज्ञयानंद
कुंवरिः ॥ ४२ ॥ श्रीजांबुवत्याअग्रमां स्थापयित्वामुदाददौ ॥ रणछोडायमहंसा
दानंसोमामहेश्वरं ॥ ४३ ॥ प्रयागेराजतुलां काश्ययोध्यादिदर्शनं ॥ कृत्वाग्रहेसमा
याता चक्रेरूप्यतुलागणं ॥ ४४ ॥ वेणिमाकार्यगोस्वामि तनयांमधुसूदनं ॥
तत्पतिंश्रीजगत्सिंह स्त्रियासोमामहेश्वरं ॥ ४५ ॥ अदापयत्कृतंदानं श्रीमजांबुवती
यथा ॥ राणाअमरसिंहस्य राज्ञीभिर्दत्तमादितः ॥ ४६ ॥ इदंदानंयथैवाभ्या मद्या
वधिमितिंवदे ॥ विंशत्संमितदानानि आभ्यांलब्धानितस्फुटं ॥ ४७ ॥ अस्मिन्वर्षे
पूर्णिमायां वैशाखेश्रीजगत्पतिः ॥ श्रीजगन्नाथरायंस त्प्रासादेस्थापयन्वभौ
४८ गोसहस्रमहादानं दानंकल्पलताभिधं ॥ हिरण्याश्वमहादानं ग्रामपंचक
मप्यदात् ॥ ४९ ॥ मधुसूदनभट्टाय महागोदानमप्यदात् ॥ कृष्णभट्टायसुग्राम
भैसडारत्नधेनुदं ॥ ५० ॥ श्रीराणोदयसिंहसुनुरभत् श्रीमत्प्रतापः सुत स्तस्य
श्रीअमरेश्वरोस्यतनयः श्रीकर्णसिंहोस्यवा ॥ पुत्रोरानजगत्पतिश्चतनयो स्माराज-
सिंहोस्यवा पुत्रःश्रीजयसिंह एषकृतवान्सत्प्रस्तराऽऽ लेखितं ॥ ५१ ॥ वीराकरणछोड
भट्टरचितं द्वात्रिंशदाख्येब्दके पूर्णसप्तदशेशतेतपसिवा सत्पूर्णिमायांतिथौ ॥
काव्यंराजसमुद्रमिष्टजलधेः श्रीराजसिंहेनवा सृष्टोत्सर्गविधेः सुवर्णनमयं राज
प्रशस्त्याङ्कयं ॥ ५२ ॥ इति पंचमःसर्गः

श्रीगणेशायनमः ॥ शतेसप्तदशेपूर्णे नवाख्येब्देकरोत्तुलां ॥ रूप्यस्यसांगं
चक्रेऽथा फाल्गुनेकृष्णपक्षके ॥ १ ॥ द्वितीयादिवसेराज्यं राजसिंहोनेरेश्वरः ॥
राज्ञोभूरटियाकर्ण नाम्नोज्येष्ठायसूनवे ॥ २ ॥ अनूपसिंहायददौ स्वसारंविधिना

नृपः ॥ क्षत्रेभ्यो ऽ दाहंधुकन्या एकसप्ततिसंमिताः ॥ ३ ॥ कुलकं ॥ शतेसप्त
 दशेपूर्णे दशास्येब्देतुपौषके ॥ कृष्णैकादशिकायांतु राजसिंहनरेश्वरात् ॥ ४ ॥
 पवारइन्द्रभानास्य रावस्यतनयातुया ॥ सदाकुंवरिनाम्नीतत् कुक्षेर्जातोजगत्
 प्रियः ॥ ५ ॥ जयसिंहाभिधः पुत्रः पवित्रश्चित्रकेलिकृत् ॥ संजातो
 जगदाल्हाद चन्द्रमाः कीर्तिचन्द्रवान् ॥ ६ ॥ भीमसिंहः पुत्रश्चास्ते गजसिंहः
 सुतस्तथा ॥ सूर्यसिंहाभिधः पुत्र इन्द्रसिंहः सुतस्तथा ॥ ७ ॥ सवहादुर-
 सिंहः श्री राजसिंहात्मजास्तथा ॥ सनरायणदासोवा ऽ परिणीताप्रियाभव ॥
 ॥ ८ ॥ आरभ्य कौमारपदात्सर्वर्तु सुखलब्धये ॥ श्रीसर्वर्तुविलासास्यं स्वारामंकृत-
 वान् नृपः ॥ ९ ॥ वाप्याक्षीरनिधौधन्यो लक्ष्मीयुक्तोविराजते ॥ नारायण
 गुणोराणा नौकाशेषफणाश्रयः ॥ १० ॥ शतेसप्तदशेपूर्णे वर्षेएकादशेत्वेषे
 ॥ अजमेरौसाहिजहां दिल्लीशंतंसमागतं ॥ ११ ॥ श्रुत्वाथराजसिंहेन्द्रं श्चित्र-
 कूटेसमागतं ॥ नसादुल्लहखानास्यं दिल्लीश वरमन्त्रिणं ॥ १२ ॥ प्रेषया
 मासतत्पार्श्वे भटंतुमधुसूदनं ॥ व्यंठोडीवंशतैलंगं सगतः खानसन्निधौ
 ॥ १३ ॥ खानः पंडितसंबुद्ध्या भटंप्रत्युक्तवान्कथं ॥ गरीबदासोराणेन
 कथमाकारितोतथा ॥ १४ ॥ भालास्यरायसिंहश्च भट्टेनोक्तंसदादितः ॥ जातमेवं
 प्रतापास्य रानाभ्रातारणोत्कटः ॥ १५ ॥ शक्तसिंहोमेघनामा रावतोमेदपाटतः ॥
 आयातः स्थापितौदिल्ली नाथेनकिलतौपुनः ॥ १६ ॥ मेदपाटेसमायातौ चकार
 परमेश्वरः ॥ इतिस्वामिप्रमुक्तानां राजन्यानांस्थलद्वयं ॥ १७ ॥ खानेनोक्तंसत्य
 मेतत् पुनः खानस्तस्तोवदत् ॥ रानेशस्याश्ववाराणां संख्यांकथयपंडित ॥ १८ ॥
 षड्विंशतिसहस्राणि भट्टेनोक्तंसउक्तवान् ॥ दिल्लीशस्याश्ववाराणां लक्षसंख्यास्ति
 तत्कथं ॥ १९ ॥ कार्यं - - नभट्टेन प्रोक्तंखानशृणुस्फुटं ॥ दिल्लीशस्याश्व
 वाराणां लक्षंराणामहीपतेः ॥ २० ॥ सड्विंशतिसहस्राणि साम्यंस्टष्टिकृताकृतं
 ॥ खानोतः कोपवान्खानो जयसिंहस्तदोचतुः ॥ २१ ॥ खानसंगेसाहिजहां
 दर्शनंचेत्करोत्यहो ॥ राणाकुमारस्तुतदा चतुर्दशमितामया ॥ २२ ॥ देशादिल्ली
 श्वराद्वाप्या विद्वरेमधुसूदनः ॥ राणसेवांव्यधादेवं स्वामिधर्मामहोक्तिकृत्
 ॥ २३ ॥ दिल्लीश्वरकुमारस्य संगे ऽ स्मत्पूर्वजन्मनां ॥ कुमारामिलनंचक्रू राजसिंहो
 विचार्यतत् ॥ २४ ॥ सुल्तानसिंहनामकमहाकुमारंतुठकुरैः सहितं ॥ साहिजहां
 सुतदाराः सकोहसंगेथसंप्रेष्य ॥ २५ ॥ एवंसाहिजहांनेन मिलनंकृतवान् नृपः ॥
 राजसिंहोभाग्यदान विक्रमैर्विक्रमार्कवत् ॥ २६ ॥ जनादेनामजननीं चक्रेरूप्य
 तुलांस्थितां ॥ तथाकारितवान्मंत्रं गजदानस्यनिष्कृतं ॥ २७ ॥ द्रव्यंसंकल्पितंरूप्य

मुद्रापंचशतैर्मितं ॥ मधुसूदनभद्राय रानेंद्रस्तद्वदौधनं ॥ २८ ॥ युग्मं ॥ राठोडरूप
 सिंहाख्यं स्वमंडलगढाद्वलं ॥ वैश्यंराघवदासाख्यं प्रेषयन्विद्रुतंव्यधात् ॥ २९ ॥
 शतेसप्तदशपूर्णे त्रयोदशमितेब्दके ॥ हेमः स्तीर्द्धद्विशतकं पलैर्ब्रह्मांडकंकृतं
 ॥ ३० ॥ कार्तिक्यां पूर्णिमायांश्री एकलिंगशिवांतिके ॥ दत्तावेदोक्तविधिना राज
 सिंहोविराजते ॥ ३१ ॥ पंचमहाभूतमयं ब्रह्मांडमृज्जलीढयलघुमूल्यं ॥ मत्वासुवर्णपूर्णं
 कृत्वाब्रह्मांडकंत्वयादत्तं ॥ ३२ ॥ हेमब्रह्मांडदानेन ब्रह्मांडस्थाः क्षितीश्वराः ॥
 ब्राह्मणास्तोषितादानं त्वयाब्रह्मार्पणीकृतं ॥ ३३ ॥ हेमब्रह्मांडदानेन ब्रह्मांडस्थां-
 श्रियंभवान् ॥ स्थापयन्ब्राह्मणगृहे दारिद्र्यंहतवांस्ततः ॥ ३४ ॥ ब्रह्मांडेराजसिंह
 प्रभुवरभवता दत्तएवंद्विजेभ्य स्तद्देवास्तद्गृहेवा परनिजतनुभि भुंजतेभावुकंयत् ॥
 शंभुर्भूतैर्विऽहीनो विधिरपिबहुधा स्टाष्टिकार्यानधीनो भानुर्वाशीतभानु धरणिध-
 रमणे भ्रांतिदुःखाद्विमुक्तः ॥ ३५ ॥ ब्रह्मांडेराजसिंहः प्रभुवरभवता दत्तएवंद्विजेभ्यः
 क्रीडार्थं तत्सुतानां भवतइनविधू कंदुकौलोलगोलौ ॥ आरौहार्थंचनंदी द्रुहिण-
 सितमहा हंसकौपंचवक्र श्रित्रायानेकनेत्रोभ - - सुरपति स्तर्जनार्थंगजस्य ॥ ३६ ॥
 श्रीराजसिंहनृपतिः कलिकालमध्ये कर्तुंनयोग्यमतुलं हयमेधकर्म ॥ प्राप्तुंसम-
 स्तमधुना हयमेधधर्मं पूर्णेतुसप्तदशके शतकेसुवर्षे ॥ ३७ ॥ एकोनविंशतिसुना
 म्निचपौषमासे एकादशीशुभदिने किलशुक्लपक्षे ॥ मन्वादिदिद्यदिवसे मधुसूद-
 नाय तैलंगसद्गुरु कुलस्थकठोडिकाय ॥ ३८ ॥ श्वेताश्वमुच्चतममुच्च गुणातिगेय
 मुच्चैश्रवः सममहो विधिनैवदत्ता ॥ पल्याणहेमगणमेरु समंचभाति प्रायोहरि
 गुरुगुरो गुरुरर्चनेन ॥ ३९ ॥ संस्थाप्यतत्रनवला दितुरंगधन्य स्कंधेसदुक्तिमधुरं
 मधुसूदनाख्यं ॥ सत्सप्तविंशतिपदानिहयस्यगच्छ त्रयस्थएवधृतवा न्हयमेधधर्मं
 ॥ ४० ॥ सिंहासनेस्फुरित चामरवीज्यमाता छत्रोपिशोभितइवा रचिताश्वमेधं ॥
 श्रीरामचंद्रइवभाति सुलक्ष्मणाढ्यः श्रीराजसिंहनृपति नृपसिंहएषः ॥ ४१ ॥
 नवलाख्यतुरंगाय हेमपल्याणमेरुगं ॥ कृतवानुचितंभूपो विबुधंमधुसूदनं ॥ ४२ ॥
 राणाश्रीराजसिंहादि सुखापाठकमुख्यकैः ॥ अग्रेसरैर्जनैर्युक्तो विभातिमधुसूदनः
 ॥ ४३ ॥ श्वेताश्वेदत्तमत्ते त्वतिहयमवस त्पुण्यतोभास्वरोदा लोकश्रीमेदपाटो
 भवदतिललिता तेसभासौसुधर्मा ॥ जिष्णुस्त्वंसत्सहस्रेक्षणइहविबुधत्रातकारु-
 ण्यदृष्टौ तुष्टोजेतासुराणां गुरुगुणगुरुता स्थापकोयुक्तमेतत् ॥ ४४ ॥ दानस्य-
 चास्यनव दित्यसहस्रसंख्या दत्त्वागुणज्ञगुरुरेष सुरूप्यमुद्राः ॥ काशीनिवास-
 मथका रितवान्नरेंद्रः स्वस्यापिपुण्यकृतये मधुसूदनस्य ॥ ४५ ॥ विश्वेशदर्शन-
 विधौ मणिकर्णिकाया स्ता - - तार्थ कृतिपत्तनदेवतानां ॥ पूजासदाशि - महो
 नृपराजसिंहः वीरो - - - - - मधुसूदनाख्यं ॥ ४६ ॥ इतिषष्ठमसर्गः ॥

॥ श्रीगणेशायनमः ॥ शतेसप्तदशपूर्णे चतुर्दशमितेब्दके ॥ राधशुद्धदशम्यांतु
जैत्रयात्रानृतपोव्यधात् ॥ १ ॥ मध्योद्यद्भानुर्बिंबा द्विजपतिविनुता मंगलाद्याबुधाति
स्तुत्वाजीवातितंध्याः कविक्रतनुतयो ऽ मंदरूपप्रकाशाः ॥ विस्फूर्जत्सैंहिकेया
विदधतिचलनं केतवः किंघ्रहास्ते अग्रेसोऽग्रप्रतापा स्तवविजयकृते राजसिंहेतिजाने
॥ २ ॥ पार्श्वस्थगोलकच्छद्व मुंडमालाअनस्थिताः ॥ भांतिस्वच्छाः शत्रुभक्षाः
कालिकाः किलनालिका ॥ ३ ॥ किंमृत्युदंष्ट्राः किंशत्रुप्राणसंस्थानकंदराः
॥ किंवारिलोकभुग्नक्र चक्रास्यानीहनालिकाः ॥ ४ ॥ किंवावीररसाब्धिरेवविलसत्
कल्लोलमालोन्नतः किंवादित्करुणी कटाक्षपटले नालंबितः सीत्कृतः ॥ किंवारैः
स्फुटमेकलिंगमतितो नीलाब्जपत्रांचितो रानेंद्रः कवचंदधत्सुकचिरं लोकैरिति
प्रोच्यते ॥ ५ ॥ ततोदुंदुभीनां निनादप्रतानैर् महाकाहलानां च कोलाहलैश्च ॥
तथासैंधवैश्चापि वादित्रशब्दैर् हयानांचचीत्कारवीरैरपारैः ॥ ६ ॥ त्रिलोकीमहा
मंडलयत्त्वखंडं जनाः खंडखंडं बभूवेत्यथोचुः ॥ धरित्रीविचित्रीभवत्कंपनार्ता
स्फुरद्विग्गजाः कंदुकी भावमापुः ॥ ७ ॥ समूलोकमुख्याखिला ऊर्ध्वलोका स्तलाद्या
स्तथा सप्तलोकाअधः स्थाः ॥ सकंपाः समुद्रात्तभंपाः सशंपा स्तदा ऽ भ्रैवभूवु
स्तथाभ्राअशुभ्राः ॥ ८ ॥ जवेनोच्छलंतिस्म सर्वेसमुद्रा स्तथा ऽ क्षुद्ररूपाश्च
भद्रास्तटिन्यः ॥ महीध्रास्तथा उच्छर्लींध्रानुकाराः पतंतिस्मवृक्षाः सदृक्षाः
क्षतांगैः ॥ ९ ॥ अलंम्लेच्छसीमस्थिताः सर्ववीरा स्तथामानुषा मंक्षुदिक्षुस्थिताश्च
॥ विदीर्णीकृतोद्वक्षसो ऽ नच्छकर्णा वमंतिस्मरक्तं सुरक्तंमुखेभ्यः ॥ १० ॥
हयालीखुरोद्धूतधूलीमधूलीं गजेभ्योमदार्रांच कर्णाशुगोत्थं ॥ पिवंतिस्फुटं
शत्रुपक्षावलानां गुडारूपलोलालकालिंद्विरेफाः ॥ ११ ॥ महोदयपुरादग्रे
भांतिनाखर्वपर्वताः ॥ तन्मन्ये त्वत्तुरंगाली खुरैश्चूर्णीकृताश्चिरं ॥ १२ ॥
रिंगत्तुरंगखुरराजिरजः समूहे नद्यो जलाशयगणाः स्थलभावमापुः ॥
दृष्ट्वाजगद्गतजलं सभयोमहेंद्रो ज्येष्ठेपिवर्षणमहो सहसाचकार ॥ १३ ॥ युष्मज्जैत्र
प्रयाणश्रवण विगलित प्राणानिः प्राणकानां म्लेच्छानांच्छादनार्थं भवतिहयखुरो
त्वातधूलीसमूहः ॥ माद्यन्मातंगगल्लस्थलगलदतुलोद्दामदानां वुटंदं हिंदूकानां
निवापांजलिसलिलकृते म्लेच्छपक्षस्थितानां ॥ १४ ॥ रिंगदंतावलानां पद
भरविगल द्रूमिसंभूतगर्ताः प्रोल्लोलत्कर्णवातैः प्रचलितविलस त्पर्वतानामखर्वाः
॥ ग्रावाणः प्राणहीन प्रतिभटकुटिल म्लेच्छकानांतनूनां प्रक्षेपाच्छादनार्थं स्वत
इहनृपते जैत्रयात्रासुजाता ॥ १५ ॥ अंगोजातप्रभंगो भवतिभयभृतोत्संगरंगः
कलिंगो बंगः पूर्णार्तिसंगः कलकलकलितोप्युत्कलोनिः कलश्च ॥ शैथिल्यं

मैथिलेपि स्फुरतिभयमय क्रोडकोगौडलोको देशः पूर्वोविगर्वस्तव विजयकृते
 प्रासपाणेः प्रयाणे ॥ १६ ॥ लंकातंकाकुलाभूत्करगलदवला कंकणाकुंकणाशा
 कर्णाटः सत्कपाटश्चलद्दहमलयो द्राविडोद्रावितेशः ॥ देशश्चोलश्चलोलश्चपलद्दह
 भयात्केतुवत्सेतुबन्धः श्रीराना राजसिंह प्रभुवरभवतो जैत्रयात्रोत्सवेषु ॥ १७
 ॥ सौराष्ट्रो हीनराष्ट्रः प्रभवति सकलो वाच्छदेशोप्यनच्छं ठट्टाहट्टाविहीना
 विगलतिवलको रोमधर्ता - - - ॥ खंधारः साधकारो धनददिगधुनानिर्धना
 धावतेद्वा श्रीराणा राजसिंह क्षितिधवभवतो जैत्रयात्रोत्सवेस्मिन् ॥ १८ ॥
 दरीबाजनास्ते दरीबासभाजो जनामांडिलस्था स्तथास्थंडिलस्थाः ॥ जनाः
 फूलियायां शिरोधूलियासा स्वदीयप्रयाणे खुमानेशरत्नः ॥ १९ ॥ राहेलायाश्ची
 वहेलाश्चीनचेलासुयोपितः ॥ सर्ववेलासुचीवेला भर्तृहल्लाकनोभवत् ॥ २० ॥
 एषासाहिपुराप्रवाहितसुखा साकेकरीकिंकरीभावं वा विदधातिमंक्षुसमया ऽ कुक्षि
 भरिः सांभरिः ॥ भ्राजजाजपुराधिभाजनमहो दुःखावरः सावरः श्रीराणामणि
 राजसिंह भवतिजैत्रयात्रोत्सवे ॥ २१ ॥ गौडजातीयभूपानां देशः क्लेश
 विशेषवान् ॥ अनच्छः कच्छवाहानांजैत्रयात्रासुतेभवत् ॥ २२ ॥ रणस्तंभ
 संस्थारणस्थंभयुक्ताः प्रमत्तेतरास्तेपिफतेपुरस्थाः ॥ वयानाजनादूरसंसृष्टयाना
 जयार्थप्रयाणेखुमानेशतेस्युः ॥ २३ ॥ मेरौलक्ष्म्याजमेरौ विषयउरुभयं जायते
 स्फीतफेरौक्रोडाद्भाभंतितोडाद्यवनिषुगलितत्राणमानावयाना ॥ धत्तेफतेपुरंनक्ष-
 णमपिनसुखं दक्षयुद्धेतवाद्वा श्रीराणाराजसिंह क्षितिपजयकृते ऽ मानमानेप्रयाणे
 ॥ २४ ॥ पूर्वमेवाखर्बगर्वलुंठितं भवतोभटैः ॥ दरीबानगरंशून्यं दरीभावंसमादधे
 ॥ २५ ॥ मंडपास्तेमांडिलस्य श्रितायोधैस्तुतद्गटाः ॥ द्विविंशतिसहस्राणि रूप्य
 मुद्रावले ददुः ॥ २६ ॥ बनहेडास्थितावीरा रानेंद्रभवते ददुः ॥ षड्विंशति
 सहस्रोद्य द्रूप्यमुद्रा करंपरं ॥ २७ ॥ धीरा शाहपुरावीरा रानेंद्रभवते ददुः ॥
 द्वाविंशति सहस्रोद्य द्रूप्यमुद्राकरेवरं ॥ २८ ॥ तोडायां प्रेषयित्वा भटपटलभृतौ
 रायसिंहस्य राज्ञः फतेचंदं सहस्र त्रयमितसुभट भ्राजमानं प्रधानं ॥ षष्टिस्फू
 र्जत्सहस्रप्रमितरजतसन् मुद्रिका संख्यदंडं तन्मात्रा संप्रणीतं प्रहरदशकत त्वं
 गृहीत्वा त्रिभासि ॥ २९ ॥ अहो वीरमदेवस्य पुरं महिरवं परं ॥ राजन्वन्हौ जुहोति
 स्मकोपिकोपोद्गटोभटः ॥ ३० ॥ भवान् मालपुरे रान लक्ष्मीमालाति लुंठनं ॥ शौर्या
 लोके रचितवा ल्लोकैर्नवदिना वधि ॥ ३१ ॥ युष्मद्रिंगतुरंगप्रचुरखुरपुटै
 श्चूर्णितानां पुरेस्मिन् पूर्णानां शर्कराणां पटुकरटिघटा कर्णतालप्रवातैः ॥ उड्डी
 तानां समूहैर्जलनिधयद्भमे पूरिता क्षारभावं मुक्त्वामिष्टत्वभाजः कृतइति भवता
 भूप विश्वोपकारः ॥ ३२ ॥ जातेमालपुरस्य लुंठनविधौ सच्छर्कराणांपुरः

कर्पूरप्रकरस्य वाहयखुरप्रोद्धूतशुद्धंरजः ॥ उड्डीनं गगनेविभातिभवतो भूयोमया
 तर्कितं श्री रानामणिराजसिंहनृपतेः कीर्तिः प्रकाशः परः ॥ ३३ ॥ गुच्छवद्गुच्छ
 हारास्ते कनकं कनकोपमम् ॥ प्रवालवत् प्रवाला श्र प्राचुर्यालुंटेने भवत् ॥ ३४ ॥
 सुकर्बुराः सुदुर्वर्णाः सद्दरिष्ठाः प्रबालकाः ॥ हृद्देभ्य श्र गृहेभ्य श्र संप्राप्ता लुंटेने
 जनैः ॥ ३५ ॥ सुजातरूपकं तीक्ष्ण श्वेतशोभं जनैर्मुहुः ॥ नानाम्लेच्छमुखं दृष्टं
 पतितं पथिलुंटेने ॥ ३६ ॥ लुंटेने लुंटेनकरैर्लुंटेनं येन यत्त्वया ॥ तस्मै प्रदत्तं
 तद्दृष्ट्वा तवोदारं चरित्रता ॥ ३७ ॥ प्राप्ता भूपालतां रंका निःशंका धनलाभतः ॥
 लुंटेने पुरभूपास्तु निर्धना रंकातां गताः ॥ ३८ ॥ लक्ष्मीसन्मणिकल्पवृक्षसुरभी
 हालाधनुर्वाजिनः शंख श्रंद्रसुधागजेन्द्रसुमनः स्त्रीवैद्यविद्याधराः ॥ लोकैर्माल
 पुरोल्लसज्जलनिधेर्मथेषु रत्नान्यलं लब्धानीतिविचित्र मत्र न विषं केनापि लब्धं
 क्वचित् ॥ ३९ ॥ सुवर्णमूल्यस्यतु रूप्यमुद्रिकासद्वस्तुनो मूल्यमभूद्विलुंटेने ॥
 सद्रूप्यमुद्रामितवस्तुनः पुनः कर्षोपि कर्षस्य वराटकं तथा ॥ ४० ॥ स्वीय
 ब्राह्मणमंडलीकृतमहाहोमाग्निहोत्रोष्टभिर्यज्ञैर्भूरिघृतादिवस्तु रचिता जीर्णस्य
 शांत्यैमुखे ॥ वन्देर्मालपुरस्थभौषधमयं होमीकृतं सृष्ट्वा न्मन्ये खांडवमेप
 पांडव इव श्रीराजसिंहो नृपः ॥ ४१ ॥ टोंकंच सांभरिग्रामाल्हालसोर्दिच चाटसूं ॥
 रानेंद्रसुभटाजित्वा दंडयित्वा बभुर्भृशं ॥ ४२ ॥ राना अमरसिंहोत्रवलीया
 मद्रयं स्थितः ॥ राजसिंहः स्थितस्तत्र चित्रं नवदिना वधि ॥ ४३ ॥ घनांबु-
 युक्छाडनिनिघ्नगाऽगता नदीभवत्ये वहिनीच गामिनी ॥ विघ्नकृतो नीचतया
 तया ततः श्रीराजसिंहः स्वपुरे समागतः ॥ ४४ ॥ मनोज्ञतरुणी गणश्रितग
 वाक्षपक्षद्वये विचित्रपटघट - - - - - ॥ समुद्रटभट्टै
 र्युते करटिसद्घटाटोपकं महोदयपुरे नृपः प्रविशतिस्मवीरोन्नतः ॥ ४५ ॥
 इति राजप्रशस्तिमहाकाव्ये सप्तमः सर्गः

॥ श्रीगणेशायनमः ॥ सते सप्तदशे तीते चतुर्दशमितेब्दके ॥ शिविरेच्छा
 इनि नदी तीरस्थे ज्येष्ठमासके ॥ १ ॥ औरंगजेबं दिल्लीशं जातं श्रुत्वा थ तन्मुदे ॥
 अरिसिंहं प्रेषितवान् भ्रातरं नृपतिस्ततः ॥ २ ॥ अरिसिंहं सिंहनदप्रयांतं गत-
 वान् ददौ ॥ अरिसिंहाय दिल्लीशः सडूंगरपुरादिकान् ॥ ३ ॥ देशान् गजादि
 तत्सर्वं अरिसिंहः समर्पयत् ॥ श्रीराजसिंहचरणे सोस्मै योग्यं ददौ मुदा ॥ ४ ॥ गते
 शते सप्तदशे तु वर्षे चतुर्दशाख्ये चहुवाणवर्ष्य ॥ सूजाख्यसोदर्यवरेण युद्धं
 औरंगजेबस्य वितन्वतोस्य ॥ ५ ॥ मुदे कुमारं सिरदारसिंहं संप्रेषयामास नृपः
 पुरैवः ॥ औरंगजेबस्य पुरःस्थितोसौरणे कुमारो जयवान्स जातः ॥ ६ ॥

औरंगजेवः सिरदारसिंह वीराय देशाश्व गजाद्य दात्सः ॥ राणांघ्रि पद्मेर्षयदेव
 सर्वं योग्यं स चास्मै प्रददे नृपेन्द्रः ॥ ७ ॥ पूर्णं सप्तदशे शते नरपतिः सत्पोडशास्ये
 ब्दके आकार्योत्त मठकुरैर्गिरिधरं तं डूंगराद्ये पुरे ॥ सद्राज्यं किल रावलं विदधता
 कृत्वात्मनः सेवकं प्रेम्णा स्मै प्रददौ सु योग्य मखिलं सेवां व्यधाद्रावलः ॥ ८ ॥
 शते सप्तदशे पूर्णं वर्षे शोडष नामके ॥ श्रावणे तु वसाडास्य देशं दृष्टुं नृपो ययौ
 ॥ ९ ॥ भट्टै रुद्रटै रावलाद्यै वलाढ्यैः प्रचंडश्च वेतंडवर्यै रुपेता ॥ गृहीत्वा
 महावाहिनी राजसिंहः प्रतस्थे वसाड प्रदेशे क्षणाय ॥ १० ॥ ततो दुंदुभिः
 प्रोच्चशब्दैर्जिताब्दारवैः पार्श्वदेशस्थितानां जनानां ॥ विदीर्णानि वक्षांसि वक्षो
 विभिन्नं महारावतस्यापि नश्यद्बलस्य ॥ ११ ॥ भालोद्यत्सुलतानास्यचौहाणं
 तं महाबलं ॥ रावं सबलसिंहास्यं रघुनाथास्यरावतं ॥ १२ ॥ चौडावत्मुहकमसिंह
 शक्तावत्तत्तमंतथा ॥ एता न्पुरोगमा न्कृत्वा एतेषां बाहु माश्रयन् ॥ १३ ॥ सरावतो
 हरीसिंहो ययौ देवलियापुरात् ॥ आगत्य राजसिंहस्य राजेंद्रस्य पदेपतत् ॥ १४ ॥
 रूप्यमुद्रा सुपंचा शत्सहस्राणि न्यवेदयत् ॥ मनरावत नामानं करिणं करेणी
 मपि ॥ १५ ॥ शते सप्तदशे पूर्णं वर्षे पंचदशाभिधे ॥ वैशाखे कृष्णनवमी दिवसे
 भौमवासरे ॥ १६ ॥ महाराजसिंहाज्ञया वाँसवाले क्षणार्थं फतेचन्द मंत्री प्रतस्थे
 ॥ चमूं पंचराजत्सहस्राश्ववारैर्महाठकुरैर्गुंठितां तां गृहीत्वा ॥ १७ ॥ ततः समरसिंह
 स्य रावलस्या बलस्य वै लक्षसंख्यारूप्यमुद्रा देश दानं च हस्तिनीं ॥ १८ ॥ गजं
 दडं दशग्रामान् कृत्वा ऽ पातयदंघ्रिषु ॥ राणेंद्रस्य फतेचंदो भृत्यंकृत्वैवरावलं
 ॥ १९ ॥ दशग्रामान् देशदानं रूप्यमुद्रावले नृपः ॥ सद्द्विंशतिसहस्राणि रावलाद्य
 ददौमुदा ॥ २० ॥ श्रीराजसिंह वचनात् फतेचंदः सठकुरः ॥ चक्रे देवलियाभंगं
 हरिसिंहः पलायितः ॥ २१ ॥ हरिसिंहस्य मातातु गृहीत्वा पौत्रमागता ॥ प्रतापसिंहं
 विदधे प्रसन्नं राणमंत्रिणं ॥ २२ ॥ रूप्यमुद्रासहस्राणि विंशत्याख्यानि हस्तिनी
 ॥ दंडंप्रकल्प्यस्वलपंस फतेचंदोदयामयः ॥ २३ ॥ राणेंद्रं चरणाभ्यर्णं आनयामास
 तंबलात् ॥ प्रतापसिंहं जातस्तत् फतेचंदः प्रभोः प्रियः ॥ २४ ॥ अखेराजं
 सिरोहीशं रावं भक्ततमं स्फुटं ॥ प्रेम्णैव वश्यं कृतवान् राजसिंहो महीपतिः ॥
 २५ ॥ शते सप्तदशे पूर्णं पोडशेब्दे थ फाल्गुने ॥ दहवारी महाघट्टे शैलश्लिष्टे
 नृपो व्यधात् ॥ २६ ॥ द्विधाक्त करपत्राभ लोहपत्रोच्च कीलयुक् ॥ वैरिधी
 पाटनप्रोच्च कपाट युगलं दधत् ॥ २७ ॥ अनर्गल द्विषच्चिता र्गलरूपा र्गलायुता
 ॥ सिंह प्रकोष्ठः सत्कोष्ठं द्वारं द्विद्वार वारणं ॥ २८ ॥ कुलकं ॥ शते सप्तदशे
 पूर्णं वर्षे सप्तदशे ततः ॥ गत्वा कृष्णगढे दिव्य महत्या सेनया युतः ॥ २९ ॥

दिल्ली शार्थ रक्षिताया राजसिंह नरेश्वरः ॥ राठोड रूपसिंहस्य पुत्र्याः पाणिग्रहं
 व्यधात् ॥ ३० ॥ एकोनविंशति स्वब्दे शते सप्तदशे गते ॥ मेवलं देशमतनोत्
 स्वकीयं तं बलं नृपः ॥ ३१ ॥ मीनान्निर्जल मीना भान् रुध्वा बध्वातिदः करान्
 ॥ खंडयामासु रधिकं मीना सैन्यं महाभटाः ॥ ३२ ॥ श्रीराणा राजसिंहेन्द्रो
 मेवलं त्वखिलं ददौ ॥ स्वीय राजन्य धन्येभ्यो वासोह पधनानिच ॥ ३३ ॥ शते सप्त
 दशे तीते विंशत्या द्वय वत्सरे ॥ श्रीराजसिंह स्याज्ञातः सिरोही नगरेगतः ॥ ३४ ॥
 रानावतोरामसिंहः ससैन्यो रावमाकुलं ॥ पुत्रेणोदयभानेन रुद्धं कृतानयद्वलात्
 ॥ ३५ ॥ अखेराजं तस्यराज्ये स्थापयामास तत्स्फुटं ॥ राणामित्रारि राज्यानां
 स्थापकोत्थापकाइति ॥ ३६ ॥ शतेसप्तदशे पूर्णे एकविंशतिनामके ॥ वर्षे मार्गेऽ
 सिताष्टम्यां राजसिंहो महीपतिः ॥ ३७ ॥ अनूपसिंह भूपस्य वाघेला बांधवप्रभोः
 ॥ भावसिंहकुमाराय कन्यामजबकूंवरिं ॥ ३८ ॥ संकल्प्य विधिना दत्त्वा महाराज
 न्यपंक्तये ॥ गोत्रजाद्यन्यकन्याना मष्टायां नवतिं ददौ ॥ ३९ ॥ अथायं
 पाकशालायां राजसिंहो नरेश्वरः ॥ भावसिंहकुमाराद्यै वींधवीयैस्तुबाहुजैः
 ॥ ४० ॥ अस्पर्शभोजिभिः साक मुपविष्टो विशिष्टभाः ॥ कुर्वाणोभोजनं भाति
 बांधवायै स्तदेरितः ॥ ४१ ॥ श्रीराणा राजसिंहस्य यदन्नमतिपावनं ॥ तज्जगन्नाथ
 रायस्य प्रसादान्नसंशयः ॥ ४२ ॥ तदन्नभोजिनोह्यद्य वयंप्राप्ताः पक्त्रितां ॥
 हयान्गजान्भूषणानि वरेभ्यो दान् महीपतिः ॥ ४३ ॥ पूर्णेशतेसप्तदशे सुवर्षे
 तथैकविंशत्य भिधेतुमाघे ॥ सुरूप्यमुद्रा द्विसहस्र हेम कृतांशुभो पस्करपूरितां च
 ॥ ४४ ॥ सूर्योपरागेतु हिरण्य कामधेनुं महादान मदात्सरूप्यां ॥ व्यधात्तुलां
 वा गजमौक्तिकाख्यां गजंददौ वीरवरो नरेन्द्रः ॥ ४५ ॥ शतेसप्तदशे पूर्णे
 पंचविंशति नामके ॥ वर्षे माघे राजसिंहो दशम्यां शुक्लपक्षके ॥ ४६ ॥ बडी
 ग्रामे तडागस्योत्सर्गं रूप्यतुलां व्यधात् ॥ नामाकरोत्तडागस्य जना सागर
 इत्ययं ॥ ४७ ॥ ददौ गरीबदासाख्य पुरोहितवरायसः ॥ ग्रामंतु गुणहंडाख्यं
 तथादेवपुराभिधं ॥ ४८ ॥ षट्लक्षाणि सहस्राणि अष्टाशीति मितान्यहो ॥
 लग्नानिरूप्य मुद्राणां तडागेभद्रदायके ॥ ४९ ॥ जनादेनामशुक्तायाः स्वमातुः स्वर्ग
 संस्थितेः ॥ अर्पयामास सुकृतं राजसिंह इदं नृपः ॥ ५० ॥ तथो दयपुरे त्वस्मि
 न्दिनेराण नृपोक्तिः ॥ महाराज कुमारश्री जयसिंहो महाश्रिया ॥ ५१ ॥ उत्सर्ग
 रंगसरस स्तडागस्या करोन्मुदा ॥ महादानानि कृतवा न्वीरो वाल्येति पुण्यकृत
 ॥ ५२ ॥ श्रीराणोदयसिंह सूनु रभवत् श्रीमत्प्रतापः सुतस्तस्य श्रीअमरेश्वरो
 स्यतनयः श्रीकर्णसिंहोपिवा ॥ पुत्रोराण जगत्पतिश्च तनयो स्माद्राजसिंहोस्यवा

पुत्रः श्री जयसिंह एकतवाञ्चीरः शिला लेखितं ॥ ५३ ॥ पूर्णे सप्तदशे शते तपसिवा सत्पूर्णिमाख्ये दिने द्वात्रिंशन्मितवत्सरे नरपतेः श्रीराजसिंह प्रभोः ॥ काव्यं राजसमुद्र मिष्ट जलधे रुत्सर्ग सद्दर्पणा संपूर्ण रणछोड भद्र रचितं राजप्रशस्त्या क्वयं ॥ ५४ ॥ इतिश्री अष्टमः सर्गः ॥ संवत् १७१८ अषरे संवत् सतरेसे अठारे होतरा वरषे माघमासे कृष्णपक्षे सप्तमी दीवसे बुधवासरे श्री राजसमुद्ररो आरंभरो महोरत कीधो संवत् १७३२ अषरे संवत् सतरेसे बतीसा वरषे माघमासे सुकलपक्षे पूर्णमासी दिवसे वृहस्पतिवारे श्री राजसमुद्ररी पृतिष्ठा कीधी श्रीजीराजसमुद्र डोरो दिन ६ माहे फेर्यो ने पाछा पधारने तुला सोनारी बेसेने समस्त ब्राह्मण भाट चारणाने दान दीधोजी भट रणछोडजी पुत्र सुत लषमीनाथ गजधर कल्याण गजधर मोहणजी उरजण केसोजी सुंदरलाल जात सोमपुरा वास उदयपुर ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ वृत्तास्योडुपशोभितः प्रविलसल्लावण्यकल्लोलवान् प्रोल्लोल न्मकराच्छकुंडलधरो राजीव राजीक्षणः ॥ माणिक्योज्वलहीरकोत्तममहा भूषः प्रबालैर्लसन् शृंगारामृतसागर स्तव मुदे गोवर्द्धनोद्धारकः ॥ १ ॥ महाराजाधिराजश्री जगत्सिंहे विराजति ॥ वत्सरेष्टनवत्याख्ये शते षोडशके गते ॥ २ ॥ श्रीकुमारपदे पूर्वे राजसिंहो ययौ प्रति ॥ दुर्गं जैसलमेराख्यं पाणिग्रहकृते तदा ॥ ३ ॥ द्वादशाब्दवया एव प्रवया इव बुद्धिमान् ॥ द्वादशात्मस्फुरत्तेजा इदृशीं मति मादधे ॥ ४ ॥ धोयंदासनवाडश्च सिवाली च भिगावदा ॥ मोर्चना चपसुंदश्च खेडी छापरखेडिका ॥ ५ ॥ तासोल मंडावरको भानोग्रामो लुहानकः ॥ वांसोल गुढलीएषां काकरोली मढाइति ॥ ६ ॥ ग्रामाणां सीन्निदृष्टाक्ष्मां तडाग करणोचितां ॥ स्वमनः स्थापयामास बहुमत्रजलाशयं ॥ ७ ॥ धर्मकार्ये मतेर्धर्ता शत्रोर्धर्ता सदारणे ॥ यदाराज्यस्य कर्तायं भुवोभर्ता भवत्तदा ॥ ८ ॥ शतेसप्तदशपूर्णे अष्टादशमितेब्दके ॥ मासेमार्गे ययौ द्रष्टुं रूपनारायणं हरिं ॥ ९ ॥ तदैनां वीक्ष्यवसुधां तडागंबहु मुद्यतः ॥ पुरोधसा करोन्मंत्रं कार्यस्यादितिसो वदत् ॥ १० ॥ श्रद्धा पूर्णाऽविरोधित्वदिल्लीशेन व्ययोबहुः ॥ द्रव्यस्येति भवेच्चेत्स्या द्राज्ञोक्तंस्यात्त्रयं ततः ॥ ११ ॥ पुरोहित करश्रीमत् पुरोहितपुरः सरः ॥ पुरोहित जयीराजा कार्यकर्तु मथोद्यतः ॥ १२ ॥ अखर्वयोः पर्वतयो रंतरेगो मतींनदीं ॥ रोडुंबहुं महासेतुं रानेन्द्रो यत्नमादधे ॥ १३ ॥ पूर्णेसप्त दशाभिधे तु शतके स्वष्टादशाख्येब्दके माघेकृष्ण सुपक्षके किलबुधे सत्सप्तमीवासरे ॥ इदृक्संख्य इहे दशाङ्कययुते कालेतुकार्येकृते सरख्यातः खलुनामतो पिचसमो

मे वाञ्छितोर्थो भवेत् ॥ १४ ॥ पूर्णोत्रेतिच सप्तसागर दशा साष्टादश द्वीपक
 श्रेण्यास्वीययशः प्रकाश कृतये माऽधोमम स्यात्कचित् ॥ कृष्णः पक्षकरो बुधाः
 स्तुति कराः सत्सप्तमी दिग्ध्रुव ध्रौव्यार्थं तु जलाशयस्य कृतवान्भूपो मुहूर्तग्रहं ॥ १५ ॥
 सेतुं बद्धुं बद्धपणौ धृतचित्रखनित्रकैः ॥ जनैः खनन मारब्धं लुब्धैश्च धनलब्धये
 ॥ १६ ॥ तदोद्भटैः षष्टिसहस्रसंमितैः समुद्रसर्गे सगरात्मजै र्यथा ॥ अकारि भूमेः
 खननं तथांबुधिं कर्तुं द्वितीयं रचितं नृकोटिभिः ॥ १७ ॥ असंख्ये खनने तत्र
 जायमाने जनैः कृते ॥ पृथिव्यां पृथवोजाता मृत्तिकौघेन पर्वताः ॥ १८ ॥ महत्कार्यं
 महाराणा मत्वा साधारणै र्जनैः ॥ नभवेत्तत्स्वयंस्थिता कारयन् भातियुक्ता
 ॥ १९ ॥ मत्वा रानो महत्कार्यं सेतुबंधं नृबंधहत् ॥ स्वस्याग्रे कारयामास तथैव
 कृतवान्प्रभुः ॥ २० ॥ कार्यस्य महतोह्यस्य कृत्वाभागा ननेकशः ॥ राजन्यादिक
 धन्येभ्यो दत्तवांस्ता न्धरापतिः ॥ २१ ॥ सेतोर्दाढ्यं कृतेपृथ्व्याः पृष्ठेस्थापयितुं शिलाः ॥
 जलनिःसारणं कर्तुं प्रयत्नं कृतवान्प्रभुः ॥ २२ ॥ शक्रं पराक्रमैः कालमायुषा धनदंधनैः ॥
 जित्वां बुकर्षणे राणा वक्षणं जेतु मुद्यतः ॥ २३ ॥ तदा चक्रभृता तत्र घटीयंत्रण
 यत्कृतं ॥ वृषयुक्तेन कार्यस्य सहाय्यमुचितं हितत् ॥ २४ ॥ क्रियमाणे घटीयंत्रै र्जलनिः
 सारणे जनैः ॥ तेषां तत्कार्यकरणे सार्थकः सघटीगणः ॥ २५ ॥ स्वतंत्रैश्च घटीयंत्रै र्
 रस्वतंत्रैः स्फुरद्वृषैः ॥ घटीमात्रेण घटितै र्भूरि निः सारितं जलं ॥ २६ ॥ जलयंत्रै र्बहु
 विधै रुपर्युपरिकल्पितैः ॥ लोकै र्भूषणं नीरं सर्वं दूरीकृतं द्रुतं ॥ २७ ॥ अस्मिन्
 भरतखंडेतु यावंतः संतिसांप्रतं ॥ जलनिः सारणो पाया स्तावंतः कल्पिता इह ॥ २८ ॥
 गुणिभिः सूत्रधारैश्च पामरैरपियैः पुनः ॥ जलनिः सारणो पायाः प्रोक्तास्ते निर्मिता
 इह ॥ २९ ॥ इतो निः सारितं नीरं सारणी प्रसरैः परैः ॥ ग्रामेग्रामे जनैर्नीतं ग्रामा
 नगरतां गताः ॥ ३० ॥ यथा ज्योतिष सारण्यावासर श्रेष्ठ साधनं ॥ कृतं तथांबुसारण्या
 वत्सरः श्रेष्ठसाधनं ॥ ३१ ॥ एवं नाना प्रकारेण जलनिः सार्यं सर्वतः ॥ सेतुबंध
 कृतेलोकै र्भूषणं प्रकटीकृतं ॥ ३२ ॥ प्रत्यरुनीरवर्षो जितइंद्रो गिरिधरेण कृष्णेन ॥
 वरुणः परोक्ष पूरितजलो जितोराण तत्त्वयाचित्रं ॥ ३३ ॥ पूर्णं सप्तदशे शतेब्द
 उदिते दिव्यैक विंशत्यभि व्याप्ताख्ये दिवसे त्रयो दशिकया शस्याख्य याक्ते-
 शुभे ॥ वैशाखे सितपक्षके खलुविधो वीरेकिलै तादृशे कालेभावि सुकार्य सूचक
 समानार्थं ब्रजाख्या युते ॥ ३४ ॥ जंबुद्वीप वदन्य सप्त दशसु द्वीपेषु कीर्त्याप्तये
 निद्योद्य निरयैक विंशतिमहा दुःखस्थला दृष्टये ॥ घस्त्रेशद्युति लब्धये कुलमहा
 शाखा विवृद्धौ सदा लाभार्थं सितपक्ष कस्यचविधु स्वाल्हादकलाप्तये
 ॥ ३५ ॥ श्रीराणा राजसिंहोयं सेतोः सत्पद पूरणं ॥ कर्तुं मुहूर्तं कृतवा

न्नवग्रह वलान्वितः ॥ ३६ ॥ कुलकं ॥ गरीबदासस्य पुरोहितस्य ज्येष्ठः
 कुमारो रणछोडरायः ॥ महाशिलां पंच सुरत्नपूर्णा मादौ दधे तत्र पदस्य
 पूर्णैः ॥ ३७ ॥ दृढोपलप्रदानेन सुधापानेन यत्ततः ॥ सेतोःपदस्याजरत्न
 ममरत्नं कृतंजनैः ॥ ३८ ॥ महासेतोः प्रबंधेस्मि न्महाकार्ये महागजैः ॥ सुधा
 चूर्णं समानीतं परिपूर्णं नचाद्भुतं ॥ ३९ ॥ सर्वतो मुख रूपस्य जलस्य मुख मुद्रणं
 ॥ धीरादर कृतयुक्तं राजसिंह त्वयाकृतं ॥ ४० ॥ छिद्रान्वेषी जलगण
 इहक्ष्माप सर्वसहोद्य न्मूर्द्धनिस्वीयं दध दति पदं दृष्ट मात्रं त्वयातु ॥
 यत्रै वात्रो चित मिति शिलाश्रेणिभिः क्षारचूर्णाः ॥ पूर्णाभि द्राक्त दतुल
 मुखो न्मुद्रणं स्टष्टमेव ॥ ४१ ॥ नूनं कामो सिराणैद्र यत्र तत्रो दितच्छलात् ॥
 शंबरं मुद्रितं तन्वन् युक्तंसेतु प्रबंधकृत् ॥ ४२ ॥ कबंध विक्रमजयी वानर ब्रज
 पोशकः ॥ रामक्रमाभिरामोसि सेतुंबध्नासि युक्तता ॥ ४३ ॥ गोत्रैणैकेनचक्रे
 हरिरमित जलं दूरतः शुक्रमुक्तं सप्ताहं श्रीमतातद्वरुण समुदितं वारिदूरीकृतंहि ॥
 आसप्ताब्दं सुगोत्रा तुलितभरभृता तांत्रिलोकप्रपूर्ति स्वत्कीर्तिः कृष्णकीर्ते रपिभवति
 परा कृष्णभक्तस्यवीर ॥ ४४ ॥ श्रीराजसिंहः प्रथमं शरीबंधमकारयत् ॥ महा
 सेतोस्ततः पश्चात्सेभरो बंधनदृढं ॥ ४५ ॥ मत्स्याः पांडररक्तपीत रुचयः सेतो
 स्तभागेपुरे पातालात्किल निर्गताः शुभतरं गर्भोदकं निसृतं ॥ तेनोक्तंविहसूत्रधार
 निपुणै रंभोत्यगाधंभवे द्रूपालाय निवेदितं नरपतिः श्रुत्वास्मितास्यो भवत् ॥ ४६ ॥
 रामोनांभोपसार्यक्षितिशिरसिनवा कारयामाससेतुं गोत्रैर्द्राग्वानरैर्वा ॥ दृढइतिधनुषा
 वानरामुंबभंज ॥ दूरीकृत्यांबुष्टे भुवनइहनरैः सृष्टवान्सूपलैस्त्वं सञ्चूर्णैरामवंश्याधिक
 दृढइतिते तत्कृपातोस्तिसेतुः ॥ ४७ ॥ स्थलेजलाशयः सृष्टो जलेसेतोस्थलं
 त्वया ॥ कांतारे नगरं सृष्टं वीरते देवपूर्णता ॥ ४८ ॥ इतिभट्टरणछोडकृते श्री
 राजप्रशस्ति काव्ये ॥ इति नवमः सर्गः ॥

श्रीगणेशायनमः ॥ सुवर्णं सत्पूरित भासमानः श्री द्वारिकायां घन भासमानः ॥
 चतुर्भुजो राजसमुद्र तीरे श्री द्वारिकानाथ हरिः सु तीरे ॥ १ ॥ आनीत मंभः
 किल राज मन्दिरं द्रव तृषौघै र्महिषै र्जनव्रजैः ॥ सत्कार्यं वर्ये बहु शस्तदानीं व्याघ्रेण
 वा नीतमिदं तदद्भुतं ॥ २ ॥ सुवर्णं शैले किल जिष्णु रूपः श्री राजसिंह कृतवान्
 मनस्वी ॥ जेतुं जगत्या मसुरान् सु दुर्गं स्वमंदिरं सुन्दरम द्वितीयं ॥ ३ ॥ पूर्णै
 शते सप्तदशे तु मार्गे वर्षेत्र षड्विंशति नाम्नि भूपः ॥ पांडोर्दशम्यां क्षिति मन्दिरेंद्रः
 प्रासाद मध्ये कृतवान् प्रवेशं ॥ ४ ॥ शते सप्तदशे तीते षड्विंशति मिते ब्रके ॥
 ऊर्ज कृष्ण द्वितीयायां राजसिंहो महीपतिः ॥ ५ ॥ हेम्नः पल शतैः सृष्टं पंच
 कल्प द्रुमै र्युतं ॥ हेम्नः पल शतैः सृष्टं महाभूत घटाभिधं ॥ ६ ॥ हिरण्याश्व

रथं रूप्य मुद्रा दशशतैः कृतं ॥ दत्त्वा महादान युग मेतद्विप्रा न तोषयत् ॥ ७ ॥
 विप्रेभ्यो राजसिंहः प्रभुमुकुट घटः श्री महाभूत पूर्वो दत्त्वा देव द्रुमाक्तः सकल सुरमयो
 मेरु रेवत यायं ॥ तद्देवाः स्थान हीनाः कृतमतय इतो ब्राह्मणेषु प्रविष्टा स्तेजाता
 भूमिदेवा दधति गृहगणे मेरुभोगं तदीये ॥ ८ ॥ एकादश सहस्राणि षट्शतानि च
 सप्ततिः ॥ लग्नानि लग्न रूप्यस्य मुद्राणां दान योरिह ॥ ९ ॥ पूर्णे शते सप्त
 दशे थ वर्षे चकार षड्विंशति नाम्नि राधे ॥ सित त्रयोदश्य भिधेन्हि सेतोर्नृपो मुहूर्त
 पुरि कांकरोल्यां ॥ १० ॥ ततोत्र खातो रचितः पृथिव्यां जनैर्विचित्रैः पृथुभिः
 खनित्रैः ॥ महाशिलाभिः ससुधाभराभिः सेतोः पदं पूरित मेव तुंगं ॥ ११ ॥
 पूर्णे शते सप्तदशे थ वर्षे आषाढ मासादिक एव जाता ॥ ज्येष्ठे षड्विंशति नाम्नि
 नव्या जलस्थिति र्दृष्टि भवातडागे ॥ १२ ॥ पूर्वत्राषाढ बहुल पक्षे स्मर तिथौ
 रवौ ॥ द्विषष्टिके नवा पंच मासैः षड्भिर्दिनैः कृतं ॥ १३ ॥ मुखसेतोस्तु भू पृष्ठसुधा
 पूर्ण शिलागणैः ॥ पूरितं भित्ति रूपोच्चं सूत्रधारैर्ध्रुवंकृतं ॥ १४ ॥ इदकाल कृतस्या
 स्य दृष्ट्वा सिद्ध्य ष्टकं नृणां ॥ पंचेन्द्रियाणां पापांतः षडूर्मि हरणं भवत् ॥ १५ ॥
 अस्मिन्महावत्सर एव नव्यं संस्थापितं यत्तु जलं तडागे ॥ दूरीकृतं तत्तु समस्तमेवं
 जनैश्चतुष्की करणे प्रवीणैः ॥ १६ ॥ आशा चतुष्का गतमानवैर्नवैर्नानाचतुष्क्यः
 खनिता जलाशये ॥ दृष्ट्वा चतुष्की युत एव सोद्भूतं नृणां पुमर्थो च चतुष्कदो
 भवत् ॥ १७ ॥ ततश्चतुष्की गणनिः सृतानां मृदां समूहा मनुजै र्दृषाद्यैः ॥
 सहस्रसंख्यैः सुखतः प्रणीता मध्यस्य सेतोः परिपूरणाय ॥ १८ ॥
 मृदांगणैः कल्पित पर्वतौघाः सेतौनिलीनाः कचनैव दृश्याः ॥ यथा
 पुरा राघव सेतुबंधे याता विलीनत्व महोगिरीन्द्राः ॥ १९ ॥ शतेसप्तदशे पूर्णे
 सप्तविंशतिनामके ॥ वर्षे स्वजन्मदिवसे हेम हस्ति रथं शुभं ॥ २० ॥ हेम्नो
 विंशत्यग्रदशशततोलकनिर्मितं ॥ महादानविधानेन राजसिंह नृपोददौ
 ॥ २१ ॥ पूर्णेशते सप्तदशेसुवर्षे सत्सप्तविंशत्यभिधे मुहूर्तः ॥ आषाढ मासे ऽ
 सितसच्चतुर्थ्यां नृपेणनौः स्थापन कस्यसृष्टः ॥ २२ ॥ जनैस्तृतीया
 दिवसेतुनौका योग्यं जलं नेति कृते विचारे ॥ आगामिवर्षतु वृहस्पतिः
 स्यात् सिंहस्थितस्तत्सुमुहूर्त एषः ॥ २३ ॥ नान्योत्र वर्षेस्ति तडागकार्ये मुख्य
 स्तुराणावत रामसिंहः ॥ तदोक्तवानस्तिहि चोकडीन मध्ये जलं क्षेप्य
 मिहान्य दंभः ॥ २४ ॥ नौका मुहूर्तोस्तु महापुरोध्या गरीबदासा भिध उक्तवान्यः
 ॥ अग्रेप्रभोरेष जनाविचारं कुर्वति राजन्निति वामहान्तः ॥ २५ ॥ आश्चर्य मेषा
 मम भाति चित्ते स्यात्कार्य मासीत्सुखवा नृपस्तत् ॥ श्रुत्वा द्विजान्वा रुणसूक्त मंत्रं

जप्त्वास विद्वान दिशत्पुरोधा : ॥ २६ ॥ शृंगार पूर्णा प्रविधाय नौकां मुहूर्त्तमा
 गामिसु वासरेतु ॥ नौकाधि रोहस्य मुदा विधातुं कृतप्रतिज्ञं नृपराजसिंहं ॥ २७ ॥
 समीक्ष्य शक्रोपि सचिंतएवा भवत्तदास्मि न्समये मयाचेत् ॥ क्रियेतवृष्टि न्तदा-
 ममैव दोषवदिष्यंति जनाः समस्ताः ॥ २८ ॥ इंद्रात्प्रभुत्वं त्वितिपद्यपाठ चित्ते-
 वधार्ये तिममांशएषः ॥ पूर्णास्यकार्ये तिमया प्रतिज्ञा रक्ष्याद्विजाना मपिसु प्रतिष्ठा
 ॥ २९ ॥ ततस्तृतीया दिवसे द्वितीये यामे ववर्षुर्जलदा मुहूर्त्तं ॥ नौकाधिरोहस्य
 चकारभूपो मंदाकिनी नौः स्थित शक्र तुल्यः ॥ ३० ॥ उक्तं जनैः कर्तुमयं
 यदेव समुद्य तस्त त्परमेश्वरोत्र ॥ करोति चाग्रे सफलं सुकार्यं भविष्यती त्यस्य
 तयो भवत्तत् ॥ ३१ ॥ पूर्णेशते सप्तदशे सुवर्षे ऽ षाविंशतिभ्रा जितनामधेये ॥
 राकातिथौ नालविमुद्रणंद्राक् ज्येष्ठे कृतं सूत्र धरै नृपोक्त्या ॥ ३२ ॥ शते सप्त-
 दशे पूर्णे एकोनत्रिंशदाह्वये ॥ वर्षे विधुग्रहे माघे दानं कल्पलतात्मकं ॥ ३३ ॥
 हेमः सार्द्धशतद्वंद्व पलैः स्तष्टं ददौ तथा ॥ हेमः स्व शीत्य ग्रशत तोलकैः परि-
 कल्पितैः ॥ ३४ ॥ हलैस्तु पंचभि युक्तं पंचलां गलनामकं ॥ भावलीग्रामसंयुक्त
 महादानं ददौ नृपः ॥ ३५ ॥ अष्टाविंशत्यग्र दश शततोलक संमितिः ॥ हेमः
 समभव दिव्य दानयो रनयोरिह ॥ ३६ ॥ पूर्णे शते सप्तदशे सदेकोनत्रिंश दाख्या-
 ब्दसु फाल्गुनेत्र ॥ कृष्णात्तमेका दशिकादिनेवा शुभे भवानीगिरि पार्श्वदेशे ॥ ३७ ॥
 सत्संगि कार्यस्यतु मुख्यसेतौ नृपो मुहूर्त्तं कृतवा न्कृतींद्रः ॥ श्लक्षणीकृतैः पांडर-
 वर्णसाधु सुधाधिसिक्तै र्दृढसंधिबंधैः ॥ ३८ ॥ महो पलैः पेशल सूत्र धारै र्वितन्य
 मानं किल संगिकार्ये ॥ धृते दृढे संगिनि कार्यं वर्ये नृपस्य चित्तं सुख संगि जातं ॥
 ३९ ॥ शते सप्तदशे तीते एकोन त्रिंशदाह्वये ॥ ज्येष्ठस्य शुक्ल सप्तम्यां राजसिंहो
 महीपतिः ॥ ४० ॥ एकलिंगालये त्रिंद्र सरआख्ये जलाशये ॥ ससोपाने जीर्ण
 सेतौ प्रतोलीनां चतुष्टयं ॥ ४१ ॥ व्यधात्सुव प्रंसत्कार्यं सुशिला गणराजितं ॥
 अष्टादश सहस्राणि रूप्यमुद्रा वले रिह ॥ ४२ ॥ लग्नानि राणवीरोक्त्या प्रश-
 स्तिर्निर्मिता मया ॥ श्रुत्वा तां स ददा वाज्ञां शिलायां लिखनायमे ॥ ४३ ॥
 इति श्री राजप्रशस्ति नाम महाकाव्ये रणछोड भट्ट रचिते दशमः सर्गः ॥

श्रीगणेशायनमः ॥ सेतो र्मितिः पंच शतानिदैर्घ्ये मुख्यस्य वैपंच दशोत्तराणि
 ॥ तलेगजानां च शतानि पंच सैका न्यशीति प्रमितानि मूर्द्धनि ॥ १ ॥ विस्तरे
 पंच पंचाशन्मिता निम्नक्षितौगजाः ॥ दशोपर्युदये संति द्वाविंशतिमिताः क्षितौ
 ॥ २ ॥ निम्नायां पंचयुक्त्रिंश दूर्द्धं तत्र क्रमं वदे ॥ भूम्यूर्द्धं माष्टगजकं पीठ
 मेकोर्द्धयुग्गजः ॥ ३ ॥ मेखलात्रयमानं त्वासाद्दद्वादशसद्गजं ॥ तिलकत्रय मये

य त्रयोदश गजावधि ॥ ४ ॥ चत्वारः संगिकार्यस्य स्थरा एकस्थरं प्रति ॥
 सोपान नवकं त्वेवं षट्त्रिंश त्रिमितिः स्फुटा ॥ ५ ॥ सोपानाना मित्युदये पंचत्रिंश-
 द्रजेर्मितिः ॥ सप्त पंचाशदित्येवं गजाः सर्वोदयस्थितौ ॥ ६ ॥ त्रयंबुरिज
 कोष्ठानां कोष्ठे प्रासाद दिक्स्थिते ॥ दैर्घ्ये गजा स्तु पंचाश त्रिर्गमे पंचविंशतिः ॥
 ७ ॥ सत्पंच सप्तति वृत्ते त्रिंशदेवो दयेगजाः ॥ गर्भ कोष्ठं लंबतायां पंच सप्तति
 कागजाः ॥ ८ ॥ सार्द्ध सप्ताग्र कत्रिंश त्रिर्गमे वृत्त रूपके ॥ शतं सार्द्ध द्वादशकं
 गजानां च तथोदये ॥ ९ ॥ पंचत्रिंशद्गजाः कोष्ठं तृतीयं पूर्व कोष्ठवत् ॥ पंच
 चत्वारिंशदग्र शतमानं गजा मृदः ॥ १० ॥ भृतौ सेतो स्तु पाश्चात्य भागे प्रोक्ता
 स्ति लंबता ॥ गज सप्तशती माना विस्तारे निम्न भूतले ॥ ११ ॥ गजा अष्टा
 दशैवोर्द्ध्वं पंचैव मुदये तथा ॥ अष्टाविंशति संख्या स्तु सर्वा सेतो रियं स्थितिः
 ॥ १२ ॥ षट्त्रिंश दुद्यन्मिति शोभमाना सोपान माला महतो हि सेतोः ॥ विभाति
 कोष्ठत्रितयं तदेतद्भूपाल पालं वनकारि नूनं ॥ १३ ॥ धर्मा बुधावत्र महास्मृतीना
 मुपस्मृतानां विदधत्सु संगं ॥ देवत्रयं वात्र करोति वासं कलिप्लुतांम्लेच्छ भुवं
 विमुच्य ॥ १४ ॥ राजमन्दिर दिश्यस्ति स्थानंतु चतुरस्रकं ॥ सेतौ तत्रार्थवर्णाख्यो
 वेदस्तिष्ठति मंत्रवान् ॥ १५ ॥ जलहृद मयं तत्र शोभतेत्रार हृदकं ॥ तद्राजमन्दिराख्ये
 स्मिन्दुर्गे वाप्यां जलार्थकं ॥ १६ ॥ आस्ते नव चतुष्कीयुद्धमंडपं तत्र सुन्दरं ॥ जल
 दर्शि गवाक्षाक्त मतिचित्रकरंनृणां ॥ १७ ॥ महासेतौसंगिकार्य वर्येविजयतेपरं ॥ युक्तं
 नवचतुष्कीभीराजमंडप युग्मकं ॥ १८ ॥ नवखंडस्थ लोकानां दर्शना चित्रकारकं ॥
 षट्चतुष्की विलसित मेकंवाभातिमंडपं ॥ १९ ॥ पश्चाद्भागे महासेतो मंडपं
 त्रितयं तथा ॥ सभामंडप मेकंहि महासेतोरियं स्थितिः ॥ २० ॥ निंबसेतु प्रमाणंतु
 वक्ष्यामि क्षितिपालते ॥ दैर्घ्ये गजानां द्वात्रिंशदग्रंशत चतुष्टयं ॥ २१ ॥ विस्तारे
 पंचदशैव निम्न भूमौ गजास्तथा ॥ पंचोर्द्ध्व मुदयेचैव दशाथो भद्रसेतुके ॥ २२ ॥
 चतुश्चत्वारिंशदग्रं गजानां दैर्घ्यतः शतं ॥ विस्तारे द्वादशगजा स्तलेपंचैव मस्तके
 ॥ २३ ॥ त्रयोदशोदये भद्रं सुभद्रं चतुरस्रकं ॥ कोष्ठकं विंशतिगजा मृद्भृताविति
 संस्थितिः ॥ २४ ॥ कांकरोलि ग्रामसेतौ दैर्घ्ये निम्न धरातले ॥ पंचाशद्युक्
 पंचशती गजानां मूर्द्धनि सप्तवै ॥ २५ ॥ शतानिवा षट्पंचाशत्पंचत्रिंशच्चविस्तरे
 ॥ निम्नभूमौ सप्तगजा मस्तकेतूदये तथा ॥ २६ ॥ निम्न भूमौ सप्तदश गजा
 उपरिवाभुवः ॥ गजा अष्टत्रिंशदेव कोष्ठक त्रितयंत्विह ॥ २७ ॥ सभामंडप
 दिक्संस्था कोष्ठेऽष्टा विंशतिर्गजाः ॥ विस्तारे निर्गमेमाने चतुर्दश तथोदये
 ॥ २८ ॥ सार्द्धषट्त्रिंशदेवाथ सुभद्रे मध्य कोष्ठके ॥ षड्विंशद्विस्तरे पंच दश निर्गम

ने गजाः ॥ २९ ॥ उदयेष्टत्रिंशदेव तृतीयेपूर्वदिक् स्थिते ॥ कोष्ठे ऽ ष्टा विंशति
 मानी विस्तारे निर्गमे गजाः ॥ द्वादशैवो दयेसप्त त्रिंशदेव मृदाभृतौ ॥ पंच चत्वारिं-
 शदग्रं गजानां शतकं ततः ॥ ३० ॥ पाश्चात्यभागे सेतोस्तु गजानां चतुरस्रकं
 ॥ दैर्घ्येविस्तारतः पंचदश निम्न क्षितौ गजाः ॥ ३१ ॥ दशमूर्द्धन्यु दयेत्वद्य द्वाविंशति
 मिता गजाः ॥ अत्रोदयस्तु भवति अष्टत्रिंशद्गजावधिः ॥ ३२ ॥ अयोध्या रेणुका
 क्षेत्रव्रजेभ्यो म्लेच्छ भीतितः ॥ भांत्या गत्या ध्यात्म रूपै स्त्रिरामा कोष्ठकत्रये
 ॥ ३३ ॥ भृतौजीर्णेशनि लयमागते स्थापितं हितत् ॥ मार्गोस्य स्थापित स्तस्य-
 दर्शनं जायतेसदा ॥ ३४ ॥ रामसेतौ यथाभाति श्रीरामेश्वर मंदिरं ॥ तत्तुल्यं
 कांकरोलीस्थ सेतौभाति शिवालयं ॥ ३५ ॥ कांकरोलीस्थ सेतुग्रभागे वामंड
 पास्त्रयः ॥ चतुः स्तं भाविशोभन्ते सभामंडप एककः ॥ ३६ ॥ कांकरोली स्फुरत्से
 तोरग्रेतू परिभूभृतः ॥ शिलाकार्थं कृतंतत्र दैर्घ्ये गजशतत्रयं ॥ ३७ ॥ विस्तारो
 दययोः पंचगजाः पंचाथ नाशकं ॥ गोघट्ट पार्श्वे दैर्घ्येत्र चतुःपंचाश दुत्तमाः ॥
 ३८ ॥ गजा दशैव विस्तारे उदयेतु त्र - - - - गोबु - - - - दैर्घ्ये - -
 चतुःपंचाश देवतु ॥ चतुःपंचाशदेवात्र विस्तारे घट्टभूतले ॥ उदयेतु गजाः पंच भात्य
 कामह - प ॥ ३९ ॥ - - पा ग्राम पार्श्वेतु सेतोदैर्घ्ये गजावलेः ॥ द्वेसहस्रे ऽ ष्ट
 पष्टिश्च विस्तारेष्टा दशस्फुटं ॥ ४० ॥ तलेमूर्द्धनि गजाः सप्त चतुर्विंशति सद्गजाः ॥
 उदये कोष्ठक द्वंद्व मत्राष्टा समथैककं ॥ ४१ ॥ गजा अष्टाविंशति स्तुतत्र दैर्घ्येथ
 निर्गमे ॥ चतुर्दशो दयेसन्ति चतुर्विंशति सद्गजाः ॥ ४२ ॥ सप्तांगस्यापि राज्यस्य
 धर्मस्या त्रास्तिसुस्थितिः ॥ राणराज्ये ज्ञापकोष्ठ रेखाकं किमुकोष्ठकं ॥ ४३ ॥
 द्वितीय मर्द्ध चंद्राख्यं दैर्घ्ये विंशति सद्गजाः ॥ विस्तारे दशसंत्यत्र द्वादशैवो दये-
 गजाः ॥ ४४ ॥ अर्द्धचंद्र धर श्रीमद्रुद्र क्रीडा स्थलं हितत् ॥ पंचचत्वारिंश दग्र
 शतमाना मृदोभृतौ ॥ गजाः पाश्चात्य भागेतु सेतो दैर्घ्ये त्रयोदश ॥ शतान्येव
 गजानांतु निम्न भूमौ तथोपरि ॥ ४५ ॥ गजादशैव विस्तार उदये पंचवागजाः ॥
 वांसोलग्राम पार्श्वस्थ सेतोदैर्घ्ये गजावलेः ॥ चतुर्विंशति संयुक्त सुद्वादश शता-
 निहि ॥ ४६ ॥ विस्तारे ऽ ष्टादशगजा स्तलेपंचैव मस्तके ॥ त्रयोदशो दयेकोष्ठ
 त्रयमाद्ये त्रकोणमे ॥ ४७ ॥ गजाविंशति रेवात्र दैर्घ्य विस्तारयोः समाः ॥ द्वाद-
 शैवो दयेवेत चतुरस्रं सुभद्रकं ॥ ४८ ॥ सुभद्रदंसाऽरहटं सारहट्ट तदौचिती ॥ मध्य-
 कोष्ठे द्वादशैव दैर्घ्य निर्गमयोर्गजाः ॥ ४९ ॥ उदये सप्तदशवा अर्द्धचंद्रा कृति-
 त्विदं ॥ यद्दर्शनादर्द्ध चंद्रप्राप्ति दुःखं द्वि - गले ॥ ५० ॥ अष्टास्रकोष्ठं कमल
 बुरिजा इय मत्रतु ॥ दैर्घ्य विस्तारयो त्रिंशद्गजा नवतथोदये ॥ ५१ ॥ अत्रोज्वलो

पललसन्मंडपं सेतुमंडनं ॥ इष्टाष्ट पुत्रिका स्टष्ट क्रीडा दृष्टि मनोहरं ॥ ५२ ॥
जनाराज समुद्रं हिरन्ना करमिहांबुनि ॥ स्थित्वाष्टपट्ट राज्ञीस्ताः पश्यन्किं शेर-
तेहरिः ॥ ५३ ॥ अत्रसेतो रग्रभागे राजते मंडपत्रयं ॥ इति राजसमुद्रस्य
वीरेंद्रोक्त मया स्थितिः ॥ ५४ ॥ इति श्री राजप्रशस्तौ भट्ट रणछोड़ विरचिते
एकादशः सर्गः ॥ ११ ॥ आसोटियास्त सेत्वग्र भागे सन्मंडप त्रयं ॥ ६ ॥

श्रीगणेशायनमः ॥ ओटात्वेका त्रलंबत्वे सार्द्ध द्विशत संमिताः ॥ गजादश च
विस्तारे सार्द्धैक सुगजो दयाः ॥ १ ॥ ओटाद्वितीय विस्तारे दैर्घ्यं पूर्वं समोदये ॥
सार्द्धद्विगजमानास्ति तृतीयोटातु दैर्घ्यतः ॥ २ ॥ गजत्रिंशत मानास्ति विस्तरे
त्रगजादश ॥ उदये सगजद्वंद्वं मंडपत्रय मत्रहि ॥ ३ ॥ ओटात्रय मि-
दं भाति यावद्गज सुविस्तरं ॥ तावद्ग्राम गणं नीरे पूर्णं वितनुते ध्रुवं ॥ ४ ॥
मोर्चना ग्राम सीमन्यस्ति तटाकं तर्लघुगिरिः ॥ शृंगेस्य मंडपो दृष्ट्या पश्चिमैर्ध
दमप्पतेः ॥ ५ ॥ पड्स्थंभो मंडपोस्त्यत्र गोष्ठीं पल्यंक सेवकाः ॥ कुर्वति मंडपास्तत्रे
त्येकविंशति मंडपाः ॥ ६ ॥ ग्रामास्तडागे त्रायाताः सिवालीच भिगावदो ॥ भाणो
लुहाणो वासोल गुढली त्यखिला इमे ॥ ७ ॥ मोर्चना च पसोदश्च खेडि छापर
खेडिका ॥ तासोल एषां ग्रामाणां सीमा मंडा वरस्यच ॥ ८ ॥ तडागे त्रागता
नद्यो गोमती ताल नाम युक् ॥ कैलवास्त नदीसिंधौ गंगाद्या विविशुर्यथा ॥ ९ ॥
काकरोली लोहाणाख्या सिवालीनां जलाशयाः ॥ निपान वापी कूपाश्च त्रिंशत्संख्या
इहागताः ॥ १० ॥ सर्वसेतु मितिर्दैर्घ्यं चतुःषष्टि शतानिच ॥ त्रयोदशा ग्राणि
तथा गजानाम परंवदे ॥ ११ ॥ श्रीराजसिंह नृपते रग्रे गजधरैः कृता ॥ गाला
योगेन दैर्घ्येष्ट सहस्राणि गजावलेः ॥ १२ ॥ विश्वकर्माकृत वानेवं तडागानां तुलंवता
॥ कर्तव्या पड्सहस्रोद्य द्रजमाना वधिः परा ॥ १३ ॥ तावत्संख्या मितंकोपि
तडागंकृतवान्नवं ॥ तया सप्तसहस्रोद्य द्रजलंबो जलाशयः ॥ १४ ॥ सेतुंकृत्वाविरचितो
धर्मसेतु धरापते ॥ श्रीरामसेतुप्रतिमः कीर्तिसेतुः प्रभातिते ॥ १५ ॥ कोष्ठानिद्वादशा
त्रैत दृष्टान्दृष्टां फलंभवेत् ॥ पाठस्य द्वादशस्कंध युक्तभागवतस्यसत् ॥ १६ ॥ एकविंशति
संख्यानि मंडपानि तदीक्षणात् ॥ एकविंशतिदुःखानामभावो भविनांभवेत् ॥ १७ ॥
चत्वारिंशदथाष्ट युक्समभवन्सेतौमहा मंडपा स्तेष्व्वादौबहुमूल्य बस्त्र रचिताः
सदारुसृष्टास्ततः ॥ पापाणैः समुधाभरैर्विरचिताः केचिन्तुतेषुस्थितः स्वाज्ञां
कार्यकृते दिशन्विजयते श्रीराजसिंहो नृपः ॥ १८ ॥ वस्त्रकोष्ठाश्मसृष्टाष्ट चत्वा
रिंशन्मितेषुहि ॥ मंडपेष्व वशिष्ठौद्वौ शिलाकल्पित मंडपौ ॥ १९ ॥ तद्वर्शन
कराणांस्या द्वनधान्य सुखं ध्रुवं ॥ इतिराजसमुद्रस्य श्लोकासर्वा स्थितिर्मया

॥ २० ॥ श्रीराणोदयसिंहेद्रः स्थानेस्मि न्कृतवानपुरा ॥ सेतुबद्धंमहायत्नं निष्फलं
तदभूदिह ॥ २१ ॥ ततो जलाशयं चक्रे श्रीमानुदयसागरं ॥ तत्राकरो त्सेतुबंधं
संबंधं धर्मपद्धतेः ॥ २२ ॥ अस्मिन्स्थले राजसिंहो राणेंद्रो राजराजवत् ॥ धन
व्ययं वितन्वानः सेतुंचक्रे तदद्भुतं ॥ २३ ॥ सेतोस्तु कर्ता रघुवंशकेतू रामश्वराणो
दयसिंहदेवः ॥ श्रीराजसिंहो नृपतिस्तथैव मन्योनभूतो भविता न चास्ति
॥ २४ ॥ पूर्णेशतेसप्तदशे सुवर्षे त्रिंशन्मिते भाद्रहहागताद्राक् ॥ वेताल
सूत्ताल जवाथताल नाम्नी नदीताल गभीर नीरा ॥ २५ ॥ संप्लावितं नीर
भरैःपुरंद्राक् तथा गृहान्यत्र विनाशितानि ॥ चकारबंधं नृपति स्तद स्या न्यायेन
युक्तं भूविनीचगेयं ॥ २६ ॥ तथात्र वर्षे त्विष आगताद्राक् निशीथकाले भिनवे
तडागे ॥ श्रीगोमती धन्य नदी जलंवा वभूव हस्ताष्टक मात्रमुच्चं ॥ २७ ॥
तद्रक्षितं राण नृपेण गंगा स्पर्द्धा करीयं भुविवर्द्ध माना ॥ श्री गंगया सार्द्धं महो तुला-
र्थं भंपाग्रहा व्यौन्य पतत्तडागे ॥ २८ ॥ शते सप्त दशे तीते त्रिंशदाख्याब्द माघके ॥
पूर्णिमायां हिरण्यस्य पल पंच शतैः कृतं ॥ २९ ॥ ददौ सुवर्णं पृथिवीं महादान
विधानतः ॥ श्रीराणा राजसिंहाख्यः पृथ्वीनाथो महामनाः ॥ ३० ॥ अष्टाविंशति
संख्यानि रूप्य मुद्रा वलेरिह ॥ सहस्राणि विलग्नानि महादानस्य भूपतेः
॥ ३१ ॥ दत्तायां कनक क्षितौ तुभवता विप्रेभ्य एवाग्रहे रुद्रंभिक्षु मवेक्ष्यभिक्षक गणो
दिग्दंति नामष्टकं ॥ हिंस्रोजंतु चयश्च विष्णु गरुडं नागव्रजो वेधसं
भूतौघो मघवान मेव महितो दूरं प्रयाति द्रुतं ॥ ३२ ॥ दत्तायां कनकक्षितौ
तुभवता विप्रेभ्य एपाग्रहे श्रीराणामणि राजसिंह सकलं दुःखं प्रनष्टं ध्रुवं
॥ वन्देः शीतभवं तमो भवमिना न्मालिन्यजं चाथते चंद्राद्रीप्सभवं रजो
जमनिला चेंद्राच्च दुर्भिक्षजं ॥ ३३ ॥ दत्तायां हेमपृथ्व्यां प्रभुवर भवता
सद्विजेभ्यस्तु सर्वं कार्यं कुर्वत्य गर्वं निखिल सुखकृते तद्गृहे राजसिंह ॥ गो-
विंदो दुग्ध दोग्धा पशुपति रपिवा रक्षकः सत्पशूनां जीवोबाल प्रपाठी रिपु
गण विजये पण्मुखः संमुखो भूत् ॥ ३४ ॥ पूर्णे शते सप्तदशेब्द एक त्रिंशन्मिते
श्रावण शुक्ल पक्षे ॥ सुपंचमी दिव्य दिने तडागे जहाज संज्ञा विदधुः सुनौकाः
॥ ३५ ॥ लाहोर सद्गुर्जर सूरतिस्थाः सत्सूत्रधारा वरुणस्य मन्ये ॥ सभा
द्वितीये जलधौतु सेतुं द्रष्टुं सुहार्देन समागतस्य ॥ ३६ ॥ शते सप्तदशे
तीते एकत्रिंशन्मितेब्दके ॥ स्वजन्म दिवसे हेम पलपंच शतैः कृतं ॥ ३७ ॥
विश्वचक्रं महादानं विधिना दाच्चशक्रवत् ॥ भूचक्रे राजसिंहोस्ति विश्वचक्रेस्य
तद्यशः ॥ ३८ ॥ दत्तेहाटक विश्वचक्र उचितं विप्रेभ्य एपाग्रहे उच्चैर्याति

तदर्भका निशि रविं धृत्वा विधुं वादिने ॥ तद्रात्रौ दिन मन्हिरात्रि रधुना कर्माणि
 कुर्युः कुतो विप्राधर्म कृताखया कथमथ स्थाप्योत्र धर्मः प्रभो ॥ ३९ ॥ सौवर्णे
 विश्वचक्रे क्षितिधव भवता दत्तएषां द्विजेभ्यो गेहेष्वेकत्रवासं विदधति विवुधा स्तत्-
 स्थिता वाहनानि ॥ देवानां तत्स्थितानि स्फुटमिभ वदनो धेनवो राहु रिन्दुः सूर्यो
 वा शेषआखुः सुरगज इतिवा शंभुनदी विचित्रं ॥ ४० ॥ दत्ते हाटक विश्वचक्र
 मुचितं विप्रेभ्य एषांगृहे दारिद्र्यं खलुसर्वं थैव विगतं श्रीराण वीरखया ॥ यल्लक्ष्मीः
 किलकल्प वृक्ष धनदौ चिंतामणिः कामगौ मेरुः स्पर्शमणिः खनिश्च निधयो रत्ना
 करो यत्ततः ॥ ४१ ॥ इतिश्री राजप्रशस्ति काव्ये द्वादशः सर्गः ॥

॥ श्रीगणेशायनमः ॥ एवंप्रतिष्ठा विधियोग्यरूपे कृते तडागे क्रियमाण कार्ये
 ॥ उत्साहपूर्णो नृपराजसिंहो निमंत्रणे प्रेशितवान्तपेभ्यः ॥ १ ॥ पूर्णादरं दुर्गगणे
 इवरेभ्यः स्वगोत्र भूपेभ्य उतापरेभ्यः ॥ अथो यथायोग्य महोमहाश्वान् रथास्तथा
 सारथि वर्य युक्तान् ॥ २ ॥ शिवोपधानाः शिविका वलीस्ताः संप्रेषया माससुहस्ति
 नीश्च ॥ विश्वासयोग्यान्मनुजान्द्विजा दीन्विशेषवेत्ता नयनायतेषां ॥ ३ ॥
 ॥ कुलकं ॥ अथोविशालेषु महागृहेषु राणामणेः कार्यकरैर्नरैस्तैः ॥ पट्टांवराणां
 च पट व्रजानां सुवर्ण सूत्रोत्तमवाससांवा ॥ ४ ॥ अलंकृतीनां विलसत्कृतीनां
 प्रयत्ननीता तुलरत्नकानां ॥ मनोज्ञमुक्ता वलिपुष्पराग प्रवालगारुत्मतहीरकाणां
 ॥ ५ ॥ गोमेद वैडूर्यक नीलकानां रूप्यस्य हेम्नश्च महासमूहः ॥ सुवर्ण मुद्रा
 रजताच्छ मुद्रा गिरिर्गुरुश्चित्र सुपात्रसंघः ॥ ६ ॥ कस्तूरिका शस्तचयोग रूपां कर्पूर
 पूरश्चगणो ऽ गुरूणां ॥ काश्मीरजानां निकरः सुगंध द्रव्यस्य नव्यो विविधः प्रबंधः
 ॥ ७ ॥ संस्थापितः स्थापित पुण्यकीर्ते रुपर्युपर्यै वधनप्रपूर्तेः ॥ धान्यादिहृद्वाः शिवि
 राणिशालाः कृताः पुनस्तै विविधा विशालाः ॥ ८ ॥ कुलकं ॥ अमुप्य वस्तु
 प्रसरस्य लोकैः पूर्वकदाप्या नयनं नट्टं ॥ प्रथक्तयातेनवितर्कि एष प्रकल्पितः
 कर्कशतार्किकौघैः ॥ ९ ॥ रघोः सकाशा क्लिलकौत्सनाम्ना प्रदातु मद्वा गुरु
 दक्षिणांतां ॥ द्रव्यं सुभव्यं बहुयाचितंत त्रिभालितं सद्गनिभूमृतान ॥ १० ॥
 लब्धुं विजेतुं धनदं प्रतस्थे तनुः सशीघ्रं धनदस्तदैव ॥ रात्रौधनं भूरिरघो र्गृहौघे
 संस्थापया मास महाभयाढ्यः ॥ १२ ॥ युग्मं ॥ तथारघोरुत्तम वंशजस्य श्रीराज-
 सिंहस्य वसुप्रदातुं ॥ कृतप्रतिज्ञस्य गृहेकुबेरः संस्थापया मास धनंतु युक्तं ॥ १३ ॥
 गोधूम गोत्राश्चणको च्चशैलाः सत्तं दुलानां पृथु पर्वताश्च ॥ क्षमा भृतोमुद्र गण-
 स्य तुंगा गोधूम पिष्टस्य विशिष्ट शैलाः ॥ १४ ॥ घृतस्य तैलस्य तुवापिकास्तु
 महाद्रयोवा गुड मंडलस्य ॥ अखंड खंडस्य महा महीध्रा धराधराः प्रोज्वल
 शर्कराणां ॥ १५ ॥ घृतौघ पक्वान्न महा गिरीन्द्राः शिलोच्चया मौक्तिक मोद

कानां ॥ दुग्धोल सन्मोदकभूधराश्च फलावले वादक तुंग संघाः ॥ १६ ॥
 कृता मुदाकार्य करै नरैर्द्राक् जयंति चैते नृप राजसिंह ॥ पाषाण शैलान्व
 हवोद्र यस्तु देशे श्रुतं दृष्ट मिहाद्य चित्रं ॥ १७ ॥ शैलैरमीभिः पटशैवलैश्च
 रत्नै स्तुरंगैः करिभिश्च गोभिः ॥ युक्तश्च दानाय घृत प्रवाहै राजं स्तवायं नग-
 रः समुद्रः ॥ १८ ॥ अश्वाजनैः श्वासजितः स्वगत्या प्रचंड वेतंड गणाः
 सुशुंडाः ॥ रथा स्तथा धन्य वृषैः सनाथाः संस्थापितादान कृते नृपस्य
 ॥ १९ ॥ हेला रवेणा पिगजा महांतो महामदा विंशति संख्ययाक्ताः ॥
 आनीय राज्ञे विनिवेदितास्तान् गृहीतवा न्सप्त दश क्षितीशः ॥ २० ॥
 तथा परेणापि गजद्वयंसदानीत मीशेन गृहीत मेतत् ॥ जलाशयो त्सर्ग
 विधौ मयंते देया विचार्येति गजाः सयुक्तं ॥ २१ ॥ निमंत्रितास्ते नरनाथ
 संघाः समागताः सर्व कुटुंब युक्ताः ॥ अश्वैस्तथैषां करिभिर्गजैर्वा रथैः पुरे
 दुर्गम एव मार्गः ॥ २२ ॥ तपेव सर्वे मनुजा द्विजातयः प्रचंड विद्याः
 खलु पंडितो त्तमाः ॥ कवीश्वराणां निवहास्तु चारणाः सुवदिनो ऽ मंदगुणाः समा-
 ययुः ॥ २३ ॥ पुरंतदामर्त्य मयंच गोमयं स्वनोमयं वापि हया वलीमयं ॥
 करेणुपूर्णं करिसद्चटामयं दृष्टं महाश्चर्यमयं जनव्रजैः ॥ २४ ॥ अन्नस्य
 पक्वान्नगणस्य भूयः समस्त भोज्यस्य समागतेभ्यः ॥ अनंतसंख्ये भ्यइहा
 दरेण कृत प्रदानं प्रभुणा समानं ॥ २५ ॥ स्वीयैः परैर्वापिनिमंत्रणार्थं मश्वादि
 हस्त्यादि विभूषणादि ॥ वस्त्राद्य मानीतमथो गृहीत्वा योग्यं परावृत्य ददौ तद-
 न्यत् ॥ २६ ॥ एवं बहुष्वे वदिनेषु लोकै निवेद्यमाने हिनिमंत्रणस्य ॥ वस्तुव्रजं
 योग्यमहो गृहीत्वा अन्यत्परावृत्य ददौ वदान्यः ॥ २७ ॥ शते सप्तदशे पूर्णे वर्षे
 द्वात्रिंश दाह्ये ॥ माघ शुक्ल द्वितीयायां राजसिंहस्य भूपतेः ॥ २८ ॥ परमार कुलो-
 त्यन्ना श्रीराम रसदेवधूः ॥ राजसिंह नृपाज्ञातो वाप्या उत्सर्ग मातनोत् ॥ ३१ ॥
 दहवारी घट मध्ये लम्बा रजत मुद्रिकाः ॥ चतुर्विंशति संख्यायुक्सहस्र प्रमिता
 इह ॥ ३० ॥ ततस्तु सेतौ धरणी धवोत्तमो जलाशयो त्सर्ग कृते तुलाकृते ॥
 हेमस्तथा हाटक सप्तसागर त्यागाय वैत्रीणि सुमंडपान्ययं ॥ ३१ ॥ कर्तुंसमाज्ञा
 पयदत्राणा श्रीराजसिंहो बुधसूत्र धारान् ॥ कृतानि कुंडानि नवैवतत्र वेदी
 चतुर्हस्त मितकृतावा ॥ ३२ ॥ सुमंडपः षोडश हस्तमान इदक्सु संख्या मित-
 कार्य सिद्धौ ॥ वदाम्यहं तन्नखंडयुक्तं क्षितौ प्रसिद्धौ नृपतेः सुनाम्नः ॥ ३३ ॥
 अस्यासुदृष्ट्यै वचतुः पुमर्थ प्राप्तिस्तु योग्ये समये नराणां ॥ यशोस्तु वैषोडश सत्क-
 लेंदु प्रभं प्रभोर्वैतिकृतः प्रकारः ॥ ३४ ॥ स्तंभाकृता षोडश संमितास्ते दानानि

किंषोडश वामहांति ॥ कृतानि कर्तुंच कृताः प्रतिज्ञा लेषाहि दिग्भित्तिषु भूमिभत्रा
 ॥ ३५ ॥ द्वाराणि चत्वारि कृतानि तेषां संदर्शनान्मुक्ति चतुष्टयं स्यात् ॥ एतादृशो
 मंडपराज एवं कृतस्तु यूपो पिचसूत्रधारैः ॥ ३६ ॥ तुला विधानस्यच सप्तसागर
 दानस्य वा मंडप युग्म मुत्तमं ॥ तुलाक्रमोद्भासित मेवमद्भुतं श्रीराजसिंहेन
 कृतं मनोहरं ॥ ३७ ॥ एवं त्रयं मंडित मंडपानां त्रयाकृतं हेतुरयं महीन्द्राः ॥
 तापत्रयं दर्शन तोस्य न्दृणां हर्तुं त्रिनेत्र प्रियतांच लब्धुं ॥ ३८ ॥ गते शते
 सप्तदशे सुवर्षे द्वात्रिंश दारुव्ये तपसी तिराज्ञा ॥ पांडौ दशम्यां च शनौगृहीतो
 जलाशयो त्सर्ग विधे मुहूर्तः ॥ ३९ ॥ आदौ तुमाघे सित पंचमी तिथौ मही
 महेंद्रेण पुरो धसा सह ॥ जलाशयो त्सर्ग कृतेधिवासनतद त्रिजां सद्वरणं
 कृतं मुदा ॥ ४० ॥ होतारौ जापकौ द्वार पाला वेकां श्रुतिं प्रति ॥ षट् चतु
 विंशतिः संख्या ऋत्विजा मिति कीर्तिता ॥ ४१ ॥ एको ब्रह्मा तथा चार्य षड्विं
 शति रतो ऽ खिलाः ॥ तेमीमत्स्य पुराणोक्ता स्तत्र प्रोक्त फल प्रदाः ॥ ४२ ॥
 चतुर्विंशति तत्वानां पुंसस्पा दान मात्मनः ॥ तद्राणावरणं वीरः षड्विंश दृत्विजा
 निति ॥ ४३ ॥ इति त्रयोदशः सर्गः ॥ १३ ॥

श्री गणेशायनमः ॥ श्री पट्टराज्ञ्या परमार वंश्या श्री इंद्रभाना भिधरावपुत्र्याः ॥
 आज्ञा सदाकूंवरिनाम भाजा कृतामुदा रूप्य तुला कृतेद्राक् ॥ १ ॥ अकारि
 रात्रा विहमंडपंजनै रखंड कुंडै रभिमंडितं जवात् ॥ नृणां महाश्रय्य महोभवत्ततो
 ऽ धिवासनं तत्रकृतं विधानतः ॥ २ ॥ गरीवदासारुयपुरोहितेन वै पुत्रप्रयु-
 क्तेन तु हेमरूप्ययोः ॥ कर्तुं तुलामंडप युग्मकं कृतं पुरोधसाकारि ततोधि
 वासनं ॥ ३ ॥ राणामणिश्री अमरेशसूनो भीमस्य राज्ञस्तुवधूः पवित्रा ॥ तोडा
 स्थितेर्भूपति रायसिंह मातातुलां रूप्यमयीं विधातुं ॥ ४ ॥ आज्ञापयामास तदैव
 सृष्टं रानेंद्र लोकै निशिमंडपंसत् ॥ समस्तवस्तु स्फुरितं कृतंवा धिवासनं तत्र
 तथोक्तरीत्या ॥ ५ ॥ चौहानवंशो त्तमवेदलापुर स्थितेर्वलूराव वरस्यसत्सुतः ॥
 सरामचंद्रः किलतस्य चात्मजः सत्केसरीसिंह इतिद्वितीयकः ॥ ६ ॥ रावोद्वितीयः
 कृतएषराणा श्रीराजसिंहेन सलूंवरस्थः ॥ कर्तुंतुलां रूप्यमयीं विचारं भ्रात्रा
 करोद्वै सबलादिसिंहः ॥ ७ ॥ उवाचरावोथ महान्महामतिः रावोभवानेष कृतोसि
 भूभुजा ॥ तुलां करोत्वेवतदा तुलाकृते सकेसरीसिंह इहोद्यतो भवत् ॥ ८ ॥
 सकेसरीसिंह महामनामुदा विधायवस्तु प्रसरं सविस्तरं ॥ सकुंडसन्मंडल वेदि
 मंडपं कृत्वाकरोद्वा गधिवासनं ततः ॥ ९ ॥ सुमंडपं चारणवार्हटोवा सत्के
 सरीसिंह इतीह सेतोः ॥ तटे तनोद्रूप्य तुलांविधातुं तथातिके खादर वाटि

कायाः ॥ १० ॥ माघेत्र शुक्ल सप्तम्यां राजसिंह नृपप्रिया ॥ राठौड रूपसिंहस्य
 पुत्रीजोधपुरी व्यधात् ॥ ११ ॥ त्रिंशत्सहस्र रजत मुद्रासृष्टां प्रतिष्ठितां ॥
 वापिकां राजनगरे राजसिंह नृपाज्ञया ॥ १२ ॥ ततो नवम्यां नवदुंदुभीनां नाना
 विधानां नवकाहलानां ॥ विचित्र वादित्र वरप्रजानां सुरंजिताः सर्व जना निनादैः
 ॥ १३ ॥ ततोमहा मंडपमध्य ऊर्ध्वं स्तंभेषुवेद्या विदधे वितानं ॥ नृपोमहा सत्व-
 मयः सुयुक्तं रजोनिवृत्यै तदिहार्थयुग्मं ॥ १४ ॥ पद्मांबराणां रचिताः पताका
 विचित्ररूपाः शुभमंडपस्य ॥ सर्वासुदिक्षू द्विमहो नृपेण जगज्जयस्येति कृतस्यनूनं
 ॥ १५ ॥ सुगंधिभिर्माल्यगणैः प्रसूनैः सत्पल्लवैश्चंदनमालिकाभिः ॥ माघेप्य-
 वद्राणवमंडपेषु वसंतएव प्रविभातिचित्रं ॥ १६ ॥ प्रकल्पितं तत्रचरंगवल्लिभिः
 सत्पद्मगर्भं भृतसप्तमंडलं ॥ सषोडशारं शुभवृत्तमद्भुतं चक्रं चतुर्वक्त्रविराजितं
 पुनः ॥ १७ ॥ समंततोवाचतुरस्रमद्भुतं सद्धारुणं मंडलमत्र कारणं ॥ श्रीपद्मनाभस्य
 सुखायसप्तद्वीपप्रभोः षोडशसत्प्रमाणकैः ॥ १८ ॥ ज्ञेयस्य भूपेन सुवृत्त
 लब्धये चक्रश्रियेवाचतुरास्यतुष्टये ॥ वीरेणसृष्टं चतुरस्रवेदिकासद्गवल्ली
 निभरत्नपूर्तये ॥ १९ ॥ राजाधिराजः स्वपुरोहितेन युक्तः समेतो गुरुणायथेंद्रः ॥
 यथावसिष्टेन चरामचंद्रो विराजते मंडपमध्यदेशे ॥ २० ॥ सहोदराद्यैस्तनयैश्च
 पौत्रैर्नानाक्षितीशैरपिदुर्गनाथैः ॥ निमंत्रणायतनरेशसंघैर्विशोभितो देवगणै-
 र्यथेंद्रः ॥ २१ ॥ महीमहेंद्रो नृपराजसिंहो धर्मैकमूर्तिर्धरणी धवेड्यः ॥ कृतैकभुक्तः
 प्रथमेदिनेद्यकृतोपवासो नियमी नवम्यां ॥ २२ ॥ देहस्य शुद्धिं प्रविधायप्रायश्चित्तं च
 कृत्वातिविशुद्धचित्तः ॥ श्रुतिस्मृतिप्रेरितकर्मवृन्देश्रद्धामयो ब्राह्मणमावदानः ॥ २३ ॥
 श्रीराजसिंहः कृतवान् प्रायश्चित्तं यदा तदा ॥ प्रायश्चित्तं शुद्धमस्यातिशुद्धमभव-
 त्पुनः ॥ २४ ॥ ततो नृपः स्वस्ति सुवाचनंच पुरोधसा विप्रवरैः समेतः ॥ स्वस्ति
 प्रदवै कृतवान्धारित्र्याः पूजांच पृथ्वीश्वरभावदार्यां ॥ २५ ॥ गणेशपूजां
 पृथिवीश्वरस्फुरद्गणेशताप्राप्तिमहासुखप्रदां ॥ श्रीगोत्रदेव्या अपिगोत्रवृद्धिदां
 गोविंदपूजां बहुगोधनप्रदां ॥ २६ ॥ कृत्वा कृतार्थं विलसत्पुमर्थं स्वमन्यमानः
 क्षितिपेषुधन्यं ॥ रामोवसिष्टस्य यथाश्वमेधे चकार पूजां वरणं तथैव ॥ २७ ॥
 गरीबदासाख्यपुरोहितस्य कृत्वातु पूर्वं वरणं परेषां ॥ निजाश्रितानामखिल
 द्विजानां सदृत्विजां वावरणंशुचीनां ॥ २८ ॥ मुदाकरो दत्रतु पीठदानं स्वराज्य
 पीठाचलभावकारि ॥ प्राग्जन्मपापाधिकधावनार्थं श्रीविप्रपंक्तेः पदधावनंच
 ॥ २९ ॥ कलापकं ॥ प्ररोचनाकृजगतोहिधर्मसुरोचनाभिस्तिलकं द्विजानां ॥
 श्रियोऽक्षतलाय सदक्षतार्वी प्रसूनपूजा मपिसूनुदात्रीं ॥ ३० ॥ कृत्वाव
 तादं मधुपर्कदानं कुसुमसूत्रं धृतधर्मसूत्रं ॥ आकल्पकीर्त्तिस्थितयेत्वनल्पं संकल्प

नारं प्रददौ द्विजेभ्यः ॥ ३१ ॥ अनर्घ्यता कारक मर्घ्यदानं कृत्वा ददौ वा द्विज
 पुंगवेभ्यः ॥ सुदक्षिणाः संगर कर्मधर्म त्यागेषु वा दक्षिण भावदात्रीः ॥ ३२ ॥
 गरीबदासारूय पुरोहितस्य पुत्रप्रयुक्तस्य महार्चनायां ॥ वासः समूहं शुभवासनादं
 ताभ्यां ददौ भूपति राजसिंहः ॥ ३३ ॥ मुक्तामणि भ्राजितकुंडले च श्रीमंडलाप्यै मणि
 मुद्रिकाश्च ॥ स्वकीयमुद्रा चलनाय जंबू द्वीपे खिले स्वोत्कटकं गदाद्यं ॥ ३४ ॥
 प्राप्तुंस रत्नान्कटकांगदांश्च यज्ञोपवीतानि सुवर्णवन्ति ॥ जलाशयोत्सर्गं सुयज्ञ
 सिध्यै ददौ नरेंद्रोन्नत राजसिंहः ॥ ३५ ॥ युग्मं ॥ नाना विधान्याभरणानि नूनं
 स्वस्य क्षितीशाभरणवसिद्धौ ॥ जलाशयोत्सर्गविधिप्रसिद्ध्यै जलाच्छपात्राणि-
 सुवर्णवन्ति ॥ ३६ ॥ श्री भोजनाम्नाधिकदान जातपुण्याप्तये भोजनपात्रपंक्तिं ॥
 निवेद्य पूज्यं तम पूजयत्सत्पुत्र प्रयुक्तं स्वपुरोहितंसः ॥ ३७ ॥ युग्मं ॥ ततोऽपरेभ्यश्च
 सुवर्णं भूषणं संघान्सुवर्णस्थितये तदालये ॥ ददन्महींद्रो मणिमुद्रिकागणा-
 न्स्थित्यै मणीनां च तदीयमंदिरे ॥ ३८ ॥ सुरूप रूप्योत्तमपात्रपंक्तिं रूप्याति
 पूर्यै च तदालयेषु ॥ वासः समूहा नतिनूतनांश्च मनस्सुतेषां सुखवास सृष्ट्यै
 ॥ ३९ ॥ एवंससर्वर्चिनं मंत्रं कृत्वा नानानृपै रर्चितपादपद्मः ॥ सुभाग्यभाजं
 कृतकार्यवर्यं स्वमन्यमानोत्र विभातिवारः ॥ ४० ॥ ॥ कुलकं ॥ इति श्री
 चतुर्दशः सर्गः ॥ १४ ॥

श्रीगणेशायनमः ॥ ततः सवादित्र विचित्रनादं कुरंग वेगो चतुरंगसंगं ॥
 उत्तुंगमातंगघटासमेतं नानाजनस्तोमसमाकुलं च ॥ १ ॥ चलत्पताका वलि
 शोभिताभ्रं संस्थाप्य विप्रान्स्फुरद्वलिजश्च ॥ अलंकृता नल्पगजावलीनां स्कंध
 प्रदेशेषु सुबंधुरेषु ॥ २ ॥ तान्लोकपालानि वभूरिभूपान् पश्यन्नवश्यं वशगः क्षितीशः ॥
 अग्रे सरांस्तान्प्रविधाय सर्वां न्विचित्रवादित्रधरान्तरांश्च ॥ ३ ॥ अखंडसौभाग्य
 भृतोतिभव्या नारीर्विचित्राभरणाश्च नव्याः ॥ जलाहतिप्रोद्धृतधन्यकुंभाः कृत्वा
 पुरस्ताज्जितदिव्यरंभाः ॥ ४ ॥ धीरंपुरस्कृत्य पुरोहितं जलयात्रां विचित्रां कृतवा-
 न्नरेश्वरः ॥ युधिष्ठिरस्यापि च राजसूयके शोभानवै तादृशरीतिरीरिता ॥ ५ ॥
 ॥ कुलकं ॥ प्रोक्तं जनैर्लोकवृत्तोयमुद्यतो जलार्थमर्थोप्यपरोस्ति तंवदे ॥
 दानाय तच्छत्रगलत्सुहाटकग्रहं प्रसन्ना द्रुणा करिष्यति ॥ ६ ॥ तथात्र कृत्वा
 वरुणस्य पूजां विधानपूर्वं सकलांगयुक्तां ॥ आनाप्यनीरं कलशेषुकृत्वा नारीः पुरः
 सत्कलशाः कलोकतीः ॥ ७ ॥ महामहोत्साहमयः स्फुरजयो लसद्दयः स्पष्ट-
 नयः सविस्मयः ॥ द्विजावलीमंडितमंडपे शुभेऽभवत्प्रविष्टोति विशिष्टतुष्टि-
 मान् ॥ ८ ॥ संस्थाप्यवेद्यां कलशान् जलाढ्यान्वस्त्रावृता न्दिक्षु चतुर्मितासु ॥

मध्येजगद्येय मुखो मखेस्मिन्विराजते भूपतिराजसिंहः ॥ ९ ॥ चतुर्षुकोणेषुसु-
 मंडपस्या करोन्नुपः स्थापित देवपूजां ॥ सवास्तुपूजां शुभवस्तु पूर्णां वेदोक्त वेदी
 स्थित देवतानां ॥ १० ॥ नवग्रहांस्ता नधिदेवताश्च संस्थापय न्प्रत्यधि देवताश्च ॥
 नवग्रहंसा ग्रहमेषशत्रुश्रिय प्रियोक्षणां प्रकरिष्यतीशः ॥ ११ ॥ संस्थापय
 न्सत्कलशंच रौद्रं रुद्रंप्रसन्नं क्षितिपो करोद्वाक् ॥ रौद्रंभयं शत्रुकृतं नदेशे स्यादस्य
 भद्रं भवतात्सुदेशे ॥ १२ ॥ ततोमहा मंडप मध्यदेशे विप्रैः समेतो विलसत्पुरोधाः ॥
 धराधवो जागरणं वितन्वन्वेदोक्त कार्यं कृत्वा न्समस्तं ॥ १३ ॥ ततोनिशांते
 प्रविधाय नित्यं स्नानादिराणा मणिराजसिंहः ॥ जातः प्रविष्टः शुभ मंडपेवै सहोदरा-
 दींश्च तदाकुमारान् ॥ १४ ॥ पत्नीः समस्ताश्च पितृव्यजायाः स्नुषाश्च
 वंशोद्भव सर्वपुत्रीः ॥ पुरोधसां धन्यवधू नृपाणां वधूः समाहूय मुदोपविश्य ॥ १५ ॥
 सुकर्मणो स्याद्भुत दर्शनार्थं श्री पट्टराज्ञी सहितो हिताढ्यः ॥ कृत्वा मुदाश्री वरुणस्य
 पूजां समस्तदेवा तुलपूजनंच ॥ १६ ॥ रत्नाकरं कर्तुं मिहद्वितीयं तडागमेनं नव
 रत्नराजिं ॥ निक्षिप्तवान् मध्यइहास्य शस्यं मत्स्यं पुनः कच्छप मच्छमेव ॥ १७ ॥
 श्रेयस्करं वामकरं ततोत्र निधिद्वयं स्थापितमेव मन्ये ॥ ततोत्रसर्वे निधयोजवेन समा
 गमिष्यन्ति ततो जलस्य ॥ १८ ॥ नूनं समृद्धिर्भविता सदास्मिन्समुद्र रूपत्वं
 मथास्य भावि ॥ मयास्य वैराजसमुद्र नामोत्पत्तौ हेतुः कथितोयमेव ॥ १९ ॥
 क्षिप्त्वा निरत्नान्य परेसमुद्रे तया तडागेत्र नृपेन्द्रजातं ॥ रत्नाकरत्वं तथवाडवाग्नि
 सिद्धिं कुरुस्या दिति पुण्यपूर्तिः ॥ २० ॥ गोः पूजनं वत्स युजो विधान पूर्वन्ृपालः
 कृतवान्कृतींद्रः ॥ हिंक्वतीं गांप्रसमीक्ष्य भूपः पुरोहितं प्रत्यवदत्किमेतत्
 ॥ २१ ॥ शुभं भवेत्प्रत्य वदत्पुरोहितो वेदोक्त मेतच्छकुनं यतः प्रभो ॥ गोतारणारं
 भणमातनोत्पुनः सर्लिक् सहायो धरणी पुरंदरः ॥ २२ ॥ तडागमध्ये कृतवान्
 सुखेन गोतारणारंभ महोमहींद्रः ॥ गोशब्दमात्रस्यतु येसदप्य स्मिन्नम तुल्यार्थक
 कर्म लब्धयै ॥ २३ ॥ ब्रुवेतदर्था न्भुविनाक सौख्य लाभाय युद्धे शरसत्यतार्थं ॥
 गवांच लाभाय सुवागवाप्त्यै करस्थ वज्रेण रिपुक्षयाय ॥ २४ ॥ दिक्षुस्फुरत्कीर्तिं
 कृतेजनाली नेत्रातितोषाय विभासयेच ॥ समस्त भूराज्य कृते नृपस्य तडागनीरस्यतु
 पूर्णतार्थं ॥ २५ ॥ लक्ष्येष्ट लाभायच दृष्टि तुष्टये श्री राजसिंहाख्य महीपतेः सदा ॥
 ऋत्विग्गणै रीदृशसत्फलाप्तये कृतं हि गोतारणकं सुशर्मदं ॥ २६ ॥ गोतारणादुस्तरमत्र
 कर्तुं तडागमुख्यस्य तुनामनव्यं ॥ प्रश्नंकृतीत्यं कृतवान्महींद्रः पुरोहितं प्रत्यथ
 राजसिंहः ॥ २७ ॥ तदा वदत्तत्र पुरोहितोयं वदत्यवश्यं त्वरिसिंह नामा ॥
 तदोक्त मेवं वदतात्पुरोधा आज्ञाकृता भूमि भुजात्र भूयः ॥ २८ ॥ नामास्य

वाच्यं त्विति तत्पुरोध सानामोक्तमेकं त्वितिराजसागरः ॥ नामापरं राजसमुद्र
इत्यतो नृपस्तडागस्यतु जन्मनामवै ॥ २९ ॥ इत्युक्तवाने वहि राजसागर
स्तदुत्तरं राजसमुद्र इत्यपि ॥ नामास्य चक्रे दिनपंचकोत्तरं दिव्येमुद्गूर्ते त्विति
भूमिनायकः ॥ ३० ॥ महोत्सवं द्रष्टु मिमंपुरंदरः समागतो ह्यत्र विनिश्चितं बुधैः ॥
यतस्तदग्रे सरवारिदब्रजः प्रवर्षतिस्मां बुकणं शनैः शनैः ॥ ३१ ॥ ततोमहा मंडप
मध्य उत्तमा होमक्रियाया मभवन्परायणाः ॥ श्रीवेदपाठेषु जपेषु तत्पराः
क्रियासु सर्वासु तथैव मृत्विज ॥ ३२ ॥ नवेषु कुंडेषु नवस्वथाग्नयः श्रीगार्ह
पत्या हवनीय सन्निभाः ॥ प्रजज्वलु स्तत्र वितान मंडलं धूमेन धूमं सकलं तदा
भवत् ॥ ३३ ॥ धूमावलीभिर्गगने तदा भवन् महावितानानि पराणि भूपते ॥
रजस्सुरक्षो कृतये जगत्कृता कृतानि किं धूसरवर्णवाससा ॥ ३४ ॥ महा
वितानेष्वथ धूममालया कृतं तुमालिन्यमिदं तदा भवत् ॥ अनेक मालिन्य
हरंहि मंडपस्थितस्यलोक प्रसरस्य पश्यतः ॥ ३५ ॥ अनंत धूमालि मनंत
संस्थित ज्योतींषि वन्हेः शुभगंध वाहकान् ॥ सुगंध वाहान् नृपकल्प यस्वहो संक
ल्पनीराणि सदाब्दपूर्तये ॥ ३६ ॥ ततः कृतार्थः समरे समर्थ श्वापश्च
- करस्य पुमर्थकांक्षी ॥ मनो दधे राजसमुद्र भद्र प्रदक्षिणार्थं सकलार्थसिद्ध्ये
॥ ३७ ॥ यस्या क्षितौ पूर्व महोऽभवन् शिला निम्नोन्नतत्वं पटु कंटका जनैः
॥ साम्यंच संमार्जन मत्र निर्मितं भाग्यं भुवस्त नृपतेः समागमे ॥ ३७ ॥
अरण्य वऽल्या वलि रज्जवो भवत् यस्यां क्षितौ वीर नृपाज्ञया पुरा ॥ क्रोशा-
दि कक्षानकृते जनैर्जवात् धृतो द्वातादौ कुशसूत्र रज्जवः ॥ ३९ ॥ इति राज
प्रशस्तौ भट्ट रणछोड कृते पंचदशः सर्गः

श्री गणेशायनमः पूर्णेतु षोडश शते शुभ कारि वर्षे द्वाविंशति प्रमितके
किल माधवेच ॥ पक्षे सिते उदयसिंह नृप स्तृतीया मध्ये करो दुदय सागर
सु प्रतिष्ठां ॥ १ ॥ उदयसागर नाम जलाशयो तमपरि क्रमणे रमणी युतः
॥ उदयसिंहनृपः शिबिका स्थितः समतनो दिति सूत्रनिवेशनं ॥ २ ॥
जसवंतसिंह रावल इति जल्पित वान्प्रभोः पार्श्वैः ॥ एवं कार्यं भवता अथवा
श्वारोहणं कृत्वा ॥ ३ ॥ कार्या प्रदक्षिणार्थं द्विजायसो श्वस्ततो देयः ॥
श्रुत्वाति पक्ष युगलं तूष्णीं स्थितवा न्महाशयो भूपः ॥ ४ ॥ ततो नृपः
सामगवेद पाठिभिर्युक्तः पुरः स्थापित ऋत्विगा दिकः ॥ नाना प्रतीहार
करस्थ यष्टिका रवौघ दूर स्थित सर्व मानुषः ॥ ५ ॥ विचित्र वादित्र महा
खश्रवाः पुरः स्थित प्रोन्नतदंति पंक्तिकः ॥ विराजि वाजि ब्रजराजिता

अकः शिवां शुक श्री शिविका पुरः सरः ॥ ६ ॥ पुरस्थ पूर्णो व्रतकुंभ सत्फलो
 महामहोत्साह मयो महोत्सवः ॥ समस्त जीयां बसना चल स्वकां शुकां-
 चल ग्रंथि विधान सुंदरः ॥ ७ ॥ वेदो दितं राजसमुद्र राज त्सुसूत्रसंवेष्टन कर्म
 कर्तुं ॥ स्वपाणि संस्थापित नव्य भव्य सत्कुंकुमोद्य व्रवतंतु पंक्तिः ॥ ८ ॥
 सुखपरिक्रमणाय महीभुजो धरणिमूर्द्धनि सुचेलकतूलिकाः ॥ अथधृताः
 स्वजनेन पदा स्पृशन्स सुकुमारपदोऽत्यजदद्भुतं ॥ ९ ॥ वसनोपानद्युगलं
 पदयो धृत्वापि भूभुजा त्यक्ता ॥ सुकुमार पदेनापिच धर्माद्भुतपद्धतिं प्रकल्पयता
 ॥ १० ॥ अपाद चारी मृदुलां घ्रिपद्मो विपादुकः संप्रतिपाद चारी ॥ लवन्भरा
 भाति महा प्रभावो राजाधिराजः प्रभु राजसिंहः ॥ ११ ॥ प्रदक्षिणा दक्षिण-
 तो वितन्वन् सदक्षिणो दक्षिण मार्ग गामी ॥ प्राची दिशा दक्षिण दिक् प्रतीची
 सौम्या गतान्दन् बहु दक्षिणाभिः ॥ १२ ॥ द्विजा दिकान् धन्य धनैश्च
 धान्यै रतोषय त्सर्व जना स्तथैव ॥ सद श्वमेधो तम राजसूया दिकं फलप्राप्तु
 मिहप्रवृत्तः ॥ १३ ॥ युग्मं ॥ तडागं वेष्टयन् राना अखंड नवतंतुभिः ॥
 नवखंड धरा मध्ये कीर्तिं स्थापितवां श्रिरं ॥ १४ ॥ शुक्लांबरं चंद्र मिव क्षितीश
 राज्ञां सुतारा इव तार हाराः ॥ सेवंत एवत्युचितं हि गौर्यः सहीर मुक्ता
 भरणाति रम्या ॥ १५ ॥ इममुत्सवमद्भुतं महेंद्रो रुचिरं द्रष्टु मुपागतो
 मुदात्र ॥ जलदास्तु पुरः सरा स्तदीया इति वर्षति जलानि हर्षपूर्णाः ॥ १६ ॥
 प्रथमं रुचि शैत्य शोभितानां प्रमदानां प्रमदाति भूषितानां ॥ अथ वर्षण
 नीर पूरितानां सकलांगेष्वभव त्सुशीतलवं ॥ १७ ॥ जलधारा वलिषु स्थिताः
 स्त्रियः कृतकंपासु तडागसत्तटस्थाः ॥ द्रुतजांबूनदकांतकांतयः क्षणदारुत्सव
 दर्शना गताः किं ॥ १८ ॥ वनिता अनि मेखलोचना स्ताश्चकिता उत्सव दर्शना
 गताः किं ॥ जलधारा वलिमार्ग गामिनोसुरकन्या इतिवक्ति धन्यधन्याः
 ॥ १९ ॥ तनुलग्ना द्रपटातिदृष्टदेह घटनानां घटसन्निभस्तनीनां ॥ घनधारा
 वलिपूरितांगिकाना मिव कौतूहलदं जलांगनानां ॥ २० ॥ पदचक्रमणेषु सोद्य
 मेतत् अरिसिंहस्य सहोदरं समीक्ष्य ॥ सुकुमारतरं सुखिन्नचित्तः शिविका
 रोहण मादि शन्महींद्रः ॥ २१ ॥ पदचक्रमणे कृतोद्यमां निजराज्ञीं परमारवंशजां
 ॥ महतीं समवेक्ष्य सुश्रमां शिविकारोहण मादिशत्रुभुः ॥ २२ ॥ अथ राज
 समुद्र मंडलेस्मिन्परितः सूत्रसुवेष्टनं वितन्वन् ॥ निजभूवलये सुधर्मसूत्रं सततं
 रक्षति राजसिंह राणा ॥ २३ ॥ अथ परिक्रमणेषु समागता विविधपुष्प विराजित
 मालिकाः ॥ सपदि राजसमुद्र वरेर्षिता वरुणदेव मुदे करुणाभृता ॥ २४ ॥

वसनग्रंथिविधानभूषिताभि युवतिभिः परिवेष्टितो नरेंद्रः ॥ भुविनाना विध
दिव्य सुन्दरीभिः परितो वेष्टित इन्द्र एवनूनं ॥ २५ ॥ वसन ग्रंथि विधान
भूषिताभि र्वनिताभि नृपमावृतं समीक्ष्य ॥ जनता वीक्ष्य हि रासमंडले श्री हरि
रेवं कृतवान्ध्रुवं विहारः ॥ २६ ॥ चतुर्दशोद्गापित लोकवासि प्राणीस्फुर तृप्ति
विवर्द्धनाय ॥ चतुर्दश क्रोश मितस्तडागो जलेनपूर्णो भवदेवतूर्ण ॥ २७ ॥
प्रदक्षिणायां शिविराणि पंच श्रीराजसिंहः कृतवानि हेति ॥ हेतुस्तुपंचेंद्रियजान्विका
रान्हर्तुं प्रवृत्तोय महोसुवृत्तः ॥ २८ ॥ ईषत्फलाधार धरोधरेंद्रो महाफल प्राप्तियुतोहि
जातः ॥ धृत्वासमस्ता न्नियमान्यमांश्च तनोसिपुण्यं यमयातनाहत् ॥ २९ ॥ कमल
बुरिजस्यपाश्वे तटाकतोये त्रयोदश्यां ॥ एकोगजोनिमग्नो भटितिप्रकटो भवद्गभीरेपि
॥ ३० ॥ यत्तद्वरुणेनाय मुपायनाधी धरेंद्रपुण्यस्य ॥ राज्ञोस्य प्रेषितइति विशेष
विद्भिस्तदा प्रोक्तं ॥ ३१ ॥ आम प्रदानै र्वृतपक्रदानैः पक्वान्नदानै र्वसनप्रदानैः
॥ द्रव्यप्रदानै र्वृपआगतांस्ता नतोपयन्तोप युतोमनुष्यान् ॥ ३२ ॥ एवंफलाधार
धरोधरेंद्रः पट्टेदिनानाम भवन्ततोयं ॥ पडर्तुनीरोग तनुः षडूर्मि विवर्जितो
वाच्यमतः किमन्यत् ॥ ३३ ॥ ततो नरेंद्रेण चतुर्दशीदिने सुशर्मणा भर्मतुलाख्य-
कर्मणः ॥ प्रकल्पितं सुंदररूप सागरं दानस्यवादा वधिवासनंमुदा ॥ ३४ ॥
चित्रं वितानं चपलाः पताकाः सुपल्लवा श्रंदन मालिकाश्च ॥ सत्सर्वतो भद्रकरीच
पल्लयो विनिर्मिता मंडप युग्ममध्ये ॥ ३५ ॥ कृतार्चनं मंडप युग्ममध्ये भूतेहरे
विघ्नष - श्रवास्तोः ॥ पुरोहिता देर्वरणंनरेंद्र ऋत्विग्गणस्या प्यकरोत्क्रमेण
॥ ३६ ॥ ततश्चतुर्दिक्षुच मंडपद्वये कोणेषुपीठेषु समस्तदैत्यः ॥ अभ्यर्च्यवास्तु
प्रभृतीन् ग्रहादिका न्वेद्यांचदेवा न्प्रविभाति भूपतिः ॥ ३७ ॥ ततोभवत् मंडप
युग्ममध्ये होमेवरान्सर्विज उत्तमास्ते ॥ श्रीवेदपाठेषु जपेषु सर्वक्रियासु सक्ता
नृपतेः सुखाय ॥ ३८ ॥ ततः शिवाढ्यः शिविकांतरस्थितः शिवप्रसादा
च्छिविरं प्रतिप्रभुः ॥ अकल्पयन् हयगतिं गतक्रमः सचामरच्छत्र धरादिकैर्दृतः
॥ ३९ ॥ श्रीराणवीरः शिविरं प्रविश्य शश्वत् फलाधार विधिं प्रकल्प्यच ॥
जलाशयोत्सर्ग विधेरुपस्करं कर्तुंसमाज्ञा पयदेष मानुषान् ॥ ४१ ॥ इतिश्री
षोडशसर्गः संपूर्णः ॥

श्रीगणेशाय नमः ॥ सप्तदश सर्गो लिख्यते ॥ आनंदपूर्णः किल पूर्ण
मायां पूर्णदुवक्रो नृपराजसिंहः ॥ राज्ञीसमेतः सपुरोहितोवा भवत्प्रविष्टः
शुभमंडपेस्मिन् ॥ १ ॥ आत्रा विशोभी अरिसिंह नाम्ना पुत्रेण युक्तो जयसिंह
नाम्ना ॥ सद्गीमसिंहेन सुतेन सक्तः पुत्रेण राजा गजसिंह नाम्ना ॥ २ ॥

सुतेन वा सूरजसिंहनाम्ना तथेन्द्रसिंहाभिधसूनुना च ॥ सुतेन युक्तं श्रुत्वा महा
 बहादुरसिंहेन राजन्यगणैरुपेतः ॥ ३ ॥ अमरसिंहशुभाभिधपौत्रवान
 जयसिंहमुखोत्तमपौत्रयुक् ॥ प्रियमनोहरसिंहसमन्वितः प्रविलसदलसिंहविशो
 भितः ॥ ४ ॥ सुतेन युक्तोपि नरायणादिदासेन योग्यैः कुलठकुरै
 श्च ॥ महापुरोधो रणछोडरायादिकैश्च भीषु वरमंत्रिमुख्यैः ॥ ५ ॥
 विराजितो मंडपमध्यदेशे पूर्णाहुतिं पूर्णमनाः प्रकल्प्य ॥ जलाशयोत्सर्ग
 विधिं चतूर्णं संपूर्णं मेवं कृत्वा त्रैरेन्द्रः ॥ ६ ॥ समस्तजीवावलि तृप्तयेवै
 जलाशयोत्सर्गमयं विधाय ॥ मत्वा जगज्जीवनमेतदस्य सुजीवनं राणमणि
 विभाति ॥ ७ ॥ यथादिलिपो हयमेधकर्ता सत्सेतुकर्ता भुवि रामचंद्रः ॥
 युधिष्ठिरो वा कृत् राजसूय तथैव राणमणिरेव भाति ॥ ८ ॥ ततः
 सुवर्णाद्भुतसप्तसागरदानोल्लसन्मंडपमध्य उत्तमे ॥ श्रीराजसिंहः परिवार
 संयुतः प्रविष्ट एवाति विशिष्टदिष्टयुक् ॥ ९ ॥ शास्त्रेरितं कांचनसप्तसागर
 दानस्य सर्वाहुतिपूर्वकानिवै ॥ कर्माणि कृत्वा किल निर्मलोत्तमस्वतः सुधर्मा
 धिप धन्यवैभवः ॥ १० ॥ सप्तैव कुंडानि च कांचनेन विनिर्मितान्यंबुधि रूप
 कानि ॥ संस्थापितान्यग्रत एव तानि सोपस्कराणि क्रमतो वदामि ॥ ११ ॥
 ब्रह्मप्रयुक्तं लवणेन पूर्णं कुंडंतथैकं सपयः सकृष्णं ॥ परंघृताद्यंशं महेशमन्यत्
 तथापरं सूर्ययुतंगडाद्यं ॥ १२ ॥ दध्नातिधन्यः समहेन्द्रमन्यत् परंरमायुक्
 धृतशर्करंच ॥ गौरीयुतं वा परमंबयुक्तं सप्तैति कुंडानि मयेरितानि ॥ १३ ॥
 एतानि सर्वाणि सवस्तुकानि दत्त्वेवराज्ञी सहितो गृहीत्वा ॥ धन्या शिषोधीर
 पुरोहितोक्ता त्सुर्विग्ं प्रयुक्ता जयतिक्षितीशः ॥ १४ ॥ महादानं सदत्वायं राज
 सिंहो महीपतिः ॥ सप्तसागरपर्यंतं भातिकीर्त्तिं प्रकाशयन् ॥ १५ ॥ जलाशय
 त्यागविधौ समस्तसज्जलावलित्यागविधिर्मये त्यलं ॥ कार्या हिमत्वा शुभसप्त
 सागरदानं कृतं दानिवरेणयुक्तता ॥ १६ ॥ ग्रंथेषु दृष्टं किलसप्तसागरदानं
 तदाधिक्यकृतौस्फुरत्पणः ॥ स्वकल्पिताद्यन्वितसप्तसागरदानं नचाष्टांबुधिदो
 भवन्त्पः ॥ १७ ॥ गांभीर्याद्राजसिंहोयं जित्वात्र सप्तसागरान् ॥ तान्महादान
 विधिना द्विजेभ्यः प्रददौ मुदा ॥ १८ ॥ ज्योतिर्विन्मतमेकतो जलधयः षट्भाग
 कंतर्भुवक्षाराब्धिर्ममवामते जलधयः सप्तैकतोवावनेः ॥ मध्येराजसमुद्र एष
 तदिदं स्पष्टीकृतं तत्रतद्दानोत्सर्गविधानयोर्मममतं तत्सत्यमेव ध्रुवं ॥ १९ ॥
 रत्नाकरेणैव विधिस्तुवाडवानलस्यपोषं तनुतेयथाप्रभुः ॥ तथाकरोत्कांचनसप्त
 सागरदानं नवैवाडववह्निपोषणा ॥ २० ॥ ततस्तुलामंडपसंप्रविष्टः श्री

राजसिंहः परिवारयुक्तः ॥ तुलाप्रयुक्तं सकलंविधानं प्रकल्प्यपूर्णाहुति मत्रकृत्वा
 ॥ २१ ॥ तुलाकदंडस्थ हरौसुशालग्रामंकरेदृष्टि मयंनिधाय ॥ स्पृष्टायुधः
 शुक्लपटः सितस्रक् श्रुतस्फुरन्योत्र विचित्रवाक्यः ॥ २२ ॥ श्रुतश्रुतिर्ब्रह्म
 परायणश्च ततोतुलांहेमतुला मनल्पां ॥ मुदासमारुह्य नृपोवदद्वा दिव्याः सुदासीः
 प्रतिदानशौडः ॥ २३ ॥ सुवर्णमुद्रा परिपूरिताः शुभाः समानयत्ने वजवेन
 कोथलाः ॥ ताभिर्धृतास्ता बहुशस्तुलापुटे परासमानेतु मिमास्ततोगताः ॥ २४ ॥
 अत्रांतरेचाप्य वदद्वराधवो न्यूनंसुवर्णं यदिवाभवेत्तदा ॥ सप्तस्वथोसागर एक
 उत्तम आनीयतामाशु सुवर्णनिर्मितं ॥ २५ ॥ गरीवदासाख्य पुरोहितेन तदोक्त
 मेवं नृपतिंप्रतीति ॥ अपेक्षितैवा त्रहिसागरस्य युक्तानृपेदोः समतातुलायाः ॥ २६ ॥
 एतादृशंकाव्य महोसुनव्यं पुरोधसोक्तं किलभव्यभव्यं ॥ श्रुत्वानृपालो भवदेव तुष्टः
 स्मेराननो दानि गणेशिशिष्टः ॥ २७ ॥ त्रियुक्नवसहस्रकं प्रमिततोलकप्रोल्लसत्सुवर्णं
 परिपूरितां किलतुलां सुवर्णोद्भवां ॥ विधायपुरुहूतव क्षितितले महादानसद्विधान
 कृतिपूर्वकं जयति राजसिंहो नृपः ॥ २८ ॥ समस्तदेवा वलिशोभतेयं दिक्पालमाला
 कलिताति दृश्या ॥ अलंसुवर्णाच्छ सुवर्णपूर्णा हैमीतुलामेरु निभावभाति ॥ २९ ॥
 सुवर्णमतुलंप्राप्य यशस्त्यागीसउच्यतां ॥ धत्तेतन्नमनंसृष्टं सुवर्णतुलयोचितं ॥ ३० ॥
 ऊर्ध्वस्थितं नृपंवीक्ष्य जातासर्वांगसुन्दरी ॥ सुवर्णपूर्णाविनता कुलस्त्रीवत्तुलोचितं
 ॥ ३१ ॥ अमरसिंहशुभा भिधमद्भुतं सुभगपौत्रवरं मधुरोधिकं ॥ कनककांत
 तुलास्थितमादरा त्समतनोन्नृपतिः प्रियतामयः ॥ ३२ ॥ एवंतुलादान विधिं
 प्रकल्प्या भवत्कृतार्थो नृपराजसिंहः ॥ पूर्णतुला सर्वविधोसुसक्तो विचित्रमत्रास्ति
 बुधोक्तिमध्ये ॥ ३३ ॥ नममेतित्यागवान् वा दानेज्ञानेतथेरितान् ॥ कर्मज्ञानोद्भव
 सुखं राजसिंहत्वयार्जितं ॥ ३४ ॥ जलाशयोत्सर्ग सुसप्तसागर दानस्फुरत्
 स्वर्णतुला भिधानकं ॥ कर्मत्रयं निर्मितवान्नरेश्वरः पापत्रयं हर्तुमिहेति कार-
 णात् ॥ ३५ ॥ त्रयी महत्तर्कसदर्थकत्वं कृते तुलोकत्रय तुष्टि सृष्ट्यै ॥
 गुणत्रयोद्भूत विकार शान्त्यै त्रिमूर्ति मद्देदु समर्पणाय ॥ ३६ ॥ युग्मं ॥ त्रिभिर्मखै
 रेभि रथास्य जातं शताश्वमेधाय फलं हि मन्ये ॥ तदिंद्रता कृद्धरणींद्रता तत् श्रीराज
 सिंहस्य विभाति भव्या ॥ ३७ ॥ ग्रामौघ दानं गज राजिदानं हयालि दानं घटतोप्रदा
 नं ॥ गोवृंद दानं नृपतिः प्रकल्प्य नानाविधं दानमथो तनिष्ट ॥ ३८ ॥ तुलाकृते
 मेरु रहोगृहीत स्वया यदादेव तदैव जातः ॥ सशंकरः श्रीधर ईश्वरेंद्रो हिरण्य
 गर्भश्च कविः स्वरूपं ॥ ३९ ॥ द्विजपति गुरुभास्वन्मोददास्वर्ण पूर्णा विविधविबुध
 सेवा मंडपा डंबराभा ॥ दिग्धिपकृत शोभा सिद्धगंधर्व गीता ऽ भवदतुल तुलाते

मेरुरेव द्वितीयः ॥ ४० ॥ आसीद्भास्कर तस्तुमाधववुधो ऽ स्माद्रामचंद्रस्ततः
सत्सर्वेश्वर कः कठोडि कुलजो लक्ष्म्यादि नाथस्सुतः ॥ तैलंगोस्यतु रामचंद्र
इतिवा कृष्णोस्यवा माधवः पुत्रोभून्मधुसूदन स्रय इमेब्रह्मेश विष्णुपमा ॥ ४२ ॥
यस्यासीन्मधुसूदन स्तु जनको वेणीच गोस्वामिजा ऽ भून्माता रणछोड एष
कृतवान् राजप्रशस्त्याङ्गयं ॥ काव्यंराणगुणौघ वर्णन मयंवीराकं - - - पूर्णः
सप्तदशोत्रसर्ग उदगाद्वागर्थ सर्गः स्फुटः ॥

॥ श्रीगणेशायनमः ॥ घांसो दिव्यगुढो तथासिरथलः सालोल आलोदको
मञ्ज्भेरोपिधने रियोधनमयो भाडीदिका सादडी ॥ अंवेरी शुभ ऊसरोल उदित
श्रीमानसानो पुनर्भावो द्वादशसंख्यया परिमितान् ग्रामानि मानेकदा ॥ १ ॥
श्रीमद्राजसमुद्र सुंदरतरोत्सर्गे ग्रहारी कृतान् श्रीराणामणिं राजसिंह नृपाति
र्धन्यः पुरोधोविधिं ॥ विभ्राणायगरीबदास विलसन्नाम्ने मुदादत्तवान् सर्वाध्यक्ष
वराय सर्व विषये चित्तानुसंधानिने ॥ २ ॥ गरीबदासाख्य पुरोहिताय ग्रामानि
मान्द्वादशसं मितांस्तान् ॥ दत्त्वाददौ ब्राह्मणमंडलाय ग्रामान्धरां भूरिहल प्रमाणाः
॥ ३ ॥ ब्रह्मार्पणं कर्मसमस्त मेतत् ब्रह्मण्यदेवः परिकल्प्य नूनं ॥ गृह्णन् द्विजेभ्यः
श्रुति निर्मिताशीः सतंजयत्येष महीमहेंद्रः ॥ ४ ॥ वर्षतिमेघा वहवोमुहुः शनैर्दिनत्र
याणानुमितं यदग्रतः ॥ दृष्टोत्सवंते हरिरेष सार्थकं कर्तुंसहस्रं स्वदृशां समागतः
॥ ५ ॥ यत्पौर्णमास्यां कृतवान्नरेद्रः कर्मत्रयंते नतुपूर्णमायां ॥ यथैवचंद्रः परिपू-
र्णकांति स्तथाप्रपूर्णा तिरुचिर्नृपः स्यात् ॥ ६ ॥ मनोरथः पूर्णतमोस्य भूयात्फलं
तथास्या त्परिपूर्णमेव ॥ पूर्णपरं ब्रह्म तथातितुष्टं प्रमोदसंपूर्ण तमोन्टपोस्तु ॥ ७ ॥
निवर्त्यसर्वं स्वतुला विधानं पूर्णाहुतिंयात मनन्यचेताः ॥ तुलाधिरूढा तुलपट्टराज्ञी
जातैवसौ भाग्यसु पुण्यपूर्णा ॥ ८ ॥ सुवर्णवर्णा जितवत्पलंरुचा यशोविशेषेण
चराजतीरुचिं ॥ श्रीपट्टराज्ञी किलजेतु मुद्यता तुलाकरोद्रूप्य मर्यांतुलांततः
॥ ९ ॥ निवर्त्य ऽ सांगं सकलंतुलाविधिं पूर्णाहुतिं प्राप्तमनंत मोदयुक् ॥ गरीब-
दासाख्य पुरोहितस्तदा सुवर्णपूर्णा कृतवा न्महातुलां ॥ १० ॥ ततः प्रसन्नो
रणछोडराय नामानमाह प्रियमात्मजंसः ॥ आरोप्यरूप्या तिलसत्तुलायां प्रमो-
दपूर्णा भवदेवतूर्णा ॥ ११ ॥ सर्वेषुवर्णेषुयतः सुवर्णवान् तुलांसुवर्णं प्रचुरां ततो-
तनोत् ॥ रूप्याभकीर्ति स्फुरितेनराज तुलांतथाकार यदेषसूनुना ॥ १२ ॥ तोडा-
स्थितेः श्रीयुतरायसिंह भूपस्यमाता रजतेनपूर्णा ॥ तुलामतुल्या मकरोद्दुदारो
हसन्मनाधर्म धुरंधराभूत् ॥ १३ ॥ चौहानवंश्य स्तुसलंवरस्थः सकेसरीसिंह
इतिप्रसिद्धः ॥ रावस्तुलां रूप्यमर्यां विधायधन्यो भवद्धर्म मयोविशुद्धः ॥ १४ ॥

सचारणो वारहट प्रसिद्धः सत्केसरीसिंह इतिप्रपूर्ण ॥ रूप्येणरूप्या भयशः
 प्रकाशं कुर्वस्तुलां तामकरो दुदारः ॥ १५ ॥ अस्मिन्दिने राजसमुद्र नामकः
 प्रोक्तस्तडागो गिरिमंदिरंमहत् ॥ प्रोक्तंनरेद्रेण चराजमंदिरं राजादिशब्दं नगरं
 पुरंतथा ॥ १६ ॥ अथात्र घस्त्रेतु सहस्त्रनेत्र समानसंपत्ति विराजमानः ॥ श्रीरा-
 जसिंहो वलिकर्णभोज श्रीविक्रमार्को पमदानवीरः ॥ १७ ॥ पूर्वैरितान्धान्य धरा-
 धरांस्ता न्पक्वान्नशैला नपिशर्कराद्रीन् ॥ गुडादिखंडादिक पर्वतांश्च ददौद्विजादि
 भ्यद्गहागतेभ्यः ॥ १८ ॥ ततो गिरीणाम भवद्विलक्ष्यता चित्रंहितेषा मभवज्जनुः
 पुनः ॥ आनीयधान्यादि सुकार्यकृजनैः कृतंकृतार्थै रिहसेवयाप्रभोः ॥ १९ ॥
 नैतादृशंजन्म नवाप्यलक्ष्यता ईदृग्गिरीणा मभवज्जनुः पुनः ॥ एतेस्थिता एवतु
 यावकावले गृह्व्रजोमित्र नचित्रमत्रतत् ॥ २० ॥ अत्रोत्सवे सद्घृतवापिकाः
 पुनर्मुहुः कृताकार्य करैर्महाजनैः ॥ मुहुर्मुहुस्तारि रिचुर्नाचित्रता पानीयवाप्योरि
 रिचुस्तदद्भुतं ॥ २१ ॥ अस्यश्रियं प्रेक्ष्यलोके दिक्पालांश युतोह्ययं ॥ इंद्रप्रचेतो
 धनदश्रीशानां शाधिकत्वान् ॥ २२ ॥ ततोबहुतरं भव्यं द्रव्यंदत्तं पुरोधसे ॥
 ऋत्विग्भ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च प्रभुणा सादरंमुदा ॥ २३ ॥ प्रभोराज समुद्रस्य रिंगतुंग
 तरंगकैः ॥ तटस्थद्विजदारिद्र्य द्रुमादूरीकृताध्रुवं ॥ २४ ॥ मन्येराज समुद्रस्य
 लोलैः कल्लोल संचयैः ॥ याचकाले द्र्रिद्रास्य पंकप्रक्षालनंकृतं ॥ २५ ॥ वसन्
 राजसमुद्रस्य तटेसद्द्वार्वतीपुरी ॥ द्राग्दरिद्र सुदाम्नोमे श्रीदः स्याः श्रीपतेनृप
 ॥ २६ ॥ तटेराज समुद्रस्य वसन् श्रीशानृपश्रियं ॥ द्राक्दरिद्र सुदाम्नोमे देहि
 तातं दुलार्पणात् ॥ २७ ॥ सप्तसागर दानेन तत्सप्त पुरुषार्जितं ॥ द्विजानांदीर्घ
 दारिद्र्यं प्रभोदूरी कृतंत्वया ॥ २७ ॥ सप्तसागर दानस्य सुवर्णोघ प्रवाहतः दूरी
 कृतस्त्वया राज न्द्विजदारिद्र्यसद्द्रुमः ॥ २८ ॥ दत्तैर्हेम तुलास्वर्णैः सुवर्ण गिरि
 सन्निभान् ॥ कुर्वन्सतां गृह्वंतं दारिद्र्य दमनो ध्रुवं ॥ २९ ॥ तुला सुवर्ण दानेन
 राजसिंह प्रभोत्वया ॥ दूरीकृता द्राग्विदुषा मतुलासा धमर्णता ॥ ३० ॥ खंशेते
 राजसमुद्र रूपमपरं रूपं दधानोंबुधिः ॥ मध्ये प्रोल्लोकल्लोलः फेनाः स्फटिककू
 टभाः ॥ सारसाः सरसास्तीरे भांत्यस्यनवकावकाः ॥ ३१ ॥ मुक्तास्वीयं कुलं वैवं
 मति किलतटे यस्यसद्द्वारकांतां कृत्वारम्यां पुरार्द्रिग्यवनभयमयः केशवोद्वारि
 केशः ॥ गोमत्युत्तुंग संगान्दलति विगदसच्छंख चक्रोच्छपद्मः श्रीराणाराजसिंह
 प्रभुवरभवतः श्रीतडागः समुद्रः ॥ ३२ ॥ विभ्राणः सेतुबंधं गिरिवर रुचिरः
 पूरितोजीवनौघैर्नानानद्यात्रसंगं शिवसदनयुतः पोतपङ्क्त्याप्रसक्तः ॥ नैता
 वत्या समुद्रस्तदाधिक इतितेभूपते श्रीतडागो मर्यादांवाडवाग्निं कलयति नचवा

क्षारनीरं कदाचित् ॥ ३३ ॥ प्रियतम मथुराया मंडलाच्चंड कालयवन कलितभीत्या
गत्यगोवर्द्धनेशः ॥ वसतितवतडाग स्यांतिकेत्वन्मुदेत जलधिमपरमेनं राजसिंहे
तिजाने ॥ ३४ ॥ अमावास्यां विनानैव स्पृश्यः सिंधुः सगर्जनः ॥ तडागस्ते
तदाधिकः सदास्त्यस्य विगर्जनं ॥ ३५ ॥ समुद्रयातुः स्वीकारो नकलौयातु रत्रतु ॥
त्वयाकृते यत्स्वीकारे वीरायं सिंधुतोधिकः ॥ ३६ ॥ श्रीराणोदयसिंह सूनुरभवत्
श्रीमत्प्रतापः सुतस्तस्य श्रीअमरेश्वरोस्य तनयः श्रीकर्णसिंहोस्यवां ॥ पुत्रो
राण जगत्पतिश्च तनयो स्माद्राजसिंहोस्यवा पुत्रः श्रीजयसिंह एषकृतवा न्वीरः
शिलालेखितं ॥ ३७ ॥ पूर्णसप्तदशे शतेतपसिवा सत्पूर्णिमास्थेदिने द्वात्रिंशन्मित
वत्सरेनरपतेः श्रीराजसिंहप्रभोः ॥ काव्यंराजसमुद्र मिष्टजलधेः स्टष्टप्रतिष्ठाविधे
स्त्येत्राक्तं रणछोडभट्टरचितं राजप्रशस्त्याङ्कयं ॥ इति अष्टादशसर्गः ॥ १८ ॥

॥ श्रीगणेशायनमः ॥ लक्ष्मी सत्कांतिकंद्रा मृतशुभ विषसत्कामधुक् शार्ड
धन्व प्राक्वैद्यो ऽ पारिजातामरयुवति मणी सत्सुराद्यो दयश्च ॥ शंखाच्छोच्चैः श्रवो
युक त्रिदश गजमहा भंगभृद् भूतिरद्वा धन्वंतर्युद्भवो वांबुभिरिति भवतः क्षीर
सिंधु स्तडागः ॥ १ ॥ कुंभोद्भव प्रकर कृष्टजलोविशुष्को जात स्ततो लवण
नीरमयः समुद्रः ॥ कुंभोद्भव प्रकर कृष्टजलोतिवृद्धा मिष्टस्तवक्षितिप राजसमुद्र
एषः ॥ २ ॥ श्रीद्वारिकोद्भव कृते परिमुक्तभूमिर्न्यूनः क्वचित्तदुदधिः किलकृष्ण
वाक्यात् ॥ यत्तीर भिन्नधरणी पुरवासि कृष्णोनूनसुपूर्ण इतिते ऽ विधवरस्तडागः
॥ ३ ॥ खातेषष्टिसहस्र भूपतनयाः पूर्वोसहस्रास्ययुग्गांगाद्या भवणीकृतावपि परो
ऽन्यः सेतुबंधेबुधेः ॥ खाते पूर्तिषुमिष्टसृष्टि शुभवा न्यत्सेतुबंधेस्यतत् सिंधो
रेककृतेरवि घ्नसमयान्मन्यामहे धन्यतां ॥ ४ ॥ अल्पस्य साम्यं नददातिकश्चित्
समस्यसाम्यं नचदृष्ट मस्य ॥ ततोमहत्वेन जलाशयोयं प्रोक्तः समुद्रः कविभि
र्नचित्रं ॥ ५ ॥ जलेनिमग्ना येग्रामा नतेमग्ना महीपते ॥ तेलग्ना वरुणद्वारे भग्ना
स्तत्पाप पंक्तयः ॥ ६ ॥ येषांविशिष्ट ग्रामाणां क्षेत्राण्यत्र जलाशये ॥ मग्नानि
तीर्थ क्षेत्राणि तानिजातानि भूपते ॥ ७ ॥ येजन्मिनां जीवनदाः स्थले तेजीवन
प्रदाः ॥ यादसांच नृणांग्रामा गुणग्राम भृतांबुगाः ॥ ८ ॥ भूस्थावृक्षा जलेमग्ना स्तेषां
वीजां कुरैर्द्रुमाः ॥ जलेभवन्वाटिकातो वरुणस्यत्वयाकृता ॥ ९ ॥ वोधिद्रुमोजल
स्थायी तपस्तपति दुः करं ॥ प्रवाल मालयाशाखां गुलाभिः सार्थकाङ्कयः ॥ १० ॥
वटवृक्षास्थिता स्तोये तपंति प्रचुरं तपः ॥ क्षालयंति जटाजालं नूनमते त्रयोगिनः
॥ ११ ॥ त्कीर्त्ति स्वर्णदी भृद्यदुपति सहित प्राप्तकालिंदिका युग्मी लच्छायानुमाना
त्स्नपनकर गजोत्कुंभ सिंदूर संगत् ॥ आजत्सारस्वतौ घस्तदिति नरपते तेतडागः

प्रयागो न्यग्रोधा अक्षयास्याः प्रविदधति पदं युक्त मस्मिन्निकामं ॥ १२ ॥ यथा
 स्थले तथा जले बुधावदन्ति जंतवः ॥ विचित्रमत्र शास्त्रिनस्तथा जयन्ति भूपते ॥
 वनस्थिताद्रुमाः सर्वे वनस्थाएवतेभवन् ॥ युक्तविशेषोधर्मो ऽत्र वरुणस्थोपयोगतः
 ॥ १३ ॥ पूर्वयत्रवनेसिंहगर्जनानि जलाशये ॥ जातेत्रजलकल्लोल गर्जनानि
 जयन्त्यलं ॥ १४ ॥ वरुणालयतस्तोया नयनात्सजितस्त्वया ॥ प्रेक्षन्तेतन्मृगाक्ष्यस्त्वां
 पद्मछद्मकटाक्षकैः ॥ १५ ॥ कमलौघस्त्वयानीत स्तडागेवरुणालयात् ॥ कमलाद्य
 स्थापितोत्र कमलादानतत्परः ॥ १६ ॥ प्रदक्षिणा स्वागतायामाला भूपालतां
 स्त्वया ॥ तडागे वरुण प्रीत्यै प्रेषिताः करुणानिधे ॥ १७ ॥ वटानां जलमग्नानां
 जटा राजन्ति तत्रते ॥ मीना गृहाणि कुर्वन्ति नीडानि पतगा इव ॥ १८ ॥
 निर्मलो जीवरक्षा कृद्विश्व तर्पण कृत्वया ॥ नव सूत्रार्पणे नायं तडागो द्विजता
 मितः ॥ १९ ॥ पूर्वपश्चिम सुदक्षिणोत्तर देश भूमिषु न दृष्टिगोचरः ॥ ईदृशः
 खलु जलाशयो बुधैः सिंधु रुक्त इतिनात्र चित्रता ॥ २० ॥ श्रीराजनगर
 स्यास्य - - रद्भुत भूतले ॥ विराजते राजसिंहो गोडा मंडल मातनोत् ॥ २१ ॥
 तत्र द्विजातयो नाना देशात्प्राप्ताः सुवेषिणः ॥ षट् चत्वारिंश दारुया युक्
 सहस्र मितयः स्थिताः ॥ २२ ॥ एतावंतो ग्राम नाम सहिता अधिकाः पुनः ॥
 ब्राह्मणास्तु असंख्याता आगता नात्रसंशयः ॥ २३ ॥ ततो गरीबदासास्यः
 पुरोहित वरो हिंसः ॥ तत्रस्थित्वा स्वयं स्वाज्ञा कारिणः कार्य कारिणः ॥ २३ ॥
 स्थापयित्वा स्वहस्ताभ्यां तद्वस्तै रप्य हर्निशं ॥ सप्तसागर दानस्य तुलादानस्य
 वाप्रभोः ॥ २४ ॥ धन श्रीपट्ट राज्ञ्याश्च तुलाद्रव्यं तथा बहु ॥ स्वकल्पितं स्वर्णं
 तुलादानस्य बहुहाटकं ॥ रणछोड राय कृतं तुला द्रव्यं दामितं दत्त्वा पूर्वोक्ते-
 भ्यः सदापूर्व मुदान्वितः ॥ २५ ॥ विवेकादर पूर्वं स तान् व्यधात्तुष्टमान
 सान् ॥ अन्नदानं बहुविधं कृतवां स्तत्र भूपतिः ॥ २६ ॥ ततः सभा मंड
 पस्थो राजसिंहो महीपतिः ॥ द्विजेभ्यो याचके भ्यश्च चारणेभ्यो दिवा निशं
 ॥ २६ ॥ वंदिभ्यः सर्व लोकेभ्यः सुवर्णं दिव्य वर्णकं ॥ रूप्य मुद्रा
 स्तथा ऽक्षुद्रा अलं कारां (- - - -) ॥ २७ ॥ वासांसि हेमहयानि-
 वाजिनो जितवाजिनः ॥ उत्तुंग मातंग गणा न्दत्त्वा संमोद मादधे ॥ २८ ॥
 हलानां बहलानांच ताम्रपत्राणि भूपतिः ॥ ग्रामाणां विलसद्धान्य ग्रामाणां दत्तवां
 स्तथा ॥ २९ ॥ याचकैः कनक विक्रयं परं कर्तुमत्र कनकं प्रसारितं ॥ वीक्ष्यराज
 नगरं महाजनाः सत्सुवर्णं मयमेव मूचिरे ॥ ३० ॥ याचकैः स्तुरग विक्रया
 यताक्ष्या - - न्विपणिपूञ्जवाजिनः ॥ वीक्ष्य राजनगरं जनोवदत्सिंधु देश

मिति सिंधु सुंदरं ॥ ३१ ॥ याचकैर्भवतएव भूपते याचनाभिजगणो पिचस्मृतः ॥
 स्थापितंतु धनरक्षणे मनस्तैर्यतो विगुण तास्तितेषुच ॥ ३२ ॥ तुलाकर्तुर्द्रव्यं
 क्षितिपभवतः प्राप्य गुणिनस्तुलाकर्ता रोलपाधिक मितिकृते विक्रयविधौ ॥ स्ववि-
 श्वासार्थं तद्बहुलकनकस्या प्रतिपलं तुलाकर्तुं (- -) जयसिरचयन् याचकगुणान्
 ॥ ३३ ॥ निमंत्रणायात धराधवेभ्यः स्वेभ्यः परेभ्यः सकलद्विजेभ्यः ॥ वैश्यादि-
 केभ्यो ऽ खिलमानुषेभ्यो वासांसिगांगेय गुणोत्तमानि ॥ ३४ ॥ अश्वान्स्तथा
 वातगतीन् गजेंद्रान् गिरिप्रमाणान् मणिभूषणानि ॥ दत्त्वाविवेकाद्गमनायतेभ्य
 आज्ञां ददानो जयति क्षितीन्द्रः ॥ ३५ ॥ युगमं ॥ निमंत्रितेभ्यो खिल भूमि पेभ्यो
 दुर्गा धिपेभ्यो निज बांधवेभ्यः ॥ स्वेभ्यः परेभ्यः कनको तमानि वासांसि चाश्वान्
 पृशदश्व वेगान् ॥ ३६ ॥ तुंगांश्च मातंग गणा न्मदाढ्या न्विभूषणा लीर्गत दू
 पणांश्च ॥ संप्रेषयित्वा प्रविभाति भूपो महा महोदार चरित्र (- -) ॥ ३७ ॥
 आसीद्भास्करतस्तु माधवबुधो ऽ स्माद्रामचंद्रस्ततः सत्सर्वेश्वरकः कठोडि कुलजो
 लक्ष्म्यादिनाथस्सुतः ॥ तैलंगोस्यतुरामचंद्रइतिवा कृष्णोस्यवामाधवः पुत्रोभून्मधु-
 सूदनस्त्रयद्वमे ब्रह्मेशविष्णुपमाः ॥ यस्यासीन्मधुसूदनस्तुजनको वेणीचगोस्वामिजा
 ऽ भून्मातारणछोडएवकृतवान् राजप्रशस्त्याङ्कयं ॥ काव्यंराणगुणौघवर्णनमयं
 वीरांकयुक्तमहत् द्वाविंशोद्भवदत्रसर्ग उदितो वागर्थसर्गः स्फुटः ॥ चतुर्विंशत्याख्य
 इहा भवद्भवमुदे सर्गोर्थसर्गोन्नतः ॥ ३८ ॥ इति एकोनविंशतितमः सर्गः ॥ १९ ॥

श्रीगणेशायनमः ॥ जसवंतसिंहनाम्ने राज्ञेराठोडनाथाय ॥ सार्द्धं नवसत्सहस्र
 प्रमितरजत मुद्रिकामूल्यं ॥ १ ॥ परमेश्वर प्रसादाभिधं गजपंचविंशति प्रमितैः
 ॥ राजतमुद्राशतकैर्गृहीतमति नूतनं तुरगवरं ॥ २ ॥ फल्लेतुरंग संज्ञं पट्टशत
 मित रजतमुद्रिका क्रीतं ॥ कनक कलश हयमपरं हेमपूर्ण वसनानि ॥ ३ ॥
 नानाविधानि बहुतर संख्यानि महादरेण जोधपुरे ॥ राणेंद्रः प्रेषितवान् हस्ते
 रणछोड भद्रस्य ॥ ४ ॥ अथ रामसिंहनाम्ने राज्ञे किलकच्छवाह भूपाय ॥
 राजतमुद्रा सार्द्धद्विशता प्रायुतरचित मूल्यं ॥ ५ ॥ सुंदरगजनामानं गजोत्तमं
 रजतमुद्राणां ॥ पंचदशशतैः कल्पित मूल्यंछवि सुन्दराख्यहयं ॥ ६ ॥ अथ
 सार्द्धसप्तशत मित राजतमुद्रा प्रमित मूल्यं ॥ हयहदनाम तुरगं कनक कलित
 बहुलवसनानि ॥ ७ ॥ आंबेरि नगर मध्ये प्रेषितवान् राणपूर्णेंद्रः ॥ हस्ते
 प्रशस्त कीर्तिः स्वपुरोहित रामचंद्रस्य ॥ ८ ॥ बीकानेर प्रभवे अनूपसिंहाय
 रावाय ॥ सार्द्धं सुसप्तसहस्रं राजतमुद्रा प्रमित मूल्यं ॥ ९ ॥ मनमुक्तिनाम
 करिणं सार्द्धं सहस्रा च्छरजतमुद्राभिः ॥ कृतमूल्यं तुरगवरं साहण सिंगारसंज्ञ
 मन्यहयं ॥ १० ॥ शतसार्द्धं सप्तशतमित राजतमुद्रा रचित मूल्यं ॥ तेजनि

धानाभिध मपिहेमयान्यं बराणि बहुलानि ॥ ११ ॥ प्रेमादर पूर्वकिल वीकानेर
 स्फुटाभिधे नगरे ॥ प्रेषितवान् राणेंद्रो माधवजोसीहस्तेहि ॥ १२ ॥ रावाय
 भावसिंहा मिधायहाडा नृपालाय ॥ षड्सप्ततियुक् त्रिशताग्रे दशसहस्रैस्तु ॥
 राजतमुद्राणां कृतमूल्यं द्विरदतु होणहाराख्यं ॥ १४ ॥ सार्द्धसहस्रप्रमितिक
 राजतमुद्रा रचितमूल्यं ॥ तुरगंनर्तन चतुरं तुंगतरं सर्वशोभाख्यं ॥ १५ ॥
 सत्सार्द्धसप्तशतमित राजतमुद्रा प्रमितमूल्यं ॥ शिरताजाभिधमपरं हयंसहे
 माम्बराणि राणमणिः ॥ बूंदीनगरे भास्कर भट्टकरेप्रेषयामास ॥ १६ ॥ चंद्रावत
 चंद्राय मुद्दुकमसिंहाभिधाय रावाय ॥ सार्द्ध द्विशताग्रलसत्सप्त सहस्राच्छ रूप्य
 मुद्राभिः ॥ १७ ॥ कृतमूल्यं गजराजं फत्तेदोलत शुभाभिधं तुरगं ॥ सार्द्ध सहस्र
 प्रमित राजतमुद्रारचित मूल्यं ॥ १८ ॥ मोहसंज्ञसार्द्ध सप्तशते रूप्यमुद्राणां ॥
 कृतमूल्यं हयसरसं हयमन्यं हेमपूर्ण वसनाढ्यं ॥ १९ ॥ राजाज्ञया गृहीत्वा
 भट्टोगा द्वारिकानाथं ॥ रामपुरानगरेत्वथ सर्वमिदंतु सोर्षयामास ॥ २० ॥
 भाटी भूपालाय रावलवर अमरसिंहाय ॥ राजसमुद्रैकादशसहस्र मूल्यं
 प्रतापशृंगारं ॥ २१ ॥ करिणं राजतमुद्रा सार्द्धसहस्र प्रमित मूल्यं ॥
 हयमुकुटाख्यंसार्द्ध सप्तशत प्रमित रूप्यमुद्राभिः ॥ २२ ॥ कृतमूल्य मपरमश्वं
 सूरति मूर्तिचहेम वसनौघं ॥ एतत्सर्वं जोसीदेवानंदस्य किलहस्ते ॥ २३ ॥
 दत्त्वा जेसलमेरौमहापुरे प्रेमपूर्वमपि ॥ संप्रेषितवानेतं सराणवीरोनृपति धीरः
 ॥ २४ ॥ जसवंतसिंहनाम्ने रावलवर्याय षट्सहस्रैस्तु ॥ पंचशताग्रे राजतमुद्राणां
 रचितमूल्य मिभंहेम ॥ २५ ॥ शुभसारधारसंज्ञं द्विवेदि हरिजीकहस्तेतु ॥
 डूंगरपुरेनरपतिः प्रेषितवान् हेमयुक्त वसनानि ॥ प्रथमं राजसमुद्रोत्सर्गैस्मै
 रजतमुद्राणां ॥ तत्रसहस्रेण कृतमूल्यं जसतुरगनामहयं ॥ २६ ॥ पंचशत
 रूप्यमुद्राकृतमूल्य तुरगमपरंच ॥ कनकमयांवर वृंददत्तवान् राजसिंहनृपः ॥ २७ ॥
 राजत मुद्रैकादश सहस्रमूल्यं प्रतापशृंगारं ॥ द्विपमंबराणि च ददौ दोसी-
 भीषू प्रधानाय ॥ २८ ॥ सिरनागं कृतमूल्यं सप्त सहस्रै स्तुरूप्य मुद्राणां ॥
 द्विपमंबराणि सददौ राणावत रामसिंहाय ॥ २९ ॥ राजसमुद्र जलाशय कार्यकृता
 मग्र गण्धाय ॥ राजत मुद्राणांवा कृत मूल्यान् पंचविंशति सहस्रैः ॥ एकाधिक पंचाश
 द्युत पंचशताग्र कैस्तुरगान् ॥ सुखदैक षष्टि संख्यान् कुरराज त्पराजयेसददौ
 ॥ ३० ॥ कुलकं ॥ एकाग्र सप्तति लसत्पंच शताग्रेतु सप्तविंशतिकैः ॥ दिव्य सहस्रै
 राजत मुद्राणां रचित सन्मूल्यान् ॥ ३१ ॥ षडधिक शतद्वयमितास्तुरंगमाश्रा-
 रणेभ्य इहादात् ॥ प्रवाहमध्ये भाटेभ्यो भूपतिः प्रददौ सप्त सहस्रैः ॥

विरचित मूल्यं रजतमुद्राणां द्विरदन मनोरूपं द्विरदवरं सार्धनव शतकैः
 ॥ ३२ ॥ राजत मुद्राणां च कृतमूल्यं विनय सुंदरकं ॥ हयमन्यं दिलसारं
 राजत मुद्राचतुःशतगृहीतं ॥ ३३ ॥ कनकमयांवर वृंदं सुलब्ध राज्या
 चवांधवेशाय ॥ नृपभावसिंह नाम्ने राशेसं प्रेषयामास ॥ ३३ ॥ लाधूम
 सानिहस्ते लाधूकं तीर्थयात्रार्थं ॥ दत्ता बहुलं द्रव्यं प्रेषितवा न्प्रेमरुद्रूपः
 ॥ ३४ ॥ राजत मुद्राणांवा त्रिंशत्य चतुःसहस्र कृतमूल्यान् ॥ सददेष्य
 दश तुरगान्निमंत्रणायात नृपतिभ्यः ॥ ३५ ॥ त्रिसहस्र रजतमुद्रा मूल्या-
 करिणी सहेलीति ॥ तोडेश रायसिंह नृपस्यमात्रे ददौ कुमारेभ्यः ॥ ३६ ॥
 सार्धचतुःशतयुक् त्रिसहस्र सुरूप्य मुद्रिका मूल्यान् ॥ तुरगांस्त्रयोदश ददौ
 निमंत्रणायात नृपतिभ्यः ॥ ३७ ॥ एकाग्रषष्टि संयुत पंचशत प्रमित
 रूप्यमुद्राणां ॥ सप्त ददौ भूपोश्वान् निमंत्रणायात नृपतिभ्यः ॥ ३८ ॥
 षट्त्रिंशदधिक शतयुक् त्रिसहस्र त्रयंतुरूप्यमुद्राणां ॥ द्विशत तुरंगान् सददौ
 शासनयुत चारणौघ भाटेभ्यः ॥ ३९ ॥ तत्र विवेकस्त्रिसहित विंशति तुरगान्
 स्वशासनिभ्योदात् ॥ पूर्वोक्तसंख्य तुरगान् राणा जगत्सिंह शासनिभ्योपि ॥ ४० ॥
 श्रीकर्णसिंह शासनिकेभ्योश्वानां चतुष्टयं सददौ ॥ अमरेशशासनिभ्यः सप्ततु-
 रंगान् प्रतापसिंहस्य ॥ ४१ ॥ शासनिकेभ्यो षट्दशहयानुदयसिंह शासनिभ्यस्तु ॥
 अष्टत्रिंशत्तुरगान् हयमेकंविक्रमार्क शासनिने ॥ ४२ ॥ युग्मं ॥ हयमेकंतु रतन
 सीशासनिने राणवीरोदात् ॥ शुभसप्त विंशति हयान् संग्राम नृपस्य शासनिभ्योदात्
 ॥ ४३ ॥ श्रीरायमल्ल शासनिके भ्योश्वानेक विंशति प्रमितान् ॥ कुंभाशासनि
 काया श्वमेकमेकोनविंशति प्रमितान् ॥ ४४ ॥ मोकलशासनिकेभ्य स्तुरगान्हम्मीर
 शासनिभ्योदात् ॥ पंचहयान् लाखानृपशासनिकेभ्यो हयान्सप्त ॥ ४५ ॥
 युग्मं ॥ खेता ऽजेसीशासनिकाभ्यां हयमेकमेकमदात् ॥ रावलसुशालिवाहन
 महासमरसीक शासनिभ्यांतु ॥ ४६ ॥ हयमेक मेकमेकं रावत वाघस्य शासनिने ॥
 मोकलसहोदरस्य द्विशत हयान् भूपएवमत्र ददौ ॥ ४७ ॥ लक्षक द्वाविंशति
 सहस्रशत युग्म साष्टषष्टिमितैः ॥ राजतमुद्रा वृंदैः क्रीताः शतपंचकं द्विपंचाशत्
 ॥ ४८ ॥ तुरगान् लक्षक द्विसहस्र शतकाष्टकै रितिक्रीताः ॥ करिणीगजा स्त्रयोदश
 दत्तावीरेंद्र राजसिंहेन ॥ ४९ ॥ पंडितेभ्यः कविभ्यश्च बंदि चारण पंक्तये ॥
 अश्वान्धनानि वासांसि ददौ (- - - - -) ॥ ५० ॥ जलाशयोत्सर्ग
 विधानमेवं कृत्वा महादान समूहमेवं ॥ तथैव नानाविध दानराजी विराजते
 राजित राजवीरः ॥ ५१ ॥ इति श्री राजसमुद्र प्रशस्त्या भद्ररणछोड विरचिते
 विंशति सर्गः ॥ २० ॥

श्रीगणेशायनमः ॥ पूर्णे सप्तदशे शते शुभकरे तष्टा दशा स्येद्धके माघे
सद्बुध कृष्ण सप्तमितिथा वारभ्य कालादितः ॥ पंच त्रिंशदभिस्व वर्ष उदिता
षाढावधीत्यंबदे लग्नं राजसमुद्र नामकमहा नव्ये तडागे धनं ॥ १ ॥ षड्च-
त्वारिंशदास्यानथ रजत महा मुद्रिकाणां शुभानां लक्षाणीत्यं सहस्राण्यपि
रुचिर चतुः षष्टि संख्या मितानि ॥ षट्संख्या युक् शतानि प्रकटितपदयुक्
पंचविंशत्युपात्त स्वग्राण्येवं विलग्नान्युत गणनमिदं लेकपक्षे मयोक्तं
॥ २ ॥ विवेकमत्र वक्ष्यामि रूप्यमुद्रा बलेहितत् ॥ सप्त विंशति लक्षाणि
षट्त्रिंशत्प्रमितानिच ॥ ३ ॥ सहस्राणि चतुः संख्या शतानि नवति
स्तथा ॥ सार्द्धं सप्ताग्र कान्यत्र रामसिंहस्य वैतफे ॥ ४ ॥ पंचलक्ष चतुः
संख्यसहस्राष्टशतानिच ॥ सपादाशीतिका भाद्र पितृव्यस्यतफे तथा
॥ ५ ॥ पुत्र मोहमसिंहाख्य सीशोद्या संग शोभितः ॥ लक्षद्वयं सहस्राणि
द्वादशैव शतानिच ॥ ६ ॥ पंचाष्टत्रिंशदधिक पदषा गणनाभवत् ॥ एषा
सांव उदासस्य पंचोलीकुलशालिनः ॥ ७ ॥ चतुर्लक्षाण्यष्टयुक्त सप्तति
प्रमितानिच ॥ सहस्राण्येकशतकं सप्ताग्रं भरणे मृदां ॥ ८ ॥ चतुष्कीनिः
सृतानां तु लेखने गणना भवत् ॥ द्वात्रिंशत्सुसहस्राणि षट्शतानि सपादकं
॥ ९ ॥ एकमत्रा न्यदायातं द्रव्यं वा प्रभुपार्श्वतः ॥ तथा प्रसाद दानादि तल्लेखे
गणना त्रियं ॥ १० ॥ सप्त लक्षाणि सैकानि प्रतिष्ठा करणे मितिः ॥ एतद्राज समुद्र-
स्य पूर्व संख्या प्रमेलनं ॥ ११ ॥ पूर्वोक्त द्रव्य गणना विवेकः क्रियते पुनः ॥ द्वात्रिंशत्
संख्य लक्षाणि सहस्र द्वितयं तथा ॥ १२ ॥ गणनाष्ट शतान्यासी त्सपादा शीति र-
प्युत ॥ एपाराजसमुद्रस्य कार्यार्थं च भृतेः कृते ॥ १३ ॥ सप्तलक्षाण्येक षष्टि सहस्राणि
सप्ततै ॥ चतुश्चत्वारिंशदग्र युक्तानि शतकानिच ॥ १४ ॥ श्रीमद्राजसमुद्रस्य
कार्येये ठकुराः स्थिताः ॥ तेषां ग्रामोत्पत्ति रूप्य मुद्राणां गणनाभवत् ॥ १५ ॥
एवंपूर्वोक्त संख्याया मेहनं भवतिस्फुटं ॥ एकपक्षे लग्नरूप्य मुद्रासंख्येयमीरिता
॥ १६ ॥ देशग्रामभुजां मुख्य क्षत्रादीनां महोधनं ॥ चतुष्की खनने लग्नं
वक्तुं शकश्चतुर्मुखः ॥ १७ ॥ गृहाच्चतुर्गुणं लग्नं तडागे वासतोधनं ॥ तद्विपक्ष
त्रिपादोनां षोडशांशं तदिष्यते ॥ १८ ॥ गोभूहिस्वय रूप्याणां दत्तानामन्नवाससां ॥
वराह मिहिरश्चेत्स्याद्गणको गणनाभवेत् ॥ १९ ॥ श्वासानां गणनां कुर्याद्यद्यश्वानां
सदातदा ॥ श्वसना ऽऽ वेगजयिनां गणनाकृद्भवेद्गुणी ॥ २० ॥ मत्तानां राणदत्तानां
तुंगानां गणनामुचां ॥ मत्तंगानां मणेशश्चेद्गणना जायते तदा ॥ २१ ॥
एकाकोटिः पंचलक्षाणि रूप्यमुद्राणां वासत्सहस्राणि सप्त ॥ लग्नान्यस्मि

न्यष्टासा न्यष्टकवैकार्ये प्रोक्तं पक्षएव द्वितीये ॥ २२ ॥ सहस्र लक्ष
 कोटीनां संख्या ज्ञातातुयाबहुः ॥ तैरत्र लग्नद्रव्यस्य संख्योक्ता मंतुरस्तुमा
 ॥ २३ ॥ लग्नं राजसमुद्रेतु यावतावदनं बुधः ॥ तरंगगणनांकुर्याद्यद्यस्यैव
 तदाचरेत् ॥ २४ ॥ सर्वा लक्ष्म्या सरस्वत्या लग्नालक्ष्मीस्तुयावती ॥
 नवक्ति तावतीयुक्तं तडागेत्र सरस्वती ॥ २५ ॥ सप्तदशेतीते पंचस्त्रिंशन्मिताब्द
 जन्मदिने ॥ द्विशतपलमिताच्छहाटक कल्पद्रुम नामकं महादानं ॥ २६ ॥
 षडशीतितोलमितियुत सुहिरण्याश्वाभिधं महादानं ॥ श्रीराजसिंहनामा पृथ्वी
 नाथो रचितवान्सः ॥ २७ ॥ युग्मं ॥ शतेसप्तदशे पूर्णे चतुस्त्रिंशन्मितेब्दके ॥
 श्रीराणा राजसिंहेंद्रो जीलवाडावधि ब्रजन् ॥ २८ ॥ वैरीसालं सिरोहिस्थं
 शत्रु संघेन पीडितं ॥ रावं सिरोहिनृपतिं चक्रेनिज पराक्रमैः ॥ २९ ॥
 एकलक्ष प्रमितिका रूप्य मुद्रास्ततो ग्रहीत् ॥ पंचग्रामान्कोरटा दीन्
 जग्राहोग्राहवोनृपः ॥ ३० ॥ राणासुवर्णकलशं चौर्यं तद्देश आगतं ॥
 तद्रूप्यमुद्राः पंचाशत् सहस्राण्यग्रहीत्ततः ॥ ३१ ॥ शते सप्तदशे तीते
 चतुस्त्रिंशन्मितेब्दके ॥ श्रीराणेंद्रोद्यत्संख्याः (- - -) रजगृहेगजं ॥ ३२ ॥
 त्रिविक्रमाश्रय कृतो विक्रमार्कस्य दानतः ॥ वक्तुकः सुक्रमाच्छक्तो राजसिंह
 पराक्रमान् ॥ ३३ ॥ राजसिंह विचित्रोयं प्रताप तपनस्तव ॥ वने संस्था-
 नपिरिपूं स्तापयत्यद्भुतं महत् ॥ ३४ ॥ राजन्भवत्प्रतापाग्निः शत्रु
 स्त्रीवाष्प सिचनैः ॥ ज्वलत्यत्र नचित्रंतद्विद्विक्तीर्ति नव - - पः ॥ ३५ ॥
 शत्रुस्त्रीनेत्रपद्मानि संतापयति संततं ॥ श्रीराजसिंह भवतः प्रताप तपनो-
 षुतः ॥ ३६ ॥ प्रतापोदीपस्ते क्षितिप जगदालोक किरणः शिखाभिः
 शत्रूणां वदन निकुरंबंमलिनयन् ॥ दिशां दिव्यांस्त्रेहं कवलयतिवा प्राणपटली
 पतंगालीं दग्धां कलयति तनूपात्र वसतिः ॥ ३७ ॥ यशश्चंद्रेसांद्रं किरति
 कर वृंदं रिपुगणाः शिवोजातः कर्णस्फटिक विलसत्कुंडलधरः ॥ विधुंभाले
 गंगांशिरसि भुजयोः शुभ्र भुजगान्दधानो भस्मांगो वसति धवले शैलशिखरे
 ॥ ३८ ॥ भूभार मेषभुजयो विदधातिपाणौ खड्गोरगं मुखरुचौ प्रचुरंप्रतापं ॥
 कर्णैपिभाति विमलां विधुशीतलायत् कीर्तिस्तवात्र भुवनं तथबभ्रमीति ॥ ३९ ॥
 राजेंद्रो भवतादयं जयकरो वैरित्रजानां जवात् ॥ गांभीर्यात्किल सिंधुरेव हयसदंति
 प्रदस्तकिल ॥ चक्रेसर्वविशेषणा दिविलसद्दर्पैर्युतं नामते श्रीराणामणि राजसिंह
 नृपते विभ्यत्सुमेधाधरः ॥ ४० ॥ राष्ट्रप्रदो जलधिजाप्रदउत्तमेभ्यो भाव्यष्टसिंह
 तुलनो हरिसेवनोयत् ॥ आख्याविशेषणगवादिमवर्णयुक्ता चक्रेविधि स्तदुचितं

तवराणवीर ॥ ४१ ॥ श्रीराणोदयसिंह सूनु रभवत् श्रीमत्प्रतापःसुत स्तस्य श्रीअमरेश्वरोस्य तनयः श्रीकर्णसिंहोस्यवा ॥ पुत्रोराणजगत्पतिश्च तनयोस्मा-
द्राजसिंहोस्यवा पुत्रश्रीजयसिंह एष कृतवान् वीरः शिलालेखितं ॥ ४२ ॥
पूर्णेसप्तदशेशते तपसिवा सत्पूर्णिमास्ये दिने द्वात्रिंशन्मितवत्सरे नरपतेः
श्रीराजसिंहप्रभोः ॥ काव्यं राजसमुद्रमिष्ट जलधेः सृष्टप्रतिष्ठाविधे स्तोत्राक्तं
रणछोडभङ्गरचितं राजप्रशस्त्याङ्क्यं ॥ ४३ ॥ आसीद्भास्कर तस्तुमाधवबुधो
ऽस्माद्रामचंद्रस्ततः सत्सर्वेश्वरकः कठोडिकुलजो लक्ष्म्यादिनाथस्सुतः ॥ तैलंगो-
स्यतुरामचंद्रइतिवा कृष्णोस्यवा माधवः पूत्रोभून्मधुसूदनस्त्रयइमे ब्रह्मेशविष्णूपमाः
॥ ४४ ॥ यस्यासीन्मधुसूदन स्तुजनको वेणीच गोस्वामिजा भून्माता रणछोड
एषकृतवान् राजप्रशस्त्याङ्क्यं ॥ काव्यं राण गुणौघ वर्णनमयं वीरांक युक्तं महत्
सर्गो भूदधुनैक विंशति शुभाभिख्योर्थ वर्गोत्तमः ॥ इति एकविंशति
तमः सर्गः ॥

श्रीगणेशायनमः ॥ शते सप्त दशे तीते पंचत्रिंशन्मिते ऽब्देके ॥ शुद्धे
कादशिकायांतु चैत्रे प्रस्थान मातनोत् ॥ १ ॥ श्रीराजसिंहस्या ज्ञातो जयसिंहा
भिधोबली ॥ महाराज कुमारोयं अजमेरौ समागतः ॥ २ ॥ औरंगजेबं म्ले
च्छेशं द्रष्टुं दिल्लीपतिं ययौ ॥ पश्चाद्राज कुमारोयं ययौसेना समावृतः ॥ ३ ॥
दिल्लीतः क्रोश युग्मस्थे अर्वकिं शिबि रोत्तमे ॥ दिल्लीश्वरं ददर्शायं सोस्यादर
मथा करोत् ॥ ४ ॥ मुक्तामाला उरोभूषा अस्मै हेमांबराण्य दात् ॥ महा
गजेन्द्र भूषाक्तं तादृक् तुंगतुरंगमान् ॥ ५ ॥ भालास्य चंद्रसेनाय पुरोहित
वरायच ॥ गरीबदाससन्नाम्ने हैमवासां सिवा हयान् ॥ ६ ॥ महद्भयष्टकुरे-
भ्योदादन्येभ्योपि यथोचितं ॥ ततोयं जयसिंहा ख्यो गण युक्तेश्वरंशिवं ॥ ७ ॥
दृष्ट्वा गंगा तटे स्नात्वा महा रूप्य तुलां व्यधात् ॥ करिणींच हयं दत्वा यातो वृंदावनं
प्रति ॥ ८ ॥ मथुरांच ततोदृष्ट्वा ज्येष्ठेराण पुरंदरं ॥ ददर्श दर्शनीयोयं राणेंद्रो
मोद मादधे ॥ ९ ॥ शते सप्त दशे तीते वर्षे षट्त्रिंश दाह्ये ॥ पौषस्य कृष्णोका
दश्यां मेवाडे दिल्लीकापतिः ॥ १० ॥ आया तस्तस्य पुत्रस्य आदौ अकबरा मिधः
॥ तथा तह वरः खानः प्राप्तः सेना समा वृतः ॥ ११ ॥ सुंदरे राजनगरे राज
मंदिरं महवः ॥ तल्लो कैः कल्पिता तत्र शक्तः शक्ता वतोत्तमः ॥ १२ ॥ पुत्रः
सबलसिंहस्य पूरावत वरस्यसः ॥ भ्रातरं मुद्गमसिंहस्य घोरं रणमिहा करोत्
॥ १३ ॥ वीरश्चोडावतः कोपि तथा विंशति सद्गटाः ॥ कृत्वा युद्धं दिवं याता
भिता भास्वत्सुमंडलं ॥ १४ ॥ विधेः कलेर्बला दाज्ञां ददौ राणा पुरंदरः ॥

दहवारं महाघट्टे दन्यघट्टाच बाहुजाः ॥ १५ ॥ आयांतु कृतसंकल्पा अपि
 योद्धुंमदुक्तिः ॥ नालिकोलकसंस्तोमाः सौरसंधामहोन्नताः ॥ १६ ॥ राणोक्ति
 तस्तथाजातं ततो दिल्लीश आगतः ॥ दहवारी महाघट्टे कृत्वातद्वार पातनं
 ॥ १७ ॥ एकविंशति तिथ्यंतं स्थितोत्र निशिचैकदा ॥ दिव्योदयपुरं प्राप्तो गुप्त
 एपास्त्युपश्रुतिः ॥ १८ ॥ तदा अकबरः प्राप्तो महोदयपुरेततः ॥ तथा
 तहवरः खान स्तकृत्यंतद्रटैः कृतं ॥ १९ ॥ एकलिंगं द्रष्टुमगाद्वैवादकबरस्ततः
 ॥ अंबेरी चीरवाघट्टौ दृष्ट्वा शिविरमागतः ॥ २० ॥ भाला प्रतापः कर्केट पुर
 वासी गजद्वयं ॥ दिल्लीश सैन्यादानीय राणेंद्रायन्यवेदयत् ॥ २१ ॥ भदेसर
 स्थावलाख्या ह्यौघान्दृष्टिनांगजौ ॥ न्यवेदय न्नूप्लुवंदे नैनवारास्थित प्रभोः
 ॥ २२ ॥ पंचाशत्क सहस्राणि नृणानष्टानि तद्विधेः ॥ दिल्लीश्वरस्ततः प्राप्त
 श्वित्रकूटेन्यथा पृथां ॥ २३ ॥ ज्ञापयित्वा अकबर स्थितस्तत्र समागतः ॥ तथा
 हसनअल्लीखां छप्यन्नादत्र नागतः ॥ २४ ॥ नार्हीप्रतितदायातो राणेंद्रो रोष
 पोषितः ॥ कोटडी ग्रामतः शीघ्रं ततः सेनासमावृतः ॥ २५ ॥ संप्रेषितो
 भीमसिंहः कुमारो राण भूभुजा ॥ ईडरध्वंस मतनोत्सैदहसाततोगतः
 ॥ २६ ॥ बडनगरं लूटित मथचत्वारिंशत्सहस्र मिताः ॥ राजसमुद्राजग्रहे
 दंडविधौ भीमसिंह इह ॥ २७ ॥ अहमदनगरे लक्षद्वयं प्रमित रूप्यमुद्राणां ॥
 वस्तूनांलुंठनमिह कारितवान् भीमसिंहोबली ॥ २८ ॥ एकामहा मसीदिर्विखंडिता
 लघुमसीदिसुत्रिंशत् ॥ देवालयपातनरुपः प्रकाशिता भीमसिंह वीरेण ॥ २९ ॥
 राणा महीमहेन्द्रस्य आज्ञयाविज्ञ उत्सुकः ॥ महाराजकुमार श्री जयसिंहो (- -)
 नाम ॥ ३० ॥ भालाख्यचंद्रसेनेन चोहानेनचमूभृता ॥ तथा सबलासिंहेन
 रावेण रणसूरिणा ॥ ३१ ॥ केसरीसिंहनाम्नातद्वात्रारावेण शोभितः ॥
 राठोड गोपीनाथेन अरिसिंहस्य सूनुना ॥ ३२ ॥ भगवंतादिसिंहेन
 धन्यराजन्य राजिभिः ॥ सहितः स्वाहितजयं जयंकर्तुंसमीहिते ॥ ३३ ॥
 त्रयोदशसहस्राणि अश्ववार वरावलेः ॥ सद्विंशतिसहस्राणि पदातीनां महात्मनां
 ॥ ३४ ॥ संगेगृहीत्वाप्रययौ चित्रकूटतटिंप्रति ॥ ततस्तेठकुरारात्रौ संगरं
 चक्रुसन्मदाः ॥ ३५ ॥ सहस्रसंख्या न्दिल्लीश लोकान् जघ्नुर्गजत्रयं ॥ येनागतास्तां
 स्तुरगा त्रिःसृतस्तदकब्बरः ॥ ३६ ॥ पंचाशत्तुरगान्वीरा गृहीत्वा तान्न्यवे-
 दयन् ॥ कुमार जयसिंहाय जयसिंहोमुदं दधे ॥ ३७ ॥ जयसिंहः कुमारोय
 श्री राणेंद्रस्य दर्शनं ॥ कृतवान्कृतकृत्यावा महाराणकृतौ कृतिः ॥ ३८ ॥
 शकावतस्यशक्तस्य केसरीसिंह वर्मणः ॥ गंग कूवर इत्येष कुमार पदवीं दधत् ॥ ३९ ॥

अष्टादश द्विपान्मत्ता न्ह्यौघानुष्टसंचयान् ॥ दिल्लीश सैन्या दानीय
 राणेंद्राग्रे न्यवेदयत् ॥ ४० ॥ राणेंद्रेण कुमारोथ भीमसिंहो बलान्वितः ॥
 प्रेषितोऽ कबराख्येन तथा तहवरेणच ॥ ४१ ॥ खानेन संगरंचक्रे शक्र-
 रक्षो रणोपमं ॥ उल्लंघ्य देवसूरींता महानालिं नलोपमः ॥ ४२ ॥ घानो-
 रानगरे चक्रे नियुद्धयोधविक्रमः ॥ बीकासोलंकि वीरोथ युद्धरक्षां रणव्यधात्
 ॥ ४३ ॥ राणेंद्रेण कुमारोथ गजसिंहो बलान्वितः ॥ प्रस्थापितो बभंजायं
 तद्वेगमपुरंमहत् ॥ ४४ ॥ राष्ट्र त्रयं रूप्यमुद्रा लक्षत्रय मथापिवा ॥ दत्तैव
 मिलनकार्यं मयाराणेन निश्चितं ॥ ४५ ॥ औरंगजेबो दिल्लीश उक्तवा-
 न्सतदुत्तरं ॥ विधेः कलेर्वलाजातं यत्तदत्र वदाम्यहं ॥ ४६ ॥ श्री राणो
 दयसिंह सूनुरभवत् श्री मत्प्रतापः सुत स्तस्यश्री अमरेश्वरो स्यतनयः श्री
 कर्णसिंहोस्यवा ॥ पुत्रोराण जगत्पतिश्च तनयो स्माद्राजसिंहोस्यवा पुत्रः श्री
 जयसिंह एषकृतवा न्वीरः शिलालेखितं ॥ ४७ ॥ पूर्णे सप्तदशेशते तपसि-
 वा सत्पूर्णिमाख्येदिने द्वात्रिंशन्मित वत्सरे नरपतेः श्री राजसिंह प्रभोः ॥
 काव्यं राजसमुद्र मिष्ट जलधेः सृष्टप्रतिष्ठाविधेः स्तोत्रात्कं रणछोड भट्टरचितं
 राज प्रशस्त्याङ्गयं ॥ ४८ ॥ युग्मं ॥ आसीद्भास्कर तस्तुमाधवबुधोऽ स्मा
 द्रामचंद्रस्ततः सत्सर्वेश्वरकः कठोडिकुलजो लक्ष्म्यादिनाथस्ततः ॥ तैलंगो-
 स्यतु रामचंद्र इतिवा कृष्णोस्य वा माधवः पुत्रो भून्मधुसूदनस्रयइमे ब्रह्मेशविश्व
 पमाः ॥ ४९ ॥ यस्यासीन्मधुसूदन स्तुजनको वेणीच गोस्वामिजाऽ भून्माता
 रणछोड एषकृतवा न्राजप्रशस्त्याङ्गयं ॥ काव्यं राणगुणौघ वर्णनमयं वीरांक
 युक्तंमह द्वाविंशोभवदत्र सर्ग उदितो वागर्थ सर्गः स्फुटः ॥ ५० ॥ इति श्री
 राजप्रशस्ति श्रीराजसर्ग द्विविंशतिः सर्गः ॥ २२ ॥

श्रीगणेशायनमः ॥ शतेसप्तदशेतीते सप्तत्रिंशन्मितेब्दके ॥ कार्तिके शुक्लदशमी
 दिने राणापुरंदरः ॥ १ ॥ नानाविधानि दानानि द्रव्यंदत्वा तनंतकं ॥ द्विजादि-
 भ्योहरिंध्यात्वा जपमालांकरे दधत् ॥ २ ॥ हृदिसंस्थाप्यचजपन् शमनाम
 स्वनामच ॥ सयशः स्थापयन्लोके भूलोकंत्यक्तवान्नुपः ॥ ३ ॥ ददानोमहादान
 वृंदं द्विजेभ्य स्तथागाः सवत्साः सुवर्णादिपूर्णाः ॥ तदुत्थंफलंशंवलंसंदधानो नृपो
 दुर्ममस्वर्गमार्गाययातः ॥ ४ ॥ महादान सन्मंडपस्तंभसंघाः कृतादारुणाते
 तदायोगनिःश्रेणिकाश्रेणिकाभिः क्षितिस्पर्शहीनं विमानंसमानं
 ॥ महेद्रेणसंप्रेषितंमेदिनींद्रः समारुह्यादिव्यैर्गणैः संवृतश्च ॥ सनाकं
 ॥ महाराजसिंहो नरेद्रेषुसिंहः ॥ ६ ॥ महेद्रेणसंमानितस्तेन

दिव्यासने स्थापितो मानितस्तोपितंयत् ॥ महादानमाला तडागप्रतिष्ठा करोविष्णु
नामग्रही धर्मपूर्णः ॥ ७ ॥ ततः स्वीयवैकुण्ठ लोकेत्वकुण्ठ प्रभावो हरिः
प्रेषयित्वा विमानं ॥ मुदा कार्यं संस्थापयामासयुक्तं स्वपूर्वोद्भवैः संयुतं
राजसिंहं ॥ ८ ॥ ततः कडैजे नगरे शिविरं व्यतनोद्वली ॥ जयसिंहो
जयमयः सत्पंचदशवासरान् ॥ ९ ॥ उल्लंघ्यकृतवान्वीरो राणसिंहासनस्थितः ॥
रक्षरणदक्षोयं क्षोणीमक्षौहिणीपतिः ॥ १० ॥ शतेसप्तदशपूर्णे सप्तत्रिंशन्मिते
ब्दके ॥ मार्गशीर्षेशौर्यमार्गं प्रकाशीमार्गणार्थदः ॥ ११ ॥ वसत्कडंजेनगरे जयसिंहो
महामनाः ॥ श्रुत्वातहवरंखानं देवसूरी विलंघ्यच ॥ १२ ॥ आयातं घट्ट मर्यादा
लोपिनं कोपपूरितः ॥ स्वभ्रातरं भीमसिंहं भीमंवा प्रेषयत्सतु ॥ १३ ॥ बीका
सोलंकिनं दृष्ट्वा तंसमाशवास्यतत्परां ॥ महाभीमो भीमसिंहो बीकासोलंकि नांबरः
॥ १४ ॥ जघ्नतुम्लैच्छसत्यानि रुद्धस्तहवरो भवत् ॥ दिनाष्टकांत मुक्तोप्य राहु
नुक्तेन्दु विच्छविः ॥ घानोरा पार्श्व आयातो जयसिंहो दलेलखां ॥ छपन्नदेशशैलेष्वा
यातोह्यागवृतोस्यतु ॥ १६ ॥ मार्गो दत्तो राणलोकैर्गोंगूदा घट्ट आगतः ॥
रुद्धाघट्टा स्ततोराणा लोकैर्लोकेषु विश्रुतैः ॥ १७ ॥ रत्नसी रावतेनापि स्थितं
घट्टे शिलोत्कटे ॥ दलेलखां न शक्तोभूत्तदागंतुं कथंचन ॥ १८ ॥ अथश्री
जयसिंहेन भालाख्यो वरसाभिधः ॥ प्रेषितो मिलनं कर्तुं तेनोक्तं मार्गगामिना
॥ १९ ॥ दलेलखानं प्रत्येवं भवान्दिह्लीश मानितः ॥ सहस्राण्यश्ववाराणां संगेयञ्च
दशात्रते ॥ २० ॥ राणेंद्रस्यैक राजन्यो घट्टं रुद्धास्थितो भवान् ॥ निःसरत्वे
वनिश्चितो राणेंद्रस्य तवस्फुटं ॥ २१ ॥ स्नेहस्तदत्र पर्यंत मायातस्त्व मतः परं ॥
नवाब्रे नोच्यतेचत्तं घाटा न्निःसारयाम्यहं ॥ २२ ॥ उच्यते चेत्स्थापयामि नवाबेन
तदेरितं ॥ पश्चात्सैन्यं ममायाति मास्तुतेनापि वारणं ॥ २३ ॥ घट्टत्रयस्य
मार्गस्य दृष्ट्यर्थं प्रेषिताभटाः ॥ तैः सनवाबेनतू - - कंठघट्टाघट्टास्त्रयो दृढं
॥ २४ ॥ ततो ननिःसतस्तत्र नवाबस्तदनं तरं ॥ सहस्रं रूप्यमुद्रास्तु दत्त्वैकस्मै
द्विजातये ॥ २५ ॥ अग्रेसकृत्यचत्तं नवाबो रणकेसरी ॥ निःसृतो न्येनमार्गेण
रात्रौ तत्रापि सैन्यवान् ॥ २६ ॥ रत्नसी रावतोरत्नं योधाना मार्गतोजवात् ॥
रणचक्रेनिःसरणं नवाबः कष्टतोव्यधात् ॥ २७ ॥ इत्थं दलेलखानस्तु निःसृतो
घट्टतश्छलात् ॥ दिह्लीशांतिक मायातः पृष्टोदिह्लीश्वरेणसः ॥ २८ ॥ त्वंनिःसृ-
त्यकिमायातो सणाकस्थानुयोगतः ॥ दलेलखांतदोवाच रानंलब्धंमयाप्रभो ॥ २९ ॥
राणेंद्रो ममपश्चान्तु हंतुंमां समुपागतः ॥ योधामे मारितास्तेन नानाहंतेन
निसृतः ॥ अन्नाभावा न्नित्यमेव लोकानांतु चतुःशतं ॥ मृताहं तन्निःसृतस्त


च्छुत्वादिह्रीश आकुलः ॥ ३० ॥ अथाकबर आयातो मिलनकर्तु मुद्यतः ॥
 राणा श्री कर्णसिंहस्य द्वितीयस्तनयोबली ॥ ३१ ॥ गरीबदासस्तत्पुत्रः श्यामसिंह
 इहागतः ॥ कृत्वामिलन वार्त्तांतं परावृत्त्यगतौदृढां ॥ ३२ ॥ ततो ऽदलेलखानस्तु
 मिलने दाढ्यमातनोत् ॥ तथा हसन अल्लीखां मिलनस्य विधिं व्यधात् ॥ ३३ ॥
 जयसिंहोथ मिलनं कर्तुमुद्योग मातनोत् ॥ श्री मद्राजसमुद्रस्य अग्रभागेस्थितस्ततः
 ॥ ३४ ॥ सहस्राण्यश्व वाराणां सप्तसंसप्तकत्विषां ॥ मध्येस्थितः सप्त सप्ति
 समतेजाः समाबभौ ॥ ३५ ॥ जयसिंहः स्थितः सप्तनाम सप्तिसमेहये ॥ तत्प्रेक्ष-
 कजनैः प्रोक्तं अश्ववारमयं जगत् ॥ ३६ ॥ पदातीनामयुतकं संगेस्थापितवान्प्रभुः ॥
 तदापत्तिनयं प्रोक्तं जगदृष्ट्वाजनैर्ध्रुवं ॥ ३७ ॥ महाशौर्यो महाधैर्यो जयसिंह
 स्ततोवली ॥ भालेंद्रं चंद्रसेनाख्यं चोहानं स्थापयन्पुरः ॥ ३८ ॥ रावं सबलसिंहाख्यं
 परमार शिरोमणिं ॥ वैरीसालं महारावं राठोरान्वीर ठकुरान् ॥ ३९ ॥ चौडावता
 त्रणेचंडान् शक्तान् शक्तावतांस्तथा ॥ राणावतान् रणाजेयान् राजन्याजन्य
 दुर्जयान् ॥ ४० ॥ सचातिखर्व राढ्यान्स संगे संस्थाप्य सत्सवः ॥ राणेंद्रो
 रण दुर्धर्षो मिलनार्थं मुदा ऽ चलत् ॥ ४१ ॥ रक्तध्वजैः शोभमाना भांतिनाना
 पदातयः ॥ सपल्वलद्रुमा गोत्रा एकत्र स्थापिताः किमु ॥ ४२ ॥ वैरिग्राह
 गणैर्मही धरकुलैः सद्रत्न वृंदैरहो राजच्चक्र चयैश्च वाडव शिखि स्फुर्ज
 त्रतापै वृतः ॥ उद्यद्गोगिवरैर्महोर्मिनिवहैर्मर्यादया पूर्वया गांभीर्येण युतो
 विराजति जयीराणा ऽर्णवः किंपरः ॥ ४३ ॥ औरंगजेब वीरस्य दिह्रीशस्य
 सुतस्यसः ॥ जगत्राणसुरत्राण आजमस्य प्रतापिनः ॥ ४४ ॥ आज्ञयाति-
 ज्ञता सिंधु गांभीर्य गुणसागरः ॥ दलेलखां महावीरो हसन्ना जदपूरितः ॥ ४५ ॥
 तथाहसन अल्लीखां अन्येपि म्लेच्छ भूभुजे ॥ राठोडो रामसिंहाख्यो रतलाम पुर
 स्थितः ॥ ४६ ॥ हाडा किशोरसिंहाख्यो गौड़ भूपा स्तथा पुरे ॥ हिंदू म्लेच्छ
 महावीरा आयाताः संमुखं सुखात् ॥ ४७ ॥ दिह्रीपतीयैः स्वीयैश्च देश पालैः
 समा वृतः ॥ जयसिंहो विभाजाव दिव्यालैर्मघवा वृतः ॥ ४८ ॥ ततः श्री
 जयसिंहाख्यः पूर्वोक्तैः षकुरैर्वृतः ॥ गरीबदास नाम्नास्वपुरोहित वरेणवा ॥
 भीषू प्रधान वैश्येन युक्ते सुयोनिते जसाः ॥ महा भाग्यो महा शौर्यो महोत्साहो
 महामनाः ॥ ४९ ॥ हिंदू म्लेच्छ महा वीर देशनाथ विशोभिनः ॥ वमाख्य
 सुरत्राण मणे दर्शन मातनोत् ॥ ५० ॥ आजमाख्य भुस्वाणो राणेंद्रस्या दरं भृशं
 ॥ अकरो द्विनयो पेतः सुस्त्रेह मनु दर्शयन् ॥ ५१ ॥ एकादश गजानशवां श्र-
 त्वारिंशन्मितान् शुभान् ॥ आजमाख्याय रानेंद्रो प्रेषया मास दर्पवान् ॥ ५२ ॥

आजमास्यः सुरत्राण एकमदल द्विप ॥ अष्टाविंशति संख्याश्वान् सहेम वसन
त्रयी ॥ ५३ ॥ पंचाशत्प्रमिता भूषा समूहं रान भूभुजे ॥ ददौ महानं हेम मय
मिलनं त्वनयोरभूत् ॥ ५४ ॥ दलेलखां तदोवाच सुलतान शृणु प्रभो ॥ अयं-
वीर श्रंद्रसेनो राना भाला शिरोमणिः ॥ रावः सबलसिंहोयं रत्नसी नाम
रावतः ॥ चोंडावतारणे चंडाः शक्ताः शक्तावतास्तथा ॥ ५५ ॥ परमाराश्व
राठोडा स्तथा राणावतोत्तमाः ॥ राणेसिंहाः पर्वतेषु मार्ग मद दुरुत्तमाः ॥ ५६ ॥
युयुधुर्नमहायोधा ज्ञातव्यं विज्ञतांबुधे ॥ दिल्लीशेन परारानोक्त्या रक्षितुं ध्रुवं ॥
आजमाप्युक्त वानेवं सत्यमेव न संशयः ॥ संतुष्टो जयसिंहाय ददावाज्ञां
कृतादरः ॥ ५७ ॥ जयसिंहो महाभाग्यो वीरः शिविरमागतः ॥ अस्यासीद्भाग्यतः
शीघ्रं मिलनं तु जितावदत् ॥ ५८ ॥ पूर्णः सर्गः ॥ इति त्रयोविंशति नाम
सर्गः ॥ २३ ॥

श्रीगणेशाय नमः ॥ प्रेम्णा अमरसिंहास्य पौत्रयुक्तस्य धर्मणः ॥ राणेन्द्र
राजसिंहस्य राजराजस्य संपदा ॥ १ ॥ हेम्नोदशसहस्रौघ तोलकैः पूर्णतोभृतः ॥
शुद्धात्मनेव सृष्टाया स्तुलाया अतुलाजुषः ॥ २ ॥ महासेतौ हस्तिनीसत् स्कंधे बंधुर
सुंदरं ॥ तोरणं भाति गौरोच्चा धोरणं तुलयाद्भुवं ॥ ३ ॥ महोज्वलतया किंवा
ऐरावतकुलस्थितिः ॥ हस्तिन्येषामुर्द्धनिधत्ते चित्ररूप्योच्चभूषणं ॥ ४ ॥ दत्तां
कुशद्वयं प्येषा अचलैवाभवत्ततः ॥ दर्शितं तून्नतीकृत्य हस्तिपेनां कुशद्वयं ॥ ५ ॥
महा तोरणमेतत्तु गौरकीर्त्योन्नतीकृतं ॥ प्रांजलिं सांजलियुगं भुजयोर्भातिभूपतेः ॥ ६ ॥
द्वितीयं तोरणं तत्र पाश्वेस्ति लघुसुन्दरं ॥ तथा अमरसिंहास्य पुत्रस्यातिविचित्र
कृत् ॥ ७ ॥ राणेन्द्रराजसिंहस्य पट्टराज्यातिविज्ञया ॥ श्रीराणाजयसिंहस्य
मात्रामित्रप्रतापया ॥ ८ ॥ सदाकुंवरिनाम्न्याया तुलारूप्यमयीकृता ॥ आस्ते
ततोरणंचित्रं हस्तिन्यां हस्तयुग्मवत् ॥ ९ ॥ आस्ते गरीबदासस्य पुरोहित
शिरोमणेः ॥ कृतायाः स्वर्णपूर्णाया स्तुलायास्तोरणं महत् ॥ १० ॥ गरीबदासस्य
पुरोहितस्य ज्येष्ठः कुमारो रणछोडरायः ॥ आस्ते कृतायाः किलतेन रूप्यः
आजतुलायाः शुभ तोरणंसत् ॥ ११ ॥ श्रीराणोदयसिंहसूनुरभवत् श्रीमत्प्रतापः
सुत स्तस्य श्री अमरेश्वरोस्य तनयः श्री कर्णसिंहोस्य वा ॥ पुत्रो राणजगत्प-
तिश्च तनयो स्माद्राजसिंहोस्य वा पुत्रः श्री जयसिंह एष कृतवान्वीरः शिला ५
लेखितं ॥ १२ ॥ पूर्णं सप्तदशे शते तपसिवा सत्पूर्णमास्ये दिने द्वात्रिंशन्मित
वत्सरे नरपतेः श्री राजसिंहप्रभोः ॥ काव्यं राजसमुद्र मिष्टजलधेः सृष्टप्र-
तिष्ठाविधेः स्तोत्राच्छं रणछोड भट्टरचितं राजप्रशस्त्याद्वयं ॥ १३ ॥ युग्मं ॥

आसीद्भास्कर तस्तु माधवबुधो ऽ स्माद्रामचंद्रस्ततः सत्सर्वे श्वरकः कठोडि कुलजो
 लक्ष्म्यादिनाथस्सुतः ॥ तैलंगोस्यतु रामचंद्र इतिवा कृष्णोस्यवा माधवः पुत्रोभून्म
 धुसूदन स्रयइमे ब्रह्मेश विष्णुपमाः ॥ १४ ॥ यस्यासीन् मधुसूदनस्तु जनको वेणीच
 गोस्वामिजा ऽ भून्माता रणछोड एषकृतवान् राजप्रशस्त्या द्वयं ॥ काव्यं राण गुणौघ
 वर्णनमयं (- - - -) चतुर्विंशत्यास्य इहा भवद्भवमुदे सर्गोर्थ सर्गोन्नतः
 ॥ १५ ॥ राजप्रशस्ति ग्रंथोयं प्रसिद्धः स्याज्जगत्यलं ॥ लक्ष्मीनाथादि बालानां पाठार्थं
 जायतां ध्रुवं ॥ १६ ॥ नारायणादि पुण्यात्म राणेन्द्रान्वय वर्णनं ॥ कर्णस्थितं स्या (-)
 णौच्चं पुत्रपौत्र सुखप्रदं ॥ १७ ॥ रामादि राजस्तुति युक्काव्यं रामायणोपमं ॥ श्रुत्वा धनं
 धनेशः स्यात्काव्ये काव्यो गरुर्गिरं ॥ १८ ॥ नानाराजेतिहासाक्तं ग्रंथः स्याद्भार
 तोपमं ॥ भारत्यां भारती तुल्यः पठन् भारत खंडके ॥ १९ ॥ ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चस्वी
 बाहुजो बाहुवीर्यवान् ॥ वैश्योलभेद्धनं श्रुत्वा शूद्रो भद्रं तथाखिलं ॥ २० ॥ संस्तभ्य
 चित्तमन्येभ्य पठन्सभ्यत्वा माप्नुयात् ॥ इभ्यताभुवने मर्त्येनालभ्यं तस्य किंचन
 ॥ २१ ॥ विप्रोन्नि होत्रग्रामेभ्यः क्षत्रियो ऽ खिलभूमिपः ॥ वैश्योधनीस्यात्कायस्थः
 श्रियासुस्थो भवेद्ध्रुवं ॥ २२ ॥ राजाश्रुत्वा चक्रवर्ती शौर्यं गांभीर्यं धैर्यवान् ॥ देश
 स्वास्थ्यं लभेद्द्वैरि विजयं कुरुते सदा ॥ २३ ॥ पठन्स्फुरद्भागवते नवमस्कंध सत्कथा
 ॥ आकंठं सुखभुग्भूत्वा वैकुण्ठं प्राप्नुयादिदं ॥ २४ ॥ दयालसाह कृतवान् खेराबाद
 स्य मारणं ॥ तत्केतु दुंदुभिग्राहं वनहेडास्य लुटनं ॥ २५ ॥ धारापुरा मारणंच
 मसीदितति पातनं ॥ ध्वस्त्वं चक्रे अहमद नगरं लुटनं कृतं ॥ २६ ॥ महामसीदि
 पतनं कृतवान् समरे कृती ॥ इत्युक्तः प्रभुवीराणां पराक्रम विनिर्णयः ॥ २७ ॥
 जगदीशमिश्रतनयो माथुरहीरामणि महामिश्रः ॥ राजसमुद्र जलाशय सूत्रनिवेशे
 परिक्रमणे ॥ २८ ॥ द्वादशशतमण मितिकं धान्यमहीध्रमहासेतौ ॥ द्वादश-
 शतमणमितिकं धान्याद्रिकांकरोलीस्थे ॥ २९ ॥ सेतौस - - प्यतथासार्ध
 सहस्राच्छ रूप्यमुद्राणां ॥ कृत्वा ढब्बूकगणं सरूप्यमुद्रादिकं तदार्थिभ्यः ॥ ३० ॥
 षड्दिनपर्यंतमयं - - तदाराजसिंह देवेन ॥ उक्तं जनसमदमिश्रो ऽ स्मन्निकटतः
 पुरः कुरुते ॥ ३१ ॥ इत्युत्साहेनतदा भक्त्या मिश्रः पुरः स्थितो नृपतेः ॥
 धान्यादि धनंसार्थि ब्रजायदत्ता प्रियोनृपस्यासीत् ॥ ३२ ॥ श्रीराणोदयसिंह
 सूनुरभवत् श्रीमत्प्रतापः सुतस्तस्य श्री अमरेश्वरोस्य तनयः श्रीकर्णसिंहोस्यवा ॥
 पुत्रोराणजगत्पतिश्च तनयो स्माद्राजसिंहोस्यवा पुत्रः श्रीजयसिंह एषकृतवान्वीरः
 शिला ऽऽलेखितं ॥ ३३ ॥ पूर्णैसप्तदशशते तपसिवा सत्पूर्णमास्येदिने द्वात्रिं-
 शन्मितवत्सरे नरपतेः श्री राजसिंह प्रभोः ॥ काव्यं राजसमुद्र मिष्टजलधे
 सृष्टप्रतिष्ठाविधेः स्तोत्राक्तं रणछोडभट्टरचितं राजप्रशस्त्याद्वयं ॥ ३४ ॥ युग्मं ॥


आसीद्भास्कर तस्तुमाधवबुधोः ऽस्माद्रामचंद्रस्ततः सत्सर्वेश्वरकः कठोडिकुलजो
 लक्ष्म्यादिनाथस्सुतः ॥ तैलंगोस्यतुरामचंद्र इतिवा कृष्णोस्यवा माधवः पुत्रोभून्म-
 धुसूदन स्रयइमे ब्रह्मेशविष्णूपमाः ॥ ३५ ॥ यस्यासीन्मधुसूदनस्तु जनको वेणीच
 गोस्वामिजा ऽभून्माता रणछोडण कृतवान् राजप्रशस्त्याङ्कयं ॥ काव्यं राणगुणौघ
 वर्णनमयं (- - - -) चतुर्विंशत्याख्य इहा भवद्भवमुदे सर्गोर्थ सर्गोन्नतः
 ॥ ३६ ॥ दुहा ॥ राणा कोइ रजपूत जेबडता जायो नहर ॥ समुद्रफेरणसूत राणातुहीज
 राजसी ॥ १ ॥ ऐजो ओरंगकाह मंगलमुगल मारिजे ॥ राणो राषेराह रजवट भरीया
 राजसी ॥ २ ॥ संवत् १७१८ माहा वदि ७ नीमषोदवारो मुहुर्त हुओ जद अतरा
 ठाकुर मिल कामकरावे राणावत माहसिंघजी रामसिंघजी, राणावत भाउसिंघजी
 चूडावत दलपतजी, मोहणसिंघजी, रावत लुणकरणजी, चूडावत केशरीसिंघजी,
 चूडावत मोकमसिंघजी, मांजावत नरसिंघदासजी, मांजावत गरीबदासजी,
 राठोडसिंघजी, राठोड रामचंदजी, राठोड हेमजी, राठोड मोकमसिंघजी, वितगरा
 साह रामचंद चेचांणी, साह कलु पंचोली राम जगमालोत, साह मुकुंददास पंचोली,
 हरराम सिंघवी, लषुपंचोली, वाघो गजधर, मुकुंद गजधर, किल्याण सुत जगनाथ
 उरजण सुतलालो लषो जसो हरजी जगनाथ सुत मेघो मनो ॥ संवत् १७३२
 प्रतिष्ठा हुई शुभं भवतु ॥ श्रीरस्तु ॥



शेषसंग्रह नम्बर ५.

उदयपुर - अंबामाताकी चरणचौकी की प्रशस्ति.

संवत् १७२१ वरषे जेठ शुदि १० रवौ वरखसंन्यास्यापन्न विरषसितातः विरे
 श्रीराणा राजसिंहजी राज वृत्तमान नगररौवै परमध्रंध्ये धरती मुरतमी अंबाजीरि सुतार
 सुरजानहरट ८८८१ करा षरती ताँबापत्र दियो सुतार मषवजी धरतषबडा सुरजपथमान
 श्रीसेवगनाम रावतखाटनाम श्रीमाताजी सेवतरुमापत् सुभकारजसीधइ संतारस्तान हैं
 धरती दिदि तरत घर नोरा दिया घरहर चालबधरो वोटाहै ताँबापत्र दिघो नदेजनीरो
 माहे गधेगाल छै



शेषसंग्रह नम्बर ६.

बडीके तालाबकी प्रशस्ति.

सिद्धश्रीएकलिंगजी प्रसादात् महाराजाधिराज महाराणाजी श्री राजसिंहजी विजयराज्ये तलाव जानसागररो काम करायो कुँवरजी श्री जेसिंहजी भीमसिंहजी कुँवर पदभुक्तव्यं गजधर सूत्रधार किशना सुत जसा संवत् १७२१ मार्गशीर बदी १० गुरे नीमरो मुहूर्त हुवो सं० १७२५ वर्षे काम पूरोहुवो प्रशस्ति प्रतिष्ठितं शुभंभवतु बैशाख शुद ३ गुरे.

श्रीगणेशायनमः ॥ कलयतुकमलायाः कामदः कर्मरूप स्तुहिनकिरणविंब द्योतितानंदवक्रः ॥ विकचकमलचक्षुः क्षीरधौबद्धनिद्र स्सजलजलदनित्यं भावनी यस्सभव्यं ॥ १ ॥ गुणगणगुरुगीत्या गंगयागीतगात्रः कनककदनकांत्या कांतयाकांतकायः ॥ धुतघनधृतिधाम धैर्यधारीधरण्यां भवतुभविकभूमिर्भूतये भूतभर्ता ॥ २ ॥ बंदेलंबोदरवंद्यं जगदंबोदरोद्भवं ॥ बिंबोदरद्युतिर्देहे बिंबोदर मिवद्विषं ॥ ३ ॥ तैलंगज्ञातितिलकं कठौडीकुलमंडनं ॥ श्रीमंतमिसरंकृष्ण भट्टं बंदेप्रतिक्षणं ॥ ४ ॥ महाराजाधिराजश्री राजसिंहनिदेशतः ॥ लक्ष्मीनाथकविः कुर्वे जनासागरवर्णनं ॥ ५ ॥ अस्तिसर्वत्रविख्यातो रामवंशः सुपुण्यवान् ॥ यस्यसाम्यंनयातीह वंशः कोपिमहीतले ॥ ६ ॥ तत्रान्ववायेशिवदत्तराज्यो बापाभिधानोजनिमेदपाटे ॥ संग्रामभूमौपटुसिंहरावं लातीत्यतोरावलङ्घ्यभाणि ॥ ७ ॥ राहप्पराणाजनितस्यवंशे राणेतिशब्दप्रथयन्प्रथिव्यां ॥ रणोहिधातुः खलुशब्दवाची तंकारयत्येषरिपूनद्रुतार्तान् ॥ ८ ॥ तस्मान्नरपतिराणा दिनकर राणाबभूवाथ ॥ अजनिजसकर्णराणा तस्मादभूच्च नागपालाख्यः ॥ ९ ॥ श्री पूर्णपालनामा पृथ्वीमल्लस्ततोजातः ॥ अथभुवनसिंहउदित स्तत्पुत्रोभीमसिंहो भूत् ॥ १० ॥ अजनिजयसिंहराणा तस्माज्ज्ञेचलखमसीराणा ॥ अरसीततो हमीरस्ततोप्यभूक्षेत्रसिंहोस्मात् ॥ ११ ॥ तस्माल्लाखाभिख्यो राणाश्रीमोकल स्तस्मात् ॥ श्रीकुंभकर्णउदभूद्राणा श्री रायमल्लोस्मात् ॥ १२ ॥ संग्रामसिंह राणाभूपालमणिस्ततोजातः ॥ श्रीराणोदयसिंहः प्रतापसिंहस्ततोजातः ॥ १३ ॥ अमरसमोमरसिंह स्ततोत्पः कर्णसिंहोभूत् गुणगणनिधि स्ततोभूद्राणा श्रीमज्ज- गत्सिंहः ॥ १४ ॥ जगत्सिंहमहीभर्ता कल्पवृक्षः कथंसमः ॥ चिंतनावधि दःसोयं चिंतितादधिकप्रदः ॥ १५ ॥ भास्वान्श्रीमज्जगत्सिंह स्तुलामारुह्य यद्व्यधात् ॥ स्वातिष्ठिततोमुक्त्वा नस्याज्जन्मोत्सवः कथं ॥ १६ ॥ तस्यधर्मा- त्मजस्साक्षा द्विष्णुरूपस्यचाभवत् ॥ राज्ञीसमगुणाचारा जनादेवीतिनामतः ॥

१७ ॥ पुत्रीराठौडनाथस्य राजसिंहमहीभृतः ॥ मेडताधिपतेर्नित्यं विष्णुपूजा
 रतस्यच ॥ १८ ॥ शंभोगौरीहरेः श्रीः कलशभवमुने राजपुत्रीगुणाढ्या लोपा
 मुद्रायथास्ते नृपमनुजननी स्याच्चसंज्ञोष्णरश्मेः ॥ रामस्यासीद्यथावै जनक
 नृपसुता साशचीन्द्रस्य पत्नी तद्वद्रेजे विराजद्गुण कलित जगत्सिंहपत्नी जनादे
 ॥ १९ ॥ दात्री दानब्रजस्या प्रियरिपु निधने पार्वती वोग्रभावा दीनेनित्यं
 दयालुर्नृपमुकटजगत्सिंह राणा प्रियासीत् ॥ कर्मेती नामधेया जनक गृह
 वरे साप्रसूतेस्म पुत्रं राणा श्री राजसिंहं गुणगणनिलयं चारिसिंहद्वितीयं ॥ २० ॥
 राणा श्रीराजसिंहे कलयति मुकुटे राजलक्ष्माणि चाथो मातासेयं जनादे लभत
 बहुसुखान्युत्सवंतं विलोक्य ॥ तस्याभव्याथ धीमान् प्रियवचन निधी राजसिंहो
 नृपेंद्रो नाम्नामातु स्तडागं सदुदयपुरतः पश्चिमस्यां व्यधात् ॥ २१ ॥ बडी ग्रामस्य
 निकटे तत्कासारस्य राजतः ॥ जनासागर इत्येवं प्रसिद्धि स्समजायत ॥ २२ ॥
 किंदुग्धं दधिवाघृतं मधुसुरा चेदिक्षुवाद्धै रस स्साम्यंनो लभतो जलस्य लसतः
 श्रीमज्जनासागरे ॥ क्षारोमत्सर भावतो ज्वलितहत्तद्वाडवो दुः खभाग्लंकां प्राप्य
 विमुक्त लोकवसती रत्नाकरो प्यंबुधिः ॥ २३ ॥ पांडव लोचनमुनिभूपरिमित
 (१७२५) वर्षे तपो मासे ॥ शुक्लदशम्यां जननी बहुपुण्य प्राप्तयेनूनं ॥ २४ ॥ मही
 महेन्द्रः किल राजसिंह श्वकार पद्माकरवासवस्य ॥ उत्सर्गमुत्साह विलासि
 चित्त स्सद्वित्तविस्तार विराजमानं ॥ २५ ॥ युग्मं ॥ उत्सर्गे पूर्णतांयाते
 तस्मिन्सेतौ सुखस्थितः ॥ सुश्राव श्री राजसिंहो द्विजराजो दिताशिषः ॥ २६ ॥
 वीराधीशोधिनीरात्सि तितमरुचिमान् वीरगीरार्त्तबंधुः क्षीराब्धिस्यानहीरा धिकवि-
 मलयशः पुंजधीराब्जनेत्रः ॥ साराक्तस्वीयदारा लयहृदयलसत् कौस्तुभारा
 धितांघ्रि स्ताराधीशास्यहारा धिकलसिततनुः पातुनारायणोवः ॥ २७ ॥
 भक्तप्रत्यक्षलक्ष्मी मृदुलजनुलता संगमान्मोदमानः कामंमाद्यन्मिलिंदी भवद-
 खिलजग द्वंद्यमानांघ्रिपद्मः ॥ भक्तंयद्भुक्तशेषं सपदिसुखमया भुंजमानावभूवु
 र्दद्यात्सद्यो ऽनवद्यं फलमिहसुजगन्नाथदेवः प्रसादात् ॥ २९ ॥ भक्तानंदातिसक्ता
 खिलकलितनति स्साधुवक्ताहितस्या लक्तादिप्राज्यरक्ता नलबहुललस न्मंत्रशक्ता-
 तितेजाः ॥ कामाश्यामाभिरामा लिकरुचिरविधुः कांतिधामाननेंदु र्वामारिब्रातहामा
 रुचिरपशुपतिः पुण्यनामावताद्वः ॥ ३० ॥ दक्षाधीशस्सुवक्षा विमलसुरधुनी
 जीवनक्षालितांगो यक्षाधीशातिपक्षा चलपतितनुजा नेत्रलक्षार्कतेजाः ॥ साक्षाद्या
 यत्सुहाक्षामरिपुवरगणो मल्लिकाक्षारकामो लाक्षावल्लोहिताक्षा दितिजकृतनतिः
 पातुदाक्षायणीशः ॥ ३१ ॥ सार्वदिक्शूलधारी मृत्युंजयइति जगद्गीतः ॥
 श्रीविश्वेश्वरदेव श्वित्रचरित्रं करोतुशिवः ॥ ३२ ॥ श्रीवैद्यनाथइतियः पृथितः

पृथिव्यां संताप संतति हति व्यसनेविदग्धः ॥ सोयंपुरत्रयविनाश
विकाशबुद्धि त्रिंशंकमं कुरुयता दिहशंकरशं ॥ ३३ ॥ योगीन्द्रध्यान रूपो
धरणिधर सुता स्वांतधैर्या पकर्षी कंजाक्षो जन्हुपुत्री जलजनित जटा द्वैतकांति
प्रतानः ॥ नंदीयत्पादपंकेरुहयुगल रज स्थापनापूत पृष्ठो वीराविर्भूतकंपं
कलयतु कुशलं वीरभद्रे श्वरोवः ॥ ३४ ॥ मंगलकदंबकंवः करोतु शंभोर्जटा
जूटः ॥ कुरुते सुरस्रवंती यत्रेंदुगलत्सुधा भ्रांतिः ॥ ३५ ॥ क्षीरांभोधि प्रसुप्त
द्विजपति विलसत् केतनांगाब्ज राजन् माल्ये - - भ्रमंतोमधुरमधु करीवृंदशोभां
वहंतः ॥ चित्रंभक्तयुल्लसन्तो नरहृदयसरः कंजपुंजायमाना रक्षातुक्षीण दुःखाः
क्षपितरिपुचल लक्षलक्ष्मी कटाक्षाः ॥ ३६ ॥ घनसारगौर घनसारभवस्रो बहुभूषण
प्रभुमदारुण नेत्रः ॥ वनमालि मित्र मतिचित्र चरित्रो मुशला युध - - - -
स्सशांतिः ॥ नवनीपककाम संगकामा नवनीशाच्युत देहि कामधामा ॥ ३८ ॥
ब्रह्मरुद्रलसदिंदु चंद्रकस्सांद्र देवनिवहोस्ति यद्यपि ॥ अस्तुनंदनिलयां गणेलस
द्वस्तुनः किमपिधाम तन्मुदे ॥ ३९ ॥ उत्सर्गे पूर्णतांयाते तस्मिन् सेतौ सुखस्थितः ॥
सुश्राव श्रीराजसिंह इतिविप्रोदिताशिषः ॥ ४० ॥ येन सर्वे कृताभूमौ जना
पूर्ण मनोरथाः ॥ श्रीराजसिंह भूर्मींद्र श्रिरंजीवतु भूतले ॥ ४१ ॥ इतिश्री
मन्महाराजाधिराज महाराणा श्रीराजसिंह निदेशा तैलंग तिलक कठोडी
ग्रामाधिप श्रीमत् कृष्णभट्ट तनयाभ्यां श्रीलक्ष्मीनाथ भट्ट भास्कर भट्टाभ्यां
विरचिता श्रीमज्जनासागर प्रशस्तिः संपूर्णतां प्राप संवत् १७३४ वैशाख कृष्ण
१३ लिखित मिदं कठोडी श्रीमत्कृष्णभट्टात्मज भास्करभट्टेन लिखितं सूत्रधार
सगराम सुत नाथू ज्ञाति भगोरा ॥ एक षष्टि सहस्राग्र लक्ष युग्मं सुपुण्यदं ॥
कार्येस्मिन् रूप्यमुद्राणां लग्नं भद्र पदंसदा २६१००० दौयलाख इगसठ हजार
रूपिया तलावरी प्रतिष्ठा हुई जदी रूपारी तुला कीधी गामगलूंड चित्तौड तिरा
गाम देवपुर थामलातीरा प्रोहित श्री गरीबदासजीहे आघाट करे मया किधो
तलावरी पालरो पांवलेने खाडाखोद्या सीसोफेरेने नीम सोधेन गज १५ आसार
कीधा कमठाणारा गजधर सुतार सगराम सुत नाथू तेन कोठारी १७३५ वर्षे.

शेषसंग्रह नम्बर ७.

देवारीके दरवाजेकी उत्तरीय शाखकी प्रशस्ति.

महाराजधिराज महाराणाजी श्रीराजसिंहजी आदेशात सावण सुद ५ सोमे संवत्
१७३१ विषे पोलरा कमाड चढाव्या लिखतु जोसी गोरखदास साह पंचोली नाथू पंचोली.

शेषसंग्रह नम्बर ८ - १.

देवारीके भीतर तृमुखी बावड़ीकी प्रशस्ति.

॥ श्रीगणेशायनमः ॥ तुहिन किरण हीरक्षीर कर्पूरगौरं वपुरपजलदाभं कालिका
पांगवल्लयाः प्रति कृति घटना S S I S S I S S कलयतु कुशलंबो राजसिंह क्षितींद्र
॥ १ ॥ चतुर्मित पुमर्थ सद्वि तरणाय सद्गुणः सदा चतुर्भुजधर श्वतुर्युग विराजि राज
घशाः ॥ चतुर्भुज हरिः शिवं दिशतु राजसिंहप्रभो श्वतुः श्रुति समीरितं निज
चतुर्भुजा भिर्भृतं ॥ २ ॥ श्रीरामरसदे सृष्टवापी वर्णन सुंदरी ॥ कुर्वे प्रशस्तिः
शस्ता श्रीराजसिंह नृपाज्ञया ॥ ३ ॥ आदौ वाष्पो रावलोभू द्वैरिस्ताडन तापदः
॥ तदंशे राहपः पूर्वे राणा नाम धरो भवत् ॥ ४ ॥ ततस्तु हरसू राणा नरूराणा
ततो भवत् ॥ जसकर्ण स्ततो राणा नागपाल स्ततो नृपः ॥ ५ ॥ भूणपाल
स्ततः पीथा ततो भुवनसिंहकः ॥ ततस्तु भीमसिंहो भूजयसिंह स्ततो भवत्
॥ ६ ॥ लक्ष्मीसिंह स्ततो राणा अरिसिंह स्ततो भवत् ॥ ततो हमीर राणेंद्रो
खेता राणा स्ततो भवत् ॥ ७ ॥ ततोलाखा भिधोराणा ततो मोकल नामकः ॥
ततः श्रीकुंभकर्णो भूद्रायमल्लस्ततो भवत् ॥ ८ ॥ ततः सांगा भिधोराणा
रत्नसिंह स्ततो भवत् ॥ तद्भाता विक्रमादित्यो विक्रमादित्य विक्रमः ॥ ९ ॥
तद्भातोदयसिंहेंद्रो राज्योदयमयः सदा ॥ ततः प्रतापसिंहोभूत्प्रतापपरिपूरितः
॥ १० ॥ श्रीमानमरसिंहोभूत्ततो ऽमरवरप्रभः ॥ ततः श्रीकर्णसिंहेंद्रः कर्ण
राजपराक्रमः ॥ ११ ॥ ततः श्रीमज्जगत्सिंहो जगत्पालनतत्परः ॥ प्रत्यक्ष
राजततुलां कुर्वत्सर्वप्रदोभवत् ॥ १२ ॥ कृतवान्मोहनलोके श्रीमन्मोहनमंदिरं ॥
मरुप्रथमजगृहे तथाश्रीमेरुमंदिरं ॥ १३ ॥ अंकारेश्वरमीशानं समीक्ष्या ऽमर
कंटके ॥ सुवर्णस्यतुलांकृत्वा वर्षनस्वर्णैरराजसः ॥ १४ ॥ श्वेताश्वदानंव्यतनो
द्वैमंकल्पतरुंददौ ॥ सुवर्णपृथिवींदत्वा सौवर्णान्सप्तसागरान् ॥ १५ ॥ विश्वचक्रं
सुवर्णस्य दत्त्वासुंदरमंदिरे ॥ श्रीजगन्नाथरायंश्री युक्तं संस्थापयन्बभौ ॥ १६ ॥
दानीरायंशिवंशक्तिं गणेशंभास्करंतथा ॥ प्रतिष्ठाप्यतदेवा ऽदा द्वोसहस्रंविधानतः
॥ १७ ॥ हैमीकल्पलतावापी हिरण्याश्वंददौतथा ॥ पंचग्रामान्जगत्सिंहो रत्न
धेनुंचदत्तवान् ॥ १८ ॥ ततः श्रीराजसिंहेंद्रो राज्यसिंहासनेस्थितः ॥ आखंड
लोपमः श्रीमान् जयतिक्षितिमंडले ॥ १९ ॥ श्रीसर्वर्तुविलासाख्यं स्वारामंकृतवां
स्तथा ॥ दहवारीमहाघटे द्वारंकाष्ठकपाटयुक् ॥ २० ॥ स्वसुर्विवाहसमये -
एकप्रतिकन्यका ॥ ददौमहाक्षत्रियेभ्यो गजवाहांवराणिच ॥ २१ ॥ दाराशिको
षसहित सतादुल्लहखानत ॥ राठोडकच्छवाहेश युक्तः शाहिजहांभिधं ॥ २२ ॥

दिल्लीश्वरंसमायांतं श्रुत्वैवाभिमुखोभवत् ॥ निःसार्यशौर्यसंपन्नो राजसिंहोविराजते
 ॥ २३ ॥ दग्धमालपुराभिख्यं नगरंव्यतनोदिह ॥ दिनानानवकंस्थित्वा लुटनं
 समकारयत् ॥ २४ ॥ रूपसिंहोमंडलाद्य गढस्थोम्लेच्छपाज्ञया ॥ यस्यराघव
 दासस्य वैश्यस्याग्रेपलायितः ॥ २५ ॥ सोयंतद्रूपसिंहस्य दिल्लीशार्थसुरक्षितां ॥
 पुत्रींपाणिग्रहाणोद्यत् सौभाग्यांकृतवान्प्रभुः ॥ २६ ॥ जशवंतसिंहरावलमिह
 डुंगरपुरगतंनिजं कृतवान् ॥ दंडचवासवालास्थिते रुपरिकुशलसिंहस्य ॥ २७ ॥
 देवलियापतिमनिशं कृतवान्निस्तेजसंहरीसिंहं ॥ मीनाक्षयीकृत्य मेवलदेशंगृहीत
 वान्नुपतिः ॥ २८ ॥ पुत्र्याविवाहसमये नवतिलघाधिकांसुकन्यां ॥ सुक्षत्रेभ्यो
 दत्वागजवाजि सुवस्त्रभोजनानिददौ ॥ २९ ॥ जननीरूपतुलायां स्थितांविधायविष्णु
 लोकगते ॥ तस्यानाम्नारचितो महान्जनासागरोनरेंद्रेण ॥ ३० ॥ तस्योत्सर्गेराज्ञा
 रूपतुलाकल्पितार्पितौग्रामौ ॥ गुणहंडदेवपुराख्यौ पुरोहितश्रीगरीवदासाय ॥
 ३१ ॥ ब्रह्मांडमहादानं श्वेताश्वस्थनृपोकरोदानं ॥ रूप्यतुलायांस्थित्वा गजंददौ
 वाहिरण्यकामदुघां ॥ ३२ ॥ ददौमहाभूतघटं हिरण्याश्वरथंनृपः ॥ हेमहस्ति
 रथंदिव्यं पंचलांगलकंतथा ॥ ३३ ॥ भावलीग्रामसहितं हैमींकल्पलतांददौ ॥
 स्वर्णपृथ्वींनृपोविश्वचक्रं रूप्यतुलादिकृत् ॥ ३४ ॥ नाम्नाराजसमुद्रं जलाशयं
 सुप्रतिष्ठितंकृतवान् ॥ सौवर्णसप्तसागरदानं हैमींतुलांमहीपालः ॥ ३५ ॥ सत्यौ
 त्रममरसिंहंहेमतुलास्थंविधायतत्रददौ ॥ एकादशसुग्रामान् पुरोहितोद्यद्गरीवदासाय
 ॥ ३६ ॥ श्रीराजमंदिरवरं शालाग्रकल्पराजनगरंच ॥ कृत्वादेशपतिभ्यो गजाश्व
 वस्त्राणि दत्तवान्भूपः ॥ ३७ ॥ भूकल्पवृक्षोराणेंद्रः कल्पपादपनामकं ॥ महा
 दानंप्रकल्प्याय माकल्पंकीर्तिमादधे ॥ ३८ ॥ राधाकृष्णचरित्रस्य राजसिंहमही
 पतेः ॥ श्रीरामरसदेनाम्नी राज्ञीजगतिराजते ॥ ३९ ॥ श्रीपुष्करेतदजमेरि
 महाप्रदेशे शार्दूलवीरइतिकल्पतभूमिभोगः ॥ राठोडराजमदखंडनएवजातो दाना
 द्यनेकसुकृतीपरमारवंश्यः ॥ ४० ॥ तस्यात्मजोजगतिरायसलः प्रसिद्धो जात
 प्रतापतपनद्युति तापितारिः ॥ शौर्याभिमानमयएवमुदारदानं दानंददन्ससततं
 कनकप्रधानं ॥ ४१ ॥ जातस्तदीयतनुजस्तुजुभारसिंहः सत्सिंहसंघजयकारि
 सरीरसाक्षात् ॥ खड्गप्रहाररणखंडितवैरिवारो क्ष्मासिंहरत्नगुणभारसमोत्युदारः
 ॥ ४२ ॥ तनयाथतस्यविनयान्विता भवत्सनयासमापिरमयातथोमया ॥ सदया
 ऽभयादिधनदा थयाधिकात्रभिरामरामरसदे शुभाभिधा ॥ ४३ ॥ सोलंकिनोदिव्य
 सुजानकुंवरिनाम्न्याः सुपुत्रीच विचित्रसद्गुणा ॥ स्वजन्मनाया चितमातृतात वंश
 द्वयासत्कविसृष्टशंसना ॥ ४४ ॥ रानामंडनराजसिंहसुखदा भूयोमहादानकृद्गनां

तं कृतियुक्समस्तगुणभृ देवप्रबोधोद्भवा ॥ स्यादेशेतिविषेशणादिद्विजव द्वर्णैर्युतं
 नामते सत्तेनेविधिरत्ररामरसदे नाम्नीतिराज्ञीमणे ॥ ४५ ॥ सेयंश्रीराजसिंह
 स्य राज्ञीसौभाग्यसुंदरी ॥ श्रीरामरसदेनाम्नी जयतिक्षितिमंडले ॥ ४६ ॥
 वैदर्भी नल भूभुजो दशरथस्यासीत्सुमित्रा विधो रोहिणीवसुदाक्षिणा किल
 यथा पत्नी दिलीपस्यसा ॥ देवक्या नक दुंदुभेरपिहरेः श्रीसत्यभामा तथा
 नाम्नेयं रमणीति रामरसदे श्रीराजसिंह प्रभोः ॥ ४७ ॥ पातिव्रत्य पवित्र पुण्य
 सरणि श्रितामणि विद्वतां चित्तस्थापित कंठ कौस्तुभमणि श्रीशागुणीनां पतिः ॥
 बुद्धिस्तोम जरणि शिरोमणि रियं स्त्रीणां गणे सुन्दरं श्रीचूडामणि रेव राम
 रसदे राजा चिरं जीवतु ॥ ४८ ॥ दहबारी महाघट्टे शाला श्लष्टे विशंकटे ॥ जया
 वहा जयानाम्नी वापी पाप प्रणाशिनी ॥ ४९ ॥ विदधे राजसिंहस्य प्राणाधिक
 महाप्रिया ॥ अभिराम गुणैर्युक्ता श्रीरामरसदेबधूः ॥ ५० ॥ शतेसप्तदशे पूर्णे
 १७३२ वर्षे द्वात्रिंशदा ऋये ॥ माघे धवल पक्षेच द्वितीयायां वृहस्पतौ ॥ ५१ ॥
 श्रीमान् गरीबदासाख्य पुरोहित शिरोमणिः ॥ प्रतिष्ठित प्रतिष्ठायां वाप्या रचित
 वान् विधिः ॥ ५२ ॥ श्रीराजसिंह देवेन साधिता हितकारिणी ॥ वापि प्रतिष्ठा
 विदधे श्रीरामरसदे बधूः ॥ ५३ ॥ अत्र दानं कृतवती बहुगोदान पंचकं ॥
 हलद्वय मितां भूमिं हरिराम त्रिपाठिने ॥ ५४ ॥ व्यासाय जयदेवाय क्षमामेक
 हलसंमितां ॥ कन्हाख्य ब्राह्मणा यापि तथैव हलसंमितां ॥ ५५ ॥ भानाभट्टाय
 वसुधा तथैव हलसंमिता ॥ कृष्णाख्यं ब्राह्मणा यापि क्षमामेक हल संमिता
 ॥ ५६ ॥ हल षट्कमितां भूमिमेवं राज्ञी मुदाददौ ॥ निष्क्रयं गोशतस्यापि
 रूप्यमुद्रा शतद्वयं ॥ ५७ ॥ राना श्रीराजसिंहस्य श्रीरामरसदे वधूः ॥ महोत्साहं
 कृतवती वापि उत्सर्ग उत्सवे ॥ ५८ ॥ वर्षे पुष्कर वेद शैलधरणी संख्येसमे
 माधवे पक्षे शुक्ल तमे तथा बुधमहा वारे द्वितीया दिने ॥ श्री बप्पा रणछोड
 सत्कविवरः संसृष्टवान्स्वो - - - ॥ ५९ ॥ सहस्रै रूप्यमुद्राणां चतुर्विंशति
 संमितः ॥ एकाग्रैः पूर्णतां प्राप्तं वापीकार्यमहाद्भुतं ॥ ६० ॥ श्रीइतिश्रीमहाराजाधिराज
 महाराणाजी श्रीराजसिंहजी महीपति पत्नी श्रीरामरसदे विरचितं वापीप्रशस्ति
 भट्ट रणछोड कृता संपूर्ण लाल चेचाणी वापी महे चहुवाण धाभाई शतीदाशस्य
 वधु चंद्रकुंवर तत्पुत्र रामचंद्र वीर साह लाला पोरवाड गजधर नाथू गोड
 भूधररो नाथू सुगरारो

शेषसंग्रह नम्बर १०.

श्रीगणेशायनमः जलधरसमकांतिः कांतकंदर्पमूर्तिः कलिजनितमलौघध्वंस-
 कोभक्तिभाजां ॥ निजकरधृतचक्रक्रंदितारातिवृन्दः जनकजनिपतिर्यः पातुरामे
 श्वरोवः ॥ १ ॥ भास्वद्वंशावतंसा जयंतिबाणौघसादितारिकुलाः ॥ दिल्लीशमानहनने
 प्रतापपटवोगिरीशलब्धवराः ॥ २ ॥ उदयादुदयनरेशात्प्रतापभूपो धराजानिः ॥
 श्रीमोकलेशसमता मकबरभूपे करोद्वेषम् ॥ ३ ॥ तस्मात्प्रतापभूपा बभूव
 वसुधापतिर्वीरः ॥ अमरसमोऽमरसिंहः प्रतापवित्रस्तशत्रुकुलः ॥ ४ ॥
 भूमेश्वराणांनिवहान्विजित्वा बालोपिवातप्रसमप्रतापः ॥ दत्तामर्हीविप्रजनेषुभूयः
 स्वर्गययौदेवरिपूत्रिहन्तुम् ॥ ५ ॥ तस्माद्भूद्भोजसमानदानी श्रीकर्णसिंहो
 धरणीसतेजः ॥ भीमादिभिः क्षत्रिभि रग्रधन्वा दिल्लीश्वरं यः समरेजुहाव ॥ ६ ॥
 तस्य श्रीकर्णसिंहस्य बभूवतनयोत्पः ॥ श्रीजगत्सिंहराणोति विदितो धरणीतले
 ॥ ७ ॥ अभिनवहस्मीरेण स्वबलवित्रासविद्रुतारिकुलेन ॥ स्मरसुंदरेणजगति
 धुरंधरेणेहपालिताधरिणी ॥ ८ ॥ कर्णसमानचरित्रैकर्णतनूजे द्रुतप्रथितं ॥
 यशसा धरणीतले मिदमर्जुनरूपत्वं माकलितं ॥ ९ ॥ लक्षं हयान् सप्तशतं
 गजानां ग्रामान् शतंषोडशदानयुक्तम् ॥ योदत्तवानर्थि जनाय भूपतिः कस्तं
 नृपं स्तोतुमिहप्रसज्येत् ॥ १० ॥ यूपनिखायप्रासादं यज्ञैरिष्ट्वासदक्षिणैः ॥
 मांधातुदर्शने वर्षत्स्वर्णकोटिं धराधरः ॥ ११ ॥ यशशाहजादान्नगराणि
 जिताकौमारके मोदयतिस्मतातं ॥ श्रीराजसिंहादवरं सलेभेऽरसीकुमारं वसुधा-
 हिमांशुः ॥ १२ ॥ वदंतुविदुषोभीममरिसीभूपजन्मिनं ॥ द्विषोदूयतवैजज्ञे
 कर्णसूनुसुखावहं ॥ १३ ॥ सराजसिंहस्य सदानुयायी बाल्येपि बालेंदुसमः
 कलाभृत् ॥ हयान् हिरण्यं धरिणीं द्विजेभ्यो वर्षन्भुवां भोजसमो बभूव
 ॥ १४ ॥ अयंजीव हरोरीणा - - - मपिकामदः ॥ भूतेषु तोषदोनित्यं भूतेश
 तनुजोत्पः ॥ १५ ॥ अरिसिंहस्य जननी जवादि तनया शुभा ॥ रामीजी
 वसुता माता भगवद्भक्ति तत्परा ॥ १६ ॥ तथा स्वकुलमाणिक्यभूषया राधितो
 हरिः ॥ तेनैवनोदिता स्वप्ने प्रासादमकरोदसौ ॥ १७ ॥ यद्वेदशास्त्रसर्वस्वं

रूपं वैकुण्ठ वासिनः ॥ रामेश्वरस्य तद्रूपं बभूव निजमंदिरे ॥ १८ ॥ यावद्वरा
 द्वीपवती भानुर्भाति प्रतापवान् ॥ तावद्वसतु गोविंदः प्रासादे शुभशंसिनि
 ॥ १९ ॥ काशीं गत्वा तुसारामी गोविंदः प्रीतये ददौ ॥ वसुधां हरिनाथाय
 सेवायः कुरुते प्रभोः ॥ २० ॥ हयशत चंद्रमितेब्दे तपसिच मासे तथासिते
 पक्षे ॥ रविमित दिवसे सगुरौ संपूर्णो देवाल्यासीत् ॥ २१ ॥ वसुंधराधीश
 निदेशनाद्यो रामेश्वरस्यो दयराजधान्यां ॥ बाजूतनूजः किलजोधनामा प्रासाद
 मभ्रं लिहमाततान ॥ २२ ॥ अरसीभूप निदेशा दुदयपुरे लेखिता कविना ॥
 मथुरानाथेनेयं प्रशस्ति निर्माणपट्ट मतिना ॥ २३ ॥ इतिरामेश्वर प्रासाद
 प्रशस्तिः संवत् १७०० वर्षे माघ शुद्ध १२ गुरौ अरसीजीरी धाय देवरो
 करायो धरमसिंहजी लिखितं.

छप्पय.

त्रिदिव गौन जगत्तेश राजहरि राज छत्रधर ।
 जाहर शाह जहान क्रमिय अजमेर क्रुद्धकर ॥
 लै दल दुल्लहखान धकिय चित्तोर ढहावन ।
 चन्द्रभान हित चाह यवन प्रेषित इत आवन ॥
 दाराशिकोह प्रेरित सुदल जान रान हितठान जब ।
 सुल्तान सिंह जुवराजकों तर पठाय ढिग साह तब ॥ १ ॥
 साहजहांके सुतन लरत जब राजसिंह लखि ।
 लैभल दल बल लार देश मिस मार साह दखि ॥
 रचि सनेह अवरंग काल लखि दहुन जाल कर ।
 रूपनगर रठोर स्वसा ताकी महीप बर ॥
 अवरंग मान यह क्रत असह उपालंभ अति चंड दिय ।
 नृप राजसिंह उत्तर निरख कारण चुप अवरंग किय ॥ २ ॥

बग्गड़ देश बखेरजेर समसेर जोरकर ।
 देवदुर्गा भय देर देर दल साह सदुत्तर ॥
 ददसर राजसमुद्र रान किन्नो निज कारण ।
 ताको उच्छव तुमुल हुवो विध विध मनु हारन ॥
 अवरंग कोप ब्रजतें उठन नाथ उदय गिरि रक्खलिय ।
 दिल्लीश रचित जिजिया दुसहमान रानदल मुक्कलिय ॥ ३ ॥
 जिजिया दल जशवन्त पुत्त पच्छन प्रति पच्छिय ।
 अगगरूप अवरंग लैन राना धर लच्छिय ॥
 कर प्रकोप कूपार निखिल मेवार निमजन ।
 अखिल छत्रि इसलाम लरे निज निज मत लजन ॥
 परलोक गमन राजर नृपत कहि सुभाव संतत कथा ।
 दिल्लीश घोर आहव दलन ज्वलन फैल फुल्लिय जथा ॥ ४ ॥
 कुल रठोर कबंध वंश बिकमपुर बिकह ।
 अखिल सार इतिहास जहां जैसो जुर जिक्कह ॥
 कृष्णवंश गढ कृष्ण स्यात जैसी कह दिन्नी ।
 रीवां नगर बघेल निखिल तारीख सुलिन्नी ॥
 सजन नृपाल आशय समुभ सासन फतमल रानतें ।
 कविराज दास श्यामल कियो पूरन खंड प्रमानतें ॥ ५ ॥

महाराणा राजसिंह-अव्वल.

आठवां प्रकरण समाप्त.





नवां प्रकरण.

महाराणा जयसिंह.

इन महाराणाका जन्म विक्रमी १७१० पौष कृष्ण ११ [हिज्री १०६४ ता० २५ मुहर्रम = ई० १६५३ ता० १५ डिसेम्बर] को और राज्याभिषेक विक्रमी १७३७ कार्तिक शुक्ल १० [हिज्री १०९१ ता० ८ शव्वाल = ई० १६८० ता० ३ नोवेम्बर] को हुआ था.

जब ओड़ा ग्राममें महाराणा राजसिंहका देहान्त हुआ, उस वक्त कुंवर जयसिंह कुरज (जिसको राजसमुद्रकी प्रशस्तिमें कडंज लिखा है) गांवके मोर्चेपर बादशाही फौजको हटानेकी कोशिशमें थे, जो कि उदयपुरसे २५ कोस ईशान कोणमें उत्तरकी तरफ झुकता हुआ है. वहां पन्द्रह दिन गुजरने पर सोलहवें रोज गद्दीनशीनीका दस्तूर किया, और सुना कि तहवुरखां फौज लेकर देसूरीकी तरफ आया है; तब अपने भाई भीमसिंहको फौज समेत उधर भेजा; देसूरीके जागीरदार सोलंखी विक्रमादित्य उससे आमिले, और तहवुरखांको घाटेपर न चढ़ने दिया; आठ दिन बाद वह मारवाड़की तरफ चला गया. महाराणा जयसिंह घाटेके नीचे घाणेराव तक आगये थे, और दिलेरखां मारवाड़की तरफ पहाड़ोंमें था, महाराणाके हुकमसे रावत रत्नसिंह चूडावत कृष्णावतने फौज समेत गोगूंदेका घाटा रोका; यह सुनकर दिलेरखाने रातके वक्त दूसरी राहसे वापस जानेका इरादा किया, रावत रत्नसिंहने घाटियोंमें जाकर कुछ लड़ाई की, परन्तु दिलेरखां वापस चला गया.

राजसमुद्रकी प्रशस्तिमें लिखा है कि मेवाड़के सर्दारोंने उसे जान बूझकर जाने दिया. दिलेरखांके ४०० आदमी मारे गये. इन्हीं दिनोंमें आलमगीरके शाहजादह मुहम्मद अकबरको राजपूतोंने बहकाकर बागी बनाया, जिसका बयान इस तरहपर है:-

जब महाराणा राजसिंह व उनके मुसाहिब और मारवाड़के राठौड़ोंने सलाह की, कि हम बादशाहको बहादुरीसे नहीं दबा सके, और जो बादशाह अजमेरमें सुस्त बैठा रहे, तो भी अपना ही नुकसान है; इसलिये कुछ भेदोपाय (तहीर) करना चाहिये. पहिले तो राव केसरीसिंह चहुवान, रावत् रत्नसिंह चूंडावत कृष्णावत, राठौड़ दुर्गदास और सोनंग वगैरह बड़े शाहजादह मुअज़्जमसे मेल करनेकी फ़िक्रमें लगे; उस वक्त शाहजादह मुअज़्जम देवारीके बाहर उदयसागरकी पालके पास ठहरा हुआ था; राजपूतोंके वकीलोंके आने जानेका चर्चा अजमेरमें पहुंचा. तब मुअज़्जमकी मा नव्वाब बाईने अपने बेटेको लिखा, कि तुम मक्कार राजपूतोंके जालमें हर्गिज मत आना, वना बर्बाद हो जाओगे. शाहजादह फ़िक्रमें था, लेकिन अपनी माकी नसीहतसे मजबूत होगया, और राजपूत वकीलोंको अपने पास न आने दिया. दुर्गदास और राव केसरीसिंह बड़े चालाक थे, मुअज़्जमसे ना उम्मेद होकर सोजत जैतारणकी तरफ़ गये, और शाहजादह अकबरको अपना मददगार बनाना चाहा. जब वकीलों व राजपूतोंका आना जाना शुरू हुआ, तो मुअज़्जमने एक खत अपने भाई अकबरको लिखा, कि तुम इन राजपूतोंके बहकानेमें न आना, और इसी मतलबकी एक अर्जी बादशाहकी खिद्यतमें भेजी, कि मेरे नौजवान भाई अकबरको राजपूत लोग बहकाकर अपना मददगार बनाना चाहते हैं. आलमगीरको अकबरकी तरफ़से इत्मीनान था. मुअज़्जमको एक फ़र्मान लिख भेजा— जिसमें कुरआनकी एक आयत लिखी हुई थी, कि (هذا بهتان عظیم) हाजा बुहतानुन् अज़ीम.) अर्थ “यह बड़ा झूठ है” और यह भी लिखा कि खुदा हमेशह तुम्हें सीधे रास्तेपर कायम रखे, और बदस्वाह लोगोंकी बातोंसे बचावे.

इस कागज़का मतलब यह था, कि अकबरको तुम झूठी तुहमत लगाते हो; (क्योंकि राजपूतोंने पहिले मुअज़्जमसे साज़िश करनी चाही थी, जिसको उसकी माने रोका.) यह सब बातें बादशाहके कानतक पहुंच चुकी थीं. इसलिये बादशाहने जाना, कि यह अपनी बात अकबरकी तरफ़ टालता है. गरज मुअज़्जमके लिखनेका कुछ असर न हुआ, और अकबर, दुर्गदास राठौड़की चिकनी चुपड़ी बातोंमें आगया; इसके पास एक बड़ी बादशाही जंगी फ़ौज थी. और उसने फ़ौजके सब सर्दार व

अफसरोंको इनआम, इक्राम, और खिताब देकर राजी करलिया. तहवुरखांको सात हजारी जात व सवारका मन्सब देकर अमीरुलउमरा बनाया; और जो लोग शाहजादहसे बखिलाफ थे, उन्हें कैद किया.

विक्रमी १७३७ माघ कृष्ण १२ [हि० १०९१ ता० २६ जिल्हज = ई० १६८१ ता० १७ जैनुअरी] को वकाये निगारोंकी अर्जियोंसे आलमगीरने अकबरका सारा हाल सुना, इस अचानक और भयानक फसादके उठने व अपने प्यारे बेटेके बागी होनेसे बादशाहके दिलपर रंज और खौफ छागया; क्योंकि तीस हजार सवार राठौड़ और कई हजार सीसोदिये व बादशाही नौकर मिलाकर ७०००० फौजसे जियादह उसके पास होगई थी. अकबरने तख्तनशीन होकर खुत्बा और सिक्का अपने नामका जारी करदिया; काजी खूबुल्ला और मुहम्मद आफिल व शैख तय्यब, अमरोहेके मीर गुलाम मुहम्मद, चारों आदमियोंने इस कामके करनेको मजहबी फतवा दिया. आलमगीरने अपने प्यारे बेटेका, मुकाबलेके लिये आना सुनकर बहरामन्दखां तोपखानहके दारोगाको बुलाकर हुकम दिया, कि लश्करके चारों तरफ तोपखानहके मोर्चे जमादो.

खफ़ीखां लिखता है, कि उस वक्त बादशाहके पास करीबन् आठ सौ सवारोंकी फौज होगी, घाटोंकी हिफाजतके लिये आदमी तईनात किये, और महलोंके पासकी घाटियोंपर भी मोर्चे जमादिये. हाफिज़ मुहम्मद अमीनखां अहमदाबादके सूबहदार और दूसरे सूबेदारोंके नाम फर्मान भेजेगये, कि अपने अपने इलाकेका बन्दोबस्त रक्खें. विक्रमी माघ शुक्ल १ [हि० ता० २९ जिल्हज = ई० ता० २० जैनुअरी] को बादशाहने शिकारके लिये सवारी की, लौटते वक्त तमाम मोर्चोंको मुलाहजह किया; और वजीर असदखांको हुकम हुआ, कि हमेशह मोर्चोंकी निगरानी रक्खे. मआसिरेआलमगीरमें खफ़ीखांके बखिलाफ बादशाहके पास दस हजार सवार मौजूद होना लिखा है. हमारे विचारसे गिर्दनवाहके थानोंपरके आदमी एकट्टे होगये होंगे.

शाहजादह अकबरके वकीलोंको शजाअतखां और बादशाह कुलीखांके वकीलों समेत बीटलीके किलेपर कैद किया. शिहाबुद्दीनखांको बादशाहने पहिलेसे ही राजपूतोंको सजा देनेके लिये सिरोहीकी तरफ भेजा था, शाहजादह अकबरने उसे भी अपनेमें मिलानेके लिये मीरखांको भेजकर बुलवाया; लेकिन वह नहीं आया, क्योंकि उसने सोचा होगा, कि शाहजादह अकबर आसानीसे नहीं जीत सका, इस सबबसे कि— अब्बल तो बादशाहका सामना, दूसरे तीनों शाहजादे मौजूद हैं, उनकी

लड़ाई. यह सोचने बाद मीरखांको भी समझाकर अपने साथ लिया, और दो दिनमें अजमेर पहुंचा, जिसके एवज खिलअत वगैरह इज्जत मिली. उस वक्त हामिदखां भी बादशाहके पास आया, जब कि बादशाहको एक एक आदमी फिरिश्ता सा मालूम होता था. बादशाह दिलसे बड़ा मजबूत था, हरदम शाहजादहके लिये यही कहता, कि बहादुरने अच्छा मौका पाया है; अब जल्दी क्यों नहीं आता ?

असदखां और मुहम्मद अमीनखां गिर्दनवाहकी गिर्दावरी और संभाल रखते थे, हिम्मतखां बीमार होजानेसे अजमेरकी हिफाजतके लिये रक्खागया. शाहजादह मुअज़्जम उदयपुरके पास उदयसागर तालाबसे तीन दिनमें ८० कोस जमीन तैकरके विक्रमी १७३७ माघ शुक्ल ६ [हि० १०९२ ता० ४ मुहर्रम = ई० १६८१ ता० २५ जैनुअरी] को अजमेर पहुंचा. खफीखांने लिखा है, कि बादशाहको मुअज़्जमकी तरफसे भी अन्देशा होगया था, इसलिये हुकम दिया, कि तोपखानहका मुंह मुअज़्जमके लश्करकी तरफ फेरदो. शाहजादहको भी कहला दिया कि नेकनियतीसे आया है, तो अपने दोनों बेटोंको लेकर अकेला चलाआवे. मुअज़्जम खैरखाह ही था, मए अपने बेटे मुइज़ुद्दीन और अजीमुद्दीनके हाथोंपर रूमाल लपेटकर बापकी खिन्नतमें हाजिर होगया. खफीखां शाहजादह मुअज़्जमके साथ दस हजार सवार लिखता है, और मुस्तइदखां मआसिरेआलमगीरीमें एक हजार सवार होना बताता है, लेकिन हमारी रायमें मआसिरेआलमगीरीका लिखना ठीक मालूम होता है, क्योंकि तीन दिनमें अस्सी कोस दस हजार सवार नहीं पहुंच सके. अगर कोई कहे, कि जैसे एक हजार सवार गये, वैसे ही दस हजार सवार गये, तो यह जवाब है— कि अब्बल तो दस हजार घोड़े एकसे नहीं होसके, कि तीन दिन तक बराबर एकसा धावा करें; दूसरे एक हजार सवार मांडल वगैरह थानोंसे बदलते हुए भी पहुंच सके हैं, और दस हजारका इस तरह पहुंचना आसान नहीं; तीसरे उदयसागरसे दस हजार सवार शाहजादहके साथ गये हों, तो भी थकते थकाते अजमेर पहुंचने तक उनमेंसे एक हजार सवार पहुंचे होंगे. शिहाबुद्दीनखां गिर्दावरने बादशाहके पास खबर भेजी, कि अकबरकी फौज कुड़कीमें ठहरी हुई है, इसके सुन्तेही आलमगीरने अपने बख्शियोंको हुकम दिया, कि फौज तय्यार हो; उस वक्त हरावल, गिर्दावर और अस्ल फौज सब सोलह हजार सवार थे. बादशाहको फिर मुख्बिरोने खबर दी, कि शाहजादह अकबर लड़ाईके लिये आगे बढ़ा है, लेकिन उसकी फौजके सदांर भागते जाते हैं.

विक्रमी माघ शुक्ल ७ [हि० ता० ५ मुहर्रम = ई० ता० २६ जैनुअरी] को कमालुद्दीनखां वगैरह सदांर बादशाही फौजमें आमिले. इसी दिन बादशाही

फौज आगे बढ़ी, और देवराई गांवमें ठहरी; उधरसे शाहजादह अकबरकी फौज भी सरकती आती थी, बादशाही फौज वहीं ठहरी रही. इसी दिन डेढ़ पहर रात गये बादशाह इशा (रात) की नमाज पढ़कर शाहजादह मुअज़्ज़म समेत बैठे थे, उस वक्त अर्ज हुई, कि शाहजादह अकबरकी फौजसे तहव्वुरखां हुजूरकी खिन्नतमें हाज़िर हुआ है, हुक्म दिया, कि उसे हथियार बगैर यहां हाज़िर किया जावे. तहव्वुरखांने हथियार खोलनेसे इन्कार किया, यह सुन्ते ही आलमगीरने तलवार मियानसे निकाली, और झुंभलाकर कहा, कि “उस नालायकको हथियार समेत आने दो.” शाहजादह मुअज़्ज़मने अर्दलीके लोगोंको इशारा कर दिया, कि उसे आते ही मार डालना. लुत्फुल्लाने हुक्मके मुवाफ़िक़ तहव्वुरखांसे कहा; वह घबरा कर वापस जाने लगा, और डेरोंकी रस्सीमें पैर उलभनेसे गिरा; गिरते ही गुर्जबदारीने चारों तरफ़से आकर टुकड़े टुकड़े कर डाला. यह ख़बर शाहजादह अकबरके लश्करमें पहुंची, जिससे फौज डरकर बिखरी. विक्रमी माघ शुक्ल ८ [हि० ता० ६ मुहर्रम = ई० ता० २८ जैनुअरी] को शाहजादह अकबर, जो फौज समेत बादशाही फौजसे डेढ़ कोसपर ठहरा हुआ था, औरत बच्चोंको वहीं छोड़कर भाग गया.

ख़फ़ीखांने मुन्तख़बुल्लुबाबमें लिखा है, कि बादशाहने चालाकीसे एक ज़अली फ़र्मान शाहजादह मुहम्मद अकबरके नाम इस ढंगसे लिख भेजा, जो राजपूतोंके हाथ लग गया, उसमें यह लिखा था— कि “ऐ मेरे प्यारे शाहजादह तू मेरी हिदायत के मुवाफ़िक़ इन नालायक राजपूतोंको खूब धोखा देकर लाया है, लेकिन अब इनको अपनी हरावलमें करना चाहिये, जो दोनों तरफ़से क़त्ल किये जावें.” इस फ़र्मानके देखनेसे राजपूतोंको शक् पैदा होगया, और वे शाहजादहका साथ छोड़कर चलदिये. हमारे क़ियामसे भी आलमगीरने ऐसा किया हो, तो तअज़्ज़ुब नहीं, क्योंकि वह चालाक और फ़रेबी था. शाहजादहके भाग जानेकी ख़बर पाकर फ़र्राशख़ानहके दारोगा मुहम्मद अलीखांने उसके कुल कारख़ानह व सामानपर कब्ज़ा करलिया, और दरवारखां नाज़िर, शाहजादह अकबरके बेटे नीकोसियर व मुहम्मद असगर और सफ़ियतुन्निसा व ज़क़ियतुन्निसा और नजीवतुन्निसा लड़कियां और सलीमहबानू बेगम वगैरहको बादशाहके पास लेआया. शिहाबुद्दीनखां, जो शाहजादहका पीछा करनेको गया था, उसके सलाहकारोंको मारकर लौट आया. बादशाहने अकबरका पीछा करनेके लिये शाहजादह शाहआलम, क़िलीचखां, ख़ानेज़मां, नागौरके राव इन्द्रसिंह, आंबेरके महाराजा रामसिंह और

राजा सुजानसिंह वगैरहको भेजा; शाहजादह शाहआलम बहादुरको पचास

हजार अशर्फी, उसके दूसरे बेटे मुइज्जुद्दीनको दो लाख रुपया, अजीमुद्दीनको तीन हजार अशर्फी, और दूसरे साथियोंको पचास हजार अशर्फी देकर विदा किया.

विक्रमी माघ शुक्ल ९ [हिज्री ता० ७ मुहर्रम = ई० ता० २९ जैनुअरी] को बादशाह वापस अजमेर आये, और विक्रमी माघ शुक्ल ११ [हिज्री ता० ९ मुहर्रम = ई० ता० ३१ जैनुअरी] को सुना, कि राजपूतोंने थानेदारको मारकर मांडलगढ़का किला लेलिया. शाहजादह मुहम्मद अकबरके सलाहकार, जो बादशाही दरबारमें कैद होकर आये, उन्हें नीचे लिखे मुवाफिक सजा मिली :-

काजी खूबुल्ला, मुहम्मद आकिल, शैख तय्यब, और मीर गुलाम मुहम्मद अमरोहे वालेको, जिन्होंने कि बादशाहपर चढ़ाई करनेका मज्दबी हुक्म दिया था, बीटलीगढ़के किलेमें भेजदिया; इनके सिवाय औरोंको भी कैद वगैरहकी सजा हुई, और आलमगीरकी बड़ी शाहजादी जेबुन्निसा बेगमकी लिखावटें मुहम्मद अकबरके नामपर जाहिर होनेसे उसका सारा माल अस्बाब छीनने बाद चार लाख रुपये सालाना, जो मिलता था, जप्त करके उसको सलीम गढ़में भेजदिया.

विक्रमी माघ शुक्ल १५ [हिज्री ता० १३ मुहर्रम = ई० ता० ४ फेब्रुअरी] को बादशाहसे अर्ज हुआ, कि शाहजादह मुहम्मद अकबर तो सांचौर पहुंचगया, और शाहजादह मुअज्जम उसका पीछा करता हुआ जालौरको गया है. फिर उसी दिन खबर मिली, कि महाराणा जयसिंहके प्रधान साह दयालदासने शाहजादह आजमकी फौजपर रातके वक्त छापा मारना चाहा. शाहजादहने यह खबर मिलने पर फौरन दिलावरखांको उसके मुकाबलेके लिये भेजा, और दयालदास भी लड़नेको तय्यार होगया, बहुतसे आदमी मारेगये; आखिर दयालदास अपनी औरत को मारकर चलदिया, और उसका सब सामान बादशाही मुलाजिमोंके हाथ आया किलीचखां शाहजादह मुअज्जमसे बगैर पूछे बादशाहकी खिन्नतमें चलाआया; इसलिये उसकी ड्योढी बन्द कीगई.

इन्हीं दिनोंमें शाहजादह आजमने महाराणा जयसिंहके पास महाराणा कर्णसिंहके पोते और गरीबदासके बेटे महाराज श्यामसिंहको मेल करा देनेके मन्शासे भेजा. श्यामसिंह, बादशाही मुलाजिम, जो दिलेरखांकी फौजमें था, महाराणासे आमिला, और अर्ज की, कि दिलेरखांकी मारिफत सुलहका पैगाम भेजा जावे, तो यकीन है कि सुलह हो जायगी; क्योंकि शाहजादह अकबरके बखेड़े और बर्सातके आजानेसे इस वक्त बादशाह भी मुलाइम है. महाराणाके दिलपर श्यामसिंहके कहनेका असर होगया; इसलिये कि यह भी तकलीफकी हालतोंमें थे; इस तौरपर दोनों तरफसे लड़ाई बन्द हुई.

महाराणा जयसिंहने अपने मुसाहिब कोठारियाके रावत् रुक्माङ्गद, सलूबर व पारसौलीके चहुवान राव केसरीसिंह, बावलके रावत् घासीराम शक्तावत वगैरह को शाहजादह मुहम्मद आजम, दिलेरखां, हसनअलीखां वगैरहकी सलाहके मुवाफिक अजमेरमें बादशाहके पास भेजा. इन्होंने वहां पहुंचकर सुलहके बारेमें बातचीत की. बादशाहको भी सुलह मंजूर थी, उसने एक फ़र्मान भेजा; जिसका तर्जमा यह है :-

आलमगीरके फ़र्मानका तर्जमा.

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम.

ब फ़र्मान आलीशान,
मुहयुद्दीन मुहम्मद
औरंगज़ेब बहादुर,
आलमगीर, बादशाह
गाज़ी.

जो अर्जी कि राव केसरीसिंह, रुक्माङ्गद और घासीरामके हाथ भेजी थी, बुजुर्ग दर्गाहमें पहुंची; उससे ताबेदारी, खिन्नतगारी और नेकनियती और मज़बूत इक्कारके इरादे मालूम हुए. जो वह वफ़ादार खानदानके सर्दार निहायत खैरस्वाही

निशान आलीशान,
बादशाहजादह,
मुहम्मद मुअज़्ज़म.

نشان شاهزادہ محمد معظم شاه عالم از طرف شهنشاه عالمگیر

بنام رانا جے سنگھ *

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ *

—*(*)*—

بہ فرمان عالی شان
ابوالمظفر محمد الدین
محمد اورنگ زیب
بہادر عالمگیر بادشاہ
* غازی *

نشان عالی شان
بادشاہزادہ شاہ عالم
* محمد معظم *

زبده دولت خواہان عقیدت کیش - خلاصہ مخلصان خیر اندیش - نتیجہ
دودمان وفا خوئی - نخبہ خاندان رضا جوئی - سلالہ فدویت منشان -

مورد عنایات بیکران بادشاہی - ومہبط تفقدات بے پایان حضرت ظل (الہی) رانا جے سنگھ -

और सफ़ाई जाहिर करके बड़े हुकमोंके मुवाफ़िक़ कार्रवाई कुबूल करेंगे, तो हम भी उस खयालके साथ, जो उस खानदानके मर्जी ढूँढनेवालेकी बाबत हमारे दिलमें है, और उसके कुसूरोंकी मुआफ़ीकी तरफ़ इरादह पैदा करता है, निहायत मिहर्बानीसे फ़र्मान मए पंजे मुबारकके निशानके, और मन्सब व टीका इनायत होनेकी दरूवास्त करेंगे.

और उस उम्दा खैरखाहकी दूसरी अर्जोंपर भी खयाल किया जावेगा. जिस वक्त वह नेक इरादहवाला खैरखाह शाहजादहकी खिदमतमें हाज़िर होकर सलामके दस्तूर अदा करेगा, जो हज़रत शाहजहांकी शाहजादगीके दिनोंमें गोगूदा मक़ामपर जाहिर हुए थे, तब उस मिहर्बानियोंकी लायकके साथ वही इनायत बरती जायगी, जो पहिले राणा अमरसिंहके साथ की गई थी. उस खैरखाहके लिये उसकी अर्जके मुवाफ़िक़ तसल्ली और इत्मीनानकी नज़रसे फ़र्मान आलीशान भिजवाया गया. ता० १४ सफ़र सन् २४ जुलूस. हिज्री १०९२ ता० १४ सफ़र [वि० १७३७ फाल्गुन शुक्र १५ = ई० १६८१ ता० ५ मार्च.]

مستمال بافضال روز افزون عالی متعالی شاہی ہونہ معلوم نمایند۔ عرضہ داشتے کہ مصحوب تہور شعاران را و کیسری سنگہ و رکھمگد و گھاسی رام ارسال داشتہ ہونہ۔ بجناب عالمیان ماب رسید۔ اطاعت و انقیاد و خدمتگاری و خلوص عبودیت و رسوخ عہد و پیمان موکد بوضوح مے انجامید۔ چون آن نتیجہ ہونہ مان وفا خوئی اظہار کمال عقیدت و خلوص ارادت نمود۔ انچہ بفرمائیم بتقدیم برسانند و از روے اخلاص و اتمام و انصرام آن کار کوشش نمایند۔ از امر عالی متعالی تجاوز نمایند لہذا ماہم از روے عنایتی کہ با آن نخبہ خاندان رضا خوئی ہاریم در باب استعفاے تقصیرات آن مورد عنایات بیکران باد شاہی و عطاے فرمان والا شان مزین بنقش پنجہ مبارک مقدّس معلّے و مرحمت منصب و تیکہ و عنایات باد شاہی بہ آن سزاوار الطاف نمایان چنانکہ سابق شدہ و دیگر ملتسمات معروضہ آن زبده دولتخواہان عقیدت کیش التماس نمائیم۔ و ہر گاہ آن خلاصہ مخلصان خیر اندیش بملازمت عالی شرف اندوز گردند۔ و آدے۔ کہ بخدمت حضرت فردوس آشیانی در ایام بان شاہزادگی در گوگندہ بتقدیم رساندہ ہوں۔ و مراعات کہ فردوس آشیانی نسبت برانا امر سنگہ فرمودہ ہونہ۔ شامل حال آن زبده دولتخواہان عقیدت کیش باشد۔ فرمان عالیشان را بموجب التماس انمورد مرحوم بیکران بجهت مزید اطمینان آنسوارار الطاف نمایان درخواست نمودیم * چہار ہم شہر صفر ختم بالخیر و الاظفر۔ سنہ بیست و چہار جلو س و لا زینت نگارش یافت * (مطابق سنہ ۱۰۹۲ ہجری)

यह सब लोग अजमेरसे उदयपुर आये, इन दिनों शाहजादह अकबर राठौड़ोंके साथ मारवाड़में फिरता था; शाहजादह मुअज्जम भी उसकी गिरिफ्तारी व मुकाबलेको दिलसे ढालता था. शाहजादह आजमने एक निशान महाराणा जयसिंहको विक्रमी १७३८ वैशाख कृष्ण १० [हि० १०९२ ता० २४ रबीउलअव्वल = ई० १६८१ ता० १४ एप्रिल] को इस मतलबसे लिख भेजा, कि शाहजादह अकबर गुजरातसे पहाड़ोंमें होकर देसूरीके घाटेकी तरफ़ आता है, उसे पकड़ लेना, और मौका हो, तो मारडालना; लेकिन अकबरके साथ महाराणाके सर्दार रावत रत्नसिंह चूडावत कृष्णावत और मारवाड़के राठौड़ दुर्गदास, सोनंग मण जमइयतके थे. अकबरका इरादह महाराणासे मिलनेका था, लेकिन महाराणाने सर्दारोंको कहला भेजा, कि बागी शाहजादहको किसी हीलेसे मत लाओ, और जाबितेके साथ दक्षिणकी तरफ़ पहुंचा दो, क्योंकि सुलहका पैगाम होरहा था.

ऊपर लिखे हुए सर्दारोंने शाहजादह अकबरसे कहा, कि आप बादशाह होगये, इस लिये मुलाकात नहीं होसक्ती; तब जमइयत समेत भोमटके पहाड़ोंमें होते हुए डूंगरपुर पहुंचे, वहांके रावल जशवन्तसिंहने बड़े शिष्टाचारसे मिहमानी करके महाराणाकी मर्जीके मुवाफ़िक़ सर्वन व राजपीपलांके रास्तेसे शाहजादहको दक्षिण पहुंचाया. वहां राजा शिवाके बेटे शम्भा घोंसलाने बड़ी खातिरके साथ राहेड़ीके किलेमें शाहजादहको ठहराया.

महाराणा जयसिंहने शाहजादह आजमके पास सुलहका संदेसा भेजा था, आलमगीर बादशाहको शम्भा और अकबरके एक होजानेसे बड़ा डर पैदा हुआ, खासकर इसी सबबसे बादशाहने जल्द सुलह मंजूर करली. शाहजादह आजम चित्तौड़के किलेमें ठहरा हुआ था, राजसमुद्र तालाबके उत्तरी किनारेपर मोरचणा और पशूंधकी चौरस जमीनमें मुलाकात करना करार पाया. तब एक खरीता दिलेरखाने महाराणाके नाम लिख भेजा, जिसका तर्जमा यह है:-

दिलेरखांके खतका तर्जमा.

(फ़ारसी नक़ल नोटमें देखो..)

बाद मामूली अल्काबके,

शौक़ और दोस्तीकी बातें जाहिर करनेके बाद लिखा जाता है, कि इन

दिनोंमें बहादुर ज्ञात गोपीनाथ परिहार और सांवलदास पंचोलीके निशान करने पर बहादुरी की निशानी चन्द्रसेन भाला (१), जैत भाला (२), सांवलदास राठौड़ (३), रावत केसरीसिंह शक्तावत (४), केसरीसिंह चहुवान (५), और उन दोनों (६) पहिले जिक्र किये हुआंको फ़तहमन्द दर्गाहमें भेजा था. जहां तक हो सका, उस बलन्द खान्दानकी भलाई और बिहतरीके वास्ते अर्ज किया गया. जिक्र किये हुए लोगोंने इक्रार कीहुई बातें और बुजुर्ग खिदमतमें उस दोस्तके आनेका वक्त लिख दिया.

उस लिखावटकी नक़्क़ उन लोगोंने आपके पास भेजदी है, जिससे पूरी कैफ़ियत मालूम होगी. इन इक्रारोंके मुवाफ़िक़ खास दस्तख़तसे एक मिहर्बानीका निशान और अमीरीके दरजे हसनअलीखां बहादुर आलमगीरशाहीकी लिखावटें पीछेसे पढ़ुंभेंगी. मुलाकातके लिये सिर्फ़ चारही दिन बाकी हैं, इस दोस्तके काग़ज़

(१) सादड़ीका. (२) देलवाड़ेका. (३) बदनोरका. (४) धान्सीका. (५) सलुंबर व पारसोलीका.


(६) परिहार पासवान (१), सांवलदास पंचोली अहल्कार (२).

نقل خط نواب دلیرخان همراہی اعظم شاہ بنام راجہ سنگہ
سنہ ۲۶ جلوس عالمگیری *

امارت بناہ - شوکت وحشمت دستگاہ - بہت وشہامت
منزلت - رفیع الشان سموالمان مشمول عنایات

والای اعلیٰ حضرت خاقان خدیوگیہان باشند - بعد از شرح مراسم شوق و اختصاص مشہود
گردانیدہ سے آید - کہ دینولا کہ بعد نشان نمودن عزت و تہور دستگاہان گوہی ناتھ پورہار
وسانولہ اس پنچولی - رفعت وشجاعت دستگاہین چند رسین جہالہ وجیت جہالہ وسانولہ اس راتھوز
وراوت کیسری سنگہ سکتاوت وراو کیسری سنگہ چوہان - ونام بردہ مارا بجناب نصرت انتساب

पहुँचनेपर, जो जल्दीमें लिखा गया है, वह बलन्द खान्दान कूच ब कूच खानह हों, एक घड़ीकी देर न करें; जिस तरहपर कि करार पाया है, बलन्द खिन्नतमें हाज़िर होकर खैर और खूबीके साथ रुखसत हों. इस दोस्तको, जो आपके देखनेके लिये शौकमन्द है, आपके मिलनेसे खुशी हासिल होगी; ज़ियादह कैफ़ियत चन्द्रसेन वगैरहके लिखनेसे मालूम होगी. ज़ियादह शौकके सिवा क्या लिखा जावे. खुशीके दिन हमेशह रहें.



महाराणा जयसिंहको बादशाह आलमगीरकी दगाबाज़ीका डर था, इस लिये दिलेरखांसे बात चीत करके तसल्ली की, कि मेरे जाहिल राजपूत बिल्कुल नहीं मानते, और बादशाही लश्करसे दगा होना बतलाकर मुझे भी शाहज़ादहसे मिलनेमें रोकते हैं; इसलिये इनकी भी तसल्ली होना ज़रूर है. महाराज श्यामसिंहने दिलेरखांसे कहा, कि आपके दोनों बेटे महाराणाके लश्करमें भेजदिये जावें, और जब महाराणा मुलाकात करके वापस जावेंगे, उन दोनोंको लौटा देंगे; दिलेरखांने खुशीसे दोनों बेटोंको थोड़े आदमियों समेत महाराज श्यामसिंहके साथ भेज दिया.

महाराणा जयसिंह दिलेरखांके दोनों बेटोंको कई सर्दारोंकी निगरानीमें रखकर विक्रमी १७३८ आषाढ़ शुक्ल ९ [हि० १०९२ ता० ७ जमादियुस्सानी = ई० १६८१ ता० २५ जून] को शाहज़ादह आजमकी मुलाकातके लिये पहाड़ोंसे निकले,

عالي فرستاده بودند۔ در آنچه خير و خوبی آن رفيع منزلت بود، بعرض عالي رسانیده مقرر نمود۔
مومی اليهم که از قرار مقدمات وساعت رسيدن ايشان بشرف ملازمت فيض منقبت عالي
نوشته اند۔ نقل آن مشار اليهم ابلاغ داشته اند۔ کیفیت ازان معلوم خواهد گويد۔ و نشان
مرحمت عنوان مزئين بدستخط عالي مطابق قرار داد حال و نوشتجات بنده درگاه و امارت پناه
حسن عليخان بهادر عالمگير شاهي متعاقب ميرسد۔ چون در ساعت همين چارروز باقيست
بمجرد رسيدن اين رقيمه الودان که عجالتاً نوشته شد۔ آن علوشان کوچ بکوچ در نزديکي بيابند۔
و توقف یکساعت نکنند۔ که به نحوے که قرار يافته بملازمت عالي مستفيض شده بمبارکي و خوبی
رخصت گويدند۔ دوستان را که مشتاق ايشان آم بديدن آن شوکت منزلت خورسندی
حاصل گويدند۔ ديگر کیفیت از نوشته چند رسين و فيره معلوم خواهد شد * زياده بجز شوق چه نگارند۔
ايام شادمانی دایم با با فقط *

उनके साथ सादडीका भाला राज चन्द्रसेन, बेदलाका राव सबलसिंह चहुवान, बीसोलियांका पंवार राव वैरीशाल, महाराणा जगतसिंहके पोते अरिसिंहका बेटा भगवन्तसिंह, चहुवान केसरीसिंह, बड़ापल्लीवाल ब्राह्मण पुरोहित गरीबदास, मेड़तिया राठौड़ ठाकुर सांवलदास वगैरह सर्दार थे; और राजसमुद्रकी प्रशस्तिके अनुसार सात हजार सवार, दस हजार पैदल; और कर्नेल् टॉड व दूसरी राजपूतानहकी ख्यातिकी पोथियोंमें सोलह हजार सवार, चालीस हजार पैदल, हजारों भील, मीने, मेर वगैरह हथियारबन्द पहाड़ियोंपर और हजारों रअग्र्यतके लोग भी जल्सा देखनेके लिये होना लिखा है. आस पासकी पहाड़ियोंपर एक लाख आदमियोंकी भीड़ भाड़ थी. महाराणा शाही लश्करके नज्दीक पहुंचे, उस वक्त शाहजादहकी तरफसे दिलेरखां और हसनअलीखां व रतलामका राजा भीमसिंह राठौड़, हाड़ा किशोरसिंह पेशवाई करके डेरोंमें ले गये. मुस्तद्दखां मआसिरे आलमगीरीमें लिखता है—कि “महाराणा को बाईं तरफ बिठाकर खिल्अत, जड़ाऊ तलवार, जम्धर, फूलकटारा, घोड़ा, हाथी, सोने, चांदीके सामान समेत, और उनके सर्दारोंको सौ खिल्अत, चालीस घोड़े, दस जड़ाऊ जम्धर देकर रुख्सत दी.”

राजसमुद्रकी प्रशस्तिके २३ सर्गके ५३ वें श्लोकमें लिखा है, कि शाहजादह आजमने एक मस्त हाथी, अठ्ठाईस घोड़े, सोने चांदीके सामान समेत, और ५० अदद जेवर देकर विदा किया.

हमको पुराने दफ्तर मेंसे शाहजादह आजमके निशानका हिन्दी खुलासह उसी बक्तका लिखाहुआ मिला है, जिसकी नक़ यहाँ लिखीजाती है:—

कागज़की नक़ल.

“निशान १ एक शाहजादह आजमजीका महाराणा जयसिंहजीके नाम विक्रमी १७३८ श्रावण कृष्ण ६ गांव घाटीके मकाम आया— तीनों परगनोंकी बाबत तुमने लिखा, दिलेरखां और हसनअलीखांकी मारिफत अर्ज हुजूरमें गुजरानी; जिसपर यह बात कुबूल हुई, कि तुम तालाबपर आय हाजिर होना; दाम ४० लाख छूट हुआ, ३ तीन किरोड़ दाममेंसे. असवार हजारकी चाकरी मुआफ़, दीवार (क़िला) नहीं बनवाना, और बादशाही चोर राठौड़ वगैरह अपनी हदमें नहीं राखना.”

इस कागज़का यह मतलब होगा, कि गांव घाटीमें महाराणाके डेरे थे, मुल्कातकी तारीखसे १२ दिन बाद फ़र्मान आने की तारीख लिखी है; शायद रियासत के दफ्तरमें यह कागज़ उस दिन सौंपा गया होगा, और तीन किरोड़ दाम, जो लिखे-

गये हैं, फौज खर्च, या नज़ानह होगा; उसमेंसे चालीस लाख दाम मुआफ़ किये हैं. दीवार नहीं बनानेसे, चित्तौड़ वगैरह किलोंकी मरम्मत नहीं करानेका मत्त्व होगा; हजार सवारकी नौकरी, जो बादशाह जहांगीरके वक्तसे दक्षिणकी तरफ़ मुकर्रर हुई थी, शायद वह मुआफ़ हुई हो; राठौड़ोंपर बादशाही नाराज़गी थी, इससे उनको न रखनेका हुक्म है.

अफ़सोस है, कि अस्ल फ़र्मान नहीं मिला, वना सारा मत्त्व खुल जाता. मालूम होता है, कि मांडलगढ़, मांडल, पुर और बदनौरके पगने दिलाने और जिज़्या मुआफ़ करवानेका वादा शाहज़ादहने किया होगा; जो गद्दीनशीनीके वक्त बादशाही फ़र्मान आया है, उसका खुलासह आगे लिखेंगे, जिससे जाहिर होगा. इस लड़ाईके बारेमें कर्नेल टॉडने लिखा है, कि सूरसिंह सीसोदिया और नरहर भट्ट बादशाहकी खिन्नतमें गये, और नीचे लिखीहुई दर्खास्त पेश की :-

अर्ज़ी.

हुज़ूरकी मर्ज़ीके मुवाफ़िक़ रानाने हम फ़िद्वियोंको हुज़ूरकी खिन्नतमें वह तहरीर पेश करनेके लिये, जो नीचे दर्ज है, भेजा है. उम्मेद है, कि हुज़ूर इन दर्खास्तोंको मंज़ूर फ़र्मावेंगे; और जो कुछ इसके बाद पद्मसिंह दर्खास्त करेगा, उसको भी कुबूल होनेका दरजा बरूशा जावे-

१ चित्तौड़ मए तमाम उन जिलोंके, जो पहिले उसकी आबादीके वक्तमें उसके शामिल थे, वापस करें.

२ मन्दिर और हिन्दुओंके इबादतखानोंकी जगह, जो मस्जिदें बनाई गई हैं, आगेको इस तरह न बनवाई जावें.

३ मदद, जो राना बादशाहतको देता आया है, हमेशह देता रहेगा, उसमें कोई नई बात, या नया हुक्म न बढ़ाया जावे.

राजा जशवन्तके बेटे या रिश्तहदार, जब अपने कामोंके लायक हों, उनका मुल्क वापस दिया जावे; और छोटी छोटी दर्खास्तोंको अदब रोकता है.

आपकी बादशाहत और नसीबका सितारा हमेशह चमकता रहे (१).

अर्जी

फिद्वियान सूरसिंह व
नरहर भट्ट.

यह अर्जी कर्नेल टॉडकी किताबसे नक़ की गई है, परन्तु कर्नेल टॉडने श्यामसिंहको, जो बीकानेर वाला लिखा है, वह ग़लत है; क्योंकि मन्नासिरेआलम-गीरी और आलमगीरनामह वगैरह फ़ार्सी तवारीखोंमें भी दूसरी लड़ाइयोंके मौकेपर श्यामसिंहको सीसोदिया लिखा है; और राजसमुद्रकी प्रशस्तिमें, जो कि उसी समयकी खुदी हुई है, २३ वें सर्गके ३२ वें श्लोकमें यह दर्ज है, कि कर्णसिंह के दूसरे पुत्र गरीबदास थे, जिनके बेटे श्यामसिंहने बादशाही लश्करसे आकर सुलहकी बात चीत की.

शाहजादहकी मुलाकात होनेके बाद महाराणा, दिलेरखांके डेरेमें मिलनेको गये; वहां दिलेरखांने महाराणासे कहा, कि आपके राजपूत जाहिल और बेवकूफ़ हैं, कि मेरे दो लड़कोंको बे एतिबारीके सबब आपके एवज़ अपने पास रक्खा; अगर आपसे दगा कीजाती, और मेरे बेटे मारे जाते, तो हम लोगोंकी जिन्दगी बादशाही बन्दगीके लिये ही है; लेकिन आपके मारे जानेसे, जो आपकी रियासतको नुक़सान पहुंचता, उसका हर्गिज बदला न होता; इस लिये बादशाही खान्दान और नौकरोंकी ज़बानका एतिबार रखना चाहिये. महाराणाने जवाब दिया, कि बैकुंठवासी महाराणा राजसिंहजी काकाजीके (२) याने आप के भरोसे छोड़ गये हैं. इस तरह दोस्तानह बातें होनेके बाद दिलेरखांने अपनी तरफ़से रईसानह दस्तूरके मुवाफ़िक़ महाराणाको कपड़ेके ९ थान, जड़ाऊ तलवार, ढाल, बर्छी, ९ घोड़े, एक हाथी; और महाराणाके कुंवरके लिये कपड़ेके तीन थान, जड़ाऊ खंजर, जड़ाऊ उर्वसी, जड़ाऊ बाजूबन्द, और दो घोड़े देकर विदा किया.

(१) कर्नेल टॉड इस दरुवास्तको महाराणा राजसिंहकी तरफ़से बादशाह आलमगीरके पास अजमेरमें पेश करना लिखते हैं, शायद शाहजादहकी सलाहके मूजिब अजमेरमें पेश हुई हो, तो तअज्जुब नहीं; लेकिन हमारे क़ियाससे महाराणा राजसिंहके वक्तमें सुलहका पैग़ाम भेजना बिल्कुल ग़लत है; यह दरुवास्त महाराणा जयसिंहके समयमें ही गई होगी.

(२) काकाजी, यानी बापका भाई, इससे यह मुराद है, कि दिलेरखांको महाराणा राजसिंह का दोस्त करार देकर यह शब्द कहा.

महाराणाके कुंवरके लिये मन्शासिरेआलमगीरीमें ऊपर लिखी चीजोंका देना लिखा है, लेकिन् जब कभी महाराणा और शाहजादोंकी मुलाकात हुई है, उस वक्त महाराणाके पाटवी महाराजकुमार साथ नहीं गये, और यह दिलेरखांकी मुलाकात उसी वक्त हुई मालूम होती है, जब महाराणा शाहजादहसे मुलाकात करके लौटे, तो शाहजादहकी मुलाकातमें कुंवरका कुछ भी जिक्र नहीं है; इससे मालूम होता है, कि दोस्तीके तरीकेसे दिलेरखांने महाराजकुमारके वास्ते ऊपर लिखी हुई चीजें भेजदी होंगी.

महाराणा उदयपुर आये, और शाहजादह आजम अपने बेटे बेदारबस्त और दिलेरखां वगैरह समेत खानह होकर विक्रमी १७३८ श्रावण शुक्र ६ [हि० १०९२ ता० ४ रजब = ई० १६८१ ता० २३ जुलाई] को बादशाह आलमगीरकी खिदमत में अजमेर हाजिर हुआ.

हमको एक अस्ल खानगी कागज़ उसी सुलहके वक्तका मिला है, जिस की हरएक कलमपर शाहजादह मुहम्मद आजमकी सहीहका स्वाद ७ खास दस्त-खती मौजूद है. इस कागज़के देखनेसे सब लोग समझलेंगे, कि उक्त शाहजादहने बादशाहत मिलनेकी उम्मेदपर महाराणासे कैसे कैसे इकार किये थे; उस अस्ल कागज़का तर्जमा नीचे लिखाजाता है:-

याद्दाश्त.

जिस वक्त खैरखाहोंके मन्शाकी मुवाफिक़ शाहजादह आलीजाह आजमशाह तस्तपर जुलूस फ़र्मावें, तो राना, नीचे लिखी हुई इनायतोंका उम्मेदवार है-

स्वाद-

(१) जो पर्गने पांच हज़ारी जात और पांच हज़ार सवारकी बाबत बर-तरफ़ होगये हैं, फिर बहाल किये जावें; तफ़सील- फूलिया, मांडलगढ़, बदनौर, बसार, गयासपुर, परधां, डूंगरपुर.

स्वाद-

(२) जिस वक्त हज़रत खुदाके साथे मुबारक तस्तपर जुलूस करें, तो सिवाय पांच हज़ारी जात पांच हज़ार सवारके, हज़ारी जात और हज़ार सवार दो अस्पा सिंह अस्पाकी तरकी फ़ौरन् दी जावे.

स्वाद-

(३) सिन्सिनी (जाटोंकी एक गढीका नाम है) फ़तह होनेमें कोशिश करनेकी बाबत हज़ारी जातकी तरकी हो.

स्वाद-

(४) तीन किरोड़ दाम इनआमकी बाबत हमको कहीं जागीर नहीं मिली, उनमेंसे फर्मानके मुवाफिक दो किरोड़ दाम दक्षिणमें बतलाये गये हैं, और एक किरोड़ दामके एवजमें पर्गनह सिरोही इनायत हो.

स्वाद-

(५) खुदाकी मिहर्बानियोंसे उम्मेद कीजाती है, कि जिस वक्त हजरत शाहजादह, खैरखाहोंकी खाहिशके मुवाफिक तरुतपर जुलूस करें, और इस ताबेदारसे उम्दह खैरखाही जाहिर हो, तो सिवाय ऊपर जिक्र किये हुए मन्सबके नीचे लिखेहुए पर्गने इनायत किये जावें; तफ्सील- ईडर, खेड़ी, मांडल, जहाजपुर, मसऊदा इलाकह मन्दसौर, खैराबाद, टोंक, सावर, टोड़ा, मसऊदा, मालपुरा, वगैरह.

स्वाद-

(६) यह ताबेदार उम्मेदवार है, कि सात हजारी जात व सात हजार सवारका फर्मान इनायत हो.

स्वाद-

(७) इकरारी फर्मान मए पंजेके निशानके खास मुहर और दस्तखतसे इस मज्मूनका इनायत हो, कि जिज्यह तमाम हिन्दुस्तानसे मुआफ न हो, तो हमारे मुल्कसे न लिया जावे; दक्षिणमें हमारी तरफसे हजार सवारकी नौकरी मौकूफ कीजावे.

स्वाद

(८) चचा और भाई और इज्जतदार नौकर, जो यहांसे रंजीदह होकर हुजूरमें जायें, तो उनपर कुछ तवज्जुह न की जावे.

स्वाद-

(९) देवलिया, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, वगैरहके जर्मींदार, जो अपने इलाकोंपर मौजूद हैं, हुजूरमें हाजिर होनेपर कुछ दरजा न पावें.

स्वाद-

(१०) हमारी जमइयत कामको लय्यार है, इसके सिवाय दूसरे राज-पूत और जर्मींदारोंकी जमइयत भी मेरे बुलानेपर आजावे, और उनके लिये मुनासिब अर्ज मंजूर कीजावे.

स्वाद—

(११) जो मन्सबदार और ज़र्मीदार शाहज़ादह आलीजाहके ताबेदार हों, उनके नाम लिखकर मुझे इनायत होवें; उनके सिवाय जो ताबेदारी न करें, मैं उनसे कुबूल कराऊंगा; इस खैरखाहीमें किसी इलाकेका नुक़सान हो, तो मुआफ़ फ़र्मावें.

इस फ़ार्सी कागज़की एक एक क़लमके ऊपर शाहज़ादहके हाथका “ स्वाद ” लिखा हुआ है, जिससे सहीहका मल्लब है; यानी मंज़ूर किया गया.

ईश्वरकी कुद़त देखना चाहिये ! कि जिस बादशाहतकी उम्मेदमें एक शाहज़ादह मारा फिरता है, उसीपर दूसरा इरादह रखता है. यह इक्रार खानगीमें महाराणा और शाहज़ादहके हुए थे. उसने अपने बापके पास जानेके बाद इस रियासतकी हिमायतके लिये कोशिश करनेमें कमी न रक्खी होगी, लेकिन बादशाह आलमगीर पूरा मल्लबी, शक्की और चालाक था, जिसके सामने मुश्किलसे पैंठ होती थी. शाहज़ादह आजमका इस खानगी इक्रारसे यह मल्लब होगा, कि शाहज़ादह मुहम्मद अकबरके बागी होते वक्त बड़ा शाहज़ादह मुअज़्ज़म अजमेरमें अपने बापके पास पहुंच गया था, जिससे बादशाहकी मिहर्बानी उसपर ज़ियादह हुई. आजमने विचारा, कि मैं भी अपना मल्लब बनाऊं; क्यों कि आलमगीरके मरने बाद बहादुरशाह बादशाह बननेका सामान कर रहा है.

आजमने अपने बापसे लड़ाई और सुलहका सारा हाल अर्ज़ किया, जिसपर बादशाहने फ़ौज खर्चमेंसे एक लाख रुपया छोड़कर महाराणाको चार पर्गने देदिये, और जिज़्यह मुआफ़ किया; और हजार सवारों की नौकरीके बारेमें कुछ जिक्र नहीं है. बादशाहने शाहज़ादह कामबरूशके बरूशी मुहम्मद नईमको मस्नद नशीनीका दस्तूर और फ़र्मान देकर उदयपुरकी तरफ़ रवानह किया; उस फ़र्मानका मज्मून उसी वक्तका लिखा हुआ हमें मिला है, जिसकी नक़ल यह है:—

फ़र्मानके मज्मूनकी नक़ल.

फ़र्मान एक, राणाजी जयसिंहजी टीले बिराज्या, जब बादशाह औरंगज़ेब जीकी तरफ़से टीला आया— हाथी १, कटारी जड़ाऊ १, घोड़ा आया; और राणाजीका खिताब पंज हज़ारी मन्सब, एक क़िरोड़ बीस लाख दामकी जगह

मुबारकपुर, मांडल, मांडलगढ़, बदनौरके पर्गने इनायत किये; जिसके रुपये साल एकके तो एक लाख देने, दूसरे सालके लाख २ देने; दाम जगह तीनके एक किरोड़ बीस लाख, १ मांडलगढ़, २ पुरमांडल, ३ बदनौर, तीनी महाल तुम्हारेमें जियादह थे, सो सरकारसे तुमको बरूशे.

बरस दोमें लाख तीन लेना, जिस पीछे लेना नहीं. सन् २४ जुलूस (१) १२ रजब.

इस फ़र्मानके खुलासहसे जो बातें टपकती हैं, ये हैं:- शाहजादह मुहम्मद आजमने तीन किरोड़ दाम फौज खर्चके लेने ठहराकर चालीस लाख दाम छूट किये, और दो किरोड़ साठ लाख दाम बाकी रहे, जिनमेंसे बादशाहने बाकी छोड़कर एक किरोड़ बीस लाख दाम लेने रखे, और ऊपर लिखेहुए पर्गने इनायत किये; लेकिन एक हजार सवारोंकी नौकरी और जिज्यहका मुआफ़ करना शाहजादहके इक्रार मूजिब फ़र्मानमें नहीं लिखा, जिससे साबित होता है, कि बादशाहको यह दोनों बातें नागुवार थीं; उदयपुरके वकीलोंने शाहजादह मुहम्मद आजमको अपना इक्रार पूरा करने को कहा होगा, तब शाहजादहके अर्ज करनेपर बादशाहने हजार सवारकी नौकरी बहाल रखकर जिज्यह छोड़नेके लिये इजाजत देने बाद शाहजादहसे निशान लिखवाया होगा, जिसका खुलासह यह है:-

निशान शाहजादह आजमशाहजीका
महाराणाजी श्रीजयसिंहजीके
नाम.

अर्जी तुम्हारी आई, सो पर्गनह तुमको बख़्शा, सो तुमको मालूम रहे. असवार हजार एक, चाकरीमें भेजना; और जिज्यह तुमको छूट है. ता० २४ शहर शम्बान.

आलमगीरका फ़र्मान विक्रमी १७३८ श्रावण शुक्र १४ [हि० १०९१, २४ जुलूस ता० १२ रजब = ई० १६८१ ता० २९ जुलाई] का लिखा, और निशान शाहजादह मुहम्मद आजमका विक्रमी १७३८ प्रथम आश्विन कृष्ण १० [हि० १०९२ ता० २४ शम्बान = ई० १६८१ ता० ८ सेप्टेम्बर] का है, इनके खुलासहसे

(१) वि० १७३८ श्रावण शुक्र १४ [हि० १०९१ ता० १२ रजब = ई० १६८१ ता० २९ जुलाई]

समझ सकते हैं, कि बादशाह आलमगीरने किस रोब दाबके साथ उदयपुरपर चढ़ाई की थी, और सुलह किस तरह दबकर की; दबनेका सबब हम नहीं लिख सकते, जाहिरा मालूम होता है, कि शाहजादह मुहम्मद अकबरकी बगावत और उसके मरहटोंसे मिलनेका दबाव हुआ होगा, क्योंकि खुद आलमगीरने उदयपुरकी सुलहके बाद जल्द दक्षिणकी तरफ़ कूच किया था. इस सुलहका दूसरा सबब यह होगा, कि ढाई वर्ष तक बादशाहने आप आकर लड़ाई की, तोभी राजपूतोंकी ताकत न घटी, और इस लड़ाईमें खर्चके सिवाय कुछ भी फ़ायदह नहीं हुआ.

महाराणा जयसिंह और उनके भाई भीमसिंहका हाल.

महाराणा राजसिंहके बेटोंका जिक्र तो हम ऊपर लिख आये हैं, लेकिन जानना चाहिये कि विक्रमी १७१० [हि० १०६३ = ई० १६५३] में जब महाराणी पुंवारके गर्भसे महाराणा जयसिंहका जन्म हुआ, उसी वक्त महाराणी चहुवानके गर्भसे महाराज भीमसिंह भी जन्मे. इन दोनों कुंवरोंकी बधाई यानी खुशख़बरी देनेवाले लोग महाराणा राजसिंहके पास पहुंचे; महाराणा सो रहे थे, कुंवर जयसिंहके जन्मकी ख़बर देनेवाला महाराणाके पैरोंकी तरफ़, और भीमसिंहकी खुशख़बरी सुनानेवाला सिरानेकी तरफ़ बैठ गया. जब महाराणा उठे, तो पहिले पैरकी तरफ़ नज़र गई; उस आदमीने उठकर अर्ज की, कि महाराणी पुंवारके गर्भसे महाराज कुमारका जन्म हुआ है; फिर सिरानेकी तरफ़से दूसरेने आकर अर्ज की, कि महाराणी चहुवानके गर्भसे महाराज कुमारका जन्म पहिले हुआ है. तब महाराणाने फ़र्माया, कि हमको जिसकी पहिले ख़बर मिली, वह बड़ा, और जिसकी पीछे मिली, वह छोटा है.

उस वक्त इस बातपर ज़ियादह विचार नहीं किया गया, क्योंकि इनसे बड़े दो राजकुमार, सुल्तानसिंह और सर्दारसिंह मौजूद थे. महाराज कुमार जयसिंहको बड़ा और भीमसिंहको छोटा समझते रहे. जब सुल्तानसिंह और सर्दारसिंह दोनों बड़े राजकुमार गुज़र गये, तब महाराणाने अपनी ज़बानके लिहाजसे कहा, कि जयसिंह पाटवी रहे, इसपर भीमसिंहने कुछ उज़्र न किया, परन्तु जब महाराणाका देहान्त होगया, और जयसिंह गद्दीपर बैठे, तो वह मौका लड़ाईका था, पर भीमसिंह महाराणाके हुक्मके मुवाफ़िक़ लड़ाई भगड़ोंमें बहादुरी दिखाते रहे. भीमसिंहको अपने बड़प्पनका ख़याल जुरूर था, इस लिये सुलह होनेके बाद वह बादशाह आलमगीरके पास विक्रमी १७३८ भाद्रपद शुक्ल १४ [हि० १०९२ ता० १३ शरबान = ई० १६८१ ता० २९ अगस्त] को अजमेर पहुंचे. बादशाहने राजाका पद और कुछ मन्सब दिया, जो उनके मरनेके वक्त पांच हज़ारी तक पहुंचा था. आलमगीर बड़ा चालाक था, उसने

आपसमें बखेड़ा डालनेका जरीआ समझा होगा. उसी दिन भीमसिंहके साथ शाहजादह कामबख्शका बख्शी मुहम्मद नईम, जो महाराणा जयसिंहकी गद्दी नशीनीका दस्तूर लेकर गया था, बादशाही हुजूरमें पहुंचा. महाराणाने उसको ४००० रुपये, और १९ थान कपड़ेके, दो घोड़े और चार ऊंट दिये थे; वे उसने बादशाहको पेश किये; बादशाहने उसीको बख्श दिये. इन दिनों दक्षिणमें मरहटोंने बड़ा फ़साद मचाया, और अकबर भी उनके शामिल होगया; इस सबबसे बादशाहने अपना ही जाना जुरूर समझकर विक्रमी १७३८ आश्विन शुक्ल ७ [हि० १०९२ ता० ५ रमजान = ई० १६८१ ता० २० सेप्टेम्बर] को जंगी फौज समेत अजमेरसे चलकर देवराई गांवमें मक़ाम किया, और वहांसे आश्विन शुक्ल ८ [हि० ता० ६ रमजान = ई० ता० २१ सेप्टेम्बर] को बड़े शाहजादह मुअज़्ज़मके बेटे अज़ीमुद्दशा-नको जुम्दतुलमुल्क असदखां वज़ीरके साथ अजमेरको भेजा, कि वहांका बन्दोबस्त रक्खे; और उनके मातहत एतिकादखां, कमालुद्दीनखां, राजा भीमसिंह राजसिंहोत, कुंवर समेत और मर्हमतखां वगैरहको खिल्अत, जवाहिर, घोड़े और हाथी देकर मुकर्रर किया. इनायतखां अजमेरके फौज़दार और सय्यद यूसुफ़ बुखारी बीटलीगढ़के किलेदारको भी खिल्अत देकर अजमेर भेजा.

विक्रमी आश्विन शुक्ल ९ [हिजी ता० ७ रमजान = ई० ता० २२ सेप्टेम्बर] को बादशाहने ख़बर पाई, कि प्रथम आश्विन शुक्ल ५ [हिजी ता० ३ रमजान = ई० ता० १८ सेप्टेम्बर] को दिल्लीमें उसकी बहिन जहांआराबानूबेगम ने इन्तिकाल किया.

विक्रमी कार्तिक शुक्ल १४ [हिजी ता० १२ जिल्काद = ई० ता० २६ नोवेम्बर] को बादशाह बुर्हानपुर पहुंचा. दूसरे ही दिन ख़बर मिली, कि मेड़तेमें तीन हजार राठौड़ लड़ाईके लिये तय्यार थे, उनपर एतिकादखांने हम्ला किया, और दोनों तरफ़के बहादुरोंने बड़ी दिलेरी दिखलाई; ५०० राठौड़ोंके साथ सोनंग (१) और उसका भाई अज़बसिंह, सांवलदास, बिहारीदास और

(१) जोधपुरके इतिहासमें सोनंगकी बाबत इस तरह लिखा है, कि थोड़ी लड़ाई होने बाद भीमसिंह राजसिंहोतकी मारिफ़त बीच बिचाव होनेपर सोनंग अजमेर जाते वक़ पूंजलोते गांवमें मौतसे मरगया, और उसका भाई अज़बसिंह, रामसिंह करणबलुवोत, सबलसिंह खानावत, नाहरखां, हरीसिंह महेशदासोत, गोपीनाथ, सादूल, कुशलसिंह, अर्जुन गोपीनाथोत, घासीराम, अनोपसिंह राठौड़, तीन चारणों समेत १४ आदमी एतिबारखां (एतिकादखां) से लड़कर मारे गये.

गोकुलदास वगैरह अच्छी तरह लड़कर मारे गये; बाकी सब भाग गये. इस लड़ाईमें सदाँर तरीन् शेर अफ़ग़ान वगैरह घायल हुए; और बहुतसे सदाँर व सिपाही मारे गये.

विक्रमी १७३८ माघ शुक्ल १२ [हिज्री १०९३ ता० १० सफ़र = ई० १६८२ ता० २० फ़ेब्रुअरी] को बादशाहने सुना. कि पुर, मांडल वगैरह पर्गनों से मारवाड़ी राठौड़ माल अस्बाब लूट लेगये. विक्रमी १७३८ फाल्गुन शुक्ल ३ [हिज्री १०९३ ता० १ रबीउल् अक्ववल् = ई० १६८२ ता० १३ मार्च] को बुर्हानपुर से बादशाह औरंगाबादकी तरफ़ चला, और विक्रमी चैत्र कृष्ण १० [हिज्री ता० २३ रबीउल् अक्ववल् = ई० ता० ३ एप्रिल] को वहां पहुंचा.

विक्रमी १७३९ चैत्र कृष्ण ८ [हिज्री १०९४ ता० २२ रबीउल् अक्ववल् = ई० १६८३ ता० २१ मार्च] को पुर, मांडलके पर्गनहके फ़ौजदार, कृष्णगढ़के राजा मानसिंह रूपसिंहोतको बादशाहने बदनौरके पर्गनहकी फ़ौजदारी राजा दलपत बुंदेलेसे उतारकर दी. इससे मालूम होता है, कि ऊपर लिखी हुई हजार सवारोंकी नौकरी और जिज़्यहका मुआफ़ होना शाहज़ादह आजमसे ठहरा था; बादशाहने टालाटूली की; और उक्त शाहज़ादहने जिज़्यह मुआफ़ करके हजार सवार तलब किये; इसपर महाराणा जयसिंहने सवारोंके भेजनेमें देर की; जिससे पुर, मांडल, और बदनौरके पर्गने महाराणाके कब्ज़ेमें नहीं आये. इन्हीं दिनोंमें शाहज़ादह आजम का निशान महाराणाके नाम आया, उससे भी यही साबित होता है, कि हजार सवार नहीं भेजनेके सबब तीनों पर्गने खालिसेमें मिलालिये गये थे.

शाहज़ादह मुहम्मद आजमका निशान, जो सूबे दक्षिण औरंगाबादसे आया था, उसका तर्जमा मए फ़ार्सी नक़लके नीचे लिखाजाता है. मालूम होता है, कि उस वक्त बादशाहको फ़ौजी सिपाहियोंकी बहुत ज़रूरत थी.

शाहज़ादह आजमके निशानका तर्जमा.

बाद मामूली अल्काबके,

बादशाही मिहर्बानियोंमें शामिल होकर जाने, कि इन दिनोंमें हुकम दिया गया है, कि उस उम्दह सदाँरको लिखा जावे, कि हमेशह एक हजार सवार उस सदाँरके, दक्षिणमें नौकरी करते रहे हैं— इस खयालसे, कि बाजे पर्गने जिज़्यहके तौरपर उससे लेलिये थे, एक हजार सवारकी हाज़िरी मुआफ़ फ़र्मादी गई थी. अब ज़ब्त की- हुई जागीरें मिहर्बानीके साथ वापस इनायत की जाती हैं. लिखी हुई जमइयत पुराने

दस्तूरके मुवाफिक नौकरीपर हाजिर रहे. इस बास्ते लिखाजाता है, कि वह ताबेदारीका खयाल रखनेवाला इस बुजुर्ग मिहर्बानीकी कद्र जानकर बड़े शुक्रके साथ एक हजार उम्दह सवार अपने किसी रिश्तहदार या एतिबारी नौकरके साथ इस वक्तमें, जब कि बुजुर्ग फ़तहमन्द लश्कर फ़सादी नालायकोंके सजा देने और क़ल्ल करनेमें उनके बंद कामोंके एवज़ मशगूल है, जहां तक होसके, जल्द भेजे; इस मुआमलेमें बिल्कुल सुस्ती, ग़फ़लत, काहिली, देर रवा न रक्खे; इस कार्रवाईको बड़ी तारीफ़के लायक़ ताबेदारी जतलानेका मौक़ा समझे, जिसके एवज़में बड़े फ़ायदे हैं. २४ शअबानकी रात, सन् २७ जुलूस आलमगीरी- मुताबिक़ विक्रमी १७४१ द्वितीय श्रावण कृष्ण १० [हिज्री १०९५ ता० २४ शअबान = ई० १६८४ ता० ७ अगस्ट].

سمت ۱۷۴۱ نشان اعظم شاه - بنام رانا جے سنگھ *

باسمه سبحانه

بادشاهے

زبدۂ نیکخواهان عقیدت کیش - خلاصہ موخو امان ارادت اندیش -
نتیجہ دودمان وفا خوئی - نخبہ خاندان رضا جوئی - سلانہ فدویت
منشان صبودیت اطوار - نقا وۂ اخلاص مندان اطامت شعار - شایستہ لطف
واحسان بیکران - سزاوار نوازش واعطاف نمایان - مطیع الاسلام
رانا جے سنگھ - مشمول مواطف بودہ بدانند - کہ درینولا حکم مقدس معلی
صان رشد کہ بہ آن زبدۂ الامثال نگارش بزرگوردن کہ ہمیشہ جمعیت
یکہزار سوار آن خلاصہ الاشباہ درکن خدمت میگردن - نظر بر پرگنہائی
کہ بعنوان جزیه ازو گرفته بودیم قید بودن یکہزار سوار مذکور را موقوف
فرمودہ بودیم - چون محال ماخوذہ بمقتضای مراجع معلی باز
باومرحمت شدہ - باید جمعیت مرقومہ بدستور قدیم بخدمت
مامورہ قیام نماید - لہذا مرقوم میگردن کہ باید آن انقیاد اندیش
قدر اینعنایت والاشناختہ درادے شکر این موہبت کبری یکہزار سوار
خوش اہمہ بسرکردگئی یکے از اقربا یا نوکر عمدہ معتمد خود درینوقت
کہ رایات جاہ وجلال بتادیب و گوشمال و قتل واستیصال فسدہ
اینطرف کہ من قریب بسزایے اعمال نکومیدہ و افعال ناپسندیدہ
خویش رسیدہ نیست و نابود مطلق خواهند شد متوجہ است - بسرمت
مرچہ تمامتر و تعجیل مرچہ شتابتر بحضور ساطع النور مقدس

Handwritten notes in Urdu script, likely a commentary or translation of the main text, mentioning names like 'Rana Jai Singh' and 'Fateh Mahand'.

महाराणा जयसिंह अपनी नाम्बरीके वास्ते एक बड़ा भारी तालाब बनवाना विचारकर मौकेकी तालाश करने लगे; और इसी वर्षमें दो तालाबोंकी नींव डाली; एक तो उदयपुरसे उत्तर डेढ़ मीलकी दूरीपर, जिसे 'देवाली' का तालाब कहते हैं, मोतीमहलसे नीमच माताके पहाड़ तक लम्बा बनवाया; और दूसरा उदयपुरसे पांच मील उत्तरको वायु कोणकी तरफ झुकता हुआ थूर गांवमें, जिनमेंसे पहिला तो मौजूद है, और दूसरा फूटगया; लेकिन इन तालाबोंके बनवानेसे महाराणाका दिल खुश नहीं हुआ, क्योंकि इनके पिता महाराणा राजसिंहने बड़ा भारी 'राजसमुद्र' नाम तालाब बनवाया था, और यह उससे भी बड़ा बनवानेका इरादह रखते थे. इसलिये विक्रमी १७४४ [हिज्री १०९८ = ई० १६८७] को ऊपर लिखे दोनों तालाबोंकी प्रतिष्ठा की, और इसी संवत् में उदयपुरसे १८ कोस दक्षिण अग्नि कोणको झुकते हुए 'जयसमुद्र' तालाबकी नींव डाली.

इस तालाबका बन्द दो पहाड़ोंके बीच अग्नि और वायु कोणको झुकता हुआ १२५४ फुट लंबा, १०५ फुट ऊपरसे चौड़ा बांधा गया है, जिसकी पिछली दीवार ९८ फुट ऊंची और उससे भीतरकी दीवार १२ फुट ज़ियादह ऊंची है; दोनों तरफकी दीवारें और सीढ़ियां बनवाकर पानी रोका गया था; लेकिन दोनों दीवारोंका बीच, खानगी भगड़ोंके सबब खाली रह गया था, जिसे महाराजाधिराज महाराणा श्रीसज्जनसिंहने लाखों रुपये लगवाकर मिट्टीसे भरवाया, इसका जिक्र हम आगे करेंगे. इस तालाबमें छोटे नदी नाले तो बहुत गिरते हैं, लेकिन बड़ी नदियां गोमती, भामरी, रूपारेल, और बगार जिनको रोककर बन्द बांधा गया था, दूर दूरसे पानी लाकर तालाबको भरती हैं. बन्दकी सीढ़ियोंपर सिफ़ेद पत्थरके हाथी बने हैं, और बन्दके दोनों तरफ दो बारहदरी हैं. पूर्वके पहाड़पर तिःमन्जिले गुम्बजदार महल हैं, और महलोंकी ब्योढ़ीके साम्हने बड़ी बारहदरी है. इन सबकी मरम्मत महाराणा सज्जनसिंहने करवाई. इन्हीं महलों के दक्षिणी बाजू बहुतसे मकानोंके खंडहर पड़े हैं, जिन्हें ज़नानह महल बतलाते हैं. इस तालाबका बन्द सिफ़ेद पत्थरका बनाहुआ है; जो राजनगरके पत्थर से दूसरे दरजेका है. इस बन्दके पीछे और पूर्वी पहाड़के नीचे महाराणा जयसिंहने एक शहर बसाकर उसका नाम 'जयनगर' रक्खा था, लेकिन वह अब नहीं रहा; सिर्फ़ दो महलोंके गुम्बज और एक सिफ़ेद पत्थरकी बावड़ी बे मरम्मत पड़ी है. इस तालाबके पानीमें दस गांव—चीबोड़ा, नामला, भटवाड़ा गामड़ी, सेमाल, पाटण, कोटड़ा, घाटी, संगवली और सलाव डूबे हैं; पानी कम होनेपर बाजे गावोंके खंडहर नज़र आते हैं. जब यह गांव डूब गये, तो किनारेपर आबादी हुई. तालाबसे दक्षिणमें छोटासा गांव सौ घरकी बस्तीका 'वीरपुरा' आबाद है, यह गांव

कुराबड़ रावत रत्नसिंहकी जागीरमें था, जिसके बदलेमें महाराजाधिराज महाराणा श्री सज्जनसिंहने दूसरे गांव देकर उसे खालिसेमें मिलालिया; और पहिले जो इस ज़िले का हाकिम सराड़े गांवकी पालमें रहता था, उसको यहां रखकर सद्र मक़ाम बनाया.

बन्दके उपरसे यह तालाब एक बड़ी नदीकी तरह भराहुआ मालूम होता है, और महलोंसे भी सारा तालाब नहीं दीखता; इसीसे महाराणा जयसिंहने तालाब के भीतर निकले हुए पहाड़पर महल बनवाये थे, जो अबतक मौजूद हैं, जिन्हें लोग रूठी राणीके महल बतलाते हैं. यह बात लोगोंने झूठ मझूर करदी है, कि एक महाराणी नाराज होगई थी, जिसके लिये यह महल बनवाये गये थे.

कर्नेल टॉडने भी ऐसे किस्से सुनकर अपनी किताबमें ज़ियादह दर्ज करदिये हैं. उन महलोंसे कुल तालाबकी सैर अच्छी तरह नज़र आती है; और इसीलिये वे महाराणाने बनवाये मालूम होते हैं. इस तालाबके बीचमें दो पहाड़ भी आगये हैं, जिनमें किसानोंके दो चार घर मवेशी समेत रहते और वहीं खेती बाड़ी करते हैं. जब उन लोगोंको बाहर आनेकी ज़रूरत होती है, तो भेला (१) पर बैठकर चले आते हैं.

विक्रमी १७४८ ज्येष्ठ शुक्ल ५ [हिज्री ११०२ ता० ३ रमज़ान = ई० १६९१ ता० २ जून] को 'जयसमुद्र' तालाबकी प्रतिष्ठा हुई, और महाराणा सोनेकी तुला विराजे. इस तालाबके बन्दपर महाराणा जयसिंहने एक बहुत अच्छे खुदवां काम (नकाशी) का मन्दिर बनवाना शुरू किया था, लेकिन वह अधूरा रहगया. इस तालाबमें पूर्वकी पहाड़ियोंको काटकर दो तीन पानीके निकास बनाये गये हैं, वर्षाऋतुके लिये यह बड़ी बहारका मक़ाम है. यह तालाब, जो बड़े पहाड़ों और भीलोंके देशसे दूर, और शहरके पास होता, तो हर एक आदमी आसानीसे देख सक्ता; लेकिन जिस ज़मानहमें यह बना है, हर एकका जाना बड़ा कठिन था, जिसमें अब पहिलीसी दिक्कतें नहीं रहीं, फिर भी तय्यारीके साथ सफ़र करना पड़ता है. इसकी बराबरीका दूसरा तालाब हिन्दुस्तान भरमें नहीं है; बल्कि दुन्यामें भी कुद्वती भीलोंके सिवाय किसी आदमीका बनवाया हुआ न होगा; क्योंकि होता, तो मझूर होता. यूरोपिअन मुसाफ़िरोकी ज़बानी भी यही सुनागया है, कि दुन्यामें आदमीका बनाया हुआ इससे बढकर कोई तालाब नहीं है. इस तालाबका हाल उस ज़िलेके जोगी लोग, जो गीत गाने और भीख मांगनेमें बयान करते हैं, इस तरह पर है :-

(१) भेला बहुतसी लकड़ियोंको बराबर बांधकर बनाया जाता है, जो नावका काम देता है.

गीतोंका मुस्तसर मत्लब.

“महाराणा जयसिंहके वक्तमें अलीगढ़का पूर्व्या चहुवान राजपूत लालसिंहका बेटा गुलालसिंह जीविकाकी तलाशमें चित्तौड़ आया, महाराणाने मगराके जिलेमें १ बम्बोरा, २ सियाड़, ३ मांडकला, ४ बोरी, चार गांव उसको जागीरमें दिये.

कुछ दिनों बाद महाराणाने नाहर मगरमें शिकारके वक्त एक सूअरका पीछा किया, परन्तु वह केवड़ेके दरस्तोंमेंसे निकलकर चांद घाटीमें नजरसे छिपगया, थोड़े दिन बाद बीरपुराके पटैल डांगी अमराने उसी सूअरकी खबर दरबारमें मालूम कराई, महाराणा जयसिंह अपने सदांरों समेत बीरपुरे आये, और सदांरोंने पहाड़ोंके ढालमें सूअरको मारकर महाराणाके नज़ किया. इस शिकारकी गोट (खुशिका खाना) खाते वक्त रत्न और लाल पंचोलियोंने अर्ज किया, कि छप्पन और मेवलकी आबादीके वास्ते ढेबरका बांधना मुनासिब है, इसपर महाराणाने कहा, कि यह बात नहीं हो सकती, क्योंकि वह कई बार टूट चुका है; तब गुलालसिंह चहुवानने राय दी, कि बरवाड़ाकी खानसे मजबूत पत्थर और लुहारियाकी खानसे लोहा निकाला जावे, और कारीगर मजदूर मालवेसे बुलाये जावें. यह बात मन्जूर होकर काम जारी हुआ, और प्रमार राजपूत संभालपर मुकर्रर हुए.

इस जगह गौमती नदी बहती थी, जिसमें जांबेरी वगैरह भी रूपारेल समेत मिलगई, और इस नाकेका नाम ढेबर था, यह बात इस तरह मशहूर है— कि एक ढेवा पटैल नाम कोई शस्त्र गव्नकी इल्लतमें मारा गया, जिससे इस जगहका नाम ढेबर हुआ. गुलालसिंह चहुवानने प्रमार राजपूतोंके (जो तालाबके कामकी संभालपर मुकर्रर थे) गव्नकी बाबत शिकायत की, महाराणाने प्रमारोंको मौकूफ करके गुलालसिंहको मुकर्रर करदिया. इसने मजदूरोंसे एक एक रुपया मांगा, इस सबबसे वह लोग फर्यादी हुए, और गुलालसिंह जिलावतन (देश बाहर) कियागया. वह, डूंगरपुरके रावलके पास चला गया, जो उसका बहनोई था, कुछ दिनों पीछे कदूनीके प्रमारोंके हाथसे मुकाबलेमें मारा गया.”

विक्रमी १७४२ पौष शुक्ल १५ [हि० १०९७ ता० १४ सफ़र = ई० १६८६ ता० ९ जैनुअरी] में हातिम नाम एक शस्त्रको, जो पहिले उदयपुरके महाराणाका नौकर था, बादशाहने भीमके टोडेका फौजदार बनाकर वहां भेजा; हमें यह पता नहीं लगा, कि हातिम कौन था, और क्यों बादशाहके पास चला गया. यह अहवाल मआसिरेअलमगीरीसे नकल किया गया है.


शाहजादह आजम और दिलेरखांके इक्रार मूजिब पुर मांडल, बदनौर वगैरह पर्गने कब्जेमें नहीं आये, और न हजार सवारकी नौकरी मुआफ़ हुई; महाराणाने भी सवारोंको नौकरीपर नहीं भेजा; और बादशाहने, जो जिज्यह

छोड़ा, और सुलह की, वह शाहजादह मुहम्मद अकबरकी बगावत, और दक्षिण के फ़सादोंकी बढौलत थी. दूसरे राजपूतोंका फ़साद, जिसमें कि ढाई वर्ष तक खुद बादशाह लड़ा, तिसपर भी नहीं मिटा; और बिना मिटाये छोड़कर जाना भी ठीक न था; इससे और सब शर्तें मन्ज़ूर करके एक हजार सवार नौकरीमें भेज देना मुहम्मद आजमसे लिखवा दिया; पर महाराणाने इसपर अमल नहीं किया, जिससे तीनों पर्गनोंपर क़ब्ज़ा नहीं हुआ. क़ब्ज़ा न होनेके सबब एक क़िरोड़ बीस लाख दाम यानी तीन लाख रुपये फ़ौज खर्चके महाराणाने नहीं दिये; और इसको एक अर्सा भी गुज़र गया था. बादशाह आलमगीर दक्षिणकी लड़ाइयों में ऐसे फंसे, कि निकलना कठिन हुआ. महाराणा जयसिंहने विचारा, कि एक हजार सवारोंकी जमइयत दक्षिणमें भेजी जाय, तो २५०० माहवारी फ़ी सवारके हिसाबसे एक हजार सवारके तीन लाख रुपये होते हैं, और पुरमांडल, बदनौर के पर्गनोंके क़ब्ज़ेमें न आनेसे भी रियासतका नुक़सान है; इसलिये जिज़्यहके एक लाख रुपये दे देने ठीक हैं, लेकिन तीनों पर्गने अपने क़ब्ज़ेमें करलेना चाहिये, जिज़्यह आगे पीछे भी मुआफ़ हो सक्ता है, वना कुल हिन्दुस्तानके शामिल हम भी हैं. इस तरह सोच विचारकर लिख भेजा, उसके जवाबमें विक्रमी १७४७ आषाढ़ शुक्ल ११ [हिजी ११०१ ता० ९ शव्वाल = ई० १६९० ता० १८ जुलाई] को एक फ़र्मान आया, जिसका तर्जमा मए नक़ यह है :-

फ़र्मानका तर्जमा.

पाक और बुजुर्ग खुदाके नामसे शुरू किया जाता है—

मुहरकी नक़ल—



तुग़ाकी नक़ल—

फ़र्मान,
अबुज्ज़फ़र,
मुहयुद्दीन, मुहम्मद
औरंगजेब बहादुर,
आलमगीर बादशाह
गाज़ी.

बाद मामूली अल्काबके—

बादशाही मिहर्बानियोंसे इज्जतदार और खुश होकर मालूम करे, कि जो अर्जी इन दिनोंमें बलन्द दर्गाहमें भेजी थी, फ़ायदह बरूशनेवाली, पाक, साफ़ निगाहमें गुज़री; मालूम हुआ, कि वह उम्दह राजा इकार करता है, कि अगर बुजुर्ग दर्गाहसे पर्गने पुर और बदनौर उसको बरूश दिये जावें, तो इन दोनों जागीरोंके एवज़ हर बरस लाख रुपया नक़द जिज़्यहकी बाबत चार किस्तमें सूबह अजमेरके सर्कारी खज़ानहमें दाखिल करता रहे; और माल ज़ामिनी पेश करे.

इस वास्ते निहायत बुजुर्गी और पर्वरिशके रास्तहसे उस उम्दह सर्दारको एक हज़ार सवारकी तरकी और अस्सी लाख दाम इनआम इनायत करनेसे, जिसके अस्ल और तरकीके पांच हज़ारी जात, पांच हज़ार सवार, और हज़ार सवार दो अस्पा, और दो किरोड़ दाम इनआम होते हैं, सर्वलन्दी बरूशकर दोनों जागीरें तरकीकी


فرمان عالمگیر بادشاه بنام راجه سنگه - بابت جزیه وغیره *

باسمه صبحانه و تعاشانه

نقل مهر-

نقل طغرا -

فرمان عالی شان
ابوالظفر محمد الدین
محمد اورنگ زیب
بھادر عالمگیر بادشاہ
غازی *



عمدہ راجہ کے دولتخواہ - زندہ متہوران بلا اشتباہ - خلاصہ الامائل
والاقران - نقاۃ النظائر والاخوان - مورد مراحم بیکران - سزاوار
منایت واحسان - مطیع الاسلام راجہ سنگه بنوازش پادشاهی مفتخر و مباهی ہونہ بداند - کہ
عرضہ داشتہ کہ درین ایام فیروزی انجام بعتبہ سہراحتشام ارسال داشتہ ہوں از نظر انور طہر
فیض گستر گذشت - و در پیشگاہ خلافت و جہانبانی بظہور پیوست کہ آن زندہ الامائل تعہد نمودہ
کہ اگر از رگاہ ارفع فضل و کرم پر گنہ پور و بدھنور با و مرحمت شون - عوض این دو محل مرسل

तन्खाह और इनआममें दीजाती हैं; खिल्अत और हाथी इनायत किये जानेसे इज्जत बरूशी जाती है. मुनासिब है, कि हमारी बड़ी उम्दह मिहर्बानियोंका शुक्र अदा करके अपने इक्रारके मुवाफिक माल ज़ामिनी अजमेरके दीवानके पास पेश करे, और हर बरस जिज़्यहका एक लाख रुपया मुकर्रर कीहुई किस्तोंसे सूबेके सरकारी खज़ानहमें अदा करता रहे; इस मुआमलेमें सरत ताकीद जाने; हमारी बुजुर्ग ज़बर्दस्त दर्गाहमें खैरखाही और ताबेदारीको हमारी मिहर्बानियोंकी ज़ियादती और अपनी उम्मेदोंकी बिहतरिका सबब समझे. ९ शव्वाल सन् ३४ जुलूस को लिखा गया. [हिज्री ११०१ = ता० ९ शव्वाल वि० १७४७ आषाढ़ शुक्र ११ = ई० १६९० ता० १८ जुलाई].

मारिफत उम्दह वज़ीर, बलन्द खानदान, जुम्दतुलमुल्क मदारुल महाम, असदखांकी.

असदखां
बन्दे बादशाह
आलमगीर
गाजी.

مبلغ يك لك روپيه بابت جزیه بچهار قسط عائد خزانه عامرة صوبه نالخير اجمير كند - وما لاضامن
بدهد - بنا برين از راه ذره پروري و بنده نوازي انعمه الاشباه را بموهبت اضافة هزار سوار و عنایت
مشتان لك نال انعام كه اصل و اضافة پنج هزار سوار و پنج هزار سوار نواسه و نوكرو
نال انعام باشد سر بلندي بخشیده - ن و محل مسطور در تنخواه اضافة و انعام مرحمت فرموده -
بعنایت خلعت و فیل بین الاقرا ن هر مایه امتیاز عطا فرمودیم - باید که شکر و سپاس عواطف و مراحم
فراوان اشرف اعلى بتقدیم رسانیده مطابق تعهد خویش ما لاضامن در اجمیر بدیوان انجام آید
هر سال مبلغ يك لك روپيه جزیه با قسط مقررّه بخزانه عامرة صوبه مذكوره و اصل مینموده
باشد - درین باب قدغن شدید آید - و رسوخ ارادت و بندگی را در بارگاه عظمت و جلال نمر مزید
احسان و افضال و سود و بهبود حال و مال خویشتن شناسد * نهم شوال سال سي و چهارم از جلوس
والانكارش یافت *

به رهاله عیادت و نقابت پناه - شرافت و نجابت دستگاه - عمده وزراء رفیع الشان -

زبدۀ امرای بلند مکان - ناظم مناظم ملک و مال - ناھج مناھج دولت و اقبال - خان

شجاعت نشان - جمده الملک مدار الھام اسد خان *

اسد خان
* بندۀ بادشاہ *
* عالمگہ *
* * *
** غاز **

हमको इस बातका पुस्तक पता नहीं मिला— कि बदनौरका पर्गनह कब मेवाड़से निकलकर बादशाही कब्जेमें चला गया, जो महाराणा उदयसिंह और प्रतापसिंहके वक्तसे जयमल्ल मेड़तिया और उसकी औलादकी जागीरमें आज तक बहाल है; और इस पर्गनेके छूटनेके बाद ठाकुर सांवलदास मेड़तिया वगैरह बदनौरके जागीरदारोंको उसके एवज मेवाड़से कौनसा पर्गनह मिला; अलबत्ता लड़ाइयोंके वक्त मेवाड़के कुल जागीरदार पहाड़ोंमें रहते थे, लेकिन सुलह होनेके बाद फिर अपनी जागीरें पाते रहे. अलबत्ता पट्टेके गांव जरूर बदलते रहते थे, तो भी बाज बड़े बड़े जागीरदारोंके खास ठिकाने कम बदले गये हैं. कई लोगोंकी ज़बानी सुना, कि विजयपुरका पर्गनह बदनौर वालोंकी जागीरमें रहा है, जो कि अब शक्तावतोंकी जागीरमें है.

अब हम वह हाल लिखते हैं, जिससे महाराणा जयसिंह व उनके वलीअहद अमरसिंहके बीचमें नाइतिफ़ाकी हुई—

महाराणा जयसिंहने अमरसिंहका विवाह, और शादियोंके सिवाय, जयसलमेरके रावल सबलसिंहकी पोतीके साथ करवाया था. कुंवर अमरसिंह भटियानीपर जियादह मिहर्बान थे; कुंवर कुंवरपदेके महलमें रहते थे, जहां कि अब शंभूनिवास बना हुआ है; और उन्होंने भटियानीजीके लिये अपने महलोंके पास ही जुदा महल बनवाया; जहां कि अब रूपनगरकी व महासहानीकी हवेली है. यह बात महाराणाको नागुवार हुई; क्योंकि क़दीमसे दस्तूर है— कि राजकुमारका ज़नानह भी महाराणाके ज़नानखा-नहमें ही रहता है, जुदा नहीं रह सक्ता. महाराणाने मना किया, लेकिन कुंवरने कुछ खयाल नहीं किया. भटियानीजीको शराबका शौक था, इससे कुंवर अमरसिंहको भी उसकी घाट लगाई; उस वक्त सीसोदियोंमें शराब पीनेकी क़सम और मनाई थी, यहां तक कि एक बात ऐसे मशहूर है जिसको बाजे लोग कहते हैं— कि यह बात महाराणा राहपकी है, बाजे इनसे भी पहिलेकी बतलाते हैं, वह इस तरहपर है:—

“ किसी गोहिलोत वंशके राजाको सख्त बीमारी हुई, तब हकीमोंने कहा, कि शराब पीनेसे यह बीमारी दूर हो सकती है; महाराजाने साफ़ इन्कार किया. (१) हकीमोंने किसी दवाके शामिल शराब मिलाकर पिलादी. जब महाराजा तन्दुरुस्त हुए, तो तबीबोंने अर्ज की, कि देखिये, शराब भी क्या उम्दह चीज़ है !

(१) इस पहेंजका यह सबब था, कि कुल राजपूत क़ौमें शुरूसे शराब नहीं पीती थीं, और पिछले ज़मानहमें वाम मार्ग फैल जानेसे राजपूतानहके राजपूत लोगोंने इसका पीना शुरू किया, लेकिन चित्तौड़के राजाओंने वही दस्तूर जारी रक्खा, जो वंश परंपरासे चला आता था.

जिससे आपकी बीमारी जाती रही. महाराजाने हँसते हुए कहा— कि मैंने कभी शराब नहीं पी, तुम यह कैसे कहते हो! हकीमोंने अर्ज किया, कि हमारा कुसूर मुआफ़ हो, हमने दवाईमें मिलाकर दी थी; तब महाराजाने हकीमोंको तो रुख़सत किया, और सीसा मंगवाकर आगपर रखवाया; लोगोंने जाना— कि किसी कामके वास्ते रखाया है, जब वह गल गया, तब महाराजाने मुहमें डाल लिया, जिससे उनका देहान्त होगया. इसी वक्तसे मेवाड़के राजा सीसोदिये कहलाये. सीसा नाम सीसा और व्याकरण की रीतिसे (उद) धातुका अर्थ पीना है, दोनोंके मिलनेसे सीसोद शब्द हुआ."

आखिरकार महाराणा जयसिंह और कुंवरमें नाइतिफ़ाकी बढ़ी, महाराजकुमार के मुंह तो शराब लग गई, जिसके मुंह यह लग जाती है, उसको इसकी जुदाई जानकी जुदाईसे भी ज़ियादह सरत हो जाती है. इन्हीं दिनोंमें महाराणाका जयसमुद्रकी तरफ़ जाना हो गया, और दोनों तरफ़से आपसमें रंज बढ़ता गया. राजपूतानहमें आम रिवाज है, कि बापके जीते बेटा सिफ़ेद पगड़ी सिरपर नहीं बांधता, इन्हीं (कुंवर अमरसिंह) ने आप सिफ़ेद पगड़ी बांधी, और अपने बेटे संग्रामसिंह को भी बंधवाकर महाराणाके पास जयसमुद्र पहुंचे, महाराणाने नाराज होकर हुक़म दिया, कि तुम अभी उदयपुर चले जाओ. कुंवर उदयपुर आये, आपसमें विरोधकी आग भड़क ही रही थी, कि ईधनके समान और एक बात हुई, कि उदयपुरमें एक कायस्थ कंकजीकी औरतसे महाराणाकी दोस्ती थी; इससे कंकजीका दरजा बढ़ाया गया. कुंवरने शहरमें एक मस्त हाथी छुड़वा दिया, जिसने दो आदमी जानसे मारडाले, और दो चार घर गिरा दिये. यह खबर बड़े तूलके साथ कायस्थ कंकजीने जयसमुद्र महाराणाके पास लिख भेजी. महाराणाने राजकुमारको बहुतसी लानत मलामतके साथ लिखा, कि तुम हमारी रअग्र्यतको मारते व तच्छीफ़ देते हो, निकाले जाओगे. राजकुमार आधी रातके वक्त घोड़ेपर सवार होकर कंकजीके मकान पर आये; नीचे खड़े होकर आवाज़ दी, कंकजीने भरोखेसे सलामकरके जबाब दिया. राजकुमारने गुस्सेमें कहा, कि मैं ग़रीब राजपूत हूँ, इस शहरमें रहने दोगे, या नहीं? और खबर नहीं रखोगे तो ठीक नहीं होगा. कंकजीने कहा, कि हमारे मालिक महाराणा जयसिंह मौजूद हैं, हम इन टेढ़ी बातोंसे नहीं डरते. तब वह बोले, कि भला, तुम होशियार रहना, तुमको तो सज़ा देदूंगा. यह कहकर राजकुमार महलों आये, और कंकजीकी औरतने तुहमत और शिकायत आमेज़ एक अर्जी

महाराणाके पास लिख भेजी. वे उस अर्जीको देखते ही आग बबूला होगये, और फौज लेकर उदयपुरकी तरफ़ खानह हुए. यह खबर पाकर राजकुमार भाग निकले, महाराणाने पीछा किया, वे किले चित्तौड़पर जा चढ़े. उनके साथ सलूबर व पार-सौलीका राव केसरीसिंह चहुवान, महाराज सूरतसिंह, बान्सीका रावत् गंगदास शक्ता-वत, कोठारियेका रावत् उदयभान चहुवान, देलवाड़ेका राज सजा भाला, बाठर्डे का रावत् महासिंह सारंगदेवोत और रावत् अनोपसिंह वगैरह बहुतसे थे. जब महाराणा चित्तौड़की तलहटीमें पहुंचे, तो राजकुमार किले चित्तौड़से सूर्य पोलके रास्ते निकल भागे, उस वक्त सूर्यपोलके खुरेसे उतरते वक्त पत्थरकी चिकनावटके सबब महाराज सूरतसिंह घोड़ेसे गिरा, और जबड़ी टूट जानेसे बेहोश होगया; तब चहुवान राव केसरीसिंह पट्टी बांधकर उस तल्लीफ़के वक्तमें भी उसको राजकुमारके साथ लेगया. राजकुमार बूंदी पहुंचे, और महाराणा उदयपुर वापस आये; राजकुमारके बूंदी जानेका यह सबब था, कि बूंदीके राव राजा शत्रुसालकी छोटी बेटी गंगाकुंवरीका विवाह शत्रुसालके बेटे राव राजा भावसिंहने महाराणा जयसिंहसे किया था, और महाराणी हाड़ी गंगाकुंवरीके गर्भसे राजकुमार अमरसिंह जन्मे थे; इसीसे उक्त राजकुमार अपनी ननिहाल (बूंदी) मददके लिये गये, लेकिन वहांके राव राजा अनिरुद्धसिंह तो बादशाही नौकरीमें थे; और उनके पुत्र बुद्धसिंह बालक थे, तो भी रावराजाकी रानी (बुद्धसिंहकी मा नाथावत) ने एक लाख रुपया और हजार सवार मददको दिये. राजकुमार अमरसिंहने बूंदीके नागर रघुरामसे पचास हजार रुपये उधार लिये. उनके पास सब मिलकर बीस हजार सवार होगये थे. बूंदीसे कूच करके मेवाड़में अमल जमाते हुए उदयपुरसे पूर्वकी तरफ़ आठ कोसके फ़ासिलेपर नाहरमगरेके करीब कर्णपुर गांवमें आठहरे.

यह खबर सुनकर महाराणाको बड़ी फ़िक्र हुई; क्योंकि मेवाड़के अक्सर सर्दार राजकुमारसे जामिले थे, और फौज भी मुकाबला करनेके लायक न रही सात घड़ी रात गये खाना खाकर महाराणा उदयपुरसे भागे, और पहाड़ोंमें कठाड़ गांव पहुंचे. महाराणाके आनेकी खबर सुनकर वहांका जागीरदार गरीबदास मांजावत गांव छोड़ भागा, दूसरे दिन महाराणा कुंभलगढ़के पास कैलवाड़ेमें पहुंचे; वहांका किलेदार साह रूपचन्द देपुरा जुरूरतके मुवाफ़िक़ सब सामान लेकर महाराणासे आमिला, फिर घाणेराममें पहुंचे, वहांका जागीरदार ठाकुर गोपीनाथ भी राजकुमार के पास जानेको तय्यार हो रहा था; उसकी मा महाराणा उदयसिंहके बेटे शक्तिसिंहकी औलादमेंसे थी, शक्तिसिंहका बेटा बल्लू, जो महाराणा अमरसिंहके साम्हने

उंटालेके किलेके दवाजेपर मारा गया था; उसके पुत्र कम्माके बेटे सुजानसिंह शक्तावतकी बेटी थी. इस संबन्धसे महाराणा उसके पास चलेगये, और राजकुमारका व अपना सब हाल कह सुनाया. उन्होंने गोपीनाथको भी भीतर बुलाया; उसने पहिले अपने अरमान और महाराणाकी तरफसे बेफ़ायदह नाराज़गी रहनेके भगड़े कहे, लेकिन उसकी माने समझाकर कहा, कि अपने मालिकसे जुदा होना दोनों लोकसे अलग होनेके समान है, और खैरस्वाह नौकरोंका मालिकके कामपर मर मिटना भी जीते रहनेके बराबर है. तुम्हारे बुजुर्गोंने मालिककी कभी बदस्वाही नहीं की, अगर महाराणाका बड़ा प्रताप है, तो राजकुमारकी बगावत जल्दी दूर होगी, और तुम्हारी बड़ी इज़्जत बढ़ेगी; और जो मारे भी गये, तो सामधर्मियों की गिन्तीमें रहोगे. यह दुनूया नापायदार है, इसमें पायदार नाम रखना चाहिये.

इस तरह माताकी नसीहत सुनकर महाराणासे अर्ज की, कि अब हुजूर बेफ़िक्र रहें, और नौकरोंकी नौकरी देखें; उस वक्त किसी शाइरने कहा है— “राण जतन कर राखिया गाढे गोपीनाथ”. गोपीनाथने बाप बेटोंकी लड़ाईका हाल और महाराणाकी मददको आनेके लिये महाराजा अजीतसिंह और राठौड़ दुर्गदासको लिख भेजा; और महाराणाने साह रूपचन्दको कुंभलगढ़से खज़ानह लानेको वापस भेजा, रूपचन्द खज़ानह लेकर किलेसे निकला ही था, कि राजकुमारकी फ़ौज आपहुंची, तब उसने यह तद्बीर की, कि खज़ानहकी देंगे तो आस पास छिपा दीं, और लकड़ियां इकट्ठी कराकर जानवरों की हड्डियां जलाईं, आप अपने तमाम आदमियों समेत भेव बदलकर एक तरफ़ जा बैठा, राजकुमारकी फ़ौज चितासी जलती देखकर मुर्देको जलाना खयाल करने से किनारा करगई; रूपचन्द खज़ानह लेकर घाणेराव आया; महाराणाने उसकी बड़ी खातिर की.

महाराणाके साथ उदयपुरसे ही उनका मामा राव वैरीशाल पंवार बीभोलियां वाला और बीरू महासहाणी मौजूद थे; पर रास्तह भूलकर केवड़ेकी नालमें होते हुए छप्पन बागड़की तरफ़ जा निकले, और साह रूपचन्दके बेटे सिंहाने डूंगरपुरकी राह ली. महाराणाको यह भी शक था, कि राजकुमारसे सिंहा जा मिला; इस सबबसे सदा कोतवालको उसके पीछे कुछ फ़ौज देकर भेज दिया, और यह भी कह दिया, कि अगर सिंहा इधर आवे, तो ले आना, और राज कुमारके पास जानेका इरादह रखता हो, तो मार डालना. सदा कोतवालने डूंगरपुरके पास ही सिंहाको जा घेरा, वह साथ हो लिया, और राव वैरीशाल पंवार, बीरू महासहाणी, सिंहा और सदा कोतवाल चारों घाणेरावमें

महाराणाके पास हाजिर हुए. महाराणाने फर्माया, कि देपुरा महाजन कदीमी खैरस्वाह हैं, इनके बड़े हमेशाह खैरस्वाह रहे हैं. इतने ही में दुर्गदास कुल मारवाड़के राठौड़ोंको लेकर हाजिर हुआ, जिसके साथ तीस हजार सवार थे. भोमटके भोमिया, मेरवाड़के मेर, और मेवाड़की लड़ाकू कौमोंके हजारों लोग घाणोरावमें इकट्ठे होगये. लिखाहै- कि उस वक्त महाराणाके पास पचास हजार आदमियोंकी भीड़भाड़ थी, और सवार, पैदल, सबको मदद खर्चमें तेतीस हजार रुपये रोज़ दिये जाते थे.

आठ दिन बाद महाराणाने नाडोलके जंगलमें फौजकी हाजिरी ली, और देवसूरी घाटेके नीचे आकर मक़ाम किया. मेवाड़के बड़े उमरावोंमेंसे बीभोलियाका राव वैरीशाल पंवार, चावंडका रावत् कांधल रत्नसिंहोत कृष्णावत चूंडावत, घाणोरावका ठाकुर गोपीनाथ मेड़तिया और डोडिया ठाकुर हटीसिंह (१) के अलावह दूसरे या तीसरे दरजेके राजपूत जागीरदार दस हजार सवार थे.

राजकुमार अमरसिंहने अपनी बीस हजार हाड़ा और सीसोदियोंकी फौज समेत उदयपुरमें जा कब्ज़ा किया, गद्दीपर बैठनेके बाद सब सर्दारोंने नज़ें दीं; लेकिन घाणोरावमें महाराणाके पास फौज इकट्ठी होना सुनकर राजकुमार भी अपनी जमइयत समेत उदयपुरसे चले, और राजनगर होते हुए जीलवाड़े पहुंचे. उस वक्त महाराणाके साथी सर्दारोंमेंसे राठौड़ ठाकुर गोपीनाथ व डोडिया ठाकुर हटीसिंह वगैरहने अर्जकी, कि अगर हुक़्म हो, तो एक बार फिर राजकुमारको समझावे; क्योंकि आपसमें कट मरनेसे मेवाड़ और मारवाड़की बहादुरीमें फर्क आजायगा, जिससे मुसल्मानोंको फ़ायदह पहुंचेगा. दूसरे- अपने पुत्रको आप मारडालें, तो भी अफ़सोस आपहीको होगा; तीसरे- हम राजपूतोंका आपसमें मारा जाना एक हाथसे दूसरे हाथको काटना है. आखिर इस तरहकी बातें सुनकर महाराणाने फर्माया- कि जो तुम लोगोंकी सलाह हो, वह मुझे भी मंज़ूर है. तब इन्हीं सब सलाहकारोंने जैसी, कि बातें महाराणासे अर्जकी थीं, वही सब राजकुमारको जीलवाड़ेमें लिख भेजीं, राजकुमारके सर्दारोंने भी उसी लिखावटके मुवाफ़िक़ सलाहदी, जैसी कि सलाहकारोंने महाराणाको दी थी. राजकुमारने भी इस सुलहको मंज़ूर किया, और यह इक्रार हुआ, कि राजकुमार तीन लाख रुपयेकी जागीर लेकर राजनगरमें रहें, इनके पट्टेमें रियासती दस्तन्दाजी न हो; और इसी तरह राजकुमार रियासती, माली व मुल्की काममें दख़ल न दें.

(१) यह कुंवारियाका जागीरदार था, इसी ख़ान्दानमें अब सर्दारगढ़के ठाकुर मनोहरसिंह हैं.

ठाकुर गोपीनाथ और डोडिया ठाकुर हटीसिंह, राव केसरीसिंह वगैरह तरफैनेके सदाँरोंने राजकुमारको महाराणा जयसिंहके पास लाकर हाजिर किया, राजकुमारने कुसूरकी मुआफ़ी चाही, और नज़ दी. महाराणाने उनका कुसूर मुआफ़ किया, फिर कुंवरने अपने कुल सदाँरोंकी नज़ें करवाई; उनका कुसूर भी मुआफ़ किया गया. राजकुमार राजनगरमें रहे, और महाराणा जयसिंह उदयपुर पधारे; लेकिन दोनोंके दिलोंमें गुबार भरा रहा. महाराणाके पास ठाकुर गोपीनाथ मुसाहिब, दामोदरदास भटनागर कायस्थ प्रधान, और राजकुमारके पास राजनगरमें चहुवान राव केसरीसिंह मुसाहिब और गोवर्धनदास भटनागर कायस्थ सहीहके कामवाला (१) प्रधान था.

महाराणाके पास चावंडका चूंडावत कृष्णावत रावत् कांधल भी रहता था, जिसके दादा रघुनाथसिंहसे महाराणा राजसिंहने सलूबर छीनकर राव केसरीसिंह चहुवानको जागीरमें दे दिया था; इसी सबबसे रावत् रघुनाथसिंह उदयपुरकी हाजिरी छोड़कर लाहौरमें बादशाह आलमगीरके पास पहुंचा, और उसको बादशाहने मन्सब दिया, जिसका हाल महाराणा राजसिंहके बयानमें पूरा पूरा लिखा गया है.

रावत् रघुनाथसिंहका बेटा रत्नसिंह, जो अपने बापके मरने बाद बादशाही नौकरी छोड़कर वापस चलाआया, उसे महाराणा राजसिंहने सलूबरके एवज़ चावंडका पट्टा दिया, जो उदयपुरसे दक्षिण तरफ़ जयसमुद्रके पास है. रावत् रत्नसिंहने महाराणा राजसिंह व बादशाह आलमगीरकी लड़ाइयोंमें बड़ी बड़ी कारगुजारी दिखलाई थी; लेकिन सलूबर उसको नहीं मिला, और उसके देहान्त होनेके बाद रावत् कांधलने बाप बेटोंकी लड़ाईके वक्त महाराणा जयसिंहकी खैरस्वाही की, और ठाकुर गोपीनाथ व राव वैरीशाल कांधलके मददगार थे; इस मौकेपर महाराणासे अर्ज़ हुई— कि राव केसरीसिंह चहुवानको मारडाला जावे, तो राजकुमार की ताकत टूटे. तब कांधलने कहा, कि मेरी कदीमी जागीर सलूबर मुझे मिले, तो मैं उसको मार सका हूं. महाराणाने सलूबर देनेका इक्रार किया, और खास रुक़ा लिखकर केसरीसिंहको राजनगरसे उदयपुर बुलाया. केसरीसिंह राजकुमार से रुख़सत लेकर बे खटके चला आया, दो एक दिन तो गोपीनाथ, कांधल वगैरह के साथ महाराणासे सलाह मशवरा करता रहा, एक दिन महाराणाने फ़र्माया, कि बादशाह आलमगीरने पेशतर जिज़्यह मुआफ़ करके पुर, मांडल, बदनौरके

(१) सहीहके काम वाला उदयपुरकी रियासतमें, वह कहाता है, जो पट्टे पर्वाने वगैरह खास कागज़ात महाराणाकी तरफ़के लिखता है; और जिनकी पेशानीपर महाराणा खास दस्तख़तोंसे " सही صحيح " के दो अक्षर लिखते हैं.

पर्गने भी दे देनेका इक्कार किया था, लेकिन पर्गने नहीं दिये; और मुआफ़ कीहुई हजार सवारकी चाकरी भी लेना चाहा, तब लाचार पर्गने लेनेके वास्ते जिज्यह कुबूल किया. अब इस बारेमें क्या करना चाहिये ! इस बातको रावत कांधल, केसरीसिंह और गोपीनाथ विचारकर अर्ज करें.

तब उन दोनोंने केसरीसिंहसे कहा, कि थूरके तालाबपर बड़ी बहारकी जगह है, कल दिनभर वहीं ठहरकर सलाह करेंगे; इस बात चीतके लिये कांधल और केसरीसिंह तो वहां पहुंचे, पर गोपीनाथ नहीं गया. कांधलने केसरीसिंहसे कहा, कि आओ ! हम आपसमें सलाह करें, थोड़ी देरमें गोपीनाथ भी आजायगा. दोनों सर्दारोंने राजपूतोंको दूर करदिया, केसरीसिंह अफीम खाता था, इससे बाज वक्त पीनक और बाज वक्त होशियारीमें बातें करने लगा, उस वक्त कांधलने कमरसे कटार निकालकर केसरीसिंहकी छातीमें मारा, और कहा, कि महाराणा तुमसे नाराज हैं ! केसरीसिंहने उसी जाकन्दनीकी हालतमें एक हाथसे कांधलकी कमर पकड़कर दूसरेसे कटार निकाला, और अपने कातिलकी छातीमें मारकर कहा, कि महाराणा खुश आपसे भी नहीं हैं ! आखिरकार दोनों सर्दार जहानको छोड़गये. दोनों तरफके राजपूत लड़नेको तय्यार हुए, लेकिन महाराणाके आदमी जा पहुंचे, और हर एकके मालिककी लाश तरफैनके सुपुर्द कीगई.

उस वक्त किसी चारण शाइरने मारवाड़ी भाषामें, ये दोहे कहे थे:-

दोहा.

पंथी जाय संदेसड़ा राण अगा कहिया ।
चूंडो ने चंदवारियो रण भेला रहिया ॥ १ ॥
केहर कांधल मारवे रही सदा लग रीत ।
कांधल केहर मारियो रीत किना विपरीत ॥ २ ॥
कांधल केहर मारने दियो मुछारां हथ्य ।
चूंडा चहुवाणा चली सतियां हेकण सथ्य ॥ ३ ॥

१ - दोहेमें शाइरीका तर्ज है, कि किसी मुसाफिरने महाराणासे जाकर कहा, कि चूंडावत और चन्दवारिया चहुवान, दोनों एक जगह मारे गये.

२ - केहर नाम शेरका और कांधल नाम बैलका है, जो इन दोनों सर्दारोंके नाम थे; एक तर्जसे शाइरका कौल है, जिससे राव केसरीसिंहकी बहादुरी जियादह

और कांधलकी कम निकलती है. इससे इस दोहेका यह मल्लब है- कि शेरका बैलको मारना कदीमी रिवाज है, लेकिन बैलने जो शेरको मारा, यह बात कदीमके बखिलाफ़ हुई.

३- कांधलने केसरीसिंहको मारकर मूछोंपर हाथ तो पेशतर फेरा, लेकिन सती होनेको दोनोंकी औरतें साथ गईं.

इन दोनों सर्दारोंके मारे जाने बाद रावत कांधल चूडावतके बेटे केसरीसिंहको बुलाकर महाराणाने अपने कौलके मुवाफ़िक़ सलूबरका पट्टा दिया, और चहुवान राव केसरीसिंहके बेटे नाहरसिंहके कब्जेमें पारसोली रही, जो अबतक उसकी औलाद की जागीरमें चली आती है. यह खबर राजनगरमें राजकुमारको मिली, केसरीसिंहका मारा जाना निहायत नागुवार गुजरा, लेकिन लाचारीके सबब सब करना पड़ा, क्योंकि उनकी फौजी ताकत कम होगई थी; बूंदीकी फौज तो बूंदी गई, और मेवाड़के सर्दारोंने महाराणासे जाकर कुसूरकी मुआफ़ी मांग ली थी. हमको दो मुसब्बदे उसी जमानेके लिखेहुए, बादशाह आलमगीरके वजीर असदखांके नाम, राजकुमार अमरसिंहकी तरफ़से मिले; जिनका तर्जमा नीचे लिखते हैं:-

पहिला खत.

सर्दारी और वजीरीकी मसन्द आपकी मुबारक जातसे हमेशह रौनकदार रहे- मुलाक़ातका शौक़ जाहिर करनेके बाद, जो बड़ी खुशियोंका सबब है, आपकी पाक तबीअतपर जाहिर किया जाता है, कि इन दिनोंमें बहादुरीकी निशानी कुशलसिंह सीसोदिया कुछ कामोंके वास्ते आपकी खिदमतमें भेजा गया. आपकी बड़ी नेक-नियतीसे यह उम्मेद है- कि जो कुछ जिक्र कियाहुआ आदमी मेरे कामोंके वास्ते ज़बानी अर्ज़ करे, उसके पूरा होनेमें आप पूरी तबज़ुह फ़र्मावें; और जो काम व मुआमला मेरे तअल्लुकका हो, बिला शुब्हा लिख भेजें. खुदाकी मिहर्बानीसे अच्छी तरहपर तै किया जावेगा; और सिवाय शौक़के क्या लिखा जावे. पिछले काम अच्छी तरह तमाम हों.

दूसरा खत.

सर्दारी और बलन्द दरजेके लाइक़, हमेशह बुजुर्ग मिहर्बानियोंके शामिल रहें; मुलाक़ातका शौक़ जाहिर करनेके बाद बुजुर्ग तबीअतपर मालूम हो, कि बहादुर

जात कुशलसिंह सीसोदियाको हुजूर शहनशाहकी दर्गाह और नव्वाब कुदसियह बेगम की ज्योदीकी तरफ बाजे कामोंकी अर्ज करनेको भेजा गया है, यकीन है, कि जिक्र किया हुआ बहादुर कुल अहवालको मुफ़स्सल ज़बानी बयान करेगा, आपकी बुजुर्ग दोस्ती और नेकदिलीसे उम्मेद है, कि उन हकीकतोंको, जो लिखा हुआ आदमी आपकी खिन्नतम जाहिर करे, जनाब नव्वाब कुदसियह बेगमकी बुजुर्ग खिन्नतमें अर्ज करदें, और मेरी अर्जोंको पाक नज़रसे गुज़ारें; हर तरहपर मेरे काममें ऐसी कोशिश करें, कि नव्वाब कुदसियह बेगम पूरी तवज़ुह फ़र्मावें. जो काम कि यहांके तअल्लुकके हों, वह लिख भेजें, ज़ियादह शौकके सिवा क्या लिखा जावे.

इन दोनों कागज़ोंका मल्लब व कुशलसिंहके भेजनेका सबब मालूम नहीं है, लेकिन महाराणा और राजकुमारके आपसकी नाइतिफ़ाकीके सिवाय और कोई अघ्न नहीं जाना जाता, जो राजकुमार और बादशाही दरबारसे सम्बन्ध रखता हो; कुशलसिंह सीसोदिया, जिसको राजकुमारने वज़ीर आजमकी मारिफ़त बादशाही दरबारमें भेजा, उसकी यह कैफ़ियत है, कि महाराणा उदयसिंहका छोटा बेटा शक्तिसिंह, उसका अचलदास, उसका नरहरदास, उसका विजयसिंह और इसका कुशलसिंह शक्तावत था, जिसकी औलादमें अब विजयपुरका ठाकुर है; इसी कुशलसिंहको राजकुमारने शाही दरबारमें भेजा था. ऐसा मालूम होता है, कि कुंवरके लिखनेपर बादशाही मुलाज़िमोंने कुछ ध्यान नहीं दिया, और वह मौका भी ऐसा ही था. अगर दक्षिणी लड़ाइयोंमें बादशाह न फंसा होता, तो ज़रूर इस आपसकी फूटसे वह अपना मल्लब निकालता.

इन दोनों बाप बेटोंकी लड़ाईका ख़ातिमह विक्रमी १७४९ [हिज़्री ११०३ = ई० १६९२] में हुआ, और उसी वक्त से राजकुमार राजनगर, और महाराणा उदयपुरमें रहते थे. महाराणा जयसिंहका भाई भीमसिंह अजमेरमें बादशाह के पास चलागया था, जहां उसे राजाका खिताब मिला—यह सब हाल ऊपर लिख आये हैं. उसने बादशाहकी तरफसे लड़ाइयोंमें बड़ी बड़ी बहादुरी दिखलाई, और इज़त भी बहुत पाई, लेकिन विक्रमी १७५२ श्रावण कृष्ण १४ [हिज़्री ११०६ ता० २८ जिल्हिज = ई० १६९५ ता० ९ अगस्त] को उसका देहान्त होगया. इस भीमसिंहके बारह बेटे थे, १ अजबसिंह, २ सूरजमल्ल, ३ सौभाग्यसिंह, ४ खुमानसिंह, ५ पृथ्वीसिंह, ६ अर्जुनसिंह, ७ विजयसिंह, ८ जोरावरसिंह, ९ कीर्तिसिंह,

१० रजसिंह, ११ कृष्णसिंह, और १२ भगवानसिंह. बादशाहने बनेडेका पर्गनह कई दूसरे पर्गनों समेत भीमसिंहको जागीरमें दिया था; दूसरे पर्गने तो और मुल्कों में से मिले थे, सो इनकी औलादके कब्जेमें नहीं रहे; लेकिन मेवाड़के मातहत बनेडा अबतक उनकी औलादकी जागीरमें है. भीमसिंहके मरने बाद बड़ा बेटा अजबसिंह बापकी गादीपर बैठा.

महाराणा जयसिंहने अपनी राजकुमारी उम्मेदकुंवर बाईकी शादी बूंदीके राव राजा बुद्धसिंहसे करनेके लिये पुरोहित संतोषराम व श्रीकृष्ण योतिषीको भेजा; इन दोनोंने बूंदी पहुंचकर राव राजा बुद्धसिंहको नारियल भेलाया. फिर वहांसे कोटाके महाराव रामसिंहके पास गये, और उनके कुंवर भीमसिंह को महाराणाकी छोटी बाईकी सगाईका नारियल दिया. इसके बाद दोनों उदयपुर को लौटे, और बूंदी व कोटासे बरात सजकर आई. विक्रमी १७५२ फाल्गुण कृष्ण ९ [हिज्जी ११०७ ता० २३ रजब = ई० १६९६ ता० २६ फ़ेब्रुअरी] को दोनों राजाओंका विवाह बड़ी धूम धामसे हुआ. इसके बाद राजकुमार और महाराणा जयसिंहमें दोबारह नाइतिफ़ाकी हुई; इस लिये महाराजा अजीतसिंह को महाराणाने बुलाया; वे उस वक्त कोटकोलरकी तरफ चढ़ाईमें थे. जोधपुरकी तवारीखमें लिखा है— कि बादशाही मुलाजिम लश्करीखांसे अजीतसिंहका मुकाबला हुआ, ८० आदमी खान्के काम आये, और वह भाग गया. तब अजीतसिंह उदयपुर आये.

विक्रमी १७५३ आषाढ कृष्ण ८ [हिज्जी ११०७ ता० २२ जिल्काद = ई० १६९६ ता० २२ जून] को महाराणा जयसिंहने अपने छोटे भाई, गजसिंहकी बेटाकी शादी महाराजा अजीतसिंहके साथ करदी; और ९ हाथी, १५० घोड़े वगैरह बहुतसा दहेज दिया. इसके बाद आपसकी नाइतिफ़ाकी मिटाकर महाराजा मारवाड़को चले गये; और राजकुमार राजनगर व महाराणा उदयपुरमें रहे. इसके सिवा इन महाराणाका लिखने लायक तारीखी हाल नहीं मिला.

इनका छोटा कद, गोरा रंग, बड़ी आंखें, और चौड़ी पेशानी थी. जवानीमें इन्होंने महाराणा राजसिंहके साम्हने तो बड़ी बड़ी बीरताके काम किये थे, लेकिन राज्य मिलने बाद पूरे अग्र्याश होगये; और राजकुमारके बखेडेके सबब मुल्की इन्तिजाम भी ढीला पड़गया था; दोनों तरफके आदमी रअग्र्यतको लूटते थे. इस वक्त आलमगीर बादशाह दक्षिणी लड़ाईयोंमें फंसा हुआ था, वरनह मेवाड़की हालत और भी बिगड़ती.

इन महाराणाके बड़े राजकुमार अमरसिंह, बूंदीके हाड़ा राव शत्रुसालके दोहिते; दूसरे प्रतापसिंह, जिनकी औलाद बावलासके जागीरदार हैं; तीसरे उम्मेदसिंह, जिनकी सन्तानमें कारोईके मालिक हैं; चौथे तस्तसिंह; और दो बेटियां थीं—अनूपकुंवर, दूसरी कृष्णकुंवर; और एक ख्वासके बेटे नारायणदास, व दो बेटियां सूरजकुंवर और उम्मेदकुंवर नामकी थीं.

महाराणा जयसिंहका जन्म विक्रमी १७१० पौष कृष्ण ११ [हिज्री १०६४ ता० २५ मुहर्रम = ई० १६५३ ता० १६ डिसेम्बर] को, और देहान्त विक्रमी १७५५ आश्विन कृष्ण १४ [हिज्री १११० ता० २८ रबीउल् अब्बल = ई० १६९८ ता० ५ अक्टोबर] को हुआ.

बादशाह आलमगीरकी मृत्यु तो महाराणा २—अमरसिंहके समयमें हुई, परन्तु उसके राज्य करनेका अहद बहुतसा इन महाराणाके अखीर समय तक गुजर चुका; इसलिये उसका हाल इसी जगह लिखा जाता है—

अबुज्जफ़र मुहयुद्दीन, मुहम्मद औरंगज़ेब बहादुर,
आलमगीर बादशाह.

الوالظفر محي الدين — محمد اورنگزیب بھادر —
عالمگیر بادشاہ *

यह बादशाह हिज्री १०२७ ता० १५ जिल्काद [विक्रमी १६७५ मार्गशीर्ष कृष्ण १ = ई० १६१८ ता० ४ नोवेम्बर] रविवार को हमीदहबानू मुस्ताज़ महल बेगमके पेटसे पैदा हुआ, इस बेगमकी चौदह औलादमेंसे वह छठा था, इसकी शाहज़ादगीका हाल, तो बादशाह शाहजहांकी तवारीखमें लिखा गया है, अब दाराशिकोहपर समूनगरकी लड़ाईमें फ़तह पाकर आगरेमें पहुंचनेसे पिछला हाल बयान किया जाता है—

जब जहांआरा बेगमने आगरा किलेके बाहर आकर औरंगजेब और मुरादको समझाया, और कुछ असर न हुआ; शाहजहां भी औरंगजेबको बुलाता रहा, लेकिन वह मारडालनेके खौफसे भीतर नहीं गया, और अपने बेटे मुहम्मद सुल्तानको भेजकर हिज्री १०६८ ता० ११ रमजान [विक्रमी १७१५ ज्येष्ठ शुक्ल १३ = ई० १६५८ ता० १४ जून] को शहर पर कब्जा कर लिया, और ता० १७ रमजान [विक्रमी आशाढ़ कृष्ण ३ = ई० ता० २० जून] को किलेमें भी अपना बन्दोबस्त करके बादशाह शाहजहां को नजर कैदी बनाया. उस वक्त शाहजहाने अपने पोते मुहम्मद सुल्तानको कहलाया, कि मैं कुरआनकी कसम खाकर कहता हूं, कि अगर तू ईमानदारीसे मेरी फर्माबदारी करे, तो मैं तुम्हको हिन्दुस्तानका बादशाह बनादूं, लेकिन उसने इस बातको कुबूल न किया.

मिस्टर बर्नियर फ्रांसीसीकी राय है, कि वह ऐसा करता, तो जरूर हिन्दुस्तानका बादशाह होजाता, क्योंकि शाहजहांसे कुल शाही मुलाजिम मुहब्बत रखते थे, औरंगजेबको छोड़कर शाहजहांके शरीक होजाते, लेकिन हमारी राय बर्नियरके बखिलाफ है, अब्बल तो औरंगजेब फतहयाब, और दारा खराब होगया था; जिससे औरंगजेबके दबाव व खौफसे कोई मुलाजिम शाहजहांका साथ न देता; अगर साथ भी देता, और औरंगजेब व मुराद बर्बाद होते, तो भी शाहजहांकी मुहब्बत दारापर जियादह थी; इसके सिवाय उसकी मददगार जहांआरा थी, कि जिसने बादशाहको मोमकी पुतली बना रक्खा था; कभी दाराशिकोहके बखिलाफ मुहम्मद सुल्तानको बलीअहद न होने देती; मुहम्मद सुल्तान जलील होकर माराजाता, या कैद होता.

हिज्री ता० २२ रमजान [वि० आषाढ़ कृष्ण ८ = ई० ता० २५ जून] को शाहजादह मुहम्मद सुल्तान और फाजिलखां खानसामांको आगरे में शाहजहांकी निगरानीपर छोड़कर औरंगजेबने दाराशिकोहका पीछा किया, और अपने भाई मुरादको जाहिर तौरपर बादशाह कहकर छब्बीस लाख रुपये, २३० घोड़े मुबारकवादीके साथ नज़्र किये. हि० ता० आखिर रमजान [वि० आषाढ़ शुक्ल १ = ई० ता० ३ जुलाई] को महाराणा राजसिंहके कुंवर सुल्तानसिंह व भाई अरिसिंह, इस फतहकी मुबारकवाद देनेको सलीमपुर मकामपर पहुंचे, जिनको उम्दह खिल्अत, मोतियोंकी कंठी, सर्पेच और जड़ाऊ छोगा इनायत किया; और महाराणा राजसिंहके लिये बेश कीमत सर्पेच दिया.

हिज्री ता० ४ शबवाल [वि० आषाढ़ शुक्ल ५ = ई० ता० ७ जुलाई] को मकाम मथुरामें औरंगजेबने अपने भाई शाहजादह मुरादको अपने डेरेमें

बुलाकर शराब पिलाने बाद गिरिफ्तार करलिया; और उसके साथियोंको धमकी, इन्आम व इक्रामसे ताबेदार बनाया, और मुरादको हाथीपर डालकर सलीमगढ़में भेजदिया. आंबेरका मिर्जा राजा जयसिंह अब्बल कछवाहा और दिलेरखां भी शाह-जादह सुलैमां शिकोहसे अलहदह होकर औरंगजेबसे आमिले. बर्नियर लिखता है, कि " औरंगजेबने राजा जयसिंहको बड़ी खुशामदसे राजी किया, और उसको बाबाजी कहकर पुकारने लगा ".

हिज्री ता० ११ शव्वाल [वि० श्रावण कृष्ण ५ = ई० ता० २० जुलाई] को औरंगजेब दिल्लीके बाहर शालामार बागमें पहुंचा, और दाराशिकोह मए दस हजार सवारोंके लाहौरकी तरफ चला गया; औरंगजेबने पीछा किया, दाराशिकोह लाहौरमें भी न ठहरकर ठठेहकी तरफ खानह हुआ; औरंगजेबने उसके पीछे सफ़शिकनखां और उदयभान राठौड़ वगैरहको भेजा. दाराशिकोह भक्खरसे सक्खर होकर ठठे पहुंचा, पर वहां भी न रहसका. हिज्री १०६९ ता० २६ सफ़र [वि० १७१५ मार्गशीर्ष कृष्ण १२ = ई० १६५८ ता० २२ नोवेंबर] को गुजरातकी तरफ खानह हुआ. वहांसे कच्छके इलाक़ेमें गया, जहांके राजाने अपनी बेटी सिपिहरशिकोहको ब्याहदी; उसकी मददसे दारा अहमदाबाद पहुंचा, जहांके हाकिम शहबाजखाने दस कोस तक पेशवाई करके शहरकी हुकूमत, और दस लाख रुपया नक़्द पेश किया. इस मक़ामपर दाराशिकोहके पास बाईस हजार सवार और कुछ तोपखानह एकट्ठा होगया था.

औरंगजेबने ठठेसे अपने सदर्दारोंको पीछा बुला लिया, और आप लाहौरसे दिल्लीकी तरफ खानह हुआ; क्योंकि उसको बंगालेकी तरफसे शुजाअके आनेका खटका था. लाहौरके रास्तेमें जिन सदर्दारोंको इन्आम और मन्सब दिये, उनकी फ़िहरिस्त नीचे लिखी जाती है :-

१ - जोधपुरके महाराजा जशवन्तसिंहको, (जिसे राजा जयसिंह आंबेरवालेने तसल्ली देकर बुला लिया था), १ हाथी, १ हथनी मए सामानके, और जड़ाऊ तलवार, मोतियोंकी कंठी, जड़ाऊ जम्धर और दो लाख पचास हजारकी जागीर दी.

२ - महेशदास राठौड़को (जिसकी औलादमें रतलामके राजा हैं) १ घोड़ा.

३ - बीकानेरके राव कर्णसिंहके बेटे केसरीसिंहको, मीनाकारीके साजकी तलवार.

४ - शुभकरण बुंदेलेको हाथी.

५ - राजा टोडरमल्लको खिल्अत.

६ - भगवन्तसिंह हाड़ा, बुंदीके राव शत्रुशालके बेटेको ढाई हजारी ज़ात मन्सब.

७- राठौड़ रामसिंह रोटलके बेटे शेरसिंहको एक हज़ारी जात, हज़ार सवारका मन्सब.

८- राजा शिवराम गौड़के बेटे सूरजमल्लको सात सौ जात सात सौ सवारकी तरकीसे एक हज़ारी जात और आठ सौ सवारका मन्सब दिया.

हिजी ता० १० जिल्हिज [वि० १७१६ भाद्रपद शुक्ल १२ = ई० १६५९ ता० २९ अगस्त] को ईदके जश्नपर बहुतसे उमराव सर्दारोंको खिल्अत और इन्आम दिये.

९- महाराणा राजसिंहको एक हज़ारी जात, हज़ार सवार और दो अस्पह सिह अस्पहकी तरकीसे छः हज़ारी जात, छः हज़ार सवार, और एक हज़ार सवार दो अस्पह सिह अस्पहका मन्सब देकर पांच लाख रुपयेकी जागीर इन्आममें लिख भेजी.

१०- आंबेरवाले राजा जयसिंहके कुंवर रामसिंहको जड़ाऊ धुकधुकी.

११- जम्बूके राजा सारंगधरको उसके पहाड़ी मुल्ककी जमींदारी, भन्डा और निशान दिया.

१२- राठौड़ रघुनाथसिंहको डेढ़ हज़ारी जात, पांच सौ सवारका मन्सब दिया.

१३- राजा राजरूपको जम्धर, घोड़ा.

१४- राजा मानसिंह ग्वालियर वालेको खिल्अत, हज़ारी जात, पांच सौ सवारका मन्सब और जड़ाऊ धुकधुकी.

१५- बीरमदेव सीसोदियाको खिल्अत.

१६- अमरसिंह कछवाहे नरवरीको डेढ़ हज़ारी जात, हज़ार सवारका मन्सब.

१७- बांधूके राजा कल्यानसिंहको हज़ारी जात पांच सौ सवारका मन्सब दिया.

हिजी १०७० ता० २३ सफ़र [विक्रमी मार्गशीर्ष कृष्ण ९ = ई० ता० ८ नोवेंबर] को शालामार बागमें पहुंचकर औरंगजेबने नीचे लिखे सर्दारोंको इन्आम दिया.

महाराजा जशवन्तसिंहको, जिसे बादशाह दिल्लीकी हिफ़ाज़तपर छोड़ गया था, खिल्अत दिया. इस्लामखां, भावसिंह हाड़ा, राजा जयसिंहके बेटे कीर्तिसिंह, गिरधरदास गौड़, सबलसिंह सीसोदिया, नरबद हाड़ाके बेटे जगत्सिंह, सूरजमल्ल मनोहरदास गौड़ वगैरह, जो हाज़िर हुए, उनको खिल्अत दिये; और बूंदीके राव भावसिंह हाड़ाने पांच हाथी नज़्र किये. समौरके राजा सौभाग्यप्रकाशको खिल्अत, मोतियोंका चौकड़ा, घोड़ा, जड़ाऊ खंजर और मोतियोंकी कंठी देकर रुस्तत दी.

ग्वालियरके राजा मानसिंहको सपेंच बरूशा. उस वक्त शाहजादह शुजाअके पटने से इलाहाबादकी तरफ़ बढ़नेकी ख़बर सुनकर औरंगजेबने शाहजादह मुहम्मद सुल्तान और जुलफ़िकारखांको फ़र्मान भेजा, और आगरेसे बढ़नेका हुक्म दिया; फिर अपने पास से भी नीचे लिखे सर्दारोंको रवानह किया:-

राजा अनिरुद्धसिंह गोड़, बूंदीका राव भावसिंह हाड़ा, गिरधरदास गोड़, जगतसिंह हाड़ा, बीरमदेव सीसोदिया, अलीकुलीखां वगैरह-

पीछेसे खुद आलमगीर भी रवानह होकर मक़ाम कोड़ामें अपने शाहजादह मुहम्मद सुल्तानकी फ़ौजमें जा मिला, मीरजुमला इसी मक़ामपर दक्षिणसे आ गया; हिज्री ता० ११ रबीउस्सानी [वि० माघ कृष्ण ५ = ई० १६६० ता० २ जैनुअरी] को शाहजादह शुजाअसे लड़ाईके लिये फ़ौजकी तर्तीब की गई, जो करीब ९०००० नव्वे हज़ारके थी; शुजाअकी फ़ौजसे मुक़ाबला किया गया, लेकिन रात पड़जानेके सबब दोनों तरफ़के बहादुर अपने अपने डेरोंमें लौट गये.

इसी रातको जोधपुरके महाराजा जशवन्तसिंहने, जो औरंगजेबकी दहिनी फ़ौजका अफ़सर था, बादशाही आदमियोंपर हम्ला कर दिया, जिसकी इतिला शुजाअको भी देदी थी, लेकिन वह शर्तके मुवाफ़िक़ नहीं आया. औरंगजेबने अपनी बिगड़ी हुई फ़ौजको बड़ी दिलेरीके साथ दुरुस्त किया, और महाराजा जशवन्तसिंहका पीछा न करके फ़ज्रको शुजाअसे लड़नेके लिये तय्यारी की; मुक़ाबला होनेपर शुजाअ भाग गया, और औरंगजेबने फ़तह पाई.

औरंगजेब अपने शाहजादह मुहम्मद सुल्तान और मीर जुमलाको वहां छोड़कर आप आगरेकी तरफ़ रवानह हुआ; महाराजा जशवन्तसिंह जोधपुर पहुंच गया, और दाराशिकोहसे मिलावट करके औरंगजेबसे लड़नेकी फ़िक्रमें लगा; तब आंबेरके राजा जयसिंहने महाराजा जशवन्तसिंहको लिख भेजा, कि हुआ सो हुआ, अब चुप रहना चाहिये. दाराशिकोह महाराजा जशवन्तसिंहके भरोसे पर अजमेर आया, लेकिन महाराजा किनारा कर गया, और औरंगजेब आ पहुंचा.

इसी सालके हि० ता० २७ जमादियुस्सानी [वि० चैत्र कृष्ण १३ = ई० १६६० ता० ९ मार्च] को अजमेरमें औरंगजेब और दाराशिकोहसे मुक़ाबला हुआ, बिचारा दारा हारकर भागा; उसकी मुसीबतका हाल बर्नियर ने अपनी किताबमें लिखा है, जो उस वक्त अजमेरसे अहमदाबाद तक उसके साथ था.

औरंगजेबने महाराजा जशवन्तसिंहको खिल्जत भेजकर सात हज़ारी मन्सब और अहमदाबादकी सूबहदारी देने बाद लिखा, कि यह वहां जाकर खुद बन्दोबस्त करे, और अपने बेटेको यहां भेज दे; फिर बादशाह दिल्ली चला आया.

हिज्जी १०६९ ता० २४ रमज़ान [वि० १७१६ आषाढ़ कृष्ण १० = ई० १६५९ ता० १४ जून] को औरंगजेबने तस्तनशीनीका पहिला जश्न करके अपना लक़ब "अबुज़्ज़फ़र मुहयुद्दीन मुहम्मद औरंगजेब बहादुर, आलमगीर बादशाह गाजी", रक्खा; और सिक्कह व ख़ुत्वह अपने नामका जारी करके सिक्कहमें यह शिअर खुदवाया:—

सिक्कः ज़द दर जहां चु बद्रिमुनीर,
शाह औरंगजेब आलमगीर.

سکه زد در جہان چو بد، منیر *
شاہ اورنگ زیب عالمگیر *

यानी औरंगजेब आलमगीर बादशाहने दुन्यामें रौशन चांदकी तरह अपना सिक्कह जमाया.

शाहज़ादह मुहम्मद सुल्तान और मीर जुम्लाने शुजाअ़्को बंगालेकी तरफ़ निकालकर बहुतसा इलाक़ा दबा लिया, लेकिन मुहम्मद सुल्तान और मीर जुम्लामें बिगाड़ होनेसे आलमगीरने कुछ ताना लिख भेजा, जिससे शाहज़ादह नाराज़ होकर अपने चचा शुजाअ़से जामिला, और शुजाअ़ने अपनी बेटी उसको ब्याह दी; लेकिन उसको आलमगीरका भेजा हुआ जानकर शुजाअ़ हमेशह होशियार रहता था. इससे रंजीदह होकर मुहम्मद सुल्तान फिर मीर जुम्लाके पास भाग आया, और आलमगीरने उसे कैदी बनाकर सलीमगढ़के किलेमें भेज दिया. दूसरी तरफ़ बिचारा दारा मुसीबतका मारा अहमदाबाद पहुंचा, जो शहरमें नहीं घुसने पाया; इससे लाचार भागकर कच्छके इलाकेमें आया, जहांका राजा कुछ सहारा देना चाहता था, पर आंबेरके राजा जयसिंहके लिखनेसे किनारा कर गया. फिर वह सिंधके जंगलोंमें आफ़तें उठाता हुआ एक लुटेरे पठान सर्दार मलिक जीवनके पास दादरमें पहुंचा; क्योंकि मलिक जीवनको जब शाहजहाने हाथीके पैरसे मारडालनेका हुक्म दिया था, तो दाराशिकोहने ही बचाया था; परंतु उस नाल्मइक पठानने उसका उलटा एवज़ दिया, कि वह दाराको सिपिहरशिकोह समेत गिरिफ़्तार करके दिल्लीमें आलमगीरके पास लेगया; जब लाहौरी दरवाजेसे चांदनी चौकके रास्तह दाराशिकोह शहरमें घुमाया गया, तो उस वक्क़ा हाल मिस्टर बर्नियर लिखता है, कि मैं एक अच्छे घोड़ेपर

सवार था, और दो खिन्नतगारों समेत देखता था, कि दाराशिकोहकी मुहब्बतसे तमाम रअय्यत मलिक जीवनको गालियां देती थी, दाराकी मुसीबतपर कमाल रंजके साथ सब लोग चिह्लाते थे, जिनकी गालियों और शोरसे एक दूसरेकी बात नहीं सुन सका था.

बर्नियर और खफीखां दोनों लिखते हैं, कि उस वक्त मलिक जीवनपर लोग पत्थर और नादोंका कीचड़ व पाखानह, पेशाब वगैरह फेंकते थे; लेकिन उस शाहजादहको कैदसे छुड़ानेकी कोशिशके एवज यह शोर और फसाद दाराकी मौतका जल्दी सबब हुआ, कि उसे खिज्राबाद बागमें कैद किये जानेबाद नजरबेग चलेके हाथसे मरवाडाला. आलमगीरने उसका सिर मंगवाकर देखा, और दिखावेके लिये रोया; इसके बाद सिपिहर शिकोहको कैद करके ग्वालियरके किलेमें भेज दिया, और मलिक जीवनको इन्आम देकर घरकी रुस्तत दी; लेकिन लुटेरोंने उसका माल अस्बाब लूटकर रास्तेमें ही मारडाला. दाराशिकोहका बड़ा बेटा सुलैमांशिकोह श्रीनगरके राजा पृथ्वीसिंहके पास जा रहा, जहां हिमालयकी सस्त भाड़ियोंमें आलमगीरकी फौजका कुछ काबू न चला, लेकिन आंबेरके राजा जयसिंहके लिखनेसे राजा पृथ्वीसिंहने उसे पकड़वा दिया. इस शाहजादहको भी बादशाहने कैद करके ग्वालियरके किलेमें भेजा. शुजाअके पीछे मीर जुम्ला लगा हुआ था, वह शाहजादह अपने कुटुम्ब समेत अराकानके राजा त्सान्दाथो धम्मा (१) के पास किश्तियोंमें सवार होकर जा पहुंचा. लफिटनेण्ट कर्नेल अलेकजेण्डर डऊ अपनी किताबकी तीसरी जिल्दके ३४८ वें पृष्ठमें लिखते हैं, कि शाहजादह शुजाअ १५०० सवारोंके साथ ढाकेसे ब्रह्मपुत्रको उतरकर आसाम और त्रिपुराके जंगल छानता हुआ अराकानमें पहुंचा; लेकिन बर्नियर, जार्ज फास्टर और फाइचकी रायसे किश्तियोंके रास्ते जाना सहीह मालूम होता है; अराकानके राजाने शुजाअकी बेटीसे शादी करना चाहा, जिससे नाराज होकर शाहजादहने उस जिलेके बहुतसे मुसलमानोंको मिलाकर राजापर हमला करनेका इरादह किया, लेकिन इस भेदके खुलजानेसे शुजाअ मारा गया, और अराकानके राजाने जबरदस्तीसे शाहजादीके साथ विवाह करलिया, जिसपर शुजाअके शाहजादोंने दोबारा फसाद उठाना चाहा, इन सबके सिर कुल्हाड़ोंसे काटेगये; लेकिन दिल्ली और आगरामें

(१) इस राजाका नाम ब्रिटिश ब्रह्माके चीफ कमिश्नर लेफिटनेण्ट कर्नेल एलबर्ट फाइचने अपनी ब्रह्माके मुल्ककी तवारीखकी पहिली जिल्दके ६३ वें पृष्ठके नोटमें लिखा है. फाइच साहिबने भी दूसरा बयान तो बर्नियरकी किताबसे ही लिया है, लेकिन इस राजाका नाम बर्नियरको नहीं मिला था; उन्होंने दर्याफ्त करके लिखा है.

इस बातकी खबर न मिलनसे शुजाअके हिन्दुस्तानमें आनेकी झूठी अफवाहें वर्षोंतक उड़ती रहीं.

हिज्री १०७० ता० २५ जमादियुल अब्वल [विक्रमी १७१६ फाल्गुण कृष्ण ११ = ई० १६६० ता० ६ फ़ेब्रुअरी] को शायस्तहखां, अमीरुल उमरा, बादशाही हुकमके मुवाफ़िक़ शिवा भोंसलाको दबानेके लिये औरंगाबादसे चढ़ा, क्योंकि शिवा ने अहमदनगरके कई जिलोंमें कब्ज़ा करलिया था, क़िला सूपा घेरागया; लेकिन शिवा पहिलेसे निकल गया था, शायस्तहखांने कब्ज़ा करके जादवरावको क़िलेदार बनाया. फिर बारामतीके क़िलेको जा दबाया, और नीरा नदीके तीरपर राजगढ़के जिलोंको बर्बाद करता हुआ शेवापुरके पास पहुंचा, जहां महाराजा रायसिंह भीमसिंहोतसे रसद लानेपर मरहटी फ़ौजका मुकाबला हुआ, सर्फ़राजखां फ़ौज लेकर मददको पहुंच गया, जिससे महाराजाने फ़तह पाई.

जब कि औरंगजेब दक्षिणसे फ़ौज लेकर महाराजा जशवन्तसिंहके मुकाबलेपर नर्मदाकी तरफ़ चला, उस वक्त बीकानेरका राव कर्णसिंह अलहदह होकर अपने वतन चला गया था, और शाहजादोंकी लड़ाईमें किसीका शरीक नहीं हुआ; उसपर फ़ुर्सत पाकर आलमगीरने अपने सर्दार अमीरखांको फ़ौज समेत भेजा, जो उसको हिज्री १०७१ ता० ४ रबीउस्सानी [वि० १७१७ मार्गशीर्ष शुद्ध ६ = ई० १६६० ता० ९ डिसेम्बर] को बादशाही दर्गाहमें ले आया, और उसके कुसूर मुआफ़ होकर कुछ असें बाद तीन हज़ारी जात व दो हज़ार सवारका मन्सब दिया गया, और दक्षिण जानेका हुकम हुआ. इसी वर्षमें आबेरके राजा जयसिंह कछवाहेको सात हज़ारी जात व सवारका मन्सब और पांच लाखकी जागीर दी; उसने उन्नीस घोड़े और कुछ जड़ाऊ हथियार नज़्द किये. इन्हीं दिनोंमें चंपत बुंदेलेने लूट मार शुरू की, जिसको राजा सुजानसिंह बुंदेलेके राजपूतोंने मार डाला, और उसका सिर बादशाहके पास भेजदिया.

इसी वर्षमें शाहजादह मुहम्मद मुअज़्ज़मकी शादी कृष्णगढ़के राजा रूपसिंहकी दूसरी बेटीके साथ हुई, और दक्षिणमें एक घाटीसे निकलती हुई बादशाही फ़ौजपर तीन हज़ार सवार मरहटोंने हम्ला किया, लेकिन बूंदीके राव भावसिंह हाड़ाने बड़ी बहादुरीके साथ रोका. फिर तलकोकनपर कब्ज़ा करके लड़ता भिड़ता हिज्री ता० २२ शव्वाल [वि० १७१८ आषाढ़ कृष्ण ८ = ई० १६६१ ता० २० जून] को क़िले चाकनाके पास जा पहुंचा; इस क़िलेको ५६ दिनकी लड़ाईके

बाद हिजी ता० १७ जिल्हज [वि० भाद्रपद कृष्ण ३ = ई० ता० १३ ऑगस्ट] को फ़तह किया. बादशाही फ़ौजके २६८ अफसर व सिपाही मारे गये, और ६०० ज़रूमी हुए. इस लड़ाईमें बूंदीके राव भावसिंह हाड़ा, टोडाके राजा रायसिंह सीसोदिया, विजयसिंह (१) सीसोदिया, जो उदयपुरकी फ़ौजका अफसर था, वीरमदेव (२) सीसोदियाने बड़ी बहादुरी दिखलाई. क़िला परिन्दा भी लेलिया गया.

हिजी १०७२ ता० ५ जमादियुल अब्बल [वि० १७१८ पौष शुक्ल ७ = ई० १६६१ ता० २८ डिसेम्बर] को बादशाही फ़र्मान पाकर महाराजा जशवन्तसिंह अहमदाबादसे, दक्षिणमें शायस्तहखांके पास पहुंचा, और उसीके साथ शहर पूनामें आगया. बादशाह सरूत बीमार होगया था, बड़ी मुश्किलसे आराम हुआ. बादशाही हुक्मसे जूनागढ़के फ़ौजदार कुतुबुद्दीनखाने जामनगरके रायसिंहपर चढ़ाई की, जो कि अपने भतीजे शत्रुशालको कैद करके राजका मालिक बनगया था. मुक़ाबला होनेपर रायसिंह अपने बेटों और राजपूतों समेत बहादुरीसे लड़कर मारा गया, और शत्रुशालको जामनगरकी हुकूमत मिली. इसी वर्षमें बादशाह पंजाब होकर कश्मीरकी सैरको गये.

हिजी १०७३ ता० शुरू रमज़ान [वि० १७२० चैत्र शुक्ल ३ = ई० १६६३ ता० १० एप्रिल] को शिवा मरहटा एक आदमीको दुल्हा बनाकर बरातके बहानेसे शहर पूनामें आगया, और रातके वक्त शायस्तहखांके मकानमें पहुंचकर कई आदमियोंको जानसे मारा, और शायस्तहखांको ज़रूमी किया; उसका बेटा अबुलफ़तहखां भी क़त्ल हुआ. और शिवा जीता जागता निकल गया. ख़फ़ीखां अपनी किताबमें लिखता है, कि मेरा बाप उस वक्त शायस्तहखांके पास मौजूद था. इस फ़सादके होनेसे आलमगीरने नाराज़ होकर शायस्तहखांको बंगालेकी सूबेदारीपर भेजदिया, और दक्षिणकी सूबेदारी शाहज़ादह मुअज़्ज़मको देकर उस तरफ़ भेजा, शिवाने दक्षिणमें बड़ा ग़द्द मचाकर सूरतको लूट लिया. इन्हीं दिनोंमें मीर जुम्ला अमीरुल उमराका इन्तिक़ाल होगया, जिससे आलमगीर जाहिरा रंजीदह और दिलमें खुश हुआ, क्योंकि उसको ज़ियादह बढ़ा

(१) इसकी औलादमें अब धरियावदके रावत मेवाड़के दूसरे दरजेके सर्दारोंमें हैं.

(२) महाराणा अब्बल अमरसिंहका पोता, सूरजमल्लका बेटा शाहपुरा वाले सुजानसिंह का भाई, बादशाही तीन हज़ारी मन्सबदार जागीरदार था.

हुआ नौकर पसन्द नहीं था. इस बहादुर मीर जुम्लाने आसामके बड़े बिकट मुल्कको बहुत होश्यारी और बहादुरीके साथ फतह किया था. इस देशमें मुहम्मद तुग़लक़ दिल्लीके अगले बादशाहने बड़ी भारी फौज भेजी थी; लेकिन एक भी आदमी जीता वापस नहीं आया. आलमगीर नामह किताबमें आसामका जुग्राफ़ियह उस जमानेका लिखा हुआ अच्छा जानकर पाठक लोगोंके देखनेको इस जगह दर्ज किया जाता है.

आसामकी फतह और वहांकी
कैफ़ियत.

जब कि शाहजहांकी बीमारीके सबब शाहज़ादोंमें लड़ाइयां हुई, और मुल्कमें अन्तरी फैली, तो कूचबिहारके राजा पेमनारायण और आसामके राजा जयध्वजसिंहने बंगालेका सरहदी बादशाही इलाक़ह लूट लिया. इसलिये मुअज़्ज़मखां, खान खानां (मीर जुम्ला) को शाहज़ादह शुजाअके अराकानमें भागजाने बाद बादशाह आलमगीरने हुक्म दिया, कि इन दोनोंको आगे बढ़कर पूरी सज़ा दे; खान खानां हिज्री १०७२ ता० १८ रबीउलअव्वल [वि० १७१८ मार्गशीर्ष कृष्ण ४ = ई० १६६१ ता० ११ नोवेम्बर] को कूच करके बहुत जल्द कूचबिहारमें दाखिल हुआ, और शहरको फतह करके उसका आलमगीरनगर नाम रक्खा. हिज्री ता० २८ रबीउलअव्वल [वि० मार्गशीर्ष कृष्ण १४ = ई० ता० २१ नोवेम्बर] को घोड़ा घाटसे चलकर पांच महीनेके अर्सेमें दुश्मनोंसे लड़ता तकलीफ़ें उठाता हुआ, हि० ता० ६ शअबान [वि० १७१९ चैत्र शुक्ल ८ = ई० १६६२ ता० २८ मार्च] को आसामकी राजधानी कड़ गांवमें जा पहुंचा.

राजा भागकर उत्तरी पहाड़ोंमें जा छिपा, और वहांसे सुलहकी दरखास्त की, जो मन्ज़ूर न हुई. खान खानांकी तरफ़से हर जगह इन्तिज़ामके वास्ते थाने बिठा दिये गये, लेकिन बर्सात आनेपर बड़ी तकलीफ़ें हुई; आसामियोंने हमला करके कई बादशाही थानोंको उठा दिया. लाचार खान खानाने तीन चार मज़बूत मक़ामों

पर फौज रखकर बर्सातके दिन पूरे किये. मौसमके दुरुस्त होनेपर बादशाही फौज ने आसामियोंको हर तरफ मार भगाया. खानखानांका इरादह था, कि बहुत दिनों तक वहां रहकर तमाम इलाकह जब्त करले, लेकिन फौजवालोंने तल्लीफोंके सबब खानखानांको वहां छोड़कर बंगालेकी तरफ लौट आना चाहा, इस लिये खानखानाने मुनासिब समझकर आसामियोंकी तरफसे सुलहकी दरखास्त हिज्री १०७३ ता० ५ जमादियुल आखर [विक्रमी १७१९ पौष शुक्ल ७ = ई० १६६३ ता० १७ जैनुअरी] को मन्जूर करली; दो पर्गने बादशाही खालिसेमें रखे गये, दो हजार २००० तोले सोना, एक लाख अठ्ठाईस हजार रुपया नकद, एक सौ बीस हाथी और राजाकी लड़की लेकर खानखानाने बंगालेकी तरफ कूच किया; लखनगढ़, कजली वगैरह मकामातकी तरफसे होता हुआ; हिज्री १०७३ ता० २ रमजान [विक्रमी १७२० चैत्र शुक्ल ४ = ई० १६६३ ता० ११ एप्रिल] को खिज़पुर मकामपर वापस आया, जहां सिल (क्षई रोग) की बीमारीसे सख्त तकलीफ उठाकर मरगया.

इस फतहका हाल बहुत मुस्तसर यहां लिखागया है, अगर आलमगीरनामह से कुल तर्जमा किया जाता, तो बेफायदह न होता; लेकिन हमको इतना लिखना कुछ जरूर नहीं था, इसलिये थोड़ासा नोट लिखकर खाली जुग्राफियह दर्ज किया है, जिसको पढ़कर सय्याह लोग फायदह उठावें.

मुल्क आसामका जुग्राफियह.

(सन् १०७३ हिज्री.)

मुल्क आसाम बंगालेसे उत्तर और पूर्वकी तरफ आबाद है, और ब्रह्मपुत्र नदी, जो हिमालयके पहाड़ोंकी उत्तर तरफसे निकलकर चीनके मुल्कमें होती हुई आसामके बीच बहकर सुन्दरवनके पास गंगामें मिलती है, उसके उत्तर तरफ आसामका जितना देश आबाद है, वह 'उत्तरगोल' कहा जाता है; और दक्षिणी तरफका मुल्क 'दक्षिणगोल' के नामसे मशहूर है. उत्तर गोलकी आखिरी हद चीनकी तरफ 'मरीम जमी' कौमके पहाड़ों तक, और शुरू हिन्दुस्तानकी तरफ गोहाटीसे है. दक्षिणगोलकी पूर्वी आखिरी हद सदिया गांव तक, और इसका शुरू श्रीनगरके पहाड़ोंसे मिला हुआ है; उत्तरगोलके उत्तरी पहाड़ 'दोला' व 'लामा' नामसे

बोले जाते हैं, और दक्षिणगोलके दक्षिणी पहाड़ 'नामरूप' के नामसे जाने जाते हैं, जो कड़गांवसे ४ मंजिलकी दूरीपर है.

नामरूपके (१) पहाड़ोंके लोग 'नांग' कहलाते हैं, जो कड़गांवके राजाके मातहत नहीं हैं; और एक दूसरी 'दफ़ला' कौम है, जो राजा जयध्वजसिंहको बिल्कुल नहीं मानती. वे बाजे वक्त नज्दीकी इलाकोंको लूट भी लेते हैं.

यह मुल्क दो सौ कोस जरीबी लम्बा गिना जाता है, और चौड़ाई पचास कोसके करीब होगी. गोहाटीसे कड़गांवका बीच ७५ कोस, और कड़गांवसे 'खता' का शहर 'आवा' १५ मंजिलपर है, जिसमें पांच मंजिल सरत पहाड़ी, और जंगल दस मंजिलसे कुछ कम है. उत्तरीय हिस्सह बिल्कुल पहाड़ी है. बहुतसी नदियां दक्षिण गोलसे निकलकर ब्रह्मपुत्रमें गिरती हैं. इन सब नदियोंमें से बड़ी नदीका नाम 'धनक' है, वह 'लखगढ़' के पास ब्रह्मपुत्रसे मिलती है. इन दोनों नदियोंके बीचकी जमीन करीब पचास कोसके सरसब्ज और आबाद है. वहांकी आब व हवा भी अच्छी है, और इस अच्छे जिलेकी आखिरी हदपर बड़ाभारी जंगल हाथियोंके चरनेका है, जहांसे हाथी पकड़े जाते हैं. हाथियोंके चरनेको और भी कई जंगल हैं, और वहांसे भी हाथी गिरिफ्तार किये जाते हैं. तख्मीनन ५०० सौ, या छः सौ हाथी साल भरमें पकड़े जासकते हैं.

कड़गांवकी तरफ 'धनक' नदीके किनारेकी जमीन बहुत आबाद और फल फूल वाली है. यह उम्दह जमीन 'सेमलगढ़' से कड़गांव तक पचास कोस होगी. इस इलाकेमें किसानी घरोंके आसपास फल फूल और मेवेदार दरख्त बागकी तरह नजर आते हैं. इस तरफ बर्सातके दिनोंमें पानी बहुत फैलजानेसे एक बन्दके तौर सेमलगढ़से कड़गांव तक एक उंचा रास्तह बनाया गया है, जिसके दोनों तरफ बांस वगैरहके दरस्त लगा दिये हैं. वहांके खास मेवे आम, नारंगी, कटहल, तुरंज, नींबू, केला, अनन्नास और एक मेवा 'पनियाला' आंवलेकी किस्मसे है, जिसका मजा आलूचेके मुवाफिक होता है; नारियल व कालीमिर्च वगैरह मुसालहके दरस्त भी बहुत हैं. वहांके सुख सियाह और सिफेद रंगके गन्ने बहुत मीठे और मजेदार होते हैं. सोंठमें रेशे नहीं होते, नागरबेलके पान भी बहुत होते हैं. घास वगैरह व नाजकी किस्म उस मुल्कमें बहुत अच्छी होती है, वहांकी जमीन इन चीजोंको ज़ियादह ताकत देती है, और कड़गांवके आस पास जंगली अनार व जर्द आलू भी होते हैं. इस देशकी उम्दह पैदावारकी चीजें चावल और उड़द हैं, और

(१) शायद इसका सही नाम कामरूप होगा, जो हिन्दुस्तानमें जादू वगैरहके बाबत खास जगह

मरहूर है;

मसूर, गेंदू, जौ नहीं होता; रेशम अब्बल दरजेका तय्यार होता है; लेकिन वे लोग अपनी जरूरतके सिवाय नहीं बनाते. मखमल और 'टाटबन्द' कपड़े (१) वहां अच्छे होते हैं.

नमकको यह लोग ज़ियादह चाहते हैं, लेकिन वहां इसकी पैदाइश बहुत कम है, थोड़ासा पहाड़ोंकी जड़ोंमें बनता है, जो कड़वा और खराब होता है; ज़ियादह कड़वा और खराब नमक केलोंके दरस्तोंसे बनाते हैं; और जहां 'नांग' कौम आबाद है, वहां 'अगर' की लकड़ी बहुत होती है. वे लोग इस लकड़ीको नमक के बदलेमें आसामियोंको देते हैं, यह नांग लोग आदामियतसे खारिज नंगे धड़ंगे रहते हैं, कुत्ता, बिल्ली, सांप, चूहा, चींटी, टिड्डी वगैरह, जो मिले, खालेते हैं. 'नामरूप' 'सदिया' और लक्खूगढ़के पहाड़ोंमें भी पानीमें डूबनेवाला 'अगर' पैदा होता है, और कस्तूरी वाले हिरन भी उन पहाड़ोंमें बहुत होते हैं. इस मुल्कमें उत्तरगोलकी ज़मीन अच्छी आबाद है, जिसमें काली मिर्च और खाने पीनेकी चीज़ें दक्षिण गोल से ज़ियादह होती हैं. दक्षिण गोलकी तरफ़ दुश्वार गुज़ार पहाड़ व जंगल ज़ियादह हैं; इस लिये वहांके राजा लोगोंने दक्षिण गोलमें अपनी राजधानी मुक़रर की है; उत्तर गोलमें ब्रह्मपुत्र और उत्तरी पहाड़ोंके बीचकी चौड़ी ज़मीन कमसे कम पन्द्रह कोस, ज़ियादहसे ज़ियादह पैंतालीस कोस अज़में सर्द और बर्फ़दार है.

उत्तरगोलके पहाड़ी आदमी तन्दुरुस्त और बदनके मज्बूत व शक्कके रोब्दार होते हैं, और सर्द मुल्कके निवासियोंकी तरह उनके भी रंग सुर्खी माइल सिफ़ेद होते हैं; किले जमधर और गोहाटीकी तरफ़ भी पहाड़ी इलाक़ा है, जिसको ट्रंगका ज़िला कहते हैं. इन कई पहाड़ोंके रहने वाले शक्क सूरतमें एकसे होते हैं, बाज़ोंकी पहिचान खान्दानी लफ़ज़ोंसे होती है. इन पहाड़ोंमें कस्तूरी वाले हिरन और छोटे घोड़े यानी टांगन भी पाये जाते हैं. वहांकी नदियोंका बालू धोनेसे सोना, चांदी निकलता है. बाज़ोंके कौलसे बारह हज़ार, और बाज़ोंके कलामसे २०००० आसामी रैता धोकर सोना, चांदी, निकालनेमें लगे रहते हैं; और फी आदमी एक तोलह सोना सालानह राजाको देना पड़ता है.

उमूमन आसामके लोग खराब तरीके वाले और बे मज़्हब हैं, तबीअतकी स्वाहिश के मुवाफ़िक़ खाने पीनेमें रोक टोक नहीं, और किसीके हाथकी चीज़ खानेमें पहुँच

(१) 'टाटबन्द' एक किस्मका रेशमी कपड़ा है, जिससे खेमे और क़नातें बनाई जाती हैं.

नहीं रखते; सिवाय आदमीके मांसके और किसी जानदारका गोश्त नहीं छोड़ते; मरे हुए जानवरोंको भी खा लेते हैं; घी उनको बिल्कुल नहीं मिलता, और उसके देखनेसे भी नफ़्त करते हैं; बल्कि उसकी खुशबूसे घबराते हैं. औरतोंमें पर्देकी रस्म राजासे गरीब तक किसीमें नहीं, और वहाँके लोग चार या पांच औरतोंसे शादी करते हैं; औरतोंको बेचना, मोल लेना, बदलना, उनका आम रिवाज है. सिर, डाढ़ी, और मूँछ मुँडवाते और नहीं मुँडवाने वालेसे नफ़्त व हिंकारत करते हैं, ज़बान उनकी बंगालीसे जुदी है. मज़बूती, ज़बर्दस्ती, दिलेरी व बेखौफ़ी उनकी सूरतसे टपकती है; बहुतसी आदतें चौपाये और जंगली जानवरोंसे मिलती हैं, लड़ाई करने वाले और बड़े मिहनती, व मक्कार और फ़सादी होते हैं; रहमदिली, सचाई, मुहब्बत, शर्म और नेक चलनी उस कौममें नहीं होती. एक टाट सिरपर और लुंगी कमरमें लपेटते हैं; और एक चादर कंधेपर भी रखते हैं. सिवाय इसके जूता वगैरह हिंफ़ाज़तकी चीज़ कुछ भी नहीं रखते. चूने पत्थरका काम सिवाय कड़गांवके दर्वाजे व मन्दिरोंके किसी जगह नहीं है.

अमीर गरीब कुल अपने घरोंको लकड़ी, बांस और घाससे बनाते हैं. राजा और अमीर लोग आदमियोंके कंधेपर तरतसवार चलते हैं; और दूसरे आदमी डोलियोंमें. चौपाये जानवरोंमें घोड़ा, ऊंट, गधा वहाँ बिल्कुल नहीं होता; बाहरसे लेजानेमें गधेको ज़ियादह पसन्द करते हैं; और ऊंटको देखकर बड़ा तअज़ुब करते हैं. घोड़ेसे बहुत डरते हैं, अगर एक सवार १०० हथियारबन्द आसामियोंपर हम्ला करे, तो जान बचाकर भागें, या हथियार डालकर कैद होनेको तय्यार हों. पैदल सिपाही उनसे दो चन्द हों, तो भी खौफ़ नहीं रखते; उस देशमें सबसे पुरानी दो कौम हैं— एक 'आसामी' दूसरी 'कलतानी', कलतानी ज़ियादह इज़तदार समझे जाते हैं, लेकिन लड़ाई, सस्ती और मज़बूतीमें आसामी ज़ियादह मशहूर हैं. छः सात हजार आसामी सिपाही हथियार बांधे राजाके महलोंकी चौकीदारीपर हमेशह तय्यार रहते हैं, और राजाका भी आसामियोंपर भरोसा ज़ियादह है.

इस मुल्कके आदमियोंके शस्त्र ढाल, तलवार, बन्दूक, तीर, बछाँ और बांस हैं. किले और क़िशतियोंमें तोपें व राम चंगियें भी बहुत हैं; इस फ़नमें वह होशयार हैं. राजा, उसके सर्दार व हाकिम लोग मरते हैं, तो उनको एक तहख़ानह खोदकर उसके अन्दर रखते हैं; लेकिन उसी तहख़ानहमें उस अमीरके साथ

शादी की हुई औरतें, और घरमें डाली हुई पासवानें, नौकर, हाथी और खाने पीने व सोने बैठने और खुशीकी चीजें सोने चांदी वगैरहकी, और रौशनी व बहुतसा तेल उसी गड्ढेमें रखकर उस तहखानहकी छतको मजबूत लकड़ियोंसे पाट देते हैं; वे लोग समझते हैं, कि यह सब सामान उस मुर्देको दूसरी दुन्यामें मिलेगा. कई तहखानों को मीर जुम्लाकी फौजके सिपाहियोंने खोद डाला, जिसमेंसे ९०००० रु० का सोना चांदी मिला था. शहर 'कड़गांव' के चार दरवाजे पत्थर और चूनेसे बने हैं, हर एक दरवाजेसे राजाके महल तीन कोसके फ़ासिलेपर हैं; शहरके गिर्द बांस और लकड़ियोंसे दीवार बनाई गई है; शहरके अन्दर भी बर्सातमें चलनेके लिये ऊंची सड़कें बनी हुई हैं; हर एक घरके बाहर एक बगीचा और खेत होता है; इसीसे इस शहरका घेरा बहुत बड़ा है. राजाके महल 'दीखू' नदीके किनारेपर हैं, जो शहरके अन्दर बहती है; हर एक जगह छोटे छोटे बाजार हैं, जिनमें पान बेचने वाले बैठते हैं, दूसरे व्यापारियोंकी दूकानें वहां नहीं होतीं; क्योंकि वहांके अमीर गरीब खाने पीनेका सामान साल भरके लिये एक दम इकट्ठा करलेते हैं, और राजाके महलों के गिर्द एक ऊंची सड़क बनाकर किनारोंपर बांस लगाये गये हैं, जिसके गिर्द खन्दक है, जो हमेशह पानीसे भरी रहती है; इस सड़कका घेरा एक कोस और चौदह जरीबका है. राजाके रहनेके मकान लकड़ी, बांस और घाससे बहुत ऊंचे बनाये गये हैं; एक दीवानखानह, जिसकी लंबाई १५० गज, और चौड़ाई ४० गज है, उसमें ६६ थम्बे लगे हैं; हर एक थम्बेका घेरा चार गजका है; बाज जगह इस मकान में चूनेकी घुटाई भी बहुत साफ़ की गई है— लिखा है, कि बारह हजार मजदूर और ३००० खातियोंने इस दीवानखानहको दो वर्षमें तय्यार किया था.

राजाकी सवारीके वक्त ढोल और भांज बजाया जाता है; इस बादशाहका लक़ब 'स्वर्गी' (बिहिश्ती) वहां वाले बोलते हैं, जिसका यह मत्लब है, कि उनके खयालके मुवाफ़िक़ उस राजाके बुजुर्ग स्वर्गवासियोंपर हुकूमत करते थे, उनमेंसे एक सोनेकी सीढ़ी लगाकर सैर करनेको इस ज़मीनपर उतरा, और उसको यहां रहना पसन्द आया, जिसकी औलाद यहांपर राज करने लगी; उसी वंशमें यह राजा 'जयध्वजसिंह' है. ऐसे ऐसे मग़ूरर करनेके लिये खयाली किस्से वहां बहुत जारी हैं. हमने यह अजीब हाल दो सौ बीस वर्ष पेशतरका पाठकोंके पढ़नेको लिखा है.

हिज्री १०७४ मुहर्रम [वि० १७२० श्रावण = ई० १६६३ ऑगस्ट] में बादशाह कश्मीरकी सैरसे दिल्लीकी तरफ़ वापस लौटा, और ईरानके शाह अब्बास के नाम ख़त और सात लाख रुपयेका सामान तर्बियतखांके हाथ भेजा; क्योंकि ईरानकी

तरफसे भी एक एलची बहुतसे तुहफे लाया था। इसीतरह मुस्तफ़ाखां एलची बनाकर तूरानको भेजा गया। दक्षिणके मुल्कमें महाराजा जशवन्तसिंहसे बादशाहकी मर्जीके मुवाफ़िक़ काम न हुए; इसलिये उसे वापस बुलाकर आंबेरके राजा जयसिंहको दिलेरखां, दाऊदखां, राजा रायसिंह सीसोदिया, कुबादखां, राजा सुजानसिंह बुंदेला वगैरह समेत चौदह हजार फौज देकर दक्षिणकी तरफ़ रवानह किया। कृष्णगढ़के राजा रूपसिंहकी बेटी से मुहम्मद मुअज़्ज़मके एक लड़का पैदा हुआ, जिसका नाम मुहम्मद अज़ीम रक्खा गया।

हिजी १०७५ शव्वाल [विक्रमी १७२२ वैशाख = ई० १६६५ एप्रिल] को दक्षिणमें राजा जयसिंह और दिलेरखाने शिवा मरहटेपर चढ़ाई करके बहुतसे किले, पूरन्धर और रुद्रमाल वगैरह दबा लिये। शिवाने लाचार होकर ताबेदारी इस्तिथारकी; तेईस किले बादशाही आदमियोंको हवाले करके बे हथियार राजासे मिलनेको चला आया; राजाने दिलेरखांके पास भेज दिया, और सब हाल बादशाहके हुज़ूरमें लिखकर उसके नाम मिहर्बानीका फ़र्मान मंगा लिया। फिर राजा जयसिंहने बीजापुरका इलाक़ह लूटना शुरू किया; इस सबबसे कि आदिलशाहने आलमगीरके हुज़ूरमें मामूली तुहफे नहीं भेजे थे, और कुछ शिवाको मदद दी थी। बर्सात आजानेके सबब बादशाही फौजोंने अपने इलाक़हमें आकर आराम लिया।

हिजी १०७६ [विक्रमी १७२२ = ई० १६६५] में कश्मीरके सूबेदार सैफ़खाने छोटे तिब्बतके रईस मुरादखांकी मददसे बड़े तिब्बतके जागीरदार 'दलदल नमजल' पर फ़तह पाकर उस मुल्कमें बादशाहके नामका ख़ुत्वह और सिक़ह जारी किया।

हिजी ता० ७ रजब [विक्रमी पौष शुक्ल ९ = ई० १६६६ ता० २५ जैनुअरी] को शाहज़ादह मुहम्मद मुअज़्ज़म दक्षिणसे हाज़िर हुआ। हिजी ता० २६ रजब [विक्रमी माघ कृष्ण १३ = ई० ता० १४ फ़ेब्रुअरी] को शाह-जहां, जो आगरेके किलेमें अपने दिन काटता था, पेशाब बन्द होनेकी बीमारीसे गुज़र (१) गया; उसको उसकी बेटी जहांआरा बेगमके कहनेसे रज़्द अन्दाज़खां वगैरह लोगोंने मुस्ताज़ महलके मक़बरहमें दफ़न कर दिया। इस मौकेपर आलम-गीर दिल्लीकी तरफ़ था, अपने बापके जीते जी शर्मके मारे उसके साम्हने नहीं गया। इन्हीं दिनोंमें बंगालेके सूबेदारने चाटगांवका क़िला अराकानके इलाक़हमेंसे फ़तह करलिया, इस लड़ाईमें कप्तान मूर वगैरह फ़रंगियोंने, जो सौदागरी सामान जहाज़ोंपर लाये थे, बादशाही फौजको मदद दी; और इन्आम पाया।

(१) शाहजहाने इकत्तीस वर्ष बादशाहत की थी, और आठ वर्ष नज़रबन्द रहकर ७५ वर्षते जिंदावह उम्रमें इन्तिक़ाल किया।

हिज्जी १०७६ ता० १ शव्वाल [विक्रमी १७२३ चैत्र शुक्ल ३ = ई० १६६६ ता० ७ एप्रिल] को मिर्जा राजा जयसिंहने शिवा मरहटेको दक्षिणसे आगरे भेज दिया, लेकिन बादशाही दरबारमें उसको पांच हज़ारी मन्सबदारोंकी लैनमें खड़ा करदिया, जिससे वह रंजीदह होकर चालाकीके साथ बादशाही पहरमें से निकल भागा. आलमगीरनामह और मआसिरेआलमगीरी किताबोंमें लिखा है, कि उसपर बिल्कुल पहरा न था, बादशाही खौफसे भेष बदलकर अपने बेटे शम्भा समेत निकल गया.

हिज्जी १०७७ सफ़र [विक्रमी १७२३ श्रावण शुक्ल = ई० १६६६ ऑगस्ट] में तर्बियतखांकी अर्जीसे, जो एलचीगरीपर ईरान भेजा गया था, मालूम हुआ, कि ईरानका बादशाह अब्बास काबुलपर चढ़ाई करना चाहता है; इसलिये शाहज़ादह मुहम्मद मुअज़्ज़मको महाराजा जशवन्तसिंह वगैरह समेत बीस हज़ार फौज और तोपखानह देकर उस तरफ़ रवानह किया. तर्बियतखांको ईरानसे वापस आनेपर एलचीगरीमें नालायक़ समझकर नज़र बन्द करदिया. इन दिनोंमें राजा जयसिंहने शिवाके दामाद नेतूको कैद करके बादशाही दरगाहमें भेज दिया, जो मुसल्मान होकर कई वर्ष बाद फिर दक्षिणको भाग गया. हिज्जी १०७७ ता० १० रमज़ान [विक्रमी १७२३ फाल्गुण शुक्ल १२ = ई० १६६७ ता० ७ मार्च] को शाहज़ादह कामबरूज़ा पैदा हुआ. इन दिनोंमें शाहज़ादह मुअज़्ज़म दक्षिणकी सूबेदारीपर भेजा गया, जिसके साथ महाराजा जशवन्तसिंह, राजा रायसिंह सीसोदिया और सफ़्शिकनखां तईनात किये गये, और राजा जयसिंहको दक्षिणसे वापस आनेका हुक्म भेजा गया. इस वर्षमें यूसुफ़ज़ई कौमके पठान लोगोंने पेशावरकी तरफ़ लूट मार शुरू की, अटकके फौज़दार कामिलखाने हम्ला करके उनको पहाड़ोंमें भगा दिया.

हिज्जी १०७८ ता० २८ मुहर्रम [विक्रमी १७२४ श्रावण कृष्ण १४ = ई० १६६७ ता० २० जुलाई] को आबेरका मिर्जा राजा जयसिंह दिल्लीको आता हुआ बुर्हानपुरमें मरगया. उसके बेटे रामसिंहको राजाका खिताब और चार हज़ारी जात व सवारका मन्सब दिया गया. इन्हीं दिनोंमें बीकानेरके राव करणपर, जो दक्षिणमें तईनात था, बादशाहने नाराज़ होकर बीकानेरकी रियासत उसके बेटे अनूपसिंहको दे दी. काश्गरका बादशाह अब्दुल्लाहखां अपने बेटे बुलबरसखांसे शिकस्त खाकर हिन्दुस्तानमें चला आया, जिसका आलमगीर बादशाहने खातिरदारीके साथ रोजीना मुक़रर कर दिया. इन दिनोंमें अर्ज़ हुआ, कि आसामी लोगोंने बंगालेकी सईद गोहाटी मक़ामपर आकर लूट मार शुरू की है. इसपर आबेरका

राजा रामसिंह, नुस्रतखां, केसरीसिंह भुरटिया, रघुनाथसिंह मेड़तिया, वीरमदेव सीसोदिया सहित उस तरफ़ भेजा गया।

हिज्री १०७८ शव्वाल [विक्रमी १७२५ चैत्र शुक्ल = ई० १६६८ मार्च] को महाबतखां अहमदाबादसे बदलकर काबुलकी सूबेदारीपर भेजा गया। इन दिनोंमें हुकम दिया गया, कि नाचने गाने वाले सलामीके सिवाय अपना काम छोड़ें। हिज्री ८ शव्वाल [विक्रमी चैत्र शुक्ल १० = ई० २२ मार्च] को काश्गरका खारिज बादशाह, जाफ़रखां वज़ीरके साथ दरबारमें आया, तरुतवाले कटहरेके पास आकर बैठ गया, थोड़ी देर बाद आलमगीर बादशाह महलसरासे निकले; अब्दुल्लाह शाह उनकी तरफ़ चला, थोड़ी दूरसे झुककर सलाम किया; आलमगीर बादशाहने सीने तक हाथ उठाया, और पास पहुंचनेपर हाथ मिलाया; मामूली मिजाजपुर्सीकी बातें होकर रुख़सत दी गई। हिज्री पहिली जिल्हिज [विक्रमी ज्येष्ठ शुक्ल ३ = ई० ता० १५ मई] को आसामके राजाकी बेटी दो लाख रुपये मिहरके साथ शाहज़ादह आजमको व्याह दी गई।

हिज्री १०७९ [विक्रमी १७२५ = ई० १६६८] में इलाहाबाद और अवधके सूबेदारोंको हुकम भेजा गया, कि जो लोग लावारिस बच्चोंको हीजड़ा बनाकर बेचते हैं, वे गिरिफ़्तार कर जन्म कैद रखे जावें। इसी वर्षसे सालगिरहका वज़न याने तुलादानकी रस्म मौकूफ़ कीगई। हि० ता० १० शअ्वान [वि० पौष शुक्ल १२ = ई० १६६९ ता० १५ जैनुअरी] को मुहम्मद आजमकी शादी दाराशिकोहकी बेटी जहांजेब बानूके साथ कीगई। इसी वर्षमें हुकम दिया गया, कि मुसल्मान लोग जर्दोज़ीका लिबास न पहनें— बनारस ठट्टा और मुल्तानमें ब्राह्मण लोग अपनी किताबें, जो हिन्दू और मुसल्मानोंको पढ़ाते थे, उनकी कार्रवाई रोक दी गई। गवय्ये लोगोंका सलामको आना मौकूफ़ हुआ।

हिज्री १०७९ ता० २१ जिल्हिज [विक्रमी १७२६ ज्येष्ठ कृष्ण ७ = ई० १६६९ ता० २२ मई] को मथुराका फौज़दार अब्दुल्लाबीखां फ़सादियोंके मुक़ाबलेपर गोलीसे मारा गया; मथुरामें मन्दिरकी जगह बड़ी मस्जिद इसीकी बनवाई हुई है। इसके एवज़ सफ़शिकनखांको वहां भेजा, और वीरमदेव सीसोदियाको उसका मददगार बनाया। मुल्क माचीनका एलची अब्दुलवहहाब हाज़िर हुआ, उसे ख़िल्अत दिया गया। हिज्री १०८० मुहर्रम [विक्रमी १७२६ ज्येष्ठ शुक्ल = ई० १६६९ जून] में रघुनाथसिंह सीसोदियाको, जो महाराणासे जुदा होकर हुज़ूरमें आया, एक

हजारी जात और तीन सौ सवारका मन्सब दिया गया. आबेरका राजा रामसिंह पांच हजारी किया गया. काशी विश्वनाथका मन्दिर तोड़ दिया गया. इस वर्षमें अनाजका भाव यह था:- सूखदास चावल १४ सेर, गेहूं ३५ सेर, चना एक मन दो सेर, घी ४ सेर. इसी सन् हिज्री ता० २ जमादियुल् अव्वल [विक्रमी आश्विन शुक्ल ४ = ई० ता० २९ सेप्टेम्बर] को गिरधरदास सीसोदिया (१) दिल्लीमें लाहौरी दरवाजेके पास यक्काताजखांसे लड़कर मारा गया, और उसका पोता घासीराम जस्मी हुआ. यक्काताजखांके भी पांच जस्म लगे, और भी कई आदमी घायल हुए. हिज्री ता० १ शअ्वान [विक्रमी पौष शुक्ल ३ = ई० ता० २५ डिसेम्बर] को बादशाहसे अर्ज हुआ, कि कृष्णगढ़के राजा रूपसिंहकी बेटीसे मुहम्मद मुअज़्ज़म के लड़का पैदा हुआ; हुकम दिया, कि उसका नाम 'दौलतअफ़्ज़ा' रक्खा जावे. हिज्री रमज़ान [विक्रमी माघ शुक्ल = ई० १६७० जैनुअरी] में केशवरायका मन्दिर, जो राजा नरसिंहदेव बुंदेलेने जहांगीरके वक्त मथुरामें छत्तीस लाख रुपयेकी लागतसे बनवाया था, बादशाहके हुकमसे तोड़ दिया गया. हिज्री ता० २८ जिल्हिज [विक्रमी १७२७ ज्येष्ठ कृष्ण १४ = ई० १६७० ता० १९ मई] को शाहजादी बद्रुन्निसा बेगमके मरनेकी खबर मिली, जो शाहजादह मुअज़्ज़मकी सगी बहिन थी. हिज्री ता० २५ जिल्हिज [विक्रमी १७२७ ज्येष्ठ कृष्ण ११ = ई० १६७० ता० १६ मई] को जाफ़रखां वज़ीर मर गया.

हिज्री १०८१ ता० २७ रबीउलअव्वल [विक्रमी १७२७ भाद्रपद कृष्ण १३ = ई० १६७० ता० १४ अगस्त] को शाहजादह मुहम्मद आजमकी बीबी जहांजेबबानू बेगमके पेटसे शाहजादह पैदा हुआ, जिसका नाम बेदारबस्त रक्खा गया. हिज्री ता० २७ जमादियुस्सानी [वि० मार्गशीर्ष कृष्ण १३ = ई० ता० ११ नोवेम्बर] को शाहजादह मुअज़्ज़मकी बीबी नूरुन्निसा बेगमके पेटसे एक शाहजादह पैदा होनेकी खबर मिली, उसका नाम रफीउशान रक्खा गया. हिज्री ता० २५ रजब [विक्रमी पौष कृष्ण ११ = ई० ता० ८ डिसेम्बर] को काबुलके सूबेदार महाबतखां व बीकानेरके राजा अनोपसिंह वगैरहको खिल्अत, घोड़े देकर दक्षिणकी तरफ़ भेजा. हिज्री १०८२ ता० २२ मुहर्रम [विक्रमी १७२८ ज्येष्ठ कृष्ण ८ = ई० १६७१ ता० १ जून] को जोधपुरका महाराजा जशवन्तसिंह

(१) यह शक्कावत वंशका सर्दार था, जिसकी औलादमें बावलके रावत जावदके पगने और

संधियाके इलाकेमें टांकेदार हैं.

जम्बोदकी थानेदारीपर भेजा गया, इसी सन् और संवत्के हिज्जी ता० १७ जमादियुल अब्बल [विक्रमी आश्विन कृष्ण ३ = ई० ता० २२ सेप्टेम्बर] को बादशाहकी सगी बहिन 'रौशन आरा' मर गई; बादशाहको यह बहुत प्यारी थी. इसी वर्षकी ता० २६ शम्बान [विक्रमी पौष कृष्ण १२ = ई० ता० २८ डिसेम्बर] को शाहजादह मुअज़्जमके बेटा हुआ, और जवांबस्त नाम रक्खा गया. हिज्जी ता० २६ जीकाद [विक्रमी चैत्र कृष्ण १२ = ई० १६७२ ता० २५ मार्च] को "सत्य नामी" मज्हबको मानने वाले लोगोंने बगावत की, जिसके दूर करनेके लिये रअ्दअन्दाजको फौज और तोपखानह समेत नारनौलकी तरफ भेजकर फसाद मिटाया गया; इस भगड़ेमें दोनों तरफके बहुतसे आदमी मारे गये.

हिज्जी १०८३ [विक्रमी १७२९ = ई० १६७२] में खैबरके पठानोंने बल्वा किया, सूबेदार मुहम्मद अमीनखां शिकस्त खाकर पिशावरको भागा, बहादुरखां कूका दक्षिणकी सूबहदारीपर भेजा गया, और उसको खानेजहां बहादुर खिताब दिया गया. हिज्जी ता० १० जिल्हज [विक्रमी १७३० चैत्र शुक्ल १२ = ई० १६७३ ता० ३१ मार्च] को बादशाह ईदकी नमाज पढ़कर वापस आते थे, कि एक दीवाने आदमीने लकड़ी फेंकमारी, जो तरुतमें लगकर बादशाहके पांवोंमें गिरी; गुर्जबर्दारों ने उसे पकड़कर हाजिर किया; बादशाहने हुकम दिया, कि छोड़ दिया जावे.

राजा रायसिंह, सीसोदियाके मरनेपर उसके बेटे मानसिंह, महासिंह, अनो-पसिंह, हाजिर हुए; तीनोंको खिल्अत दियेगये. हिज्जी १०८४ [विक्रमी १७३० = ई० १६७३] में कीर्तिसिंह कछवाहा दक्षिणमें मरगया. हिज्जी १०८५ ता० ११ मुहर्रम [विक्रमी १७३१ चैत्र शुक्ल १३ = ई० १६७४ ता० १९ एप्रिल] को बादशाहने हसन अब्दालके पठानोंका फसाद मिटानेके लिये कूच किया. हिज्जी ता० १ शव्वाल [विक्रमी पौष शुक्ल २ = ई० ता० ३० डिसेम्बर] को बादशाहने अपने १८ वें जुलूसपर शाहजादह मुहम्मद सुल्तानको, जो कैदसे छूटगया था, बीस हजारी जात और दस हजार सवारका मन्सब व कंठी और खिल्अत दिया. राणा राजसिंहको खिल्अत और फर्मान भेजा गया.

हिज्जी १०८६ ता० ९ जमादियुल अब्बल [विक्रमी १७३२ श्रावण शुक्ल ११ = ई० १६७५ ता० ३ अगस्त] को मुहम्मद आजमके एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम 'सिकन्दर शान' रक्खा गया. इन दिनोंमें मकहसे अब्दुल्लाहखां काश्गरीके मर जानेकी खबर आई. बादशाही सरकार और शाहजादोंके ज्योतिषियोंसे मुचल्का लिया गया, कि नये वर्षकी यंत्रि (जायचह) न बनावें. फिर बादशाह हसन

अब्दालका फसाद मिटाकर दिल्लीको खानह हुआ. हिज्जी १०८७ ता० २२ रबीउस्सानी [विक्रमी १७३३ प्रथम श्रावण कृष्ण ८ = ई० १६७६ ता० ४ जुलाई] को राजा रामसिंह कछवाहा आसामसे आया. हिज्जी ता० १२ जमादियुल अब्बल [विक्रमी प्रथम श्रावण शुक्ल १३ = ई० ता० २४ जुलाई] को मुहम्मद सुल्तानके शाहजादह मसजदबरूदा पैदा हुआ. हिज्जी ता० १० शअबान [विक्रमी आश्विन शुक्ल १२ = ई० ता० २० अक्टोबर] को जाफरखां वजीरके मरजानेपर असदखां मीर बरूदाको विजारतका उहदह दिया गया— हिज्जी ता० १७ शअबान [विक्रमी कार्तिक कृष्ण ३ = ई० ता० २७ अक्टोबर] को बादशाहजादह मुहम्मद मुअज़्ज़म खजानह, तोपखानह और सर्दारों समेत काबुलको भेजा गया; उस वक्त बादशाहने इन्आम इक्रामके सिवाय उसको 'शाहआलम बहादुर' का खिताब भी दिया, जो उसके बादशाह होनेपर जारी रहा. हि० ता० २१ शअबान [विक्रमी कार्तिक कृष्ण ७ = ई० ता० ३१ अक्टोबर] को बादशाह जामिअ मस्जिदसे घोड़ेपर सवार होकर वापस आते थे, रास्तेमें एक आदमी तलवार निकालकर पास आगया, गुर्जबदारोंने मारना चाहा, पर बादशाहने रोका, और उसे रणथम्भोरके किले में आठ आने रोज़ मुक़रर करके भिजवा दिया. हि० ता० २७ शअबान [विक्रमी कार्तिक कृष्ण १३ = ई० ता० ६ नोवेंबर] को एक पानी भरने वालेने मस्जिद की सीढ़ियोंपर बादशाहके बराबर आकर सलाम कहा, बादशाहके हुक्मसे कोतवालीमें कैद हुआ. हिज्जी ता० ७ शव्वाल [विक्रमी मार्गशीर्ष शुक्ल ९ = ई० ता० १५ डिसेम्बर] को बड़ा शाहजादह मुहम्मद सुल्तान मरगया, जिसकी उम्र अड़तीस वर्ष और दो महीनेकी थी. हिज्जी ता० २४ जिल्हिज [विक्रमी फाल्गुण कृष्ण १० = ई० १६७७ ता० २७ फ़ेब्रुअरी] को शाहजादह शाहआलम बहादुरके बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम 'मुहम्मद हुमायूँ' रक्खा गया.

हिज्जी १०८८ ता० २१ रबीउल अब्बल [विक्रमी १७३४ ज्येष्ठ कृष्ण ७ = ई० १६७७ ता० २४ मई] को दक्षिणके सूबेदार खानेजहां बहादुरने किला नलदुर्ग फ़तह कर लिया; और इस वर्षमें हुक्म हुआ, कि जुलूसका जश्न मौकूफ़ किया जावे, और किसीकी नज़ न ली जावे; चांदीकी दावातके एवज़ चीनी और पत्थरकी दावातें काममें लाई जावें. हिज्जी १०८९ [विक्रमी १७३५ = ई० १६७८] में कीर्तिसिंहकी बेटी शाहजादह मुहम्मद अजीमको ब्याही गई. मुहम्मद शफ़ीअखां दीवान बंगालेके लिखनेसे मालूम हुआ, कि शायस्तहखां अमीरुल उमराने सर्कारी एक किरोड़ बत्तीस लाख रुपया ग़बन कर लिया; उसके लिये हुक्म दिया, कि अमीरुल उमराके नाम बाकी लिखकर वुसूल किये जायं. हिज्जी ता० ६ जिल्काद

[विक्रमी पौष शुक्ल ८ = ई० ता० २१ डिसेम्बर] को जघोदका थानेदार महाराजा जशवन्तसिंह मरगया. जोधपुरपर खालिसा भेजा गया. हिज्जी १०९० ता० १८ मुहर्रम [विक्रमी १७३५ चैत्र कृष्ण ४ = ई० १६७९ ता० १ मार्च] को बादशाह अजमेर आये, और बीस दिन बाद लौट गये. इसी वक्त तमाम मुल्कसे जिज्यह लेनेका हुक्म जारी किया गया, जिससे आम हिन्दुओंमें नाराजगी फैली. हिज्जी ता० ७ शरबान [विक्रमी १७३६ भाद्रपद शुक्ल ९ = ई० १६७९ ता० १५ सेप्टेम्बर] को बादशाह दोबारह अजमेर आया, और हिज्जी ता० ७ जिल्काद [विक्रमी मार्गशीर्ष शुक्ल ९ = ई० ता० १३ डिसेम्बर] को उदयपुरकी तरफ रवाना हुआ. हिज्जी ता० ७ रमजान विक्रमी १७३६ आश्विन शुक्ल ९ = ई० १६७९ ता० १५ अक्टोबर] को शाहजादह आजमके कीर्तिसिंह (१) की बेटीसे एक लड़का पैदा हुआ, जिसका नाम 'सुल्तान मुहम्मद करीम' रक्खा गया. हिज्जी १०९१ ता० ७ जमादियुल आखर [विक्रमी १७३७ आषाढ़ शुक्ल ९ = ई० १६८० ता० ७ जुलाई] को बादशाहसे अर्ज हुआ, कि शिवा घोंसला हिज्जी ता० २४ रबीउस्सानी [विक्रमी ज्येष्ठ कृष्ण १० = ई० ता० २५ मई] को मरगया. हिज्जी १०९२ ता० २४ रजब [विक्रमी १७३८ श्रावण कृष्ण १० = ई० १६८१ ता० १० अगस्त] को मुहम्मद कामबरुशकी शादी मनोहरपुरके राव अमरसिंहकी बेटी कल्याणकुंवरके साथ हुई.

हमने इस मकामपर उस हालको छोड़ दिया है, कि "जोधपुरके महाराजा जशवन्तसिंहके जघोदपर मरने बाद उनके दोनों पुत्र अजीतसिंह और दलथम्भन लाहौरमें पैदा हुए, फिर दिल्लीमें जाकर सोनंग व दुर्गदास वगैरह अजीतसिंहको ले निकले, और जशवन्तसिंहकी रानियां कई सर्दारों समेत दिल्लीमें मारी गईं; मारवाड़में राठौड़ोंका फसाद उठा, और उसके दबानेको बादशाही फौजें आईं; यह सब अहवाल जोधपुरकी तवारीखमें लिखा जायगा. इसके सिवाय हिन्दुस्तानपर बादशाहका जिज्यह लगाना, महाराणा राजसिंहका कठोर पत्र पहुंचनेपर उदयपुर की तरफ चढ़ाई करना, महाराणा राजसिंहसे लड़ाइयोंका होना, व महाराणाके देहान्त बाद जयसिंहका गद्दीनशीन होना, बादशाहके शाहजादह अकबरका बागी होना, और मेवाड़की लड़ाइयोंका सुलहके साथ खातिमह करना वगैरह" जो महाराणा राजसिंह और जयसिंहके इतिहासमें लिखा गया है. इस लिये अब दक्षिणकी चढ़ाइयोंका जिक्र लिखा जाता है.

(१) कीर्तिसिंह अंबिरके महाराजा जयसिंह कछवाहेका छोटा बेटा था.

बादशाह आलमगीर हिजी १०९२ ता० ५ रमजान [विक्रमी १७३८ भाद्रपद शुक्ल ७ = ई० १६८१ ता० २० सेप्टेम्बर] को अजमेरसे कूच करके हिजी १०९३ ता० २३ रबीउल अब्बल [विक्रमी चैत्र कृष्ण ९ = ई० १६८२ ता० ३ मार्च] को औरंगाबाद पहुंचे. हिजी ता० १८ जमादियुल आखर [विक्रमी १७३९ आषाढ़ कृष्ण ४ = ई० १६८२ ता० २६ मई] को बादशाहने शाहजादह आजमको उसके बेटे बेदारबस्त समेत बीजापुरकी तरफ़ खानह किया. शाहजादह अकबर शम्भासे बिगाड़ होजानेके सबब किश्तियोंमें सवार होकर ईरानकी तरफ़ खानह हुआ. इमाम मस्कतने उसे गिरफ्तार करके अपना मल्लब निकालनेके लिये आलमगीरके हवाले करना चाहा; लेकिन ईरानके बादशाहका हुकम पहुंचनेसे शाहजादहको उसने ईरान भेज दिया. ईरानके सुलैमान् शाह सफ़वीने शाहजादहकी बहुत खातिर की, और कई वर्षों तक उसी देशमें रहने बाद हिरातके इलाक़हमें उसका देहान्त होगया.

इन्हीं दिनोंमें बादशाहने जशवन्तराव दक्षिणीको मरहटी फौजका अपसर बनाकर चार हज़ारी ज़ात और सवारके मन्सबसे लड़ाईके लिये तय्यार किया. हिजी ता० २० जमादियुल आखर [विक्रमी आषाढ़ कृष्ण ६ = ई० ता० २८ मई] को कान्हू दक्षिणी आलमगीरके पास चला आया, उसे बादशाहने पांच हज़ारी ज़ात और सवारका मन्सब देकर अपना मुलाज़िम बना लिया. हि० ता० ५ रमजान [विक्रमी भाद्रपद शुक्ल ७ = ई० ता० ११ अगस्त] को बादशाहने मरहटोंपर ज़ियादह ग़ालिब करनेके लिये दन्दाराजपुर व जज़ीरेके हवशी याकूतखां और खैरियतखांके लिये खिल्अत भेजा. हिजी ता० ६ शव्वाल [वि० आश्विन शुक्ल ८ = ई० ता० ११ सेप्टेम्बर] को शाहजादह बहादुरशाहके बेटे मुइज़ुद्दीनको खिल्अत मोतियोंकी कंठी, घोड़ा और आठ हज़ारी ज़ात व छः हज़ार सवारका मन्सब देकर अहमदनगर भेजा.

हि० १०९४ ता० ११ शअ्वान [विक्रमी १७४० श्रावण शुक्ल १२ = ई० १६८३ ता० ६ अगस्त] को शिवा घांसलाका मुन्शी काज़ी हैदर बादशाहके पास हाज़िर हो गया, जिसको दो हज़ारी मन्सब, खिल्अत आर दस हज़ार रुपया नक़द दिया गया. इन्हीं दिनोंमें दिलेरखां अफ़ग़ान ज़ियादह बीमार होकर मर गया. हि० ता० ३ शव्वाल [विक्रमी आश्विन शुक्ल ५ = ई० ता० २७ सेप्टेम्बर] को बादशाहने बड़े शाहजादह मुअज़मको सांप गांवकी तरफ़ भेजा, और क़िला फ़ह हुआ, शाहजादह रामदरेकी घाटियोंमें जा घुसा; रसदकी यहांतक कमी

हुई, कि आदमियोंकी आंखोंमें प्राण और जानवरोंके हृदियां बाकी थीं. बादशाही हुकमसे सूरतके हाकिमने कुछ सामान पहुंचाया, लेकिन गुजारा न होनेसे शाहजादह घबराकर अहमदनगरकी तरफ वापस चला आया. हि० ता० ३ जिल्हज [वि० मार्गशीर्ष शुक्ल ५ = ई० १५ नोवेंबर] को बादशाह अहमदनगर दाखिल हुए. त्रिपुरा नदी और आशतीकी तरफ हिज्री १०९५ ता० ९ मुहर्रम [विक्रमी १७४० पौष शुक्ल ११ = ई० १६८३ ता० ३० डिसेम्बर] को रूहुल्लाहखां और बहरामन्दखांको दक्षिणियोंपर भेजा, शिहाबुद्दीनखांने भी दक्षिणियोंपर कई हम्ले किये, और फत्ह पाई, जिससे बादशाहने उसको हिज्री ता० १५ मुहर्रम [वि० माघ कृष्ण १ = ई० १६८४ ता० ५ जैनुअरी] को मुहम्मद गाजियुद्दीनखां बहादुरका खिताब और उसके साथियोंमेंसे मुहम्मद आरिफको, मुजाहिदखां, मुहम्मद सादिक खोस्तीको, सादिकखांका खिताब दिया. दतियाके राजा दलपत बुंदेले और उद्योतसिंह भदौरियाको खिलअत, घोड़ा और हाथी बरूआ गया.

गोलकुंडेके बादशाह अबुल हसनने जाफरखांको अपना एलची बनाकर बादशाहके पास भेजा, जो कि पहिले शाहजादह अक्बरका नौकर था, और जिसको अबुल हसनने ऐनुल्मुल्कका खिताब दिया था; आलमगीरने नाराज होकर उसे कैद करदिया, और कहा, कि अबुल हसन हमारी मस्खरी करता है ! शम्भाकी दो औरतें, एक लड़की, तीन लौंडियां गिरिफतार होकर बहादुरगढ़में रक्खी गईं. हिज्री १०९६ ता० २६ सफर [विक्रमी १७४१ माघ कृष्ण १२ = ई० १६८५ ता० ३ फेब्रुअरी] को बादशाहने सुना, कि मरहटोंका नामी किला 'राहेड़ी' गाजियुद्दीनखांने फत्ह करलिया, जिसपर गाजियुद्दीनखांको फीरोजजंगका खिताब और नेजा, नक्कारह दिया गया; उसके साथियों मेंसे १५० आदमियोंको खिलअत बरूओ गये. इसीसनकी हिज्री ता० १५ रबीउल अब्वल [वि० फाल्गुण कृष्ण १ = ई० ता० २१ फेब्रुअरी] को खवासोंका दारोगा बरूतावरखां, जो एक आलिम आदमी था, मरगया. हिज्री १०९६ ता० २ जमादियुल अब्वल [विक्रमी १७४२ चैत्र शुक्ल ४ = ई० १६८५ ता० ७ एप्रिल] को बादशाही फौजने बीजापुरको जा घेरा.

इन्हीं दिनोंमें हैदराबादके बादशाह अबुल हसनका फर्मान उसके वकीलोंके पास इस मज्मूनका पकड़ा गया, कि " तुमको जो कोतवालीमें कैद कर रक्खा है, इसकी कुछ फिक्र मत करो, जल्दी बदला लिया जायगा; और आज तक हजरत आलमगीरकी बुजुर्गीका खयाल रक्खा गया, लेकिन हजरतने मुझको भी बीजापुरके सिकन्दरकी तरह लावारिस बच्चा समझकर दबाया है, तो लाचार हिम्मत करनी पड़ी; अब

शम्भा राजा भी बहुतसी फौज लेकर फैल जायगा, और खलीलुल्लाहखांको चालीस हजार सवार देकर मुकाबलेको भेजताहूँ, देखें! हज़रत कहां कहां मुकाबला करते फिरेंगे". यह कागज़ बादशाहके पास पेश हुआ, जिसपर उसने अपने बड़े शाहज़ादह मुअज़्ज़मको जंगी फौजके साथ हैदराबाद गोलकुंडेके मुहासरेको खानह किया.

ख़फ़ीखां अपनी तवारीख़ 'मुन्तख़बुल्लुबाब' में लिखता है, कि पेशतर राजा रामसिंह कछवाहे और ख़ानेजहां बहादुरको उसके बेटों समेत खानह किया था, और शाहज़ादहको पीछे, लेकिन सबसे पहिले आलमगीरने हैदराबादपर चढ़ाईका बहाना ढूंढनेके लिये जेलखानहके दारोगा मिर्जा मुहम्मदको, जो बड़ा बोलने वाला था, अबुल हसन कुतुबुलमुल्कके पास इस मत्लबसे भेजा, कि उसके पास, जो बहुत बड़े कीमती हीरे हैं, वे बादशाही हुज़ूरमें भेज देवे; मिर्जा मुहम्मदको आलमगीरने खानगी हिदायत करदी थी, कि हम तुमको पत्थरके टुकड़ोंके लिये नहीं भेजते हैं, मुल्कगीरीके मत्लबसे भेजे जातेहो. जब यह शरूस् हैदराबादमें पहुंचा, तो अबुल हसन बहुत खातिरके साथ पेश आया, कुल जवाहिर उसके साम्हने रख दिये, और कहा, कि हमने अच्छे अच्छे जवाहिर पेशतर बड़े हज़रत (शाहजहां) के वक्तमें भेज दिये थे; अब इनके सिवाय और नहीं हैं. आखिरकार मिर्जा मुहम्मद बहुत सरूत कलामीसे पेश आया; तब अबुल हसनने कहा, कि हम भी एक इलाक़ेके बादशाह हैं, इस तरहकी सरूत कलामीका वर्ताव न होना चाहिये. तब मिर्जा मुहम्मदने कहा, कि बादशाहका खिताब अपने नामपर आपको रखना ज़ेबा नहीं है; जिसपर अबुल हसनने कहा कि अगर हम 'बादशाह' न कहलावें, तो हज़रत 'शाहनशाह' किस तरह होसके हैं. इस कलामसे मिर्जा मज़कूर लाजवाब होगया. ख़फ़ीखां लिखता है, कि यह सब बातें मैंने मिर्जासे सुनकर लिखी हैं. दूसरा— आलमगीरने यह कुसूर काइम किया, कि मादनापंत पंडितको विज़ारत देकर मुसल्मानोंपर जुल्म रवा रक्खा है.

इस तरह अबुल हसनने आलमगीरकी चढ़ाई रोकनेका कुछ और इलाज न देखा, तो लाचार इब्राहीमखांको खलीलुल्लाहखांका खिताब देकर शैख़ मिन्हाज और रुस्तम राव समेत चालीस हजार सवारके साथ शाहज़ादह शाहआलमसे मुकाबला करनेको भेजा. इस मुकाबलेमें आलमगीरकी फौज घिर गई थी, लेकिन आंबेरके राजा रामसिंहका मस्त हाथी मुकाबिल किया गया, जिससे दक्षिणी फौजको लाचार होकर हटना पडा; और ख़ाजह अबुलमकारिमने क़िला सीरम फ़तह कर लिया; परंतु

अबुल हसनके वजीर मादनापंतने दस हजार सवार अपनी फौजकी मददके लिये और भेज दिये, जिससे दोबारह लड़ाई शुरू होकर तीन दिन तक सस्त हम्ले हुए; आलमगीरकी फौजके हिम्मतखां बहादुर, सय्यद अब्दुल्लाखां, कृष्णगढ़का राजा मानसिंह राठौड़ और सआदतखां ज़रमी हुए, आखिरमें दक्षिणी भाग निकले; लेकिन खबरनवीसोंने बादशाहको लिख भेजा, कि दुश्मनोंका पीछा नहीं किया गया; जिसपर आलमगीरने इन्आमके बदले उलहना लिख भेजा, जिससे फौजी अप्सरोंके दिल टूट गये. शाहज़ादह मुअज़्ज़मने सुलह करना चाहा, और खलीलुल्लाहखां भी मंजूर करता था, लेकिन रुस्तम राव वगैरहने नहीं माना, और लड़ने लगे; आखिरकार दक्षिणी फौज भागकर हैदराबाद गई, शाहज़ादहने पीछा किया; इस शिकस्तकी तुहमत रुस्तम रावने खलीलुल्लाहखांपर रक्खी, जिससे वह तीस चालीस हजार फौज समेत शाहज़ादहसे आमिला. अबुल हसन हैदराबाद छोड़कर गोलकुंडेके किलेमें जा छिपा, और शाहज़ादह मुअज़्ज़मने उस शहरपर कब्जा करलिया.

शाहज़ादहने अपनी नेक आदतके मुवाफ़िक इस बातपर अबुल हसनके पास सुलहका पैग़ाम भेजा, कि मादनापंत और आकना पंडित वजीरोंको कैद करके हमारे पास भेज दो, सीरम व रामगीरका इलाक़ह बादशाही कब्जेमें दे दो, और मामूली नज़ानेके सिवाय एक क़िरोड़ बीस लाख रुपया देकर अपने कुसूरोंकी मुआफ़ी चाहो; जिसपर अबुल हसनने सब बातें मंजूर करके दोनों वजीरोंको देना नहीं चाहा; लेकिन पहिले बादशाह अब्दुल्लाह कुतुबुलमुल्ककी औरतोंने उन दोनों पंडितोंको मरवा डाला. इससे फ़साद दूर हुआ. यह सुनकर आलमगीरने शाहज़ादहको बुला लिया. यह सुलह आलमगीरकी मर्जीके मुवाफ़िक नहीं थी, क्योंकि वह हैदराबादकी रियासतको ज़ब्त करना चाहता था.

इन्हीं दिनोंमें बीजापुरको शाहज़ादह आजम घेरे हुए था, परंतु किले वालोंके हम्ले और रसदकी कमी व बीमारी वगैरह होनेसे निहायत तकलीफ़ थी, जिससे सब सदांरोंने मुक़ाबला छोड़ देनेकी सलाह दी; लेकिन शाहज़ादहने अपनी जवांमर्दीसे कुबूल नहीं किया. यह सुनकर आलमगीरने रसदकी मदद देकर शाहज़ादहके पास गाज़ियुद्दीनको भेजा, और शिवाके दामाद अचलाको हिज्री १०९७ ता० १६ रबीउलअव्वल [विक्रमी १७४२ फाल्गुण कृष्ण २ = ई० १६८६ ता० ९ फ़ेब्रुअरी] को पांच हज़ारी ज़ात और दो हज़ार सवारका मन्सब, नेजा, नकारह और हाथी दिया; क्योंकि यह शम्भासे लड़कर आया था. इसके बाद बादशाह खुद

बड़ी फौजके साथ हि० ता० १४ शरवान [विक्रमी १७४३ आषाढ शुक्ल १५ = ई० १६८६ ता० ६ जुलाई] को बीजापुर जा पहुंचे, और बीकानेरके राव अनोपसिंहने भी हाजिर होकर खिल्अत पाया. हि० ता० ११ शव्वाल [विक्रमी भाद्रपद शुक्ल १३ = ई० ता० १ सेप्टेम्बर] को महाराणा जयसिंहका छोटा भाई भीमसिंह बादशाहके पास पहुंचा.

अचानक हादिसह.

अब हम कुछ बयान उस सरूत हादिसहका करते हैं, जो कि इस तवारीखके यहां तक पहुंचनेपर विक्रमी १९४१ मार्गशीर्ष कृष्ण १३ [हि० १३०२ ता० २७ मुहर्रम = ई० १८८४ ता० १५ नोवेम्बर] को हमारे ऊपर पड़ा. महाराजा धिराज महाराणा श्री सज्जनसिंहकी बीमारीके सबब, जो जोधपुर तशरीफ़ ले गये थे, उनके जियादह बीमार होनेकी खबर सुनकर कर्नेल चार्ल्स वाल्टर साहिब रेजिडेण्ट बहादुर मेवाड़की सलाहके मुवाफ़िक़ उक्त तारीखके दिन मुझको भी जोधपुर जाना पड़ा. इसी दिनसे तवारीखका काम बन्द रहा, और मैं जल्द श्री महाराजाधिराजको लेकर उदयपुर आया. हाय! सद अप्सोस, कि विक्रमी १९४१ पौष शुक्ल ६ [हिज्री १३०२ ता० ४ रबीउलअव्वल = ई० १८८४ ता० २३ डिसेम्बर] को रातके बारह बजे इस तवारीखके क़द्रदान उक्त महाराजा धिराजका देहान्त हो गया, और मेरे खयाल व उनकी क़द्रदानीके औज़का चिराग़ एक दम गुल हो गया. आजकी तारीख़ यानी विक्रमी माघ कृष्ण ९ [हिज्री ता० २३ रबीउलअव्वल = ई० १८८५ ता० १० जैनुअरी] तक, इस किताबका मुसव्वदा अंधेरेमें पड़ा रहा. आज फिर उनके जा नशीन महाराजा धिराज महाराणा फ़तहसिंहकी आज्ञाके अनुसार इसको शुरू करता हूं; अगर जिन्दगी रही, तो मैं इस नागहानी बलाका हाल महाराजा धिराज महाराणा श्री सज्जनसिंहके वृत्तान्तमें मुफ़स्सल लिखूंगा.

अभी तक इस हालके लिखनेकी ताक़त मेरी ज़बानमें नहीं है, जियादह अप्सोस इस बातका है, कि उन क़द्रदानने इस कामको किस जोर-शोरके साथ शुरू क़स्वाया था, इसे पूरा न देख सके, और उनकी जिन्दगी पूरी होगई.

अब जहाँ तक दममें दम है, मैं उनके इरादेको पूरा करूंगा, क्योंकि हमारे वर्तमान स्वामी भी उनके इरादेको पूरा करनेमें दिली मददके साथ हुक्म देते हैं.

अब फिर आलमगीर बादशाहका बाकी हाल लिखा जाता है—

हिज्री १०९७ ता० ४ जिल्काद [विक्रमी १७४३ आश्विन शुक्ल ६ = ई० १६८६ ता० २४ सेप्टेम्बर] को बीजापुरका किला फ़तह हुआ, और सिकन्दर-अली आदिलशाह, आलमगीरके पास लाया गया; वह खास खिलअत, जड़ाऊ खन्जर, फूलकटारा, मोतियोंकी कंठी, 'सिकन्दरअलीखां' का खिताब और एक लाख रुपया सालाना गुजारेके लिये पाकर नज़र कैदके तौर शाही डेरोंके पास रक्खा गया. सिकन्दरअलीके सर्दार अब्दुर्रज्जुखां व शिर्जहखां बादशाहके पास लाये गये, और खिलअत, तलवार, जड़ाऊ खन्जर, मोतियोंकी कंठी, घोड़ा, हाथी, छः हज़ारी जात व सवारका मन्सब और दिलेरखां व रुस्तमखांका खिताब दिया गया; इसके सिवाय अपने वज़ीर और सर्दारोंको भी बहुतसा इन्आम इक्राम दिया. हिज्री ता० १७ जिल्काद [विक्रमी कार्तिक कृष्ण ३ = ई० ता० ७ अक्टोबर] को बादशाहने सिकन्दरअली बीजापुरीको बुलाकर हीरेका सिर्पेच और बैठनेकी इजाजत दी; रूहल्लाहखांको बीजापुरकी सूबेदारी और बीकानेरके राजा अनोपसिंहको सक्खरकी फौजदारी दी, और आप हि० ता० २२ जिल्हिज [विक्रमी मार्गशीर्ष कृष्ण ८ = ई० ता० ९ नोवेम्बर] को बीजापुरसे चला, ४ दिन बाद शिवाके बेटे शम्भाकी फौज, जो मंगलबेड़ेकी तरफ़ फिरती थी, उसकी सज़ाके लिये एतिकादखांको भेजा.

बादशाह हिज्री ता० २५ जिल्हिज [विक्रमी मार्गशीर्ष कृष्ण ११ = ई० ता० १२ नोवेम्बर] को शोलापुर दाखिल हुए. अब आलमगीरको हैदराबाद छीननेकी फ़िक्र हुई. बीजापुरकी लड़ाईमें शिहाबुद्दीनखांको "गाजियुद्दीनखां बहादुर, फ़ीरोज़गंज, फ़र्जन्द औरंग," का खिताब दिया गया, जो उदयपुरकी लड़ाईमें हसनअलीखांकी खबर लेनेके वास्ते पहाड़ोंमें भेजा गया था, और उसी वक्तसे इसकी तरकी शुरू हुई, होते होते इस दरजेको पहुंचा, कि उसीकी औलादमें अब निज़ाम हैदराबाद हैं, जो हिन्दुस्तानी रईसोंमें बड़े रईस गिने जाते हैं. उसको बादशाहने हैदराबादका मातहत किला इब्राहीमगढ़ लेनेके लिये फौज समेत नीचे लिखे सर्दार साथ देकर रवाना किया. दिलेरखां, शिर्जहखां बीजापुरी,

जमशेदखां, मालूजी घोरपड़ा मरहटा, रामपुरेका राव गोपालसिंह चंद्रावत, कोटेका हाड़ा किशोरसिंह, कमालुद्दीनखां, शिवसिंह, सफ़्शिकनखां, दतियाका राव दलपत बुंदेला, आका अलीखां, अब्दुलकादिरखां, जहांगीरकुलीखां, उद्योतसिंह भदौरिया, सर्बराहखां चेला वगैरह. इन सबको इन्आम, इक्राम, खिल्अत वगैरह मिले थे.

बादशाहने कुतुबुल मुल्कपर चढ़ाई करनेका यह बहानह निकाला, कि उसने हिन्दुओंके हाथसे ग़रीबोंको तकलीफ़ पहुंचाई, और एक लाख होन (यानी पांच लाख रुपये) शम्भाके पास इस मल्लबसे भेजे, कि अपनी फौजकी दुरुस्ती करके बादशाही लोगोंसे छेड़ छाड़ करे. हमारी समझ और मन्आसिरे आलमगीरी व मुन्तखबुलुबाब वगैरह किताबोंसे भी यही पाया जाता है, कि कोई तुहमत रखकर रियासत छीन लेनी चाही.

हिज्जी १०९८ ता० २९ मुहर्रम [विक्रमी १७४३ पौष कृष्ण ३० = ई० १६८६ ता० १५ डिसेम्बर] को बादशाह गुलबर्गाकी तरफ़ चला, बिचारे अबुल-हसनने बहुतसे नज़ाने और तुहफ़े वगैरह भेजकर हर तरह लाचारियां कीं, लेकिन आलमगीरने एक न सुनी. गाज़ियुद्दीनखां फ़ीरोज़जंगने इब्राहीमगढ़का क़िला फ़तह कर लिया. हिज्जी ता० २४ रबीउलअव्वल [विक्रमी फाल्गुण कृष्ण १० = ई० १६८७ ता० ७ फ़ेब्रुअरी] को बादशाहने गोलकुंडेसे एक कोसके फ़ासिले-पर क़ियाम किया. गाज़ियुद्दीनखांका बाप क़िलीचखां गोलकुंडेके दर्वाजे तक पहुंचा, वहां कन्धेमें गोली लगी, जिससे तीन रोज़ बाद मरगया; (उसने अपने खूनसे उस ज़मीनको सींचा, जिसकी औलाद अब वहां राज्य करती है) आलमगीर लड़ाईमें मशगूल था, और अकाल, मरी व हथियारोंसे हजारों आदमी मरते थे, क़िले वालोंसे मिलावटके शुब्हेपर शाहज़ादह मुअज़्ज़मको बादशाहने कैद कर दिया. शाहज़ादह का कोई कुसूर नहीं था, सिर्फ़ अपनी नेक आदतके मुवाफ़िक़ वह सुलह चाहता था.

शाहज़ादह आजम बादशाहके पास आगया, जिसकी तद्द्वीरसे क़िलेके लोगोंने मिलकर बादशाही मुलाज़िमोंको क़िलेमें बुलाया, और अबुल हसनको गिरिफ़्तार करा दिया. उसी दिनसे दक्षिणी बादशाहतका नाम व निशान दूर हुआ; इस बातसे आलमगीर बहुत खुश हुआ होगा; कि हिमालयसे रामेश्वर तक और बलख़ व बदरशासे कड़गांव (आसाम) तक हिन्दुस्तानमें मुग़लियह ख़ान्दानकी हुकूमतका डंका बजने लगा; लेकिन इन ताक़तों (रियासतों) के टूट जानेसे मरहटोंने ग़लबह करके मुग़ल बादशाहोंको बेपरका परिन्दा बना दिया, और लूट खसोट

व छिना भपटीसे कुल हिन्दुस्तानियोंका नाकमें दम करदिया. बादशाह आलमगीरने शाहजादह मुहम्मद आजमको बिलगांव, और गाजियुद्दीनखां फ़ीरोजजंगको आदूनीकी तरफ़ खानह किया. यह दोनों क़िले, जो हबशी और मरहटोंके क़ब्जेमें थे, फ़तह कर लियेगये; आदूनीके मसऊद हबशीको सात हज़ारी मन्सब देना चाहा, परन्तु उसने नौकरी करनेसे इन्कार किया.

हिज्री ११०० ता० १ जमादियुलअव्वल [विक्रमी १७४५ फाल्गुण शुक्र ३ = ई० १६८८ ता० २२ फ़ेब्रुअरी] को शैख़ निज़ाम हैदराबादी, जिसे आलमगीरने मुक़र्रबखांका खिताब दिया था, बड़ी जमइयतके साथ पर्नालेकी तरफ़ भेजा गया; उसको मुखबिरोंने ख़बर दी, कि शम्भा पर्नालेसे खेलनाके क़िलेकी तरफ़ बैरागियोंका फ़साद मिटानेको गया है, और वहांसे संगमेश्वरको, जहां बान गंगाका तीर्थ समुद्रसे एक मंज़िल पर है, और जहां शम्भाके दीवान कल्लूशाने (जिसका नाम ख़फीखां कविकलश लिखता है, और हमको वही सहीह मालूम होता है) मकान और बाग़ बनवाये थे, गया; और मज्हबी रस्में अदा करनेके बाद ऐश, इशरत व शराब पीनेमें मशगूल है. यह सुनकर फ़ौजी काफ़िलेको मुक़र्रबखांने कोलापुरके पास छोड़ा, और चुनेहुए सिपाहियोंको साथ लेकर ४५ कोसकी कठिन पहाड़ियोंमें बड़ी मुशकिलोंसे उस मकानके पास पहुंचा, जहां शम्भा था; उस वक्त दो हज़ार सवार और एक हज़ार पैदल उसके साथ थे.

शम्भाके नौकरोंने उसे ग़फ़लतकी नींदसे जागने और होशियार होनेको कहा, कि बादशाही फ़ौज आपहुंची ! पर वह अघ्याश शराबके नशेमें चूर था, जवाब दिया, कि यहां बादशाही फ़ौज नहीं आसक्ती, इन बद कलाम लोगोंसे कहदो, कि इस तरहकी झूठी ख़बर लायेंगे, तो ज़बान काटली जावेगी; वे विचारे चुप हो रहे. मुक़र्रबखां चुने हुए सिपाहियों समेत आ पहुंचा; शम्भा और उसके वज़ीरके होश ख़ता हुए, लेकिन तीन चार हज़ार सवार, जो वहां मौजूद थे, उन्हें लेकर मुक़ाबला किया, मुक़ाबलेके वक्त वज़ीर कविकलशके तीर लगा, जिससे वह गिर पड़ा; बादशाही फ़ौजके हाथसे बहुतसे मरहटे मारे गये, मरहटी फ़ौज भागने लगी; आख़िर कविकलश और शम्भा भी एक मकानमें जा छिपे. मुक़र्रबखांका बेटा इख़्लासखां दर्वाजेके भीतर घुस गया, शम्भाके दो तीन आदमी मुक़ाबलेसे पेश आये, वह मारे गये. इख़्लासखां मकानमें अपने साथियोंको लेकर, जहां शम्भा था, जा पहुंचा; और शम्भा व कविकलशको पकड़ लिया. फिर शम्भाकी स्त्री व उसके बेटे साहू को २५ रिश्तेदारों समेत गिरफ़्तार किया;

और मुर्करबख्वांके पास शम्भाके बाल पकड़े हुए लाया. मुर्करबख्वांने हाथीपर डाल कर वहांसे कूच किया, बहुतसे मरहटे सर्दार गिरिफ्तार हुए. किसी मरहटे कौमके सर्दारने उसके छुड़ानेकी कोशिश नहीं की, क्योंकि शम्भाकी तेज मिजाजी से सब लोगोंका नाकमें दम था, और जियादह इसका सबब कविकलश वजीर था.

मुर्करबख्वां बे खौफ़ शम्भाको लिये हुए सहीह सलामत हिज्जी ११०० ता० ५ जमादियुल अब्बल [विक्रमी १७४५ फाल्गुण शुक्र ७ = ई० १६८९ ता० २६ फेब्रुअरी] को बादशाही लश्करके पास, जो बहादुरगढ़में था, आ पहुंचा. बादशाह अलमगीरको शम्भाकी गिरिफ्तारीसे जितनी खुशी हुई, उतनी बीजापुर और गोलकुंडेकी फल्हसे नहीं हुई थी. बादशाहने हुकम दिया, कि हमीदुद्दीनखां लश्करका कोतवाल मुर्करबख्वांकी पेशवाईको जावे, और शम्भा लुटेरेको बेड़ियां और हंसीका लिबास पहिनाकर ऊंटकी (१) सवारी पर फौजमें लावे. लाखों आदमियोंकी भीड़ भाड़ शम्भाको देखनेके लिये इकट्ठी हुई थी. शम्भाके आगे आगे नक़ारे और नफीरी बतौर हंसीके बजती थी.

बादशाह अलमगीरने आम दर्बार करके उसको अपने साम्हने बुलाया, जब वह आया, बादशाहने नमाज़ अदा की, और खुदाका शुक्र बजा लाया; शम्भाके प्रधान कविकलशने अपने मालिकको एक श्लोक सुनाया, जिसका यह मत्लब था, कि ऐ राजा देख ! तेरे प्रतापको, कि बादशाह तेरे साम्हने तरुतसे उतर गया. शम्भा और कविकलश दोनों मुसल्मानोंके पैगम्बर व बादशाहको गाली देने लगे; बादशाहने मुसल्मान होजानेपर जान बख्शीका वादह किया, शम्भा बोला, कि अपनी बेटीके साथ शादी करदो, तो ऐसा होसक्ता है. (सच है मरता क्या नहीं करता) शम्भा चाहता था, कि किसी तरह मुझे जल्दी मरवा डालें. बादशाहने जबानें कटवाकर गर्म लोहेकी सलाखोंसे अन्धा करवा दिया. हिज्जी ता० २९ जमादियुल अब्बल [विक्रमी चैत्र कृष्ण ३० = ई० ता० २१ मार्च] को उन दोनोंके सिर कटवाए गये, और शम्भाकी मा, औरतें और उसके बेटों साहू, मदनसिंह, उद्योतसिंहको इज़्ज़तसे असदखां वजीरके पास डेरोंमें रहनेकी इजाजत मिली; सबको तसल्ली देकर मुनासिब तन्खाहें करदीं; कुछ दिनोंके बाद साहूको सात हजारि जात व सवारका मन्सब दिया, उस समय साहू नौ वर्षका था. शम्भाके छोटे भाई

(१) दक्षिणी लोग ऊंट और गधेकी सवारीको एकसा समझते हैं.

रामराजा व सन्ता वगैरह मरहटोंने बड़ा फ़साद मचाया, यहां तक कि आलमगीरको आखिर वक्त तक लड़ाईके लिये तय्यार रहना पड़ा.

हिज्री ११०१ ता० १५ मुहर्रम [विक्रमी १७४६ मार्गशीर्ष कृष्ण १ = ई० १६८९ ता० ३० अक्टोबर] को एतिकादखांने राहेड़ीके किलेको फूट किया, शम्भाका भाई रामराजा वहांसे भागा, उसके कुटुम्बको बादशाही नौकरोंने कैद कर लिया, फिर एतिकादखांके आनेपर हिज्री ता० २० सफ़र [विक्रमी पौष कृष्ण ६ = ई० ता० ३ डिसेम्बर] को इस कारगुजारीके एवजमें एक हज़ारी जात और सवारकी तरकीसे तीन हज़ारी जात और दो हज़ार सवारका मन्सब, जुल्फ़कारखांका खिताब, और इन्आम वगैरह दिया. हिज्री ११०२ शव्वाल [विक्रमी १७४८ आषाढ़ = ई० १६९१ जुलाई] में शाहजादह मुअज़्ज़मकी मा 'नव्वाब बाई' के गुजरनेकी ख़बर आई, इसी वर्षमें शाहजादह मुअज़्ज़मको कैदसे छोड़ा. हिज्री ११०३ ता० ७ रबीउल आख़र [विक्रमी १७४८ पौष शुक्ल ९ = ई० १६९१ ता० २९ डिसेम्बर] को मस्जिदमें एक आदमी तलवार निकालकर बादशाहकी तरफ़ दौड़ा, सिपाहियोंने गिरफ़्तार करके कोतवालके हवाले किया. हिज्री ता० १ जिल्काद [विक्रमी १७४९ श्रावण शुक्ल ३ = ई० १६९२ ता० १७ जुलाई] को बस्त्रियुल मुल्क रूहुल्लाहखांका देहान्त हुआ, उसके एवज बहरहमन्दखां मीरबस्त्री, और मुख़लिसखां दूसरा बस्त्री किया गया.

शाहजादह कामबस्त्राको आलमगीरने कैद किया था, जिसका हाल इस तरहपर है :- हिज्री ११०४ ता० १ रमज़ान [विक्रमी १७५० वैशाख शुक्ल ३ = ई० १६९३ ता० ८ मई] को जुम्दतुलमुल्क असदखां वजीरको हुकम हुआ, कि बहरहमन्दखां समेत शाहजादह कामबस्त्राके साथ 'वाकनखेड़ा' का मुहासरह करे, लेकिन फिर जुल्फ़कारखांके पास पहुंचनेका हुकम होगया. रास्तह ही मेंसे शाहजादह और सर्दारोंमें नाइतिफ़ाकी होने लगी, 'जंजी' पहुंचनेपर लश्करखां वगैरहसे भी शाहजादहकी ज़ियादह नाराज़गी हुई, कई बादशाही नौकर मरहटे रामराजासे मेल करने लगे. यह ख़बर बादशाहके पास पहुंची, वहांसे हुकम आया, कि वजीर असदखां शाहजादहको नज़रबन्द रखे, और दलपत बुंदेला उसका निगहबान रहे. शाहजादहने रामराजाके पास भाग जाना चाहा, परंतु ख़बर होजानेसे वजीर ने पक्का बन्दोबस्त कर दिया. इस आपसकी फूटसे मरहटोंने भी बड़े जोर शोरके साथ हम्ले किये; इस्माईलखां घायल होनेसे मरहटोंका कैदी बना, और नुस्त्रतजंगने अपने थोड़े ही सवारोंसे बड़ी बहादुरीके साथ दुश्मनोंको रोका; उनकी एक हज़ार

घोड़ियां छीन लीं; नुस्त्रतजंग अपने बाप असदखांके पास पहुंचा, और शाहजादहको हिरासतके साथ बादशाहके पास लाये.

हिजी ११०५ ता० २१ रजब [विक्रमी १७५० वैत्र कृष्ण ७ = ई० १६९४ ता० १७ मार्च] को शाहजादह आजमके एक नौकर और बारहके एक सय्यदसे लड़ाई होगई, सय्यद मारा गया. कुल सय्यदोंने इत्तिफाकके साथ शाहजादहके लश्करमें जाकर उनके नौकर अमानुल्लाको घेर लिया, दोनों तरफसे फसादकी सूरत हुई. अर्ज होनेपर बादशाहने हुकम दिया, कि तोपखानहका दारोगा मुस्तारखां मौकेपर जाकर सुलह करादे; लेकिन उसकी कोशिशसे कुछ फायदह न हुआ, दूसरे दिन तमाम सय्यद बादशाही कचहरीके दरवाजेपर आ खड़े हुए; हुकम दिया गया, काजीके पास चले जायें, शर्कके मुवाफिक फैसलह हो जायगा. इन लोगोंने जवाब दिया, कि हम काजीको नहीं जानते, आप फैसलह कर लेंगे. यह बात सुन्ते ही बादशाहको गुस्सह आया, और हुकम दिया, कि जितने सय्यद खास चौकी और अर्दलीमें नौकर हैं, सब मौकूफ किये जायें, और कभी दरबारके आस पास न बैठने पायें; बहुतसोंने बादशाही सर्दारोंकी सिफारिशसे कुसूर मुआफ कराये, और जिन्होंने फसाद करना चाहा, वह तोपखानहसे उड़ा दिये गये. इससे मालूम होता है, कि आलमगीरको किसी कौमकी रिआयत न थी. हिजी ता० १ शबवाल [विक्रमी १७५१ ज्येष्ठ शुक्र ३ = ई० १६९४ ता० २७ मई] को शायस्तहखां मर गया, उसके एवज ग्वालियरका फौजदार स्वालिहखां, फिदाईखांका खिताब पाकर आगरेका सूबेदार बनाया गया. हिजी ११०६ ता० २७ सफर [विक्रमी १७५१ कार्तिक कृष्ण १३ = ई० १६९४ ता० १६ अक्टोबर] को बड़े शाहजादह मुअज़मका मन्सब चालीस हजारी जात और चालीस हजार सवार किया गया. इसी दिन महाराणा राजसिंहका छोटा बेटा राजा भीम, जो पांच हजारी मन्सबदार था, बादशाही लश्करमें मरगया. हिजी ११०७ ता० १ मुहर्रम [विक्रमी १७५२ श्रावण शुक्र ३ = ई० १६९५ ता० १३ अगस्त] को रूहुल्लाहखांकी बेटीसे मुहम्मद अजीमके एक बेटा रूहुलकुद्स पैदा हुआ; दूसरा— हि० ता० २२ मुहर्रम [विक्रमी भाद्रपद कृष्ण ८ = ई० ता० २ सेप्टेम्बर] को शाहजादह बेदारबस्त बहादुरके मुस्तारखांकी बेटीके पेटसे एक लड़का पैदा हुआ, जिसका नाम फीरोजबस्त रक्खा गया. इसी सन्में सन्ता मरहटे से सान्हना करनेके लिये कासिमखां, खानहजादखां, सफ़शिकनखां, असालतखां,

मुरादखां वगैरह को भेजा, और कुछ मुकाबला होनेके बाद बादशाही सर्दार शिकस्त खाकर एक गढ़ीमें जा छिपे, गढ़ीकी रसद खत्म होनेपर कासिमखां, तो अफीम न मिलनेसे मर गया, बाकियोंने बीस लाख रुपया और कुल माल अस्बाब देकर छुटकारा पाया. फिर बिसवापटनसे हिम्मतखाने सन्ताको आदबाया, लेकिन वह भी मारा गया, और उसका माल अस्बाब मरहटोंके कब्जेमें आया.

हिज्री ११०९ ता० १९ जमादियुल अक्वल [विक्रमी १७५४ पौष कृष्ण ५ = ई० १६९७ ता० ३ डिसेम्बर] को खानेजहां बहादुर मर गया. हिज्री जमादियुल आखर [विक्रमी माघ = ई० १६९८ जैनुअरी] में रामराजाका किला 'जंजी' जो कर्नाटक देशमें बड़ा मजबूत और मशहूर था, बादशाही फौजने फूट कर लिया; रामराजा और सन्ता भाग गये, उनकी चार औरतें, तीन लड़के, दो लड़कियां और कई रिश्तेदार कैद किये गये. इसी सन्के हि० ता० २७ शवाल [विक्रमी १७५५ प्रथम ज्येष्ठ कृष्ण १३ = ई० १६९८ ता० ९ मई] को अमीरखां काबुलका सूबेदार दुन्यासे उठ गया, और उसके एवज बड़ा शाहजादह "शाह आलम" काबुलकी सूबेदारीपर भेजा गया. इसी सन्की हि० ता० २० जिल्काद [विक्रमी द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण ६ = ई० ता० १ जून] को दुर्गदास राठौड़ मुहम्मद अकबरके बेटे बलन्दअस्तर और एक बेटेको, जो अकबरकी बगावतके वक्तसे राठौड़ोंके पास थे, और जिन्हें उन्होंने बड़ी इज्जतसे पाला था, अपने कुसूरकी मुआफ़ीका ज़रीआ समझकर साथ ले आया; गुजरातके सूबेदार शजाअतखांकी सिफारिशसे बादशाही दरबारमें हाजिर हुआ. हाजिरीके वक्त हाथ बंधे हुए थे, हुकमके मुवाफ़िक खोल दिये गये, उसे तीन हज़ारी जात और ढाई हज़ार सवारका मन्सब बरखा गया; और बलन्दअस्तरको खिल्अत और सर्पेच वगैरह इनायत हुआ.

हिज्री १११० ता० १८ जमादियुल आखर [विक्रमी १७५५ पौष कृष्ण ४ = ई० १६९८ ता० २२ डिसेम्बर] को शाहजादह कामबरखाका दिली खैरखाह नौकर, स्वाजह याकूत जो हमेशह नेक नसीहत दिया करता था, उसके एक दिन शाहजादहके बदमआश नौकरोंमेंसे किसीने एक तीर मारा, याकूतने हुज़ूरमें फ़र्याद की; बादशाहके हुकमसे शाहजादहके पांच मोतबर आदमी कैद किये गये; उनमें से शाहजादहका धायभाई गुस्ताखीसे पेश आया, शाहजादहको हुकम पहुंचा, कि धायभाईको लश्करसे निकाल दे, शाहजादहने मन्जूर नहीं किया, और धायभाईकी व अपनी कमर एक दोपट्टेसे बांध ली, जब ज़बर्दस्ती छुड़ाने लगे, तो हमीदुद्दीनखांके हाथमें शाहजादहने एक कटार मारा, लेकिन कटार छीन लिया गया.

आखिरकार धायभाई कोतवालके पास कैद किया गया, और शाहजादहको भी खैमहमें नजर बन्द रक्खा; मन्सब, अस्बाब, कारखानह जप्त हुआ. इन्हीं दिनोंमें सन्ता मरहटा भी मारा गया. हिज्जी १११० ता० २९ जिल्हिज [विक्रमी १७५६ आषाढ कृष्ण ११ = ई० १६९९ ता० २८ जून] को शाहजादह मुहम्मद कामबस्त्रा बीस हज़ारी मन्सबपर बहाल किया गया. उदयपुरसे महाराणा अमरसिंहके वकील एक हाथी, दो घोड़े, नौ तलवार, नौ चमड़ेके पाजामे (१) लेकर बादशाहके दरबारमें पहुंचे, और सारा सामान नज़ किया.

हिज्जी ११११ ता० २२ मुहर्रम [विक्रमी श्रावण कृष्ण ८ = ई० ता० २० जुलाई] को महाराणा राजसिंहके छोटे बेटे इन्द्रसिंह और बहादुरसिंह बादशाहके पास गये, पहिलेको दो हज़ारी जात, हज़ार सवार, दूसरेको हज़ारी जात, पांच सौ सवारका मन्सब बस्त्रा गया. इन्हीं दिनोंमें बीकानेरका राजा स्वरूपसिंह अनोपसिंहोत बादशाही हुकमके मुवाफ़िक़ रामराजाके उन बाल बच्चोंको बादशाही लश्करमें ले आया, जो जुल्फ़िक़ारखांकी गिरिफ्तारीमें थे. इसके बाद मरहटोंका क़िला 'बसन्तगढ़' बादशाही फ़ौजके कब्ज़ेमें हिज्जी ता० १२ जमादियुल आख़र [विक्रमी मार्गशीर्ष शुक्ल १३ = ई० ता० ६ डिसेम्बर] को आया. और हिज्जी ता० आख़िर जमादियुल आख़र [विक्रमी पौष शुक्ल २ = ई० ता० २५ डिसेम्बर] को शाहजादह मुहम्मद अक्बरके दो नौकर कंधारसे अर्जी लेकर आये, बादशाह आलमगीरने इन्नाम इक्राम समेत लिख भेजा, कि तुम्हारे हिन्दुस्तानमें आजाने बाद कुसूरोंकी मुआफ़ीका हुकम होसक्ता है. इस वक्त बादशाह आलमगीरको मरहटोंने दिक्क कर रक्खा था, फ़ार्सी तवारीखोंमें बादशाही फ़ौजकी ख़राबी व तकलीफ़ोंका हाल नहीं लिखा और कहीं लिखा भी है, तो बहुत थोड़ा, इस वास्ते हम एक अस्ल कागज़की नक़ल लिखते हैं, जो महाराणा अमरसिंहके वकीलोंने हिज्जी ११११ ता० ८ रजब [विक्रमी पौष शुक्ल १० = ई० १७०० ता० २ जैनुअरी] को बादशाही लश्कर मेंसे भेजा था.

(१) इस किस्मके पाजामे उसी ज़मानेके उदयपुरके तोशहख़ानहमें मौजूद हैं, जिनका ऊपर की तरफ़का घेरा इतना बड़ा है, कि पहिनेके बाद अच्छे जामेका नीचला हिस्सा उसमें समा-
जाय.

श्रीरामोजपति.

स्वस्तिश्री मन्मही मंडल मंडलीक अनीक पूजित चरण कमल अमल जशवितान विराजमान दिक् चक्र बक्र शत्रु श्रेणी सरलकर प्रतापवर श्री ७ जी सलामति.

हुजूर थी पर्वानो अगहन सुदी १० (१) भोमेरो मोकल्यो वाइदे दिन १८ हसबुल हुकमरा जाबरो हस्ते तुकजमल्यो, जाट रामो पोस सुदी ६ रवौ दिन २६ में पहुंच्यो, तस्लीम ३ करे माथे चढ़ावे लियो, हुकम थो, उणीज दिन उमराव सब व भाई बेटा पुरोहित अमात्य समत थी चौकी चलाबारी समत करे ताकीदरा पर्वानो मुहसल सुधा मोकलाणा; सो फौज बेगी चलेगी, अर तीन ही परगणा (२) में थी कान्दार, थानादार हुजूर बुलावे, जागीरदारो (३) अमल करायो, ने बां छुद्रां दरबार चाकरां थी अबिधी कीवी, सो गई करे अजमेर उज्जैनरा सूबेदारां थी सांची सिपारस लिखावारो जतन कियो है. जाब लिख्यो, सो ये जतन राजनीति रीति तो हुजूर ही थी जु होई, राज धर्म, मर्म, इशाहीज चाहिजे राज. अब इहांके समाचार या प्रकार हैं:- तलायांकी (४) चौकी नौसेरीखां साथ आरे करे, दोइ तीन बार गनीमां थी बाथां परे, चोपोबंद छुडावे मुजरे दिखाया, सो नबाबजी तथा और ही सब लोग राजीव्हैने हुजूर हैं सब ब्यौरो लिख्यो, सो कितरांकी तो नकल हुजूर मोकली है. यूं जानी थी, दिन दोइ चारमें काम सिद्ध हो आवै (५) इसामें दैव जोग थी धना जादौ घोड़ी हजार दस थी पोस सुदी ३

(१) [हि० ११११ ता० ९ जमादियुलआखर = ई० १६९९ ता० ३ डिसेम्बर].

(२) पुरमांडल, मांडलगढ़ और बदनौर.

(३) अजमेर इलाके जूनियांके राठौड़ सुजानसिंहके बेटे कृष्णसिंह, कर्णसिंह और जुझारसिंह का पूरा हाल महाराणा अमरसिंहके जिक्रमें लिखा जायगा.

(४) तलायाके मानी रातवाली चोर गारदके हैं।

(५) ऊपर लिखे तीनों पर्वाने जो बादशाहने खालिसेमें कर लिये थे, उनके पीछे मिलनेका उपाय.

गुरे हैं दिन पहर एक चढ़तां आवे बुनगाह (डेरे) घेरी, प्रातही श्रीजीरा सेवकां बुनगाह थी उत्तर दिसा सोलापुररी चौकी तीरे था, सो चोबदार मोकले कहावी, जो गनीमरी फौज उणी आड़ी आवे है, थें उठे ही फौजबंदी करे जतन राखजो, ने मिरजा मुहम्मद बकसी पण म्हारी फौज थी थारा ऊपर सारू असवार २०० थी मोकलां हां; सो इणी आड़ी फौज असवार सैं पांच पांचरी बार ३ तीन आवी, पण श्रीजीरा तेज अदब चूरे न सक्या; जदी यो मुहंडो छोड़े पछि दिसा थी पातसाही नकदी तोबखाने में धस्या, ने तोबखानों बालेने खासरा बजार, करणाटी बजार, रूहलाखां, तर्बियत-खांरो बजार लूटे हवेली उमरावांरी बाले पातसाही कोटने बेगमजीरी मिसल दिसी चाल्या, जैतसिंह कछवाहो, कीरतसिंहजी (१) रो पोतो असवार ५ थी आवे गंज तथा कोटरी बाट आवे आछो लरे मूंडो गनीमारी फेरयो, नबाबजी (२) असवार ५० साठ थी बेगमजीरा दबाव थी निकस्या, दो पहर सुधी घणी खरी बुनगाह लूटे बाले, घणाखरा आछा लोग डावरा डावरी बंद करे तीजे पहर घणा खरा ऊंट घोड़ा, कपड़ो रुपैया ले कोस तीनपर जाय डेरो कियो; दादू मल्हार गनीम उमेदो उमरावहें खबर दीवी, जो सवारां ही दोनू आड़ी थी धसे सराफो कसैं हैं डेरो बजार लूटे, कोट ऊपर चलावणी करां, इसामें जुलफिकार-खां बहादर, दलेलखां, दाऊदखां, रामसिंह हाड़ो, राव दलपत बुंदेलो असवार हजार चार पांच थी कोस बीसरो दोड़्या आवे पहुंच्या; तदी गनीमरी फौज अहटे कोस १० पर जाइ डेरा कीधा. लूट तो लाख पच्चीस तीसरी हुई लोगारी, पर कोट बच्यो, इसी आज पहिली इणीरी पातसाहीमें कदी न हुई, एक तो श्रीजीरा चाकरांरी, एक कछवाहा ठाकुरांरी भलाई बेगमजी आदि मांडे, सगला उमरावां में हुई; ने पातसा हुजूर हैं लिखानी है, पण या बात घणी सबली हुई, सो नजाणजे इणी पर नबाबजी थी कोई दिन उच मनाई व्हेने दर्बारा कामरी कोई दिन बले खेंच व्हे; पण श्रीजीरी आड़ी थी तो भांतिं भांति अब घणी सूध जनानी; पछे इतनी भांति दौड़तां, उपाइ करतां, टको खरचतां ही श्री प्रभूजीरी आज्ञा है, ज्यूं होसी; अर पातसाहजी तो डीलां पधारे सितारोगढ़ घेरयो है, रारि व्हे है, अर रामराजारी फौज तो चारों आड़ी इसी धूम मांडी है, जो लिखतां बणे न है; बुरहाणपुर थी मांडे भागनगर सुधी सुचैन ताई घटी देखिजे प्रणाम काई व्हे जाइगा, दो तीन पहिली मोकल्यो थो, तहांतो काम उसा उसा ही हुआ है; यो पण उसो ही होतो दीसे है,

(१) कीर्तिसिंह आबेरके महाराजा पहिले जयसिंहका छोटा बेटा था.

(२) जुन्दतुल मुल्क नवाब असदखां, वजीर.

पगे लागतां हासघटिया पण अरज हुई है, अर श्री एकलिंगजी उणी राज्यरो सदा सहाइ करै ही है, और नवाबजी दर्बारा कामरी ताकीदरो कागल बक्सी बहरामंदखांजी हैं बले. (फिर) लिखायो है, जणीरी नकल मोकली है, और ब्यौरो होइ है, सो बांसा थी अरज व्हेगो. राज और वकील जगरूप रात दिन सेवा रहे हैं, बाघमल लसकरमें चाकरी करें हैं, यांरी रियायत वास्ते बार बार अरज काई करे, सगला काम सकैकतो बेगा सिद्ध होसी; राज राठौड़ारो ब्योरो लिख्यो, सो नवाबजी थी भली तरह अरज कियो, राजी हुवा है, हजूर हैं भली तरह लिखसी. राज संवत् १७५६ पोस सुदी १० गुरे तीजा पहर सुधी लिखे तयार कियो जी.

यह बुनगाहपर हम्ला इस्लामपुरीमें हुआ होगा, और 'बेगमजी' से मुराद आलमगीरकी बेटी जीनतुन्निसा बेगमसे है. इस सब खटलेको वहां छोड़कर आप बादशाह मुरच वगैरह किलोंको फ़तह करता हुआ, इन दिनोंमें सितारागढ़को घेरे हुए था.

मआसिरे आलमगीरीके पृष्ठ ४०७ में जो हाल लिखा है, उसका तर्जमह नीचे लिखते हैं:—

“हिज्जी ११११ ता० ५ जमादियुल अब्वल [विक्रमी १७५६ कार्तिक शुक्ल ७ = ई० १६९९ ता० ३१ अक्टोबर] को हजरत शाहनशाह इस्लामपुरी मकामपर चार वर्ष ठहरकर आप भी बादशाही फौजोंकी मददके वास्ते, जो हर तरफ़ दुश्मनों को कैद और क़त्ल करनेके लिये भेजी गई थीं, रवानह हुए. हुकम दिया गया, कि मज़बूत क़िलेके गिर्द, जो पत्थर और चूनेसे खास रहनेके वास्ते बनाया गया था, एक दूसरा कच्चा कोट ढाई कोस घेरेका बनाया जावे. यह वर्ष भरका काम पन्द्रह दिनमें पूरा करदिया गया. नवाब जीनतुन्निसा बेगम और दूसरी महलकी खिन्नतगार औरतें व बहुतसा कारखानह वहां रख दिया गया. जुम्दतुलमुल्क मदारुल महाम असदखां मए मुनासिब फौजके वहांकी हिफ़ाज़तके वास्ते मुक़रर किया गया. हजरत यहांसे रवानह होकर बीस रोज़में मुर्तजाबाद उर्फ़ 'मुर्च' दाखिल हुए”. इस मकामपर धन्ना जादोंका जो बड़ा हम्ला हुआ, उसका किसी फ़ार्सी किताबमें जिक्र नहीं है. यह कागज़ लिखनेवाला श्री नाथद्वारा या कांकरौलीका रहनेवाला मालूम होता है, जिसने मेवाड़ी भाषामें अर्जी लिखी है, परन्तु कहीं कहीं अपनी बोली ब्रज भाषा और संस्कृतके शब्द लिखे हैं.

हिज्री ता० २० शम्बान [विक्रमी १७५६ फाल्गुण कृष्ण ६ = ई० १७००
ता० १० फेब्रुअरी] को लाहौरकी सूबेदारी इब्राहीमखांसे उतारकर बड़े शाह-
जादह शाहआलमके नाम कीगई; और कश्मीरका सूबेदार फ़ाज़िलखां शाहजादहका
नायब बनाया गया.

हिज्री ता० २५ रमजान [विक्रमी चैत्र कृष्ण ११ = ई० ता० १६
मार्च] को शम्भाके भाई और शिवाके दूसरे बेटे रामराजाके मरनेकी खबर आई;
यह सुनकर बादशाह खुश हुआ. थोड़े दिनों बाद रामराजाका पांच वर्षका बेटा, जो
राजा बना था, मर गया; और इसीसे मरहटोंकी ताकत कम हुई. हिज्री ता० ११
शव्वाल [विक्रमी १७५७ चैत्र शुक्ल १३ = ई० ता० २ एप्रिल] को
आंबेरके राजा विशनसिंहके इन्तिकाल होनेपर उसके बड़े बेटे विजयसिंहको (१)
जयसिंह नाम देकर बापकी जागीरका मालिक बनाया; और उसके छोटे भाईका नाम
विजयसिंह रखकर पांच सौ जात, दो सौ सवारकी तरक़ीसे डेढ़ हज़ारी जात, हज़ार
सवारका मन्सब दिया. सितारेका क़िला बादशाह आलमगीर घेरे हुए था, चार
महीने अठारह दिनमें हिज्री ता० १४ ज़िल्काद [विक्रमी वैशाख शुक्ल १५
= ई० ता० ४ मई] को फ़तह हुआ; और दूसरे दिन शाहजादह
आज़मशाहने क़िलेके सदाँर सोभानको हाथ गर्दन बांधे बादशाहके साम्हने
हाज़िर किया, उसके कुसूर मुआफ़ होकर पांच हज़ारी जात दो हज़ार सवारका
मन्सब, खिल्अत, कटार, घोड़ा, हाथी, नक़ारा, निशान और बीस हज़ार
रुपया नक़द बरूआ गया. हिज्री १११२ ता० ३ मुहर्रम [विक्रमी आपाढ़
शुक्ल ५ = ई० ता० २२ जून] को परलीगढ़का क़िला फ़तह कर लिया. इस
क़िलेको इब्राहीम आदिलशाहने हिज्री १०३५ [विक्रमी १६८३ = ई० १६२६]
में बनवाया था, जो शिवा घोंसलाके कब्ज़ेमें आगया था. इसके कुछ दिनों पीछे
जुलिफ़कारखां (२) जो धन्ना जादवका पीछा करनेको गया था, दाऊदखां, राव
दलपत बुंदेला और राव रामसिंह हाड़ा समेत बादशाहके पास हाज़िर हुआ.
हिज्री १११२ ता० १० शव्वाल [विक्रमी १७५७ फाल्गुण शुक्ल १२ = ई० १७०१
ता० २२ मार्च] को परनालेके क़िले और पवनगढ़को जा घेरा, बहुत दिनों

(१) यह वही जयसिंह है, जिसने जयपुर बसाया, और सवाई जयसिंहके नामसे मशहूर है.

(२) यह जुलिफ़कारखांधन्ना जादवकेहम्लेकरनेपर (जिसका हाल ऊपर लिखे कागज़से ज़ाहिर होताहै)

इस्लामपुरसे हिज्री ११११ रजब [विक्रमी १७५६ पौष = ई० १७०० जैनुअरी] से पीछे लगा हुआ था.

तक मुहासरा रहनेके बाद हिज्री १११३ [विक्रमी १७५८ = ई० १७०१] में यह दोनों किले बादशाही कब्जेमें आये. इसी तरहपर वरदांगढ़, नांदगीर, मन्दन, चंदन, वगैरह किलोंपर भी बादशाही दस्ल होगया. हिज्री ता० ३ शअबान [विक्रमी पौष शुक्ल ५ = ई० ता० ५ डिसेम्बर] को असदखां वजीर 'अमीरुल-उमरा' का खिताब और चार हजार अशफ़ी पाकर खेलनाके किलेको घेरनेके लिये मुकर्रर हुआ, जिसके साथ आंबेरका राजा जयसिंह कछवाहा, हमीदुद्दीनखां बहादुर, मुनइमखां व इस्लामखां वगैरह किये गये; और बादशाह भी जा पहुंचे. बड़ी कोशिशोंके साथ मुकाबला करनेके बाद हिज्री १११४ ता० २२ मुहर्रम [विक्रमी १७५९ आषाढ कृष्ण ८ = ई० १७०२ ता० १८ जून] को यह किला फ़तह हुआ, और परशुराम मरहटा निकल गया. बादशाहने इस किलेका नाम "सख़रलना" (سخرلنا) (१) रक्खा, शाहजादह बेदारबरतकी कोशिशसे यह किला फ़तह हुआ, इस लिये उसको एक लाख रुपया इन्आम व फ़तुल्लाहखांको बहादुर आलमगीर शाहीका खिताब दिया.

हिज्री ता० २५ जमादियुल आख़र [विक्रमी मार्गशीर्ष कृष्ण ११ = ई० ता० १६ नोवेम्बर] को बहरहमन्दखां मीर बरूशी गुज़र गया, उसकी जगह जुल्फ़िकारखां नुस्रतजंगको मुकर्रर किया. बादशाहकी बड़ी बेटी नव्वाब जेबुन्निसावेगमके मरनेकी ख़बर आई. इसके बाद शाहजादह आजमशाहको, जो अहमदाबादका सूबेदार था, अजमेरकी सूबेदारी दी, और दस हजारकी तरकीसे चालीस हज़ारी जात और सवारका मन्सब दिया. हिज्री ता० १८ शअबान [विक्रमी माघ कृष्ण ४ = ई० १७०३ ता० ७ जैनुअरी] को किला कंदाना जा घेरा, और हिज्री ता० २ जिल्हिज [विक्रमी १७६० वैशाख शुक्ल ४ = ई० ता० २० एप्रिल] को फ़तह कर लिया. बादशाह वहांसे पूना पहुंचकर साढ़े छः महीनेके करीब ठहरे.

हिज्री १११५ शअबान [विक्रमी मार्गशीर्ष शुक्ल = ई० डिसेम्बर] में शाहजादह मुहम्मद अकबर, जिसका हाल ऊपर लिख आयेहैं, ईरानकी सहरदमें मर गया. हिज्री ता० २१ शव्वाल [विक्रमी फाल्गुण कृष्ण ७ = ई० १७०४ ता० २७

(१) यह शब्द अरबी भाषाका है, इस किलेके फ़तहकी ख़बर आनेके वक्त बादशाह कुर्आन का यही लफ़ज़ पढ़ रहे थे, जिसका मत्लब यह है, "हमारे कब्जेमें आया" इससे किलेका भी यही नाम रक्खा.

फेब्रुअरी] को मरहटोंका किला राजगढ़, जो राजधानी और मजबूत था, फूट हुआ; इसके बाद 'तोरना' का किला, जो राजगढ़से चार कोसके फासिलेपर बड़ा मशहूर था, बादशाही कब्जेमें आया. शाहजादह मुहम्मद आजमको अपने पास बादशाहने बुला लिया, अहमदाबादकी सूबेदारी इब्राहीमखांको और अजमेरकी ज़बर्दस्तखांको दी. राठौड़ दुर्गदास जो शाहजादह आजमकी फौजमेंसे भाग गया था, हाज़िर हुआ; उसे तीन हज़ारी ज़ात, दो हज़ार सवारके मन्सबकी बहालीका हुकम हुआ. ग़ज़ियुद्दीन बहादुर फ़ीरोज़जंगको 'सिपहसालारी' का उहदा, सात हज़ारी ज़ात और दस हज़ार सवारका मन्सब दिया गया. शम्भाकी बेटी सिकन्दरशाहके बेटे मुहयुद्दीनको ब्याही गई; राजा साहूका ब्याह बहादुरजी मरहटेकी बेटीसे किया गया.

हिज्री १११७ ता० १४ मुहर्रम [विक्रमी १७६२ वैशाख शुक्ल १५ = ई० १७०५ ता० ८ मई] को बादशाहने बड़ी लड़ाईके बाद किला 'वाकनखेड़ा' पेदिया नायकसे ज़ब्त किया. हिज्री ता० १६ शव्वाल [विक्रमी फाल्गुण कृष्ण २ = ई० १७०६ ता० ३० जैनुअरी] को बादशाह अहमदनगर पहुंचे; इसके बाद शाहजहांकी बेटी 'गौहरआरा' के मरनेकी खबर दिल्लीसे हिज्री जिल्हज [विक्रमी १७६३ चैत्र शुक्ल = ई० १७०६ मार्च] में बादशाहको मिली. जुल्फिकारखां नुस्रतजंगकी अर्जसे मउमेदानाका पर्गनह बूंदीके राव बुद्धसिंहसे छीनकर कोटाके राव रामसिंहको दिया गया. हिज्री १११८ ता० २८ जिल्काद जुमेकी सुबह [विक्रमी फाल्गुण कृष्ण १४ = ई० १७०७ ता० ३ मार्च] को अहमदनगरमें बादशाह आलमगीरने इस दुन्यासे कूच किया, उसकी उम्र चांदके हिसाबसे ९१ वर्ष, तेरह दिनकी, और सूर्यके हिसाबसे ८८ वर्ष, ३ महीने, १४ दिनकी थी. ५० वर्ष, दो महीने, २७ दिन और सूर्यके हिसाबसे ४८ वर्ष ८ महीने २९ दिन बादशाहत की. औरंगाबादसे आठ कोस और दौलताबादसे तीन कोसपर दफन हुआ, जिसका नाम 'खुल्दाबाद' रक्खा गया.

इस बादशाहकी आदतमें दगा और खुद मल्लबी ज़ियादह थी, जैसा कि बरनियर लिखता है, कि शाहजादह मुरादको धोका देकर बादशाह बनानेका लालच दिया, और उसीको कैद करके मरवाया; बापको कैद किया, दाराशिकोहको मारा, शिवा घोंसलाको पहिले वचन देकर बुलाया, और कैद किया; अपने बड़े बेटे मुहम्मद सुल्तानको, जिसकी बहादुरीके सबब बादशाहत मिली, कैद किया; गैर मज्हबी लोगोंपर जिज़्यह (लागत-कर) जारी किया. हिन्दुओंके मन्दिरोंको

तुड़वाकर उसी मुसालहसे मस्जिदें बनवाई; और मुसलमानोंपर भी जकात (लागत) ढाई रुपया सैकड़ा लगाई. अक्बर बादशाहने फौजके तीन हिस्से बनाये थे—सुन्नी, शीआ और राजपूत; इसने शीआ और राजपूतोंको कमजोर किया, लेकिन सुन्नी भी दिलसे खुश न थे. तरुत नशीनीके दस वर्ष बाद अपनी तवारीख लिखनेकी मनाई की, इस लिये कि कोई उसके ऐबोंको किताबोंमें न लिख देवे. गोलकुंडेकी बादशाहत लेनेके लिये हर तरहके बहाने ढूढ़ता था, जैसा कि खफीखां जाफरखां एलचीके भेजनेकी बाबत लिखता है, और जिसका बयान हम ऊपर कर आये हैं. यह सब बातें खफीखांने उसी मिर्जासे सुनकर लिखी हैं. इस बादशाहने हिज्री १०६९ ता० १५ जमादियुस्सानी [विक्रमी १७१५ चैत्र कृष्ण १ = ई० १६५९ ता० ८ मार्च] को अबुलहसन सूबेदार बनारसके नाम शाहजादह मुहम्मद सुल्तानकी मारिफत जो फर्मान लिखा, उस अस्ल फर्मानकी नकल बाबू हरिश्चन्द्रने बादशाहदर्पणके २३ वें पृष्ठमें लिखी है, जिसका आशय यहां लिखा जाता है.

फर्मानका आशय.

फर्मानमें लिखा है, कि पुराने मन्दिरको नहीं गिराना, और नये नहीं बनाने देना. ऐसा सुना गया है, कि बनारसके ब्राह्मणोंको लोग दुःख देते हैं; इस हेतु यह आज्ञा दी जाती है, कि आगेसे कोई हिन्दुओंके स्थानोंको न छेड़े, और ब्राह्मणोंको निर्विघ्न पाट पूजा करने दे, इत्यादि— १५ जमादियुस्सानी हिज्री १०६९.

इसके बाद हिज्री १०७७ [विक्रमी १७२३ = ई० १६६६] को बनारसमें काशी विश्वेश्वरका मन्दिर तोड़कर मस्जिद बनवाई, उसमेंके लेखकी नकल भी बाबू हरिश्चन्द्रने उक्त पुस्तकमें लिखी है, जो कि ऊपरके फर्मानके विरुद्ध है; उसका आशय यह है:—

आशय.

मुसल्मानी धर्मके स्वामी (इत्यादि) औरंगजेब बादशाहकी आज्ञासे देव मन्दिरके देवताओंके सिर तोड़कर यह मस्जिद बनवाई गई, इत्यादि; १०७७ हिज्री.

इस लिखनेसे यह मल्लब है, कि यह बादशाह खुद मल्लबी और बड़ा चालाक था. इन बुराइयोंके सिवाय वह बहुत लिखा पढ़ा, आलिम और होशियार था; चाल चलनमें परहेजगार था. अपने इरादे और एतिकादमें बहुत पक्का था, तआस्सुब रखनेपर भी मजहबी लोगोंको बेफायदह इन्आम और जागीरें नहीं देता था; जाती बहादुरी भी रखता था, मरते दम तक लड़ाइयोंमें मस्रूफ़ रहा. अपनी जातके सिवाय दूसरोंपर उसे कुछ भरोसह न था, ऐसेही शुब्हेके सबब मुहम्मद मुअज़्ज़मको असें तक कैद रक्खा. रअय्यतके इन्साफ़में किसी कौम और अपसरकी रिआयत नहीं करता था; खफीखां वगैरहने लिखा है, कि " एक दक्षिणी बुढियाने बादशाहसे फ़र्याद की, कि आपका फ़ौजदार, जो टैक्स मांगता है, मुभको उसके देनेकी ताक़त नहीं है; इसपर बादशाहने फ़ौजदारकी बदली करदी, बुढियाने दोवारह आकर शिकायत की, कि नया फ़ौजदार पहिलेसे भी ज़ियादह महसूल मांगता है; बादशाहने इस दफ़ा सूबेदार तकको मौकूफ़ कर दिया; लेकिन बुढियाने फिर तीसरी बार भी ज़ियादती महसूलकी शिकायत की; तब बादशाहने तंग होकर फ़र्माया, कि मेरे पास जो आदमी थे, उनको बदल दिया, नये आदमी कहाँसे लाऊं? अब तू खुदासे दुआ कर, कि वह कोई नया बादशाह बदल दे, जिससे रअय्यतको आराम मिले "

आलमगीर बादशाहकी औलाद.

१- बादशाह जादह मुहम्मद सुल्तान हिज्वी १०४९ ता० ४ रमज़ान [विक्रमी १६९६ पौष शुक्र ६ = ई० १६३९ ता० ३१ डिसेम्बर] को पैदा हुआ. यह कुआनिका हाफ़िज़ और अरबी, फ़ार्सी, तुर्की, किताबोंके लिखने पढ़नेमें होशियार था; अपने बापके हवाह रहकर अक्सर लड़ाइयोंमें बहादुरीके साथ लड़ा था. बादशाहके सन् २१ जुलूस = हि० १०८८ शव्वाल [वि० १७३४ मार्गशीर्ष शुक्र = ई० १६७७ डिसेम्बर] में गुज़र गया.

२- बादशाह जादह मुहम्मद मुअज़्ज़म 'शाहआलम बहादुर शाह' हिज्वी १०५३ आख़िर रजब [विक्रमी १७०० आश्विन शुक्र २ = ई० १६४३ ता० १५ अक्टोबर] को पैदा हुआ. इसने छोटी उम्रमें कुआन हिफ़्ज़ किया, और कई तरहसे उसको पढ़ना सीखा. अक्सर जवानीके दिनोंमें इल्मी किताबें पढ़ीं- अरबी, फ़ार्सी,

तुर्की अच्छी तरह जानता था; कई तरहका खत जल्दी और उम्दा लिख सकता था, नमाज़, रोज़ेका पाबन्द था, फ़र्यादियोंके फ़ैसले बड़ी नमीके साथ सुनता था.

३- बादशाह जादह मुहम्मद आजमशाह, शाहनवाज़खां सफ़वीकी बेटीसे हिज्री १०६३ ता० १२ शअबान [विक्रमी १७१० आषाढ़ शुक्र १३ = ई० १६५३ ता० ८ जुलाई] को पैदा हुआ. निहायत तेज़ तबीअत और नेक आदत था, बादशाह इससे बड़े खुश थे. हिज्री १११९ ता० १८ रबीउल अव्वल [विक्रमी १७६४ आषाढ़ कृष्ण ४ = ई० १७०७ ता० १९ जून] को आलमगीर बादशाहके तीन महीने, बीस दिन बाद बहादुरशाहकी लड़ाईमें बहादुरीके साथ मारा गया.

४- बादशाह जादह मुहम्मद अकबर हिज्री १०६७ ता० १२ जिल्हज [विक्रमी १७१४ भाद्रपद शुक्र १३ = ई० १६५७ ता० २१ सेप्टेम्बर] को पैदा हुआ. यह बादशाहतका उम्मेदवार ईरानके मुल्कमें सन् ४८ जुलूस = हिज्री १११५ [वि० १७६० = ई० १७०३] में गुजर गया.

५- बादशाह जादह मुहम्मद कामबख़्श हिज्री १०७७ ता० १० रमज़ान [विक्रमी १७२३ फाल्गुण शुक्र १२ = ई० १६६७ ता० ६ मार्च] को पैदा हुआ. यह भी कुआनका हाफ़िज़ था, और दूसरे भाइयोंकी निस्बत इल्मी किताबें ज़ियादह पढ़ा हुआ था; तुर्की ज़बान बहुत अच्छी जानता था. हिज्री १११९ ता० ३ जिल्काद [विक्रमी १७६४ माघ शुक्र ५ = ई० १७०८ ता० २७ जैनुअरी] को बहादुरशाहसे लड़कर बड़ी बहादुरीके साथ मारा गया.

लड़कियें.

६- नव्वाब ज़ेबुन्निसाबेगम हिज्री १०४८ ता० १० शव्वाल [विक्रमी १६९५ माघ शुक्र १२ = ई० १६३९ ता० १६ फ़ेब्रुअरी] को पैदा हुई, इसने कुआन हिफ़ज़ करनेके एवज़में अपने बापसे तीस हजार अशफ़ी इन्आम पाई थी. यह अरबी, फ़ार्सी खूब जानती थी; हर तरहका खत लिख सकती थी, इसने बड़ा कुतुबख़ानह जमा किया था; बहुतसे आलिम, फ़ाज़िल इसके यहां नौकर थे. कई किताबें इसके नामपर बनाई गई हैं; यह बापके जीते जी हिज्री १११३ [विक्रमी १७५८ = ई० १७०१] में मर गई.

७- नव्वाब ज़ीनतुन्निसाबेगम हिज्री १०५३ ता० १ शअबान [विक्रमी १७००


आश्विन शुक्ल ३ = ई० १६४३ ता० १६ अक्टोबर] को पैदा हुई; यह मज्हबी किताबें पढ़ी हुई थी, और बहुतोंको इससे फायदह पहुंचता था.

८— नव्वाब बद्रुन्निसाबेगम हि० १०५७ ता० २९ शव्वाल [विक्रमी १७०४ मार्गशीर्ष कृष्ण ३० = ई० १६४७ ता० २८ नोवेंबर] को पैदा हुई; यह भी कुर्आनकी हाफिज़ और मज्हबी किताबें पढ़ी हुई थी; हि० १०८१ ता० २८ जिल्काद [विक्रमी १७२८ प्रथम वैशाख कृष्ण १४ = ई० १६७१ ता० ८ एप्रिल] को मर गई.

९— नव्वाब जुब्दतुन्निसाबेगम हि० १०६१ ता० २६ रमज़ान [विक्रमी १७०८ आश्विन कृष्ण १२ = ई० १६५१ ता० १२ सेप्टेम्बर] को पैदा हुई थी; यह भी नेक आदत, सुल्तान सिपिहरशिकोहकी बीबी थी; बापके मरनेके करीब ही मर गई, और इसके मरनेकी खबर बापको नहीं मिली.

१०— नव्वाब मिह्रुन्निसाबेगम हिजी १०७२ ता० ३ सफ़र [विक्रमी १७१८ आश्विन शुक्ल ५ = ई० १६६१ ता० २९ सेप्टेम्बर] को पैदा हुई; मुरादबस्त्राके बेटे एज़द बस्त्राकी बीबी थी, जो हिजी १११६ [विक्रमी १७६१ = ई० १७०४] में इस दुन्यासे उठ गई.

बादशाह आलमगीरके वक्तमें मुल्की मालगुजारीकी सालानह आमदनी २४०५६११४० से लेकर ३५६४१४३१० रु० तक थी (एडवर्ड टॉमसकी किताबके पृष्ठ ५४).



छन्द गीतिका.

दिल्लीश लै दल ईश कोप समान तोपन जालिका ॥
 मेवार देश उजारकै बहुवार धप्पिय कालिका ॥
 वह मेछ जुद्ध विरुद्धमें नृप-राजसिंह प्रपात भौ ॥
 उदया द्विपैं जयसिंह रान विकाश कारक आत भौ ॥ १ ॥
 भट रानके मिल भेद भाव प्रकाश शाह कुमारतें ॥
 अरु ताहि दिखिय ईशकैन मिलाय सेन शुमारतें ॥
 औरंग मस्तरु अस्त अक्बर दिग्घ दुज्जन रानव्है ॥
 करयुद्ध दिखिय ईशतें फिर संधि नीति समानव्है ॥ २ ॥
 सुल्तान आजम रानकी भइ भेट खुरम रीति पै ॥
 दल गुप्त लेखनतें लग्यो सुल्तान दाग प्रतीतपैं ॥
 नृपबंधु भीम असीम बिक्रम शाह सेवक होनकों ॥
 अजमेधपत्तन गो तबैं दिल्लीश दक्खिन गोन कों ॥ ३ ॥
 जयसिंह ताल विशाल को सबहाल विस्तरतें कह्यो ॥
 जुवराज रान विरुद्ध कै नुकसान गेहन में लह्यो ॥
 चहुवान केहर चुंड कांधल शूर युग्म कटारतें ॥
 लर प्राण त्यागिय बैर भागिय कित्ति जागिय सारतें ॥ ४ ॥
 जयसिंहको तन त्यागहोन बयान आलमगीर को ॥
 इतिहास वीरविनोद खंड अखंड वीरन नीरको ॥
 कविराज आशय रानसज्जन जान पूरण कैन को ॥
 फतमाल शाशन को प्रकाशन हर्ष दासन कैन को ॥ ५ ॥

महाराणा जयसिंह- नवां

प्रकरण समाप्त.



